

**DUPLICATE SLIP**

# **GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

**KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

<b>BORROWER'S No.</b>	<b>DUE DATE</b>	<b>SIGNATURE</b>

# बृहत् पारिभाषिक शब्द संग्रह

विज्ञान : खण्ड II

Comprehensive Glossary of Technical Terms

SCIENCE : VOL. II

L—Z



सत्यमेव जयते

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

COMMISSION FOR SCIENTIFIC & TECHNICAL TERMINOLOGY

CENTRAL HINDI DIRECTORATE

Ministry of Education and Social Welfare, Government of India.

© भारत सरकार, 1973

© Govt. of India, 1973

मूल्य : रु.

Price : Rs. 17

PRINTED IN INDIA

TOGETHER AT THE PRABHAT PRESS, MEERUT AND PUBLISHED BY THE CHAIRMAN,  
COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY, MINISTRY OF EDUCATION  
AND SOCIAL WELFARE, WEST BLOCK VII, R. K. PURAM, NEW DELHI.

## अनुक्रमणिका

1. संकेताक्षर सूची
2. शब्दावली
3. परिशिष्ट

## CONTENTS

1. List of Abbreviations
2. Glossary
3. Appendix

## संकेताक्षर सूची

### LIST OF ABBREVIATIONS

Acous.	Acoustics	Ink	Inks and Printing
adj.	adjective	Leath.	Leather Technology
adv.	adverb	Math.	Mathematics
Algol.	Algology	Met.	Metallurgy
Anat.	Anatomy	Mineral.	Mineralogy
Astron.	Astronomy	n.	noun
Biol.	Biology	Nemat.	Nematology
Bot.	Botany	Nucl.	Nuclear Science
Cer.	Ceramics	Opt.	Optics
Chem.	Chemistry	Paints	Chemistry of Paints
Colloid.	Colloid Chemistry	Paper	Paper Technology
Comp.	Computer Science	Pet.	Petrochemistry
Cryst.	Crystallography	Pharm.	Pharmaceutical Chemistry
Ecol.	Ecology	Photo.	Photo Chemistry
Expl.	Explosives	Phy.	Physics
Fat.	Fats and Oils	pl.	plural
Food	Food Technology	Plastics	Plastics Technology
Geog.	Geography	Rub.	Rubber Technology
Geol.	Geology	Sugar	Sugar Technology
Gl.	Glass Technology	Text.	Textile Chemistry
H.Sc.	Home Science	v.	verb
		Zool.	Zoology

L (=Linnaeus)	<i>Bot.</i>	लि०	<i>labialisation</i>	<i>Geog</i>	ओष्ठोपकरण
la	<i>H Sc.</i>	ला	<i>labial kidney</i>		लेबियमी वृक्क
laagte, (=laegte)	<i>Geog</i>	लागटे (लघु घाटी)	<i>labial lobe</i>		लेबियल पिङ
laanilite	<i>Geol</i>	लानीलाइट	<i>labial muscle</i>		ओष्ठीय पेशी
La'a net	<i>Geog</i>	लाभा जाल	<i>labial palp (palpus)</i>		लेबियल स्पर्शक अघरोष्ठ स्पर्शक
labacoria	<i>Zool</i>	अघरोष्ठकला	<i>labial papilla</i>		ओष्ठीय पेषिना
labdanum oil	<i>Chem.</i>	लैड्डानम तेल	<i>labial plexus</i>		अघरोष्ठ आलक
Labechia	<i>Geol</i>	लैबेचिया	<i>labial pulp cavity</i>		ओष्ठीय मज्जा गुहा
Labeled butadiene synthesis	<i>Chem.</i>	लेबेदेफ ब्यूटाडाइन मश्लेषण	<i>labial salivary muscle</i>		लेबियमी लार पेशी, अघरोष्ठ लार पेशी
label	<i>Phy.</i>	लेबल	<i>labial segment</i>		अघरोष्ठ खंड
label cloth	<i>H Sc</i>	लेबल वस्त्र	<i>labial setae</i>		ओष्ठीय शूक
labelled	<i>Phy</i>	चिह्नित, अंकित, लेबल लगा हुआ	<i>labial suture</i>		लेबियल संधिरेखा, अघरोष्ठ संधिरेखा
labelled atom (=tagged atom)		चिह्नित परमाणु	<i>labia majora</i>	<i>Zool</i>	बृहद्भ्रमणोष्ठ
labelled compound		चिह्नित यौगिक	<i>labia minora</i>		लघुभ्रमणोष्ठ
labelled molecule		चिह्नित अणु	<i>Labiatae</i>	<i>Bot</i>	लेबिएटी
labelling		लेबल लगाना	<i>labiate</i>	<i>H Sc</i>	ओष्ठी, होठदार
labelling slide	<i>Geog</i>	लेबलन-स्लाइड	<i>labiatiflorous</i>	<i>Bot.</i>	ओष्ठपुष्पी
labelling technique		लेबल-प्रविधि	<i>labid</i>	<i>Geol</i>	लैबिड
labellum	<i>Zool</i>	ओष्ठक, लेबेलम	<i>labidognathic</i>	<i>Geol</i>	लैबिडोग्नेथिक, जिह्वाहल्की
<i>Labeo calbasu</i>	<i>Zool</i>	लेबिओ कल्बासु (कल्बासु)	<i>Labidosaurus</i>	<i>Zool</i>	लैबिडोसौरम
<i>Labeo rohita</i>		लेबिओ रोहिता (रोहू)	<i>labile</i>	<i>H Sc., Chem</i>	अस्थिर, परिवर्ती
labial	<i>Zool</i>	अघरोष्ठ, ओष्ठीय, लेबियल	<i>labile bond</i>	<i>Chem</i>	चंचल आबंध
labial annule		अघरोष्ठ बलयक	<i>labile gene</i>	<i>H Sc</i>	परिवर्ती जीन
labial appendage		अघरोष्ठ अनुबन्ध, लेबियल अनुबन्ध	<i>labile isomerism</i>	<i>Chem.</i>	परिवर्ती समावयवता
labial cartilage		अघरोष्ठ उपास्थि, लेबियल उपास्थि	<i>labile oscillator</i>	<i>Phy</i>	दूर नियंत्रित दोलित्र
labial crown		ओष्ठीय किरीट, ओष्ठ शिखर	<i>lability</i>	<i>Chem</i>	चंचलता
labial disc		अघरोष्ठ बिम्ब	<i>labilization</i>	<i>Chem</i>	चंचलन
labial gland		अघरोष्ठ ग्रंथि, लेबियल ग्रंथि	<i>labiomaxillary</i>	<i>Zool</i>	अघरोष्ठ-जम्बिक
			<i>labiose</i>	<i>Bot</i>	बृहदोष्ठी
			<i>labium</i>	<i>Zool, H Sc.</i>	अघरोष्ठ, लेबियम
			<i>lablab fiber</i>	<i>H Sc.</i>	लैबलैब रेखा
			<i>labog</i>	<i>H Sc.</i>	लैबॉग

laboratory		प्रयोगशाला	labyrinth		लैबिरिथ, गहन, ध्रमिका
laboratory condition		प्रयोगशाला परिस्थिति	labyrinthic		लैबिरिथी, गहनीय
laboratory ecology		प्रयोगशाला पारिस्थितिकी	labyrinthic chamber		लैबिरिथ कक्ष
laboratory kitchen		रसोई प्रयोगशाला	labyrinthic wall		लैबिरिथ भित्ति
laboratory method		प्रयोगशाला विधि	labyrinthiform		लैबिरिथरूपी, गहनरूपी
laboratory scattering angle		प्रयोगिक प्रकीर्णन कोण	labyrinthine		लैबिरिथी, गहन
laboratory ware		प्रयोगशाला पात्र	labyrinthodont	<i>Geog., Zool.</i>	लैबिरिथोडॉन्ट, गहनदन्ती
Laboulbeniales	<i>Bot.</i>	लेबोल्बीनिप्लोज	Labyrinthodontia	<i>Zool.</i>	लैबिरिथोडॉन्शिया
labour	<i>H.Sc.</i>	1. ध्रम 2. प्रसव	Labyrinthulales	<i>Bot.</i>	लैवाएरेन्थुलेलीज
laboured breathing (dyspnoea)		कष्ट श्वास, कृच्छ्रश्वासन	<i>Labyrinthula macrocystis</i>	<i>Bot.</i>	लेवाइरेन्थुला मैक्रोसिस्टिस
labour exponent	<i>Math.</i>	ध्रम घातांक	lac	<i>Chem., H.Sc.</i>	लाख, लाक्षा
labour force equation		ध्रमशक्ति समीकरण	Lacazella	<i>Geol.</i>	लैकेजेल्ला
La Bourgade	<i>Geog.</i>	ला बूर्गाद	laccase		लैकेस
labour market	<i>Geog., Math.</i>	ध्रम बाजार	laccate		चमकीला
labour market area	<i>Math.</i>	ध्रम-बाजार क्षेत्र	Laccifer	<i>Zool.</i>	लैसीफर
labour pain	<i>H.Sc.</i>	बाबी, प्रसव वेदना	<i>Laccifer lacca</i>	<i>Zool.</i>	लैसीफर लैका
labour saving device	<i>H.Sc.</i>	ध्रम बचत साधन, न्यून ध्रम साधन	laccol		लैकोल
labour statistics	<i>Math.</i>	ध्रम आंकड़े	laccolite	<i>Geol., Geog.</i>	लैकोलाइट
labour supply	<i>Geog.</i>	ध्रमपूर्ति	laccolith	<i>Geol., Geog.</i>	लैकोलिय
labradophytic	<i>Geol.</i>	लैब्रेडोफायरी	laccolith dome		लैकोलिय गुंबद
Labrador current	<i>Geog.</i>	लैब्रेडॉर-धारा	lac dye	<i>Chem.</i>	लाख रंजक, लाक्षा रंजक
Labrador feldspar stone	<i>Geol.</i>	लैब्रेडॉर फेल्सपार प्रस्तर	lace	<i>H.Sc.</i>	लेस, बेल
labradorite	<i>Geol.</i>	लैब्रेडोराइट	lacebark	<i>H.Sc.</i>	लेसवार्क
labral compressors	<i>Zool.</i>	ऊर्ध्वोष्ठ संपीडिका	lace bug	<i>Zool.</i>	फीता-मत्कुण
labral muscle		ऊर्ध्वोष्ठ पेशी, लैब्रमी पेशी	lace cloth	<i>H.Sc.</i>	लेस वस्त्र
labrofrontal lobe	<i>Zool.</i>	ऊर्ध्वोष्ठ-ललाट पालि	lacerate		दीर्घ
labrofrontal nerve		ऊर्ध्वोष्ठ-ललाट तंत्रिका	laceration	<i>H.Sc.</i>	चिदार
labrum	<i>Geol., H.Sc., Zool.</i>	ऊर्ध्वोष्ठ, लैब्रम	Lacertilia	<i>Zool.</i>	लैसर्टीलिया (छिपकली- गण)
labrum epipharynx		लैब्रम अधिग्रसनी	*Lacertra	<i>Astron.</i>	लासर्टा
labrus	<i>H.Sc.</i>	लेब्रस	lacewing	<i>Zool.</i>	जालपंख
laburnum	<i>H.Sc.</i>	लैबरनम	lac gland	<i>Zool.</i>	लाख-ग्रंथि, लाक्षा ग्रंथि
			lachrymatory (=lacrimatory)	<i>Chem.</i>	अश्रुकारी
			lachrymiform	<i>Geol.</i>	अश्रुरूप
			lacine meanderplain	<i>Geog.</i>	लैसरूपी विसर्पी मैदान

lacinia	Zool.	लैसोनिया	lactation anoestrus	Zool.	दुग्ध निर्मदचक्र
lacinia coriaria		चमिल लैसोनिया	lacteals	Bot.	लेटेकम वाहिनो
lacinia falcata		दावाकार लैसोनिया	lacteal transfer	Zool	स्तन्य स्रवण
lacinia mobilis		चल लैसोनिया	lacteous		दुग्धित
lacinia obtusa		कुटाग्र लैसोनिया	lactescent	Bot.	लेटेकसोन्पावक
laciniate	Bot	विदोर्ण	lactic acid	Chem	लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड
laciniation		विदोर्ण	lactic acid dehydrogenase		लैक्टिक एसिड डीहाइड्रोजेनेस
laciniiform		विदोर्ण रूप	lacticolor	Bot.	शीरवर्णी
lac insect	Zool	लाख कीट, आशा कीट	lactide	Chem	लैक्टाइड
Lacistemataceae	Bot	लैक्स्टेमेटेसी	lactiferous	Bot	लेटेकमघर
lackmold	Chem.	लैकमॉइड	lactim		लैक्टिम
lack of control	Math.	नियन्त्रणरभाव	lactobacillic acid	Chem	लैक्टोबैसिलिक अम्ल
lacquer	H Sc , Chem ,Phy.	लैकर, प्रलाक्ष	lactobacillus	Bot ,Chem , H Sc	लैक्टोबैसिलस
lacquer base		लैकर आधार, प्रलाक्ष-आधार	Lactobacillus brevis		लैक्टोबैसिलस ब्रेविस
lacquer diluent		लैकर तनुकारी, प्रलाक्ष तनुकारी	Lactobacillus casei		लैक्टोबैसिलस केसिआई
lacquer disc		प्रलाक्ष डिस्क, लेकर डिस्क	lactobiose	Chem	लैक्टोबायोस
lacquering		लेकर लेपन, प्रलाक्ष लेपन	lactobutyrometer	Chem	नवनीतमापी
lacquer master (= lacquer original)	Phy	प्रलाक्ष मूल	lactoflavin	H Sc , Chem.	लैक्टोफ्लैविन
lacquer recording		प्रलाक्ष अभिलेखन	lactogenic	Chem ,Biol.	1 लैक्टोजन 2 दुग्धजनक, दुग्धजन
lacriform	Bot	अश्रुरूप	lactogenic factor	.	दुग्धजन कारक
lacrimal duct	Zool	अश्रु-वाहिनो	lactogenic hormone		दुग्धजनक हार्मोन
lacrimal foramen		अश्रु-रद्द	lactoglobulin	H Sc	लैक्टोग्लोब्यूलिन
lacrimal gland		अश्रु-ग्रन्थि	lactol	Chem.	लैटॉल
lacrimal nerve		अश्रु-तंत्रिका	lactometer	H.Sc	दुग्धमापी
lacrimator		अश्रुकर	lactone	Chem	लैक्टोन
Lacrymaria	Zool	लैक्रिमेरिया	lactonization		लैक्टोनन
lactalbumin	Chem , H Sc	लैक्टैल्ब्यूमिन, दुग्धएल्बुमिन	lacto phosphate	Chem	लैक्टो फासफेट
lactam		लैक्टैम	lactoprene	Chem.	लैक्टोप्रीन
lactamization	Chem	लैक्टैमन	Lactoridaceae	Bot	लैक्टोरिडेसी
lactam-lactum interchange	Chem.	लैक्टैम-लैक्टिम विनिमय	Lactoris fernandeziana		लेक्टोरिस फरनेन्डेजिआना
lactase	H Sc	लैक्टैस	lactosazone	Chem	लैक्टोसेज़ोन
lactate	H Sc	लैक्टेट	lactose	Chem , H.Sc.	दुग्ध शर्करा, लैक्टोस
lactation	Chem , H Sc., Zool	स्तन्यस्रवण, दुग्धस्रवण			



Lactosuria	H.Sc.	लैक्टोसमेह	<i>Laempholoeus minutus</i>	Zool.	लीमोफोलियस माइन्यूटस
<i>Lactuca sativa</i>	Bot.	लैक्टूका सैंटाइवा (सलाद)	laeotropic (sinistral)	Zool.	वामावर्त
lacuna	Zool.	रिक्तिका	<i>Laetheticus oryzae</i>	Zool.	लीथेटिकस ऑरिज़ी
lacunar channel		रिक्तिका प्रणाल	<i>Laetiporus sulphureus</i>	Bot.	लीटिपोरस सल्फुरियस
lacunar system		रिक्तिकातंत्र	laevigate	Bot.	चिक्कण, चिकना
lacunary series	Math.	प्लुति श्रेणी	laevigatus		चिक्कण, चिकना
lacunate		रिक्तिकामय	laevis		चिक्कण, चिकना
lacunose		रिक्तिकामय	laevorotation	Phy.	वामावर्तन
lacunula	Zool.	लघुरिक्तिका	laevorotatory	Phy.	1. वामावर्त 2. वामध्रुवण घूर्णक
lacustrae	Bot.	सरोवरी	laevorotatory stereoisomer		वाम ध्रुवण-घूर्णक द्विविमसमावयवी
lacustrine	Biol., Geol., Geog.	सरोवरी	laevulic acid	Chem.	लेवूलिक अम्ल
lacustrine civilization		सरोवरी सभ्यता	laevulinic acid	Chem.	लेवूलिनिक अम्ल
lacustrine deposit		सरोवरी निक्षेप	laevulose	Chem.	लैवूलोस
lacustrine evaporite deposit		सरोवरी इवैपोराइट निक्षेप	lag (of phase)	Math., Phy., Geog.	पश्च, पश्चता, पश्चगमन
lacustrine fisheries		सरोवरी मात्स्यकी	lag and lead		पश्चता और अग्रता
lacustrine period		सरोवरी काल	<i>Laganum decogonale</i>		लैगेनम डेकोगोनेल
lacustrine plain (=lake plain)		सरोवरी मैदान	<i>Laganum depressum</i>		लैगेनम डिप्रेसम
lacustrine rock		सरोवरी षैल	lag correlation		पश्चता-सहसंबंध
lacustris		सरोवरवासी	lag covariance		पश्चता सहप्रसरण
ladang	Geog.	चरिण्णु कृपि, लडांग	lag deposit		पश्च-निक्षेप
ladar	Phy.	लेडार	lag effect		पश्चता प्रभाव
ladder		निसेनी, सीढ़ी, निःश्रेणी, सोपान	Lagena	Bot.	लेना
ladder attenuator		सोपानी क्षीणकारी	Lagenaria		लेजीनेरिया
ladder lode		सोपानी गिरानिक्षेप, सोपानी लोड	<i>Lagenaria vulgaris</i>		लेजीनेरिया वल्गेरिस (लौकी)
ladder network		सोपानी जाल	<i>Lagena striata</i>		लेगीना स्ट्रिप्टा
ladder point		निःश्रेणी बिन्दु	<i>Lagena sulcata</i>		लेगीना सल्केटा
ladder vein	Geog.	सोपान-गिरा	Lagenidiaceae		लेजीनिडिएसी
laddic	Phy.	बहुसोपान द्वारक, लैडिक	Lagenidiales		लेजीनिडिएसीज
ladle	Chem., H.Sc.	करछुल, लैडल, दर्वा, चमस, चमचा	<i>Lagenidium rabenhorstii</i>		लेजीनिडियम रावेनहार्सटाइ
lady bird	H.Sc.	सोनपंखी, लेडीबर्ड	Lageniform	Biol.	तुंबीरूप
lady's finger	Bot. H.Sc.	भिंडी लेडीफिंगर	"lagenostomialian" seed	Bot.	लेजीनोस्टोमीय बीज

<i>lagenostoma lomaxii</i>		लेजीनोस्टोमा लोमेक्साइ	lagoon phase		लैगून प्रायस्थ्या
lagenostome	Bot	तुवीकोष्ठ	lagoon shoal		लैगून शोल
lager beer	H Sc.	लाजर बियर	lagoon slope		लैगून ढाल
lagergang	Geol.	सस्तरित शिरा, लागेरगॉंग	lagoon vegetation		लैगून वनस्पति
<i>Lagerstroemia hypoleuca</i>	Bot	लेजरस्ट्रोमिआ हाइपोलेयूका	<i>Lagorosiphon roxburghii</i>		लैगोरोसाइफोन राक्सबर्गाइ
<i>Lagerstroemia indica</i>		लेजरस्ट्रोमिआ इन्डिका	lagosin	Chem	लैगोसिन
<i>Lagerstroemia lanceolata</i>		लेजरस्ट्रोमिआ लेन्सीओलेटा	Lagothrix	Zool.	लैगोथ्रिक्स
<i>Lagerstroemia parviflora</i>		लेजरस्ट्रोमिआ पार्वीफ्लोरा	lag phase	Zool	पश्चना प्रायस्थ्या
<i>Lagerstroemia speciosa</i>		लेजरस्ट्रोमिआ स्पीसिओसा	Lagrange dredge	Geol	लग्राज ड्रेज
<i>Lagerstroemia theorelii</i>		लेजरस्ट्रोमिआ थोरेलाई	Lagrange resolvent	Math	लग्राज वियोजित
lag fault	Geol	पश्चना घ्रश, लैग फश	Lagrange's brackets		लग्राज-कोष्ठक
lagg	Geog, Geol, लैग Bot.		Lagrange's expansion		लग्राज प्रसरण
laggard	Bot	मदयक्व	Lagrange's function		लग्राज फन
lagged variable	Math.	पश्चायित चर	Lagrange's multipliers		लग्राज गुणक
lagging (mining)	Geol.	काष्ठ आवरण	Lagrange's parenthesis		लग्राज कोष्ठक
lagging current	Phy	पश्चगामी धारा	Lagrangian automorphism		लग्राजी स्वाकारिता
lagging load		पश्चगामी लोड	Lagrangian coordinates		लग्राजी निर्देशक
lagging of tide	Geog.	ज्वार पश्चना	Lagrangian function		लग्राजी फन
lagging phase shift	Phy.	पश्चवर्ती-ज्वला विस्थापन	Lagrangian interpolation coefficient		लग्राजी अन्वेषण गुणांक
lag gravel	Geol, Geog.	अवशिष्ट बजरी	Lagrangian microscale of turbulence		लग्राज का प्रक्षोभ सूक्ष्म मापकन
lag hysteresis	Math	पश्चना शैथिल्य	Lagrangian reference system		लग्राजी निर्देशन पद्धति
lag in time series	Math	काल-श्रेणी में पश्चना	Lagrangian strain component		लग्राजी विवृति घटक
lag network	Phy	पश्चगामी जाल	lag regression	Math	पश्चना-समाश्रयण
lagomorph	Zool	लेगोमॉर्फ	Laguerre function	Math	लाग्रेर फन
lagomorpha	Zool	लेगोमॉर्फा	Laguerre polynomials		लाग्रेर बहुपद
lagoon	Geol, Geog	लैगून	Laguerre's theorem		लाग्रेर-प्रमेय
lagoon cliff		लैगून भृगु	laguna	Geol	लेगुना
lagoon deposit		लैगून निक्षेप	lagunal deposits		लेगुना निक्षेप
lagoon floor		लैगून-मनई	lahar	Geog, Geol	लाहार
lagooning	Chem	अनूपन, लैगूनन	lahar deposit		परप्रवाह निक्षेप, लाहार निक्षेप

laid line	<i>Chem.</i>	निहित रेखा	lamba	<i>H.Sc.</i>	लैम्बा
Laight	<i>Geog.</i>	लेग	lambdagram	<i>Math.</i>	लैम्बडालेख
laired	<i>Geol.</i>	पंकरुद्ध	lambda hyperon	<i>Phy.</i>	लैम्बडा हाइपेरॉन, λ-हाइपेरॉन
laisot	<i>H.Sc.</i>	लैसॉट	lambda phage	<i>Zool.</i>	लैम्बडाकार विभोजी
laitance	<i>Chem.</i>	लेटेन्स	lambda point	<i>Chem.</i>	लैम्बडा बिंदु (संकुचन)
lake	<i>Geog., Biol., Geol.</i>	झील, सरोवर	lambda shock (= bifurcated shock wave)		लैम्बडा प्रघाती (तरंग), द्विषिख प्रघाती तरंग
	<i>Chem. (Text.)</i>	लाक्षक, लेक	lambda transition	<i>Phy.</i>	लैम्बडा तापांक, लैम्बडा संक्रमण
lake asphalt		झील ऐस्फाल्ट	lambdoidal ridge	<i>Phy., Zool.</i>	लैम्बडॉइडी कटक
lake-basin		झील-द्रोणी, झील बेसिन	lambdoidal suture		लैम्बडॉइडी संधिरेखा
lake bed placers		सरोवर तली प्लेसर	Lambdotherium	<i>Zool.</i>	लैम्बोथोरियम
lake biocies		सरोवर जीवसहवासक	lambent flame		चंचल ज्वाला
lake clay		झील मृत्तिका	lambert (unit)	<i>Phy., H.Sc.</i>	लैम्बर्ट
lake deposit		सरोवरी निक्षेप	Lambert azimuthal equal area projection	<i>Geog.</i>	लैम्बर्ट दिगंशीय समक्षेत्र प्रक्षेप
lake dwelling		झीलावास	Lambert-Beer law	<i>Chem., Phy.</i>	लैम्बर्ट-बीयर नियम
lake floor		झील सतह	Lambert-Charlier cosmology	<i>Math.</i>	लैम्बर्ट चार्लिए-त्रह्यांड- विज्ञान
lake floor plain		झील सतह मैदान	Lambert conformal conic projection	<i>Geog., Phy.</i>	लैम्बर्ट अनुरूपी शांकव प्रक्षेप
lakeland		झील भूमि	Lambert conformal projection	<i>Geog.</i>	लैम्बर्ट अनुकोण प्रक्षेप
lakelet		झीलिका, छोटी झील	Lambert conical orthomorphic projection		लैम्बर्ट शांकव यथाकृतिक प्रक्षेप
lake-level		झील तल	Lambert equal area projection		लैम्बर्ट समक्षेत्र प्रक्षेप
lake-loess		झील लोएस	Lambert equidistant azimuthal projection		लैम्बर्ट समदूरस्थ दिगंशीय प्रक्षेप
lake marl		सरोवर मार्ल	Lambert grid		लैम्बर्ट ग्रिड
lake ore		सरोवर अयस्क	Lambert projection		लैम्बर्ट प्रक्षेप
lake plain		झील मैदान	Lambert quadrilateral		लैम्बर्ट चतुर्भुज
lake rampart		झील प्राकार	Lambert rectangular grid		लैम्बर्ट आयताकार ग्रिड
lake rim		झील रोधनेमि	Lambert's angle		लैम्बर्ट कोण
lake shore		झील तट	Lambert's law		लैम्बर्ट नियम
lake shore dune		झील-तट टिब्बा			
lake silt		झील गाद			
Lalande cell	<i>Chem.</i>	लालांड सेल			
lalang	<i>Bot., Geog.</i>	लैलां (घास)			
lalongate	<i>Bot.</i>	अनुप्रस्थ दीर्घ			
Lam. (=Lamarck)	<i>Bot.</i>	लामा.			
Lama	<i>Geog., H.Sc.</i>	लामा			
Lamarckian theory	<i>Biol.</i>	लामार्कवाद, लामार्क सिद्धांत			
Lamarckism		लामार्कवाद			
Lamasery	<i>Geog.</i>	लामाविहार			

<i>Lambis lambis</i>	Zool.	लेम्बिस लेम्बिस	lametta	H Sc.	लमेटा
lamboidal crest	Zool	लेम्बाय शिखर	Lamiales	Bot.	लैमिएलौड
Lamb shift	Phy.	लैम्ब सृष्टि	lamina	Bot, Math.	स्तरिता, पटल
lambskin	H.Sc.	लैम्बस्किन	laminable	Geol.	पत्रकीय
lamb's wool	H.Sc.	मेमना ऊन	lamina dorsalis	Zool.	पृष्ठीय पटल
Lamb wave	Phy.	लैम्ब तरंग	laminae adanales		अधिशुद्ध पटल
Lame constant	Math.	लाभे गुणांक	lamina externa		बाह्य पटल
Lame family of surfaces	Math.	लाभे का पृष्ठ-परिवार	lamina ganglionaris		गुच्छिकीय पटल
lamella	Geol., Biol.	पटलिका	lamina infra-analis		अवनुद्ध पटल
lamellaire	Geol.	पटलित	lamina interna		आन्तर पटल
lamellar		स्तरित, स्तरमय, पटलित	laminal	Bot	स्तरीय
lamellar compound		स्तरमय यौगिक	lamina perpendi- cularia	Zool.	सब पटल, लैमिना परेन्डिकुलेरिया
lamellar conodont		पटलिन शकुदत	laminar boundary layer	Math.	अप्रक्षुब्ध सीमात् स्तर
lamellar field		अचल क्षेत्र	laminar flow	Chem., Phy.	पटलीय प्रवाह, स्तरीय प्रवाह
lamellar flow		स्तरित प्रवाह		Math	अप्रक्षुब्ध प्रवाह
lamellar mineral		स्तरित खनिज	laminar graphite	Chem.	स्तरीय ग्रेफाइट
lamellar structure		स्तरित संरचना	Laminaria	Geog	लैमिनैरिया
lamellar twinning texture		पटलित यमल गठन	laminarian zone	Zool	लैमिनैरिया क्षेत्र
lamellate		पटलिकीय, पटलिक	Laminaria saccharina	Bot	लैमिनैरिया सैक्केराइना
lamellate anal gill		पटलिकीय गुद् कर्नाम	laminarin	Bot	लैमिनैरिन
lamellate antenna		पटलिकीय शृंगिका	laminarijose	Bot.	लैमिनैरिओस
lamellate appendage		पटलिक उपाग	laminar motion	Math, Phy.	स्तरीय गति, अप्रक्षुब्ध गति
lamellate organ		पटलिकीय अंग	laminar movement	Geol.	स्तरीय गति
lamellate placentation		पटलित बीजाण्डग्यास	laminar sublayer	Math.	अप्रक्षुब्ध उपस्तर
lamellation		पटलिकाभवन, पटलिका- विव्याप्त	lamina subgenitalis	Zool.	अधोवर्तनीय पटल
lamellibranch	Zool	पटलकलीय	laminar symmetry	Math	पटलीय सममिति
Lamellibranchiata		लैमेलीब्रेकिएटा (पटलकलीमी)	lamina supra-analis	Zool.	अधिशुद्ध पटल
lamelliform	Zool.	पटलिकारूप	laminare	Chem, Phy, H Sc	1 पटलन, पटल, स्तर 2. परत बद्ध
lamelloid		पटलिकाभ	laminated	Chem, Geog, Geol	पटलित, स्तरित, स्तरि- कामय, स्तरिकायित
lamellose	Geol	पटलिकापी	laminated aerial (= laminated antenna)		पटलित ऐन्टेना
lamepon	Chem.	लैमिपॉन	laminated cores		स्तरित कोर
Lame's formula	Chem., Math	लाभे सूत्र			
Lame's function		लाभे-फलन			
Lame's relation		लाभे संबंध			

laminated iron		पटलित लोह	lamprey	Zool.	लैम्प्रे
laminated rock		स्तरिक शैल	lamprocystidium	Bot.	लैम्प्रोसिस्टिडियम, प्रखर सिस्टिडियम
laminated structure		स्तरित संरचना	<i>Lamprocystis lanceolatus</i>	Bot.	लैम्प्रोसिस्टिस लेन्सिओलेटए
laminated template card		स्तरित टेम्पलेट कार्ड	<i>Lamprometra palmata</i>	Zool.	लैम्प्रोमेट्रा पामेटा
laminated wood		स्तरिकायित काष्ठ, पटलित काष्ठ, स्तरित काष्ठ	lamprophyre	Geol.	लैम्प्रोफायर
lamine molding	Chem. (Plastics)	स्तरिकायित संचन, स्तर संचन	lamproschist	Geol.	लैम्प्रो शिस्ट
lamina terminalis	Zool.	अंतस्थ स्तरिका	lampshade	H.Sc.	दीपावरण, दीप छद
laminating	Chem.	1. स्तरिकाकार 2. स्तरिकायन	"lamp shell"	Zool.	लैम्पशेल, दीप कवची
lamination	Chem., Geol.	1. पटल, स्तरिका 2. स्तरिकायन, पटलन, स्तरण	lamp working	Chem. (Gl.)	दीप-कर्म
laminiiform	Zool.	पटलरूप	Lampyridae	Zool.	लैम्पाइरिडी
laminiplantar	Zool.	लैमिनिप्लैन्टर	Lampyrus	Zool.	लैम्पाइरिस
<i>Laminum album</i>	Bot.	लैमिनम ऐल्बम	lamut	H.Sc.	लमूट
Lammas Day	Geog.	लैमस दिवस	lanac	Phy.	लैनेक
Lammas land		लैमस प्रदेश	lanac fiber	H.Sc.	लेना रेशा
Lammert's cycle	Zool.	लैमर्ट चक्र	<i>Lanarkia spinosa</i>	Zool.	लेनार्किया स्पिनोसा
<i>Lamna nasus</i>	Zool.	लेम्ना नासस	lanarkite	Chem.	लैनार्काइट
lamp	H.Sc.,Phy.	दीप, लैम्प	lanasterol	Chem.	लेनास्टेरॉल
lampadite	Chem.	लैम्पाडाइट	lanate	Bot.	लोमश, बालदार
lamp and scale arrangement	Phy.	लैम्प म्केल व्यवस्था	lanatoside	Chem.	लेनाटोसाइड
lamp base	H.Sc.	दीपाधार	lanatus	Bot.	ऊर्णी
lamp black	Chem.,Phy.	काजल, दीप कज्जल	Lancashire	H.Sc.	लंकाशायर
lamp-black powder	Geog.	कालिख पाउडर	lance	Chem.	लान्स
lampbrush chromosome	Bot.	लैम्ब्रुश गुणमूत्र	lanceolate	H.Sc., Zool.	भालाकार
lamp burning test	Chem.	दीप ज्वलन निकप	lanceolate cell		भालाकार कोशिका
<i>Lampetra fluviatilis</i>	Zool.	लैम्पेट्रा प्लूविया-टिलिस	lanceolate implement		भालाकार औजार
<i>Lampetra planeri</i>		लैम्पेट्रा प्लेनेरी	lanceolate plate]		भालाकार पट्टिका
lamp holder	Geog.	दीप-धारक, लैम्प होल्डर	lancet	Bot.	तीक्ष्ण दंत
<i>Lampito maurittii</i>	Zool.	लैम्पिटो मौरिटीआई	lancet plate		कुंतक पट्ट, भाला पट्ट
lamp post	Geog.	दीप-स्तंभ	lancet shape	Bot.	भालाकार
			Lanchester damper	Phy.	लैन्केस्टर अवमंदक
			lancifolius	Bot.	कुंतपर्णी
			lancinate	Bot.	भेदित
			land	Geog.	थल, भूमि, स्थल, प्रदेश
			land	Chem. (Plastics)	(=leak) लैंड

land and pad (=terminal area)	<i>Phy.</i>	टर्मिनली क्षेत्र	landing beach	अवनरण-भुस्त्रिन
land and sea breeze		स्थल समुद्र समीर	landing beacon	अवनरण बीकन
land animals		स्थलीय प्राणी, थल प्राणी	landing beam	अवनरण किरण पुञ्ज
Landau damping	<i>Phy.</i>	लैंडाऊ अवमदन	landing chart	अवनरण चार्ट
Landau's theorem		लैंडाऊ प्रमेय	landing distance	अवनरण दूरी
land-based state	<i>Geog</i>	स्थनाधारित राज्य	landing ground	अवनरण स्थल
land born ice		थलज बर्फ	landing light	अवनरण प्रदीप
land breeze		थल समीर	landing pad (spacer)	अन्तरक पीड
land bridge		थल-सेतु	landing place	अवनरण स्थान
land-bridge hypothesis		थल-मेतु परिकल्पना	Landkreis	लैंडक्राइस
land-capability class	<i>Geog</i>	भूमि-क्षमता वर्ग	land line	थल लाइन, भू-साइन
land-capability map		भूमि-क्षमता मानचित्र	land link	स्थल योजक, भू-शृंखला
land crab	<i>Zool</i>	भू-ककट	land loess	भू-लोएस
landdrost	<i>Geog</i>	लैंड्रोस्ट	landmark	भू-चिह्न
landed mold	<i>Chem</i> ( <i>Plastics</i> )	लैंडेड मच	land mass	भू-महत्ति, भू-खण्ड
land-ending glacier	<i>Geol</i>	स्थलानी हिमानी	land migration	स्थल प्रवास
lander	<i>Geog</i>	लाइर, राइय	landolphia	<i>Chem, Bot.</i> लैंडोल्लिफ़ा
landerite	<i>Geol</i>	लैंडेरसाइट	<i>Landolphia rubber</i>	लैंडोल्लिफ़ा रबर
Landes	<i>Geog</i>	लाडीज	Landolt band	<i>Phy</i> लान्डोल्ट बैंड
Lande's interval rule	<i>Phy</i>	लान्डे का अन्तराल नियम	Landolt's reaction	<i>Chem</i> लान्डोल्ट अभिक्रिया
landesite	<i>Geol</i>	लैंडेसाइट	land ownership	भू-स्वामित्व
Lande's permanence rule	<i>Chem</i>	लैंडे स्थायित्व नियम	land pebble	स्थली गुटिका
Lande splitting factor		लैंडे विपाटन गुणक	land pitch	<i>Geol</i> लैंड पिच
Landes region	<i>Geog</i>	लाडीज प्रदेश	land plaster	<i>Geol</i> उर्वरक जिप्सम, लैंड प्लास्टर
landfall	<i>Geog</i>	लैंडफॉल	land record	भूमि-अभिलेख
landform	<i>Geog, Geol</i>	भू-आकृति, स्थल रूप	land renewal	<i>Geog</i> भूमि नवीभवन, मृदा नवीकरण
landform map		भू-आकृति मानचित्र	land rock	लैंड रॉक
land gate	<i>Geog</i>	स्थल द्वार	land rotation	भू-आवर्तन
land hemisphere	<i>Geog</i>	भू-गोलाधं	landscape	<i>Geog, Geol</i> दृश्यभूमि
land holding	<i>Geog</i>	भूमि-धारण, जोत	landscape architecture	दृश्यभूमि निर्माण
land ice	<i>Geog, Geol</i>	स्थल बर्फ, स्थलहिम	landscape gardening	दृश्यभू-वागवानी
landing	<i>Phy</i>	अवनरण	landscape lens	<i>Phy.</i> लैंडस्केप लेन्स, दृश्यचित्र लेन्स
anding aid		अवनरण सहाय	landscape marble	<i>Geol</i> प्रकृतिचित्री मगमरमर
			landscape sensation	<i>Geog</i> दृश्यभूमि-संवेदन
			landscaping	<i>Geog, H Sc</i> भूमिदर्शनीकरण

landschaft	Geog.	लैंडशाफ्ट (दृश्यभूमि)	Langevin-Debye theory of paramagnetism	Chem.	लांजवे-डेबाइ अनुचुंबकत्ववाद
land sculpture	Geog.	भू-तक्षण	Langevin euqation		लांजवें समीकरण
landshard	Geog.	लैंडशर्ड	Langevin function		लांजवें फलन
Landsberger method	Chem.	लैंड्सबर्गर पद्धति	Langevin's formula		लांजवें सूत्र
land slide		भूस्खलन	langite	Geol.	लैंगाइट
landslide lake		भूस्खलन-झील	Langleben's curve	Geol.	लैंगलेबेन वक्र
landslide scar		भूस्खलन चिह्न	langley	Chem.	लैंगले
landslide topography		भूस्खलन स्थलाकृति	Langmuir adsorption isotherm	Chem.	लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी वक्र
landslide track		भूस्खलन पथ	Langmuir blowpipe		लैंगम्यूर ब्लोपाइप, लैंगम्यूर धमज्वालक
land slip		भूसर्पण	Langmuir-Hinshelwood mechanism		लैंगम्यूर हिन्शेलवुड क्रियाविधि
landslip terrace		भूसर्पण वेदिका	Langmuir's three halves power law		लैंगम्यूर त्रिअर्धघाती नियम
landslope		भूढाल	Lang's process	Chem.	लैंग प्रक्रम
landslope analysis		भूढाल विश्लेषण	Lang's vesicle		लैंग वाशय
landslope curve		भूढाल वक्र	language	Geog.	भाषा
land snail		थल घोंघा, थल शंदुक	language group		भाषा-वर्ग
land system		भू-प्रणाली	languet (languette)	Zool.	जिह्विका
land tenure		भू-धारण	languid	Phy.	जिह्विका
land transport		स्थल परिवहन, स्थल यातायात	Lanier effect	Phy.	लेनियर प्रभाव
land type map		भूदृश्य मानचित्र	Laniidae	Zool.	लैनिआइडी
land use capability		भूमि उपयोग क्षमता	lanolin	H.Sc.	लैनोलिन
land use map		भूमि उपयोग मानचित्र	lanoline	Chem.	लैनोलिन
land use pattern		भूमि उपयोग प्रतिरूप	Lanopila bicolor	Bot.	लेनोपिला बाइकलर
land use planning		भूमि उपयोग आयोजना	lanose	Bot.	उणिल
land use potential		भूमि उपयोग विभव	lanosterol	Chem.	लैनोस्टेराल
land use survey		भूमि उपयोग सर्वेक्षण	Lansium domesticum	Bot.	लेन्सीयम डोमैस्टीकम
land utilization		भूमि उपयोग	Lantana	Bot.	लैन्टाना
landward		अभिस्थल, स्थलोन्मुख	Lantana camera		लेन्टाना कैमरा
landward flank		स्थलोन्मुख पार्श्व	Lantana indica		लेन्टाना इन्डिका
landward population		स्थलोन्मुख जनसंख्या	Lantana trifolia		लेन्टाना ट्राइफोलिया
lane	Geog.	वीथिका, गली	lantern	H.Sc.	लैन्टर्न, लालटेन
lanella	H.Sc.	लैनेला	lantern coelom	Zool.	लालटेन प्रगुहा
Lane process	Chem.	लेन प्रक्रम	lantern fly	Zool.	दीप मक्ती
langbanite	Geol.	लैंगबेनाइट	lantern of Aristotle	Zool.	अरस्तू की लालटेन
langbeinite	Chem., Geol.	लान्गबेनाइनाइट			
Lange's nerve	Zool.	लैंगे तंत्रिका			
langet	H.Sc.	लैणेट			

lantern slide	<i>Phy</i>	चित्रदर्शी स्लाइड	lapillo	<i>Geog.</i>	लैपिलो, ज्वालामुखी असमक
lanthanide	<i>Chem</i>	लैन्थेनाइड	lapillus	<i>Geol.</i>	ज्वालामुखी असमक, लैपिली
lanthanide contraction		लैन्थेनाइड सकुचन, लैन्थे- नाइड सकोच	lapinized	<i>Zool.</i>	शशकीकृत
lanthanite	<i>Chem.</i>	लैन्थनाइट	lapis lazuli	<i>Geog ,Geol</i>	लाजवर्द
lanthanon	<i>Chem.</i>	लैन्थनॉन	lapis manganensis	<i>Chem.</i>	लेपिस मैंगेनेन्सिस
lanthanum	<i>Chem</i>	लैन्थेनम	Laplace inertia	<i>Math.</i>	लाप्लास जड़त्व
lanthanum nitrate		लैन्थेनम नाइट्रेट	Laplace operator		लाप्लास सकारक
lanthionine	<i>Chem.</i>	लेन्थायनीन	Laplace's coefficient		लाप्लास गुणांक
lanuginose	<i>Bot</i>	रोमश	Laplace's difference equation		लाप्लास का अंतर-समी- करण
lanugo	<i>Zool</i>	गर्भरोम, मुदुलोम	Laplace station		लाप्लास-चादा
lanusa	<i>H Sc.</i>	लैन्यूसा	Laplace's summation formula		लाप्लास वृत्तसकलन-सूत्र
Lanz perlite process	<i>Chem.</i>	लैज़ पर्लाइट प्रक्रम	Laplace's theory		लाप्लासवाद
Laomedea	<i>Zool</i>	लाओमीडिया	Laplace transform		लाप्लास रूपांतर
laos	<i>H.Sc</i>	लाओस	Laplacian		लाप्लासियन
lap	<i>Phy</i> <i>Chem.</i> <i>Geog.</i> <i>H.Sc.</i>	सूक्ष्म घर्षक बलि छादन रई की परत	lapnis	<i>H Sc</i>	लैपनिस
lapachenole	<i>Chem.</i>	लेपाचिनॉल	Laporte rule	<i>Chem</i>	लापोर्ट-नियम
lapachol	<i>Chem.</i>	लेपाचॉल	Lapp	<i>Geog</i>	लैप
lapachone	<i>Chem</i>	लैपाचोन	lappaceous	<i>Bot</i>	अकुशिकम
<i>Lapageria rosea</i>	<i>Bot</i>	लेपेजीरिया रोजिया	lappet	<i>H Sc.,Zool ,</i> <i>Geol.</i>	लैपेट, पल्लवाभ
lap dissolve	<i>Phy.</i>	गमनागमन	lappet moth		पल्लव-शालभ
lap dissolve shutter		गमनागमन कपाट	lappet weaving	<i>H Sc.</i>	लैपेट बयन
lapel microphone	<i>Phy</i>	कालर माइक्रोफोन	lapping	<i>Chem ,Phy</i> <i>Zool</i>	1. सूक्ष्म घर्षण, लैपन 2. लेहन
<i>Laphygma exigua</i>	<i>Zool</i>	लेफिग्मा एक्सिग्वा	lapping mouth parts		लेहन मुखांग
laplaz	<i>Geog</i>	लैपेआर (कार्टे)	Lapponoid race	<i>Geog.</i>	लैपोनाइड जाति
lapideus	<i>Bot</i>	अच्छिल	lapse rate	<i>Phy ,Geog</i>	च्युतिदर, ह्रासदर
lapidicolous	<i>Zool</i>	अवाशमवासी	laptosome		लैप्टोसोम
lapidification	<i>Geol.</i>	असमोभवन	lap weld	<i>Chem.</i>	बलि सघान
lapidose	<i>Bot</i>	असमवासी	lapwing	<i>Zool</i>	टिट्टिस
lapis	<i>Geog</i>	लैपीस	Laramide revolution	<i>Geog ,Geol</i>	लैरामाइड-भूवृत्ति
lapiestation	<i>Geog</i>	लैपीस्टन	larch	<i>Geog.</i>	लार्च, धी-दारु
lapilli	<i>Geol ,Geog.</i>	लैपिली, ज्वालामुखी असमक	lard	<i>Chem ,</i> <i>H Sc.</i>	सूअर की चर्बी, लार्ड, धुंकर बसा
lapilliform		लैपिलीरूप	lardalite	<i>Geol.</i>	लार्डालाइट
lapilli tuff		लैपिली टफ	larder	<i>H.Sc.</i>	लार्डर, जातीदार अलमारी



larding needle	<i>H.Sc.</i>	लार्डिंग नीडल	largest member	<i>Phy.</i>	महत्तम सदस्य
Lardizabalaceae	<i>Bot.</i>	लार्डीजालेलेसी	large subgroup		बृहत् उपसमूह
large angle boundary	<i>Phy.</i>	बृहत्कोणी परिसीमा	large volume counter		बृहत् धायतनी गणित
large-angle grain boundary		बृहत्कोणी रेणु परिसीमा	Laridae	<i>Bot.</i>	लैरिडी
large angle scattering		बृहत्कोणी प्रकीर्णन	Larix	<i>Bot.</i>	लैरिक्स
large compact	<i>Bot.</i>	बृहत् संहत	lark	<i>Zool.</i>	भरतपक्षी
large diffuse	<i>Bot.</i>	बृहत् विसारी	Larkin's process	<i>Chem. (Met.)</i>	लाकिन प्रक्रम
large elastic deformation	<i>Math.</i>	बृहत् प्रत्यास्य विरूपण	Larkspur	<i>Bot.</i>	निर्विपी
large-grained	<i>Geol.</i>	दीर्घ कणिक	Larmor frequency	<i>Phy.</i>	लारमोर आवृत्ति
large-hooked nose	<i>Geog.</i>	दीर्घवक्र नासिका	Larmor precession		लारमोर पुरस्सरण
large intestine	<i>Zool.</i>	बृहदांत्र	Larmor radius		लारमोर त्रिज्या
large lunar elliptic potential	<i>Geol.</i>	बृहत् चांद्र दीर्घवृत्तीय विभव	larnite	<i>Chem.</i>	लार्नाइट
large map	<i>Geog.</i>	बड़े पैमाने का मानचित्र	Larus brunnicephalus	<i>Zool.</i>	लेरस ब्रुनीसेफलस (धोमरा)
large nuclei	<i>Geol.</i>	दीर्घ केन्द्रक	larva	<i>H.Sc., Zool.</i>	लारवा, डिम्ब, डिम्बक
large number	<i>Math.</i>	बृहत् संख्या	larva aculeata		रोमकी डिम्ब
large order		बृहत् कोटि	Larvacea	<i>Zool.</i>	लार्वेसिया
large patch	<i>Geog.</i>	बड़ा धब्बा, बड़ा चप्पा	larva cornuta	<i>Zool.</i>	शृंगी डिम्ब
large pied hornbill	<i>Zool.</i>	बृहत् शवल घनेण	larva furcifera		द्विशाख डिम्बक
large pied wagtail		बृहत् शवल खंजन	larval		डिम्बकी, लारवा-
large river		बड़ी नदी	larval carapace		डिम्बक पृष्ठवर्म
larger lunar elliptic (tide)	<i>Geog.</i>	दीर्घतर चांद्र दीर्घवृत्तीय (ज्वार)	larval character		डिम्ब लक्षण
larger lunar evection		दीर्घतर चांद्र-कक्षीय क्षोभ	larval pellicle		डिम्बकीय तनुत्वक्
larger scale	<i>Geog.</i>	बृहत्तर पैमाना	larval period		डिम्बक अवधि
large sample test		बृहत् प्रतिदर्श परीक्षण	larval seta		डिम्ब शूक
large scale		बृहत् परिमाण	larval stadium		डिम्ब अन्तरावस्था
large scale feature		बृहत्मान लक्षण	larval stage		डिम्ब अवस्था
large scale map		बृहत् पैमाना मानचित्र, दीर्घ मापनी मानचित्र	larva of Desor		देज़ॉर डिम्बक
large scale phenomenon		बृहत्मान परिघटना, बड़े पैमाने की परिघटना	larvarium	<i>Zool.</i>	डिम्बशाला
large scale physics		बृहत् परिमाण भौतिकी	larvata	<i>Zool.</i>	लार्वेटा
large scale properties	<i>Phy.</i>	बृहत्मान गुणधर्म	larva ursina	<i>Zool.</i>	ऊर्षी डिम्बक
large settlement	<i>Geog.</i>	बड़ी बस्ती	larvicidal fishes	<i>Zool.</i>	डिम्बनाशी मीन
large shore seine		बृहत् तट संपाशक	larvicide	<i>Zool.</i>	डिम्बनाशी
			larviform	<i>Zool.</i>	डिम्बरूप
			larvikite		लार्विकाइट
			larvina	<i>Zool.</i>	आदिडिम्बक
			larviparous	<i>Zool.</i>	डिम्बज, डिम्बप्रजक

larviposition	Zool	डिम्बनिक्षेपण	Lassaigine method	Chem	लैसैं पद्धति
larvivorous	Zool.	डिम्भाहारी	lassitude	Geog	क्षिणिलता
larvopod	Zool.	डिम्बकपद	last contact in eclipse (= fourth contact in eclipse)	Math	मोक्ष (ग्रहण में चतुर्थ स्पर्श)
larvule	Zool.	प्रडिम्ब	lastex	H Sc	लाम्बेक्स
laryngophone	Phy	कठ माइक्रोफोन	lastic	Chem.	अति प्रत्यास्थ, लैस्टिक
laryngeal cartilage	Zool	कठ-उपास्थि	last killing frost	Geog	अंतिम विनाशक तुषार
laryngeal chamber		कठ कक्ष	last-off sampling	Math	अन्तेतर प्रतिचयन
laryngotracheal chamber	Zool	कठश्वामनली कक्ष	latch needle	H Sc.	लैचनीडिल
laryngotracheal diverticulum		कठश्वामनली अग्रवर्ध	latching relay	Phy	मिटकनी रिले
laryngotracheal groove		कठश्वामनली खांच	late armament	Phy.	समयोत्तर हथियार
larynx	Zool.	कठ	late bird		समयोत्तर अम्ब
Lasanius	Zool	लार्सेनियम	late blight	Bot.	विलंबित अवमारी, विलंबित शीर्णता
laser	Chem, Phy.	लेसर	latebra	Zool	लैटेब्रा
laser altimeter		लेसर तुलनामापी	latebricole	Zool	छिद्रवासी
laser anemometer		लेसर वायुवेगमापी	late carboniferous age	Chem	उत्तर कार्बनी कल्प, उत्तर कार्बनी युग
laser camera		लेसर कैमरा	lateen-rigged vessel	Geog	तिकोनापाल-जहाज
laser drill		लेसर बरसा	lateen sail	Geog	तिकोना पाल
laser flash tube		लेसर दमक नलिका	late-glacial	Geol	पश्च हिमानी युग
laser range finder		लेसर परास निर्धारक	late magmatic mineral deposit	Geol	पश्च मैग्मीय खनिज निक्षेप
lashing movement	Zool	कशाघातो गति	late magmatic ore deposit		पश्च मैग्मीय अयस्क निक्षेप
lash method	Chem (Met)	प्रताड़न पद्धति	late mature	Geog	उत्तर परिपक्व
Lasia	Bot	लैसिया	lateacy	Phy	1 अननिहितता 2 प्रसुप्ति काल
Lasia heterophylla		लैसिया हेटेरोफिला	latent		गुप्त
Lasianthous	Bot	ऊर्णगुप्पी	latent catalyst		गुप्त उत्प्रेरक
Lasia spinosa		लेसिया स्पाइनोसा	latent energy		गुप्त ऊर्जा
lasing	Phy	लेसन, लेमरीकरण	latent heat		गुप्त ऊष्मा
Lasiosiphon eriocephalus	Bot	लेसिओसाइफोन ईरिओसेफलस	latent image		गुप्त प्रतिबिम्ब
Lasser's paste	H Sc	लैसर पेस्ट	latent image fading		गुप्त प्रतिबिम्ब क्षीणन
Lasker-Noether decomposition theorem	Math	लास्कर नॉथर विघोजन प्रमेय	latent image nucleus		गुप्त प्रतिबिम्ब केन्द्रक
Laspeyresia	Zool	लैस्पेरेसिया	latent image speck		गुप्त प्रतिबिम्ब कणिका
Laspeyre's index	Math	लैस्पेरे-सूचकांक	Latent infection		गुप्त सन्तमण
			latent magma	Geol.	प्रचलन मैग्मा

latent period	<i>Biol.</i>	अव्यक्त काल	lateral condyle	पार्श्व कंद, पार्श्व मुँहिका
latent power		गुप्त शक्ति	lateral cone	पार्श्वीय शंकु
latent root (=characteristic root)	<i>Math.</i>	अभिलक्षणिक मूल	lateral conjugation	पार्श्व संयुग्मन
latent structure	<i>Math.</i>	अंतर्निहित संरचना	lateral consequent stream	पार्श्वीय अनुवर्ती सरिता
latent variable		अंतर्निहित चर	lateral contraction	पार्श्वीय संकुचन
latent vector (=characteristic vector)		अभिलक्षणिक सदिश	lateral cord	पार्श्व रज्जु
latent virus		गुप्त विषाणु	lateral crater	पार्श्व ज्वालामुखी विवर, पार्श्व क्रेटर
late orogenic phase	<i>Geol.</i>	पश्चपर्वतनी प्रावस्था	lateral crista	पार्श्व शिखर
lateral		पार्श्व, पार्श्विक, पार्श्वीय	lateral denticular process	पार्श्व दंतिकाकार प्रवर्ध
lateral abdominal gill		पार्श्वीय उदर क्लोम	lateral difference	पार्श्विक अन्तर
lateral adhesive tube		पार्श्व आसंजी नलिका	lateral displacement	पार्श्विक विस्थापन
lateral alae		पार्श्व पक्षक	lateral diverticula	पार्श्व अंधनाल
lateral apodeme		पार्श्वीय आंतरवर्ध	lateral edge	पार्श्वीय कोर
lateral area		पार्श्वीय क्षेत्रफल, पार्श्वीय क्षेत्र	lateral epicondyle	पार्श्व अधिकंद
lateral artery		पार्श्व धमनी	lateral erosion	पार्श्विक अपरदन
lateral axis		पार्श्व अक्ष	lateral exclusion	पार्श्विक वर्जन
lateral beat-beat		पार्श्व चि-विस्पंद	lateral expansion	पार्श्वीय प्रसार
lateral boundary		पार्श्विक सीमा	lateral extension gully	पार्श्व-विस्तार अवनालिका
lateral buckling		पार्श्विक आकुंचन	lateral extent	पार्श्वीय प्रसर
lateral budding		पार्श्व मुकुलन	lateral eye tubercle	पार्श्वनेत्र गुलिका
lateral caecum		पार्श्व अंधनाल	lateral face	पार्श्वीय फलक
lateral canyon		पार्श्व केनियन	lateral facial bristle	पार्श्वीय आनन शूक
lateral carina		पार्श्व नौतल	lateral field	पार्श्व क्षेत्र
lateral cartilage		पार्श्व उपास्थि	lateral filament	पार्श्वीय तंतु
lateral cephalic inflation		पार्श्व शिरस्य स्फीति	lateral flap	पार्श्व पल्लव
lateral cephalic vessel		पार्श्वीय शिरस्य वाहिका	lateral flexion	पार्श्व आकुंचन
lateral cerari		पार्श्वीय शृंगक	lateral fold	पार्श्व-पुट
lateral chromatic		पार्श्विक वर्ण	lateral force	पार्श्विक बल
lateral chromatic aberration		पार्श्विक वर्ण विपथन	lateral furrows	पार्श्व-खाँच
lateral cilia		पार्श्व पक्ष्मास	lateral gemmation	पार्श्व जेमोद्भवन
lateral compliance	<i>Phy.</i>	क्षैतिज (अनुप्रस्थ) अनुवृत्ति	lateral giant fibre	पार्श्व महातंतु
			lateral gland	पार्श्व ग्रंथि
			lateral groove	पार्श्व खाँचा
			lateral guiding piece	पार्श्व निर्देशक भाग
			lateral haustoria	पार्श्विक चूपकांग

lateral heart	पार्श्व हृदय	lateral occipital	पार्श्व अनुकपाल
lateral hypobranchial artery	पार्श्व अध कन्धोम धमनी	lateral oesophageal heart	पार्श्व ग्रसिका हृदय
lateral hypodermal gland	पार्श्व अधोत्वक् ग्रथि	lateral oesophageal vessel	पार्श्व ग्रसिका दाहिका
lateral inertia	पार्श्विक जडत्व	lateral organ	पार्श्व अंग
lateral intersegmental muscle	पार्श्व अतरखंडीय पेशी	lateral oviduct	पार्श्वीय अंडवाहिका
lateral inversion	पार्श्वपरिवर्तन	lateral papilla	पार्श्व पैपिला
lateralis <i>Zool</i>	पार्श्व तन्त्रिका, पार्श्विनी	lateral parity	पार्श्विक समता
lateralis manubrii	सैनुरियम पार्श्विनी	lateral pharyngeal gland	पार्श्वीय ग्रसनी ग्रथि
lateralis superficialis	पार्श्व पृष्ठीय पेशी	lateral pipe	पार्श्व नली
lateral leaf <i>Bot</i>	अपाक्ष पत्र	lateral planation	पार्श्व समतलन
lateral ligament	पार्श्व स्नायु	lateral plate	पार्श्व पट्टिका
lateral limb	पार्श्व शाखा	lateral pore	पार्श्व छिद्र
lateral line	पार्श्व रेखा	lateral pore canal	पार्श्व रंध्रनाल
lateral line canal	पार्श्व रेखा नाल	lateral range	पार्श्वीय परास
lateral line organ	पार्श्व रेखा अंग	lateral receptacle protrusor	पार्श्वस्थान बहिःसारिणी
lateral line system	पार्श्व-रेखा तंत्र	lateral refraction	पार्श्वीय अपवर्तन
lateral longitudinal bundle	पार्श्व अनुदैर्घ्य पेशी	lateral ridge	पार्श्व कटक
lateral longitudinal channel	पार्श्व अनुदैर्घ्य प्रणाल	lateral rotator	पार्श्व घूर्णी
lateral longitudinal trunk	पार्श्वीय अनुदैर्घ्य कांड	lateralis <i>Zool, Bot</i>	पार्श्व हत, पार्श्वज
lateral magnification	पार्श्वीय प्रवर्धन	lateral scale	पार्श्वीय मास्क
lateral magnifying power	पार्श्व प्रवर्धन क्षमता	lateral section	पार्श्व परिच्छेद
lateral malleolus	पार्श्व गुल्फवर्ध	lateral shearing fault	पार्श्व अपरूपण भ्रंश
lateral membrane	पार्श्व झिल्ली	lateral space	पार्श्वीय अन्वकाश
lateral mesocardia	पार्श्व हृदयोपजिनी	lateral spacing	पार्श्विक अन्तराल
lateral moraine	पार्श्विक मोरेन, पार्श्विक हिमोढ	lateral spherical aberration	पार्श्विक गोलीय विपथन
lateral motion	पार्श्वीय गति	lateral spine	पार्श्व शून
lateral muscle	पार्श्वीय पेशी	lateral spread	पार्श्विक प्रसर
lateral nerve	पार्श्व तन्त्रिका	lateral strand	पार्श्व रज्जुक
lateral nerve cord	पार्श्व तन्त्रिक रज्जु	lateral sulcus	पार्श्व परिखा
lateral neural vessel (=lateroneural vessel)	पार्श्व तन्त्रिक वाहिका	lateral surface	पार्श्व-पृष्ठ
lateral ocellus	पार्श्वीय नेत्रक	lateral suture	पार्श्वीय शीथन
		lateral temporal fossa	पार्श्विक शष्प खात
		lateral thoraco-abdominis	पार्श्व वक्ष-उदरिनी

lateral tracheal trunk		पार्श्वीय वातक कांड	late-type sequence of spirals	Math.	उत्तरवर्ती सपिल अनुक्रम
lateral trunk muscle		पार्श्व घड़ पेशी	late wood	Bot.	पश्चदार
lateral tubercle		पार्श्वीय गुलिका	latex	H.Sc., Bot.	रबड़कीर, असंस्कृत रबड़, लैटेक्स
lateral variation		पार्श्व विभिन्नता	latex adhesive		लैटेक्स आसंजक
lateral vein		पार्श्व शिरा	latexosis	Bot.	क्षीराति, लैटेक्सति
lateral velocity change		पार्श्व वेग परिवर्तन	latex paint		रबड़कीर प्रलेप, लैटेक्स पेन्ट
lateral vibration		पार्श्विक कंपन	latex yarn		लैटेक्स सूत्र
lateral view		पार्श्व दृश्य	lath	Geog.	लकड़ी की पट्टी
lateral wing	Bot.	पार्श्व पक्षक	lathe	Phy.	खराद, लेथ
lateral zooid		पार्श्व जीवक	lather	H.Sc., Chem.	झाग, फेन
laterifolius	Bot.	पर्ण पार्श्वज	lather booster		फेन अभिवर्धक
laterinervis	Bot.	सरलशिराल	lather collapse		फेन निपात
laterinervos venation		सरल शिराविन्यास	lather value		फेन मान
lateristipulus	Bot.	पार्श्व-अनुपर्णी	lath-shaped	Geol.	लेथ रूपी
laterite	Geol., Geog.	मखरला, लैटेराइट	lathyrism	Chem.	लैथीरीकरणता, कला-यखंज
laterite soil		लैटेराइट मिट्टी	Lathyrus sativus	Bot.	लैथाइरस सैटाइवस (मटर)
lateritic ironstone		लैटेराइट लौहायुग्म	Lathyrus odoratus		लथाइरस ओडोरैटस
lateritin	Chem.	लैटेरिटिन	lati-	Bot.	पृथु-
lateritoid	Geol.	लैटेरीटॉयड	laticiferous	Bot.	लैटेक्सधर
laterization	Geol.	लैटेराइटीमवन, लैटेराइटन	latifolius	Bot.	पृथुपर्णी
lateroanal	Zool.	पार्श्वगुदीय	latifondo	Geog.	लैटिफोंडो
laterodorsal	Zool.	पार्श्वपृष्ठीय	latifundia	Geog.	लैटिफंडिया
laterolog	Chem.(Pet.)	लैटेरोलॉग	latik	H.Sc.	लैटिक
laterologging	Geol.	पार्श्व संलेखन	latilaminae	Geol.	लैटिलैमिनी
latero-marginal	Geol.	पार्श्व सीमांत	Latimeria	Zool.	लैटिमेरिया
latero-oesophageal heart	Zool.	पार्श्व ग्रसिका हृदय	Latimeria chalumnae		लैटिमेरिया कालूमनी
laterosternite	Zool.	पार्श्वअधरकांश, लैटेरो-स्टर्नाइट	Latimeriidae	Zool.	लैटिमेरिआइडी
laterostratum	Bot.	पार्श्वस्तर	latimurate	Bot.	पृथुप्रकटकी
laterosubdorsal	Zool.	पार्श्वउपपृष्ठीय	Latin rectangle	Math.	लैटिन आयत
laterotergal	Zool.	पार्श्वपृष्ठीय	Latin square		लैटिन-वर्ग
laterotergite	Zool.	पार्श्वपृष्ठीकांश	latiseptal	Bot.	पृथुपट्टी
lateroventral	Zool.	पार्श्वअधरीय, पार्श्वअधर	latissimus dorsi	Zool.	लैटिसिमस डॉर्सो
lateroventral ray		पार्श्वअधर अर	latite	Geol.	लैटाइट
Lates calcarifer	Zool.	लैटिस कैल्करिफर (बेकटी)			

latitude	<i>Geog. Phy. Geol.</i>	अक्षांश, लैटिट्यूड	lattice plane		जालक-तल
latitude correction		अक्षांश-संशोधन	lattice point		जालक बिन्दु
latitude effect		अक्षांश प्रभाव	lattice point group		जालक बिन्दु समूह
latitude line	<i>Geog.</i>	अक्षांश रेखा	'lattice potassium'		'जालक पोटेशियम'
latitude value		अक्षांश मान	lattice- pseudonorm		जालक छद्म-मानक
latitudinal extension		अक्षांशीय विस्तार	lattice row		जालक पंक्ति
latitudinal migration		अक्षांशीय प्रवास	lattice sheet		जालक पट
latitudinal zone		अक्षांशीय कटिबंध	lattice shell		जालक चोल
laton	<i>H Sc.</i>	लैटॉन	lattice site		जालक स्थान
latosol	<i>Geog.</i>	लैटोसोल	lattice stitch		जालक दाबा
latrobite	<i>Geol.</i>	लैट्रोवाइट	lattice structure		जालक-संरचना
Latrodectus	<i>Zool.</i>	लैट्रोडेक्टस	lattice sum		जालक योग
<i>Latrodectus mactan</i>		लैट्रोडेक्टस मैक्टान	lattice translation operation		जालक स्थानांतरण सन्निया
latten	<i>Chem (Met)</i>	लैटन	lattice unit cell		एकाक लैटिस कोष्ठिका, मूल जालक कोष्ठिका
lattice	<i>Phy, Math, Geol.</i>	जालक, लैटिस	lattice vector		जालक सदिश
lattice array		जालक सरणी	lattice water		जालक-जल
lattice compound		जालक यौगिक	latus rectum	<i>Math.</i>	नाभिसूत्र, लैटम रेक्टम
lattice constant		जालक स्थिरांक, लैटिस स्थिरांक	laudanosine	<i>Chem</i>	लौडोसोसिन
lattice design		जालक-अभिव्यक्त्या, लैटिस अभिव्यक्त्या	Laue class	<i>Phy</i>	लाउए वर्ग
lattice dimension		जालक विस्तार, जालक विमा	Laue method		लाउए पद्धति
lattice distortion		जालक-विकृति	Laue photograph		लाउए फोटोग्राफ
lattice energy		जालक-ऊर्जा, लैटिस ऊर्जा	Laue spot		लाउए बिन्दु
lattice entropy		जालक ऐन्ट्रॉपी, लैटिस ऐन्ट्रॉपी	Laue's X-ray method		लाउए एक्स-किरण विधि
lattice form		जालक-रूप	laugente	<i>Geol</i>	लौजेनाइट
lattice girder		जालक धरण	laughing gas		हास गैस, नाइट्रस ऑक्साइड
lattice group		जालक समूह	Laugia	<i>Zool</i>	लाउजिया
lattice homomorphism		जालक समाकारिता	leukocytomia (leucocythacmia)	<i>Chem</i>	श्वेतरक्तता
lattice imperfections		जालक अपूर्णता	laumontite	<i>Geol</i>	लौमोंटाइट
lattice inclusion overpotential		जालक समावेशन अधि-विभव	<i>Launaea pumatifida</i>	<i>Bot.</i>	लौनिया पिल्नेटोफिडा (वनशीतो)
lattice isomorphism		जालक-सुल्यकारिता	launch base area	<i>Phy.</i>	प्रमोचन क्षेत्र
lattice like test		जालक-वदन् चीज	launch complex		प्रमोचन तन्त्र
lattice orientation		जालक अभिविन्यास	launcher		प्रमोचित्र
			launcher adapter		प्रमोचित्र एडैप्टर प्रमोचित्र अनुकूलक

launching		प्रमोचन	lauric acid	Chem.	लौरिक अम्ल, लौरिक ऐसिड
launching dispersion		प्रावस्था विचलन	laurilignosa	Bot.	लॉरल काष्ठलादि
launching platform		प्रमोचन मंच	laurionite	Geol.	लौरिओनाइट
launching rail		प्रमोचन पटरी, प्रमोचन रेल	laurite	Geol.	लौराइट
launching site		प्रमोचन स्थल	<i>Laurocerasus officinalis</i>	Bot.	लोरिसिरेसस ओफि-सिनेलिस
launching tube		प्रमोचन नलिका	lauroleic acid	Chem.	लॉरोलीइक अम्ल
launch-latch		प्रमोचन अर्गला	laurone	Chem.	लारोन
launch pad		प्रमोचन मंच	laurone	Chem.	लारोन
launch phase		प्रमोचन प्रावस्था	laurophilous	Bot.	नालीरागी
launch point		प्रमोचन बिन्दु	lauroyl chloride	Chem.	लारॉयल क्लोराइड
launder (lander)	Chem.	वाहनाल	lauroyl peroxide	Chem.	लारॉयल पुरॉक्साइड
laundering	H.Sc.	वस्त्र धावन, कपड़ा धुलाई	<i>Laurus nobilis</i>	Bot.	लॉरस नोविलिस
laundering industry	Chem.	रजकोद्योग	laurylpyridinium bromide	Chem.	लॉरिल पिरिडीनियम ब्रोमाइड
launderometer	Chem., H.Sc.	प्रक्षाल्यतामापी, लॉन्ड्रो-मीटर	Lauryl sulphate	Chem.	लॉरिल सल्फेट
laundertype table	Geol.	नलिका पटल	lausonia inermis	Chem.	लासोनिया इनमिस
laundry	H.Sc.	धुलाई, धुलाईघर	lautarite	Chem.	लॉटाराइट
laundry equipment		धुलाई उपस्कर	Lauter tub	Chem.	लॉटर नाँद
lauoho-o-pele	Geol.	लोहोपेले	Lauth mill	Chem. (Met.)	लॉथ मिल
Lauraceae	Bot.	लारेसी	lava	Geol., Geog.	लावा
<i>Laura gerardiae</i>	Zool.	लॉरा जेरार्डिई	lava blister		लावा-फफोला
Laurales	Bot.	लौरिलीज	lava bocca		लावा-रंध्रिका
lauramide	Chem.	लौरिमाइड	lava breccia		लावा संकोणाश्म
Laurasia	Geol.	लौरेशिया	lava cascade		लावा सोपानी पात
laurate	Chem.	लॉरिट	lava cauldron		लावा ज्वालामुखी कुंड
laurdalite	Geol.	लोरडैलाइट	lava cave		लावा गुहा
laurel oil	Chem.	लॉरिल तेल	lava cavern		लावा कंदरा
<i>Laurencia pinnatifida</i>		लौरेशियाई पिन्नेटि-फ्रिडा	lava colonnade		महान्तंभी लावा
Laurentian plateau	Geog.	लारेशियाई पठार	lava column		लावा स्तंभ
Laurent polarimeter	Phy.	लौरा का द्रुवणमापी	lava cone		लावा-शंकु
Laurent's acid		लौरा ऐसिड, लौरा अम्ल	lava dam		लावा बांध
Laurent series		लौरा श्रेणी	lava-dam (-med) lake		लावारुद्ध झील
Laurent's theorem		लौरा-प्रमेय	lava dome		लावा-गुम्बद
Laurer's canal	Zool.	लॉरर-नाल	lava eruption		लावा-उद्गार
			lava flood		लावा पूर
			lava flow plateau		लावास्तर पठार

lava flows		लावास्तर	law	Geog	1. नियम, सिद्धान्त 2. लॉ (गिरि)
lava fountain		लावा फव्वारा	law giver	Geog.	विधि-कर्ता
lavajava	H Sc.	लावा लावा	lawn	Geog., H Sc.	लॉन, दूरस्थल, गृह शब्दल
lava levee		लावा घघ	lawn cloth	H Sc.	लॉन का कपड़ा
Lavandula	Bot.	लैवेन्दुला	lawn-mower		लॉन घास कर्तक, लॉन मोवर
lava pit		लावागर्त	law of aberration		अपेक्षण का नियम
lava plain		लावा-मैदान	law of adding velocities		वेग-संयोजन नियम
lava plateau		लावा-पठार	law of additive volume		योगात्मक-आयतन-नियम, सकलनी-आयतन-नियम,
lava plug		लावा प्लग	law of additivity		सकलनीयता नियम
lava rag		लावा आतक	law of areas		क्षेत्रफल नियम
lava scarp		लावा बगार	law of constancy of interfacial angle		यांतर फलक कोण स्थिरता नियम
lava scratches		लावा खरोच	law of constant heat summation		स्थिर ऊष्मा-सकलन नियम
lava sheath		लावा आच्छद	law of constant proportion		स्थिर अनुपात का नियम
lava sink		लावा गतं	law of constant resolved shear stress		नियत वियोजित अपरूपक प्रतिबन्ध नियम
lava spine		लावा शूक	law of contiguity		सन्निधि नियम
Lava stalactite		लावा स्टैलेक्टाइट	law of cooling		शीतलन नियम
lava stalagmite		लावा स्टैलैग्माइट	law of corresponding states		समतुल्य अवस्थाओं का नियम
lava streak		लावा शिरा	law of definite proportion		स्थिर अनुपात का नियम
lava stream	Geog	लावा सरिता	law of destination		लक्ष्य-नियम
lavatic	Geol	1. लावारूप 2. लावायुक्त	law of diminishing return		ह्रासमान प्रतिकूल नियम
lavatoc	Geol	लावाटो	law of equal volume		समआयतन नियम
lava tower		लावा मीनार	law of equipartition of kinetic energy		गतिज ऊर्जा का समविभाजन नियम
lava tree mold		लावा वृक्ष साचा	law of equivalent proportion		सुलभ अनुपात का नियम
lava tunnel		लावा-सुरंग	law of errors		दृष्टि-नियम
lavena	H Sc	लैवेना	law of fixed proportion		स्थिर अनुपात नियम
lavender	H Sc	लैवेन्डर	law of gaseous combination		गैसीय संयोजन का नियम
lavender blue		लैवेन्डर नील			
lavender colour		लैवेन्डर रंग (मोलिया रंग)			
laventine	H Sc	लैवेन्टाइन			
laver	H Sc., Bot., Geog	लेवर			
laver bread		लेवर ब्रेड			
laver sauce		लेवर सॉस			
lavic	Geol	1. लावारूप 2. लावायुक्त			
La Ville Maitresse	Geog.	ला वील मैत्रेस			
lavite process	Chem.	लेवाइट प्रक्रम			



law of gaseous volume	गैसीय आयतन का नियम	law of permanency	स्थायित्व नियम
law of gravitation	गुरुत्वाकर्षण नियम	law of photochemical equivalence	प्रकाश रसायन तुल्यता नियम, फोटोन रसायन तुल्यता नियम
law of homomorphism for groups	समूह के लिए समाकारिता-नियम	law of priority (nomenclature)	अग्रता-नियम (नामकरण)
law of homomorphism for rings	वलयों के लिए समाकारिता-नियम	law of probability	प्रायिकता-नियम
law of increasing costs	वर्द्धती लागत का नियम	law of prominence of crystal forms	क्रिस्टल के महत्वपूर्ण रूपों का नियम
law of independent assortment	स्वतन्त्र अपव्यूहन नियम	law of proportional effect	आनुपातिक प्रभाव का नियम
law of independent migration of ions	आयन स्वतन्त्र अभिगमन नियम	law of rational indices	परिमेय घातांक नियम
law of indices	घातांक नियम	law of rational intercepts	परिमेय अंतःखंडों का नियम
law of inertia	जड़त्व नियम	law of rationality of intercepts	अंतःखंड परिमेयता नियम
law of inertia of large numbers	बृहत् संख्याओं का जड़त्व नियम	law of reciprocal proportion	तुल्य अनुपात का नियम
law of inertia of quadratic forms	द्विघाती समघातों का जड़त्व-नियम	law of reciprocity	व्युत्क्रमता नियम
law of interference	हस्तक्षेप नियम	law of reinforcement	पुनर्वलन नियम
law of intermediate metals	माध्यमिक धातु नियम	law of repetition	पुनरावर्तन नियम
law of intermediate temperature	माध्यमिक ताप नियम	law of reversal	उत्क्रमण का नियम
law of isorotation	समघूर्णन नियम	law of segregation	विसंयोजन-नियम
law of isothermal atmosphere	समतापी वायुमण्डल नियम	law of sines	ज्या नियम, साइन नियम
law of iterated logarithm	पुनरावृत्त लघुगणक नियम	law of small numbers	लघु संख्याओं का नियम
law of laminar flow	पटलीय प्रवाह नियम, स्तरिका-प्रवाह नियम	law of storm	क्षिणावात नियम
law of large numbers	बृहत् संख्याओं का नियम	law of superposition	अध्यारोपण का नियम
law of Malus	मालूस का नियम	law of the rectilinear diameter	सरल रेखीय व्यास-नियम
law of mass action	द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम	law of triads	त्रिक नियम
law of multiple proportion	गुणित अनुपात का नियम	law of trichotomy	त्रिविकल्पी नियम
law of nature	प्रकृति-नियम	law of twinning	यमलन नियम
law of naught or one	शून्य या एक का नियम	law of unequal slope	असम ढाल का सिद्धांत
law of octaves	अष्टक का नियम	law of value	मान-नियम
law of partial pressure	आंशिक दाब का नियम	Lawrence Smith method	Chem. लारेन्स स्मिथ विधि
		Lawrence tube (=chromatron)	Phy. लारेन्स नलिका, क्रोमेट्राण
		lawrencium	लारेन्सियम

laws of exponents		चर घातांकी के नियम	layout	<i>H.Sc., Geog.</i>	यभिन्याम, खाना, विन्याम
laws of motion		गति-नियम	layout of communication		संचार-विन्याम
laws of thermodynamics		ऊष्मागतिकी के नियम	lazarist	<i>Geog.</i>	लैज़ारिस्ट
lawsone	<i>Chem.</i>	लॉसोन	lazulite	<i>Geog., Chem., Geol.</i>	लैज़ूलाइट
<i>Lawsonia inermis</i>	<i>Bot</i>	लासोनिया इनरमिस (मेहदी, हिना)	lazulitic	<i>Geol.</i>	लैज़ूलाइट्टी
law suit	<i>Geog.</i>	मुकद्दमा	lazarfeldspar	<i>Geol</i>	लैज़रफ़ेल्स्पार
lax		विरल, श्लथ	lazarite	<i>Geol.</i>	लैज़ूराइट, लाजवदं
laxal process	<i>Chem.</i>	जगरोक्षी प्रक्रम	lazy-bed	<i>Bot., Geog</i>	लैज़ी बेड
laxative	<i>H.Sc.</i>	मृदु विरेचक, सारक	lazy-dazy stitch	<i>H Sc.</i>	लेज़ी डेज़ी टाँका
laxite	<i>Geol.</i>	लैक्साइट	L-band	<i>Phy.</i>	L-बैंड
lax strobilus	<i>Bot.</i>	श्लथ शकू	L. c. (loco citato)	<i>Bot</i>	उद्धृतस्थ (उद्धृत स्थानस्थ)
lay	<i>Phy</i>	लक्ष्य सघनन, लक्ष्य साधना	L-capture	<i>Phy.</i>	L-प्रग्रहण
lay bands	<i>Chem. (Text.)</i>	मच्छी बंधक	L. C. resonant line	<i>Phy.</i>	L C अनुनादी लाइन
layer	<i>Phy., Geol., Geog</i>	परत, स्तर	lea	<i>H.Sc.</i>	पुञ्जक
layer cake	<i>H Sc.</i>	परती केक	leach	<i>Geol</i>	निष्कालन करना
layered	<i>Geog., Geol</i>	स्तरित	leachability		निष्कालनीयता
layered edition		स्तरित संस्करण	leachate	<i>Bot.</i>	निष्कालितक
layered intrusion		परतदार अंतर्वेधन, स्तरित अंतर्वेधन	leached guano		निष्कालित म्लानो
layered intrusive rock		परतदार अंतर्वेधी शैल	leached mull-soil		निष्कालित मल-मृदा
layered map		स्तरित मानचित्र	leach hole		निष्कालन विवर
layered structure		परतदार संरचना	leaching		निष्कालन
layer guide	<i>Geog.</i>	स्तरवर्ण-निर्देश	leaching of rocks		शैल-निष्कालन
layering	<i>Geol. H Sc.</i>	1. परतन 2. दाह सघाना	lead	<i>Geog. Geol</i>	1 लेड 2 (= lode) शिरानिसोप, सोड
layer lattice		स्तरित जालक		<i>Chem., H Sc Phy.</i>	3 (metal) सीसा, लेड 4 (i) (of phase) अश्रता (ii) प्रणायक (iii) (v) अग्र होता
layer line		स्तरीय रेखा, क्षणीय रेखा	lead acetate		लेड ऐसीटेट
layer of glass		काँच-परत	lead and lag	<i>Math., Phy.</i>	अग्रता और परतता
layer of instability		अस्थायित्व स्तर	lead-arsenate injury	<i>Bot</i>	लेड-आर्सेनेट क्षति
layer societies		स्तर समाज	lead barium crown glass	<i>Chem.</i>	सीसा बेरियम क्रौज़न काँच
layer structure		परत संरचना	lead base white metal		सीसा प्रधान श्वेत धातु, लेड प्रधान श्वेत धातु
layer tint		स्तर-आभा			
layer tinting		स्तर-रंजन			
layer winding		परत कुंडलन			

lead basin		सीसा कुंडी, सीसा प्याली	leading spot		अग्रग सूर्य-कलंक
lead-belt screen		सीसा-पट्टा छन्ना	leading submatrix		अग्रग उप-श्राव्यूह
lead chamber process		सीसा कक्ष विधि	leading term		अग्रग पद
lead control	<i>Phy.</i>	अग्रजालीय नियन्त्रण	lead leaf		सीस पत्र
lead covered cable		सीसा रक्षित केबल	lead network		अग्रगामी जाल
lead crown glass		सीसा क्राउन कांच	lead nitrate	<i>Geog.</i>	लेड नाइट्रेट
lead gasoline		सीसित पेट्रोल	lead ochre		सीस गैरिक
leaded zinc		सीसित यशद	lead-out groove	<i>Phy.</i>	वह्निर्वाही खांच
leader	<i>Phy.</i> <i>Geog.</i>	अग्रग लीडर (चिह्न)	lead pencil		सीसा-पेन्सिल
leader cable	<i>Phy.</i>	मार्गदर्शक केबल, पथदर्शी केबल	lead pigment		लेड वर्णक
leader pass	<i>Chem.</i> <i>(Met.)</i>	नेता पारण	lead poisoning	<i>H.Sc.</i>	सीसा विपाकतता
leader pin	<i>Chem.</i>	नेता पिन	lead prediction	<i>Phy.</i>	अग्रदिक् दर्शन
leadership	<i>Geog.</i>	नेतृत्व	lead-press curve	<i>Chem.</i>	सीस-निपीड संसाधन
leader tape	<i>Chem.</i> <i>(Text.)</i>	नायक फीता, नेता टेप	lead ratio	<i>Geol.</i>	सीसा-अनुपात
lead glance	<i>Geol.</i>	सीसा-ग्लान्स	lead response		सीस अनुक्रिया
lead glass		सीसा-काच	leads	<i>Phy., Chem.</i>	चालक तार
lead glazed		लेड काचित	lead screw		अग्रग पेंच
lead gray		सीसा-धूसर	lead shot	<i>Phy.</i>	सीसा-गोलिका
leadhillite	<i>Geol.</i>	लेडहिलाइट	lead styphnate		लेड स्टिफनेट
lead-in	<i>Phy.</i>	अंतर्वाही तार	lead thorium-age	<i>Geol.</i>	सीसा थोरियम आयु
leading	<i>Phy.</i>	अग्रग	lead-time	<i>Math., Phy.</i>	अग्रता काल
leading coefficient		अग्रग-गुणांक	lead tong		अग्र संदर्शिका, अग्र चियदा
leading current		अग्रगामी धारा	lead tree	<i>Geol.</i>	सीसा गुच्छ, लेड ट्री
leading decision		प्रमुख निर्णय	lead tubing		सीसा-नली
leading diagonal		अग्रग विकर्ण	lead uranium age		सीसा यूरेनियम आयु
leading differences		अग्रग अंतर	lead uranium method		सीसा यूरेनियम विधि
leading edge		अग्रग कोर	lead vitriol		सीसा काचर
leading edge pulse time		अग्रग कोर स्पंद काल	leaf	<i>Bot.</i> <i>Chem.</i>	पत्र, पर्ण, पत्ती, पत्ता वर्क, पत्र
leading filament		अग्रवर्ती तंतु	leaf base		पर्णाधार
leading ghost		अग्रग अवांछित प्रतिबिंब	leaf blight		पर्ण क्षीणता
leading load		अग्रगामी लोड	leaf blight of pear		नाशपाती की पर्ण क्षीणता
leading power	<i>Geog.</i>	प्रधान शक्ति	leaf blister		पर्ण फफोला रोग
lead in-groove	<i>Phy.</i>	अंतर्वाही खांच	leaf blotch disease		पर्ण धब्बा रोग
			leaf butterfly	<i>Zool.</i>	पर्णाभ तितली
			leaf buttress		पर्णाधार
			leaf by leaf injection	<i>Geol.</i>	पत्तानुपत्र अंतःक्षेपण
			leaf crown		पर्ण किरीट

leaf curl (disease)		पर्ण-कुचन	Lea-Gray-Platzman radiolysis model	Chem.	ली-ग्रे-प्लात्ज़मन विकिरणोपान प्रतिरूप
leaf cushion		पर्ण-गद्दी	Leahy-no-blind screen	Geol.	लीही ब्लाइन्ड स्क्रीन
leaf diseases of coffee		काफी का पर्ण रोग	leak	Chem. (Plastics)	(V) चुना, लीक करना (II) रिसन रेखा, च्यवन रेखा
leaf-drop streak virus	Bot.	पत्रपतन रेखा विषाणु	leakage		च्यवन, क्षरण, लीक
leaf eating caterpillar	Zool.	पातभक्षी इल्ली, पर्णाहारो इल्ली	leakage conductance		क्षरण चालकता
leaf fibre	H Sc.	पर्ण रेशा	leakage control		क्षरण नियंत्रण
leaf file		पर्ण सचिका	leakage current		क्षरण धारा
leaf filter		पत्र-निस्त्यदक	leakage factor		क्षरण गुणांक
leafhopper	Zool	पातफुदक	leakage flux		क्षरण अभिवाह
leafing		1 पत्रण 2. (Met.) कण-समूहन	leakage inductance		क्षरण प्रेरकत्व
leaf insect	Zool.	पर्णाभि कीट	leakage reactance		क्षरण प्रतिघात
leaflet	Biol. H.Sc.	पर्णक, पत्रक	leakage resistance		क्षरण प्रतिरोध
leaf-like shape	Geog.	पर्णमदृश आकृति	leakages		क्षरण
leaf miner	Zool	पर्ण सुरगक	leak detector		क्षरण समुचक
leaf-mottling		पर्ण-कवुरता	leak transformer		क्षरण ट्रांसफार्मर, क्षरण परिवर्तक
leaf product method		पर्ण उत्पाद विधि	leak vibroscope		च्यवन कम्पनदर्शी
leaf punch method		पर्ण छेदन विधि	leaky pipe antenna		क्षरण नलिका ऐन्टेना
leaf roll (disease)		पर्ण बेत्लन	leaky wave antenna		क्षरण तरंग ऐन्टेना
leaf rolling mosaic		पर्ण बेत्लनी किमोर	leaky wave guide		क्षरण तरंग पथक
leaf scald		पर्ण दाह	lean	Geol	अथअयस्क
leaf scar		पर्ण दाग	lean clay	Geog	तनु मृत्तिका
leaf scorch		पर्ण परिदाह	Leander	Zool	लियेन्डर
leaf-sheath		पर्णच्छद	Leander serratus		लियेन्डर सेरेटस
leaf size class		पर्ण माप वर्ग	Leander styliferus		लियेन्डर स्टाइलिफेरस
leaf spine		पर्णशूल	lean land	Geog	नील लैंड (बजर भूमि)
leaf spot		पर्ण चित्ती	lean oil	Chem.	कृष तैल
leaf spot of apple		सेब की पर्ण चित्ती	lean ore	Geol.	अथ अयस्क
leaf spot of cherries		चेरी की पर्ण चित्ती	lean tissue	H Sc	तनु ऊतक
leafstalk		पर्णदन्त	lean-to	Geog.	सायदान
leaf teeth		पर्ण दंत	leap	Geol.	कोटन
leaf test time		पर्ण परीक्षण अवधि	leap frogging	Phy.	मडूक प्लुति, लीप क्रापिंग
leaf trace		पर्ण-अनुपप, पर्ण ट्रेस	leap frog test		मडूक प्लुति परीक्षण
leaf warbler	Zool.	पर्ण फुदकी	leap ore	Geol.	निकृष्ट अथ-अयस्क
leaf worm		पर्ण-कृमि			
leafy gall		पर्ण गाल			

leap year		लीप वर्ष	"leaved structure"	<i>Phy.</i>	पत्रिल संरचना
learning curve	<i>Math.,Phy.</i>	अधिगमन वक्र	leavening	<i>H.Sc.</i>	किण्वन
learning machine		अधिगम मशीन	leaving	<i>Geol.</i>	अवशिष्ट
learning theory		अधिगम सिद्धांत	lea yarn	<i>H.Sc.</i>	लीसूत्र
leasow	<i>Geog.</i>	लीसाँ (शाद्वल)	Lebedeff system	<i>Chem.</i>	लैबेडेफ पद्धति
least	<i>Math.,Phy.</i>	न्यूनतम, अल्पतम, लघुतम	Le Bel-Van't Hoff theory	<i>Chem.</i>	लवैल-वान्ट हॉफ सिद्धान्त
least action		न्यूनतम क्रिया	lebensraum	<i>Geog.</i>	वास-स्थान, लेवेन्सराउम
least common multiple (LCM)		लघुतम समापवर्त्य, लघुतम	Lebesgue chain	<i>Math.</i>	लेबेग-शृंखला
least count (of a vernier)		अल्पतमांक	Lebesgue decomposition		लेबेग-वियोजन
least element		न्यूनतम अवयव	Lebesgue integral		लेबेग समाकल
least path		अल्पतम पथ	Lebesgue measurable function		लेबेग मेय फलन
least positive residue		न्यूनतम धन अवशेष	Lebesgue measurable set		लेबेग मेय समुच्चय
least significant character		अल्पतम सार्थकता संप्रतीक	Lebesgue measure		लेबेग माप
least splitting field		न्यूनतम विभाजक क्षेत्र	Lebesgue number		लेबेग संख्या
least square		न्यूनतम वर्ग	Lebesgue's constants		लेबेग अचर
least square estimate		न्यूनतम वर्ग आकल	Lebesgue's covering lemma		लेबेग-आवरण प्रमेयिका
least square refinement		लघुतम वर्ग परिष्कार	Lebesgue Stieltjes integral		लेबेग-स्टील्जे समाकल
least square approximation		न्यूनतम वर्ग सन्निकटन	Lebesgue Stieltjes measure		लेबेग स्टील्जे माप
least strain axis		न्यूनतम विकृति अक्ष	Leblanc's process	<i>Chem.</i>	लेब्लां प्रक्रम
least subalgebra		न्यूनतम उपबीजावली	<i>Lecanora alphoplaca</i>	<i>Bot.</i>	लेकनोरा ऐल्फोप्लेका
least upper bound		न्यूनतम उपरि परिबंध	<i>Lecanora atra</i>		लेकनोरा ऐट्रा
leat	<i>Geol.,Geog.</i>	लीट, कुल्या	Lecanoraceae	<i>Bot.</i>	लेकनोरेसी
leath	<i>Geol.</i>	लीथ	Lecanorales	<i>Bot.</i>	लेकनोरेलीज
leather	<i>Chem.,H.Sc.</i>	चर्म, चमड़ा	lecanoric acid	<i>Chem.</i>	लेकनोरिक अम्ल
leather cloth		चर्म वस्त्र	lecanorine	<i>Bot.</i>	लेकनोरा सम
leathering		चर्मण	Le Chatelier's principle	<i>Chem.</i>	ला-शातैलिए का नियम
leather rot		चर्म विगलन	Le Chef-lieu Communal	<i>Geog.</i>	ले शेफ लियू कम्युनल, लघु नगर
leather scrap		चर्म उच्छिष्ट	Lecher's wire	<i>Phy.</i>	लैचर का तार
leather silk		चर्म रेशम (वस्त्र)	Lechlanche cell	<i>Phy.</i>	लैकलांशे सेल
leatherstone	<i>Geol.</i>	चर्म ऐंस्वैस्टल, लैदरस्टोन	Lecideaceae	<i>Bot.</i>	लैसिडिऐसी
leather tanning		चमड़ा कमाना, चर्म कर्म	Lecideales		लैसीडिऐसीज
leather technology		चर्म शिल्प			
leather waste		चर्म अपशिष्ट, चमड़ा रद्दी			
leatherwove	<i>H.Sc.</i>	लेदरवोव			
leathery fungus	<i>Bot.</i>	चर्मिल कवक			

<i>Lecidea tessellata</i>		लेमीडिया टैसीलेटा	leek green		लीक हरित
lecideine, lecideiform	Bot.	लैसोडिया सम	lee-seite		प्रतिपवन दिशा
lecithin	H.Sc.	लैमिथिन	lee shore		प्रतिपवन तट
lecithinase	Chem.	लैसिथिनेस	lee side		प्रतिपवन पार्श्व
lecithoprotein	Zool.	लैसोयोप्रोटीन	lee spot		प्रतिपवन स्थान
lecithotrophic	Zool.	पीतकपोषित	leet	Geog.	लीट
Leckie process	Chem.	लैकी प्रक्रम	leeward	Geog.	प्रतिपवन
lectotype	Zool., Geol.	चयनप्ररूप	leeward shore		प्रतिपवन-तट
Lecythydaceae	Bot.	लेसोथिडैसी	leeway	Chem.	अपमागं
<i>Lecythis grandiflora</i>	Bot.	लेसीथिस ग्रॅन्डीफ्लोरा	left almost periodic		वाम आवर्तप्राय
Leda	Zool.	लीडा	left aortic arch		वाम धमनी-चाप
ledeburite	Chem. (Met)	लैडबुराइट	left apical lobe		वाम श्रेण पालि
Leden's method	Chem.	लैडन रीति	left atrium		वाम अलिद
ledererite	Geol.	लेडेरेराइट	left auricle		वाम अलिद
Lederer-Manasse reaction	Chem.	लैडेरर-मानसे अभिक्रिया	left bronchus		वाम श्वसनी
lederite	Geol.	लेडेराइट	left carotid artery		वाम धीवा धमनी
lederkyn	Chem.	लैडकिन	left class	Math.	निम्नवर्ग
ledge	Geol.	शिरानिक्षेप	left coelomic pouch		वाम गुहा घाती
ledge-marked cliff	Geog.	कगाराकित भृगु	left coset		वाम सहसमूच्चय
ledge of ionization	Geol.	आयनन-फलक	left distributive law		वाम बटन नियम
ledgerless bookkeeping	Math.	खातारहित बही-पद्धति	left face		बायाँ फलक, वाम फलक
ledger wall	Geol.	वाधार-भित्ति	left hand curvature		वाम वक्रता
ledmorite	Geol.	लैडमोराइट	left handed		वामावर्त
Ledocarpsaceae	Bot.	लीडोकार्पेसी	left handed ruled surface	Math.	वाम रेखज पृष्ठ
Ledocarpon	Bot.	लीडोकार्पोन	left handed screw	Phy.	वामावर्ती पेंच
ledol	Chem.	लीडॉल	left hand rule	Phy.	वामहस्त नियम
Ledoux model	Math.	लेडो-निदर्श	left hand screw		वामावर्ती पेंच
ledrite	Chem.	लैडराइट	left hand taper		वामावर्ती टेपर
Leduc effect	Chem., Phy.	लेडुक प्रभाव, लेडुक निष्पत्ति	left hand topology	Math.	वामसंस्थिति
lee	Geol., Geog.	प्रतिपवन	left Harr measure		वाम हार-माप
leech	Zool., H.Sc.	लीक, जलुका	left ideal		वाम गुणजावली
lee dune		प्रतिपवन दिग्दा	left invariant matrix		वाम निश्चर मैट्रिक्स
lee end		प्रतिपवन-सिरा	left inverse		वाम प्रतिलौम
leek	H.Sc.	लीक (प्याजनुमा पौधा)	left inverse element		वाम प्रतिनोभ अवयव
			left inverse operator		वाम प्रतिनोभ संकारक
			left justify	Math.	वामोचितन्यास
			left lung		वाम फुफुस, बायाँ फेफड़ा

left mantle lobe		वाम प्रावार पालि	legendary land	<i>Geog.</i>	पौराणिक प्रदेश
left multiplication		वाम गुणन	legend map		निर्देशिका मानचित्र
left nidamental gland		वाम अंडावरण-ग्रंथि	Legendre's associated equation	<i>Math.</i>	सहचारी लेजान्द्रे समीकरण
left pleural ganglion		वाम फुफ्फुस गुच्छिका	Legendre's associated function		सहचारी लेजान्द्रे-फलन
left pulmonary aorta		वाम फुफ्फुस महाधमनी	Legendre's coefficient		लेजान्द्रे गुणांक
left quotient		वाम भागफल	Legendre's relation		लेजान्द्रे-सम्बन्ध
left-reading map		वामपाठी मानचित्र	Legendre's theorem		लेजान्द्रे-प्रमेय
left regular realisation		वाम नियमित प्रापण	Legendre symbol		लेजान्द्रे प्रतीक
left signal		वाम संकेत, वाम सिग्नल	leggy	<i>Zool.</i>	दीर्घपदी
left stereo channel		वाम स्टीरिओ चैनल	leghemoglobin	<i>Bot.</i>	लेगहीमोग्लोबिन
left subclavian artery		वाम अधोजन्तुक धमनी	leghorn	<i>Geog., H.Sc.</i>	लेगहार्न
left systemic artery		वाम दैहिक धमनी	legibility	<i>Geog.</i>	सुवाच्यता
left translate		वाम स्थानांतरित	legionary	<i>Geog.</i>	सैन्य दल
left translation		वाम स्थानांतरण	legislative body	<i>Geog.</i>	विधान-संस्था
left uniformity		वाम परिवेशक	legit	<i>Bot.</i>	संग्राही, संग्राहक
left vector space		वाम सदिश समष्टि	legitimate variable	<i>Math.</i>	अकृत्रिम विचर
left ventral lobe		वाम अधरपालि	leg joints		टांग संधि, पाद संधि
left visceral ganglion		वाम अंतरंग गुच्छिका	leg length	<i>Phy.</i>	भुजा की लम्बाई
leg	<i>Zool.</i>	1. टांग, पाद	legume	<i>Bot., H.Sc.</i>	शिव, फली
	<i>Geol., Geog.</i>	2. (mining) पादस्तंभ			
legacy		रिजय	legumelin		लेग्युमेलिन
leg adjustment	<i>Geog.</i>	पाद समायोजन	legumes mosaic	<i>Bot.</i>	शिबी पादप किर्मीर
legal character	<i>Phy.</i>	मान्य संप्रतीक	legumin	<i>H.Sc.</i>	लेग्युमिन
legal code	<i>Geog.</i>	विधि संहिता	Leguminosae	<i>Bot.</i>	लेग्युमिनोसी
legal credit	<i>H.Sc.</i>	वैध उधार	leguminous	<i>Bot., H.Sc., Geog.</i>	शिबी, फलीदार
legal expert		विधि-विशेषज्ञ			
legal ohm	<i>Phy.</i>	वैध ओम	leguminous crop		शिबी सस्य, फलीदार फसल
legal procedure		वैध प्रक्रिया			
legal reserve		वैध आरक्षित	lehr (= leer = lear)	<i>Chem. (Gl.)</i>	लियर
Legal's test	<i>Chem.</i>	लीगल संपरीक्षण			
legal transaction		वैध लेन-देन	lehr loader		लियर उद्भारित्र
legatee	<i>H.Sc.</i>	वसीयतदार	Leibig's law of minimum	<i>Zool.</i>	लाइबिग का न्यूनतम सिद्धान्त
legato injection	<i>Geol.</i>	सम्बद्ध अंतःक्षेपण	Leibnitz formula	<i>Math.</i>	लाइबनिट्स-सूत्र
leg bud		पाद मूकुल	leicester sheep	<i>H.Sc.</i>	लीसेस्टर भेड
leg curve	<i>H.Sc.</i>	टांग की गोलाई	leidleite	<i>Geol.</i>	लीडलाइट
legend	<i>Geol., Geog.</i>	निर्देशिका	leftite	<i>Geol.</i>	लीफाइट

<i>Lelognathus splendens</i>	Zool.	लीओग्नैथस स्प्लेन्डेन्स (कारल)	Lenard ray	Phy.	लेनार्ड-किरण
leimicolous	Bot.	आर्द्रशादल वासी	Lenard tube		लेनार्ड नलिका
leitotrichous	Geog	1 सुचिचकण केश 2 चिकने बालो वाला	length	Phy.	लम्बाई
Leishmania	Zool ,H Sc	लीशमैनिया	length contraction	Phy.	दैर्घ्य संकोच
<i>Leishmania chamaelonis</i>		लीशमैनिया कैम्पीलोनिंस	lengthening		दीर्घीकरण
<i>Leishmania donovani</i>		लीशमैनिया डोनोवे- नार्ई	lengthening bar	Geog	लम्बक छड़ी
leishmaniasis	Zool	लीशमैनिता	length mean		लम्बाई माध्य
<i>Leishmania tropica</i>		लीशमैनिया ट्रॉपिका	length of a module		प्रतिरूपक की लम्बाई
Leitneriaceae	Bot	लीटनेरिएसी	length of an ideal		गुणजावली की लम्बाई
Leitneriales	Bot	लीटनेरिएलीज	length of a normal series		प्रसामान्य श्रेणी की लम्बाई
lelithol	Chem	लेकीयॉल	length of displacement		विस्थापन-लम्बाई
L-electron	Phy	L-इलेक्ट्रॉन	length of flight line	Geog.	उड़ान रेखा की दूरी
lembah	Geog.	लेम्बाह	length of run	Math	परम्पराक
Lemery's experiment	Chem	लेमरी प्रयोग	length of shot	Geog.	पराम दूरी
Lemieux oxidation	Chem.	लेम्य ऑक्सीकरण	lengthwise section	Geol	अनुदैर्घ्य काट
leminar graphite	Geol	लेमरिन ग्रेफाइट	Lennard-Jones potential function	Chem.	लेनार्ड-जोन्स विभव फलन
lemma		प्रमेयिका, लेमा	lennite	Geol.	लेनिलाइट
<i>Lemmus lemmus</i>	Zool	लेमस लेमस	leno	H Sc.	लेनो
lemniscal ring	Zool	लेगुड वलय	leno brocade		लेनो ब्रोकेड
lemniscate	Geol , Bot	द्विपाशी, लेमनिस्केट	leno weave	H Sc.	लेनो वयन
lemniscate curve	Geog.	द्विपाशी वक्र	lens	Phy	लेन्स
lemniscus	Zool.	लेगुड	lens aberration		लेन्स-विपयन
lemonade	Geog ,H Sc.	लेमोनेड, नीबू-जल	'lens' action		लेन्स क्रिया
lemon butterfly	Zool.	निबू तितली	lens antenna		लेन्स एन्टेना
lemon chrome	Chem	लेमन क्रोम	lens cap		लेन्स की टोपी
lemon pickle	H.Sc.	निबू अचार	lens combination		लेन्स-योग
lemon squash	H.Sc.	लेमन स्ववॉश	lens cone		लेन्स शंकु
lemon yellow		निम्बू पीत	lens-cylinder		लेन्स-सिलिंडर
lemur	Zool	लेमर, लेम्प्यूर	lens disc		लेन्स मंडलक
Lemuridae	Zool.	लीमुरिडी	lens drum		लेन्स ड्रम
lemuriform		लीमुराभ	lens drum scanner		लेन्स ड्रम फ़मबोस्कर
Lemuriformes		लीमुरिफॉर्मिज	<i>Lens esculenta</i>	Bot.	लेन्स एस्क्युलेन्टा (अमूर)
Lemuroidea		लीमुरॉइडिया	lens formula		लेन्स सूत्र
			lens fronted tubing		लेन्स मुख नलिका



lens front thermometer		लेन्सपृष्ठी तापमापी	lenticinose	Bot.	सूक्ष्मबिन्दुकित
lens gauge		लेन्सगेज, लेन्समापी	lentil	Geol.,H.Sc.	1. मसूर 2. लेन्टिल
lens grinding		लेन्स की घिसाई	<i>Lentinus tigrinus</i>	Bot.	लेन्टिनस टिग्रिनस
lens hood (=camera hood)	Phy.	कैमरा हुड	lentisk	H.Sc.	लेंटिस्क
lens mount		लेन्स आरोप	lento-capillary point	Geog.	लेंटो कैपिलरी बिन्दु
lensometer		लेन्समापी	<i>Lenzites betulinus</i>	Bot.	लेन्जाइटोज वेटुलाइनस
lens out	Geol.	लेन्सी लोपन	Lenz's law	Phy.,Chem.	लेन्ज नियम
lens placode		लेन्स स्थाली	Leo	Astron.	सिंह, लिओ
lens screen		लेन्स आच्छादक	leochromous	Bot.	सिंहवर्णी
lens shaped	Geol.	मसूराकार, लेन्सरूपी	<i>Leodice fucata</i>	Zool.	लियोडिस फ्यूकेटा
lens space		लेन्स-समष्टि	Leo minor	Astron.	लिओ माइनर
lens stop		लेन्स स्टॉप	leonite	Chem.	लीओनाइट
lens turret		लेन्स टरेंट	leonitis		लियोनाइटिस
lens vesicle		लेन्स आशय	leontine	H.Sc.	लियोन्टाइन
lenten cake	H.Sc.	लेन्टेन केक	leopard	Zool.	चीता, तेंदुआ
Lentibulariaceae	Bot.	लैन्टीबुलेरिएसी	leopard cat		चीता मार्जार
lentic	Zool.	सरोजीवी (स्थिरजलीय)	leopardite	Geol.	लिओपार्डाइट
lentic community		सरोजीवी समुदाय	leopard spot	Chem.	चित्रक कलंक, चीता कलंक
lenticel	Bot.	वातरंध	lepanthium	Bot.	भकरंददल
lentic environment	Zool.	सरोवातावरण	Lepas	Zool.	लीपेस
lenticle	Geog.	लैन्टीकिल	<i>Lepas anatifera</i>		लीपेस एनाटिफेरा
lenticular	Bot.,Geol.	मसूराकार	leper	H.Sc.	कुष्ठी
lenticular aperture		मसूराकार छिद्र	leperditioid	Geol.	लेपरडोटियाभ
lenticular cloud		मसूराकार मेघ	lepideous	Bot.	दन्तचक्री
lenticular form		मसूराकार	lepidine	Chem.	लेपीडीन
lenticular hillock		मसूराकार गिरिका	lepidoblastic	Geol.	पत्तब्लास्टी, लेपिडोब्लास्टी
lenticular process		लेन्टिक्यूलीय प्रक्रम, मसूराभासीय प्रक्रम	Lepidobotryaceae	Bot.	लेपीडोबोट्रिएसी
lenticular space		मसूराकार अंतराल	Lepidocarpon	Bot.	लेपीडोकार्पन
lenticular vein		मसूराकार शिरा	Lepidocentroida	Zool.	लेपीडोसेन्ट्रॉपडा
lenticulation		मसूराभायन	lepidocrocite	Geog.,Geol., Chem.	लेपीडोक्रोसाइट
lenticule	Geol.,Phy.	1. मसूराभासी 2. मसुरिका	lepidocyclina	Geol.	लेपिडोसाइक्लिना
lentic waters	Zool.	सरोजल	<i>Lepidocyclina mantelli</i>		लेपिडोसाइक्लिना मैन्टेलाई
lentiform		मसूराकार			
lentigen layer		मसूरजन स्तर			

lepidocycline	Geol.	लेपिडोसाइक्लीनसम	<i>Lepisosteus</i>	Zool.	लेपिसोस्टियस
lepidocycline embryonic apparatus	Geol	लेपिडोसाइक्लीन भ्रूणीय उपकरण	<i>platystomus</i>		प्लेटोस्टोमस
lepidodendraceous	Bot.	लेपिडोडेन्ड्रनी	<i>Lepisosteus</i>		लेपिसोस्टियस
Lepidodendreae	Bot.	लेपिडोडेन्ड्री	<i>tristoechus</i>		ट्राइस्टोकस
lepidodendroid	Bot.	लेपिडोडेन्ड्रनसम	Lepol system	Geol.	लेपोल पद्धति
lepidodendroid cone		लेपिडोडेन्ड्रनसम शकु	Leporidae	Zool.	लेपोरिडी
Lepidodendron	Bot.	लेपिडोडेन्ड्रन	Lepospondyl	Geog.	लेपोस्पान्डिल
lepidoid	Bot.	शल्काम	Lepospondyli	Zool	लेपोस्पान्डाइली
lepidolite	Geol.	लेपिडोलाइट	lepospondylid radiation	Zool.	तुषकशोश्की विकिरण
lepidomelane	Geol.	लेपिडोमेलान	lepospondylous vertebra	Zool.	तुषकशोश्क
lepidophagy	Zool	शल्काहारिता	<i>Lepraria flava</i>	Bot.	लेप्रेरिया फ्लेवा
Lepidophylloides	Bot.	लेपिडोफिलाइडोइज	leprose (=leprous)	Bot	शल्की
lepidophyllous	Bot.	शल्कपर्णी	<i>Leptadenia spartium</i>	Bot	लेप्टेडेनिया स्पार्टियम
Lepidoptera	Zool.	लेपिडॉप्टेरा (शल्कपखी गण)	leptiform	Zool	तनुरूप
lepidopteran		शल्कपखी	<i>Leptispa pygmaea</i>	Zool.	लेप्टिस्पा पिग्मिया
lepidopterac acid	Zool	लेपिडॉप्टेरिक अम्ल, शल्कपखी अम्ल	leptite	Geol	लेप्टाइड
lepidopterin		लेपिडॉप्टेरिन	leptocaulous	Bot.	अप्यु-अक्षी
lepidopterous		लेपिडॉप्टेरीय, शल्कपखीय	leptocentric	Bot.	पोषवाह केन्द्री
Lepidosiren	Zool.	लेपिडोसाइरेन	Leptocephalus larva	Geog.	लेप्टोसिफैलस-लारवा
<i>Lepidosiren paradoxa</i>		लेपिडोसाइरेन पैराडॉक्सा	Leptocheila	Zool.	लेप्टोकीलिया
Lepidosteidae	Zool	लेपिडोस्टाइडी	leptochlorite	Geol.	लेप्टोनलोराइट
Lepidosteus	Zool	लेपिडोस्टियस	leptoclados	Bot.	तनुशाखी
Lepidostrobos	Bot	लेपिडोस्ट्रोबस	<i>Leptocorisa acuta</i>	Zool	लेप्टोकोरिसा एक्युटा
lepidote	Bot	शल्करोमी	<i>Leptocorisa varicornis</i>		लेप्टोकोरिसा वैरीकोरिस
lepidotrichium	Zool.	शल्कअर	leptocystidium	Bot	लेप्टोनिसिटिडियम
Lepiduris	Zool.	लेपिड्यूरिस	leptodactylid	Bot	लेप्टोडैक्टाइलिड
<i>Lepidurus</i>	Zool.	लेपिड्यूरिस	leptodactylous	Zool	तनुअगुत्ति
<i>Lepidurus glacialis</i>		लेपिड्यूरिस ग्लेसिएलिस	Leptodactylus	Zool	लेप्टोडैक्टाइलस
lepis	Zool.	शल्कल	<i>Lepidactylus</i>		लेप्टोडैक्टाइलस
Lepisma	Zool	लेपिस्मा	<i>pentadactylus</i>		पेन्टाडैक्टाइलस
<i>Lepisma saccharina</i>		लेपिस्मा सॅकेरिना	Leptodora	Zool.	लेप्टोडोरा
Lepismatidae	Zool.	लेपिस्मैटिडी	lepto form	Bot.	अगुत्ति सधु-प्ररूप
Lepisosteidae	Zool	लेपिस्तेस्टिडी	(=lepto type)		

<i>Leptogium azureum</i>	Bot.	लेप्टोजिअम ऐजूरीअम	leptosome	Zool.	लेप्टोसोम, तनुकाय
leptoid	Bot.	पोपवाह कोशिका	<i>Leptospira biflexa</i>	Bot.	लेप्टोस्पाइरा वाइपलेक्स
leptokurtic	Math.	तुंगककुदी	leptospirosis	Zool.	लेप्टोस्पाइरता
leptokurtic curve		तुंगककुदी वक्र	Leptospondyli	Zool.	लेप्टोस्पोन्डिलाइ
leptokurtic distribution		तुंगककुदी वंटन	leptosporangiate fern	Bot.	तनुवीजाणुधानीय पर्णांग, लेप्टोस्पोरेंजिएट फ़र्न
leptokurtosis		तुंगककुदता	leptosporangium	Bot.	लेप्टोवीजाणुधानी, तनुवीजाणुधानी
<i>Leptolegnia caudata</i>	Bot.	लेप्टोलेग्निया काँडेटा	Leptostraca	Zool.	लेप्टोस्ट्रेका
leptom		पोपवाहोतक	leptostracan	Zool.	तनुपुष्टवर्मी, लेप्टोस्ट्रेकन
Leptomedusae (Thecata)	Zool.	लेप्टोमेड्यूसी (थीकेटा)	Leptostromataceae	Bot.	लेप्टोस्ट्रोमेटेसी
leptometer		लेप्टोमापी, लेप्टोमीटर	leptotene	Zool.	तनुपट्ट, तनुसूत
leptomin	Bot.	लेप्टोमिन	leptotene stage		तनुपट्ट अवस्था
<i>Leptomitus lacteus</i>	Bot.	लेप्टोमिनस लेक्टियस	leptothermal	Geol.	अल्पमध्यतापीय
leptomonad form	Zool.	तनुएकक रूप	leptothermal deposit		अल्पमध्यतापीय निक्षेप
Leptomonas	Zool., H.Sc.	लेप्टोमोनास	<i>Leptothrix crassa</i>	Bot.	लेप्टोथ्रिक्स क्रैसा
<i>Leptomonas ctenocephali</i>		लेप्टोमोनास टीनोसेफ़लाई	<i>Leptothyrium pomi</i>	Bot.	लेप्टोथाइरियम पोमाइ
<i>Leptomonas patellae</i>		लेप्टोमोनास पटेली	leptotichus	Bot.	तनुभित्ती
leptomonas type		लेप्टोमोनास प्ररूप	leptoxylem	Bot.	तनुदार
leptomorphic	Geol.	अल्परूपी	leptynite	Geol.	लेप्टीनाइट
Leptomysa	Zool.	लेप्टोमिक्सा	Lepus	Zool.	लीपस
lepton	Chem., Phy.	लेप्टॉन	<i>Lepus nigricollis</i>		लीपस निग्रीकोलिस (खरगोश)
leptonema	Zool.	तनुसूत्र, लेप्टोनीमा	<i>Lepus ruficaudatus</i>		लीपस रूफीकाँडेटस
lepton mantle	Bot.	तनुवाह प्रावार	lepyrodophyte	Bot.	पपंटोद्भिद्
lepton number	Phy.	लेप्टॉन संख्या	Leray system	Math.	लीरे-निकाय
leptophragma	Zool.	तनुवृत्ति	Leray theorem		लीरे प्रमेय
leptophyll	Bot.	तनुपर्ण	Lernaea	Zool.	लैरिना
leptophyllous		तनुपर्णी	Le Roy dots		लरॉय बिन्दुक
<i>Leptopsylla segnis</i>	Zool.	लेप्टोप्सिला सेग्निस	Leroy pen	Geog.	लरॉय लेखनी
Leptopsyllidae	Zool.	लेप्टोप्सिलिडी	lesamite	Chem.	लैसामाइट
<i>Leptoptilos dubius</i>	Zool.	लेप्टोप्टाइलोस ड्यूवियस	*Lesath (= v Scorpii)	Astron.	लैसैथ (= v वृश्चिक, v स्कापिआइ)
<i>Leptoptilos javanicus</i>		लेप्टोप्टाइलोस जावानिकस	lescin	H.Sc.	लैसिन
leptorrhine	Geog.	पतली नाक	lesion	Biol., H.Sc.	विक्षत
leptorrhiniuna type	Geog.	पतली नाकवाला	Lespedeza	Geog.	लेस्पिडेजा (घास)
Leptosomatidae	Zool.	लेप्टोसोमेटिडी			

lesser aorta	Zool	लघु महाधमनी	letter symbol	अक्षर प्रतीक
lesser florican	Zool	छोटा फनोरिकन, लघु तृणमयूर	lettuce	Chem., Bot., H Sc. लेट्यूस, सलाद
lesser grain borer		लघु धान्य वेधक	lettuce mosaic	सलाद भोजक, सलाद किर्पीर
Lesser Himalayas	Geog., Geol.	निम्न हिमालय, मध्य हिमालय	lettuce yellow	सलाद पीत रोग
lesser multangular	Zool.	लघु बहुकोणिका	LET value (linear energy transfer)	Chem. रेखिक ऊर्जा अन्तरण मान (रे ऊ वा मान, एल ई टी मान)
lesser trochanter		लघु शिखरिका	<i>Leucadendron argen- teum</i>	Bot. ल्यूकाडेन्ड्रॉन आरजेन्टीग्रम
lesser tubercle		लघु गुलिका	leucaniline	Chem. ल्यूकैनिलीन
lesser whistling teal	Zool.	लघु शीश टोल, लघु शरालि	leucanthous	Bot. श्वेतगुप्पी
lesser wing-covert		लघु पक्षत्रक	leucasin	H Sc. ल्यूकासिन
lesso	H Sc.	लेसो	Leuchs anhydride	Chem. लॉयख एनहाइड्राइड
leste	Geog	लेस्टे (पर्वत)	Leucilla	Zool. ल्यूसिला
let down	Chem.	1. (Paints) बवपातन 2. (Text.) तनुकरण	<i>Leucilla convexa</i>	ल्यूसिला कॉन्वेक्सा
lethal	Biol., H Sc.	घातक	leucine	Bot., H Sc. ल्यूसीन
lethal dosage		घातक मात्रा	<i>Leucinodes orbonalis</i>	Zool. ल्यूसिनोडीस ऑर्बोने- लिस
lethal endpoint		घातक अंतबिन्दु	leucite	Geol. ल्यूसाइट
lethal factor		घातक कारक	leucite basalt	ल्यूसाइट-बेसाल्ट
lethal gene		घातक जीन	leucite bearing lava	ल्यूसाइटघारी लावा
lethal infection		घातक संक्रमण	leucitic	ल्यूसाइटी
lethality		घातकता	leucitite	Geol. ल्यूमिट्टाइट
lethal mutation		घातक उत्परिवर्तन	leucitophyre	Geol. ल्यूसिटोफायर
lethal response		घातक अनुक्रिया	Leuckart reaction	Chem. लायकार्ट अभिक्रिया
'lethal synthesis'		घातक संश्लेषण	leuco	H Sc. ल्यूको
lethane	Chem (Pet)	लीथेन	leucoanthocyanin	Bot. ल्यूकोऐन्थोसाएनिन
lethargy	Bot.	निष्क्रियता	leucobase	Bot. ल्यूकोबेस, अवर्ण धारक
<i>Letharia vulpina</i>	Bot	लेथेरिजा वल्पाइना	leucoblast	Zool. श्वेताणुकोरक
letona	H.Sc.	लेटोना	leuco compound	Chem. निवर्ण यौगिक
letter	Phy	अक्षर	<i>Leucocoprinus molybdites</i>	Bot. ल्यूकोकोप्रिअइनस मॉलिब्डाइटिस
letter direction		अक्षर-निर्देश	leucocratic	Geol. अक्षरवर्णी
lettering	Geog	अक्षर-लेखन	leucocyanin	Bot. ल्यूकोसाएनिन
lettering mask		अक्षरलेख प्रच्छादन	leucocyte	Zool. ल्यूकोसाइट, श्वेताणु
lettering pen		अक्षरलेखनी	leucocytogenesis	Zool. श्वेताणुजनन
letter notation		अक्षर संकेत पद्धति	leucocytosis	श्वेताणुवृद्धता, श्वेताणुता
letter press duplicator	Chem.	अक्षर मुद्र प्रतिलिपित्र, लेटप्रैस प्रतिनिपित्र		
letter press printing	Geog.	लेटर प्रेस मुद्रण, अक्षर- मुद्रण		

Leucocytozoon	Zool.	ल्यूकोसाइटोजोआँन	leucoxene	Chem.	ल्यूकोक्सोन
leucodiorite	Geol.	ल्यूकोडायोराइट	leukaemia	Zool.	अधिश्वेतरक्तता, ल्यूकी- मिया
Leucogaster	Bot.	ल्यूकोगैस्टर	(=leucaemia)		
leucogranodiorite	Geol.	ल्यूको ग्रैनोडायोराइट-	leukaemogenic	Zool.	श्वेतरक्तताजनक
pegmatite		पेग्माटाइट	leukemia	Chem.	ल्यूकीमिया, अतिश्वेत- कोशिका रक्तता
leucogranogabbro	Geol.	ल्यूकोग्रैनोगैब्रो	leukocytosis	Zool.	श्वेताणुता
leucolithic fumarole	Geol.	ल्यूकोलाइटो वाष्पमुख	leukosis (=leucosis)	Zool.	श्वेतरक्तता
leucomelone	Chem.	ल्यूकोमेलोन	leunaphoska	Chem.	ल्यूनाफॉस्का
<i>Leucomeris spectabilis</i>	Bot.	ल्यूकोमैरिस स्पेक्टै- विलिस (फुसारा)	leuna saltpetre	Chem.	ल्यूना-शोरा
leucone		ल्यूकोन	leucophane	Chem. (Met.)	ल्यूकोफेन
leuconoid	Zool.	ल्यूकोनॉयड, ल्यूकाँनाभ	levan	Chem.,H.Sc.	लेवैन
<i>Leuconostoc</i>	Bot.	ल्यूकोनोस्टॉक	levant	Geog.	लेवैंट
<i>citrovorum</i>		सिट्रोवारम	levant and couchant		लेवैंट और काचेंट
<i>Leuconostoc</i>		ल्यूकोनोस्टॉक	levant cotton	H.Sc.	लेवैंट कपास
<i>dextranicum</i>		डैक्स्ट्रेनिकम	levante (=lavanter =llevante =llevantades)		लेवैंट (पवन)
leucon type	Zool.	ल्यकन नाल तंत्र	levantine	H.Sc.	लेवैंटाइन
leucopenia	Zool.	श्वेताणुन्यूनता	levator	Zool.	लिवेटर, उन्नयनी
leucopetrite	Geol.	ल्यूकोपेट्राइट	levator bulbi	Zool.	लिवेटर, बल्बाइ, कन्द उन्नयनी
leucophore	Zool.	ल्यूकोफोर, श्वेतलवक	levator scapulae	Zool.	लिवेटर स्कैप्युली, अंगफ- लक उन्नयनी
leucophyllus	Bot.	श्वेतपर्णी	levee	Geog. H.Sc.	1. तटबंध 2. लेवी
leucoplast	Bot.	अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट	levee ridge		तटबंध कटक
leucoplastid	Chem.	ल्यूकोप्लास्टिड	<i>Leveillula taurica</i>	Bot.	लीवीलुला टॉरिका
leucopoesis	Zool.	श्वेताणुउत्पत्ति, श्वेताणु- मवन	level	Geog.	तल, समतल, क्षैतिज, स्तर
leucopterin	Chem.	ल्यूकोप्टेरिन	level bubble	Geol.	समतल सुरंग, लेवेल
leucopyrite	Geol.	ल्यूकोपाइराइट	level-course	Geol.	लेवल बुलबुला
leucosin	Chem.	ल्यूकोसिन	(coal mining)	Geol.	समतल मार्ग
Leucosolenia	Zool.	ल्यूकोसोलीनिया	level crossing	Geog.	समपार, समतल पारण
leuco-sosolic acid	Bot.	ल्यूको-सोसोलिक अम्ल	level curve		स्तर वक्र
leucosphenite	Geol.	ल्यूकोस्फीनाइट	level diagram		1. स्तर आरेख 2. तल आरेख
leucospore	Bot.	अवर्णी बीजाणु, ल्यूको- बीजाणु	level dyeing	Chem.	एकरूप रंजन
leucotaxin (e)	Chem.	ल्यूकोटैक्सिन	leveler		समतलक
leucotephrite	Geol.	ल्यूकोटेफ्राइट			
<i>Leucothrix linens</i>	Bot.	ल्यूकोथ्रिक्स लाइनेंस			
leucotonalite	Geol.	ल्यूकोटोनेलाइट			
leucovorin	Chem.	ल्यूकोवेरिन			

level flight		क्षैतिज उड़ान	leviathan canvas	H.Sc.	लिवाइएथन कैनवास
level ice		समतल बर्फ	leviathan yarn	H.Sc.	लिवाइएथन सूत
levelled fault		समतलित घ्रथ	levigate	Bot.	चिक्कण, चिकना
leveller		1 समनावादी 2 लेवलर, तलेसक	levigation	Geol.	लेवीगेशन, आर्द्रपिपण
levelling	Geog., Geol	1 तन-मापन 2 समतलन	levigatus	Bot.	चिक्कण, चिकना
levelling bulb		समतलन बल्ब	Levinstein process	Chem	लेविन्स्टाइन प्रक्रम
levelling circuit		तलेक्षण-परिपथ	levis	Bot.	चिक्कण, चिकना
levelling head		समतलन अवयव	Levi's theorem	Math.	लेवी-प्रमेय
levelling instrument		तलेक्षण यंत्र	levitation	Geol	प्रोत्यापन
levelling of high precision		उच्च परिशुद्धता तलेक्षण	Leviton-Leighton equation	Chem	लेविटॉन-लेटन समीकरण
levelling rod		समतलन दंड	levogyrate	Phy.	वामावर्त, वामध्रुवणघूर्णक
levelling screw	Phy.	क्षैतिजकारी पेंच, समतलन पेंच	levopimaric acid		लेवोपिमैरिक अम्ल
levelling solvent		समशायनन विलायक	levorphan	Chem.	लेवोर्फेन
levelling staff		तलेक्षण मापी दंड	levulinate	Chem	लेवूनिनेट
level map		स्तरचित्र	levulinic acid	Chem	लेवूलिनिक अम्ल, लेवूलिनिक एसिड
level net		तल-परिपथजाल	levulose	Bot.	लेवूलोज
level of compensation		भूदाबपूर्ति स्तर	levulosuria	Chem.	लेवूलोममैह
level of confidence		विश्वास्यता स्तर	levynite (levyne)	Chem	लेवीनाइट (लेवीन)
level of control		नियंत्रण स्तर	Lewis theory	Chem	लूइस सिद्धान्त
level of explosion		विस्फोट तल	Lewis acid		लूइस अम्ल
level of saturation		सतृप्ति तल	Lewis and Randall rule		लूइस-रैन्डल नियम
level of significance		सार्थकता का स्तर	Lewis atom		लूइस परमाणु
level spacing		स्तर अंतरान	Lewis base		लूइस क्षारक, लूइस बेस
level spheroid		समतल गोलार्ध	Lewis electronic theory		लूइस इलेक्ट्रॉन वाद
level surface	Phy, Geog	1 क्षैतिज पृष्ठ, समतल पृष्ठ 2 समविभव पृष्ठ	lewis hole	Geol	लेविन छिद्र
level symmetry		तल सममिति	lewisite	Chem	लूइसाइट
level tube nut	Geog	लेवल ट्यूब दिवरी	Lewis-Langmuir octet	Chem.	लूइस-लैंगम्यूर अष्टक
level-vial	Geol	समतलन नलिका	Lewis-Langmuir theory		लूइस-लैंगम्यूर सिद्धान्त
level width		तल परिसर	lawisol	Chem	लूइसॉल
lever	Phy.	उत्तोलक, लीवर	Lewis' fugacity tension	Chem	लूइस फ्यूगैसिटी तनन, लूइस पलायनता तनन
lever arm		उत्तोलक भुजा	lewistonite	Geol.	सेविस्टोनाइट
lever pileup switch		उत्तोलक भुजी स्विच, लीवर भुजी स्विच	lexical feature	Geog.	शाब्दिक सहाय

lexicographically	<i>Math.</i>	कोशक्रमानुसार	<i>Licca</i>	<i>Bot.</i>	लाइसिया
lexicographically ordered vector		कोशक्रमानुसारी सदिश	licensing	<i>Geog.</i>	अनुज्ञापन
lexicographical order		कोश क्रम	Liceopsis	<i>Bot.</i>	लाइसिथॉप्सिस
ley (=lay =lea)	<i>Geog.</i>	ले	lichen	<i>Bot.</i>	लाइकेन, शैक
Leyden jar	<i>Phy.</i>	लीडेन जार	lichenase	<i>Zool.</i>	लाइकेनेस
Leydig's cell	<i>Zool.</i>	लीडिग कोशिका	<i>Lichenes imperfecti</i>	<i>Bot.</i>	लाइकेनीज इम्पेफेक्टाई
Leydig's duct		लीडिग वाहिनी	lichenicolous	<i>Bot.</i>	शैकवासी, लाइकेनवासी
Leydig's gland		लीडिग ग्रंथि	lichenin	<i>Bot.</i>	लाइकेनिन
Leydig's organs		लीडिग अंग	<i>Lichen islandicus</i>		लाइकेन आइलेन्डिकस
ley-farming	<i>Geog.</i>	ले-खेती	lichenology	<i>Bot.</i>	लाइकेनविज्ञान, शैक विज्ञान
<i>Liagora erecta</i>	<i>Bot.</i>	लाएगोरा इरेक्टा	lichenophagous	<i>Zool.</i>	लाइकेनभोजी, शैकभोजी
liaison	<i>H.Sc.</i>	संपर्क	lichesteric acid	<i>Chem.</i>	लाइकेस्टेरिक अम्ल
liaison net	<i>Phy.</i>	सम्पर्क जाल	lick	<i>Geol.</i>	लेहभूमि
liana	<i>Bot.</i>	कठलता	licorice	<i>Geol.,H.Sc.</i>	लीकोरिस
lianous		कठलतात्मक	licorice powder	<i>H.Sc.</i>	लीकोरिस चूर्ण
Liapounoff's inequality		लियापाउनोफ की असमिका	lid	<i>Chem.,H.Sc.</i>	पिघान, ढक्कन, प्रच्छद
liardite	<i>Geol.</i>	लियाडार्डिट	lidar	<i>Phy.</i>	लिडार, लेसर अवरोध रेडार
Liassic	<i>Geog.</i>	लायसिक	lido	<i>Geog.</i>	लीडो, पुलिन
libollite	<i>Geol.</i>	लिबोल्लाइट	Lie algebra	<i>Math.</i>	ली-बीजावली
liber	<i>Bot.</i>	पोषवाह	Lieben reaction	<i>Chem.</i>	लीबेन अभिक्रिया
liberate	<i>Chem.</i>	मुक्त करना, मुक्त होना, निकालना	Liebermann reaction	<i>Chem.</i>	लीबरमान अभिक्रिया
liberation	<i>Geol.</i>	खनिज विमोचन	Liebermann's nitroso reaction		लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया
Liberian ore	<i>Chem.</i>	लाइबेरियन अयस्क	Liebermann Storch test	<i>Chem.</i>	लीबरमान स्टॉर्क संपरीक्षण
liberty	<i>H.Sc.</i>	लिबर्टी	Liebig condenser	<i>Chem.</i>	लीबिग द्रवाणत्र
libethenite	<i>Geol.</i>	लिबेथेनाइट	Liebig-Denige's method	<i>Chem.</i>	लीबिग-डेनिगे पद्धति
Libinia	<i>Zool.</i>	लाइबीनिया	liebigite	<i>Geol.</i>	लीबिगाइट
Libocedrus	<i>Bot.</i>	लिबोसिडरस	Liebmann process	<i>Math.</i>	लीबमान-प्रक्रम
Libra	<i>Astron.</i>	तुला, लाइब्रा	Lie-commutation	<i>Math.</i>	ली-क्रमविनिमयन
library	<i>Phy.</i>	प्रोग्राम संग्रह (कम्प्यूटर)	lie detector	<i>Phy.</i>	झूठ संसूचक
library routine	<i>Phy.</i>	कोशित नेमका	Liege Geneva system	<i>Chem.</i>	लीएज जेनेवा पद्धति
libration	<i>Phy.</i>	बाभासी दोलन	Liege lace	<i>H.Sc.</i>	लीएज लेस
libret	<i>H.Sc.</i>	लिब्रेट	Lie group	<i>Math.</i>	ली-समूह
libriform	<i>Bot.</i>	पोषवाहरूप, पत्तोएमाभ			
'Librium'	<i>Chem.</i>	लिब्रियम			
licanic acid	<i>Chem.</i>	लाइकैनिक अम्ल			

lienogastric artery	Zool	प्लीहाजठर धमनी	lifting force	उत्थापन बल
lienogastric vein		प्लीहाजठर शिरा	lifting line element	उत्थापन रेखा अवयव
Lie product	Math	ली-गुणनफल	lifting line hypothesis	उत्थापन रेखा परिकल्पना
Lie quadric		ली-द्विघाती	lifting plan	Chem उद्वाहन योजना
Liesegang bands	Chem.	लीजेंगाग बैंड	lifting power	उत्थापन क्षमता
Liesegang phenomenon		लीजेंगाग घटना	lifting pressure	उत्थापन दाब
Liesegang ring		लीजेंगाग वलय	lifting pump	उत्थापक पंप
Lie semi-group	Math	ली सामिममूह	lifting surface	उत्थापन पृष्ठ
lievrite	Geol	लीव्राइट	lifting surface theory	उत्थापन पृष्ठ सिद्धान्त
life		1 जीवन 2 (of atom) आयु	lift joint	Geol. भारोपनयन संधि
life-assemblage	Geol	जीव समुच्चय	lift off	Phy. मोचन क्षण
life cycle	Biol.	जीवन चक्र	lift-off velocity	उत्थापन वेग
life embracing cycle		जीवनाभिगी चक्र	lift pump	उत्थापक पम्प
life expectation		जीवन प्रत्याशा	lift reduction ratio	उत्थापक लघुकरण अनुपात
life form		जीव रूप	lift-to-drag ratio	उत्थापन कर्षण अनुपात
life form class		जीव रूप वर्ग	ligament	Geol, Zool, स्नायु H.Sc.
life form dominance		जीव रूप प्रमुखता	ligament sac	स्नायु कोश, स्नायविक कोश
life forms		जीव	ligament strand	स्नायु रज्जुक, स्नायविक रज्जुक
life history		जीवनवृत्त	ligamentum squamoso-columellar	शल्कास्थि स्तम्भिका स्नायु
life insurance		जीवन बीमा	ligamentum teres	गोन स्नायु
life period		आयु	ligand	Chem सलग्नी, लिगण्ड
life province		समप्राणि प्रदेश	ligand bond theory	सलग्नी आवन्ध वाद
life span		जीवन-अवधि	ligand-bridging	सलग्नी सेतुबन्धन
life table	Zool.	वय सारणी	ligand field theory	सलग्नी क्षेत्र वाद
life test		आयु परीक्षण	ligand isomerism	सलग्नी समावयवता
life testing		आयु परीक्षण	light	1 लघु, हल्का, मंद 2 अल्प, लघुक 3 प्रकाश
life zone		जीव कटिबन्ध	light air	मंदवायु
lift	Geol, Phy.	लिफ्ट, उत्थापक	light amplifier	प्रकाश प्रवर्धक
liftability	Chem	उद्वाहना	light beam pick up	प्रकाश निरणपुञ्ज पिक अप
lift coefficient		उत्थापन-गुणांक	light blue	हल्का नीला
lifter arm		उत्थापक	light breeze	मंद समीर
lift-factor		उत्थापन गुणक		
lifting		उत्थापक, उत्थापन		
lifting condensation level	Geog.	वारोही द्रवण तल		
lifting device		उत्थापन युक्ति		



light carburetted hydrogen	अल्प कार्बुरित हाइड्रोजन	light industry	हल्के उद्योग
light carrier injection	प्रकाश वाहक अंतः-क्षेपण	lighting	1. तापानुशीतन 2. प्रकाश करना
light chopper	प्रकाश छिन्नक	lighting area	प्रकाश क्षेत्र
light coloured rock	अल्पवर्ण शैल	light land	हल्की भूमि
light coloured soil	अल्पवर्ण मृदा	light-land farming	हल्की भूमि खेती
light cone	प्रकाश शंकु	light load	हल्का लोड
light controlled oscillator	प्रकाश नियन्त्रित दोलित्र	lightly clouded	<i>Geog.</i> लघुमेघी
light curve	प्रकाश वक्र	lightly coated electrode	अल्पलेपित इलेक्ट्रोड
light doping	अल्प मादन	light meson	हल्का मेसान
light- draft houseboat	लघु कर्षण हाउसबोट	light meter	<i>Phy.</i> लाइटमीटर
light elements	हल्के तत्व	light microsecond	प्रकाश माइक्रो सेकंड, लाइट माइक्रो सेकंड
light emitting	प्रकाशोत्सर्जी	light modulation	<i>Phy.</i> प्रकाशतः मांडुलन
light emitting diode	प्रकाश उत्सर्जक डायोड	light modulator	प्रकाशतः मांडुलक
light ends	लघु प्रभाज, हल्का प्रभाज	light negative (=photo-negative =photo-resistive)	प्रकाशिक चालकता ह्लासक
light energy	प्रकाश ऊर्जा	lightning	<i>Phy.</i> तड़ित्, विजली
lightening	<i>Geol., H.Sc.</i> रजत प्रदीप्ति प्रकाशन	lightning arrester	तड़ित् निवर्तक
light equation	प्रकाश समीकरण	lightning conductor	तड़ित् चालक
lighter grays	हल्का घूसर	lightning discharge	तड़ित् विसर्जन
light fan	प्रकाशिक पंख	lightning generator	तड़ित् जनित्र
light fast	प्रकाश पक्का, प्रकाश स्थायी	lightning injury	तड़ित् क्षति
light filter	प्रकाश फिल्टर	lightning rod	तड़ित् दंड
light floe	हल्का बर्फखंड (प्लावी)	lightning spectroscopy	तड़ित् स्पेक्ट्रमिकी
light flux	प्रकाश फ्लक्स	lightning stroke	तड़ित् आघात
light fraction	हल्का प्रभाज, हल्का अंश	lightning temperature	तड़ित् ताप
light gas gun	हल्की गैस गन	light nucleus	हल्का नाभिक, हल्का न्यूक्लियस
light gathering power	प्रकाश संग्रह क्षमता	light of night sky	निशाकाश प्रकाश, स्थायी ध्रुवीय प्रकाश
light guide	प्रकाश पथ निर्धारक, प्रकाश गाइड	light oil	हल्का तेल
light gun	प्रकाश गन	light-oil furnace	लघु तेल भट्टी
Lighthill technique	<i>Math.</i> लाइटहिल तकनीक	light operated switch	प्रकाश चालित स्विच
light hour	प्रकाश घंटा	light-organs	<i>Zool.</i> प्रकाशी अंग
light house	प्रकाश स्तम्भ, लाइट हाउस	light-oscillations	प्रकाश दोलन
light house tube	<i>Phy.</i> लाइट हाउस नलिका	light panel	प्रकाश पैनल

light pen		प्रकाश पेन	ligneous	Bot.	काष्ठिल, काष्ठाभ, लिग्निनी
light pillar	Geog.	द्युति स्तम्भ	ligneous material		काष्ठाभ पदार्थ
light pipe		प्रकाश नल	ligneous spermophyte		काष्ठी बावृत्तबीजी, काष्ठिल बीजीपादप
light point		प्रकाश बिन्दु	ligneous		काष्ठिल, काष्ठाभ, लिग्निनी
light-positive (= conductive photo-positive)		प्रकाशिक चालकता वर्धक	ligneousification		काष्ठिलीभवन
light pressure		प्रकाश का दाब	lignicolae	Bot	काष्ठवासी
light producing organ		प्रकाशोत्पादक अंग, प्रकाशनाय	lignicolour		काष्ठवर्णी
lightproof		प्रकाशरोधी	lignicolous	Biol.	काष्ठवासी
light-pulse		प्रकाश-स्पन्द	lignification	Chem	काष्ठाभन
light quantum		प्रकाश क्वांटम	ligniform	Bot.	काष्ठरूप
light rain		हल्की वर्षा	lignin	Bot	लिग्निन
light ray		प्रकाश-किरण	lignin extraction method		लिग्निन निष्कर्षण विधि
light reaction		प्रकाश अभिक्रिया	lignin-chlorine sulphate test		लिग्निन-क्लोरीन सल्फेट परीक्षण
light rock		हल्का शैल	lignin-phloroglucinol test		लिग्निन-फ्लोरोग्लुसिनोल परीक्षण
light saturated		प्रकाश समृप्त	lignin- schiff reaction		लिग्निन-शिफ अभिक्रिया
light scattering power		प्रकाश प्रकीर्णन क्षमता	lignin- spectropho- tometric procedure		लिग्निन स्पेक्ट्रोमी प्रकाश- मितिक प्रक्रिया
light ship		1 प्रकाश पोत 2 हल्का जहाज	lignin suphonate		लिग्निन सल्फोनेट
light shower		हल्की बौछार	ligniperdous	Zool.	काष्ठापायी
light slal		हल्का सिवाल	lignite	Geol.	लिग्नाइट (भूरा कोयला)
light signal		प्रकाश संकेत	lignite coke		लिग्नाइट कोक
light stable		प्रकाशस्थायी	lignite oil		लिग्नाइट तैल
light string	Math, Phy.	भारहीन डोर, भारहीन तंतु	lignitization		लिग्नाइटीभवन
light tolerant		प्रकाशमह	lignivorous	Zool	काष्ठाहारी
light-track		प्रकाश पथ	lignocellulose		लिग्नोसेलुलोज
light twist		हल्की ऐठन, लघु मोटन	lignoceric acid	Chem	लिग्नोसेरिक अम्ल, लिग्नोमेरिक ऐमिड
light valve		प्रकाश वाल्व	lignoprotein	Chem.	लिग्नोप्रोटीन
light vane		प्रकाश-फलक	lignosa	Bot.	काष्ठनादि
light vehicle		हल्की गाड़ी	lignosuberin	Bot	लिग्नोसुबेरिन
light vermilion		हल्का सिन्दूरी	lignosulphonic acid	Chem	लिग्नीसल्फोनिक अम्ल
light water		हल्का जल	lignous	Bot.	काष्ठिल, काष्ठीय
light year		प्रकाश वर्ष, लाइट इयर	lignum	Chem	लिग्नाम (काष्ठ)
light yellow		हल्का पीला, मंद पीत			
light yield		प्रकाश उत्पाद			
Ligla	Zool, Geog.	लिग्गिया			

ligroin	Chem.	लिग्रोइन	liman	Geog., Geol.	लीमेन
ligula	Zool.	लिगुला, जीमिका	Limawood	H.Sc.	लीमाकाष्ठ
ligulate	Bot.	लिग्यूलेटी	Limax		लाइमेक्स
ligulate	Bot.	जीमिकाकार	limb	H.Sc., Zool. Bot.	1. अंग, पाद, शाखा 2. फलक, दल-फलक
ligule	Bot.	जीभिका, लिग्यूल	limbate		स्यूलोपांत
liguliflorate	Bot.	जीमिकाकार पुष्पी	limb-base	Zool.	पदाधार
liguliflorous	Bot.	जीभिकाकार पुष्पी	limb blight	Bot.	दल अंगमारी, दल शीर्षता
liguliform	Zool.	जीभिकारूपी	limb darkening	Geol., Math.	परिधीय दीप्ति ह्रास
like		1. सदृश 2. (charge) सजातीय 3. (forces) समदिश	limbless lizard	Zool.	अपाद गोधिका
like faces		सदृश फलक	Limburger cheese	H.Sc.	लिम्बुर्जर पनीर
likelihood		संभावितता	limburgite	Geol.	लिम्बुर्गाइट
likelihood function		संभावितता फलन	limbus	Zool.	लिम्बस
likelihood ratio test		संभावितता अनुपात परीक्षण	lime		चूना
like parallel forces	Math., Phy.	समदिश समांतर बल	lime accumulating soil		चूना संचयी मृदा
lilac	Bot.	लाइलैक	lime-boring form		चूना पत्थर वेधीरूप
lilac coloured		लाइलैक वर्ण	lime chlorosis		चूना हरिमाहीनता
Liliaceae	Bot.	लिलिएसी	lime crown glass		चूना क्राउन कांच
Lilienfeld rayon	Chem.	लिलिनफेल्ड रेयॉन	lime defecation		चूना अपमलन
Lilium bulbiferum	Bot.	लिलियम बल्बीफेरम	lime-depositing form		चूना निक्षेपी रूप
Lilium candidum		लिलियम कैंडिड डम	lime-depositing organism		चूना निक्षेपी जीव
Lilium variation		लिलियम विविधता	lime fisheries	Zool.	चूना मात्स्यकी
lillianite	Geol.	लिलिएनाइट	lime glass		चूना कांच
Liliflorae	Bot.	लिलिफ्लोरी	lime iron garnet		चूना लोह गार्नेट
liliginin	Chem.	लिलिजेनिन	lime gadcite		चूना जेडाइट
lille lace	H.Sc.	लील लेस	lime juice	H.Sc.	लाइम ज्यूस, नींबू रस
lilly	Chem.	लिली, कुमुदिनी	lime kiln		चूने का भट्टा
lilly mosaic	Bot.	लिली किर्मीर	lime light		लाइम लाइट, चूर्ण-ज्योति, चूर्ण प्रकाश
Lima	Zool.	लाइमा	lime-metasomatism		चूना तत्वांतरण
Lima bean agar medium	Bot.	लाइमा सेम ऐगार माध्यम	lime pan		चूना पटल
limaciform	Zool.	लाइमेक्सरूप, मन्थररूप	lime pickle	H.Sc.	नींबू अचार
limacine		मन्थरीय	limes	Geog.	सीमा
limacon		लिमेसां	lime sand	Geog.	चूना-रेणु
Lima cordiformis		लाइमा कार्डीफॉर्मिस	lime sandrock	Geol.	चूना-रेणुकाश्म, कैल्क रेणुकाश्म
Lima elongata		लाइमा इलांगेटा	lime-secreting organism	Geog.	चूनासायी जीव

<i>limes inferiores</i>	<i>Math</i>	निम्न सीमा	<i>limited proportion-ality</i>	सोमित आनुपातिकता
lime slurry		चूना-कदम	<i>limited range</i>	सीमित परास
limestone	<i>Geol.</i>	चूनाश्म, चूनाप्रस्तर, चूना-पत्थर	<i>limited safe</i>	सोमित सुरक्षित
limestone grassland		चूनापत्थर-घासस्थल	<i>limited universe</i>	सीमित समष्टि
limestone meter		चूनामापी	<i>limiter</i>	सीमक
limestone pavement		चूना-पत्थर कुट्टिम	<i>limiter diode</i>	सीमक डायोड
<i>limestone region</i>		चूनापत्थर-प्रदेश	<i>limiting</i>	1 सीमक 2 सीमांत, चरम
limestone sink		चूनाश्म गर्त	<i>limiting cathode potential</i>	सीमान्त कैथोड विभव
limestone soil		चूनापत्थर मिट्टी]	<i>limiting cell</i>	सीमांत कोष्ठिका
limestone sonde		चूनाश्म सॉन्डे	<i>limiting circle</i>	सीमांत वृत्त
lime-sulphur		चूना गंधक, चूर्ण गन्धक	<i>limiting condition</i>	सीमांत प्रतिबंध
<i>limes superiores</i>	<i>Math.</i>	उच्च सीमा	<i>limiting conductance</i>	सीमांत चालकता
lime uranite	<i>Geol.</i>	चूना-यूरेनाइट	<i>limiting current</i>	सीमांत धारा
lime wash	<i>H Sc.</i>	चूना पुसाई	<i>limiting curve</i>	सीमान वक्र
lime water		चूने का पानी	<i>limiting density</i>	सीमांत घनत्व, चरम घनत्व
lime wood	<i>H Sc</i>	लाइम काष्ठ	<i>limiting distribution</i>	सीमांत बंटन
limy	<i>Chem</i>	लाइसी	<i>limiting equilibrium</i>	सीमान्त सन्तुलन
limicolous	<i>Bot</i>	पकवासी	<i>limiting factor</i>	सीमाकारी कारक
liming	<i>Chem, Geog</i>	1 (Food) चूनायन, चूना डालना 2 (Met) चूना निमज्जन	<i>limiting form</i>	सीमांत रूप
limit	<i>Chem, Phy., Math</i>	1 सीमा 2 सीमान्त	<i>limiting frequency</i>	सीमांत आवृत्ति
limit analysis		सीमा विश्लेषण	<i>limiting friction</i>	चरम घर्षण
limitation		सीमाबधन, सीमा	<i>limiting ionic mobility</i>	सीमक आयनिक गति-शीलता, चरम आयनिक गतिशीलता
limitation of scale	<i>Geog</i>	पैमाना-परिमिता	<i>limiting law</i>	सीमांत नियम, सीमक नियम
limit bridge		सीमा सेतु	<i>limiting length</i>	सीमांत लम्बाई
limit curve	<i>Math.</i>	सीमा वक्र	<i>limiting magnitude</i> (=magnitude limit)	कातिमान-सीमा
limit cycle	<i>Phy.</i>	1 सीमा चक्र 2. चरम आयात चक्र	<i>limiting meridian</i>	सीमक याम्योत्तर
limit design		सीमा-अभिकल्पना	<i>limiting number</i>	सीमांत संख्या
limited		सीमित, ससीम	<i>limiting oscillation</i>	सीमान दोलन
limited correction		सीमित सशोधन	<i>limiting parallel</i>	सीमक वक्रांश
limited distribution		सीमित बंटन	<i>limiting points</i>	<i>Math.</i> सीमान बिन्दु, गून्ठ बिन्दु
limited information method		सीमित-अवगम विधि	<i>limiting quantum yield</i>	सीमान क्वांटम लब्धि
limited neighbourhood		सीमित प्रतिवेश	<i>limiting slope</i>	सीमक ढाल
limited payment		सीमित भुगतान		

limiting stage		सीमक पद	limnetic animal		सरोवर-प्राणी
limiting sum		सीमांत योगफल	limnetic region		सरोवर-क्षेत्र
limiting value		सीमांत मान	limnetic zone		सरोवरी जीव प्रदेश
limiting velocity		सीमांत वेग	Limnetis	Zool.	लिम्नेटिस
limit in mean		माध्यक सीमा	limnic	Geol.	गाघ सरोवरी
limit load factor		चरम भार गुणक	limnicolous	Bot.	सरोवासी
limit number		सीमा संख्या	limnium	Bot.	सरोवरी समुदाय
limit of a sequence		अनुक्रम-सीमा	limnobiology	Zool.	सरोजीवविज्ञान
limit of error		दृष्टि सीमा	limnobios	Geol.	सरजीवलोक
limit of indeterminacy		अनिर्धारिता सीमा		Zool.	सरोजीवजात
limit of integration		समाकलन की सीमा	limnobiotic		सरोजैव
limit of linear elasticity		रेखिक प्रत्यास्थता की सीमा	Limnocoidea	Zool.	लिम्नोनाइडा
limit of map		मानचित्र-सीमा	Limnocodium	Zool.	लिम्नोकोडियम
limit of resolution	Geog.	विभेदन की सीमा	Limnocryptophyte	Bot.	सरोवरी गूढोद्भिद्
limit of wooded area		अरण्य क्षेत्र सीमा	limnodic	Bot.	कच्छ समुदाय
limit ordinal number		सीमा क्रमसूचक संख्या	limnodophilous	Bot.	कच्छरागी
limit point (= cluster point)		गुच्छ-बिन्दु, सीमा-बिन्दु	limnodromy	Zool.	नदगामिता
limit point of a filter	Math.	निस्यंदक का सीमा-बिन्दु	Limnogale	Zool.	लिम्नोगेली
limit process		सीमा-प्रक्रम	limnologist	Zool.	सरोविज्ञ
limit of audibility		श्रव्यता की सीमा	limnology	Zool.	सरोविज्ञान (सरोवरविज्ञान)
limit space		सीमा-समष्टि	<i>Limnophila sessiliflora</i>	Bot.	लिम्नोफिला सेसिलीपलोरा
limit sphere		सीमा-गोलक	limnophilus	Bot.	तालरागी
limit switch		सीमा स्विच	Limnophilus		लिम्नोपिथिकस
limit value		सीमा मान	limno-plankton		सरोवर प्लवक, लिम्नो-प्लैक्टन
limit velocity		सीमांत वेग	limnosphere	Bot.	लिम्नोस्फीयर
limivorous	Zool.	पंकाहारी	limnovorous	Geol.	सरजीवभक्षी
Limnaea	Zool.	लिम्निया	limon (=lehn)	Geog.	लीमॉन
<i>Limnaea fusiformis</i>		लिम्निया पयूजीफॉर्मिस	limnonene	Chem.	लिमोनीन
<i>Limnaea stagnalis</i>		लिम्निया स्टेगनेलिस	Limoges	H.Sc.	लीमोज
limnaeider	Bot.	सरोवर शैवाल	Limoges enamel		लीमोज इन्मल
Limnanthaceae	Bot.	लिम्नेनथेसी	Limoges ware		लीमोज भाण्ड
Limnanthemum	Bot.	लिम्नेनथिमम	<i>Limonia crenulata</i>	Bot.	लिमोनिया क्रेनुलेटा
Limnephilidae	Zool.	लिम्नेफिलिडी	limonite	Geol.	लाइमोनाइट
Limnerium	Zool.	लिम्नेरियम	limon subaerien	Geog.	अधोसतही लीमॉन
limnetic	Bot., Zool.	सरोवरी, सरोजीवी	limon subaquatique	Geog.	अधोजलीय लीमॉन

limphagous	Zool.	पकभोजी	Lindenbaum axiom	Math.	लिडनबाम अभिगृहीत
limpid	Chem.	स्वच्छ, निर्मल	Lindenbergia	Bot	लिडेन्बर्गिया
limpid current	Geog.	निर्मल धारा	Lindenbergia artificifolia		लिडेन्बर्गिया आर्टीसिफोलिया
limpidity		विमलता	Lindenblad antenna	Phy.	लिडनब्लेड ऐन्टेना
limpid solution		विमल विलयन	Linde process	Chem.	लिन्डे प्रक्रम
limpid water		निर्मल जल	linderic acid	Chem	लिडेरिक अम्ल
Limulus	Zool.	लिमूलस	Linde's apparatus	Chem	लिन्डे उपकरण
Limulus polyphemus		लिमूलस पाँतीफोमम	Linde's experiment		लिन्डे प्रयोग
limy mud	Geog.	चूनेदार पक	Linde-surfacar	Chem	लिन्डे पृष्ठक
limy sand		चूनेदार रेणु	Lindlar catalyst	Chem	लिडलर उत्प्रेरक
linac	Phy.	रेखिक त्वरित, लाइनेक	Lindsaya	Bot	लिडमाया
Linaceae	Bot.	लाइनेसी	Lindsay hydrogen electrode	Chem	लिडसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
linaloe oil	Chem.	लिनालोए तेल	lindstromite	Geol.	लिडस्ट्रोमाइट
linalool	Chem.	लिनेलूल	line	Phy., Math	1. रेखा 2. लाइन 3. दीर्घमन्तु
Linaria	Bot.	लाइनेरिया	linea aspera		उत्तिका रेखा
Linaria ramossima		लाइनेरिया रैमोस्सिमा	lineage	Bot, Geog.	वंश परम्परा
Linaria vulgaris		लाइनेरिया वर्ग्येरिस	lineage structure	Phy	वंश वृक्ष संरचना
linarite	Chem.	लाइनाराइट	lineal absolute scale	Chem	रेखिक परम मापक्रम
Linekia laevigata	Zool	लिन्किया लीविगेटा	lineal descendant	Zool.	अनुरेखीय सतति
Lincoln index	Math.	लिनन-सूचकांक	lineament	Geol. Geog	1 स्थलानुरेख 2 विशिष्ट आकृति
Lincoln sheep	H Sc	लिनन भेड	line amplifier		लाइन प्रवर्धक
Lincoln weld	Chem (Met)	लिनन सधान, लिनन वेल्ड	line amplitude control (=horizontal size control)	Phy.	रेखा आयाम नियन्त्रक, क्षैतिज साइज नियन्त्रक
linconia	Bot	लिन्कोनिया	linear		रेखीय, रेखिक, रेखाकार
lincrusta	H Sc	लिन्कस्टा	linear absorption		रेखिक अवशोषण
lindackerite	Geol	लिन्डैकेराइट	linear absorption coefficient		रेखिक अवशोषण गुणांक
lindane	Chem, Zool.	लिन्डेन	linear accelerator		रेखिक त्वरक
Lindblad's theorem	Math.	लिन्डब्लाड-प्रमेय	linear algebra		रेखिक बीजगणनी
Lindeberg Levy theorem	Math.	लिडबर्ग-लीवी प्रमेय	linear algebraic equation		रेखिक बीजीय समीकरण
Linde-Frankl process	Chem	लिन्डे-फावल प्रक्रम	linear allocation		रेखिक नियतन
Lindeloff's maximum modulus principle	Math.	लिन्डलाफ का महत्तम मापांक नियम	linear amplifier		रेखिक प्रवर्धक
Lindeloff space		लिन्डलाफ समष्टि			
Lindemann mechanism	Chem	लिन्डेमान क्रियाविधि			
linden	H Sc.	लिडन			

linear antenna		रेखिक ऐन्टेना	linear dune	रेखीय मरु टिब्बा
linear approximation		रेखिक सन्निकटन	linear elasticity	रेखिक प्रत्यास्थता
linear asymptote		रेखिक अनंतस्पर्शी	linear electrode method	रेखिक इलेक्ट्रोड विधि
linear audio amplifier		रेखीय ध्वनि प्रवर्धक	linear element	रेखिक अल्पांश
linear autoregression		रेखिक स्वसमाश्रयण	linear endomorphism	रेखिक अंतराकारिता
linear backward wave oscillator		रेखिक पश्चगामी तरंग दोलित	linear energy transfer	रेखिक ऊर्जांतरण
linear bolometer		रेखिक बोलोमीटर, रेखिक तेजमापी	linear equation	रेखिक समीकरण, एकघात समीकरण
linear burning rate		रेखिक ज्वलन दर	linear erosion	रेखीय अपरदन
linear cleavage		रेखीय विदलन	linear error	रेखीय अशुद्धि
linear closure		रेखिक संवरक	linear estimator	एकघाती आकलक
linear coefficient		रेखिक गुणांक	linear expansion	रेखीय प्रसार
linear colony		रेखिक निवह	linear expansivity	रेखीय प्रसरणीयता
linear combination	<i>Math.</i>	एकघात संचय	linear extension	रेखिक विस्तार
linear configuration		रेखिक विन्यास	linear fabric	रेखिक संविन्यास
linear conformation		रेखिक संरूप	linear feed back control system	रेखिक पुनर्निवेश नियंत्रण तंत्र
linear congruence	<i>Math.</i>	1. द्विप्राचल रेखा कुल 2. एकघात समशोपता	linear flight	रेखिक उड़ान
linear connection		रेखिक संबंधन	linear flow structure	रेखिक प्रवाही संरचना
linear constraints	<i>Math.</i>	एकघात प्रतिबन्ध	linear form	रेखिक समघात
linear continuum		रेखिक सांतत्यक	linear fractional transformation	रेखिक निम्नात्मक रूपांतरण
linear convergence		रेखिक अभिसरण	linear function	रेखिक फलन
linear coordinates		रेखिक निर्देशांक	linear functional	रेखिक फलनक
linear coordinate transformation		रेखिक निर्देशांक रूपांतरण	linear function of moments	आघूर्णों का एकघाती फलन
linear correlation		रेखिक सहसम्बन्ध	linear function of variates	विचरों का एकघाती फलन
linear cost function		रेखिक लागत फलन	linear graph	रेखिक आलेख, रेखिक ग्राफ
linear current		रेखिक धारा	linear group	रेखिक समूह
linear dependence		रेखिक आश्रितता	linear half wave voltmeter	रेखिक अर्धतरंग वोल्ट-मापी
linear differential equation		रेखिक अवकलन समीकरण	linear Hamiltonian system	रेखिक हैमिल्टनी निकाय
linear dimension	<i>Geog.</i>	1. रेखिक विमा 2. रेखिक माप 3. रेखिक लम्बाई-चीड़ाई	linear harmonic oscillator	रेखिक आवर्ती दोलक
linear discriminant function		एकघाती विभक्तकर फलन	linear Hertzian oscillator	रेखिक हर्ट्सी दोलक
linear disjointness		रेखिक विसंयुक्ति	linear hull	रेखिक समावरक
linear distance		रेखिक दूरी		

linear hypothesis		एकघाती परिकल्पना	linearly disjoint extensions		रैखिकतः विसृत विस्तार
linear independence		रैखिक स्वतंत्रता	linearly homeomorphic spaces		रैखिकतः सद्गुत् समष्टियां
linear independent relation		रैखिक स्वतंत्र संबंध	linearly independent		एकघातत स्वतंत्र
linear inequality		रैखिक अममिका	linearly ordered set		रैखिकत क्रमित समुच्चय
linear inhomogeneous differential equation		रैखिक असमघाती अवकल समीकरण	linearly polarized light	Phy	रेखा-ध्रुवित प्रकाश, सम-तल ध्रुवित प्रकाश
linear integral equation		रैखिक समाकल समीकरण	linear macro molecule		रैखिक स्थूलाणु
linear interpolation		रैखिक अंतर्देशन	linear magnification		रैखिक आवर्धन
linear invariant		रैखिक निश्चर	linear manifold		रैखिक प्रमण्डल
linear inverse		रैखिक प्रतिलोम	linear mapping		रैखिक प्रतिचित्रण
linearisation	Phy.	रैखिकीकरण	linear mass scale		रैखिक द्रव्यमान स्केल
linearised isentropic flow		रेखीकृत समएन्ट्रॉपिक प्रवाह	linear measure		रैखिक माप
linearised Navier Stokes' equation		रेखीकृत नेवियर-स्टोक्स समीकरण	linear measurement		रैखिक माप
linearised subsonic flow		रेखीकृत अवध्वनिक प्रवाह	linear model		रैखिक निदर्श
linearised supersonic flow		रेखीकृत पराध्वनिक प्रवाह	linear modulation		रैखिक माड्युलन
linear isomorphism		रेखीय तुल्यकारिता	linear modulator		रैखिक माड्युलर
linear isotropy algebra		रैखिक समदैशिकता-बीजावली	linear molecule		रैखिक अणु
linearity	Phy.	एकघातता, रैखिकता	linear molecule chain		रैखिक अणु शृंखला
linearity limit		रैखिकता सीमा	linear momentum		रैखिक संवेग
linearity of regression		समाश्रयण की एकघातता	linear motion		रैखिक गति
linearized equation		रेखीकृत समीकरण	linear network		रैखिक जाल
linearizing resistance (= peaking resistor = peak resistance)	Phy.	शिथिलक प्रतिरोध, रैखिक-कारी प्रतिरोध	linear one-point matrix iteration		रैखिक एकबिन्दु आव्यूह पुनरावृत्ति
linear least square regression analysis		रैखिक न्यूनतम वर्ग समाश्रयण विश्लेषण	linear operator		रैखिक सकारक
linear limit	Geog	रेखाकार सीमा	linear order		रैखिक क्रम
linear logarithmic demand function		रैखिक लघुगणकीय माग फलन	linear ordering		रैखिक क्रमोकरण
linearly	Math.	1 एकघाततः 2 रैखिकत	linear oscillator		रैखिक दोलन
linearly dependent		एकघातत. परतंत्र	linear parallelism		रैखिक समांतरता
			linear parameter		रैखिक प्राचल
			linear perturbation		रैखिक क्षोभ
			linear pinches		रेखीय संकुचन
			linear pattern		रैखिक प्रतिरूप, रेखीय चित्राण
			linear polariser		रैखिक ध्रुवक
			linear polymer		रैखिक बहुलक
			linear power amplifier		रैखिक शक्ति प्रवर्धक



linear principal stress strain relation		एकघात मुख्य प्रतिबल विकृति संबंध	linear systematic statistic	एकघाती व्यवस्थित प्रति-दर्शज
linear problem		रेखिक समस्या	linear tentacle	रेखीय स्पर्शनी
linear process		एकघाती प्रक्रम	linear theory	रेखिक सिद्धान्त
linear programming		रेखिक प्रोग्रामन	linear time base	रेखिक समयाधार
linear programming algorithm		रेखिक प्रोग्रामन कलन विधि	linear time trend	रेखिक काल उपनति
linear programming problem		रेखिक प्रोग्रामन समस्या	linear topological quotient space	रेखिक सांस्थितिक विभाग समष्टि
linear regression		रेखिक समाश्रयण	linear topological subspace	रेखिक सांस्थितिक उप-समष्टि
linear regression coefficient		रेखिक समाश्रयण गुणांक	linear total cost function	रेखिक संपूर्ण लागत फलन
linear relation		रेखिक संबंध, एकघाती संबंध	linear transducer	रेखिक ट्रांसड्यूसर
linear relationship		रेखिक संबंध	linear transformation	रेखिक रूपांतरण
linear resonance accelerator		रेखिक अनुनाद त्वरित	linear trend	रेखिक उपनति
linear restrictions		रेखिक प्रतिबंध	linear unbiased estimates	रेखिक अनभिनत आकल
linears	Geol.	सरेख	linear valley	रेखाकार घाटी
linear scale		रेखीय पैमाना	linear variety	रेखिक प्रकार
linear scan		रेखिक क्रमबद्धता	linear vector function	रेखिक सदिश फलन
linear schistosity		रेखीय शिस्टाभता	linear velocity	रेखिक वेग
linear set		रेखिक समुच्चय	linear visco-elastic solid	एकघात विस्कासी प्रत्यास्थ ठोस
linear shear stress-strain relation		एकघात अपरूपण प्रतिबल विकृति संबंध	linear work hardening material	रेखिक विकृति दृढायमान पदार्थ
linear space (=vector space)		रेखिक समष्टि	linear work hardening string	रेखिक विकृति दृढायमान डोरी
linear Stark effect		रेखिक स्टार्क प्रभाव	lineate	Bot. रेखित, धारीदार
linear static demand		रेखिक स्थैतिक मांग	line at infinity	अनंतस्य रेखा
linear static supply		रेखिक स्थैतिक पूर्ति	lineation	Geol. सरेखता, संरेखण
linear stopping power		रेखिक निरोधी शक्ति क्षमता	line attenuation	Phy. लाइन क्षीणन
linear strain		रेखिक विकृति	line balance	लाइन संतुलन
linear structure		रेखिक संरचना	line bend (=line tilt)	रेखा वक्रन
linear structure factor		रेखिक संरचना गुणक	line blanking (=vertical blanking)	रेखा लोपन
linear subspace		रेखिक उपसमष्टि	line breeding	Bot. क्रमिक अंतःप्रजनन
linear substitution		एकघात प्रतिस्थापन	line broadening	रेखा-वृद्धय
linear sweep		रेखिक प्रसर्प	line capacitance	लाइन की धारिता
linear system		रेखिक निकाय	line characteristic	लाइन अभिलक्षण
			line circuit	लाइन परिपथ

line conductance		लाइन की चालकता	line imperfection (one dimensional)	रैखिक अपूर्णता
line congruence	<i>Math.</i>	द्विभाचल रेखा कुल	line indices	रेखा सूचकांक
line constant	<i>Phy.</i>	लाइन स्थिरांक	line inductance	<i>Phy.</i> लाइन का प्रेरकत्व
line coordinates -		रेखा निर्देशांक	line insulator	लाइन-विद्युत् रोधी
line cord		लाइन रज्जु	line integral	रेखा समाकल
line coupling		लाइन युग्मन	line intensity	रेखा तीव्रता
line crawl (=line flickering)		रेखा स्फुरण	line jack	लाइन जैक
line current		लाइन धारा	line keystone waveform	रेखा कुचीशिला तरंगरूप
lined duct (=absorbing duct)	<i>Phy.</i>	श्वशोपी वाहिनी	line level	<i>Phy.</i> लाइनगत सकेत स्तर
line defect		रैखिक त्रुटि	line loss	<i>Phy.</i> लाइनजात ह्रास
line density		रेखा-घनत्व	line monitoring tube	रेखा मॉनीटर नलिका
line diffuser		रेखा विनरक	linen	<i>Chem., H Sc.</i> 1 सन 2. लिनन 3 वस्त्र
line distortion	<i>Phy</i>	लाइनज विरूपण	linen canvas	<i>H Sc.</i> लिनन कैनवस
line distributor		लाइन विनरक	linen crepe	<i>H Sc</i> लिनन क्रेप
line divider		रेखा विभाजक	linen duck	<i>H Sc</i> लिनन डक
line drawing		रेखा-चित्र	line noise	लाइन शब्द
line drop		लाइन विभव-पात	linen rug	<i>H Sc</i> लिनन रग
line electrodes		रेखा इलेक्ट्रोड	linen smock	<i>Geog.,H.Sc.</i> लिनन स्मॉक
line element		रेखा अल्पांश	linen weave	<i>H Sc</i> लिनन वयन
line equaliser		लाइन सकेत समकारी	line of action	क्रिया रेखा
line feed		लाइन भरण	line of apsides	नीच-उच्च रेखा, उपापम (उपभूज्यभूमू) रेखा
line fibre	<i>H Sc.</i>	बीड़ तन्तु	line of bearing	<i>Geog.</i> दिग्मान-रेखा
line filter		लाइन फिल्टर	line of best fit	श्रेष्ठ आसजन-रेखा
line finder		लाइन अन्वेषक	line of breeding	<i>Bot.</i> प्रजनन वंशक्रम
line fishing	<i>Zool</i>	रज्जु मत्स्यन	line of centres	केन्द्र रेखा
line flicker		रेखा स्फुरण	line of collimation	संघान रेखा
line flyback pulse (=horizontal flyback)		रेखा प्रतिघाव स्पंद	line of collinearity	सरेखता की रेखा
line focus tube		रेखा फोकसी नलिका	line of concrescence	संयोजिता रेखा
line frequency		रेखा आवृत्ति	line of curvature	वक्रता-रेखा
line frequency to frame frequency ratio		रेखा-क्रम आवृत्ति अनुपात	line of dip	नति-रेखा
line gap		लाइन अंतराल	line of disjuncture	विभोजन-रेखा
line geometry		रेखा-अध्यापिति	line of equal distribution	सुलभ बंटन-रेखा
line graph		रेखा ग्राफ	line of equilibrium	संतुलन-रेखा
line harmonic		रेखा-असंबन्धी		
line hydrophone		रेखा जलक्रोन		

line of fault		भ्रंश-रेखा	liner	<i>Geol.</i>	आस्तर, अस्तर
line of flexure		आनमन-रेखा		<i>Chem.</i>	परिच्छादी
line of flow		प्रवाह-रेखा		<i>(Paper)</i>	
line of force		बल-रेखा		<i>Geog.</i>	जहाज
line of greatest slope		महत्तम ढाल-रेखा	line ranger	<i>Geog.</i>	एकरेखित
line of habitability		आवास्यता-रेखा	line relay		लाइन रिले
line of impact		संघट्ट-रेखा, टक्कर-रेखा	line repeater		लाइन रिपीटर
line of intersection		प्रतिच्छेद-रेखा	line resistance		लाइन प्रतिरोध
line of navigation	<i>Geog.</i>	नौचालन मार्ग	lines		रेखाएँ
line of nodes		पात-रेखा	line sampling		रेखा प्रतिचयन
line of outcrop		दृश्यांश-रेखा	line scale		रेखा मापनी
line of percussion		आघात-रेखा	line scanning		रेखिक क्रमवीक्षण
line of position		स्थिति-रेखा	line scattering		रेखा-प्रकीर्णन
line of quickest descent		शीघ्रतम अवरोहण की रेखा	line seam		सीवन रेखा
line of section		परिच्छेद-रेखा	line segment		रेखा खंड
line of separation		पृथक्करण-रेखा	line selector		लाइन वरक
line of shearing stress		अपरूपण प्रतिबल-रेखा	line-sequential colour television		रेखा अनुक्रमिक रंगीन टेलीविजन
line of sight		दृष्टि-रेखा	line sequential system		रेखा अनुक्रमिक तंत्र
line of sight propagation		दृष्टिरेखीय संचरण	line series impedance		लाइन की श्रेणी प्रति-बाधा
line of sight radio communication		दृष्टिरेखीय रेडियो संचरण	lineshaft drive	<i>Geol.</i>	दीर्घधुरा चालन
line of striction		केन्द्रीय बिन्दुपय-रेखा	Linshen's analysis	<i>Math.</i>	लिनशेन-विश्लेषण
line of torsion		व्यावर्तन-रेखा	line shunt admittance		लाइन की शंट प्रवेक्ष्यता
<i>Lineola longa</i>	<i>Bot.</i>	लीनीओला लोंगा	line signal		लाइन संकेत, लाइन सिग्नल
lineolate	<i>Bot.</i>	रेखांकित	lines of growth		वृद्धि-रेखाएँ
line operator		लाइन प्रचालक	lines of navigation		नौचालन-मार्ग
line oscillator		लाइन दोलित	lines of regression		समाश्रयण-रेखा
line output		रेखा-निर्गम	line softening		रेखा मृदूकरण
line output transformer		रेखा निर्गम ट्रांसफार्मर	line source (of light)		रेखिक स्रोत (प्रकाश का)
line pad		लाइन पैड	line spectrum	<i>Phy.</i>	रेखिल स्पेक्ट्रम
line pattern virus		रेखा प्रतिरूपी विषाणु	line squall	<i>Geog.</i>	1. रेखिक चंडवात 2. चंडवात रेखा वात-निर्घात रेखा
line period		रेखा आवर्तकाल	line-stabilized oscillator		लाइन स्थायीकृत दोलित
line printer		रेखा मुद्रित	line-storm		रेखिक तूफान
line pulser		लाइन स्पंदित	line stretcher		लाइन विस्तारक

line strength		रेखा प्रबलता	linguistic layer	Geog.	भाषात्मक स्तर
line switch		लाइन स्विच	linguistic relative	Geog.	भाषायी संबंधी
line synchronizing signal		रेखा तुल्यकालन सिग्नल	linguistic uniformity		भाषात्मक एकरूपता
line tension	Phy.	अनुरेख तनाव	linguistic unity		भाषात्मक एकीता
line tensor		रेखा प्रदिश, रेखा टेंसर	Lingula	Zool.	लिगुला
line tester		लाइन जांच यंत्र	lingula	Zool.	जिह्विका, जीभिका
line transect		रेखा खंड	lingulate		जिह्वाकार
line transformer		1 रेखा सध्यांतरक 2. लाइन ट्रांसफॉर्मर	Lingulella	Bot	लिग्युलैला
line translation		रेखा सध्यांतरण	linguloid brachiopod	Geol.	निगुला जालीय ब्रैकियोपॉड
line trap		लाइन ट्रैप	linguloid cast	Geol	जिह्वाभ रिक्ति
line tuning		लाइन समस्वरण	linguoid ripple mark		जिह्वाभ ऊभिका चिह्न
line type cracking		रेखा प्ररूप विदर	linin		लाइनिन
line up	Math	पंक्तिबद्धता	lining	H.Sc.	बास्तर
line voltage		लाइन वोल्टता	lining cloth	H.Sc.	बास्तर वस्त्र
line vortex		रेखा-ध्रमिल	lining satin	H.Sc.	आस्तर सादेन
line width		रेखा विस्तार, रेखा चौड़ाई	linishing	Chem	लिनिशिंग
line work		रेखा कार्य	link	Chem	बन्ध कड़ी, शृंखला, ग्रथिका, लिंक
line-work and lettering		रेखा-कार्य एवं अक्षरांकन	linkage	Chem. H.Sc., Biol	बंध, बंधनी, बंधता सहलग्नता
ling	Zool, Geog	लिंग (मीन)	linkage coefficient		सहलग्नता गुणांक
lingerie	H.Sc.	लैबरी	linkage detection		सहलग्नता अधिज्ञान
lingette	H.Sc.	लिंगेट	linkage groups		सहलग्न समूह
lingua	Zool	जिह्वा	linkage isomerism		बंधक समावयवता, बंधनी समावयवता
lingua franca	Geog.	लोक-भाषा	linkage map		सहलग्नता चित्र
lingual artery	Zool	जिह्वा धमनी	linkage value		सहलग्नता मान
lingual cartilage		जिह्वा उपास्थि	link coupling		बंध युग्मन
lingual gland		जिह्वा ग्रंथि	linked block	Math.	शृंखलित खंडक
lingual papilla		जिह्वा प्राकुर	linked character	Biol	सहलग्न लक्षण
lingual ribbon		जिह्वा रिबन	linked sample	Math.	संबद्ध प्रतिदर्श
lingual teeth		जिह्वा दात	linking method (re-index number)		शृंखलीकरण-विधि
lingual vein		जिह्वा शिरा	link neutralization		बंध निष्प्रभावन
linguist	Zool	लिग्विस्टिक प्राणी	link of a chain		शृंखला की कड़ी
Linguist	Zool	लिग्विस्टिक	link polygon		शृंखला-बहुभुज
linguiform	Zool., Geol.	जिह्वारूप	link relative (chain relative)		शृंखलित आपेक्षिक
linguiformis	Bot.	जिह्वाकार			

link route	Geog.	लिंक मार्ग	<i>Linum grandiflorum</i>	Bot.	लाइनम ग्रेन्डिफ्लोरम
link transmitter	Phy.	संबंध प्रेषित	<i>Linum usitatissimum</i>		लाइनम यूसीटैटिसिमम
lin-lin coformation	Chem.	रेख-रेख संरूपण	Liomesus	Bot.	लियोमेसस
lin-log receiver	Phy.	रैखिक लॉग अभिग्राही	<i>Liomesus dalei</i>		लियोमेसस डेलाइ
Linn. (=Linnaeus)	Bot.	लि०	lion	Zool.	सिंह, शेर
linn	Geog.	लिन	lionite	Chem.	लायोनाइट
Linnaean species	Bot.	लिनियसी जाति	lion tailed monkey	Zool.	शिया वन्दर, सिंहपुच्छी वानर
linnaeite	Geol.	लिनोआइट	Liopelma	Zool.	लियोपेलमा
Linnaeus system	Biol.	लिनोयस प्रणाली	Liouville's condition	Math.	ल्यूवेल-प्रतिबंध
Linnean classification	Bot.	लिनोयसी वर्गीकरण	Liouville's theorem		ल्यूवेल प्रमेय
linneite	Geol.	लिनेआइट	Liouville surface		ल्यूवेल पृष्ठ
linneon	Bot.	लिनोऑन	lip	Bot.,H.Sc.	ओष्ठ, होठ
lino	H.Sc.	लिनो		Geog.	किनारा
linoceric acid	Bot.	लिनोसेरिक अम्ल		Chem.	(of beaker) चोंच
linolenic	Chem.	लिनोलीनिक	lipaemia	Chem.	वसा रक्तता, लाइपीमिया
linolenic acid		लिनोलीनिक अम्ल, लिनोलीनिक ऐसिड	liparite	Geol.	लिपेराइट
linoleum	H.Sc.	लिनोलियम	Liparoceras		लिपैरोसिरैस
linoleic acid	Chem.	लिनोलीइक अम्ल	lipase	Zool.,H.Sc.	लाइपेस
linoleic fatty acid	H.Sc.	लिनोलिक वसा अम्ल	lipasidine		लाइपैसिडीन
linon	H.Sc.	लिनॉन	liphistiomorph	Zool.	लिफिस्टियोमॉर्फ
linophyre	Geol.	रेखीपॉफिरी	lipid (lipide)	Chem.,Zool.	लिपिड
linophyric		रेखीपॉफिरीय	lipid fraction		लिपिड प्रमाज, लिपिड अंश
Linopteris	Bot.	लाइनोप्टेरिस	lipidlike		लिपिडवत्
linosite	Geol.	लिनोसाइट	lipid solubility	Bot.	लाइपिड विलेयता
lino-type	Chem.	लाइनो-टाइप	lipin	Chem.	लाइपिन
linoxyn	Chem.	लिनॉक्सिन	lipless beaker	Chem.	चंचुहीन बीकर
linsang	Zool.	लिनसंग	lip microphone	Phy.	ओष्ठ माइक्रोफोन
linseed	Bot.,Chem.	अलसी, तीसी	lipoblast	Zool.	वसाकोरक
linseed oil		अलसी का तेल, तीसी का तेल	Lipocystis	Zool.	लाइपोसिस्टिस
linseed poultice		अलसी उपनाह	lipochrome	Bot.,Chem.	लिपोक्रोम
linsey woolsey	H.Sc.	लिंसी-वूल्सी	lipocyte	Zool.	वसाणु
lint doctor	Chem.	लिनट उपचारक	lipogenesis	Zool.	वसाभवन, वसाकरण
Lintearia (= elastica)		प्रत्यास्थिका	Lipogenys	Zool.	लाइपोजेनीस
linter	Chem. (Plastics)	लिनटर	lipoic acid (thioctic acid)	Chem.	लिपोइक अम्ल (थाइ- ऑक्टिक अम्ल)
linters	H.Sc.	विनोले के तंतु	lipoid	Bot.	लाइपॉइड
lintonite	Geol.	लिनटोनाइट			

lipoidal theory		लाइपोइडी वाद, लाइपोइडी मिद्वान्त	lipstick	H Sc.	ओष्ठ-रजनी, लिपस्टिक
lipoid phosphorus		लाइपोइडी फॉस्फोरस	lip synchronisation	Phy.	ध्वनि-चित्र तुल्यकालन
lipolysis	Chem.	वसाभ्रन, वसा-अपघटन	lip synchronous operation		ध्वनि-चित्र तुल्यकालक प्रचालन
lipolytic		वसा-अपघटनी, वसाशनी	liptocoenose	Geol.	लिप्टोसीनोज
lipoma	H.Sc	लिपोमा	lipuria	Chem	लिप्पूरिया, वसामेहु
lipopalingenesis	Geol.	भ्रशपुनर्भवन	liquatation	Chem. (Plastics)	गलनिक पृथक्करण, द्रावगलन
lipophile balance	Chem.	वसा-स्नेही सतुलन	liquatation dross	Chem	गलनिक मल
lipophilic		वसास्नेही, वसारागी	liquefaction	Chem, Geol.	द्रवण, द्रावण
lipophore	Zool	लाइपोफोर, लाइपोफोम-घर	liquefaction of coal		कोयला द्रावण, अगार द्रावण
lipoprotein	Chem, H Sc.	लिपोप्रोटीन	liquefied gas		द्रवित गैस
liposome	Zool	वसाकाय	liquefied petroleum gas (L P gas)		द्रवित पेट्रोनियम गैस (एल पी गैस)
Lipostraca	Zool	लाइपोस्ट्रेका	liquefier		द्राविक
lipotropic	Chem, Zool.	वसाप्रेरक	liquefy		द्रव बनाना, द्रवित करना
lipotropic factor		वसाप्रेरक कारक	liquefying enzyme		द्रवकारी एन्जाइम
Lipotyphla	Zool.	लाइपोटिफ्ला	liquefying stress (yield value)		द्रवण प्रतिबल
Lipowitz metal	Chem.	लिपोविट्ज़ धातु	liqueur	H Sc.	मदिरा
Lipowitz's alloy		लिपोविट्ज़ मिश्रधातु	liqueur glass		मदिरा चपक, मदिरा पात्र
lipoxenous	Bot	पोषक त्यागी	liquid		द्रव
lipoxeny		पोषक त्याग	liquid air		द्रव-वायु
lipoxidase	Chem.	लाइपोऑक्सिडेस	liquid air interface		द्रव-वायु पार्यव्य-पृष्ठ, द्रव-वायु पार्यव्य-तल
lipoxidative	Chem.	वसा-उपचायक	Liquidambar orientalis	Bot.	लिक्वीडम्बर ओरि- एन्टैलिस
Lippich prism	Phy	लिपिख प्रिज्म	liquidation	H Sc	परिसमापन
Lippmann fringe	Phy	लिपमान फ्रिज, लिपमान धारी	liquid bait	Zool	द्रव विनोषक
Lippmann relation		लिपमान सम्बन्ध	liquid bath	Chem, Phy.	द्रव-मज्जपात्र, द्रव-कुंड, द्रव-अवगाह
Lippmann's equation		लिपमान समीकरण	liquid caustic		द्रव कॉस्टिक
Lipp's synthesis	Chem	लिप संश्लेषण	liquid chemical		द्रव रसायन
lip pulp	Bot	ओष्ठ मज्जा	liquid cooling		द्रव-शीतलन
lip region		ओष्ठ क्षेत्र	liquid counter		द्रव काउन्टर
lip ring	Geog	लिपरिंग, ओष्ठ-छत्ता	liquid crystal		द्रव क्रिस्टल
lipsanenenchyma	Bot	जवशोपोनक	liquid culture		द्रव संवर्ध
Lipschitz condition	Math.	लिपशिट्ज़-प्रतिबन्ध	liquid curve		द्रव वक्र
Lipschutz reaction	Chem	लिपशुट्ज़ अभिक्रिया			
lip sclerotization		ओष्ठ दृढ़न			
lip sector		ओष्ठ खंड			

liquid drop model		द्रव बूंद प्रतिरूप, द्रव बूंद मॉडल	liquid prismatic compass	<i>Geog.</i>	द्रव प्रिज्मी दिक्सूचक
liquid emulsion		द्रव इमल्शन	liquid-propellant rocket		द्रव-नोदित रॉकेट
liquid expanded film		द्रव प्रसारित फिल्म	liquid rocket		द्रव-नोदित रॉकेट
liquid fertilizer		द्रव उर्वरक	liquid scintillation counter		द्रव प्रस्फुर काउन्टर
liquid film		द्रव फिल्म	liquid scintillator		द्रव प्रस्फुरित
liquid flow counter		द्रव प्रवाह काउन्टर	liquid state		द्रव अवस्था
liquid fuel		द्रव ईंधन	liquid structure		द्रव संरचना
liquid-gravitational accumulation		द्रव गुरुत्वाकर्षण संचयन	liquid suspension		द्रव-निलंबन
liquid honing		द्रव शाणन	liquid tight container	<i>Chem.</i>	द्रवसद्धारित
liquid in glass thermometer	<i>Phy.</i>	कांचस्थ द्रव तापमापी, कांचस्थ द्रव थर्मामीटर	liquidus	<i>Chem.</i>	लिविडस
liquid interior		द्रव अंतरंग	liquidus curve		लिविडस वक्र
liquidity		द्रवता	liquidus temperature		लिविडस ताप
liquidity-preference equation	<i>Math.</i>	तरलता वरीयता समी- करण	liquified petroleum gas		द्रवित पेट्रोलियम गैस
liquidizer	<i>H.Sc.</i>	द्रावक	liquor	<i>Chem.</i>	लिकर, द्राव
liquid jet		द्रव जेट	liquor ammonia		लिकर अमोनिया
liquid-junction		द्रव-संधि	liquor amnii	<i>Zool.</i>	उल्व तरल
liquid level gauge		द्रव तल गेज द्रव तल प्रमापी	liquor ferriacetic		लिकर फेरिऐसीटिक
liquid limit		द्रव-सीमा	liquor folliculi	<i>Zool.</i>	लिकर फोलिकुली, पुटिका द्रव
liquid-liquid extraction		द्रव-द्रव निष्कर्षण	liquor iodimitis		लिकर आइयोडीमिटिस
liquid-liquid junction potential		द्रव-द्रव संधि विभव	liquor glass	<i>H.Sc.</i>	मदिरा गिलास, मदिरा पात्र
liquid magmatic		द्रव मैग्मीय	liquorstriction	<i>Chem.</i>	द्रवाकुंचन
liquid magmatic deposit		द्रव मैग्मीय निक्षेप	lira	<i>Bot.</i>	अनुकटक
liquid manure	<i>H.Sc.</i>	तरल खाद	lirella	<i>Bot.</i>	लिरैला
liquid manometer		द्रव मैन्ोमीटर	liroconite	<i>Geol.</i>	लिरोकोनाइट
liquid marble		द्रव संगमरमर	lis (= liss)	<i>Geog.</i>	लिस
liquid medium		द्रव माध्यम	Lisle	<i>H.Sc.</i>	लाइल
liquidogen		द्रवोत्पादक, द्रवजन	lisoloid		लिसोलॉइड
liquidoid		द्रवान	Lissajous figures	<i>Phy.</i>	लिसाजू की आकृतियाँ
liquid phase		द्रव-प्रावस्था	lisse	<i>H.Sc.</i>	लीस
liquid polish		द्रव पॉलिश	Lissocarpaceae	<i>Bot.</i>	लाइसोकार्पेसी
liquid preservation		द्रवस्थ परिदक्षण	list		लिस्ट, सूची
			listening key	<i>Phy.</i>	श्रवण कुंजी
			listening station		श्रवण केन्द्र

<i>Listeria longa</i>	Bot	लिस्टीरिआ लोंगा	lithium	Chem	लीथियम
listing	Math , Chem	1 सूचीकरण 2 लिस्टिंग	lithium chloride		लीथियम क्लोराइड
listing unit		सूची-एकक	lithium hydroxide		लीथियम हाइड्रॉक्साइड
list price	H Sc	सूची-कीमत	lithium iron mica		लीथियम लोह-अभ्रक
list processing		सूची-प्रक्रमण	lithium mica		लीथियम-अभ्रक
list processing language		सूची-प्रक्रमण भाषा	litho	Geog	लियो
list quadrat		सूची क्वाड्रेट	lithobillianic acid	Chem	लियोविलिएनिक अम्ल
list sample		सूची प्रतिदर्श	lithocarbon paper	Geog	लियोकार्बन कागज
list sampling		सूची प्रतिचयन	lithocarp	Bot.	अशमफल
list strip		लिस्ट पट्टी	lithocholic acid	Chem	लियोकोलिक अम्ल
listric surface	Geol.	नक्षत्रिण पृष्ठ	lithocircus		लियोमकंस
Litanthus	Bot	लाइटेन्थम	lithocrayon	Geog	शिलाकनी
<i>Lutchi chinensis</i>	Bot	लूची चाइनेन्सिस (लूची)	lithocyst	Zool	अशमपुटी
literacy	H Sc.	साक्षरता	lithocyte	Zool	अशमकोशिका, अशमपु
literacy percentage	Math	साक्षरता प्रतिशत	lithodesma	Geol	लियोडेस्मा
literal coefficient	Math	अक्षर-गुणांक	lithodomous	Zool	लियोडोमस, शैलदरवासी
literal symbol	Geog	मूलाक्षर प्रतीक	<i>Lithodes maia</i>	Zool	लिथोडीज माया
literati	Geog	विद्वन्मण्डली	litho drawing	Geog	लियो-रेखण
lithacophyte	Bot	चूनोद्भिद्	lithofacies	Geol	शैल सलक्षण
lithanthrax	Chem	नियैन्थ्रैक्स (खनिज कोयला)	lithofacies maps	Geol	शैल सलक्षणो मानचित्र, शैल सलक्षणो मैप
litharge	Chem	लियार्ज	lithogenous	Zool	शैलजन
lithic	Geog	सुनम्य	lithogenous coral		शैलजन प्रवाल
lithia water		लिथिया जल	lithogenesis		शैलजनन
lithical	Geol	शिलीय, शोली	lithogensy	Geol	खनिज जननिकी
lithic assemblage	Geol	शिली समुच्चय	lithoglyph	Geol	शैलोल्कोपण
lithic crystal tuff		शिली क्रिस्टल टफ	lithoglyphics		शैलोल्कोपिकी
lithic sandstone		शिली बालुकाश्म	lithograph	Geol	(a) लियोग्राफ (v) अशममुद्रण करना, लियोमुद्रण करना
lithic tuff		शिली टुफ	lithographic		अशममुद्रण, अशममुद्रणीय
lithic unit		शिली एकक	lithographic combination	Geog	लियो-संयोजन
lithification		शिलीभवन	lithographic etching		लियोमुद्रण निक्षारण
lithified till		शिलीभूत गोलाश्मी मृत्तिका	lithographic limestone	Geol	मुद्रण चूनापत्थर
lithionite	Chem ,Geol	लियोनाइट	lithographic paper		अशममुद्रण कागज
lithiophilite	Chem ,Geol	लिथोफिल्लाइट	lithographic stone	Geol	मुद्रणाश्म
lithite	Zool	अशमक			



<b>lithography</b>	<i>H.Sc., Geog.</i>	अश्ममुद्रण, लियोमुद्रण <i>Geol.</i>	<b>lithothamnium ridge</b>	<i>Geol.</i>	लियोथैमनियम कटक
<b>lithography plate</b>		अश्ममुद्रण पट्टिका	<b>litho tint (process)</b>	<i>Geog.</i>	लियोरंजन (प्रक्रम)
<b>lithoidal</b>	<i>Geol.</i>	अश्मानीय	<b>lithotomous</b>	<i>Zool.</i>	अश्मवेधी
<b>lithoid tufa</b>	<i>Geol.</i>	अश्माम टूफा	<b>lithotope</b>	<i>Geol.</i>	समावसादन क्षेत्र
<b>litho ink</b>	<i>Geog., Chem.</i>	शिलामुद्रण मसी, लियोमसी	<b>lithotrophy</b>	<i>Bot.</i>	अकार्वनिक पोषिता
<b>lithol fast yellow</b>	<i>Chem.</i>	लियोल गाढ़ पीत	<b>lithotype</b>	<i>Geol.</i>	अश्म प्ररूप
<b>lithological</b>	<i>Geog.</i> <i>Geol.</i>	अश्मविज्ञान सम्बन्धी आशिमक	<b>litho varnish</b>	<i>Chem.</i>	अश्ममुद्रण वार्निश, लियो-वार्निश
<b>lithological associate</b>	<i>Geol.</i>	आशिमक सहचर	<b>liti</b>	<i>H.Sc.</i>	लिटि
<b>lithological profile</b>		आशिमक परिच्छेदिका	<b>litigation</b>	<i>Geog.</i>	वाद, मुकद्दमा
<b>lithologic log</b>		आशिमक संलेख	<b>litmus</b>	<i>Chem.</i>	लिटमस
<b>lithologic similarity</b>		आशिमक साम्य	<b>litmus paper</b>		लिटमस-पत्र
<b>lithologic structure</b>		आशिमक संरचना	<b>Litogaster</b>	<i>Geol.</i>	लिटोगेस्टर
<b>lithologic units</b>		आशिमक एकक	<b>Litopterna</b>	<i>Zool.</i>	लिटोप्टर्ना
<b>lithology</b>	<i>Geol.</i>	1. शैल लक्षण 2. आशिमकी, अश्मविज्ञान	<b>litoral (littoral)</b>	<i>Bot., Zool.</i>	बेलावासी, बेलांचली
<b>lithol red</b>	<i>Chem.</i>	लियोल रक्त	<b>lit-par-lit-injection</b>	<i>Geol.</i>	स्तरानुस्तर अंतःक्षेपण
<b>lithol rubine</b>		लियोल रुविन	<b>litre</b>	<i>Phy.</i>	लिटर
<b>litho-machine printer</b>	<i>Geog.</i>	लियो-मशीन मुद्रक	<b>litre atmosphere</b>	<i>Chem., Phy.</i>	लिटर ऐट्मॉस्फियर
<b>lithomarge</b>		लियोमार्ज	<b>lithophilic fungus</b>	<i>Bot.</i>	क्षाररागी कवक
<b>litho-oil</b>	<i>Chem.</i>	लियो तैल	<b><i>Litsea citrata</i></b>	<i>Bot.</i>	लिटसिया सिट्रेटा
<b>lithophagous</b>	<i>Zool.</i>	अश्मभक्षी	<b><i>Litsea glutinosa</i></b>		लिटसिया ग्लूटिनोसा
<b>lithophile</b>	<i>Chem.</i>	सिलिकेटरागी, अश्मरागी	<b><i>Litsea monopetala</i></b>		लिटसिया मोनोपेटला
<b>lithophile element</b>	<i>Geol.</i>	सिलिकेटरागी तत्व	<b>litter</b>	<i>Geog.</i>	करकट, विक्षिप्त
<b>lithophilous</b>	<i>Bot., Zool.</i>	शैलरागी, शैलचर	<b>little cormorant</b>	<i>Zool.</i>	लघु जलकाक
<b>Lithophysa</b>	<i>Geol.</i>	लियोफाइसा	<b>little finger</b>	<i>Zool.</i>	कनिष्ठिका
<b>lithophyte</b>		शैलोद्भिद्	<b>little grebe</b>	<i>Zool.</i>	बंजुलक
<b>litho plate</b>	<i>Geog.</i>	लियोप्लेट	<b>little-leaf disease</b>	<i>Bot.</i>	लघुपत्र रोग
<b>lithopone</b>	<i>Chem., Geol.</i>	लियोपोन	<b>little modified descendant</b>	<i>Geog.</i>	अपरिवर्तित वंशज
<b>lithosere</b>	<i>Bot.</i>	शैल क्रमक	<b>little peach disease</b>	<i>Bot.</i>	लघु आडू रोग
<b>lithosol (skeletal soil)</b>	<i>Geog., Geol.</i>	लियोसॉल, अश्मकचरी मिट्टी	<b>little ring plover</b>	<i>Zool.</i>	लघु बलयति टिटिहरी
<b>lithospermous</b>	<i>Bot.</i>	अश्मबीजी	<b>little stint</b>	<i>Zool.</i>	लघु जलरंक
<b>lithosphere</b>	<i>Geol., Geog.</i>	स्थलमण्डल	<b>littoral</b>	<i>Geol., Zool.</i>	बेलांचली
<b>lithostratigraphic unit</b>	<i>Geol.</i>	अश्म स्तरिक एकक	<b>littoral biochore</b>		बेलांचली जीवसीमा
<b>lithostyle</b>	<i>Zool.</i>	अश्मशूक	<b>littoral cone</b>		बेलांचली शंकु
<b>Lithothamnion</b>	<i>Bot.</i>	लियोथैमिनयॉन	<b>littoral current</b>		बेलांचली धारा
			<b>littoral deposit</b>		बेलांचली निक्षेप
			<b>littoral drift</b>		बेलांचली वाह

Littoral dune		बेलाचली टिब्बा	liver glycogen		यकृत ग्लाइकोजन
Littoral fauna		बेलाचली प्राणिजात	liver bile		यकृत पित्त
littoralis		बेलाचली	liver biopsy		यकृत बायोप्सी
littoral region		बेलाचल	liver brown		यकृत-बादामी, यकृत-कपिल
littoral vegetation		बेलाचली वनस्पति	liver fluke	Zool.	यकृत पर्णाभि
littoral zone		बेलाचल	livering	Chem (Paints)	विगाहन
Littorina	Zool, Geog.	निटोराइना	liver of sulphur (=sulphurated potash)	Chem	गंधकित पोटाश
Littorina littorea	Geog.	लिटोराइना लिटोरिया	liver oil		यकृत तेल
littorine fringe (=supralittoral fringe)	Zool	लिटोराइन धारी (अतिबेलाचली धारी)	live room	Phy.	अनुरणक बरझ
littorine zone		लिटोराइन क्षेत्र	liver opal	Geol	यकृतवर्णी ओपल
Littrow mirror	Chem, Phy.	लिट्रो दर्पण	liver ore		यकृतवर्णी अपस्क
Littrow mounting		लिट्रो स्थापन व्यवस्था	liver pyrites		यकृतवर्णी माशिक
Littrow prism		लिट्रो प्रिज्म	liver rock	Geol.	लिवर रॉक
Littrow spectrograph		लिट्रो स्पेक्ट्रमलेखी, लिट्रो स्पेक्ट्रोग्राफ	liver sinusoid	Bot, Zool	यकृत कोटरक
Lituites	Geol	लिटुआइटीज	liver of antimony	Chem	गन्धकित ऐन्टिमनी
Lituites lituus		लिटुआइटीज लिटुअस	liverstone	Geol	लिवरस्टोन
Litz conductor	Phy.	लित्स चालक	liverwort	Bot.	लिवरवर्ट
live	Phy	सजीव प्रसारण	livery		वर्दी
live-birth	H Sc	जीवित जन्म	'live' silver	Chem.	'लाइव' रजत, सशकन रजत
live circuit		सजीव परिपथ	live steam	Chem.	सशकन प्रवाप्य, सजीव प्रवाप्य
live end	Phy	ध्वनि परावर्ती सिरा		Phy.	उत्पन्न भाप
live fishes (air breathing fishes)	Zool	वायुश्वासी मछली	livestock	H Sc, Geog.	पशुधन
live fish fishery		वायुश्वासी मात्स्यकी	livestock farming		पशुधन-भ्रमण
live foods	H Sc.	किण्वित खाद्य	livestock industry		पशुधन-उद्योग
livelihood		जीविका	livestock statistics		पशुधन सम्बन्धी आंकड़े
livelihood classes		जीविका वर्ग	live studio	Phy.	अनुरणक स्टूडियो
livelihood pattern		जीविका प्रतिरूप	liveus	Bot.	पोतवर्ण
live load	Phy.	चल उद्भार	live-virus vaccine	Zool	सजीव विषाणु टीका
live-load effect		चल उद्भार प्रभाव	live wire	Phy.	विद्युन्मय तार
live lode	Geol.	बहुमूल्य शिरा	livid	Geog.	नीनारम
live moraine	Geog.	सक्रिय हिमोड	living cell	Bot, Zool	जीवित कोशिका
live programme	Phy.	जीवन्त कार्यक्रम	living chamber	Geol	आवास बरझ
live quartz	Geol.	बहुमूल्य क्वार्ट्ज	living estate	H.Sc.	निर्वाह संपदा
liver	Zool, H Sc.	यकृत, जिगर			

living fossil	<i>Geol., Bot., Zool.</i>	जीवित "फॉसिल"	load coil (=work coil)	लोड कुंडली, कार्य कुंडली
living matter	<i>Chem.</i>	जैव द्रव्य	load compensation	लोड प्रतिपूरण
living membrane	<i>Bot.</i>	सजीव कला	loaded	भारित
living plant cell	<i>Geog.</i>	जीवित पादप कोशिका	loaded antenna	भारित ऐन्टेना
living quarter	<i>Geog.</i>	आवासी मोहल्ला	loaded concrete	भारित कंक्रीट
living reef	<i>Geol.</i>	विकासी भित्ति, विकासी रीफ़	loaded concrete shield	भारित कंक्रीट परिरक्षक
living rock	<i>Geol., Geog.</i>	अखनित शैल	loaded impedance	भारित प्रतिवाधा
living room	<i>H.Sc.</i>	वासकक्ष	loaded line	भारित लाइन, लोडयुक्त लाइन
living space	<i>Geog.</i>	वासस्थान	loaded push pull amplifier	भारित कर्पापकर्पी प्रवर्धक
liwa	<i>Geog.</i>	लीवा	loaded to capacity	क्षमतानुकूल भारित
lixivate	<i>Chem.</i>	निक्षालन करना	loader	<i>Phy.</i> स्मृतिभारक
lixiviation		निक्षालन	load factor	उद्भार-गुणक
lizard	<i>Zool.</i>	गोधिका, छिपकली	load format	उद्भार रूपण
lizard fish	<i>Zool.</i>	तुम्बिल	load grading curve	उद्भार निर्धारण वक्र
llama	<i>Zool., Geog., H.Sc.</i>	लामा	load impedance	लोड प्रतिवाधा
llama yarn	<i>H.Sc.</i>	लामा सूत	loading	1. भारण, उद्भारण 2. (of furnace) घान डालना
llan	<i>Geog.</i>	लान	loading cavity	उद्भारक गुहिका
Llano	<i>Bot., Geog.</i>	लानो	loading coil	भारण कुंडली
llanos	<i>H.Sc.</i>	लानोज़	loading concept	भारण संकल्पना
L layer	<i>Bot.</i>	L संस्तर	loading error	भारण त्रुटि
Lloyd method	<i>Bot.</i>	लॉयड विधि	loading error	भारण त्रुटि
Lloyd's strip		लॉयड की पट्टी	loading law	उद्भारण नियम
load	<i>Chem., Phy., H.Sc.</i>	उद्भारण, भारण, बोझ, उद्भार, भार, लोड	loading routine	स्मृतिभार नेमका
load admittance		लोड प्रवेश्यता	loading stress	भारण प्रतिबल
load and go		भारण संचालन	loading unloading boundary	उद्भारण भारमोचन परिसीमा
load arm		भार-भुजा	loading unloading condition	<i>Math.</i> उद्भारण भारमोचन प्रतिबन्ध
load card		भारक कार्ड, उद्भार पत्रक	load matching	लोड सुमेलन
load carrying capacity		भार-वाहन क्षमता	loadmeter	उद्भारमापी
load cell		लोड सेल	load point	<i>Phy.</i> भार-प्रारम्भ बिन्दु
load centre		लोड केन्द्र, भार केन्द्र	load-rate	उद्भार दर
load characteristic		लोड अभिलक्षण	load metamorphism	<i>Geol.</i> भारकायांतरण
load circuit		उद्भार परिपथ, लोड परिपथ	load of river	<i>Geol.</i> नद भार, नदोढक
			load plane	उद्भार-समतल

load point		उद्भार-बिन्दु	lobodont	Geol.	लोबोडॉन्ट
load pressure	Geol.	भार-दाब	lob of gold	Geol.	स्वर्ण निक्षेपिका
load program		उद्भारण प्रोग्राम	lobola	Geog	लोबोला
loadstar (polestar)	Geog.	ध्रुवतारा	lobopodium	Zool	पालिपाद, लोबोपोडियम
loadstone	Geol., Phy.	ध्रुव-मत्सर	Lobosa	Zool	लोबोसा
load transfer switch	Phy.	लोडन्तरण स्विच	lobose	Zool	पालियुक्त
loaf	H Sc	लोफ	Lobry De Bruyn-Van Ekenstein rearrangement	Chem	लोब्री-ड-ब्रॉइन् वान एकेन्स्टाइन पुनर्विन्यास
loaisite	Geol.	लोऐसाइट	lobster	Zool, Geog	महाचिंगट, लॉब्सटर
loam	Geog., H.Sc.	डुमट	lobster fishery		महाचिंगट मात्स्यकी
loam terrace		डुमट वेदिका	lobster pot		महाचिंगट करड
loam-terraia		डुमट-भूभाग	lobulate	Zool, Geol	पालिकोय, सपालिक
loamy soil		डुमटी मृदा	lobulated hydrocoel		सपालिक जलगुहा
loan transaction	H.Sc.	उधार लेनदेन	lobulated lung		सपालिक फुफ्फुम
Loasaceal	Bot	लोएजेसी	lobulate stomach		सपालिक आमाशय
Loasales	Bot	लोएजेसीज	lobulation	Biol	सपानिकाभवन
Lobaria isidiosa	Bot.	लोबेरिआ इसीडिओसा	lobule	Bot, Zool.	पानिका
Lobaria regtigera		लोबेरिआ रेगटीगेरा	lobulus	Zool	पत्राश
lobase delta	Geog	पालियुक्त डेल्टा	lobus inferior	Zool.	निम्न पालि
Lobata	Zool.	लोबेटा	lobus maxilla		जम्भिक पालि
lobate	Bot.	पालियुक्त	lobus superior		ऊर्ध्व पालि
lobbing	Chem.	आस्खलन	lobworm	Geol	लॉबवर्म
lobe		1 पानि 2 अश, पिडक, पिण्डिका	local		स्थानीय
lobed disc	Bot.	सपाति विम्ब	local action		स्थानीय क्रिया
lobe dimensions		पालि माप	local apparent noon		स्थानीय आभासी मध्याह्न
lobelanjine	Chem	लाबेलैनीन	local apparent time		स्थानीय आभासी समय
lobelet	Zool	पालिक	local attraction		स्थानीय आकर्षण
Lobelaceae	Bot.	लोबेलिएसी	local base		स्थानीय आधार
Lobelia nicotinaefolia	Bot.	लोबेलिया निकोटिनीफोलिया	local baselevel		स्थानीय निम्नतमस्तर
lobe switching		पालि स्विचन	local buckling		स्थानीय आकुचन
lobiform	Zool.	पालिरूप	local centre of mass		स्थानीय द्रव्यमान केन्द्र
lobi inferiores	H Sc	लोबि इन्फिरिओर्म्, अधरपालि	local centroid		स्थानीय केन्द्रक
lobing		पालिभवन	local centroid velocity field		स्थानीय केन्द्रक वेग-क्षेत्र
loblolly	Geog., H.Sc.	लॉबलॉली	local channel		स्थानीय चैनल
			local character		स्थानीय लक्षण

local chart		स्थानीय संचित्र	localised population survey	स्थानगत जनसंख्या सर्वेक्षण
local climate	<i>Geog.</i>	स्थानीय जलवायु	localised vector	स्थानगत सदिश
local cluster		स्थानीय गुच्छ	localiser	<i>Phy.</i> स्थानीकारक
local compactness		स्थानीय संहतता	localiser antenna	स्थानीकारक ऐन्टेना
local (isostatic) compensation		स्थानीय (समस्थितिक) प्रतिकार	local isometry	स्थानीय समदूरीकता
local control		स्थानीय नियंत्रण	local isostatic anomaly	स्थानीय समस्थितिक असंगति
local convexity		स्थानीय अवमुखता	local isotropy	स्थानीय समदैशिकता
local coordinates		स्थानीय निर्देशांक	locality	<i>Geog.</i> संस्थिति, उप-वस्ती
local correlation		स्थानीय सहसंबंध	localization	<i>H.Sc., Geog.</i> स्थानीकरण, स्थान निर्धारण
local current		स्थानीय धारा	local lesion	स्थानीय विकृत.
local deformation centre		स्थानीय विकृति-केन्द्र	local lesion count	स्थानीय विकृत गणना
local derivative		स्थानीय अवकलज	local lesion reaction	स्थानीय विकृत प्रतिक्रिया
local dimensionality		स्थानीय विमीयता	locally adiabatic motion	<i>Math.</i> स्थानतः रुद्धोष्म गति
local dip		स्थानीय नति	locally analytic	स्थानतः विश्लेषिक
local disconformity		स्थानीय अपसमविवृत्यास	locally bilinear space	स्थानतः द्विरैखिक समष्टि
local disturbance		स्थानीय विक्रोम	locally bounded space	स्थानतः परिवद्ध समष्टि
local dynamics		स्थानीय गतिकी	locally compact	स्थानतः संहत
local effect		स्थानीय प्रभाव	locally connected spaces	स्थानतः संबद्ध समष्टियाँ
local electron density		स्थानीय इलेक्ट्रॉन घनत्व	locally convex space	स्थानतः अवमुख समष्टि
local environment		स्थानीय वातावरण	locally Euclidean	स्थानतः यूक्लिडीय
local gauze theory		स्थानिक गेज सिद्धान्त	locally finite	स्थानतः परिमित
local glaciation		स्थानीय हिमनदन	locally finite base	स्थानतः परिमित आधार
local government		स्थानीय शासन, स्थानीय सरकार	locally finite cover	स्थानतः परिमित आवरण
local gravity map		स्थानीय गुरुत्व मानचित्र	locally holomorphic function	स्थानतः होलोमॉर्फिक फलन
local group		स्थानीय समूह	locally isomorphic	स्थानतः तुल्याकारी
local horizon (= apparent horizon)		दृष्ट क्षितिज	locally isotropic turbulence	स्थानतः समदैशिक प्रक्षोभ
local horizon system		स्थानीय क्षितिज निकाय	"locally Maxwellian"	स्थानीय मैक्सवेली
local information		स्थानीय सूचना	locally metric	स्थानतः दूरीक
localised		स्थानगत, स्थानीयित	locally solid space	स्थानतः घन समष्टि
localised character		स्थानगत लक्षण	locally spectral transformation	स्थानतः मानावलीय निरूपण
localised distortion		स्थानगत विरूपण	locally uniform convergence	स्थानतः एकसमान अभिसरण
localised fringe		स्थानीयित फ्रिज		
localised impurities		स्थानीयित अपद्रव्य		

local Mach number	स्थानीय माख संख्या	local topography	स्थानीय स्थलाकृति
local market	स्थानीय बाजार	local transitivity	स्थानीय सक्रमकता
local maximum	स्थानीय अधिकतम	local unconformity	स्थानीय विषमविन्यास
local mean time	स्थानीय माध्य समय	local value	स्थानीय मान
local milieu	स्थानीय वातावरण	location	1. (place) स्थान, अवस्थिति
local metamorphism	स्थानिक कायांतरण		2. (to locate) स्थान निर्धारण
local migration	<i>Zool.</i> स्थानिक प्रवास		3. (to condition) स्थिति निर्धारण
local minimising property	स्थानीय अल्पतमक गुणधर्म		4. (to station) अवस्थान
local minimum	स्थानीय न्यूनतम	locational advantage	<i>Geog.</i> स्थानिक लाभ
local name	स्थानीय नाम	locational opportunity	स्थानिक सुयोग
local optimum	स्थानीय इष्टतम	locational pattern	अवस्थिति अनुरूप
local origin	स्थानीय उद्गम	locational relationship	अवस्थिति-सम्बन्ध
local parameter	स्थानीय प्राचल	location counter	स्थान सूचक
local property	स्थानीय गुणधर्म	location factor	अवस्थिति-कारक
local relief	स्थानीय उच्चावचन	location in environment	वातावरणीय अवस्थिति
local resource	स्थानीय साधन, स्थानीय ससाधन	location map	अवस्थिति मानचित्र
local response	स्थानीय अनुक्रिया	location of industry	उद्योग-अवस्थिति
local ring	स्थानीय वलय	location parameter	स्थान-प्राचल, अवस्थिति प्राचल
local rotation tensor	स्थानीय घूर्णन प्रतिदिश	location quotient	अवस्थिति-खंड
local script	स्थानीय लिपि	location sketch	अवस्थिति-रेखाचित्र
local separability	स्थानीय पृथक्करणीयता	location test	स्थान परीक्षण
local shearing stress	स्थानीय क्षपरूपक प्रतिबल	locator beacon	<i>Phy.</i> स्थाननिर्धारक बीकन
local shower	स्थानीय वर्षण	locellate	<i>Bot.</i> कक्षिकायित
local sidereal time	स्थानीय नाक्षत्र समय	locellate groove	<i>Geol.</i> कक्षिकायित खाँच
local skin friction coefficient	स्थानीय उपरिस्तर घर्षण गुणांक	loch	<i>Geog.</i> लॉक
local societies	स्थानीय समाज	loch-hole	लॉक-होल (बास्तरित गुहिका)
local solar motion	स्थानीय सौर गति	lochmocolous	<i>Bot.</i> कुजवासी
local specialisation	स्थानीय विशेषीकरण	lochmodophulus	<i>Bot.</i> कुजवासी
local sphere	स्थानीय गोला	lochmophilus	<i>Bot.</i> कुजरागी
local standard of rest	स्थानीय विराम मानक	<i>Lochnera rosea</i>	<i>Bot.</i> लाक्नेरा रोसिया (सदाबहार)
local stellar density	स्थानीय तारा-घनत्व	location	<i>Zool.</i> अनुविषमवास <i>Bot.</i> स्थानिक सघ
local stress	स्थानीय प्रतिबल		
local terrace	स्थानीय वेदिका		
local thermodynamic equilibrium	स्थानीय उष्मागतिकीय सतुलन		
local time	स्थानीय समय		

locies	<i>Zool.</i> <i>Bot.</i>	अनुविषमवास स्थानिक संघक	locomotion	<i>Zool.</i>	चलन, गमन
lock	<i>Geog., H.Sc.</i>	लॉक, जलपाश	locomotor	<i>Geol., Geog.</i>	चलन
lock and follow scanner	<i>Phy.</i>	अभिवंधानुसरण क्रम-वीक्षक	locomotor appendage	<i>Zool.</i>	चलन-अनुबंध
lock arm	<i>Phy.</i>	अभिवंधक भुजा	locomotor organ		चलन-अंग
locked dislocation	<i>Phy.</i>	अभिवद्ध प्रभ्रंश	locomotor organelles		चलन कोशिकांग, चलन अंगक
locked groove	<i>Phy.</i>	संकेन्द्री खांच	locomotor wave		चलन तरंग
Locke hand level	<i>Geog.</i>	लॉक हैन्ड लेवल (यंत्र)	locomotory function	<i>Geol.</i>	चलन क्रिया
locked oscillator		अभिवद्ध दोलित	locomotory podium	<i>Zool.</i>	चलन-पद
locked pair (= Goto pair)	<i>Phy.</i>	गोटो युगल	locomotory recess		चलन प्रतिसार
Locke level	<i>Geol.</i>	लॉक लेवल	loculament	<i>Bot.</i>	कोष्ठक
lock-in	<i>Chem.</i> <i>Phy.</i>	तालकन, अभिवंधन	locular dimorphism	<i>Geol.</i>	कोष्ठक द्विरूपता
locking	<i>Phy.</i>	अभिवंधन	locular structure		कोष्ठक संरचना
locking condition		अभिवंधी प्रतिबंध	loculate socket	<i>Geol.</i>	कोष्ठक गतिका
locking key		अभिवंधी कुंजी	locule	<i>Bot.</i>	कोष्ठक
locking locus		अभिवंधन पथ	loculicidal	<i>Bot.</i>	कोष्ठ-विदारक
locking magnet		अभिवंधी चुम्बक	loculus		कोष्ठक
locking (= mainhold)		अभिवंधन	locus	<i>Zool.</i> <i>Math.</i>	विस्थल विन्दुपथ, रेखापथ
locking medium		अभिवंधी माध्यम	locus of antagonism	<i>Geog.</i>	विरोध-स्थान
locking phenomenon		अभिवंधी परिघटना	locus of attack	<i>Geol.</i>	अपरदन केन्द्र
lock-in mixer		अभिवंधी मिश्रक	locust	<i>Zool.</i>	टिड्डी
lock-in range	<i>Phy.</i>	अभिवद्ध परिसर	Locusta	<i>Zool.</i>	लोकस्टा
lock in synchronism		अभिवंधी तुल्यकालन	<i>Locusta gregaria</i> (= <i>Schistocerca gregaria</i> )		लोकस्टा गिगोरिया (शिस्टोसर्का गिगोरिया)
lock mechanism		1. अभिवंधन क्रियाविधि 2. अभिवंधन यंत्रावली	<i>Locusta migratoria</i>		लोकस्टा माइग्रेटोरिया
locknit	<i>H.Sc.</i>	लॉकनिट	locust swarm	<i>Zool.</i>	टिड्डी दल
lock-nut	<i>Geog.</i>	लॉक नट, ताला-डिबरी	lodar (= Iorad)	<i>Phy.</i>	लोडार
lock on	<i>Phy.</i>	अर्जन क्षण, अभिवंध क्षण	lode	<i>Geol.</i>	शिरानिक्षेप, लोड
lock on circuit	<i>Phy.</i>	लक्ष्याभिवंधी परिपथ	lodestar	<i>Geog.</i>	ध्रुवतारा
lock-on range		अभिवंध परास	lodestone	<i>Phy.</i>	चुंबक-पत्थर
lock-out circuit	<i>Phy.</i>	तालाबंधी परिपथ	lodge (= lodgement)	<i>Geog.</i>	निवास-स्थान
lock-out pulse		तालाबंधी स्पंद	Lodge-Cottrell apparatus	<i>Chem.</i>	लॉज-कोट्ट्रेल उपकरण
Lock's instability criterion	<i>Math.</i>	लॉक अस्थायित्व निकष	lodge moraine	<i>Geol.</i>	संथित हिमोड
lock unit		अभिवंधी एकक	lodging	<i>Bot., Geog.</i>	पतन
lock up	<i>Geog.</i>	कसना			

iodicule	<i>Bot.</i>	लॉडिकूल	<i>logarithm (log)</i>	<i>Math.</i>	लघुगणक, लॉगैरिथ्म
iods (logarithmic odds)	<i>Math.</i>	लघुगणकीय संयोगानुपात	logarithmic		लॉगैरिथ्मीय, लघुगणकीय
loess	<i>Geol., Geog.</i>	लोएस	logarithmic accuracy		लघुगणकीय यथार्थता
loess bluff		लोएस ध्र	logarithmic amplifier		लॉगैरिथ्मीय प्रवर्धक, लघुगणकीय प्रवर्धक
loess canyon		लोएस-कैनियन	logarithmic calculation		लॉगैरिथ्मीय परिकलन
loess-cave dwelling		लोएस गुहा वास	logarithmic convex function		लघुगणकीय अत्रमुख फलन
loess cliff		लोएस भृगु	logarithmic cosine		लॉगैरिथ्मीय कोसाइन, लघुगणकीय कोज्या
loess deposit		लोएस निक्षेप	logarithmic counting rate meter		लॉगैरिथ्मीय गणन दर-मापी, लघुगणकीय गणन दरमापी
loess dike		लोएस डाइक	logarithmic curve		लॉगैरिथ्मीय वक्र, लघुगणकीय वक्र
loess doll		लोएस ढॉल	logarithmic decrement	<i>Math</i>	लॉगैरिथ्मीय अपक्षय
loess highland		लोएस उच्चभूमि	logarithmic derivative		लघुगणकीय अवकलन
loess kindchen		लोएस अणुप्रथिका	logarithmic differentiation		लॉगैरिथ्मीय अवकलन
loess loam		लोएस-दुमट	logarithmic energy decrement		लॉगैरिथ्मीय ऊर्जा अपक्षय, लघुगणकीय ऊर्जा अपक्षय
loess nodule		लोएस ग्रथिका	logarithmic energy loss		लघुगणकीय ऊर्जा हानि
loess origin		लोएस उत्पत्ति	logarithmic function		लॉगैरिथ्मीय फलन
loess pinnacle		लोएस शिखरिका	logarithmic graph		लघुगणकीय आलेख
loess pipe		लोएस नलिका	logarithmic graph-paper		लॉगैरिथ्मीय प्रारक पेपर
loess plateau		लोएस पठार	logarithmic increase		लॉगैरिथ्मीय वृद्धि, लघुगणकीय वृद्धि
loess region		लोएस प्रदेश	logarithmic line graph		लॉगैरिथ्मीय रेखाप्राक
loess soil		लोएस मृदा	logarithmic mean (=geometric mean)	<i>Math</i>	गुणोत्तर माध्य
loess tube		लोएस नली	logarithmic model		लघुगणकीय निदर्श
loess upland	<i>Geog</i>	लोएस उपरिभूमि	logarithmic normal distribution		लघुगणकीय प्रसामान्य वटन
loess village		लोएस ग्राम	logarithmic phase		लॉगैरिथ्मीय प्रावस्था
loess well		लोएस कूप	logarithmic potential		लघुगणकीय विभव
lofar	<i>Phy.</i>	लोफार	logarithmic profile		लघुगणकीय परिच्छेदिका
loft	<i>Chem.</i>	उत्कल			
Lofton Merritt stain	<i>Chem</i>	लोफ्टन मेरिट अक्षिरजक			
lofty	<i>Chem (Text)</i>	उच्छ्रित, लॉफ्टी			
log	<i>Math. Geog. Geol.</i>	लॉग लघु संख			
log activity value		लॉग सक्रियता मान			
loganberry	<i>Bot</i>	लॉगैनबैरी			
Loganiaceae	<i>Bot</i>	लॉगेनिएसी			
Loganiales		लॉगेनिएसीज			
loganstone	<i>Geog.</i>	लोगनास			



logarithmic relationship		लघुगणकीय संबंध	logical sum		तर्कसंगत योगफल
logarithmic residue		लघुगणकीय अवशेष	logical symbol		तर्कसंगत प्रतीक
logarithmic scale		लघुगणकीय मापक्रम	logical vector		तर्कसंगत सदिश
logarithmic scale-ruling		लघुगणकीय मापक्रम रेखांकन	logic circuit		तर्क परिपथ
logarithmic series		लॉगेरिथ्मीय श्रेणी, लघुगणकीय श्रेणी	logic diagram		तर्क आरेख
logarithmic sine		लॉगेरिथ्मीय साइन, लघुगणकीय ज्या	logic element		तर्क अवयव
logarithmic singularity		लॉगेरिथ्मीय वैचित्र्य, लघुगणकीय वैचित्र्य	logic function		तर्क फलन
logarithmic spiral (equiangular spiral)		लॉगेरिथ्मीय सर्पिल, लघुगणकीय सर्पिल	logic operation		तर्क संक्रिया
logarithmic table (=log table)		लॉगेरिथ्मीय सारणी, लघुगणकीय सारणी	logic reed relay		तर्क रीड रिले
logarithmic transformation	Math.	लघुगणकीय रूपांतरण	logic switch		तर्क स्विच
logarithmic velocity profile	Math.	लघुगणकीय वेग-परिच्छेदिका	logic symbol		तर्क प्रतीक
Logarska dolina	Geog.	लोगास्का डोलाइना	log-inhabiting form	Zool.	लट्ठावासी जीव
log book	Geog.	लॉग-बुक	logistic	Phy.	लाजिस्टिक, सुप्रचालनिक
logger	Geog.	लट्टक	logistic curve	Math.	वृद्धिघात वक्र, फल-रीड वक्र
logging	Geol.	संलेखन	logistic law		वृद्धिघात नियम
log house	Geog.	लट्टा-गृह	logistics	Phy.	1. संभार तंत्र 2. सुप्रचालन विज्ञान
logic	Math.,Phy.	तर्क	logistics concept		संभार धारणा
logical		तर्कसंगत	logistics plan		संभार योजना
logical analysis		तर्कसंगत विश्लेषण	logistic(s) protection		संभार रक्षण
logical comparison		तर्कसंगत तुलना	logit	Math.	लॉजिट
logical decision		तर्कसंगत निर्णय	logit graph		लॉजिट आलेख
logical design		तर्कसंगत अभिकल्पना	log jam	Geol.	लॉग बाँध
logical function		तर्कसंगत फलन	log line	Geog.	लॉग लाइन
logical identity		तर्कसंगत सर्वसमिका	log-log plot	Math.	log-log आलेख, लॉग-लॉग आलेख
logical instruction		तर्कसंगत अनुदेश	log-log transformation		log-log रूपांतरण, लॉग लॉग रूपांतरण
logically equivalent		तर्क की दृष्टि से तुल्य	lognormal	Math.	लॉग प्रसामान्य, लघुगणक प्रसामान्य
logical operation		तर्कसंगत संक्रिया	lognormal distribution		लघुगणक प्रसामान्य वंटन, लॉग प्रसामान्य वंटन
logical order		तर्कसंगत क्रम	logometer	Chem. (Met.)	तुल्यांकमापी
logical positivism	Phy.	तात्त्विक प्रत्यक्षवाद	logotype	Bot.	वृत्त प्ररूप
logical product		तर्कसंगत गुणनफल	log periodic antenna	Phy.	लॉग आवर्ती ऐन्टेना
			log probability chart	Geol.	लॉग प्रायिकता चार्ट

log sector disc		लॉग खंड पट्टिका, लघुगणक खंड पट्टिका	London's theory	Chem.	लडन वाद
log spiral antenna		लॉग सर्पिल ऐन्टेना	London Van Der- Waals attraction	Chem.	लन्डन वान्डरवाल्स आकर्षण
log washer		लॉग वाशर, लॉग प्रक्षालित्र	lone electron	Chem.	एकाकी इलेक्ट्रॉन
logwood	H Sc	लॉगवुड	lone electron pair		एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म
logwood colouring	Chem.	लॉगवुड रजन	lone star tick	Zool.	एक तारा मीन
loiasis	Zool	लोअता	long	Chem. (GI)	1 दीर्घ, लम्बा 2 दीर्घश्यानी (काच)
loin cloth	Geog	कटि वस्त्र	'long arm' balance	Chem.	'दीर्घ भुजा' तुला
loipanic acid	Chem	लाइपॉनिक अम्ल	long bladed spear	Geog	दीर्घ-फलक शूल
Loitsiansky's invariant	Math.	लायन्सियास्की निश्चर	long chain	H Sc.	दीर्घ शृंखला
loktal base	Phy.	लोकटल आधार	long chain dyeing		दीर्घ शृंखला रजन
loktal tube		लोकटल नलिका	long chain fatty acid		दीर्घ शृंखला वसा अम्ल
Loligo	Zool	लोलिगो	longchain methine dyes		दीर्घ शृंखला मेथीन रजक
<i>Loligo affinis</i>		लोलिगो ऐफिनिस	long-chain molecule		दीर्घ शृंखला अणु
<i>Loligo indica</i>		लोलिगो इन्डिका	long chord	Geog	दीर्घ जीवा
<i>Loligo vulgaris</i>		लोलिगो वल्गेरिस	long cloth	H Sc	लट्ठा
<i>Lolium perenne</i>	Bot.	लोलियम पेरेने	long compound	Chem.	दीर्घ शृंखल योगिक
lollingite	Chem	लौलिंगाइट	long compound fatty acid		दीर्घ शृंखल वसीय अम्ल, दीर्घ शृंखल फैटी ऐसिड
lolongate	Bot	अनुलम्ब दीर्घ	long conical net	Zool.	दीर्घ शंकवाकार जाल
loma	Geog	लोमा	long counter	Phy.	भूदूरन गणित
Lomaria	Bot	लोमेरिया	long-cycled rust	Bot.	दीर्घचक्री किट्ट
lomasome	Bot	लोमेसोम	long-day plant	Bot.	दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधा
<i>Lomatia ilicifolia</i>	Bot	लोमेशिया इलिसि- फोलिया	long-distance navigation aid	Phy.	सुदूर नौचालन सहाय
lomatiol	Chem	लोमाशिअल	long distance transmission		सुदूर संचारण
loment	Bot	लोमेन्ट	long distance xerography	Phy	दूरी जेरोग्राफी
lomentum	Bot.	लोमेन्टम	longeron	Phy	लॉगेरॉन
Lommel integral	Math.	लॉमिल समाकूल	longer-range effect	Math	दीर्घतर परिसर प्रभाव
lomonite	Geol	लोमोनाइट	longest day	Geog.	दीर्घतम दिवस
lona	H Sc.	लोना	longest, lus	Bot	दीर्घवर्तिक
Lonchopterus	Bot	लॉन्कोप्टेरिस	longevity		1 आयुक्ताव 2. दीर्घआयु
London dispersion force	Chem,Phy.	लन्डन परिक्षेपण बल	long frost-free season	Geog.	दीर्घ सुषारहीन ऋतु
London interaction (= Vander Waals interaction = fluctuating dipole interaction)	Phy.	लडन परस्पर क्रिया, उच्चान्त्र द्विध्रुव परस्पर क्रिया	long hair	Geog.	दीर्घ केश

long handled maul	<i>Geog.</i>	बड़ा मोगरा	longitudinal chromatic aberration	अनुदैर्घ्य वर्ण-विपथन
long handled tool	<i>H.Sc.</i>	लम्बे हथियेवाला बीजार	longitudinal coast	अनुदैर्घ्य तट
long head	<i>Geog.</i>	दीर्घ शिरस्क	longitudinal connective	अनुदैर्घ्य संघोजिनी
long headed race	<i>Geog.</i>	दीर्घ कपाली प्रजाति	longitudinal consequent stream	अनुदैर्घ्य अनुवर्ती सरिता
long-horned grass-hopper	<i>Zool.</i>	दीर्घशृंगी टिड्डा	longitudinal glacier	अनुदैर्घ्य हिमनदी
longicidal	<i>Bot.</i>	अनुदैर्घ्य विदारक	longitudinal cord	अनुदैर्घ्य रज्जु
longicorn beetle	<i>Zool.</i>	दीर्घशृंगी भृंग	longitudinal crevasse	अनुदैर्घ्य हिमविदर
longiflorus	<i>Bot.</i>	दीर्घपुष्पी	longitudinal curve	अनुदैर्घ्य वक्र
longifolene	<i>Chem.</i>	लॉगीफोलीन	longitudinal displacement	अनुदैर्घ्य विस्थापन
longifurcate	<i>Zool.</i>	दीर्घविशाख	longitudinal-dimension	अनुदैर्घ्य विमा
long infection feed	<i>Bot.</i>	दीर्घावधिक संक्रमणाशन	longitudinal dune	अनुदैर्घ्य टिड्डा
long ink	<i>Chem.</i>	कर्पी मसी	longitudinal elongation	अनुदैर्घ्य दीर्घ्यवृद्धि
longipennate	<i>Zool.</i>	दीर्घपक्षक	longitudinal expansion	अनुदैर्घ्य प्रसार
longipes	<i>Bot.</i>	दीर्घपादी	longitudinal fault	अनुदैर्घ्य फ्रंस
longirostral	<i>Zool.</i>	दीर्घतुण्डीय	longitudinal fibril	अनुदैर्घ्य तंतुक
longissimus dorsi	<i>Zool.</i>	लॉगिसिमस डॉर्सॉइ, अनुदैर्घ्य पृष्ठपेशी	longitudinal flagellum	अनुदैर्घ्य कशाभ
longistaminate	<i>Bot.</i>	दीर्घपुंकेसरी	longitudinal gyrofrequency	अनुदैर्घ्य घूर्णवृत्ति
longitude	<i>Math., Geog.</i>	1. रेखांश 2. देशान्तर	longitudinal horst	अनुदैर्घ्य होस्ट
longitude effect (cosmic rays)		रेखांश प्रभाव	longitudinal impact	अनुदैर्घ्य संघट्टन
longitude in the orbit	<i>Math.</i>	कक्षागत रेखांश	longitudinal invariant	अनुदैर्घ्य निश्चर
longitude of perihelion	<i>Math.</i>	सूर्यनीच का रेखांश	longitudinal invariant surface	अनुदैर्घ्य निश्चर पृष्ठ
longitude value	<i>Geog.</i>	देशान्तर मान	longitudinal joint	अनुदैर्घ्य संधि
longitude vector		रेखांश सदिश	longitudinal layer	अनुदैर्घ्य स्तर
longitudinal		1. देशांतरीय 2. अनुदैर्घ्य	longitudinal lip striae	अनुदैर्घ्य ओष्ठ रेखा
longitudinal aberration	<i>Phy.</i>	अनुदैर्घ्य विपथन, अक्षीय विपथन	longitudinal-longitudinal wave	अनुदैर्घ्य-अनुदैर्घ्य तरंग
longitudinal acceleration		अनुदैर्घ्य त्वरण	longitudinal magnification	अनुदैर्घ्य आवर्धन
longitudinal acoustical phonon		अनुदैर्घ्य ध्वानिक फोनॉन	longitudinal mass	अनुदैर्घ्य द्रव्यमान
longitudinal axis		अनुदैर्घ्य अक्ष	longitudinal moraine	अनुदैर्घ्य हिमोढ
longitudinal bars		अनुदैर्घ्य दंड	longitudinal motion	अनुदैर्घ्य गति
longitudinal bundle		अनुदैर्घ्य पेशी	longitudinal muscle stratum	अनुदैर्घ्य पेशी स्तर
longitudinal blood-vessel		अनुदैर्घ्य रुधिर वाहिका		

longitudinal nerve cord		अनुदैर्घ्यं तत्रिका रज्जु	long period (periodic table)	Chem.	दीर्घं भावत्तं
longitudinal optical phonon		अनुदैर्घ्यं प्रकाशीय फोनॉन	long period fluctuation	Geog	दीर्घकालिक उच्चावचन, दीर्घकालिक घटबढ़
longitudinal profile		अनुदैर्घ्यं परिच्छेदिका	long period market		दीर्घकालिक बाजार
longitudinal pulse		अनुदैर्घ्यं स्पन्द	long periodic table		दीर्घं भावत्तं सारणी
longitudinal ridge		अनुदैर्घ्यं कटक	long period inequality		दीर्घकालिक अनभिका
longitudinal stability		अनुदैर्घ्यं स्थायित्व	long period price		दीर्घकालीन कीमत
longitudinal strain		अनुदैर्घ्यं विकृति	long -period seismograph	Geol	दीर्घकालिक भूकंपलेखी
longitudinal stress		अनुदैर्घ्यं प्रतिबल	long period species	Geog.	दीर्घावधि स्पीशीज
longitudinal striation		अनुदैर्घ्यं धारी	long-period strain seismograph	Geol	दीर्घकालिक विकृति भूकंपलेखी
longitudinal thermal relaxation time		अनुदैर्घ्यं तापीय विश्रान्ति काल	long period tide		दीर्घावधि ज्वार-भाटा
longitudinal-transverse wave		अनुदैर्घ्यं अनुप्रस्थ तरंग	long period variable		दीर्घकालिक चरकाति तारा
longitudinal trunk		अनुदैर्घ्यं ऋड	long persistence	Phy	दीर्घं दृढिमान
longitudinal valley		अनुदैर्घ्यं घाटी	long play record	Phy	दीर्घकाली रिकार्ड
longitudinal valley profile		अनुदैर्घ्यं घाटी परिच्छेदिका	long profile	Geog	दीर्घं परिच्छेदिका
longitudinal vibration		अनुदैर्घ्यं कपन	long range disorder	Phy	दीर्घं परास अव्यवस्था
longitudinal Zeeman effect		अनुदैर्घ्यं जेमान प्रभाव	long range forecast	Geog	दीर्घकालीन पूर्वानुमान
-long knot	H Sc.	दीर्घं गाठ	long range groups	Chem.	दीर्घ-परिसर समूह
long ley	Geog	दीर्घं ले	long range navigation		दीर्घं परिसर नौसचानन
long ley grassland		दीर्घं ले घासस्थल	long-range order		दीर्घं परासो व्यवस्था
long line effect	Phy	दीर्घं लाइन प्रभाव, लम्बी लाइन प्रभाव	long-range order parameter		दीर्घं परिसर व्यवस्था प्राचल
long lines	Zool	लंबी डोर	long range radar		दीर्घं परासो रेडार
long lived species		दीर्घजीवी जाति	long residuum	Chem.	दीर्घं अवशेष
Longmaid-Henderson process	Chem (Met)	लॉगमैड-हैन्डरसन प्रक्रम	long relaxation time	Math	दीर्घं विश्रान्ति काल
long molecule	Chem	दीर्घं अणु	long-run economic model	Math	दीर्घकालिक आर्थिक निर्देश
long narrow strip	Geog.	लंबी तंग पट्टी	long-run elasticity		दीर्घकालिक लोच
long necked flask	Chem	लम्बशीर्ष फ्लास्क, लम्बी गर्दन का फ्लास्क	long-run parameter		दीर्घकालिक प्राचल
long nosed crocodile	Zool	दीर्घनासी मगर	long-shaft type crusher	Geol.	दीर्घशूरा दलिव
long note	Phy	दीर्घ स्वर	longshore bar	Geog ,Geol	बेलाचली रोधिका
long-oil alkyls	Chem. (Fat)	दीर्घ-तेल ऐल्किड	longshore current		बेलाचली धारा
			longshore drift		बेलाचली वाह
			longshore transport		बेलाचली परिवहन

long shot (=vista shot)	Phy.	विस्तृत शाट
long sight	Phy.	दीर्घ दृष्टि
long sights	Geol.	दूर संरेखण
long staple	H.Sc.	दीर्घरेशा
long stemmed funnel	Chem.	लम्ब नाल फनल
long tailed potential	Phy.	दीर्घान्त विभव
long tail pair	Phy.	दीर्घ पुच्छ युग्म
long term credit	H.Sc.	दीर्घकालिक उधार
long-term develop- ment	Geog.	दीर्घकालिक विकास
long term viscous flow		दीर्घकालिक श्यान प्रवाह
long-time burning oil	Chem. (Pet)	दीर्घकाल ज्वलन तेल (शुद्ध मिट्टी का तेल)
long time investment	H.Sc.	दीर्घकालीन निवेश
long time need		दीर्घकालीन आवश्यकता
long tom	Geol.	लॉग टॉम
<i>Longula texensis</i>	Bot.	लान्गुला टेक्सेन्सिस
longus colli muscle	Zool.	बृहदंत्र दीर्घ पेशी
longulite	Geol.	दीर्घकिस्टलाणु
longwall method	Geol.	दीर्घमिति पद्धति
long-wave	Phy.,Geol.	दीर्घ तरंग, लंबी तरंग
lon wavelength	Phy.	दीर्घ तरंग-दैर्घ्य
long-wavelength light	Geog.	दीर्घ तरंग-दैर्घ्य प्रकाश
long-wavelength tail		दीर्घ तरंग-दैर्घ्य पुच्छ
long wave-length limit		दीर्घ तरंग-दैर्घ्य सीमा
long wave phase		दीर्घ तरंग प्रावस्था
long wire antenna	Phy.	लम्बा तार ऐन्टेना
<i>Lonicera japonica</i>	Bot.	लानीसेरा जैपोनिका
<i>Lonicera nitida</i>		लानीसेरा निटिडा
<i>Lonicera sempervirens</i>		लानीसेरा सेम्परवा- इरेन्स
loofa (luffa)	Bot.	लूफा
look box	Chem.	दृष्टि वाक्स, दृष्टि पेट्टी
look through	Phy.	क्षण निरीक्षण
loom	H.Sc.	करघा, वेम
Looman Menchoff theorem	Math.	लूमॉ-मैनचॉफ प्रमेय

looming		उन्मरीचिका; उन्मरीची होना
loomite	Chem.	लूमिडट
loom picker	Chem.	करघा क्षेप, करघा रेशा पृथक्कारक
loomstate	Chem.	करघावस्था
loop		1. (n.) पाश, लूप, फंदा (vb.) पाशन, 2. (antinode) प्रसंद
loop antenna		पाश ऐन्टेना
loop circuit		पाश परिपथ
loop classifier		लूप वर्गीकर
loop cloth		लूप क्लॉथ, लूपवस्त्र
loop cut		पाश-काट
loop difference signal		पाश अन्तर सिग्नल
loop direction finder		पाश दिशा निर्धारक
loop district		लूप-क्षेत्र (शिकागो)
loop dryer		पाश शुष्कित
loop integral		पाश समाकल
loop lake		चाप-शील
loop method		पाश पद्धति
loop plan		पाश योजना
loop stitch		फंदा टांका
loop system (=bulge system)		पाश प्रणाली, पाश तंत्र
loop tail	Zool.	कुंडलित पुच्छ
loop test		पाशीय परीक्षण
loop transfer ratio	Phy.	पाशान्तरण अनुपात
loop-unwinding		पाश अकुंडलन
loop yarn	H.Sc.	फंदा सूत
loop yarn fabric	H.Sc.	फंदा सूत वस्त्र
loose		शिथिल, श्लथ, अवद्ध, अदृढ़
loose addition compound		शिथिल योगात्मक योगिक
loose back		लूअर्बक
loose block		श्लथ खंड
loosely bound		शिथिल बद्ध
loose coupling (=small coupling)	Phy.	अल्पयुग्मन

loose dry soil		अदृढ शुष्क मिट्टी	lorac (= long range accuracy radar system)		लोरैक (= लघु दूर यथायत्ना रेडार तंत्र)
loose framing		शिथिल फ्रेम	lorad (= lodar)	Phy.	लोडार
loose free sand	Geog.	उन्मुक्त निर्वायि बालू	loran (= long range navigation)	Phy	लोरेन (= दीर्घ परासी विमान भीमचालन)
loose-lying form	Bot	अलग्न-जीवी	lorandite	Chem	लॉरेंडाइट
loosely packed	Phy	विरल सकुलित, कुसकुलित	loran fix		लोरेन स्थिति
loose medium		श्लथ माध्यम	loran line		लोरेन रेखा
loosening		श्लथन, शिथिलन	loranscite	Chem	लॉरेंसाइट
loosening temperature		श्लथन ताप	loran set		लोरेन सेट
loosening up temperature		शिथिलन ताप	loranskite	Geol	लोरेन्स्काइट
loose-piece		श्लथ प्रखंड	loran station		लोरेन केन्द्र
looser bond	Chem	श्लथतर बांध	loran system		लोरेन तन्त्र, दीर्घ परासी तंत्र
loose rock		अदृढ शैल, श्लथ शैल	Loranthaceae	Bot	लोरेन्सैसी
loose sediment		अदृढ अवसाद, श्लथ अवसाद	loran triplet		लोरेन त्रिक
loose smut		श्लथ कड	lorate	Bot	जीभितानार
loose smut of barley	Bot.	जौ का श्लथ कड	lore	Zool.	लोर, चंचुनेत्रांतर
loose soil		अदृढ मृदा, श्लथ मृदा	Lorentz broadening	Chem.	लोरेन्ड्स पृथुनन
loparite	Geol	लोपैराइट	Lorentz condition		लोरेन्ड्स प्रतिबंध
lophine	Chem	लोफीन	Lorentz contraction factor		लोरेन्ड्स सकुचन गुणक
Lophiodontidae	Zool	लोफिओडॉन्टिडी	Lorentz correction factor		लोरेन्ड्स सशुद्धि गुणक
lophiothecium	Bot	लोफिओथेसियम	Lorentz-covariant		लोरेन्ड्स महापरिवर्ती
<i>Lophium mitilinum</i>	Bot	लोफियम मिटिलिनम	Lorentz curve		लोरेन्ड्स वक्र
lophocercous	Zool	कटकपुच्छीय	Lorentz derivative		लोरेन्ड्स अवकलज
Lophocolea	Bot	लोफोकौलिया	Lorentz factor		लोरेन्ड्स गुणक
lophodont	Zool, Geol	लोफोडॉन्ट, शिखरदन्ती	Lorentz field equation		लोरेन्ड्स क्षेत्र समीकरण
Lophogaster	Zool	लोफोगैस्टर	Lorentz Fitzgerald contraction		लोरेन्ड्स फिट्जरेल्ड सकुचन
Lophophilus	Bot	गिरिरामी	Lorentzian distance		लोरेन्ड्स दूरी
lophophore	Zool, Geol	लोफोफोर, शिखरधर	Lorentz-invariant		लोरेन्ड्स निश्चर
lophophorine	Chem	लोफॉफोरीन	Lorentz manifold		लोरेन्ड्स प्रथममण्डि
Lophosoria	Bot	लोफोसोरिया	Lorentz-polarisation factor		लोरेन्ड्स ध्रुवण गुणक
Lophotaspis	Zool	लोफोटैस्पिस	Lorentz's electron theory		लोरेन्ड्स इलेक्ट्रान वाद
<i>Lophotaspis vallet</i>		लोफोटैस्पिस वॉलेट्टाई	Lorentz's equation		लोरेन्ड्स समीकरण
lophotrichous	Bot, Zool	गुच्छकशाभी दीर्घकशाभी			
lopolith	Geol	लोपोलिय			
lopping	Geog.	कतरन, काष्ठ			

Lorentz space-time transformation		लोरेन्ट्स दिक्काल रूपांतरण	loss free line (=lossless line)		क्षयहीन लाइन
Lorentz transformation		लोरेन्ट्स रूपांतरण	loss function		हानि फलन
Lorentz transformation equation		लोरेन्ट्स रूपांतरण समीकरण	lossless code		क्षतिहीन कूट
Lorentz unit		लोरेन्ट्स मात्रक	lossless isotropic radiator		हानिहीन विकिरक
Lorenz and Lorentz equation	<i>Chem.</i>	लारेंज-लोरेन्ट्स समीकरण	lossless line (=loss free line)		क्षयहीन लाइन
lorette	<i>H.Sc.</i>	लॉरेट	loss matrix		हानि-आव्यूह
lorettoite	<i>Geol.</i>	लोरेटॉइट	loss modulation (=absorption modulation)	<i>Phy.</i>	अवशोषण माड्युलन
loream	<i>Zool.</i>	लोरियम, अक्षिनासान्तर	loss of head		शीर्षहास
Iorhumb line	<i>Phy.</i>	लोरहम्ब रेखा	loss of qualification		योग्यता हानि
Iorica	<i>Zool.</i>	लॉरिका, बर्मिका	loss of residual solvent		अवशिष्ट विलायक निराकरण
Ioricate form	<i>Zool.</i>	बर्मिकाकार	loss on balance of migration		प्रजनन-हानि
Iorricula	<i>Zool., Geol.</i>	लॉरिक्यूला, कशाभपुंज	loss tangent		क्षय स्पर्शज्या, क्षय टैन्जेंट
Ioriform	<i>Bot.</i>	जॉमिकाकार	lossy dielectric	<i>Phy.</i>	क्षययुक्त डाइलेक्ट्रिक
Iorikeet	<i>Zool.</i>	लॉरिक्कीट	lossy line		क्षययुक्त लाइन
Loris	<i>Zool.</i>	लोरिस	lossy vanes	<i>Phy.</i>	क्षयकारी पंख
Lorisidae	<i>Zool.</i>	लोरिसाइडी	lost force	<i>Phy.</i>	लुप्त बल
Lorisiformes		लोरिसीफॉर्मोज	lost motion	<i>Chem.</i>	घ्रष्ट गति
Lorisinae		लोरीसाइनी	lost mountain	<i>Geol.</i>	परिवृत पर्वत
<i>Loris tardigradus</i>	<i>Zool.</i>	लोरिस टार्डिग्रिडस	lost star		लुप्त तारा
<i>Loris tridactyla</i>		लोरिस ट्राइडैक्टाइला	lost wax process	<i>Chem.</i>	घ्रष्ट मोम प्रक्रम
lorolamine	<i>Geol.</i>	लोरोलेमाइन	lot-by-lot acceptance	<i>Math.</i>	प्रचयवार स्वीकरण
lorum	<i>Zool.</i>	धावन्ध	lot-by-lot acceptance sampling		प्रचयवार स्वीकरण प्रतिचयन
losange	<i>H.Sc.</i>	लॉसंज	Lothar Meyer's curve	<i>Chem.</i>	लोथर मेयर वक्र
Loschmidt's number	<i>Chem.</i>	लोश्मिट संख्या	lotic	<i>Bot., Zool.</i>	सरित्जिवी, सरित्
losite	<i>Geol.</i>	लोसाइट	lotic community		सरित्जिवी समुदाय
loss		हानि, क्षय	lotic environment		सरित् वातावरण
loss angle	<i>Phy.</i>	हानिदर्शी कोण, हानि कोण	lotic waters (=running water)		सरित् जल (प्रवाही जल)
loss current	<i>Phy.</i>	हानिदर्शी धारा	lot inspection	<i>Math.</i>	प्रचय निरीक्षण
loss due to error		लुटि के कारण हानि	lot number		प्रचय संख्या
lossenite	<i>Geol.</i>	लसिनाइट	lot quality		प्रचय गुणता
Lossen rearrangement	<i>Chem.</i>	लॉसन पुनर्विन्यास			
losser	<i>Phy.</i>	क्षयक			
loss factor		क्षय गुणक			

lot quality protection		प्रचय गुणता सुरक्षा	Lovibond glasses	Chem	लोवीबॉन्ड काच
lotrite	Geol.	लोट्राइट	Lovibond colour system		लोवीबॉन्ड वर्ण पद्धति
lot size		प्रचय आमाप	Lovibond tintometer		लोवीबॉन्ड आभामापी
lot size equation		प्रचय आमाप समीकरण	low angle fault	Geol	बल्य कोण भ्रम
lottery	Math	1 प्रचय 2 प्रचयिका, लॉटरी	low		(adj) निम्न, अल्प (n) 1 अल्प दाव श्रेष्ठ 2 अवदाव
lottery sampling		लॉटरी प्रतिचयन, प्रचय-प्रतिचयन	low ash carbon	Chem	न्यून भस्म कार्बन, न्यून राख कार्बन
lot tolerance fraction defective		प्रचय मह्यता दूषितानुपात	low available relief		निम्न प्राप्य उच्चावचन
lot tolerance percent defective		प्रचय सह्यता प्रतिशत दूषित	low back pain		निम्न पृष्ठ वेदना
loturine	Chem	लोटरिन	low band		निम्न बैंड
louderback	Geog	लाउडरबैक	low birth rate		निम्न जन्मदर
louderbackite	Geol	लाउडरबैकाइट	low boiling mixture		निम्न क्वाथी मिश्र
loudness (of sound)	Phy	प्रबलता	low boy	H Sc.	लोबोइ
loudness level		प्रबलता का स्तर	low cloud		निम्नमेघ
loudness recruitment		प्रबलता अधिवर्धन	low coercivity		अल्प निष्प्राहिता
loud speaker	Phy	लाउड-स्पीकर	low cold spot temperature		निम्न शीत स्थल ताप
loudspeaker dividing network		लाउडस्पीकर विभाजन जाल	low cost diet		अल्प लागत जाहार
lough	Geog	लॉक (झील)	low coverage		अल्प व्याप्ति
lounge	H Sc	बिनीद कक्ष	low death rate		निम्न मृत्युदर
loupe (watchmaker's)	Phy.	घड़ीमात्र का आवर्धक	low definition television		अल्प स्पष्टता टेलीविजन
louping ill	Zool	लाउपिंग रोग	low density plasma		अल्पघनत्व प्लैज्मा
louse	Zool, H Sc	यूका, जू	Lowdin orbital	Chem	लाउडिन कक्षक
louse borne		यूका वाहित	low drag antenna (= low drag trailing aerial)		निम्न कर्षण ऐन्टेना
louse fly	Zool	यूका मक्खी, जू मक्खी	low duty cycle		अल्प उपयोगिता अनुपात
louse infestation		यूका प्रसन, जू प्रसन	Lowe apparatus	Chem.	लो उपकरण
louse powder	Zool	जूमर चूर्ण	Lowe index		लो सूचकांक
lousicide		यूकानाशी, जूनाशी	low energy neutron		निम्न उर्जा न्यूट्रॉन
lousiness	Zool	यूकता	Lowenhertz diagram	Chem.	लावेन्हर्ट्ज धाररेख
<i>Lovenia elongata</i>	Zool	लोवेनिया एलोन्गैटा	low explosive		निम्न विस्फोटक
<i>Lovenia triforis</i>		लोवेनिया ट्राइफोरिस	lower explosive limit		निम्न विस्फोटक सीमा
Loven's system	Zool	लोवेन-सत	lower		निम्नतर, निम्न, अध, अधर
louver	Chem	घुमरुंध	lower altitude	Geog	निचनी तुंगता
Love's number	Geol	सत्र सख्या			
Love wave		सत्र तरंग			



lower approximate value		निम्न सन्निकट मान	lower order centre	निम्नतर श्रेणी केन्द्र
lower associated function		निम्न सहचारी फलन	lower ordinate set	निम्न कोटि समुच्चय
lower bar	<i>Math.</i>	अधोरेखा	lower oxide	निम्नतर आक्साइड
lower bound		निम्न परिवन्ध	lower pitch limit	श्रव्यता की निचली सीमा, श्रव्यता की निम्न सीमा
lower boundary		निम्न परिसीमा	lower plants	निम्न कोटि पादप
lower boundary function		निम्न परिसीमा फलन	lower Riemann integral	निम्न रीमान-समाकल
lower break	<i>Geol.</i>	एकनति पाद	lower salt	निम्नतर लवण
lower bronchial artery		निम्न श्वसनी धमनी	lower semicontinuity	निम्न अर्ध सांतत्य
lower camber		निम्न न्युवृजता	lower semicontinuous	निम्न अर्धसंतत
lower case	<i>Geog.</i>	छोटे केस	lower semicontinuous function	निम्न अर्धसंतत फलन
lower change of the dip	<i>Geol.</i>	एकनति पाद	lower semi-Integral	निम्न अर्ध समाकल
lower chromosphere		निम्न वर्णमंडल	lower side band	निम्न पार्श्व बैंड
lower cliff		निम्नतर भृगु	lower stream	निम्न धारा
lower control limit		निम्न नियंत्रण-सीमा	lower sum	निम्न योगफल
lower differential coefficient		निम्न अवकल गुणांक	lower sum function	निम्न योग-फलन
lower district centre		निम्नतर जिला केन्द्र	lower transit	अधोयाम्योत्तर गमन
lower extreme		निम्न चरम मान	lower transition system	निम्न संक्रमण समूह
lower extremity		अधः शाखा	lower triangular matrix	निम्न त्रिभुजीय आव्यूह
lower fungi		निम्न कोटि कवक	lower umbilicus	<i>Zool.</i> निम्न पिच्छछिद्र
lower high water		निम्नतर उच्च ज्वार	lower valency	निम्नतर संयोजकता
lowering	<i>Chem.,Phy.</i>	1. अवनमन, 2. निम्नन	lower variation	निम्न विचरण
lower integral		निम्न समाकल	lower wave	निम्न तरंग
lower jaw		अधोहनु	lower yield stress	निम्न पराभव प्रतिबल
lower jaw region		अधोहनु क्षेत्र	lowest	<i>Math.,Phy.</i> 1. (position) निम्नतम 2. (value) लघुतम
lower limb		अधः पाद	lowest configuration	निम्नतम विन्यास
lower limiting function		निम्न सीमांत फलन	lowest energy	निम्नतम ऊर्जा
lower limit of indeterminacy		निम्न अनिर्धारिता सीमा	lowest order mode	निम्नतम कोटि विधा
lower limit topology		निम्न-सीमा संस्थिति	lowest oxide	निम्नतम आक्साइड
lower low water		निम्नतर निम्न ज्वार	lowest position	निम्नतम स्थिति
lower metric density		निम्न दूरीक घनत्व	lowest score	निम्नतम समंक
lower order		निम्न क्रम	lowest state	निम्नतम अवस्था
			lowest usable high frequency	उपयोग्य निम्नतम उच्च आवृत्ति

lowest usable take off flight path		निम्नतम उपयोग्य उड़ान पथ	low loss insulator		अल्प हानि विद्युत् रोधी
lowest valve		लघुतम वाल्व	low loss process		न्यून-हानि प्रक्रम
low foamer		न्यून फेनकारी	low lying	Geog.	निम्नस्थ, निचला
low fog		निम्न कुहरा	low lying area		निम्न क्षेत्र, निम्नस्थल
low frequency		निम्न आवृत्ति	low lying flat		निम्नस्थ मैदान
low frequency response		निम्न आवृत्ति अनुक्रिया	low obliques	Geol	अल्प तिर्यङ्गक, अल्प तिर्यङ्क क्रोडो
low frequency topography		निम्न आवृत्ति स्थलाकृति	low oblique photography		अल्प तिर्यङ्क फोटोग्राफी
low galactic latitude		निम्न मदाकिनीय अक्षांश	low order position	Phy.	दक्षिणतम स्थिति
low gamma		निम्न गामा	low order rate process		निम्न कोटि दर प्रक्रिया
low grade polymer		निम्न कोटि बहुलक	lowpass filter		निम्न आवृत्ति फिल्टर, निम्न पारक फिल्टर
low grade schist		निम्न-कोटि शिस्ट	low pitched hum		निम्न तारत्व गुञ्ज
low hardness water		निम्न कठोरता जल	low polymer		निम्न बहुलक
low hill		निम्न पहाड़ी	low power objective	Phy, Biol.	अल्प आवर्धक-अभिदृश्यक
low hysteresis steel		निम्न शैथिल्य इस्पात, निम्न हिस्टेरिसिस इस्पात	low power termination		अल्पशक्ति अन्तरकरण
low income family	H.Sc.	निम्न आय परिवार	low pressure area		निम्नदाब क्षेत्र, अल्पदाब क्षेत्र
low index plan	Phy.	लघु सूचकांक तल	low pressure belt		निम्न दाब पट्टी, अल्प दाब मेखना
Lowing process		लोविंग प्रक्रम	low pressure lamp		अल्पदाब लैम्प
low intake capacity		निम्न अतर्पण क्षमता	low pressure system		अल्पदाब तन्त्र
low intensity reciprocity failure		निम्न तीव्रता व्युत्क्रमिकतामग	low Q		निम्न Q
low kappa strain		निम्न कप्पा विभेद	low quality		निम्न गुणता
lowland		निम्नभूमि	low quartile	Math	लघु चतुर्थक
lowland community		निम्नभूमि समुदाय	low quartz		निम्न क्वार्ट्ज, निम्न स्फटिक
lowland crop		निम्न भूमि-शस्य	low rainfall		न्यून वर्षा
lowland peat		निम्नभूमि पीट	low relief		निम्न उच्चावचन
lowland plain		निम्न मैदान	low residue food		अल्प अवशेष आहार
low latitude agriculture		निम्न अक्षांश कृषि	Lowry Bronsted hypothesis	Chem	लोरी ब्रन्स्टेड परिवर्तनता
low level		अधम्य तल	Lowry protein method		लोरी प्रोटीन विधि
low level abrasion		निम्नतल-अपघर्षण	low salt diet	H Sc	निम्न लवण आहार
low level erosion		निम्न-तल अपरदन			
low level modulation		निम्न स्तरी माड्युलन			
low level platform		निम्नतल-वेदी			
low limit		निम्न सीमा			
low loss cable		अल्प हानि केबल			

low speed scanner	<i>Phy.</i>	निम्नवेगी क्रमवीक्षक	lox	<i>Phy.</i>	द्रव ऑक्सीजन, लॉक्स
low spin complex		निम्न प्रचक्रण संकुल	loxing time	<i>Phy.</i>	ऑक्सीजन भरण काल
low spin configuration		निम्न प्रचक्रण विन्यास	Loxodonta	<i>Zool.</i>	लॉक्सोडोन्टा
low spin manganese		निम्न प्रचक्रण मैंगनीज	<i>Loxodonta africana</i>		लॉक्सोडोन्टा अफ्रीकाना (अफ्रीकी हाथी)
low stacking fault energy		निम्नचिन्ति दोष ऊर्जा	Loxodrome	<i>Math.</i>	एकदिश नौपय
low stacking fault energy metals		निम्नचिन्ति दोष ऊर्जा धातु	Loxodrome curve	<i>Geog.</i>	एकदिश नौपय, रंगरेखा
low status worker		निम्न स्तर श्रमिक	loxodromic trans-formation	<i>Math.</i>	अवशिष्ट एकैकी रूपांतरण, लोक्सोड्रो- मिक रूपांतरण
low subsonic flow		निम्न अवध्वनिक प्रवाह	Loxolophodon	<i>Zool.</i>	लॉक्सोलोफोडोन
low sudser (low foamer)		न्यून फेनकारी	Loxonema	<i>Geol.</i>	लॉक्सोनीमा
low supersonic main flow		निम्न पराध्वनिक मुख्य प्रवाह	<i>Loxonema sinuosum</i>		लॉक्सोनीमा सिनुओसम
low temperature		निम्न ताप	Loxsoma	<i>Bot.</i>	लाक्सोमा
low temperature modification		निम्नतापी रूपांतर, निम्न तापी रूपांतरण	loyer (person)	<i>Chem.(Gl.)</i>	राज, लॉयर
low temperature physics		निम्न ताप-भौतिकी	loying yard	<i>Chem.</i>	न्यास प्रांगण
low temperature thermometry		निम्न तापमिति, निम्न टेंपरेचर तापमिति	loz	<i>Phy.</i>	द्रव ओजोन
low temperature treatment		निम्न ताप उपचार	lozenge	<i>Math.</i> <i>H.Sc.</i>	पंतगाकृति, समचतुर्भुज लोजेंज
low tension		निम्न विभव	lozenge diagram		समचतुर्भुज-आरेख
low tension battery		निम्न विभव-बैटरी	lozenge paste	<i>H.Sc.</i>	लोजेंज
low tide		निम्न ज्वार भाटा	lozenge-shaped	<i>Geol.</i>	लोजेन्जरूपी
low tide level		निम्न ज्वार तल	l-s coupling		l-s युग्मन
low tide line		निम्न ज्वार रेखा	L.S.D (Lysergic acid diethylamide)	<i>Chem.</i>	एल० एस० डी० (लिसर्जिक अम्ल डाइ-ईथिल ऐमाइड)
low twist		अल्प वेष्टन	L-series	<i>Chem.</i>	L-श्रेणी
low vaccum	<i>Phy.</i>	हीन निर्वात	L-sine		L-साइन
low volatile coal		निम्न वाष्पशील कोयला	lubber line	<i>Phy.</i>	मार्ग निर्देश रेखा
low voltage		निम्न वोल्टता	Lubbers process	<i>Chem.</i>	लुबर्स प्रक्रम
low volume setting		निम्न प्रवलता समंजन	lube stocks	<i>Chem.</i>	स्नेह संभार, ल्यूब संभार
low water line		निम्न ज्वार रेखा, निम्न जल रेखा	lublinit	<i>Geol.</i>	लुब्लीनाइट
low water mark	<i>Geog.</i>	निम्न जल स्तरांक, निम्न जलचिह्न	Lubral	<i>Chem.</i> <i>(Met.)</i>	लूब्रल
low water slack	<i>Geog.</i>	भाटा काल	lubricant		स्नेहक
low woollens	<i>Chem.</i>	अवोर्णक	lubricant bloom		स्नेहक फुल्लिका
low Z-material		अल्प Z पदार्थ, अल्प परमाणु-संख्या पदार्थ	lubricating layer		स्नेहक स्तर

lubricating oil		स्नेहक तेल	Ludwig test	Chem.	लुडविक निवष, लुडविक सपरीक्षण
lubrication		स्नेहन, तेल देना, औंगना	Luffa	Bot.	लूफा
lubricator		स्नेहक, स्नेहकारी	Luffa acutangula		लूफा ऐकुटैंगुला (अरी तुरई)
lubricity		स्नेहकता	Luffa aegyptiaca		लूफा एजिप्टियाका (घिया तुरई)
Lucanus	Zool.	लूनेनस	Luffa cylindrica		लूफा सिलिन्ड्रिका
Lucas test	Chem.	लूकैस सपरीक्षण	Luffa echinata		लूफा इकाइनेटा
lucens	Bot.	चमकदार	lug	Phy.	लग
Lucernaria	Zool.	लूसनेरिया	logarite		लुगराइट
Lucernarida	Zool.	लूसनेरिडा	log band	Phy.	पकड़ बैंड
Lucernaridae	Zool.	लूसनेरिडी	lug cap	Chem. (Food)	लग टोपी
lucerne	Bot.	रिजका, लूसनें	Luggin capillary	Chem.	लूगिन कोशिक, लूगिन कैपिलरी
lucerne hopper burn		रिजका फुदका-दाह	Luggin prolong		लूगिन लम्बक
lucerne mosaic		रिजका किर्धोर	Lugol's iodine solution	Bot.	लूगोल आयोडीन विलयन
Luce-Rozan process	Chem.	लूस-रोझन प्रक्रम	lug strip	Phy.	लग-पट्टिका
lucida		लूसिडा	lugworm	Zool., Geog.	शिपाहूमि, लयवर्म
lucid attrite	Geol.	पारदर्शी-ऐट्ट्राइट	Lukesh's intensity method	Phy.	लुकेश तीव्रता विधि
lucidity	H.Sc.	स्वस्थ	Lukesh's semipolar method		लुकेश अर्धध्रुवीय विधि
lucidus	Bot.	चमकदार	lukewarm		कुनकुना, गुनगुना, अल्पोष्ण
Lucifer	Zool.	लूसीफर	lumbang oil	Chem.	लूमबांग तेल
luciferase	Bot., Zool.	लूसीफरेस	lumbar	Zool.	कटि, कम्मर
luciferin	Bot., Zool.	लूसिफेरिन	lumbar artery		कटि-धमनी
lucifer match	Chem.	घपंणी दियासलाई	lumbar ganglia		कटि-गुच्छिका
luciferous	Zool.	लूसीफेरस, दीपनिकर	lumbar nerve		कटि-तंत्रिका
lucifuge	Bot.	प्रकाशभीष	lumbar plexus		कटि-जालिका
lucifugous (lucifugal)	Zool.	प्रकाशभीत	lumbar region		कटि-क्षेत्र
Lucina	Geol.	लूसिना	lumbar vein		कटि-शिरा
Lucina columbella		लूसिना कोलम्बेला	lumbar vertebra		कटि-वशोदक
luciphile	Bot.	प्रकाशउगी	lumber	Geog.	नाठ, बाण्ड
lucite	Chem.	लूसीटाइट	lumber room	H.Sc.	अप्रयुक्त वस्तु (बाण्ड) कक्ष
luckite	Geol.	लकाइट			
lucrative trade	Geog.	प्रलामी व्यापार			
lucullite	Geol.	लुकूलाइट			
lucyl glycine	Chem.	लूसिल ग्लाइसीन			
Luders lines	Chem (Met.)	लूडर रेखाएं			
Ludwigia	Bot.	लुड्वीगिया			
Ludwing Soret effect		लुडविग सारे निष्पत्ति			

lumbering	Geog.	लकड़ी काटना, काष्ठ-कर्तन	luminescent bacteria	संदीप्तिशील जीवाणु
lumbering town	Geog.	काष्ठकर्तन-नगर, काष्ठ-व्यवसायी नगर	luminescent indicator	संदीप्तिशील सूचक
lumberman		काष्ठ व्यापारी	luminescent paint	संदीप्तिशील पेन्ट
lumber yard		काष्ठ प्रांगण	luminescent pigment	संदीप्तिशील वर्णक
lumbo-sacral enlargement	Zool.	कटिन्निक विवर्धन	luminescent zone	संदीप्ति-मंडल, संदीप्ति क्षेत्र, संदीप्ति-क्षेत्र
lumbo-sacral flexure		कटिन्निक आनमन	luminiferous	Chem.,Phy. प्रकाशवाही
lumbo-sacral plexus		कटिन्निक जाल	luminiferous ether	प्रकाशवाही ईथर
lumbricalis	Bot.	कृमिरूप	luminiphore	Phy. संदीपक
Lumbricidae	Zool.	लम्ब्रिसाइडी	luminosity	Chem.,Phy. ज्योति
lumbriciform	Zool.	कृम्याकार	luminosity (of colour)	H.Sc. वर्ण दीप्ति
lumbricine	Zool.	लम्ब्रिकसी	luminosity class	ज्योतिवर्ग
lumbricous	Bot.	केंचुआरूपी	luminosity coefficient	ज्योति गुणांक
Lumbricus	Zool.	लम्ब्रिकस	luminosity colour distribution	दीप्तिवर्ण वंटन
<i>Lumbricus rubellus</i>		लम्ब्रिकस रूबेलस	luminosity curve	ज्योति वक्र
<i>Lumbricus terrestris</i>		लम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस	luminosity function	ज्योतिफलन
<i>Lumbricus trapezoides</i>		लम्ब्रिकस ट्रेपिज़ोयडीज	luminosity law	ज्योति-नियम
lumen	Zool.,H.Sc. Phy.	अवकाशिका, ल्यूमेन	luminosity spectral type distribution	ज्योति स्पेक्ट्रमीय वंटन
lumen hour		ल्यूमेन घंटा	luminous	दीप्त, प्रदीपी
lumen ray		अवकाशिका अर	luminous body	दीप्त पिंड
lumegueic acid	Chem.	लूमेक्वीइक अम्ल	luminous (auroral) cloud	दीप्त (ध्रुव) मेघ
lumetron photo-electric colorimeter	Chem.	ल्यूमेट्रॉन भा-विद्युत् वर्णमापी	luminous column	दीप्त स्तंभ
lumichromic	Chem.	ल्यूमिक्रोम	luminous density	ज्योति घनत्व
lumiestrone	Chem.	ल्यूमिस्ट्रॉन	luminous edge	दीप्त कोर
luminal	Chem.	ल्यूमिनेल	luminous efficiency	ज्योति दक्षता
luminance	Phy.	ज्योतिर्मयता	luminous emittance	ज्योति उत्सर्जन
luminance amplifier		ज्योति प्रवर्धक	luminous energy	ज्योति ऊर्जा
luminance primary		ज्योतिर्मयता मूल	luminous flame	दीप्त ज्वाला
luminance signal		ज्योतिर्मयता संकेत, ज्योतिर्मयता सिग्नल	luminous flux	ज्योति फ्लक्स
luminance temperature		ज्योतिर्मयता ताप	luminous insect	प्रदीपी कीट
luminescence	Phy.,Biol.	संदीप्ति	luminous intensity	ज्योति तीव्रता
luminescent		संदीप्तिशील	luminous material	दीप्त द्रव्य
			luminous night cloud	दीप्त रात्रिमेघ
			luminous organ	प्रदीपी अंग
			luminous organism	प्रदीपी जीव
			luminous paint	दीप्त पेन्ट, दीप्त प्रलेप

luminous power		दीप्त शक्ति	lunar crew	चन्द्र-शू
luminous reflectance		ज्योति-परावर्तकता	lunar day	चांद्र-दिन
luminous secretion		प्रदीपी स्राव	lunar eclipse	चंद्र-ग्रहण
luminous sensitivity		ज्योति सुग्राहिता	lunar ecliptic limit	चंद्र-ग्रहण सीमा
luminous signal		दीप्त संकेत, प्रदीपी संकेत	lunar fortnightly and solar semiannual tide	चान्द्र मासिक और सौर अर्धवार्षिक ज्वार-भाटा
luminous trail		दीप्त पथचिह्न	lunar hour	चांद्र घटा
lumiprednisone acetate	Chem	ल्यूमिप्रिडनिसेन ऐसीटेट	lunar hour angle	चांद्र होरा-कोण
lumisterol	Chem.	ल्यूमिस्टेरोल	lunarium	लूनेरियम
Lummer and Pringsheim method	Chem	लूमर प्रिंग्शैम पद्धति	lunar month	चांद्र मास
Lummer Gehrcke plate		लूमर गेर्के पट्टिका	lunar monthly and solar annual tide	चान्द्र मासिक और सौर वार्षिक ज्वार भाटा
lumnite	Chem	ल्यूमनाइट	lunar perigee	चान्द्र भूमि-नीच
Lumnitzera racemosa	Bot.	लुम्बिट्जेरा रैसीमोसा	lunar periodicity	चांद्र आवृत्तता
lamp	Geog.	पिंडक	lunar satellite	चन्द्र उपग्रह
lamp breaker	Chem. (Plastics)	सर्पिंडक खंडक	lunar technique	चांद्र प्रविधि
lumped constant	Phy.	स्थानीकृत नियतांक	lunar tide	चांद्र ज्वार-भाटा
lumped element		स्थानीकृत अवयव	lunar topography	चन्द्र-स्थलाकृति
lumped impedance		स्थानीकृत प्रतिबाधा	lunar tractive force	चन्द्र कर्षण बल
lumped loading		स्थानीकृत लोडन	lunar variation	चन्द्रकला परिवर्तन
lumping	Chem, Phy.	सर्पिंडन	lunar variational tide	चन्द्रकला सवधी ज्वार
lumps	H Sc.	लम्प	lunar year	चान्द्रवर्ष
lumpsucker	Geog.	लम्पसकर	lunary space	चान्द्र आकाश
Lumsden apparatus	Chem.	लुम्सडेन उपकरण	Lunaspis heroldi	Zool
luna	Chem	चांदी	lunate	Zool
luna cornea	Chem.	ल्यूना कार्निया (संगुलित सिल्वर क्लोराइड)		
lunacrine	Chem.	ल्यूनेक्रिन	lunate bar	नवचन्द्राकार रोधिका
lunar		चंद्र, चांद्र, ल्यूनर	lunate sulcus	नवचन्द्राकार परिखा
lunar and solar diurnal tide		चान्द्र सौर दैनिक ज्वार-भाटा	lunation	Geog
lunar and solar semi-diurnal tide		चान्द्र सौर अर्ध दैनिक ज्वारभाटा	lunch box	H.Sc.
lunar atmospheric tide		चान्द्र वायुमण्डलीय ज्वार	luncheon	H.Sc.
lunar caustic	Chem	लूनर कास्टिक, संगुलित सिल्वर नाइट्रेट	lunch room	
			Lundal Robichaux process	Chem
			Lundell and Knowles's ion	Chem.
			June	Math.

lunenburg flax	<i>H.Sc.</i>	लुनेवर्ग पलैक्स	lusaka	<i>Geog.</i>	लुसाना
Luneberg lens	<i>Phy.</i>	लुनेवर्ग लेन्स	lusakite	<i>Geol.</i>	लूसैफाइड
Lunel wine	<i>H.Sc.</i>	लुनेल मदिरा	luscladite	<i>Geol.</i>	लुस्क्लैडाइट
lunette	<i>Geog.</i>	लुनेट	lush vegetation	<i>Bot.,Geog.</i>	प्रभूत वनस्पति
lung	<i>H.Sc., Zool.</i>	फुफ्फुस, फेफड़ा	Lusin's theorem	<i>Math.</i>	लूसिन प्रमेय
Lunge nitrometer	<i>Chem.</i>	लुगे नाइट्रोजनमापी	lusitanic species	<i>Geog.</i>	लूसीटेनीय स्पीशीज
Lunge Rey pipette		लुगेरे पिपेट	lusitanite	<i>Geol.</i>	लूसीटेनाइट
Lunge's gas volumeter		लुगे का गैस आयतन-मापी	Lussana's value		लुसाना मान
lung fishes	<i>Zool.</i>	फुफ्फुस मीन, उभश्वसी मीन	luster fabric	<i>H.Sc.</i>	लस्टर वस्त्र
lung fluke		फुफ्फुस पर्णाभ	lustering of glass		काच शुतीयन
lung mite		फुफ्फुस वरुथी	lustre	<i>Chem., Geol.</i>	द्युति, चमक
lung worm		फुफ्फुस कृमि	lustre mottled sandstone	<i>Geol.</i>	द्युतिकवुरित बालुकाम
luniformal	<i>Bot.</i>	नवचन्द्राकार	lustrex	<i>Chem.</i>	लस्ट्रेक्स
lunine	<i>Chem.</i>	ल्यूनीन	lustrine	<i>H.Sc.</i>	लस्ट्रिन
luni-solar	<i>Geog.,Geol.</i>	चांद्र सौर	lustrous	<i>Chem.</i>	द्युतिमय, चमकीला
luni solar declinational tide		चान्द्र सौर क्रान्तिकीय ज्वार	lustrum	<i>Geog.</i>	पंचवर्षक
luni solar effect		चांद्र सौर प्रभाव	lusuku	<i>Geog.</i>	लुसुकू
luni-solar nutation		चांद्र सौर वक्षविचलन	lutaceous	<i>Geol.</i>	पंकमय
luni-solar precession		चांद्र-सौर अयन	lute	<i>Chem.,Geol. H,Sc.</i>	1. गारा 2. गारा लेपन
luni tidal	<i>Geog.</i>	चान्द्र ज्वारीय	luteal macule		पीत बिन्दु
luni-tide		चांद्र-सौर ज्वारभाटा	luteal phase	<i>Zool.</i>	पीतपिंड प्रावस्था
lun-taya	<i>H.Sc.</i>	लंताया	lutcine	<i>Geol.</i>	ल्यूटेसीन
lunularia	<i>Bot.</i>	लूनूलेरिया	lutcite	<i>Geol.</i>	ल्यूटेसाइट
lunule	<i>Zool.,Geol.</i>	नवचन्द्रांक	lutcium	<i>Chem.</i>	ल्यूटीशियम
lupane	<i>Chem.</i>	लूपने	lutein	<i>Bot.,Zool., Chem.</i>	ल्यूटीन
lupanine	<i>Chem.</i>	ल्यूपनीन	luteinizing	<i>Chem.</i>	ल्यूटिनाइजिंग, पीतपिंडीकर
lupeol	<i>Chem.</i>	लूपीऑल	luteo	<i>Chem.</i>	ल्यूटिओ, पिंग
lupi spume	<i>Chem.</i>	ल्यूपी स्पूमा	luteolus	<i>Bot.</i>	पांडुर
lupulin	<i>Chem.</i>	ल्यूपूलिन	luteo salt		ल्यूटिओ लवण, पिंग लवण
*Lupus	<i>Astron.</i>	ल्यूपस	luteotropin (prolectin)	<i>Chem.</i>	ल्यूटिआट्रोपिन
lure	<i>Zool.</i>	बामिप	lutescens	<i>Bot.</i>	पीताम
Lurgi process	<i>Chem.</i>	लुर्गी प्रक्रम	lutetian	<i>Chem. (Met.)</i>	ल्यूटीशिएन
luridus	<i>Bot.</i>	वभ्रुपीत			
Luroth's theorem	<i>Math.</i>	लूरोथ प्रमेय			

lutetium		ल्यूटीशियम		Lycopodites	Bot.	लाइकोपोडाइटोज
luteus	Bot.	पीत		Lycopodium	Bot.	लाइकोपोडियम
lutefisk	H.Sc.	सुटफिस्क		<i>Lycopodium cernuum</i>		लाइकोपोडियम सर्नुअम
luticolous	Bot.	पक्वापी		<i>Lycopodium inundatum</i>		लाइकोपोडियम इनन्डेडम
lutidine	Chem.	ल्यूटिडीन		lycosid	Bot.	साइकोसिड
lutite	Geol.	पराश्रम, लूटाइट		Lycopus	Bot.	लाइकोपस
<i>Lutra lutra</i>	Zool.	लूट्रा लूट्रा (ऊदबिलवा)		Lycosaurus	Zool.	साइकोसॉरस
lux	Phy	लक्स		lycosid	Zool	लाइकोसिड
Luxembourg effect	Geol.	लक्सेम्बर्ग प्रभाव		Lyctidae	Zool.	लिक्टिडी
luxometer	Phy	लक्समापी		lyddite	Geol	लाइडाइट
Lux's gas balance	Chem.	लक्स गैस तुला		Lydian stone	Geol	लिडियन अश्रम, निक्कारम
luxulianite	Geol	लक्सुलियेनइट		lydite	Geol	निडाइट
luxury absorption	Bot	प्रचुर अवशोषण		lye	Chem	लाइ
luxury consumption		प्रचुर उपभोग		lyellite	Geog.	लाइलाइट
luxury motel	Geog	सुमन्जित मोटेल		Lyginodendron	Bot.	लाइजीनोडेंडरोन
luxury tax	H Sc	दिलाम कर		<i>Lyginodendron oldhamium</i>		लाइजीनोडेंडरोन ओल्डहैमियम
luxury vegetable	Geog	राजसी सब्जी		Lyginopterid	Bot	लाइजिनोप्टेरिड
luzianzeth	H.Sc.	ल्यूजियनजेथ		Lygodium	Bot	लाइगोडियम
Luzi's test	Chem	लूजी सपरीक्षण		lying woman	H.Sc.	प्रमूता
luzonite	Geol	लूजोनाइट		lying wall	Geol.	आधार-भित्ति
<i>Luzuriaga marginata</i>	Bot	लूजूरिएगा मारजिनेटा		Lyman continuum	Math.	लाइमैन-सानत्यक
Lycaenidae	Zool	लाइकीनिडी		Lymn- $\alpha$ -emission	Geol	लाइमैन $\alpha$ उत्सर्जन
Lycaenops	Zool	लाइनीनॉप्स		Lyman- $\alpha$ -radiation		लाइमैन $\alpha$ विकिरण
lycee	Geog.	लीसे		Lyman quantum		लाइमैन क्वांटम
Lychnis	Bot	लिक्निस		Lyman series		लाइमैन श्रेणी
lychnisk		लिक्निस्क		lymph	H Sc, Zool	लसीका
<i>Lycium europaeum</i>	Bot.	लाइसियम यूरोपियम (चिरायता)		lymphatic		लसीका, लसीकात्मक
<i>Lycopersicum esculentum</i>	Bot	लाइकोपर्सिकम एस्कूलेन्टम (टमाटर)		lymphatic capillary		लसीका वैशिका
lycophore (decacanth)	Zool.	लाइकोफोर (दशाक्षुण)		lymphatic duct		लसीका बाहिनी
lycophyll	Chem	लाइकोफिल		lymphatic organ		लसीका अंग
lycopine	Chem	लाइकोपिन		lymphatics		लसीका बाहिनियाँ
lycopodiaceous	Bot	लाइकोपोडियमी		lymphatic sinus		लसीका-कोटर
Lycopodiales	Bot	लाइकोपोडिएलीड		lymphatic space		लसीका अवकाश
				lymphatic system		लसीका तंत्र



lymphatic thread		लसीका सूत्र	lynx stone	Geol.	लिनक्स प्रस्तर
lymphatic trunk		लसीका कांड	lyocytosis	Zool.	कोशिका विलयन
lymphatic vessel		लसीका वाहिका	lyolysis	Chem.	द्रवांशान
lymph gland (=lymph node)		लसीका ग्रंथि (लसीका पर्व)	Lyomeri	Zool.	लायोमेरी
lymph heart		लसीका हृदय, लसीका स्फीति	lyonite	Geol.	लाइओनाइट
lymph node		लसीका पर्व	lyonnaise marble	Geol.	लाइओनेज संगमरमर
lymphoblast	Zool.	लसीकोरक	lyonnaisa sauce	H.Sc.	लाइओनेज सांस
lymphocyte	Zool.	लसीकाणु, लिम्फोसाइट	lyophil	Zool.	लयरागी
lymphocytic cell		लसीकाण्विक कोशिका	lyophile process	Chem.	हिमशुष्कन प्रक्रम
lymphocytic infiltration		लसीकाण्विक अन्तःस्खन्द	lyophilic	Chem.	द्रवस्नेही
lymphocytic pleocytosis		लसीकाण्विक प्लवाणुता	lyophilic colloid	Geog.	द्रवप्रिय कोलाइड
lymphocytic varix		लसीकाणु अपस्फीति	lyophilic colloidal system	Bot.	द्रवरागी कोलाइडी तंत्र
lymphocytis	Zool.	लसीकापुटीघ्नण	lyophilization	Zool.,Bot.	1. द्रव रागीयन 2. हिमशुष्कन
lymphocytosis	Zool.	लसीकाणुता	lyophilize	Chem.	हिम शुष्कन
lymphogranuloma	Chem.	लिम्फोग्रेनुलोमा, रत्तज लसीका कणिका गुल्म	lyophilized plasma		हिमशुष्कित प्लाज्मा
lymphoid macrophage	Zool.	लसीकाभ महाविभोजी	lyophilizer		हिम शुष्कीकर
lymphoid macrophage cell		लसीकाभ महाविभोजी कोशिका	lyophobe	Zool.	लयभीत
lymphoidocyte	Zool.	लसीकाभाणु	lyophobic	Chem.	द्रव-विरोधी
lymphoid tissue	Zool.	लसीकाभ ऊतक	lyophobic colloidal system	Bot.	द्रवभीरु कोलाइडी तंत्र
lymphomonocyte	Zool.	लसीकाएकलाणु	lyosorption		द्रवाधिशोषण
lymphomyelocyte	Zool.	लसीकामज्जाणु	lyosphere	Chem.	द्रवगोल, द्रवमंडल
lymphopenia	Zool.	लसीकाल्पता	lyotropic number	Chem.	द्रववर्ती संख्या
lymphosarcoma	Zool.	लसीकासार्कोमा	lyotropic series		लवण क्षेपी श्रेणी
lymph sinus		लसीका कोटर	lyra (psalterium)	Zool.	लाइरा (साल्टेरियम), तृतीय जठर
lymph stream		लसीका प्रवाह	*Lyra	Astron.	लाइरा
lynchet	Geol.,Geog.	लिचैट, वेदिका कगार	lyrate	Zool.	लायरट, लायररूपी
lynch machine	Chem.(Gl.)	लिच मशीन	lyrids	Phy.	लीरीड
lyncurium	Geol.	लिन्कूरियम	lyriform	Zool.	लायररूप
lyndochite	Geol.	लिडोकाइट	lyriform organ	Zool.	लायररूप अंग, वल्लकी अंग
Lynceus	Zool.	लिन्कियस	lysalbinic acid	Chem.	लिसेल्विनिक अम्ल
Lynghya coerulea	Bot.	लिंग्घ्या कोएरूलिया	lysalbumin	Chem.	लिस ऐल्वूमिन
lynx	Zool.	वनविटाल, लियस	lyse	Bot.	लयन करना
*Lynx	Astron.	लिनक्स	lysergic acid	Chem.	लिसर्जिक अम्ल
			lysigenetic origin	Bot.	लयजात उत्पत्ति

lysigenoma	Bot.	लाइसीजीनोमा, लयन-जाताय	lysolecithinase	Chem	लायसोलेसिथिनेस
lysigenous cavity	Bot	लयजात गुहिका	Lysophiurac	Zool.	लाइमोफियूरी
lysimeter	Bot ,Geog.	लिसजलमापी, लाइमी-मीटर	lysophosphoglyceride	Chem.	लाइमो-फॉस्फोग्लिसराइड
lysometry	Geog	लाइसीमेट्री	Lysorophus	Zool	लाइमोरोफम
lysine	Chem ,Zool	लाइसीन	lysosomal membrane	Bot.	लाइसोसोमी झिल्ली
lysis	Bot ,Zool	1. लय, लयन 2 अघटन	lysosome	Zool	लाइसोसोम, लयनकाय
lysocephalin	Chem.	लाइसो-सेफैलिन	lysozyme	Chem ,Bot., Zool.	लाइसोजाइम
lysogenic	Zool.	1 लयजनक, लयनिक 2 अघटनी	lyssacine	Zool	लाइसेमिन
lysogenic bacteria	Bot	प्राक्फाजवाही जीवाणु	Lystrosaurus	Zool.	लिस्ट्रोसॉरस
lysogenicity	Zool.	लयजनकता	lysuric acid	Chem.	लाइस्यूरिक अम्ल
lysogenic phage		लयजनक विभोजी	<i>Lysurus australiensis</i>		लाइसुरस थ्रास्ट्रेलि- एन्सिस
lysogenic strain		लयजनक विभेद	Lythraceae	Bot.	लाइथ्रे सी
lysogenic virus		लयजनक विषाणु	Lythrum variation	Bot.	लाइथ्रम विविधता
lysogenization		लयजनीभवन	lytic phage	Zool.	लयन विभोजी
lysogeny	Zool.	लयजनकता	lytic phase		लयन प्रावस्था
lysol	Chem , H Sc	लाइसॉल	lytomorphic	Geol	जलरूपारती
			<i>Lytta vesicatoria</i>	Zool.	लिटा वेसिकेटोरिया
			lyxose	Chem	लिक्सोस

## M

maar	Geol	धूण-ज्वालामुखी, मार	<i>Macaca mulatta</i>		मंकाका मुलेटा
Maass and Richardson opacimeter	Chem	मास तथा रिचर्डसन ओपेसीमीटर, मरस तथा रिचर्डसन अपारदर्शितामापी	<i>Macaca radiata</i>		मंकाका रेडिएटा
mabi	H Sc	माबी	macadam	Geog	मैकेडम
macabre	H Sc	माकाब्र	macadamized road	Geog	मैकेडमीकृत सड़क
Macaca	Zool	मैकाका	macadam road		मैकेडमी सड़क
<i>Macaca assamensis</i>		मंकाका आसामेन्सिस	macaluba	Geol	मंकेलुबा
			macana	H Sc.	मकाना
			macaroni	Geog ,H Sc	मैकारोनी

macaroon	<i>H.Sc.</i>	मैकरून	machine-assignment problem	यंत्र नियतन समस्या
Mac Arthur and Forest process	<i>Chem.</i>	मैक आर्थर-फॉरेस्ट प्रक्रम	machine compilation	मशीन संकलन
Macbeth lamp	<i>Chem.</i>	मैकबेथ दीप	machine control	यांत्रिक नियंत्रण
macchia	<i>Bot., Geog.</i>	माकिया	machine cycle	यंत्र चक्र
macedoine	<i>H.Sc.</i>	मैसेडॉइन	machine-dependent language	यंत्राश्रित भाषा
Macedonian garrison	<i>Geog.</i>	मैसेडोनियाई गैरीसन	machined steelite rod	मशीनित स्टीलोटाइट दंड, खरादी स्टीलोटाइट दंड
mace oil	<i>Chem.</i>	मास तेल	machine embroidery	मशीनी कढ़ाई
maceral	<i>Geol.</i>	मैसेरल	machine error	मशीनी त्रुटि
macerate	<i>H.Sc.</i>	मसृण करना	machine feeder	मशीन-प्रदायक
macerated filter paper	<i>Chem.</i>	द्रव संमदित निस्यन्दक पत्र, द्रव संमदित फिल्टर कागज	machine fitter	मशीन-फिटर
maceration		द्रव संमदन, मसृणन	machine-glazed finish	मशीन काचित परिसज्जा
macerol	<i>Bot.</i>	मैसिरोल	machine hours	यंत्र घंटे
Mac Fadyen Stevens method	<i>Chem.</i>	मैकफैडियन स्टीवेन्स विधि	machine-independent language	यंत्र निरपेक्ष भाषा
macfarlanite	<i>Geol.</i>	मैकफार्लेनाइट	machine instruction	मशीन भाषा अनुदेश
Macgregor theory	<i>Chem.</i>	मैकग्रीगरवाद	machine language	मशीन भाषा, यंत्र भाषा
machair	<i>Geog.</i>	मैकेयर	machine language programming	यंत्र भाषा प्रोग्रामन
machair soil		मैकेयर मृदा	machine learning	यंत्र शिक्षण
Mach angle	<i>Math.</i>	माख-कोण	machine man	<i>Geog.</i> मशीनक
Mach circle		माख-वृत्त	machine method	यंत्र विधि
Mach cone		माख-शंकु	machine mistry	मशीन मिस्त्री
Mach criterion		माख निकष	machine number	<i>Math.</i> परिकलिद्रीय संख्या
Mach diamond		माख हीरक	machine operator	यंत्र चालक
machenite metal	<i>Chem.</i>	मैकेनाइट धातु	machine printer	मशीन-मुद्रक
mache unit	<i>Phy.</i>	मैश मात्रक	machinery	<i>Chem.</i> यंत्रावली, मशीनरी
Mach fan		माख पंखा	machine script	मशीन लिपि
Machilidae	<i>Zool.</i>	मैचिलिडी	machine simulation	यंत्र अनुकारिता
Machilis	<i>Zool.</i>	मैचिलिस	machine tabulation	यांत्रिक सारणीयन
<i>Machilis maritimus</i>		मैचिलिस मैरीटाइमस	machine translation	मशीनी अनुवाद
<i>Machilus bombycina</i>	<i>Bot.</i>	मैकीलस बाम्बीसीना	machine unit	मशीन मात्रक
machinability	<i>Chem.</i>	तक्षणीयता, यन्त्रीकरण, मशीननीयता	machine variable	मशीनी चर
machination	<i>Geog.</i>	पट्टयंत्र	machine word	यंत्र शब्द
machine		मशीन, यंत्र, कल	Mach intersection	माख प्रतिच्छेदन
			Mach line	माख रेखा

Mach needle		माख सूची	macrame	H.Sc.	मैत्राणे
Mach number		माख सख्या	macrame cord	H.Sc.	मैत्राणे डोरी
machozooid	Zool	रक्षिजीवक	Macrandrous	Bot	पुदीर्घी
Mach parallelogram		माख-समांतरचतुर्भुज	macraner	Zool.	दीर्घंदर
Mach principle		माख नियम	macranthous	Bot	दीर्घपुष्पी
Mach stem		माख स्टेम	Macrauchenia	Zool	मैत्राचेनिया
Mach wave		माख तरंग	Macrauchenidae	Zool	मैत्राचेनाइडी
mackensite	Geol	मैकेन्साइट	macrergate	Zool.	दीर्घकर्मि
Mackenzic equation (= Fechner Law)	Phy	मैकेजी-समीकरण, मैकेनर नियम	macro		स्थूल, महा, दीर्घ, गुरू
mackerel	Zool.	वागडा	macro analysis	Math.	महा विश्लेषण, स्थूल विश्लेषण
mackerel fishery		वागडा मत्स्यकी	macro axis	Geol.	दीर्घ अक्ष
mackerel fishing		वागडा मत्स्यन	macrobasic	Zool.	दीर्घाधारि
mackerel shark		वागडा मुरग	macrobiostemomous	Bot.	अग्रदी पुष्पसरी
mackerel sky	Geog	मैकरेल आकाश	macrobiotic	Zool.	दीर्घजीवी
Mackey space	Math.	मैके स्पेस	Macrobiotus hufelandi	Zool	मैकोबायोटस हूफे- लान्डी
Mackey test		मैके निरूप	macroblast	Zool.	गुरूकोरक
Mackey topology		मैके सस्थिति	Macrobrachium carcinus	Zool	मैकोब्रैकियम कार्सी- नम
Mackie line	Phy.	मैकी रेखा	Macrobrachium idae		मैकोब्रैकियम आइडी
mackintosh	H.Sc.	मोमगामा, मैकिनटॉश	Macrobrachium rudis		मैकोब्रैकियम रुडिस
Mack number	Chem.	मैक सख्या	Macrocephalites	Geol.	मैकोसिफैलाइटीज
Mackower's apparatus	Geol.	मैकोवर उपकरण	Macrocephalites macrocephalus	Geol.	मैकोसिफैलाइटीज मैकोसिफैलस
MacLane's criterion	Math.	मैकलेन निरूप	macrocephalous	Bot.	बृहत्शीर्षी
Maclaurin ellipsoid	Math	मैक्लारिन दीर्घवृत्तज	macrocerous (gorgoderine)	Zool	दीर्घपुच्छीय
Maclaurin's expansion		मैक्लारिन प्रसार	macrochaete	Zool.	दीर्घशूक
maele	Geol.	1 (twinned diamond) दोनकी 2 (mineral spot) खनिज धब्बा, मैकल 3 (chaustolite) मैकल	macrochemical study		स्थूल रासायनिक अध्ययन
maeled	Geol	धव्हेदार	macrochromosome	Zool.	गुरूगुणसूत्र
maeleod	Geog.	मैकलाउड	macrocladous	Bot	दीर्घशाखी
Maclod's equation		मैकलाउड समीकरण	macroclema	Bot	दीर्घशाखायुक्त
Mac Michael viscometer	Chem, Phy	मैक माइकेल श्यानता- मापी	macro-climate	Geog	विस्तृतक्षेत्री जलवायु
Macoma		मैकोमा	macrocneme (= macrosepta)	Zool	दीर्घपट
Macoma balthica		मैकोमा बाल्टिका	macrocnemous		दीर्घपटीय
maco yarn	H.Sc	मैको सूत्र	macrocomponent	Chem.	स्थूल घटक

macroconidium	Bot.	गुरुकोनीडियम, मैक्रोकोनीडियम	macrography		स्थूल लेखन
macroconjugant	Bot., Zool.	गुरुसंयुग्मी	macrogyne	Zool.	दीर्घजाया
macrocorallite	Geol.	दीर्घकोरालाइड	macroheterogeneous	Chem.	स्थूल विपमांगी
macrocosm	Bot.	मैक्रोकॉस्म	macro instruction	Phy.	बहुजनक अनुदेश, गुरु अनुदेश
macro crystalline	Geol.	स्थूल क्रिस्टलीय	macrolepidolite	Geol.	मैक्रोलेपिडोलाइट
macrocrystalline state		स्थूल क्रिस्टलीय अवस्था	macroleucocyte	Zool.	गुरुश्वेताणु
macrocytic	Bot.	दीर्घचक्री	macrolide	Chem.	मैक्रोलाइड
macrocytic ring system	Chem.	बृहत् चक्रीय बलयतंत्र	macrolog	Geol.	स्थूल संलेख
macrocytic rust		दीर्घचक्री किट्ट	macromastia	Zool.	बृहत्स्तनता
macrocyt	Bot.	गुरुपुटी	macromere	Geol.	बृहत्खंड
macrocyte	Zool.	स्थूलाणु	macromeritic	Geol.	बृहत्खंडी
macrocytic	Zool.	स्थूलाणुक	macromerozite	Zool.	गुरु खंडज
<i>Macrocystis pyrifer</i>	Bot.	मैक्रोसिस्टिस पाइरीफेरा	macrometeoritic specimen	Geol.	बृहत्उल्कापिंडीय नमूना
macrocytosis	Zool.	स्थूलाणुता	macrometeorology	Geog.	विस्तृत क्षेत्रीय मौसम-विज्ञान
macroductylous	Zool.	दीर्घांगुलि	<i>Macromitrium braunii</i>	Bot.	मैक्रोमिट्रियम ब्राउनाइड
macrodasoid	Zool.	मैक्रोडेसिग्रॉइड	macromolecular component	Bot.	महाआणविक घटक
macrodiagonal	Geol.	दीर्घपाश्र्व-अक्ष	macromolecule	Phy.	बृहदणु
macro dome	Geol.	दीर्घाक्ष डोम	<i>Macromonas mobilis</i>	Bot.	मैक्रोमोनास मोविलिस
macrodont	Zool.	गुरुदन्ती	macromutation	Bot., Zool.	गुरु-उत्परिवर्तन, गुरु स्पूटेशन
macroetch	Chem.	स्थूल रसोत्कीर्णन	macronucleocyte	Zool.	गुरुकेन्द्रकाणु
macroevolution	Zool.	गुरुविकास	macronucleus	Zool., Bot.	गुरुकेन्द्रक
macrofauna	Zool.	गुरुप्राणिजात	macronutrient	Bot.	बृहत्पोषक, गुरु पोषक, स्थूल पोषक
macroflagellate	Zool.	गुरुकणाम	macro-operation	Math.	बृहत् संक्रिया
macrofloral	Geog.	दीर्घपुष्पीय	macropalaentology	Geol.	बृहत्जीवाश्मकी
macroforaminifera	Geol.	मैक्रोफोरेमिनीफेरा	<i>Macropetalichthys rapheidolabis</i>	Zool.	मैक्रोपेटैलिथिस रेफीडोलैविस
macrofossil	Bot.	स्थूल जीवाश्म, गुरुजीवाश्म	macrophage	Bot., Zool.	बृहत्भक्षकाणु
macrogamete	Biol.	गुरुयुग्मक	macrophagous (= macrophagic)	Biol.	महाभक्षी
macrogametocyte	Biol.	गुरुयुग्मकजनक	macrophanerophyte	Bot.	बृहत्व्यवर्तोभिद्
macrogeography	Geog.	मैक्रो-भूगोल, बृहत् भूज्ञान	Macropharyngea	Zool.	मैक्रोफैरिन्जिया
macroglobulinemia	Chem.	मैक्रोग्लोब्युलिनरक्तता			
macro glossate	Zool.	दीर्घजिह्व			
macrognathic	Zool.	बृहत्हनू			
macrograph	Chem.	स्थूल लेखी			

<i>Macropharynx longicaudatus</i>	Geog.	मैक्रोफॅरोन्क्स लॉन्गी-काॅडेटस	macroscopic constant		स्थूल स्थिरांक
Macrophoma	Bot.	मैक्रोफोमा	macroscopic coordinates		स्थूल निर्देशांक
macrophotography	Geol	बृहत् फोटोचित्रण	macroscopic cross section	Phy	स्थूल परिक्षेप
macrophyll	Bot.	बृहत् पर्ण	macroscopic density		स्थूल घनत्व
macrophyllous	Bot	दीर्घ पर्णी	macroscopic elastic constant		स्थूल प्रत्यास्थ गुणांक
macrophysical problem	Geol.	दीर्घ भौतिक समस्या	macroscopic electrodynamics		स्थूल विद्युत्गतिकी
macropinacoid	Geol.	दीर्घसि पिनेकाइड	macroscopic element		स्थूल अवयव
macroplankton	Zool, Geog., Geol	गुरुप्लवक	macroscopic equation		स्थूल समीकरण
macroplastmatocyte	Zool	गुहृदव्याणु	macroscopic equation of continuity		स्थूल मातस्य समीकरण
macropodial	Bot.	बृहदपी	macroscopic flux variation		स्थूल अभिवाह परिवर्तन, स्थूल पत्रम परिवर्तन
Macropodidae	Zool	मैक्रोपोडिडी	macroscopic granule		स्थूल दक्षित कणिका
macropodous	Bot	दीर्घपादी	macroscopic motion		स्थूल गति
macropolyschematic	Geol	बृहत् बहुव्यवस्थ	macroscopic organ		स्थूल अंग
Macropoma	Zool.	मैक्रोपोमा	macroscopic particle		स्थूल कण *
macroprism	Geol	दीर्घसि प्रिज्म	macroscopic plant	Bot	अमूढम पादप
macroprogramming	Phy	गुरु अनुदेश प्रोग्राम	macroscopic plaque		स्थूल दक्षिण प्रपट्ट
macropterous	Zool	दीर्घपखी	macroscopic quantity		स्थूल राशि
Macropus	Zool	मैक्रोपस	macroscopic state		स्थूलदर्शीय अवस्था
<i>Macropus canguru</i>		मैक्रोपस कॅन्गुरु	macroscopic stopping power		स्थूल निरोध शक्ति
<i>Macropus rufus</i>		मैक्रोपस रुफम	macroscopic symmetry		स्थूल सममिति
macropyramid	Geol	दीर्घसि पिरॅमिड	macroscopic theory		स्थूल सिद्धान्त
macroquantitative work		स्थूल मात्रात्मक कार्य	macroscopic velocity		स्थूल वेग
Macroscaphites	Geol	मैक्रोस्काफाइटीज	macroscopic volume		स्थूल आयतन
Macroscelididae	Zool	मैक्रोस्केलिडिडी	macroscopic volume element		स्थूल आयतन अल्पांश
macroschizont	Zool	मैक्रोशाइजॉन्ट, गुरुशाइजॉन्ट	macroscopy		स्थूलदर्शिकी
macrosclereid	Bot	बृहत् दृङ्क	macroseismic region	Geol.	दीर्घ भूकंपी प्रदेश
macroscleric monaxon	Geol	दीर्घदृङ्क एकरेकजॉन	macroseism	Geog	दीर्घ भूकम्प
macroscopic		अमूढम, स्थूल, स्थूलदर्शित, स्थूलदर्शीय	macroseptum	Zool.	गुरुपट
macroscopic benthonic organism		स्थूल दिनलस्थ जीव	macrostiphan	Zool	गुरुविदार
macroscopic character		स्थूल लक्षण	macrosmatic	Zool	प्रघ्राणी, मैक्रोस्मैटिक
macroscopic colony		स्थूल निवह	macrosmatism		प्रघ्राणिता, मैक्रोस्मैटिसम

macrosomite	Zool.	दीर्घकायखंड
macrosonics	Phy.	महाध्वानिकी
macrospecies	Bot.	वृहत्जाति
macrospERMatoCytE	Zool.	गुरुशुक्राणुकोशिका
macrospheric	Zool.	गुरुवेद्यमी
macrosporangium	Bot.	गुरुबीजाणुधानी
macrospore	Bot.	गुरुबीजाणु
macrostome	Zool.	वृहत्मुख
macrostructure	Geol.	स्थूल संरचना
macrostylous	Bot.	दीर्घवर्तिक
macrosymbiont	Zool.	वृहत्सहजीवी
macroswarmer	Bot.,Zool.	गुरुचलाणु
Macrotermes	Zool.	मैक्रोटर्मिस
macrothermophilous	Bot.	उष्णतारागी
Macrotois	Zool.	मैक्रोटिस
macrotitration	Chem.	स्थूल अनुमापन, मैक्रोटोइ- ट्रेशन
macrotoous	Zool.	दीर्घकर्ण
macrotrichium	Zool.	दीर्घरोमक
macrotype	Zool.	वृहत्प्ररूप
macro unit		स्थूल मात्रक, स्थूल एकक
Macrozamia	Bot.	मैक्रोजेमिडा
macrozamin	Chem.	मैक्रोजमिन
macrozooid	Zool.	गुरुजीवक
macrozoologist	Zool.	स्थूलप्राणिविज्ञान, स्थूल- प्राणिवैज्ञानिक
macrozoology		स्थूलप्राणिविज्ञान, स्थूल- प्राणिकी
macrozoospore	Bot.	गुरु चलबीजाणु
Macrura	Zool.	मैक्रूरा
macrurous type	Zool.	मैक्रूरा प्ररूप, दीर्घपुच्छ प्ररूप
Mactra	Geol.	मैक्ट्रा
<i>Mactra stultorum</i>		मैक्ट्रा स्टल्टोरम
macula	Geol.,Biol., H.Sc.	1. मैकुला, घन्वा, चिन्ह 2. विन्दु, धनीफुल्की
macula neglecta	Zool.	उपेक्षित स्थल, मैकुला नेगलेक्टा
macular (=maculate)	Bot.	चिह्नित

macula statica	Zool.	संतुलन स्थल, मैकुला स्टैटिका
maculation	Bot.	लक्ष्मचिन्त्यास
maculatum fever	Zool.	मैकुलैटम ज्वर
maculatus	Bot.	लक्ष्मघर
macule	H.Sc.	चकता, चित्ती
maculose (structure)	Geol.	घन्वेदार (संरचना)
Macvicaria	Bot.	मैकवीकैरिया
mad (magnetic airborne detector)	Phy.	वायुवर्ती चुम्बकीय संसूचक
mad (Michigan algorithm decoder)	Phy.	मिशिगन कलनविधि विकोडक
madder	H.Sc.	मंजिष्ठा, मजीठ
madder bleach		मंजिष्ठा विरंजित
madder style printing		मंजिष्ठा शैली मुद्रण
Maddrell's salt	Chem.	मैड्रेल लवण
made ground	Geol.	अभिनव निक्षेप
Madeira cake	H.Sc.	मदिरा केक
Madeira lace	H.Sc.	मदिरा लेस
Madelung constant	Chem.,Phy.	मैडेलुंग नियतांक
made site	H.Sc.	तैयार स्थल
made soil	H.Sc.	तैयार मिट्टी
<i>Madhuca indica</i>	Bot.	मधुका इन्डिका
<i>Madhuca longifolia</i>		मधुका लॉंगिफोलिया
<i>Madhuca malabarica</i>		मधुका मालावारिका
madistor	Phy.	मैडिस्टर
madre	Phy.	मैड्रे
Madrepora	Zool.	मैड्रीपोरा
<i>Madrepora aspera</i>		मैड्रीपोरा ऐस्पेरा
<i>Madrepora cribripora</i>		मैड्रीपोरा क्रिब्रिपोरा
Madreporaria	Zool.,Geog.	मैड्रेपोरैरिया
madreporarian	Geol.	मैड्रेपोरैरियाई
madrepore	Zool.	मैड्रीपोर, प्ररंघ्र
madrepore marble	Geol.	मैड्रीपोर संगमरमर
madreporian coral	Zool.,Geog.	मैड्रीपोरा प्रवाल, प्ररंघ्री प्रवाल
madreporic ampulla	Zool.	मैड्रीपोरी तुंबिका, प्ररंघ्री तुंबिका

madreporic body		मैट्टीपोरी काय, प्ररध्री काय	magic square		मैजिक वर्ग
madreporic canal		मैट्टीपोरी नाल, प्ररध्री नाल	magic tee	Phy.	सकर T, मैजिक T
madreporic vesicle		मैट्टीपोरी वाशय, प्ररध्री वाशय	magistral	Chem. (Met.)	मैजिस्ट्रल
madreporite	Zool, Geol	मैट्टीपोराइट, प्ररध्रक	magma	Geol.	मैग्मा
madreporitic ampulla		प्ररध्रक तुविका	magma basin		मैग्मा बेसिन
Madsenell process	Chem	मैडसेनैल प्रक्रम	magmatic		मैग्मीय
madt transistor	Phy	मैड्ट ट्राजिस्टर	magmatic assimilation		मैग्मीय स्वागीकरण
madupite	Geol.	मैडुपाइट	magmatic blister		मैग्मीय फफोला
Maelstrom	Geog	मैलस्ट्रॉम	magmatic crystallization		मैग्मीय क्रिस्टलन
maenaiite	Geol.	मीनेआइट	magmatic differentiation		मैग्मीय विभेदन
maer (= mears)	Geog	मायर	magmatic digestion		मैग्मीय स्वागीकरण
maerdref	Geog.	मायड्रेफ	magmatic disseminated ore deposit		मैग्मीय प्रकीर्णित अयस्क निक्षेप
maer field	Geog.	मायर-खेन	magmatic evolution		मैग्मीय विकास, मैग्मीय विकासन
maestrale	Geog	मैस्ट्रैल	magmatic injection deposit		मैग्मीय अंतक्षेप निक्षेप
maestro	Geog	मैस्ट्रो	magmatic ore deposit		मैग्मीय अयस्क निक्षेप
mafelsie	Geol.	मफेल्सिक	magmatic pressure		मैग्मीय दाब
mafic rock	Geol	मैफिक शैल	magmatic product		मैग्मीय उत्पाद
magclad	Chem	मैगक्लैड	magmatic resorption		मैग्मीय पुनशोषण
Magellania		मैजेलोनिया	magmatic segregation		मैग्मीय पृथक्करण
<i>Magellania flavescens</i>		मैजेलोनिया फ्लेवसेन्स	magmatic segregation deposit		मैग्मीय पृथक् समूहन निक्षेप
Magellanic cloud	Math	मैजेलोनिय मदाकिनो	magmatic source		मैग्मीय स्रोत
magenta	Geol, Geog	मैजेटा	magmatic stoping		मैग्मीय निखनन
magenta BBS extra conc.		मैजेटा BBS अतिमात्रित	magmatic tremor		मैग्मीय कंप
maggot	Zool	मैगट, अण्डक	magmatic water	Geol	मैग्मा जल
maggot proof		मैगटमह अण्डकसह	(= juvenile water)		
magical observance	Geog	मन्त्रपालन अनुष्ठान, मोह-विद्या अनुष्ठान	magmatic wedge		मैग्मीय फाट
magic eye	Chem	मायाक्षि, समस्वरणदर्शी	magmatist	Geol	मैग्मावादी
magic horn	Phy, H Sc	मैजिक हार्न	magmatype		मैग्मा प्ररूप
<i>Magicalada septendecim</i>	Zool	मैजिमिकाडा सेप्टेन्डी-सिम	magna eye	Chem (Met.)	वर्ध चक्षु
magic lantern	Phy.	मैजिक लाण्टेन, चित्र-प्रक्षेपी लाण्टेन	magnafix	Chem.	मैग्नाफिक्स
magic number	Math, Phy	माया सख्या, मैजिक सख्या, स्थायित्व सख्या	magnafix testing	Phy.	चुम्बक अभिवादीय परीक्षण



magnal base	<i>Phy.</i>	मैग्नेल आधार	magnesium silicate	•	मैग्नीशियम सिलीकेट
magnalite	<i>Chem., Geol.</i>	मैग्नेलाइट	magnesium sulphate enema		मैग्नीशियम सल्फेट एनिमा
magnalium	<i>Chem.</i>	मैग्नेलियम	magnesol	<i>Chem.</i>	मैग्नेसॉल
magnamycin	<i>Chem.</i>	मैग्नेमाइसिन	magneson	<i>Chem.</i>	मैग्नेसॉन
magnecrystalline action	<i>Chem.</i>	चुंबक क्रिस्टली क्रिया, चुंबक स्फाटकी क्रिया	magnet	<i>Phy.</i>	चुंबक
magne gauge	<i>Chem.</i>	मैग्नी गेज, चुंबकी प्रमापित	magnet charger		चुम्बकत्व आवेशक
magnes	<i>Chem.</i>	मैग्नेस	magnet-core antenna		चुम्बक-क्रोडी एन्टेना
magnesia	<i>Chem.</i>	मैग्नीशिया	magnetic	<i>Phy., Geol.</i>	चुम्बकीय
magnesia alba		मैग्नीशिया ऐल्वा	magnetic activity		चुम्बकीय सक्रियता
magnesia alba levis (=white light magnesia)		मैग्नीशिया ऐल्वा लेविस	magnetic airborne defector		वायुवाहित चुंबकीय संसूचक
magnesia alba ponde- rosa (=white dense magnesia stone)		मैग्नीशिया ऐल्वा पॉन्डेरोसा	magnetically anisotropic		चुम्बकीयतः विषमदेशिक
magnesia cement		मैग्नीशिया सीमेन्ट	magnetically coupled circuit		चुम्बकीयतः युग्मित परिपथ
magnesia lapis		मैग्नीशिया लेपिस	magnetically disturbed day		चुम्बकीयतः विक्षुब्ध दिवस
magnesia mixture		मैग्नीशिया मिश्रण	magnetically quiet day		चुम्बकीयतः शान्त दिवस
magnesian hornfels	<i>Geol.</i>	मैग्नीशियमी हॉर्नफैल्स	magnetically soft	<i>Phy.</i>	सुचुम्बकनीय
magnesian limestone		मैग्नीशियमी चूनापत्थर	magnetic amplifier		चुम्बकीय प्रवर्धक
magnesia powder		मैग्नीशिया पाउडर	magnetic analysis		चुंबकीय विप्लेपण
magnesia spinel		मैग्नीशिया स्पिनेल	magnetic anisotropy		चुम्बकीय विषमदेशिकता
magnesia usta		मैग्नीशिया अस्टा	magnetic anisotropy energy		चुम्बकीय विषमदेशिकता ऊर्जा
magnesiananthophyllite	<i>Geol.</i>	मैग्नीशियोएन्थोफिलाइट	magnetic anomaly		चुंबकीय विसंगति
magnesiochromite	<i>Geol.</i>	मैग्नीशियोक्रोमाइट	magnetic arch theory		चुंबकीय चाप सिद्धान्त
magnesioferrite	<i>Geol.</i>	मैग्नीशियोफेराइट	magnetic asymmetric wave		चुंबकीय असममित तरंग
magnesiohalide	<i>Chem.</i>	मैग्नीशियोहैलाइड	magnetic axis		चुंबकीय अक्ष
magnesiumsussexite	<i>Geol.</i>	मैग्नीशियोससेक्सिट	magnetic bar		चुंबक छड़
magnesite	<i>Geol.</i>	मैग्नेसाइट	magnetic bearing		चुंबकीय दिक्मान, चुम्बकीय दिशाकोण
magnesium	<i>Chem., H.Sc.</i>	मैग्नीशियम	magnetic belt		चुंबकीय पट्टी
magnesium deficiency disease		मैग्नीशियम न्यूनता रोग	magnetic biasing		चुंबकीय वायसन
magnesium front		मैग्नीशियम अग्र	magnetic blowout		चुंबकीय शामन
magnesium mixture		मैग्नीशियम मिश्रण	magnetic bottle		चुंबकीय संरोधिका
magnesium oxide		मैग्नीशियम ऑक्साइड	magnetic bottle method		चुंबकीय संरोध विधि
magnesium oxide injury		मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षति			
magnesium pectate		मैग्नीशियम पेक्टेट			

magnetic character	चुम्बकीय लक्षण	magnetic flocculation	चुम्बकीय ऊर्णन
magnetic circuit	चुबकीय परिपथ	magnetic fluid clutch	चुबकीय तरल क्लच
magnetic coil	चुबकीय कुंडली	magnetic fluid dynamics	चुम्बकीय तरल गतिकी
magnetic compass	चुबकीय दिक्सूचक, चुबकी-कुतुबनुमा	magnetic flux	चुबकीय अभिवाह
magnetic control pattern	चुबकीय नियन्त्रण पैटर्न	magnetic focusing	चुबकीय फोकस
magnetic course	चुबकीय पथ	magnetic force	चुम्बकीय बल
magnetic cycle	चुबकीय चक्र	magnetic forming (= electromagnetic forming)	चुबकीय अभिरूपण
magnetic datum	चुबकीय आधार	magnetic friction clutch	चुबकीय घर्षण क्लच
magnetic declination	Geog. चुबकीय दिक्पात	magnetic gate	चुबकीय द्वार, चुबकीय गेट
magnetic deflection	चुबकीय विक्षेप	magnetic gauge	चुबकीय प्रमापी
magnetic deflection mass spectrometer	चुम्बकीय विक्षेप, सहति स्पेक्ट्रममापी	magnetic head	चुबकीय शीर्ष
magnetic density	चुम्बकीय घनत्व	magnetic heading	चुबकीय उत्तरीय कोण
magnetic detector	चुबकीय समुचक	magnetic hyperfine structure constant	चुबकीय अतिमूर्क्ष्य संरचना स्थिरांक
magnetic diffusivity	चुबकीय विपरणशीलता	magnetic hysteresis	चुबकीय शैथिल्य
magnetic dip	चुबकीय नति	magnetic induction	चुबकीय प्रेरण
magnetic dipole	चुबकीय द्विध्रुव	magnetic induction vector	चुबकीय प्रेरण-सदिश
magnetic dipole radiation	चुम्बकीय द्विध्रुवी विकिरण	magnetic inhomogeneity	चुबकीय विषमरंगता
magnetic dissipation	चुबकीय अपक्षय	magnetic ink	चुबकीय स्वाही, चुबकीय मर्मि
magnetic disturbance	चुबकीय विक्षोभ	magnetic intensity	चुबकीय तीव्रता
magnetic doublet	चुबकीय द्विक	magnetic interrupter	चुबकीय अंतरायित्र
magnetic drum	चुबकीय द्रोण	magnetic iron ore	चुबकीय लोह अयस्क
magnetic eddy	चुम्बकीय भ्रवर	magnetic keeper	चुबकी-रक्षक
magnetic electron microscope	चुबकीय इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी	magnetic latitude	चुबकीय अक्षांश
magnetic element	चुबकीय अयस्क	magnetic length	चुबकीय लम्बाई
magnetic energy	चुबकीय ऊर्जा	magnetic log washer	चुबकीय लॉग धावित्त
magnetic energy density	चुबकीय ऊर्जा घनत्व	magnetic loop tension	चुबकीय पाश तनाव
magnetic entropy	चुम्बकीय ऐन्ट्रॉपी	magnetic loss	चुबकीय ऊर्जा-क्षय
magnetic equator	चुबकीय निरक्ष	magnetic map	चुबकीय नक्शा
magnetic excitation	चुबकीय उत्तेजन	magnetic medium	चुबकीय माध्यम
magnetic field	चुबकीय क्षेत्र	magnetic memory	1. चुबकीय स्मृति 2. चुबकीय स्मृतित्रय, चुबकीय स्मृतित्रय
magnetic field perturbation	चुबकीय क्षेत्र क्षोभ		
magnetic field reversal	चुबकीय क्षेत्र उल्लंघन		

magnetic meridian	चुंबकीय याम्योत्तर	magnetic quantum number	चुम्बकीय क्वाण्टम अंक
magnetic mineral	चुंबकीय खनिज	magnetic reaction analyzer	चुम्बकीय प्रतिक्रिया विश्लेषक
magnetic mirror	चुंबकीय दर्पण	magnetic reading head	चुम्बकीय पठन शीर्ष
magnetic modulator	चुंबकीय माडुलक	magnetic recalescence	चुम्बकीय पुनरुद्दीप्ति
magnetic moment	चुंबकीय आवर्ण	magnetic recorder	चुम्बकीय अभिलेखी
magnetic north	चुंबकीय उत्तर	magnetic recording (of sound)	चुम्बकीय अभिलेखन
magnetic octupole	चुंबकीय अष्टध्रुव	magnetic reluctance	चुम्बकीय प्रतिष्टम्भ
magnetic-optical effect	चुंबकीय प्रकाशिक प्रभाव	magnetic remanence	चुम्बकीय अवशेष
magnetic orbital quantum number	चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या	magnetic resistance	चुम्बकीय प्रतिरोध
magnetic oxide	चुंबकीय आक्साइड	magnetic resonance	चुम्बकीय अनुनाद
magnetic particle path	चुंबकीय कणपथ	magnetic resonance absorption	चुम्बकीय अनुनाद अवशोषण
magnetic permeability	चुंबकीय व्याप्यता, चुंबकशीलता	magnetic resonance accelerator	चुम्बकीय अनुनादी त्वरित
magnetic permeability tensor	चुंबकशीलता प्रदिश	magnetic resonance induction	चुम्बकीय अनुनाद प्रेरण
magnetic plant	चुंबकीय संयंत्र	magnetic resonance spectrum	चुम्बकीय अनुनाद स्पेक्ट्रम
magnetic plasma	चुंबकीय प्लाज्मा	magnetic Reynold's number	चुम्बकीय रेनाल्ड संख्या
magnetic polarization	चुंबकीय ध्रुवण	magnetic rigidity	चुम्बकीय दृढता
magnetic pole	चुंबकीय ध्रुव	magnetic rotation	चुम्बकीय घूर्णन
magnetic pole strength	चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य	magnetic rotation spectrum	चुम्बकीय घूर्णन स्पेक्ट्रम
magnetic potential	चुंबकीय विभव	magnetics	<i>Chem., Phy.</i> चुम्बक-विज्ञान
magnetic powder coated tape	चुम्बकीय चूर्ण विलेपित फ़ीता	magnetic saturation	चुम्बकीय संतृप्ति
magnetic powder-impregnated tape	चुम्बकीय चूर्ण संसिंचित टेप	magnetic screening	चुम्बकीय आवरण
magnetic pressure	चुम्बकीय दाब	magnetic sector	चुम्बकीय त्रिज्यखंड, चुम्बकीय सेक्टर
magnetic printing	चुम्बकीय मुद्रण	magnetic separation	चुम्बकीय पृथक्करण
magnetic probe	1. चुम्बकीय अन्वीक्षण 2. चुंबकीय अन्वीक्षक	magnetic separator	चुम्बकीय पृथक्कर
magnetic profile	चुम्बकीय प्रोफाइल	magnetic shielding constant	चुम्बकीय परिरक्षण स्थिरांक
magnetic prospecting	चुम्बकीय पूर्वक्षण	magnetic shift register	चुम्बकीय विस्थापन रजिस्टर
magnetic pulley	चुम्बकीय घिरनी	magnetic space group	चुम्बकीय अवकाश समूह
magnetic pulley separator	चुम्बकीय घिरनी पृथक्कर	magnetic spectrum	चुम्बकीय स्पेक्ट्रम
magnetic pumping	चुम्बकीय पम्पन		
magnetic pyrite	चुम्बकीय माक्षिक, चुम्बकीय पाइराइट		

magnetic spin quantum number	चुम्बकीय प्रचक्रण क्वान्टम सटना	magnetic wire	चुम्बकीय तार
magnetic stiffness	चुम्बकीय दुर्नम्यता	magnetic yoke	चुम्बकीय योजक
magnetic stirrer	चुम्बकीय विलोडक	magnetic zenith	चुम्बकीय शिरोदिन्दु
magnetic storm	चुम्बकीय प्रक्षोभ	magnetisable substance	<i>Phy.</i> चुम्बकचरणीय पदार्थ
magnetic stress	चुम्बकीय प्रतिबल	magnetisation	<i>Phy.</i> चुम्बकन
magnetic surface recording	चुम्बकीय पृष्ठ अभिलेखन	magnetisation curve	चुम्बकन वक्र
magnetic survey	चुम्बकीय-सर्वेक्षण	magnetisation reversal	चुम्बकन व्युत्क्रमण
magnetic susceptibility	चुम्बकीय प्रवृत्ति	magnetisation vector	चुम्बकन सदिश
magnetic tape	चुम्बकीय फीता, चुम्बकीय टेप	magnetise	चुम्बकित करना
magnetic tape reader	चुम्बकीय टेप पाठित	magnetiser	<i>Chem, Phy, Geog.</i> चुम्बकित
magnetic tape recording	चुम्बकीय फीता अभिलेखन, चुम्बकीय टेप अभिलेखन	magnetising	<i>Phy.</i> चुम्बकन
magnetic theory of light	प्रकाश का चुम्बकीय सिद्धांत	magnetising coil	चुम्बकन कुंडली
magnetic total angular quantum number	चुम्बकीय पूर्ण कोणीय संवेग क्वान्टम संख्या	magnetising current	चुम्बकन धारा
magnetic tracking	चुम्बकीय अनुवर्तन	magnetising field	चुम्बकन-क्षेत्र
magnetic trough separator	चुम्बकीय द्रोणी पृथक्कर	magnetising focussing	चुम्बकीय फोकसीकरण, चुम्बकीय फोकसन
magnetic tube of force	चुम्बकीय बल-तलिका	magnetising winding	चुम्बकन-कुंडली
magnetic tube of induction	चुम्बकीय प्रेरण-तलिका	magnetism	<i>Phy.</i> चुम्बकत्व
magnetic-type waves (=H-waves)	चुम्बक तरंगवत् तरंग	magnetite	<i>Phy.</i> मैग्नेटाइट
magnetic vane	चुम्बकीय फलक	magneto	<i>Phy.</i> मैग्नेटो
magnetic vanometer	चुम्बक पंखीय मापी	magneto-acoustic wave	<i>Math.</i> चुम्बक ध्वनिक तरंग
magnetic variable star	चुम्बकीय चरकानि तारा	magnetocaloric effect	<i>Phy, Chem.</i> चुम्बक ऊष्मीय प्रभाव
magnetic variation	1 चुम्बकीय विभिन्नता 2 चुम्बकीय दिशांतर	magnetochemistry	<i>Chem</i> चुम्बक-रसायन
magnetic vector	चुम्बकीय सदिश	magnetochemical anisotropy	<i>Phy</i> चुम्बक क्रिस्टली विषम-दक्षिणता
magnetic vibrator	चुम्बकीय कम्पित	magnetochemical energy	चुम्बकक्रिस्टली ऊर्जा
magnetic viscosity	चुम्बकीय श्यानता	magnetochemical properties	चुम्बकक्रिस्टली गुण
magnetic volume force	चुम्बकीय आयतन बल	magneto-dynamics	चुम्बक गतिकी
magnetic vortex ring	चुम्बकीय घूमिल बलय	magnetoelastic	<i>Phy.</i> चुम्बक प्रत्यास्य
magnetic wave	चुम्बकीय तरंग	magnetoelastic coupling constant	चुम्बकप्रत्यास्य युग्मन नियतांक
		magnetoelastic energy	चुम्बकप्रत्यास्य ऊर्जा
		magnetoelastic relaxation	चुम्बकीय प्रत्यास्य विश्रांति
		magnetolectricity	<i>Phy</i> चुम्बकीय विद्युत्

magnetofluid dynamics	<i>Math.</i>	चुम्बक तरल गतिकी	magneto-optic measurement	<i>Chem.</i>	चुम्बकीय चाक्षुष मापन, चुम्बकीय प्रकाशिक मापन
magnetogram	<i>Geog.</i>	मैग्नेटोग्राम, चुम्बकलेख	magneto-optics	<i>Phy.</i>	चुम्बक-प्रकाशिकी
magnetograph	<i>Phy.</i>	चुम्बकत्वलेखी	magnetopause	<i>Phy.</i>	चुम्बकत्ववी मण्डल सीमा
magnetography	<i>Phy.</i>	चुम्बकत्ववी अभिलेखन	magnetophone	<i>Phy.</i>	मैग्नेटोफोन
magnetohydrodynamic equation	<i>Math.,Phy.</i>	चुम्बकीय द्रवगतिकीय समीकरण	magnetophotophoresis	<i>Phy.</i>	चुम्बकीय प्रकाश-रण संचलन
magnetohydrodynamic oscillation		चुम्बकीय द्रवगतिकीय दोलन	magnetoplasma	<i>Phy.</i>	चुम्बकत्ववी प्लाज्मा, मैग्नेटो प्लाज्मा
magnetohydrodynamics		चुम्बक द्रवगतिकी	magnetoplasma dynamics		चुम्बकत्ववी प्लाज्मा गतिकी
magnetohydrodynamic steady state		चुम्बक द्रवगतिकीय स्थायी दशा	magneto-resistance		चुम्बकत्ववी प्रतिरोध
magnetohydrodynamic wave		चुम्बक द्रवगतिकीय तरंग	magneto-resistance multiplier		चुम्बकत्ववी प्रतिरोध गुणक
magneto-hydrostatic equilibrium	<i>Math.</i>	चुम्बक द्रवस्थैतिक संतुलन	magneto-resistive effect	<i>Phy.</i>	चुम्बकीय प्रतिरोधी प्रभाव
magneto-hydrostatic stability		चुम्बक द्रवस्थैतिक स्थायित्व	magneto-resistivity	<i>Phy.</i>	चुम्बकीय प्रतिरोधकता
magneto-hydrostatics		चुम्बक द्रवस्थैतिकी	magneto-resistor	<i>Phy.</i>	चुम्बकत्ववी प्रतिरोधक
magnetoionic	<i>Phy.</i>	चुम्बक आयनिक	magnetorotatory	<i>Phy.,Chem.</i>	चुम्बकघूर्णी
magnetoionic splitting		चुम्बक आयनिक विपाटन	magnetoscope	<i>Phy.</i>	चुम्बकत्वदर्शी
magnetoionic theory		चुम्बक आयनिक सिद्धांत	magneto-sonic wave		चुम्बक ध्वनिक तरंग
magnetomachine		मैग्नेटोमशीन	magnetosphere	<i>Math.,Phy.</i>	चुम्बक मंडल
magnetomechanical effect	<i>Phy.</i>	चुम्बक यांत्रिक प्रभाव	magnetostatic	<i>Math.,Phy.,Geol.</i>	स्थिर चुम्बकीय
magnetomechanical factor		चुम्बक यांत्रिक गुणक	magnetostatic equilibrium equation		स्थिर चुम्बकीय संतुलन समीकरण
magnetomechanical ratio (=gyromagnetic ratio)		चुम्बक यांत्रिक अनुपात	magnetostatic field strength		स्थिर चुम्बकीय क्षेत्र तीव्रता
magnetometer	<i>Phy.</i>	चुम्बकत्वमापी	magnetostatic interaction		स्थिर चुम्बकीय अंतर्क्रिया
magnetometric		चुम्बकत्वमापीय	magnetostatics	<i>Phy.</i>	स्थिर चुम्बकीय
magnetometry	<i>Phy.</i>	चुम्बकत्वमिति	magnetostriction	<i>Phy.,Geol.</i>	चुम्बकीय विरूपण
magnetomotive force	<i>Phy.,Geol.</i>	चुम्बकत्व वाहक बल	magnetostriction effect		चुम्बकीय विरूपण प्रभाव
magneton	<i>Phy.</i>	मैग्नेटॉन	magnetostriction microphone		चुम्बकीय विरूपण माइक्रोफोन
magneto-ohmmeter	<i>Chem.,Phy.</i>	मैग्नेटो-ओममापी	magnetostriction oscillator		चुम्बकीय विरूपण दोलक
magneto-optical	<i>Phy.</i>	चुम्बक-प्रकाशीय	magnetostrictive delay line		चुम्बकीय विरूपी विलम्ब परिपथ
magneto-optical analysis		चुम्बक-प्रकाशीय विश्लेषण			
magneto-optical laser		चुम्बक-प्रकाशीय लेजर			
magneto-optic effect		चुम्बक-प्रकाशीय प्रभाव			

magnetostrictive effect		चुंबकीय विरूपण प्रभाव	<i>Magnolia grandiflora</i>	मैग्नोलिया ग्रैन्डीफ्लोरा
magnetostrictive relay		चुंबकीय विरूपण रिले	magnolia metal	मैग्नोलिया धातु
magnetostrictor	Phy.	चुंबकीय विरूपक	<i>Magnolia pumila</i>	मैग्नोलिया प्यूमिला
magneto-thermal effect	Chem.	चुंबक ऊष्मीय निरूपति	magnon	Phy. मैगनॉन
magneto-turbulent photosphere	Math.	चुंबकीय प्रसुब्ध प्रकाश-मंडल	magnophyric	Geol. महापार्श्विकीय
magnetron	Phy.	मेग्नेट्रॉन	magnox (alloy)	Chem. मैगनॉक्स (मिश्रधातु)
magnetron rectifier		मेग्नेट्रॉन दिष्टकारी	magnum	Zool. मैग्नाम, महामणिबद्ध
magnetron strapping		मेग्नेट्रॉन पट्टीबधन	magnuminium	Chem. मैग्नीयमिनियम (मिश्रधातु)
magnetron vacuum gauge		मेग्नेट्रॉन निर्वातमापी	magnum-trapezoid	Zool. मैगनम-ट्रैपेजोइड
magnet sheath	Geog	चुंबकावरण	magnus force	Phy. मैगनस बल
magnette	H Sc.	मैग्नेट	<i>Magnusia nitida</i>	Bot. मैग्नूसिया निटिडा
magnettor	Phy.	मैग्नेटर	Magnus salt	मैगनस लवण
magnification	Phy., Geol	आवर्धन	magoya silk	H Sc. मैगोया रेशम (त्रेष)
magnification arrangement		आवर्धन प्रयुक्ति	"magpie test"	Chem. मैगपाइ परीक्षण
magnification factor		आवर्धन गुणक	magslip (radar)	Phy. मैगस्लिप
magnified image		आवर्धित प्रतिबिम्ब	mahogany	H Sc. महोगनी
magnifier		आवर्धक	mahogany acid	Chem. महोगनी अम्ल
magnify		आवर्धन करना, आवर्धित करना	'mahogany' sulfonic acid	महोगनी सल्फॉनिक अम्ल
magnifying		आवर्धक, आवर्धन-	maboltine	H.Sc. महोल्दिन
magnifying glass		आवर्धक लेन्स	<i>Mahonia nepalensis</i>	Bot. महोनिआ नेपेलेन्सिस
magnifying lens		आवर्धक लेन्स	Maja	Zool. माइया, माया
magnifying power		आवर्धन क्षमता	*Maja (=c Tauri)	Astron. माइया (=c वृष, c टॉराई)
magniphyric	Geol.	बृहत्पार्श्विकीय	maibafi	H Sc. माईबाफी
magnitude	Chem. Math.	1. परिमाण 2. (of a star) कात्तिमान	maiden hair fern	Bot. मैडेन हैयर पर्णांग
magnitude limit (=limiting magnitude)		कात्तिमान-सीमा	mail-boat	Geog. डाक नाव
magno	Chem. (Met)	मैग्ने	mailcloth	H.Sc. मैन्क्लथ
magnoferrite	Geol.	मैग्नेफेराइट	mailed questionnaire	Math. डाक प्रेषित प्रश्नावली
<i>Magnolia alba</i>	Bot	मैग्नोलिया ऐल्बा	mail-express freight	Geog. मेल-एक्सप्रेस वाहन-मूल्य
Magnoliaceae	Bot	मैग्नोलिएसी	mail survey	Math. डाक द्वारा सर्वेक्षण
<i>Magnolia fuscata</i>		मैग्नोलिया फुस्केटा	mail net	H.Sc. मेल जाल
			man	मुख्य, प्रमुख
			Mainardi-Codazzi relation	Math. मैनार्दी-कोडाज़ी संबंध
			main band	Phy. मुख्य बैंड
			main bang	Phy. संचारित स्पंद

main branch		मुख्य शाखा	maize	Geog.	मक्का
main chain store		मुख्य चेन स्टोर	maize rain	Geog.	मकई वर्षा
main drainage		मुख्य जलनिकास	majolica	Chem.	मजोलिका
main effect		मुख्य प्रभाव	Majonnier extraction tube	Chem.	मायोनिअर निष्कर्षण नली
main flow		मुख्य प्रवाह	major		दीर्घ, गुरु, मुख्य
main groups (periodic table)		मुख्य वर्ग	Majorana effect	Chem.	मायोराणा निष्पत्ति
main land		मध्य भूमि	Majorana force		मायोराणा बल
mainland spur	Geog.	मुख्यभूमि पर्वतस्कंध	majorant (= upper bound)	Math.	उपरि परिवंद
mainline	Geog.,Phy.	1. प्रमुख मार्ग 2. मुख्य लाइन	major arc	Math.	दीर्घ चाप
main lobe		मुख्य पालि	major axis		दीर्घ अक्ष
main memory		मुख्य स्मृति	major calyx		दीर्घ कलश
main pipe line		मुख्य पाइप लाइन	major characteristic	Math.	मुख्य अभिलक्षण
mains	Phy.	1. (electrical) मुख्य तार 2. (water) मुख्य नल	major city	Geog.	मुख्य शहर
main sequence	Math.	मुख्य अनुक्रम	major community		प्रमुख समुदाय
main sequence star		मुख्य अनुक्रम तारा	major defect		मुख्य दोष
mains hold	Phy.	मेन्स अभिवंधन	major factor		मुख्य उपादान, मुख्य कारक
Main-Smith crucible	Chem.	मेन-स्मिथ मूपा, मेन-स्मिथ क्रूसिबल	major fold	Geol.	मुख्य बलन
main station		मुख्य स्टेशन, मुख्य चांदा	major function		उपरि फलन
main table		मुख्य सारणी	major intrusion	Geol.	दीर्घ अंतर्वेधन
maintain	Geog.	पोषण करना, संधारण करना, देखभाल करना	majorised generator	Math.	प्रभूत जनक
maintainability	Math.	अनुरक्षणीयता	majorised set	Math.	उपरिवद्ध उपसमुच्चय
maintained vibration		पोषित कंपन	majority carrier	Phy.	बहुसंख्यक वाहक
maintenance		1. अनुरक्षण 2. पोषण, संधारण	majority emitter		बहुसंख्यक उत्सर्जक
maintenance charges	H.Sc.	अनुरक्षण व्यय	major joint	Geol.	मुख्य संधि
maintenance file		अनुरक्षण संचिका	major levator	Zool.	महाउन्नयनी
maintenance location		अनुरक्षण स्थान	major natural region		मुख्य प्राकृतिक प्रदेश
maintenance of vibration		कंपन का पोषण	major partition		दीर्घ विभाजन, दीर्घ विभाग
maintenance problem	Math.	अनुरक्षण समस्या	major segment		दीर्घ खंड
maintenance true bearing	Phy.	यथार्थ दिक्मान स्थिरक	major sixth	Phy.	गुरु षष्ठ
main trend	Geol.	मुख्य प्रवृत्ति	major tone		गुरु टोन
main village	Geog.	मुख्य ग्राम	major town	Geog.	मुख्य नगर
mai yu	Geog.	माइ यू	majus	Bot.	बृहत्
			makat	H.Sc.	मैकाट
			make and break	Phy.	संपर्क और विच्छेद

make before break contact	Phy.	सम्बन्ध अनन्तर विच्छेद सम्पर्क	malar bone (jugal)	Zool.	गडास्थि
make contact	Phy.	सम्बन्ध सम्पर्क	malaria	Zool., H.Sc.	मलेरिया
make pulse	Phy.	सम्बन्धक स्पन्द	malaria belt		मलेरिया बेल्ट, मलेरिया कटिबन्ध
makeready printing	Chem.	मिद्ध मुद्रण	malaria carrier		मलेरिया वाहक
makeshift sail	Geog.	कामचलाऊ पाल-शीत	malarial coast	Geog	मलेरियाग्रस्त तट
make span	Math	आद्यन विस्तृति	malarial jungle		मलेरियाग्रस्त जंगल
make up	H Sc.	शुगार	malaria parasite	Zool.	मलेरिया-परजीवी
makhtesh	Geog	मेखदेश	malaricidal	Zool.	मलेरियानाशी
maki hata	Geog.	मैकी हाटा	malaricidal drug		मलेरियानाशी औषध
"making period"	Chem.	उत्पादन काल	malaricidal mechanism		मलेरियानाशी क्रियाविधि
Makinoa	Bot	मैकीनोत्रा	malariaologist	Zool.	मलेरियाविज्ञानी
Makinoa crispata		मैकीनोत्रा क्रिस्पेटा	malariaology		मलेरियाविज्ञान
mala	Zool	गण्ड	malar region	Zool	गण्ड-क्षेत्र
malabar	H Sc	मलाबार	malate (salt)	Chem	मैलेट (लवण)
malabar snapper	Zool	बरवा चम्पल्ली, चावरी ताव	malathion (insecticide)	Biol., Chem.	मैलथायान (कीटनाशी)
malabsorption	H Sc.	अपात्रशोषण	malaxation	Zool.	विचर्चण
malachite	Geol	मैलेकाइट	Malay cultivator	Geog.	मैले-कृषक
malachite green		मैलेकाइट हरित	Malayan semang	Geog.	मलाया-सीमांग
Malacichthyes	Zool.	मैलामिक्थोत्र	malaysianite	Geol.	मलेशियाकाइट
malacolite	Geol	मैलेकोलाइट	malcomizing	Chem. (Met.)	मैल्कमन
malacology	Zool	शुक्तिविज्ञान	maldistribution	H Sc.	कुवितरण
malacon (e)	Chem	मैलाकोन	male	Bot, Zool., H Sc.	नर, पु
malacophilous	Bot	शबूक पराशित	malefactor	Geog	अपकारी
malacophyllous	Bot	मुड्ड पर्णी	male gamete	Biol.	पुयुग्मक
malacoid	Bot.	श्लेष्ममय	male gamont		पुयुग्मक-जनक
Malacostraca	Zool	मैलेकोस्ट्रेका	male generative aperture		पु जनन छिद्र
malacostracan	Zool	मुड्डपृष्ठवर्मी, मैलेकोस्ट्रेकन	male generative papilla		पु जनन पपिला, पु जनन गिम्पल
maladaptation	Zool	दुरनुकूलन	male genital pore		पु जनन-रक्ष
mal-adjustment	Geog., H.Sc.	कुसमायोजन	male genitalia	Zool	पुजननांग
malaise	Geog, H Sc.	1. दृग्गता, अस्वस्थता 2. व्याकुलता	maleic acid	Chem.	मैलेइक अम्ल, मैलेइक ऐसिड
mala mandibularis	Zool.	त्रिवृक गड	male Intersex	Zool.	नर मध्यलिंगी
malamastone	Chem.	मालमारम (शुक्लशिला)	male nurse	H.Sc.	परिचारक
mala maxillae	Zool.	जम्बिका गड			
Malaprade reaction	Chem.	मैलाप्रेड अभिक्रिया			
malar	Geol.	गड-			



maleopimaric acid	Chem.	मैलिओपिमैरिक अम्ल	<i>Mallotus philippinensis</i>	Bot.	मैलोटस फिलिपिनेन्सिस
male sex gland	Zool.	पुंलैंगिक ग्रंथि	malnutrition	H.Sc.	कुपोषण
male sex organ	Bot.	पुमंग	malodorant	Chem.	दुर्गन्धक
Malesherbiaceae	Bot.	मैलेशरबिऐसी	malol	Bot.	मैलोल
malformation	Bot.	कुरचना	malonate block	Bot.	मेलोनेट खंडक, मेलोनेट ब्लाक
malformed	H.Sc.	कुरचित	malonation	Chem.	मेलोनन
malfunction	Math.	कुसंक्रिया	malondiamide	Chem.	मेलान-डाइ-ऐमाइड
malfunction routine	Phy.	निदान नेमका	malonic acid	Chem.	मैलोनिक अम्ल, मैलोनिक ऐसिड
malignancy	Zool.	दुर्दंमता	malonic ester		मैलोनिक एस्टर
malignant	Chem.	दुर्दंम	malonyl-urea	Chem.	मेलनिल-यूरिया
malignant growth		दुर्दंम वृद्धि	Malpighiaceae	Bot.	मेलपीगिऐसी
malignant neoplasm		दुर्दंम नवद्रव्य	<i>Malpighia glabra</i>		मैलपीगिआ ग्लोब्रा
malignant tertian		दुर्दंम तृतीयक	Malpighiales		मालपीगिऐलीज
malignant tumour		दुर्दंम अर्बुद	Malpighian capsule	Zool.	मैलपीगी कोष
malignolipin	Chem.	मैलिनोलिपिन	Malpighian corpuscles		मैलपीगी कणिका
malinite	Chem. (Met.)	मैलिनाइट	Malpighian layer		मैलपीगी स्तर
malitriose	Chem.	मैलिट्रायोस	Malpighian tubule		मैलपीगी नलिका
mallardite	Chem.	मैलर्डाइट	<i>Malpighia puniceifolia</i>	Bot.	मैलपीगिआ पुनिसे-फोलिया
mallauching	Phy.	कुमोचन	<i>Malpighia urens</i>	Bot.	मैलपीगिआ यूरेन्स
malleability	Phy.	आघातवर्ध्यता, आघात-वर्धनीयता	malpractices	H.Sc.	कुप्रथाएँ, कदाचार
malleable		आघातवर्ध्य, आघातवर्धनीय	malt	H.Sc., Chem.	माल्ट
malleable casting		आघातवर्ध संचकन	malt agar medium	Bot.	माल्ट ऐगार माध्यम
malleabilizing		आघातवर्धीकरण	maltase	Chem.	माल्टेस
malleate	Zool.	घनाकार	malted milk tablet	H.Sc.	माल्ट मिश्रित दुग्ध टिकिया
mallee	Bot.	मली	maltene	Chem., H.Sc.	माल्टीन
mallee scrub		मैली गुल्म	malt extract broth	Bot.	माल्टसार थूप
malleoramate	Zool.	घनसाक्षीय	malt-house	Chem.	माल्ट गृह
malleolus	Zool.	गुल्फवर्ध	Malthusianism	Geog.	माल्थसवाद
mallet-shape	Zool.	द्विघनरूप	malting	Chem.	माल्टन
Mallet's process	Chem.	मैलेट-प्रक्रम	malting process		माल्टन प्रक्रम
malleus	Zool. H.Sc.	मैलियस, घन मुद्गार	maltobionic acid	Chem.	माल्टोबायोनिक अम्ल
malleus incudal joint	Phy.	मैलियस इन्कस सन्धि			
<i>Mallomonas longiseta</i>	Bot.	मैलोमोनास लॉजी-सीटा			
Mallophaga	Zool.	मैलोफेगा			

maltosazone	Chem	माल्ट ओसेजोन	mammiform	Geog.	स्तनाकार अपवृद्धि
maltese	H Sc, Chem	माल्टोम, यवशर्करा	excrescence		
maltreatment	Geog.	कुव्यवहार	mammilla	Zool.	1 चुचुक 2. स्तनाभिका
malster	Chem.	माल्ट निर्माता	mammillary	Zool.	स्तनाकार, चुचुकाभ
*Malus	Astron	मेलस	mammillary process		चुचुकाभ प्रवर्ध
Malvaceae	Bot.	माल्वेसी	mamunillated cloud		स्तनाकार मेघ
Malvales	Bot.	माल्वेलीन	mammillated surface		स्तनाकार सतह
Malva parviflora	Bot	माल्वा पार्वीफ्लोरा	mammogen	Zool.	स्तनजन
Mahastrum	Bot	माल्वेस्ट्रम	mammoth		मैमथ
tricuspidatum		ट्राइकस्पिडेटम	mammoth antenna	Phy.	बृहदाकार ऐंटना
Malva sylvestris		माल्वा सिल्वेस्ट्रिस	man	Zool.	मनुष्य, मानव
Malva verticillata		माल्वा वर्टीसिलेटा	mana	Geog	माना
Malvernian	Geog	मालवेनियाई	manaccanite	Geol	मैनाकैनाइट
(=Malvernoid)			manacle	Geog	हथकडी
Malvernian fold		मालवेनियाई वलन	mandarin orange	Chem	मेनड्रीन नारंग, मेनड्रीन आरंज
malvidia		मैल्विडिन	management cost		प्रबंध लागत
Mamecydon edule	Bot.	मैमीसाइलान इडुल	management practice	H Sc,	प्रबंध पद्धति
mamelon	Zool.	मैमेलॉन, अतण्ड	management process	H Sc.	प्रबंध प्रक्रम
mameluke	Geog	मैमेल्यूक, श्वेत दास	management		प्रबंध तकनीक
mammae (mammas)	Zool	स्तन	technique		
mammal	Zool.	स्तनधारी, स्तनी, स्तनपायी	managerial ability	H Sc.	प्रबंध योग्यता
Mammalia	Zool	मैमेलिया (स्तनी वर्ग)	managerial skill		प्रबंधकीय दक्षता
mammalian sequence	Geog	मैमेलियन अनुक्रम, स्तनी अनुक्रम	manandomite	Chem	मैनेडोनाइट
mammaliferous crag	Geog.	मैमेलिफेरस शृंग	manatee	Zool	मैनेटी
mammalogist	Zool	स्तनीवैज्ञानिक, स्तनीविज्ञ	Manatus	Zool	मैनेटस
mammary foetus	Zool	स्तनी गर्भ	Manchester furnace	Chem.	मैचेस्टर भट्टी, मैचेस्टर प्राष्ठ
mammary formula		स्तन-सूत्र	Manchester yellow	Chem.	मैचेस्टर पत्तो, मैचेस्टर पीत
mammary gland		स्तन ग्रन्थि	Manchu	Geog.	मन्चू (जनजाति)
mammary pocket		स्तन-गर्त	man culture system		मानव सभ्यता-व्यवस्था
mammary pouch		स्तन कोष्ठ	Mandan Indian	Geog.	मैडेन इंडियन
mammary vein		स्तन शिरा	mandarin	Geog.	मैन्डारिन
mammatus	Geog	मैमेटस, स्तनाभ	mandarin oil	Chem.	माल्टा तेल, मैन्डेरिन तेल
Mammea americana	Bot	मैमिया अमेरिकाना	mandated territory	Geog.	अधिदेशाधीन भू-भाग
Mammea longifolia	Bot	मैमिया लॉन्गिफोलिया	mandelate	Chem.	मैन्डेलेट
mammiform	Bot.	स्तनरूप			

mandelic acid	<i>Chem.</i>	मंडेलिक अम्ल, मंडेलिक एसिड	manganate	<i>Chem.</i>	मँगनेट
mandelonitrile	<i>Chem.</i>	मेन्डेलोनाइट्राइल	manganblende	<i>Chem.</i> ( <i>Met.</i> )	मँगनब्लेन्ड
Mandiae	<i>Zool.</i>	मंडी	manganese	<i>H.Sc., Chem.</i>	मँगनीज
mandible	<i>H.Sc., Zool.</i>	मंडिबल, चिचुकास्थि	manganese black		मँगनीज कृष्ण, मँगनीज ब्लैक
mandibular	<i>Zool., Geol.</i>	मंडिबुलर, चिचुक- चिचुकीय	manganese blende		मँगनीज ब्लेन्ड
mandibular aortic arch		चिचुक महाधमनीचाप	manganese brown		मँगनीज ब्राउन, मँगनीज बध्नु
mandibular barbel		चिचुक-स्पर्शवर्ध	manganese chlorosis		मँगनीज हरिमाहीनता
mandibular branch		चिचुकीय शाखा	manganese deficiency disease		मँगनीज न्यूनता रोग
mandibular foramen		चिचुकास्थि रंध्र	manganese spar		मँगनीज स्फार
mandibular foot		चिचुकीय पद	manganese toxicity		मँगनीज आविपालुता
mandibular gland		चिचुक-ग्रंथि	manganese vitriol		मँगनीज काचर
mandibular groove		चिचुकीय खांच	mangananglauconite	<i>Geol.</i>	मँगनेग्लौकोनाइट
mandibularis (=mandibular nerve)		चिचुक-तंत्रिका	manganhedenbergite	<i>Geol.</i>	मँगनेहेडेनबर्गइट
mandibular scar		चिचुकीय चिह्न	manganite		मँगनिक
mandibular sternum		चिचुकीय अघरक	manganic-cyanides	<i>Chem.</i>	मँगनी-सायनाइड
mandibular teeth		चिचुक दंत	manganiferous iron ore	<i>Geol.</i>	मँगनीजमय लौह अयस्क
mandibular vein		मंडिबुलर शिरा, चिचुक शिरा	manganiferous rock	<i>Geol.</i>	मँगनीजमय शैल
Mandibulata	<i>Zool.</i>	मंडिबुलेटा	manganiferous soil	<i>Bot.</i>	मँगनीजमय मृदा
mandibulate	<i>Zool.</i>	चिचुकी	manganin	<i>Geol.</i>	मँगनिन
mandrel	<i>Chem. (Gl.)</i>	दंडक, मेन्ड्रेल	manganic-phosphate	<i>Chem.</i>	मँगनी फॉस्फेट
mandrel test	<i>Chem.</i> ( <i>Paint.</i> )	मेन्ड्रेल निकप	manganipurpurite	<i>Geol.</i>	मँगनीपरपुराइट
Mandrillus	<i>Zool.</i>	मेन्ड्रिलस	manganite	<i>Geol.</i>	मँगनेाइट
manducation	<i>Zool.</i>	प्रचर्वण	Manganja	<i>Geog.</i>	मँगनीजा
mandurometer	<i>Chem.</i> ( <i>Met.</i> )	मॅट्रुरोमीटर	manganobrucite	<i>Geol.</i>	मँगनोब्रूसीट
mane	<i>Zool.</i>	केसर, अयाल	manganocalcite	<i>Geol.</i>	मँगनोकैल्साइट
maneb	<i>Chem.</i>	मेनव	manganomanganic oxide	<i>Chem.</i>	मँगनोमँगनिक ऑक्साइड
manebach twin	<i>Geol.</i>	मानेबाख यमल	manganometric method		मँगनोमिति पद्धति
maneuver	<i>Phy.</i>	कौशल	manganosite	<i>Chem.</i> ( <i>Met.</i> )	मँगनोसाइट
maneuverability		कौशल्य	manganous ion	<i>Chem.</i>	मँगनस आयन
manganal	<i>Chem.</i> ( <i>Met.</i> )	मँगनेल	mangbatfu group	<i>Geog.</i>	मँगवत्तू-समूह
manganandalusite		मँगनएन्डेलूसीट	mange	<i>Geog.</i>	खाज

manger	Geog.	घास	manipulating key	Phy.	हेरफेर कुजी
mangerite	Geol	मैंगेराइट	manipulation	H Sc.	हस्त कोशल, हेरफेर
Mangifera	Bot	मैजीफेरा	manipulation noise		हेरफेर रव
Mangifera indica		मैजीफेरा इन्डिका (आम, अम्व)	manipulator	Phy.	परिचालक
mangin mirror	Phy.	मैंगीन दर्पण	Manis	Zool	मैनिन
mangle	Chem.	मैंगल, वेल्सपीडिङ	manito	Geog.	मैनिटो
mangle expression	Chem. (Text.)	मैंगल व्यञ्जक	manjak	Geol.	मैन्जक
Mangler's transformation	Math	मैंगल-रूपांतरण	mankind	Geog	मानवजाति
mangling	Chem.	वेल्सपीडन, मैंगलन	man made fibre	Chem. (Text), H Sc.	कृत्रिम रेशा, मानव- निमित रेशा
mangnosic oxide		मैंग्नीसिक ऑक्साइड	manmade static	Phy.	कृत्रिम स्थैतिक
mango		आम, अम्व	manna	Chem.	मेना (मराठी), शिरदिस्त (हिन्दी)
mangold	Geog	मैन्गोल्ड, राजमूल	mannan	Chem.	मैनेन
mangold's acid		मैन्गोल्ड अम्ल	mannans	Bot.	मैनेन्स
mangonel	Geog	शिलाप्रक्षेपक	mannanase	Chem.	मैनेनेस
mango shower	Geog	आम-बीछार	mannaric acid	Chem	मैनेरिक अम्ल
mangosteen	Geog.	मैंगोस्टीन (मलाया)	manned balloon	Phy.	मानवयुक्त बलून
mangrove	Bot, Geol, Geog.	मैंग्रोव, गरान (बंगाली)	Mannesmann process	Chem (Met)	मैनेसमान प्रक्रम
mangrove marsh		गरान कच्छ, मैंग्रोव कच्छ	Mannheim process	Chem	मैन्हाइम प्रक्रम
mangrove swamp		मैंग्रोव अनूप, गरान अनूप	Mannich reaction	Chem.	मानिश अभिक्रिया
mangualldite	Geol	मैंगुएल्डाल्ट	manninotriose	Chem	मैनिनोट्रायोस
man hauled sledge	Geog.	मानव बर्षित स्लेज	mannitan	Bot.	मैनिटन
Manhes process		मान्हेस प्रक्रम	mannite	Bot.	मेनाइट
manhole	Chem.	नख्खार, मनोल	mannite agar		मैनाइट ऐगार
manhour input	Math	जन घंटे निविष्ट	mannitol		मैनिटॉन
man-hours		जन-घंटे	mannoglycerate	Bot.	मैनोग्लाइसरेट
mania	H Sc	उन्माद, ध्यमन	manno-heptulose	Chem.	मनो-हेप्टुलोस
Manichaeism	Geog	मैनिक्वाइड	mannokinase	Bot.	मैनोकाइनेस
manifest	H Sc	ध्वक्न	mannoetose	Chem	मैनोऑक्टोस
manifestation	Geog., H Sc	अभिध्वक्न	mannosan	Bot	मैनीसन
manifold	Chem (Pet)	बहुमुख	mannose	Chem.	मैनीस
Manihot api	Bot	मैनीहाट आइपाइ	Mann's Compound	Chem.	मान यौगिक
Manihot glaziovii		मैनिहाट ग्लेजिओवाइ	mannuronic acid	Bot, Chem	मैन्कुरॉनिक एसिड
manila hemp	Geog	मनीला हेम्प	Mann-Whitney test	Math.	मान विटनी धरीक्षण
manilla	Chem, H Sc	मनीला	manodyzing	Chem. (Met)	मैनीसाइज्ज

manoeuvre	<i>Geog.</i>	1. युद्धाभ्यास 2. कौशल	mantissa (of logarithm)	<i>Math.</i>	अपूर्णांश
manometer	<i>Phy., H.Sc.</i>	दावांतरमापी, मैनोमीटर	mantis shrimp	<i>Geog.</i>	मैन्टिस चिंगट
manometrically	<i>Chem. (Nucl.)</i>	निपीडांतरमितितः	mantle	<i>Zool., Geol., H.Sc.</i>	प्रावार, मैटल
manometric capsule	<i>Phy.</i>	दावदर्शी कैप्सूल	mantle block	<i>Chem.</i>	ऊष्मसह पिढक
manometric flame		दावदर्शी ज्वाला	mantle cavity	<i>Zool.</i>	प्रावार-गुहिका, प्रावार गुहा
manometric liquid		निपीडांतरमापी द्रव	mantle cloth	<i>H.Sc.</i>	मैटिल वस्त्र
manometric technique		दावदर्शी प्रविधि, दाव- दर्शी तकनीक	mantle flap		प्रावार प्रालम्ब
manor	<i>Geog.</i>	सामन्त भूमि, मैनर	mantle fold	<i>Zool.</i>	प्रावार बलन
manor house	<i>Geog.</i>	मैनर-गृह	mantle groove		प्रावार खांच
manorial court	<i>Geog.</i>	सामन्ती न्यायालय, मैनरीय कोर्ट	mantle lobe		प्रावार-पालि
manorial land		सामन्ती भूमि	mantle map		मैटल मानचित्र
manorial nuclei		मैनरीय केन्द्रक, सामन्ती केन्द्रक	mantle model		मैटल मॉडल
manorial waste		मैनरीय व्यर्थभूमि, सामन्ती व्यर्थभूमि	mantle of scoria		स्कोरिया-प्रावार
manostat		निपीडस्थायी	mantle region		प्रावार क्षेत्र
manoxyllic	<i>Bot.</i>	विरलदारक	mantle rock		प्रावार शैल
man power	<i>Geog.</i>	जन-शक्ति	manto	<i>Geol.</i>	मैन्टो, स्वर्ण-स्तर
manpower requirement		जनशक्ति आवश्यकता	Mantoda	<i>Zool.</i>	मैन्टोडा
manpower scheduling	<i>Math.</i>	जनशक्ति नियोजन	mantomide	<i>Chem.</i>	मैन्टोमाइड
man reef	<i>Geog.</i>	मानव-भित्ति, मानव रीफ	mantua	<i>H.Sc.</i>	मैंटुआ
man Roentgen equivalent	<i>Phy.</i>	मानविक रुन्टगेन तुल्य	Mantua Maker's seam	<i>H.Sc.</i>	मैंटुआ मेकर सीवन
Mansfield process	<i>Chem. (Met.)</i>	मैन्सफील्ड प्रक्रम	manual control	<i>Math.</i>	हस्तेन नियन्त्रण
Mansfield sandstone		मैन्सफील्ड बालुकाश्म	manual curve	<i>Geol.</i>	हस्तरेखित वक्र
mansjoelite	<i>Geol.</i>	मान्सजोआइट *	manual digit	<i>Zool.</i>	हस्तांगुलि
mansjoite	<i>Geol.</i>	मान्सजोआइट	manual drilling	<i>Geol.</i>	हस्त वेधन
manta	<i>H.Sc.</i>	मैन्टा	manual effort	<i>H.Sc.</i>	शारीरिक प्रयास
Manticoceras	<i>Geol.</i>	मैन्टिकोसिरैस	manual entry	<i>Math.</i>	हस्तेन प्रविष्टि
<i>Manticoceras intumescens</i>		मैन्टिकोसिरैस इन्टूमेसेन्स	manual machine	<i>Math.</i>	हस्तचालित यंत्र
Mantidae	<i>Zool.</i>	मैन्टिडी	manual polarograph		हस्तचालित ध्रुवणलेखी
Mantis	<i>Zool.</i>	मैन्टिस	maunal settling	<i>H.Sc.</i>	हस्तस्थापन
			manual skill		हस्त कौशल
			manual solution	<i>Math.</i>	हस्तकृत हल
			manual tuning	<i>Phy.</i>	हस्त समस्वरण
			manubrium	<i>Zool.</i>	1. मैनुब्रियम, हस्तक. 2. दण्डाभ कोशिका

manubrium sterni (presternum)		मनुब्रियम स्टेर्नाइ, उरोस्थि मुष्टि	many one function switch	<i>Phy</i>	बहु-एक स्विच
manufacture	<i>Chem, Geog</i>	औद्योगिक निर्माण, व्यापारिक निर्माण, निर्माण	many particle shell model	<i>Phy.</i>	बहुकणकोश मॉडल
manufactured article	<i>Math</i>	निर्मित वस्तु	manyplume moth	<i>Zool</i>	बहुपिच्छक शलभ
manufactured food		निर्मित खाद्य	many valued analytic function	<i>Math</i>	बहुमान विश्लेषिक फलन
manufacturer		निर्माता	many valued function		बहुमान फलन
manufacturing	<i>Geog</i>	विनिर्माणो	many valued velocity potential		बहुमानी-वेग विभव
manufacturing band	<i>Math</i>	निर्माण पट्ट	Maori		माओरी
manufacturing city		निर्माण शहर	Maoutia	<i>Bot</i>	माओटिया
manufacturing enterprise	<i>Geog</i>	निर्माण उद्यम	map	<i>Geog, Geol Math</i>	नक्शा, मानचित्र प्रतिचित्र
manufacturing map		निर्माण मानचित्र	mapacrine		मैपास्रीन
manufacturing plant		निर्माण सयन्त्र	map compilation	<i>Geog</i>	मानचित्र सङ्कलन
manufacturing skill		निर्माण कौशल	mapcraft		मानचित्र कला
manufacturing tolerance		निर्माण-महानता	map drawing	<i>Geog</i>	नक्शा खींचना
manufacturing town		निर्माण-नगर	mapharsen	<i>Chem</i>	मैफार्सेन
manure	<i>H Sc, Geog, Chem</i>	खाद	map into the set	<i>Math</i>	समुच्चय में प्रतिचित्रित करना
manured land	<i>Geog</i>	खनीली भूमि	maple		मैपिल, पुनली
manurial contamination		खाद सङ्कषण	maple honey	<i>H Sc</i>	मैपिल शहद
manus (hand)	<i>Zool</i>	हस्त, हाथ	maple sugar	<i>Chem (Food)</i>	मैपिल शर्करा
manuscript	<i>Geog</i>	पाण्डुलिपि	maple syrup	<i>H Sc.</i>	मैपिल चावनी
manuscript map	<i>Geog</i>	हस्तचित्रित मानचित्र	map matching		मानचित्र भुजेलन
many body channel	<i>Phy</i>	बहुपिंडी चैनल	map making		मानचित्रण
many body force		बहुपिंडी बल	maparium	<i>Geog.</i>	मैपैरियम, मानचित्रालय
many body problem		बहुपिंडी समस्या	map pattern		मानचित्र पैटर्न
man year	<i>Phy</i>	मानववर्ष वर्ष	mapped	<i>Geog</i>	मानचित्रित
many electron atom	<i>Phy</i>	बहुइलेक्ट्रॉनी परमाणु	mapping	<i>Geol.</i>	1 मानचित्रण 2 भूमापन
many electron system		बहुइलेक्ट्रॉनी तंत्र	mapping of a set	<i>Math</i>	प्रतिचित्रण
many-jointed	<i>Zool</i>	बहुसन्धित	map projection	<i>Geog.</i>	मानचित्र-प्रक्षेप
many line spectrum	<i>Phy</i>	बहुरेखी स्पेक्ट्रम	map reader		मानचित्र-पाठक
many nucleon system	<i>Phy</i>	बहुन्यूक्लियॉन तंत्र	map reading		मानचित्र-पठन, मानचित्र अध्ययन
many one correspondence	<i>Math,</i>	बहुएक संगति	map reproduction		मानचित्र-चित्रोत्पदन

map scale		मानचित्र पैमाना	marcasite structure		मार्कसाइट संरचना
map study		मानचित्र अध्ययन	marceline	<i>Geol.</i>	मार्सेलीन
map technique		मानचित्र तकनीक	marcescent	<i>Bot.</i>	धपातजीर्ण
maquis (=macquis =macchia =matorral)	<i>Geog.</i>	माकि (वनस्पति)	march (=marches =marchland)	<i>Geog.</i>	सीमान्त (भूमि)
M.A. R. (micro-analytical reagent)	<i>Chem.</i>	एम० ए० आर०, सू० वि० (मुख्य विश्लेषण अभिकर्मक)	Marchantia	<i>Bot.</i>	मार्केशिया
mar	<i>Geog.</i>	मार	Marchantia polymorpha	<i>Bot.</i>	मार्केशिया पॉलीमॉर्फा
marabout	<i>Geog.</i>	फकीर, एकान्तवासी	Marchantites	<i>Bot.</i>	मार्केंटाइटीज
Maracaibo lace	<i>H.Sc.</i>	मैराकीवो लेस	Marconi echosounder	<i>Zool.</i>	मारकोनी प्रतिध्वनिमापी
marahuite	<i>Geol.</i>	मैराहूआइट	Marcuson Huber test	<i>Chem., (Paint)</i>	मरकुसन ह्यूबर निकष
marahunite	<i>Geol.</i>	मैराहूनाइट	mardensia	<i>H.Sc.</i>	मार्डेन्सिया
maranta	<i>Bot.</i>	मैरन्टा	marekanite	<i>Geol.</i>	मैरेकनाइट
marantaceae	<i>Bot.</i>	मैरन्टेसी	marena	<i>H.Sc.</i>	मैरेना
marasmic acid	<i>Chem.</i>	मैरास्मिक अम्ल	mare oceanum	<i>Geog.</i>	खुला महासागर
Marasmius oreades	<i>Bot.</i>	मैरस्मियस ऑरिण्डिज	mareograph	<i>Geol.</i>	समुद्रलेखी, मैरियोग्राफ
Marathon-Howard process	<i>Chem.</i>	मैराथन-हाऊर्ड प्रक्रम	mareugite	<i>Geol.</i>	मैर्यूजाइट
marattiaceous affinities	<i>Bot.</i>	मैरेटिएसी बंधुता	mare's tail (cloud)	<i>Geog.</i>	चंद्र मेघ
marattiaceous fern		मैरेटिएसीय फर्न	marfanil	<i>Chem.</i>	मैफैनिल
marauder	<i>Geog.</i>	लुटेरा	*Marfik (=λ Ophiuchi)		मार्फिक (=λ ऑफियू- काइ)
marbelized	<i>H.Sc.</i>	संगमरमरी	margaric acid		मार्गैरिक अम्ल, मार्- गैरिक एसिड
marble	<i>Chem.,Geol.</i>	संगमरमर, मार्बल	margarine	<i>Chem.</i>	कृत्रिम मक्खन, मार्जरीन
marble basalt		बेसाल्ट	margarite	<i>Geol.</i>	मालाक्रिस्टलाणु
marble cake	<i>H.Sc.</i>	मार्बल केक	Margaritifera	<i>Zool.</i>	मार्गैरीटीफेरा
marble canyon	<i>Geog.</i>	संगमरमर कैनियन	margarodite	<i>Geol.</i>	मार्गैरोडाइट
marble cloth	<i>H.Sc.</i>	मार्बल वस्त्र	margarosanite	<i>Geol.</i>	मार्गैरोसानाइट
marble disease	<i>Bot.</i>	मार्बलाभ रोग	margella	<i>Bot.</i>	परिवेश
marbled salamander	<i>Zool.</i>	अग्रम सैलामैण्डर, अग्रम- सरट	margin		सीमा, तट, कोर, उपांत
marbled white (butterfly)	<i>Zool.</i>	चारुश्वेत (त्रितली)	marginal		सीमांत, उपांतस्थ, उपांत
marble paper	<i>Chem. (Paper)</i>	मार्बल पत्र	marginal assimilation	<i>Geol.</i>	उपांतीय स्वांगीकरण
marble silk	<i>H.Sc.</i>	मार्बल रेशम	marginal belt	<i>Geog.</i>	सीमांत पट्टी
Marble's reagent		मार्बल अभिकर्मक	marginal blast		उपांत्य वात्या
marcasite	<i>Geol.</i>	मार्कसाइट	marginal category		उपांत संवर्ग
			marginal cellule	<i>Zool.</i>	सीमान्त अणुकोशिका
			marginal chamberlet		सीमांत कक्षिका

marginal channel		उपात प्रणाल	marginal rim		सीमात नेमि
marginal checking		उपात जाच	marginal sea		सीमान्त समुद्र
marginal cirrus	Zool.	उपात भिरम, उपात कुरल	marginal set		सीमान्त सेट, सीमान्त समुच्चय
marginal classification		उपात बर्गीकरण	marginal spectral line		सीमान्तिक स्पेक्ट्रमीय रेखा
marginal cord		उपात रज्जू	marginal stoma	(= external stoma)	सीमान्त रंध (बाह्य रंध)
marginal crevasse		उपात हिमविदर	marginal tentacles		सीमान्त स्पर्शक
marginal deposit		उपात निक्षेप	marginal thrust		उपात क्षेप
marginal distribution		उपात वटन	marginal total		उपात योग
marginal entropy		उपात ऐन्ट्रॉपी	marginal tube		सीमान्त नली
marginal error		उपात त्रुटि	marginal upthrust		उपात उत्क्षेप
marginal fissure		उपात विदर	marginal utility		उपात उपयोगिता
marginal frequency		उपात बारंबारता	margination texture	Geol.	क्षरणोपाती गठन
marginal frill		सीमान्त झालर	margin of safety	Phy	निरापद परिस्तर
marginal geosyncline	Geol.	लघु भूयुग्मनति	marialite	Geol	मारिआलाइट
marginal gland openings	Zool.	सीमान्त ग्रन्थि छिद्र	marie galante	H Sc.	मेरी गैलेन्टे
marginal gorge	Geog	उपात महाखड्ड	marigold	Bot	गेडा
marginalia	Geol, Zool	मार्जीनेलिया, उपातान्ता	marigold yellows		गेडा पीनानि
marginal lake	Geog	उपात झील	marigram	Zool	ज्वारभाटाक्षेत्र
marginal land		सीमान्त प्रदेश, उपात भूमि	marignacite	Geol	मैरिग्नैमाइट
marginal lappet	Zool	सीमान्त पल्लवाभ	marigraph	Zool, Geol	मैरीग्राफ, समुद्रलेखी, ज्वारभाटालेखी
marginal leaf roll		उपात पर्ण-वेल्लन	marinade	H Sc	मैरिनेड
marginal mathematical location		उपातगणितीय अवस्थिति	marine		समुद्री, सागरी
marginal meristem		उपातस्थ विभ्रज्यीनक	marine acid		सरोन अम्ल
marginal nerve	Zool	सीमान्त शिरा	marine action		समुद्री क्रिया
marginal nunatak		सीमान्त नुनाटक	marine aerosol		समुद्री ऐरोसॉल
marginal placentation		सीमात बीजाडन्याम	Marine and Admiralty chart		समुद्री व ऐडमिरैल्टी चार्ट
marginal plain		उपात मैदान	marine animal		समुद्री प्राणी
marginal plate	Geol	सीमात पट्टिका	marine arch		समुद्रद्वार चाप
marginal pore	Geol	उपात रंध	marine band		समुद्री जीवपट्टी
marginal pore canal		उपात रंधनाल	marine belt		समुद्री पट्टी
marginal power		सीमान्त शक्ति	marine bench		समुद्री बेंच, सागरी बेंच
marginal probability		उपात प्रायिकता	marine biocycle		समुद्री जैवचक्र
marginal productivity equation		उपात उत्पादितता समीकरण	marine biome		समुद्र जीवोम, समुद्र जीवोम
marginal region		उपात प्रदेश			



marine borer	सामुद्र वेधक	marine platform	समुद्री वेदी, समुद्री प्लेट-फार्म
marine built platform	समुद्र निर्मित वेदी	marine playa	सागरी प्लाया
marine built terrace	समुद्र निर्मित वेदिका	mariner	नाविक
marine chronometer	समुद्री कालमापी	marine regression	समुद्री प्रतिक्रमण
marine clay	समुद्री मृत्तिका	mariner's compass	नाविक दिक्सूचक
marine cliff	समुद्री भूगु	marine salina	सागरी लवणकच्छ
marine cut terrace	समुद्रकर्तित वेदिका	marine salt	समुद्री लवण
marine cycle	सागरीय चक्र	marine saltern	समुद्री लवणालय
marine denudation	समुद्री अनाच्छादन	marine sand	समुद्री बालू
marine deposit	समुद्री निक्षेप	marine sediment	समुद्री तलछट, समुद्री अवसाद
marine ecology	समुद्री पारिस्थितिकी	marine sedimentation	Zool. सामुद्र अवसादन
marine engine	समुद्री इंजन	marine snail	समुद्री घोंघा, समुद्री शंवुक
marine erosion (erosion by sea)	समुद्री अपरदन	marine soil	समुद्री मिट्टी
marine farming (fish)	समुद्री मत्स्यपालन	marine stack	समुद्री स्टैक
marine fauna	समुद्री प्राणिजात	marine stripes	H.Sc. मरीन धारियाँ
marine fish culture	समुद्री मत्स्य संवर्धन	marine survey chart	समुद्री सर्वेक्षण चार्ट
marine fisheries station	समुद्री मात्स्यकी स्टेशन	marine swamp deposit	Geog. समुद्रानूप-निक्षेप
marine fishery	समुद्री मात्स्यकी	marine toner	समुद्री छविकर
marine fish farming	समुद्र मत्स्य पालन	marine transgression	समुद्री अतिक्रमण
marine formation	समुद्री शैल समूह	marine type chrono- meter	समुद्री कालमापी
marine fossil	समुद्री जीवाश्म, समुद्री फ़ॉसिल	marine vegetation	समुद्री वनस्पति
marine fouling organism	समुद्र दूषक जीव	marin grans	Geog. उच्चतम तटरेखा (हिमनदपपत्र)
marine fungus	समुद्री कवक	marionite	Geol. मैरिओनाइट
marine geology	सागरीय भूविज्ञान	Mariopteris	Bot. मैरिओप्टेरिस
marine lapie	समुद्री लैपी	mariotte flask	Bot. मेरिओट फ्लास्क
marine limestone	समुद्री चूना पत्थर	mariposite	Geol. मैरिपोसाइट
marine loch-	समुद्री खाड़िका	marita	Zool. मैरिटा
marine marsh	समुद्री कच्छ	marital status	Geog. वैवाहिक स्थिति
marine meteorology	समुद्री मौसम-विज्ञान	maritime	Geog. समुद्रवर्ती, समुद्रतटीय, अनुसमुद्री
marine observation	समुद्री प्रेक्षण	maritime airmass	सामुद्रिक वायुसंहति
marine oil	समुद्री तैल	maritime arctic air	अनुसमुद्री आर्कटिक वायु
marine organism	समुद्री जीव	maritime arctic or antarctic	अनुसमुद्री आर्कटिक अथवा एन्टार्कटिक
marine paint	समुद्री पेन्ट		
marine penneplanation	समुद्री समप्राय भूमिकरण		
marine plain	समुद्री मैदान		

maritime circulation		समुद्री परिसंचरण	market gardening district		विपणि खेती क्षेत्र
maritime commerce		समुद्री वाणिज्य	market house		विपणि गृह
maritime community		समुद्रवर्ती समुदाय	marketing area		बापण क्षेत्र
maritime empire		समुद्री साम्राज्य	marketing place		बाजार, मंडी
maritime exploration		समुद्री अन्वेषण	marketing process		विपणन प्रक्रम
maritime polar air		अनुसमुद्री ध्रुवीय वायु	marketing service		हाट-सेवा
maritime port		समुद्री पत्तन	market potential		बाजार क्षमता
maritime rival		समुद्री प्रतिद्वन्दी	market report		मंडी विवरण
maritime tropical air		अनुसमुद्री उष्ण प्रदेशीय वायु	market requirements		बाजार की आवश्यकताएँ
mariupolite	Geol.	मैरियूपोलाइट	market research		बाजार अनुसंधान
marjoram oil	Chem	सद्य (हिन्दी), मिर्जिगीरा (उर्दू)	market survey		बाजार सर्वेक्षण
mark		अंक, चिह्न, निशान	market town	Geog.	बाजार नगर, मंडी
*Markab (= $\alpha$ Pegasi)		मार्कॉब (= $\alpha$ पेगामाई)	markfieldite	Geol	मार्कफील्डाइट
*Markeb (= $\chi$ Argus Navis)		मार्कॉब (= $\chi$ आर्गन नेविस)	markhor	Zool.	मारखोर
marked		अंकित, चिह्नित	marking	Geog., Chem, H Sc.	चिह्नन, चिह्नानन, निशान लगाना
marked pool		चिह्नित पूल	markle basalt	Geol.	मार्किल बेसाल्ट
marked price		अंकित मूल्य	Markoff algebra		मार्कोव बीजावली
marked value		अंकित मूल्य	Markoff chain		मार्कोव शृंखला
marker		चिह्नक	Markoff estimate		मार्कोव आकलन
marker glare		चिह्नक दीप्ति	Markoff inequality		मार्कोव असमिका
marker generator		चिह्नक जनित	Markoff process		मार्कोव प्रक्रम
marker horizon		चिह्नक सस्तर	Markownikoff rule		मार्कोनीकोफ नियम
marker pip		चिह्नक पिप	Markaz	Geog	मर्कज
marker spacing		चिह्नक अंतराल	mark sensing	Math.	चिह्न बोधन
marker variable		चिह्नक चर	mark space ratio	Phy	चिह्न अवकाश अनुपात
market analysis	Math, Geog.	बाजार विश्लेषण, बापण विश्लेषण	Marks's formula	Chem	मार्कस सूत्र
market area		बाजार क्षेत्र, हाट क्षेत्र	mark stone	Geog.	निशान-पत्थर
market centre		बाजार केन्द्र	Markwald synthesis	Chem.	मार्कवालड संश्लेषण
market city		बाजार शहर, बाजार मंडी	marl	Geog, Geol., H Sc.	मार्ल
market clearing equation		प्ललावाह वित्री समीकरण	marl ball	Geol	मार्ल पिंड
market district		बाजार क्षेत्र	marlekor	Geol	मार्लेकर
market garden		विपणि उद्यान	marling		मार्लन
market gardening		विपणि खेती	marlite	Geol	मार्लिट
			marloesite	Geol.	मार्लोसाइट
			marl slate		मार्ल स्लेट

marl stone		मार्ल अश्म	marsh bird	Zool.	कच्छ पक्षी
marly		मार्लमय	marsh fever	Zool.	कच्छ ज्वर (मलेरिया)
marl yarn		मार्ल-सूत्र	marsh gas		पंक गैस, मार्श गैस, मंथेन
marmalade	H.Sc.	मार्मलेड	marshiness	Geog.	कच्छता
marmarization	Geol.	संगमरमरीभवन	marshite	Chem.	मार्शाइट
marmarosis	Geol.	संगमरमरीभवन	marshland		कच्छभूमि
marmatite	Chem.	मार्मटाइट	marshmallow	H.Sc.	मार्शमैलो
Marme's reagent	Chem.	मार्मे-अभिकर्मक	marsh ore		कच्छ-अयस्क
marmite	H.Sc.	मार्मिट	marsh without vegetation		वनस्पति रहित कच्छ
marmatite	Geol.	मार्मटाइट	marshy area		कच्छ-क्षेत्र
marmoratus	Bot.	वर्णशिराल	marshy bog		कच्छ-दलदल
Marmosa		मारमोसा	marshy depression		कच्छ गत
marmoset	Zool.	नखर वानर, मारमोसेट	marshy flat		कच्छ मैदान
marmot	Geog.	मारमोट, शीलमूपक	marshy region		कच्छ प्रदेश
maroon	Chem.	माहन, घनारण	marshy tract		कच्छक्षेत्र
Marquardt mass	Chem.	माक्वार्टे संहति	marshy tract		कच्छक्षेत्र
marquetry	H.Sc.	खचित शिल्प, खचित कर्म	marsilid		मैसिलिड
marquise	H.Sc.	मारकीज	marsipobranh	Zool.	मासिपोब्रैक, कोष्ठकलोमी
marquise finish		मारकीज परिष्कृति	Marsippospermum gracile	Bot.	मासीपोस्पर्मम ग्रेसाइल
marquissette	H.Sc.	माकिजेट	Mars orange	Chem.	मासं अरंज, मंगल नारंग
marram grass	Geog.	मैरम घास	Marsionina panattoniana	Bot.	मासॉनिना पैनेटोनियाना
marriage rate	Math.	विवाह दर	Marsupella	Bot.	मासुपेला
marrow	Zool.,H.Sc.	मज्जा	marsupial	Zool.	मासूपियल, शिशुधानी- स्तनी
marrow cavity		मज्जा गुहा	marsupial bone		मासूपियल अस्थि, शिशु- धानी अस्थि
marrow spoon	H.Sc.	मैरो स्पून	marsupial frog		शिशुधानी मंडूक
marrubiin	Chem.	मरुबीइन	Marsupialia	Zool.	मासूपिएलिया (शिशुधानी गण)
Mars	Math.	मंगल	marsupial pouch		शिशुधानी कोष्ठ
marschen	Geog.	उद्धरित कच्छ	marsupial toad		शिशुधानी भेक
Marsden chart	Geog.	मासंडेन चार्ट	Marsupites	Geol.	मासूपाइटीज
Marsden square		मासंडेन स्ववायर	Marsupites testudinarius		मासूपाइटीज टेस्टूडिनैरियस
marsh	Geol.,Geog.	कच्छ	marsupium	Zool.	शिशुधानी
Marshal-Edgeworth-Bowley index	Math.	मार्शल-एजवर्थ-बाउली-सूचकांक	Mars Violet	Chem.	मासंजाम्ब, मंगल जाम्ब
Marshall apparatus	Chem.	मार्शल उपकरण			
marshalling yard	Geog.	एकत्रीकरण स्थल, मार्शलयार्ड			
Marshall's experiment		मार्शल प्रयोग			
Marsh Berzelius test		मार्श बर्जालियस परीक्षण			

mart	<i>Geog</i>	मार्टे	masked crab	<i>Geog.</i>	बाज्रित केकडा
martempering	<i>Chem.</i> ( <i>Met</i> )	मार्टेपरन	masked iron	<i>Chem</i>	प्रच्छादित लोहा
marten	<i>Zool.</i>	कशीका, मार्टेन	masked symptom	<i>Bot.</i>	गोपित लक्षण
martensite	<i>Geol</i>	मार्टेन्जाइट	masking	<i>Phy., Biol.,</i> <i>Chem</i>	गोपन, प्रच्छादन
martensitic nucleation	<i>Phy.</i>	मार्टेन्जाइटी बीजन	masking agent		प्रच्छादक
martensitic transformation		मार्टेन्जाइटी रूपांतरण	masking frame		प्रच्छादक फ्रेम, मास्क फ्रेम
Martens sclerometer	<i>Chem</i> ( <i>Met</i> )	मार्टेन्स कठोरतामापी	masking of sound		ध्वनि प्रच्छादन
martial aethiops		मार्शल एथिओप्स	masking response		प्रच्छादी अनुक्रिया
martial vitriol	<i>Geol</i>	वासोस, कसीस	masking source		प्रच्छादक स्रोत
martingale	<i>Math</i>	मार्टिंगेल	mask microphone	<i>Phy</i>	मुखोटा माइक्रोफोन
martinite	<i>Geol</i>	मार्टिनाइट	mask negative	<i>Geog</i>	मास्क नेगेटिव
Martin sampler	<i>Geol.</i>	मार्टिन प्रतिदर्शित	mask of x and y on v	<i>Math</i>	v पर x और y का प्रच्छादन
Martinson coater	<i>Chem</i>	मार्टिन्सन लेपक	masonry dam	<i>Geog</i>	चिनाई बाध
martite	<i>Geol</i>	मार्टाइट	masonry structure		चिनाई रचना
martitization	<i>Geol.</i>	मार्टाइटोभवन	masonite	<i>Geol</i>	मैसोनाइट
Martius Yellow	<i>Chem</i>	मार्शियस पीन	Mason's review	<i>Chem.</i>	मैनन पुनरवलोकन
martourite	<i>Geol</i>	मार्टूरुइट	masquerade	<i>Geog</i>	उद्भवेश-समारोह
<i>Martynia annua</i>	<i>Bot</i>	मार्टीनिया ऐनुआ	mass		1 द्रव्यमान, सहति 2 स्थूल
Martyniaceae		मार्टीनियासी	mass absorption coefficient		द्रव्यमानी अवशोषण गुणांक
martyrdom	<i>Geog</i>	प्राणाहुति	mass abundance		द्रव्यमान बाहुल्य
marver	<i>Chem.</i>	मार्वर	mass action	<i>Phy</i>	द्रव्यमान अनुपाती अभिक्रिया
Marx effect	<i>Phy</i>	मार्क्स प्रभाव	mass action retardation		द्रव्यमान क्रिया मदन
Masai	<i>Geog.</i>	मासाई	massage	<i>H Sc</i>	मानिष, मईन
Masai kraal		मासाई काल	Massalunga	<i>Bot.</i>	मैसेलोगा
Masai marriage		मासाई विवाह	mass analogy		द्रव्यमान सादृश्य
mascagnite	<i>Chem</i> ( <i>Met</i> )	मैस्कैनाइट	mass analysis		द्रव्यमान विश्लेषण
mascara	<i>H Sc</i>	मैस्कैरा	mass analyzer magnet		द्रव्यमान विश्लेषी चुंबक
maser	<i>Phy</i>	मेसर	Massau method		मैसॉऊ-विधि
mash		मैश	mass coefficient		द्रव्यमान गुणांक
mash connection (=delta connection)		देहटा सम्बन्ध	mass colouration		सहति रजन
masher	<i>H Sc</i>	उत्प्रेषक, मैशर	mass component		द्रव्यमान घटक
mashing	<i>H Sc.</i>	ममलना	mass concentration		सहति सांद्रण, सहति बाहुल्य, द्रव्यमान सांद्रण, द्रव्यमान बाहुल्य
mask	<i>Phy., Zool</i>	मास्क, मुखोटा, आवरण, अवगुंठ			

mass copper	<i>Geol.</i>	बृहत् प्राकृत ताम्र	massive rock		स्थूल शैल
mass decrement		द्रव्यमान अपक्षय	massive sandstone		स्थूल बालुआ पत्थर, स्थूल बालुकाश्म
mass defect		द्रव्यमान क्षति	mass loss		द्रव्यमान क्षति
mass density		द्रव्यमान घनत्व	mass luminosity law		द्रव्यमान दीप्ति नियम
mass dispersion		द्रव्यमान परिक्षेपण	mass luminosity radius relation		द्रव्यमान ज्योति त्रिज्या संबंध
mass distribution		द्रव्यमान वितरण	mass luminosity relation		द्रव्यमान ज्योति संबंध
masseciute	<i>Chem.</i>	मास्क्वीट	mass motion		संहति गति
mass energy relation		द्रव्यमान ऊर्जा संबंध	mass movement	<i>Geol., Geog.</i>	बृहत् संचलन
mass equation		द्रव्यमान समीकरण	mass mutation	<i>Bot.</i>	व्यापक उत्परिवर्तन, व्यापक म्यूटेशन
mass equivalence		द्रव्यमान तुल्यता	mass number		द्रव्यमान-संख्या
masseter	<i>Zool.</i>	मैसेटर, चर्वणी	mass of moving particle		गतिमान कण का द्रव्यमान
masseteric fossa	<i>Zool.</i>	मैसेटेरिक खात, चर्वणी खात	mass of radiation		विकिरण-द्रव्यमान
masseter muscle	<i>H.Sc.</i>	चर्वणिका पेशी	mass of snow		हिम संहति
Massey coater	<i>Chem.</i>	मैसि लेपक	mass operator		द्रव्यमान संकारक
mass function		द्रव्यमान-फलन	mass point		द्रव्यमान बिन्दु
mass histogram		द्रव्यमान आयतचित्र	mass production	<i>Math.</i>	विशाल उत्पादन
mass horizon		द्रव्यमान क्षितिज	mass production manufacturing		विशालोत्पादनी निर्माण
massicot		मैसीकोट	mass prophylaxis	<i>Zool.</i>	समूह रोगनिरोध
massicotite	<i>Geol.</i>	मैसीकोटाइट	mass radiator	<i>Phy.</i>	विस्तृत बैंड विकिरक
massif	<i>Geol., Geog.</i>	गिरिपिंड, मैसिफ	mass reaction		द्रव्य अभिक्रिया
massif invasion	<i>Bot.</i>	यूथ आक्रमण	mass resistivity		द्रव्यमानी प्रतिरोधकता
Massion function	<i>Chem.</i>	मैसिआँ फलन	mass resolving power	<i>Phy.</i>	द्रव्यमान विभेदन-क्षमता
massive	<i>Chem., Geol., Geol.</i>	संस्थूल, संपुजित, स्थूल	mass scale		द्रव्यमान स्केल
massive (scale of fissility)	<i>Geol.</i>	अतिस्थूलविदली	mass scattering coefficient		द्रव्यमानी प्रकीर्णन गुणांक
massive buttressed trunk		संपुजित चप्र-तना	mass seller	<i>Geog.</i>	महाविक्रेता
massive chalaza	<i>Bot.</i>	पृथु कैलाजा	mass-sensitive detector		द्रव्यमान सुग्राही अभिज्ञापक
massive character		संपुंज लक्षण	mass shell		द्रव्यमान कोश
massive eruption	<i>Geol.</i>	बृहत् उद्गार	mass spectrograph		द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, द्रव्यमान स्पेक्ट्रमलेखी
massive gland		स्थूल ग्रंथि	mass spectrography		द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखन, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी
massiveness		1. संहति 2. संस्थूलता			
massive nucleus	<i>Phy.</i>	गुरु नाभिक			
massive oblong pillar	<i>Geog.</i>	भारी त्रायताकार स्तंभ			
massive pillar		स्थूल स्तम्भ			
massive point	<i>Chem.</i>	संहत बिन्दु			

mass spectrometer		द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमामी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर	master clock		मास्टर घड़ी, नियंत्रक घड़ी
mass spectrometric analysis		द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमिक्तिक विश्लेषण	master coincidence-counter		मास्टर सपान गणित
mass spectrometric method		द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमितीय विधि	master control (= central control desk)	Phy.	मास्टर नियन्त्रक, केन्द्रीय नियन्त्रक पट
mass spectrometry		द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमिति	master data		प्रधान उपात
mass spectroscopy		द्रव्यमान स्पेक्ट्रिकी	master gain control		प्रधान लब्धि नियन्त्रक
mass spectrum		द्रव्यमान स्पेक्ट्रम	master hearing aid		मास्टर श्रवण सहाय
mass spectrum curve		द्रव्यमान स्पेक्ट्रम वक्र	master joint	Geol	प्रधान सधि
mass stopping power		द्रव्यमानी निरोधी क्षमता	master lode	Geol.	प्रधान शिरानिक्षेप
mass stream	Geog	नदीद्वक भरिता	master monitor	Phy	बन्तम मानोटर, मास्टर मानोटर
mass susceptibility	Phy	सहति प्रभायना, द्रव्यमानी प्रवृत्ति (बुद्ध्यकीय)	master negative		मास्टर नैरेटिव
mass synchrometer		द्रव्यमान तुल्यकान्ति	master oscillator		मास्टर दोलक
mass tone		सहति छवि	master plate		प्रधान प्लेट, मास्टर प्लेट
mass transfer		द्रव्यमान अंतरण	master routine		प्रधान नेसका
mass transfer system		द्रव्यमान अंतरण निकाय	master sample	Math.	गुरु प्रतिदर्श
mass transit	Geog.	जनपुत्र पारगमन	master stream	Geog	प्रधान सरिता
massula	Bot	बीजाणु पिडिका, मसुला	master synchronisation pulse		प्रधान तुल्यकानक स्पन्द
mass unit		द्रव्यमान मात्रक	master table	Math	महा सारणी
mass velocity		सहति वेग	master transmitter		मास्टर प्रेषित
mass wasting	Geog, Geol.	वृहत् क्षरण	mastic		मस्तगी, मैस्टिक
mass-yield curve		द्रव्यमान लब्धि वक्र	masticating mouth parts	Zool	चर्वण मुख्याग
mast	Geog, Phy. Bot	दड, मस्तूल नटादि, दृढफलादि	mastication	Zool, H Sc	चर्वण
Mastacembelus	Zool.	मैस्टामेम्बेलम	masticator	Chem.	चर्वित
mastax	Zool	सपेपणी	masticatory apparatus	Bot.	चर्वणी उपाग
mastax epithelium		सपेपणी उपकला	mastuff	Geog	मैस्टिक
mastax ganglion		सपेपणी गुच्छिका	Mastigamoeba	Zool.	मैस्टिगामोबा
mastax musculature		सपेपणी पेशीविन्याम	Mastigamoeba aspersa		मैस्टिगामोबा ऐस्पर्स
mastax nerve cell		सपेपणी तन्त्रिका कोशिका	Mastigina	Zool	मैस्टिगाइना
master alloy	Chem.	मास्टर मिथानु	Mastigina hylae		मैस्टिगाइना हाइली
master batch	Chem	मुख्य घात	mastigobranchia	Zool	मशाकरोम
master card	Phy. Math	प्रधान पत्रक, मास्टर कार्ड	mastigocladaceous branching	Bot	मैस्टिगोक्लैडोसमम शाखन
master cave	Geol, Geog	प्रधान गुहा, महागुहा			
master circuit	Phy	नियंत्रक परिपथ, मास्टर परिपथ			

<i>Mastigocladus laminosus</i>	Bot.	मैस्टाइगोक्लैडस लेमीनोसस	matelasse	H.Sc.	माटलासे
Mastigograptus	Geol.	मैस्टिगोग्रैप्टस	material		(n.) पदार्थ, सामग्री, वस्तु, द्रव्य, (adj.) भौतिक, द्रव्यात्मक
mastigoneme	Zool., Bot.	पाशवंसूत्र, मैस्टिगोनीम	material aether		द्रव्य ईश्वर
Mastigophora	Zool.	मैस्टिगोफोरा	material balance		पदार्थ संतुलन
mastigophore		कशाभघर, मैस्टिगोफोर	material body		द्रव्यात्मक पिंड, द्रव्यात्मक वस्तु
Mastigoproctus	Zool.	मैस्टिगोप्रोक्टस	material buckling		द्रव्य व्याकुंचन
mastitis	Zool.	ऊद्यशोथ, थनैला	material collection		सामग्री संग्रह
mastix	Chem.	मैस्टिक्स	material coordinates	Math.	पदार्थगत निर्देशांक
Mastodon	Geog., Zool.	मैस्टोडॉन	material culture	Geog.	भौतिक संस्कृति
Mastodontosaurus	Zool.	मैस्टोडॉनसॉरस	material derivative	Math.	संसार अवकलज
mastodont	Zool.	मैस्टोडॉन्ट	material energy		द्रव्य ऊर्जा
Mastodontoidea		मैस्टोडोन्टॉइडिया	material energy tensor		द्रव्य ऊर्जा प्रदिश
mastoid process	Zool.	कर्णमूल प्रवर्ध	material factor	Phy.	वस्तु सुरक्षा गुणक
masula boat	Zool.	मसूला नाव, पडवा	material gain	Geog.	भौतिक लाभ
masurium		मजूरियम	material goods		भौतिक वस्तुएँ
mat	Chem.	कट	materialisation	Phy.	द्रव्याभवन, द्रव्यण
mata (= matita)	Geog.	माटा (वन)	materially		वस्तुतः
matador	Geog.	वृष-हृता, मैटाडॉर	material medium		द्रव्यात्मक माध्यम
*Matar (= η Pegasi)	Astron.	मैटार (= η पेगासाइ)	material mould		सामग्री संघ
match	Math., Phy., Geol.	सुमेल	material of grade η		कोटि η का पदार्थ
matched doublet	Phy.	सुमेलित द्विक	material particle		द्रव्य-कण
matched load		सुमेलित लोड	material product		1. वास्तविक उत्पाद 2. वस्तु उत्पाद
matched resistance		सुमेलित प्रतिरोध	material prosperity	Geog.	आर्थिक समृद्धि
matched samples		सुमेलित प्रतिदर्श	material resource	Geog.	भौतिक साधन
matched termination		सुमेलित अन्त	material self-interest		आर्थिक स्वार्थ
matched transmission line		सुमेलित संचरण लाइन	material symbol		वस्तु प्रतीक
matching		सुमेलन	material system		द्रव्यात्मक निकाय
matching a card		(ताश के) पत्ते का सुमेलन	material testing reactor		द्रव्य परीक्षण रिऐक्टर
matching card		सुमेलन कार्ड	material-volume element		द्रव्य आयतन अवयव
matching plan		सुमेलन आयोजना	material wave		द्रव्य तरंग
matching problem		सुमेलन समस्या	material welfare		भौतिक कल्याण
matching stub		सुमेलन स्वरूप	maternal chromosome	Zool.	मातृक गुणसूत्र
matching transformer		सुमेलन परिणामित्र	maternal feeding	H.Sc.	मातृभोजन
match lock	Geog.	मैचलॉक			

maternal inheritance	मातृक वशागति	mathematical geography	गणितीय भूगोल
maternal mortality	मातृ मर्त्यता	mathematical identity	गणितीय सर्वसमिका
maternal placenta (=placenta materna)	मातृ अपरा	mathematical induction	गणितीय आशय
maternal sacrifice	मातृक बलिदान	mathematical location	गणितीय अवस्थिति
maternity <i>H Sc.</i>	मातृत्व, प्रभूति	mathematical logic	गणितीय तर्कशास्त्र, गणितीय तर्क
maternity hospital	मातृ चिकित्सालय	mathematical model	गणितीय निदर्श
maternity mortality	प्रसूति-मृत्यु (सब्बा)	mathematical notion	गणितीय आशय
matesa <i>H Sc.</i>	मैटेसा	mathematical operator	गणितीय सकारक
mat-grass <i>Geog.</i>	मैट घास, कट घास	mathematical pendulum	गणितीय लोलक
mathematical <i>Math</i>	गणितीय	mathematical physics	गणितीय भौतिकी
mathematical advisor	गणित सलाहकार	mathematical programming	गणितीय प्रोग्रामन
mathematical analysis	गणितीय विश्लेषण	mathematical simplification	गणितीय सरलीकरण
mathematical argument	गणितीय तर्क	mathematical structure	गणितीय संरचना
mathematical auxiliary quantity	गणितीय सहायक राशि	mathematical surface	गणितीय पृष्ठ
mathematical centrality	गणितीय केन्द्रीयता	mathematical symbolism	गणितीय संकेत पद्धति
mathematical centre	गणितीय केन्द्र	mathematical table	गणितीय सारणी
mathematical check	गणितीय जाच	mathematics	गणित
mathematical complexity	गणितीय अटिलता	'matherplat' <i>Chem.</i>	मैथरप्लेट
mathematical construct	गणितीय रचना	Mathieson process <i>Chem</i>	मैथीसन प्रक्रम
mathematical continuation	गणितीय सतति	Mathiew's equation <i>Math</i>	मैथ्यू-समीकरण
mathematical deduction	गणितीय निगमन	mat hut <i>Geog</i>	चटाई-कुटी
mathematical economics	गणितीय अर्थशास्त्र	matildite <i>Geol</i>	मैटिलडाइट
mathematical economic theory	गणितीय आर्थिक सिद्धांत	mating <i>Zool</i>	संगम
mathematical economist	गणितीय अर्थशास्त्री	mating flight	संगम उड़ान
mathematical expectation	गणितीय प्रत्याशा	mating gland	संयुक्त ग्रंथि
mathematical filter	गणितीय निम्नन्दर, गणितीय फिल्टर	mating instinct	संगम वृत्ति
mathematical form	गणितीय रूप	mating season	संगम ऋतु
mathematical formulation	गणितीय संरूपण, गणितीय संरूप	mating type <i>Zool</i>	संगम प्ररूप
		matlockite <i>Geol.</i>	मैट्लोकाइट
		mat moulding <i>Chem</i>	कट संरचना



matmura (=matamir)	Geog.	मटमुरा	matrix procedure		आव्यूह क्रियाविधि
Matonia	Bot.	मैटोनिया	matrix product		आव्यूह-गुणनफल
Matoniaceous fern	Bot.	मैटोनियासम पर्णांग	matrix representation		आव्यूह निरूपण
matriarchal	H.Sc.	मातृवंशात्मक	matrix ring		आव्यूह वलय
matriarchal state	Geog.	मातृवंशात्मक राज्य	matrix rock	Geol.	मूडफॉस्फेट शैल
matricaria methyl ester	Chem.	मैट्रिकेरिवा मेथिल एस्टर	matrix shell		मैट्रिक्स सांचा
matricin	Bot.	मैट्रिसिन	matroclinal inheritance		मातृप्रधान वंशागति
matrilineal	Geog.	मातृवंशीय	matron	H.Sc.	मैट्रन, अधीक्षिका
matrilineal institution		मातृवंशीय संस्था	mat surface	Geol.	रूक्ष पृष्ठ
matrilineal system		मातृवंशीय रीति	matt	Chem.	आम्लान
matrilocal marriage	Geog.	पत्नीस्थानिक विवाह	Mattauch rule	Chem.	मैटॉक नियम
matrix	Math. Biol., Geol.	1. आव्यूह, मैट्रिक्स 2. आधात्री, मैट्रिक्स	matt coal (dull coal)	Geol.	निष्प्रभ कोयला
matrix decoder		आव्यूह कूटवाचक	matt dip		आम्लान मज्ज
matrix deflation		आव्यूह अपस्फोति	matte	Geol.	मैट
matrix diagonalisation		मैट्रिक्स विकर्णन, आधात्री विकर्णन	matted forest	Geog.	श्रुयित वन
matrix effect		आधात्री प्रभाव, मैट्रिक्स प्रभाव	matted turf	Geog.	श्रुयित टर्फ
matrix element		आव्यूह अवयव	matter	Phy., H.Sc., Math.	द्रव्य, पदार्थ
matrix equation		आव्यूह समीकरण	matter field theory		द्रव्य क्षेत्र सिद्धांत
matrixer	Phy.	आव्यूहक, मैट्रिक्सक	matter-free space		द्रव्यमुक्त आकाश
matrix gland		आधात्री ग्रंथि	Matterhorn	Geog.	मैटरहॉर्न
matrixing		आव्यूहक, मैट्रिक्सन	matter wave		द्रव्य तरंग
matrix inverse		आव्यूह-व्युत्क्रम	matt etching	Chem.	आम्लान निक्षरण, निष्प्रभ निक्षरण
matrix inversion		आव्यूह-व्युत्क्रमण	matt finish		आम्लान परिसज्जा
matrix iterative method		आव्यूह पुनरावर्ती विधि	matt glass		निष्प्रभ काच, आम्लान काच
matrix mechanics		मैट्रिक्स यांत्रिकी	Matthiessen's rule	Chem.	माटिसेन नियम
matrix method		मैट्रिक्स पद्धति	mattis	H.Sc.	मैटिस
matrix multiplication		आव्यूह गुणन	mattress	H.Sc.	गद्दा, तोशक
matrix notation	Geog.	1. आव्यूह संकेतन 2. मैट्रिक्स अंकन पद्धति	'mattress' antenna		गद्दा ऐन्टेना
matrix of constants		अचरों का आव्यूह	matt surface	Geog.	निष्प्रभ पृष्ठ
matrix of effectiveness		प्रभाविता आव्यूह	matt weave fabric	H.Sc.	मैट वयनवस्त्र
matrix operator		आव्यूह संकारक	matty	Geog.	निष्प्रभ
matrix polynomial		आव्यूह बहुपद	matt yarn	H.Sc.	मैट सूत्र
matrix printing		आव्यूह मुद्रण	maturation		परिपक्वण, परिपक्वता
			maturation division		परिपक्वता विभाजन
			maturation phase		परिपक्वता प्रावस्था

maturation zone	परिपाक क्षेत्र
mature	परिपक्व, प्रौढ
mature decomposition	पक्व अपघटन
mature development	प्रौढ विकास
mature land	प्रौढभूमि
mature landscape	प्रौढ दृश्यभूमि
mature mountain	प्रौढ पर्वत
mature river	प्रौढ नदी
maurescent	परिपक्वोन्मुख
mature shoreline	प्रौढ तटरेखा
mature soil	प्रौढ मिट्टी
mature stage	प्रौढावस्था
mature stream	प्रौढ सरिता
mature town	प्रौढ नगर
mature valley	प्रौढ घाटी
maturity	परिपक्वता, प्रौढता
maturity factor	पक्वता कारक
maturity index	पक्वतांक
Matweiff's reagent	<i>Chem</i> माटवीफ अभिकर्मक
maucherite	<i>Geol</i> मौशेराइट
maud	<i>H Sc.</i> मॉड
maufite	<i>Geol.</i> मौफाइट
mauleonite	<i>Geol.</i> मौलिजोनॉइट
Maule test	<i>Chem.</i> मॉले निक्षेप
Maumene number	<i>Chem.</i> मोमीने संख्या
Mauperitius principle	<i>Math.</i> माउपेरीशियस नियम
Maupok hunting	<i>Geog</i> मॉपोक आश्वेद
Maurandia	मौरेन्डिया
Maurer's dot	<i>Zool</i> माउरेर च्छा
Mauthner's cell	<i>Zool</i> माउयनर कोशिका
mauveine	<i>Chem</i> मौविन
mausoleum	<i>Geog</i> मकबरा
mauve	<i>Geog, Chem.</i> नीलशोण, मोव
mauzelite	<i>Geol</i> मौजेलाइट
maverick	अप्रासंगिक
maw seed	<i>Bot</i> अफीम बीज
maxadentes	<i>Zool</i> लैसीनियारक्षक

maxey	<i>H Sc.</i>	मैकमी
max flow-min cut theorem	<i>Math</i>	अधिकतम प्रवाह न्यूनतम पथमाता प्रमेय
maxilla	<i>Geol, H Sc., Zool.</i>	मैक्सिला, जमिका
maxillae lanceolate		भाताकार जम्बिका
maxillae setosae		शूकमय जम्बिका
maxillar element		मैक्सिला अवयव
maxillaris	<i>Zool</i>	जमिका तंत्रिका
maxillar sternum		जमिक जखरक
maxillary	<i>Zool.</i>	मैक्सिलरी, जमिकी
maxillary antrum		जमिका कोटर
maxillary artery		जमिका धमनी
maxillary barbel		जंभ स्पृशवर्ध
maxillary element		जमिका अवयव
maxillary gland		मैक्सिलरी ग्रंथि, जमिका ग्रंथि
maxillary lobe		जमिका पात्र
maxillary nerve		जमिक तंत्रिका
maxillary palp		मैक्सिलरी स्पर्शक
maxillary plate		जमिक पट्टिका
maxillary pleurite		जम्बिका पार्श्वकाश
maxillary sinus		जमिका विवर
maxillary stylet		जमिक शूलिका
maxillary teeth		जमिका दंत
maxillary tendon		जमिक कडरा
maxillary tentacle		जमिका स्पर्शक
maxillary vein		जमिक शिरा
maxilliped	<i>Zool. Geol</i>	जम्भपद, मैक्सिलीपेड
maxillipedal		जम्भपदीय
maxillipedal nerve		जम्भपदीय तंत्रिका
maxillipedal segment		जम्भपदीय खंड
maxillipedal somite		जम्भपदीय वायव्य
maxillipede		मैक्सिलीपीड, जम्भपदक
maxillo-palatine process		जम्भनानु प्रवर्ध
maxillula	<i>Zool.</i>	सघुजमिका
maxillulary segment		सघुजमिका खंड

maxilvry steel	<i>Chem.</i>	मैक्सिलव्री इस्पात	maximum boiling point	<i>Phy.</i>	उच्चतम वयथनांक
maxima	<i>Math.,Phy.</i>	उच्चिष्ठ	maximum condition		अधिकतमता-प्रतिबंध
maximal assignent		उच्चिष्ठ नियतन	maximum contact distance		अधिकतम संपर्क दूरी, भूयिष्ठ संपर्क दूरी
maximal atlas		उच्चिष्ठ संचिद्रावली	maximun coordination number		उच्चतम सहसंयोजकता संख्या, उच्चतम समन्वय संख्या
maximal chain condition		उच्चिष्ठ शृंखला प्रतिबंध	maximum diffusion		अधिकतम विसरण
maximal compactification		उच्चिष्ठ संहतीकरण	maximum expected effectiveness		अधिकतम प्रत्याशित कार्यकारिता
maximal connected subspace		उच्चिष्ठ संबद्ध उपसमष्टि	maximum expected utility		अधिकतम प्रत्याशित उप-योगिता
maximal element		उच्चिष्ठ अवयव	maximum flatness		अधिकतम सपाटता
maximal enlargement		अधिकतम विवर्धन	maximum flux density		अधिकतम अभिवाह घनत्व
maximal flow in a network		जालक्रम में उच्चिष्ठ प्रवाह	maximum F-ratio		महत्तम F-अनुपात
maximal ideal		उच्चिष्ठ गुणजावली	maximum keying frequency (= fundamental scanning frequency)		मूल क्रमवीक्षण आवृत्ति
maximal integral manifold		उच्चिष्ठ समाकल प्रसमष्टि	maximum likelihood		अधिकतम संभाविता
maximality		उच्चिष्ठता, अधिकतमता	maximum likelihood decoding		अधिकतम संभाविता कूट-वाचन
maximal load		अधिकतम भार	maximum minimum thermometer		अधिकतम न्यूनतम ताप-मापी, अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर
maximally algebraic		अधिकतमतया बीजीय	maximum modulating frequency		उच्चतम माँडुलन आवृत्ति
maximally distant		अधिकतम दूर	maximum modulus principle		महत्तम मापांक-नियम
maximal nest		उच्चिष्ठ नीड	maximum modulus theorem		महत्तम मापांक प्रमेय
maximal non-negative space		उच्चिष्ठ अनृण समष्टि	maximum multiplicity		भूयिष्ठ बहुकता
maximal number		उच्चिष्ठ संख्या	maximum multiplicity rule		भूयिष्ठ बहुकता नियम
maximal principle		उच्चिष्ठ नियम	maximum ordinate		महत्तम कोटि
maximal proper ideal		उच्चिष्ठ उचित गुणजावली	maximum permissible concentration		अधिकतम अनुज्ञेय सांद्रण
maximal separable extension		उच्चिष्ठ पृथक्करणीय विस्तार	maximum permissible cumulative		अधिकतम अनुज्ञेय संचयी-मात्रा
maximal subspace		उच्चिष्ठ उपसमष्टि	maximum permissible dose		अधिकतम अनुज्ञेय मात्रा, अधिकतम अनुज्ञेय ढोज
maximization of utility	<i>Math.</i>	उपयोगिता-अधिकतमीकरण			
maximized	<i>Math.</i>	अधिकतमीकृत			
maximum		1. महत्तम, अधिकतम, उच्चतम 2. भूयिष्ठ, उच्चिष्ठ			
maximum absolute value		अधिकतम निरेपक्ष मान			
maximum average range		अधिकतम माध्य परिसर			

maximum permissible dose rate		अधिकतम अनुज्ञेय मात्रा-दर	Maxwellian relaxation time		मैक्सवेलीय विश्रान्ति काल
maximum permissible flux		अधिकतम अनुज्ञेय फ्लक्स	Maxwellian velocity distribution		मैक्सवेलीय वेग-वटन
maximum permissible level (m p. L.)		अधिकतम अनुज्ञेय स्तर	Maxwell's distribution law		मैक्सवेल वटन नियम
maximum permissible shot		अधिकतम अनुज्ञेय पराग	Maxwell's equation		मैक्सवेल समीकरण
maximum permissible value		अधिकतम अनुमान मान	Maxwell's law of the distribution of velocity		मैक्सवेल वेग-वितरण नियम
maximum relative error		महत्तम सापेक्ष त्रुटि	Maxwell's theorem		मैक्सवेल सिद्धान्त
maximum set	Phy	प्राधिकृत समुच्चय	Maxwell stress		मैक्सवेल प्रतिबल
maximum suppressors		अधिकतम निरोधो	Maxwell stress tensor		मैक्सवेल प्रतिबल प्रदिश
maximum temperature epoch		अधिकतम तापकाल	Maxwell's unit tube of force		मैक्सवेल की मात्रक बल-नलिका
maximum usable frequency		अधिकतम उपयोग्य आवृत्ति	Maya civilization	Geog	माया-सभ्यता
maximum usable frequency factor		अधिकतम उपयोग्य आवृत्ति गुणक	Mayan city		माया शहर
maximum water holding capacity		उच्चतम जलधारण क्षमता	Maya Quiche (culture)		माया-क्वीचे (संस्कृति)
maximum yield		अधिकतम उत्पादन	maybasch silk	H Sc.	मेबेश रेशम
maximus	Bot	बृहत्तर	Mayday	Phy	मेडे (आपन सवेत)
maxine taffeta	H.Sc.	मैक्समीन टाफेटा	May Duplex jig	Geol	मेदुले जिग
maxite	Chem	मैक्समाइट	Mayeda cell	Geol	मेयेडा सेल
maxixe-beryl	Geol.	मैक्सिमि-बेरिल	mayen	Geog	मेयन
maximin	Math	महाल्पिष्ठ	mayenne	H Sc	मेनी
maximin criterion		महाल्पिष्ठ निकष	Mayer's reagent	Chem	मेयर अभिकर्मक
maximin estimation		महाल्पिष्ठ आकलन	mayfly	Zool, Geol	मेयफ्लाई, अल्पायु मशी
maximin principle		महाल्पिष्ठ नियम	majo (campbell twill)	H Sc	मेयो
maxochlor	Chem	मैक्सोक्लोर	mayonnaise	Chem, H Sc	मेयॉनेज
"max" of a function	Math.	फलन का अधिकतम	maysin	Bot	मेसिन
Maxwell-Boltzmann distribution law	Math, Phy, Chem	मैक्सवेल-बोल्ट्जमान वटन नियम	Maytenus senegalensis	Bot.	मैटीनस मेनेगलेन्सिस (बकेरा)
Maxwell-Boltzmann statistics		मैक्सवेल-बोल्ट्जमान सांख्यिकी	mazaedium	Bot	मैज़ीडियम
Maxwell element		मैक्सवेल अवयव	mazarin cake	H Sc	मैज़ारिन केक
Maxwell equation		मैक्सवेल समीकरण	mazarino	H Sc.	मैज़ारिनो
Maxwellian distribution		मैक्सवेली वितरण	maze of channels	Geog	प्रणाली व्यूह
			maze of routes		मार्ग-व्यूह
			maze width	Phy.	विभग अंतराज

Mbuga	<i>Geol., Geog.</i>	मबुगा (दलदल)	meadow soil	शादल मृदा
M-capture	<i>Phy.</i>	M-प्रग्रहण	meadow type	शादल प्ररूप
Mc Bain and Baker quartz spring balance	<i>Chem.</i>	मैकबेन-बैकर स्फटिक स्प्रिंग तुला	meager	तनु
Mc Cabe-Thiele diagram	<i>Chem.</i>	मैककेव थोले आरेख	meagre (in x)	<i>Math.</i> (x में) क्षुद्र
Mc Cance reagent	<i>Chem.</i>	मैक् कैन्म अभिकर्मक	meal	<i>Chem. H.Sc.</i> चूरा, अवचूर्ण आहार
Mc Carter sublimator	<i>Chem.</i>	मेक्कार्टर ऊर्ध्वपातित	mealies	<i>Bot.</i> मक्का, मकई
Mc Dougall furnace	<i>Chem.</i>	मैकडूगल भट्टी, मैकडूगल ध्राष्ट्र	meal worm	<i>Zool.</i> चूर्ण भृंग
McFadyen Stevens method	<i>Chem.</i>	मैक्फैडिन स्टीवेन्स पद्धति	mealy bug	चूर्णी मत्सुग
Mc-Gill metal	<i>Chem.</i>	मैकगिल धातु	mean	माध्य
Mckenzie's deamination reaction	<i>Chem.</i>	मैककेन्जी विप्रेमीनीकरण अभिक्रिया	mean absolute colour	माध्य निरपेक्ष वर्ण
McLeod gauge	<i>Phy.</i>	मेकलियोड गेज, मेकलियोड प्रमापी	mean absolute error	माध्य निरपेक्ष त्रुटि
McLeod Penny bar		मेकलियोड पेनी बार	mean absolute magnitude	माध्य निरपेक्ष कांतिमान
McMullen setting test	<i>Chem.</i>	मैकम्युलेन ज्ञानन निकप, मैकम्युलेन ज्ञानन संपरीक्षण	mean absorption coefficient	माध्य अवशोषण गुणांक
M.C.P.A. (2 methyl-4 chloro phenoxy acetic acid)	<i>Chem.</i>	एम. सी. पी. ए. (2. मेथिल-4 क्लोरोफि-नॉक्सो ऐसीटिक अम्ल)	mean activity coefficient	माध्य सक्रियता गुणांक
Mc Quaid-Ehn-test	<i>Chem.</i>	मैकक्वाइड-ईन निकप, मैकक्वाइड-ईन संपरीक्षण	mean advection	माध्य अभिवहन
meacon	<i>Phy.</i>	मेकान, भ्रामित	mean age	माध्य वयस, औसत उम्र
meaconing		मेकानिंग, भ्रामन	mean angular motion	माध्य कोणीय गति
mead	<i>Bot. H.Sc.</i>	1. आर्द्र शादल 2. मीड	mean annual discharge	औसत वार्षिक विसर्जन
Meade-Harris unit	<i>Chem.</i>	मीड हैरिस मात्रक	mean anomaly	माध्य कोणिकांतर
meadow	<i>Bot., Geog.</i>	शादल	mean arrival rate	माध्य आगमन दर
meadow brook		शादल-खबुसरिता	mean astronomical time	माध्य खगोलीय समय
meadow brown (butterfly)	<i>Zool.</i>	शादल बभ्रु (त्रितली)	mean birth rate	माध्य जन्मदर
meadow grass		शादल घास	mean caloric	औसत कैलॉरी, माध्य कैलॉरी
meadow hay		शादल शुष्कघास	mean camber	माध्य न्युञ्जता
meadow land		शादल भूमि	mean centigrade caloric	माध्य सेन्टीग्रेड कैलॉरी
meadow nematode		शादल सूत्रकृमि	mean concentration	माध्य संकेन्द्रण
meadow ore	<i>Geol.</i>	दलदल लोह अयस्क	mean coordinates	माध्य निर्देशांक
			mean curvature	माध्य वक्रता
			mean death rate	माध्य मृत्युदर
			mean decennial rate	माध्य दशवर्षीय दर
			mean depth	माध्य गहराई, माध्य गभीरता
			meander	<i>Geol., Geog.</i> विसर्प

meander bar		विमर्ष रोधिका	mean free path	औसत मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ
meander belt		विसर्प-मट्टी	<i>mean free time</i>	माध्य मुक्त काल, औसत मुक्त काल
meander belt ridge		विसर्प मेखला कटक	mean fundamental	माध्यत मूल
meander channel		विमर्ष बाहिका	mean galactocentric velocity	माध्य मदाकिनीकेन्द्रीय वेग
meander core		विमर्ष-कोर	mean grain size	औसत कण साइज
meander cutoff		विमर्ष-छाड़न	mean hydraulic depth	औसत जलीय गभीरता
meander development		विसर्प-विकास	mean intensity of radiation	विकिरण माध्य तीव्रता
meander flow		विसर्प-प्रवाह	mean ionic molality	माध्य आयनी मोलसता
meandering	Geol.	1 विसर्पण 2 विसर्पी	mean lethal dose	माध्य घातक मात्रा
meandering cross		विमर्पण क्रॉस	mean life	माध्य आयु, औसत आयु
meandering river		विमर्पी नदी	mean life time	माध्य जीवनकाल
meandering septa		विसर्पी पट	mean longitude	माध्य भोगांश, माध्य रेखांश
meandering valley		विसर्पी घाटी	mean longitude of moon's perigee	चान्द्र उपभू माध्य देशान्तर
meander fake		विमर्ष झील	man maximum height	माध्य अधिकतम उच्चता
meander lobe		विमर्ष पाशवक्र	mean meridional flow	औसत रेखांशिक प्रवाह
meander loop		विसर्प लूप	mean midnight	माध्य मध्यरात्रि
meander loop site		विमर्ष लूपस्थल	mean modulus	माध्य मापांक
meander neck		विमर्ष-ग्रीवा	mean motion	माध्य गति
meander scar		विमर्ष-स्कार	mean motion of the lunar perigee	चान्द्र उपभू-माध्य गति
meander scarp		विमर्ष-जगर	mean neutron life time	न्यूट्रॉन औसत आयु
meander scar terrace		विमर्ष चिह्न वेदिका	mean moon	माध्य मध्याह्न
meander scroll		विसर्प स्क्रॉल	mean obliquity of the ecliptic	त्रातिवृत्त की माध्य नित्यवृत्ता
meander spur		विमर्ष पर्वनस्कन्ध	mean observed colour	माध्य प्रेक्षित वर्ण
meander spur terrace		विमर्ष स्कन्ध वेदिका	mean oxygen atom	माध्य ऑक्सीजन परमाणु
mean deviation		माध्य विचलन	<i>mean-pairing energy</i>	माध्य युग्मन ऊर्जा
mean difference		माध्य अंतर	mean parallax	माध्य लवन
mean distance		माध्य दूरी	mean phase vibration	माध्य कला विचरण
Meandra	Zool	मिरेन्डा	mean place	माध्य स्थान
meandriiform		विमर्परूप	mean probable velocity	माध्य प्रसमाध्य वेग
meandrine septal filament	Geol	विमर्पी पट तंतु	mean probit difference	माध्य प्राविट अंतर
mean ecliptic		माध्य त्रातिवृत्त	mean product	माध्य गुणनफल
mean energy		औसत ऊर्जा, माध्य ऊर्जा	mean proportional	मध्यानुपाती
mean equator		माध्य विषुव वृत्त, माध्य निरक्ष		
mean equinox		माध्यविषुव		
mean error		माध्य त्रुटि		

mean radial velocity		माध्य त्रिज्य वेग	mean tone	माध्य टोन
mean range		माध्य परिसर	meantone tempera- ment	माध्यटोनी संस्कार
mean reaction time		माध्य अभिक्रिया अवधि	mean trigonometric deviation	माध्य त्रिकोणमितीय विचलन
mean refraction		माध्य अपवर्तन	mean tropical year	माध्य सायन वर्ष
mean residence time		माध्य निवास काल	mean value	माध्यमान, औसत मान
mean ruled surface		माध्य रेखज पृष्ठ	mean value half plane	माध्यमान अर्ध समतल
means	<i>Math.</i> <i>H.Sc.</i>	मध्यपद	mean value theorem	माध्यमान प्रमेय
mean sample tree		साधन, उपाय	mean variation	माध्य विचरण
mean sea level		माध्य प्रतिदर्शी वृक्ष	mean velocity	माध्य वेग
mean secular parallax		माध्य समुद्र तल	mean width	माध्य पृथुता
means of a proportion	<i>Math.</i>	माध्य दीर्घकालिक लंबन	measles	<i>H.Se.</i> खसरा, रौमान्तिका, मीज़िल्लस
means of communication	<i>Geog.</i>	समानुपात के मध्यपद	measurability	<i>Math.</i> मेयता
mean solar day		संचार साधन	measurable cover	मेय आवरणक
mean solar time		माध्य सौर दिन	measurable function	मेय फलन
mean speed		माध्य सौर समय	measurable group	मेय समूह
mean sphere level		माध्य चाल, माध्य चलन, माध्य रभस	measurable kernel	मेय अष्टि
mean square contin- gency		माध्य गोला तल	measurable rectangle	मेय आयत
mean square deviation		आसंग वर्ग माध्य	measurable sampling plan	मेय प्रतिचयन आयोजना
mean square displace- ment		विचलन वर्ग माध्य	measurable set	मेय समुच्चय
mean square error		विस्थापन वर्ग माध्य	measurable space	मेय समष्टि
mean square error estimate		तुट्टि वर्ग माध्य	measurable transfor- mation	मेय रूपांतरण
mean square fluctuation		तुट्टि वर्ग माध्य	measurable variable	मेय चर
mean square length of moderation		उच्चावचन वर्ग माध्य	measure	<i>Math.,Phy.</i> <i>Geol.</i> माप संस्तर
mean square velocity		विमंदन माध्य वर्ग दैर्घ्य	measure algebra	माप-बीजावली
mean stress		वेग वर्ग माध्य	measure code	माप-संकेत
mean sun		माध्य प्रतिचल	measured length	मापित लम्बाई
mean survival time	<i>Phy.</i>	माध्य सूर्य	measurement	नाप, माप, मापन
mean-time	<i>Geog.</i>	औसत शेष आयु	measurement lag	मापन पश्चता
meantime between failures		माध्य समय	measurement of efficiency	दक्षता मापन
meantime pocket chronometer		अंतर्विफलता-माध्य-समय	measurement of space	आकाश का मापन
mearstone (meerstone)	<i>Geog.</i>	जेवी माध्य मूद्धम समय- मापी	measurement of utility	उपयोगिता मापन
		मीथराग्न	measure numbers	माप संख्याएँ

measure of a set	समुच्चय-माप	*Mebuta (= Geminorum)	<i>Astron.</i>	मेबयुता (= ६ सिग्न, ६ जेमिनोरम)
measure of central tendency	केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप	<i>mechanic</i>	<i>Geog.</i>	मिस्त्री
measure of effectiveness	प्रभाविता-माप	<i>mechanical</i>		1 बलकृत 2 यांत्रिक 3 (Virology) संपर्क
measure of efficiency	दक्षता-माप	<i>mechanical abuse</i>		यांत्रिक दुरुस्योग
measure of homogeneity	सजात्य माप	<i>mechanical action</i>		बलकृत क्रिया
measure of kurtosis	कटुदता माप	<i>mechanical advantage</i>		यांत्रिक लाभ
measure of non-uniform convergence	नैकममान अभिसरण का माप	<i>mechanical analogue</i>		यांत्रिक धनुस्वरूप
measure of performance	निष्पादन-माप	<i>mechanical analysis</i>	<i>Geol.</i>	प्रमापी विश्लेषण
measure of precision	परिशुद्धता माप	<i>mechanical band spread</i>		यांत्रिक बैंड विस्तार
measure of skewness	वैषम्य माप	<i>mechanical barrier</i>		रचनात्मक रोध
measure of variability	विचरणशीलता-माप	<i>mechanical border</i>	<i>Phy</i>	शून्यकरण सीमा
measure ratio	मापानुपात	<i>mechanical centring</i>		यांत्रिक केन्द्रण
measure ring	माप वलय	<i>mechanical characteristic</i>		यांत्रिक अभिलक्षण
measure space	माप समष्टि	<i>mechanical classifier</i>		यांत्रिक वर्गीकर
measure zero	शून्य माप	<i>mechanical color filter disc</i>		यांत्रिक वर्ण फिल्टर डिस्क
measuring	(n) मापन (adj) मापी, मापक	<i>mechanical constant</i>		यांत्रिक स्थिरांक
measuring appliance	मापक साधित्र	<i>mechanical contouring</i>	<i>Geol.</i>	परिकल्पित समोच्चन
measuring cylinder	मापक बिलिन्डर	<i>mechanical current time integrator</i>		यांत्रिक धारा समय समाकलक
measuring glass	मापक गिलास	<i>mechanical damping</i>		यांत्रिक अवमदन
measuring jar	मापक जार	<i>mechanical dehydration</i>		यांत्रिक व्युदकन, यांत्रिक निजलीकरण
measuring party	मापक दल, मापक पार्टी	<i>mechanical density</i>		यांत्रिक घनत्व
measuring rod	मापक रड	<i>mechanical depolarisation</i>		यांत्रिक निर्ध्रुवन
measuring spoon	माप चम्मच	<i>mechanical drag</i>		यांत्रिक र्धरण
meat	मांस, गोस्त	<i>mechanical editing</i>		यांत्रिक संपादन
meatball	मांसपिंड	<i>mechanical effect</i>		यांत्रिक प्रभाव
meat biscuit	मांस बिस्कुट (बेस्ट्री)	<i>mechanical ellipticity of earth</i>		पृथ्वी की यांत्रिकीय दीर्घ-वृत्तता
meat infusion	मांस फाट	<i>mechanical energy</i>		यांत्रिक ऊर्जा
meat knife	मांस छुरी	<i>mechanical equation</i>		यांत्रिक समीकरण
meat of coconut	<i>Bot.</i> नारियल की शरी	<i>mechanical equilibrium</i>		यांत्रिक साम्य, यांत्रिक सन्तुलन
meat packing	मीट पैकिंग, मांस पैकिंग	<i>mechanical equivalent</i>		यांत्रिक तुल्यता
meatus	<i>Geol.</i> कुहर			
meatus venosus	<i>Zool.</i> शिरा कुहर			
meaty	<i>H.Sc.</i> मांसयुक्त			



mechanical erosion	वलकृत अपरदन	mechanical punched card machine	यांत्रिक पत्र-छिद्रक
mechanical finish	यांत्रिक परिष्कृति	mechanical rectifier	यांत्रिक दिष्टकारी
mechanical foaming	यांत्रिक फेनन	mechanical refrigeration	यांत्रिक प्रशीतन
mechanical force	यांत्रिक बल	mechanical register	यांत्रिक अभिलेखी
mechanical fractionation	वलकृत प्रभाजन	mechanical representation	यांत्रिक निरूपण
mechanical friction	यांत्रिक घर्षण	mechanical resistance	यांत्रिक प्रतिरोध
mechanical furnace	यांत्रिक भट्टी	mechanical rock	<i>Geol.</i> वलकृत शैल
mechanical homogenizer	यांत्रिक समांगित	mechanical scanning	यांत्रिक क्रमवीक्षण
mechanical impedance	यांत्रिक प्रतिबाधा	mechanical sense	यांत्रिक संवेद
mechanical insertion	यांत्रिक अंतरावेशन	mechanical shaker	यांत्रिक हल्लित
mechanical isolation	यांत्रिक पार्थक्य	mechanical shock	यांत्रिक धावात
mechanical load	वलकृत जलोद्दक	mechanical shovels	यांत्रिक शोवेल, यांत्रिक बेलचा
mechanically anisotropic	<i>Geol.</i> भौतिकतः विषमदेशिक	mechanical similitude	यांत्रिक सादृश्य
mechanically driven auger	यंत्र चालित बरमा	mechanical spinning	यांत्रिक कताई
mechanically operated	यंत्र प्रचालित	mechanical stimulation	यांत्रिक उद्दीपन
mechanically reversible	यांत्रिकतः उत्क्रमणीय	mechanical stipple	यांत्रिक विन्दुचित्रण
mechanical mass	यांत्रिक द्रव्यमान	mechanical stirrer	यांत्रिक विलोडक
mechanical medium	यांत्रिक माध्यम	mechanical stress	वलकृत प्रतिबल
mechanical method	यांत्रिक विधि	mechanical technology	यंत्र शिल्प
mechanical mining	यांत्रिक खनन	mechanical tissue	यांत्रिक ऊतक, मेकैनिकल टिश्यू
mechanical mixture	भौतिक मिश्रण	mechanical transmission	<i>Bot.</i> संपर्की संचारण (रंग का)
mechanical model	यांत्रिक मॉडल	mechanical transmitter	<i>Zool.</i> यांत्रिक प्रेषी
mechanical momentum	यांत्रिक संवेग	mechanical twinning	यांत्रिक यमलन
mechanical operation	यांत्रिक प्रचालन	mechanical vector	संपर्की रोगवाहक
mechanical optical effect	यांत्रिक प्रकाशीय प्रभाव	mechanical vibrator	यांत्रिक कंपित
mechanical passivity	यांत्रिक निश्चेष्टा	mechanical wear	वलकृत विघर्षण
mechanical phenomenon	यांत्रिक परिवटना	mechanical weathering	<i>Geol.</i> वलकृत अपक्षय
mechanical power	यांत्रिक शक्ति	mechanical wood pulp	यांत्रिक काष्ठ लुगदी
mechanical properties	यांत्रिक गुणधर्म	mechanical work	यांत्रिक कार्य
mechanical pulp	यांत्रिक लुगदी	mechanics	<i>Math., Phy.</i> 1. बलविज्ञान 2. यंत्रविज्ञान, यांत्रिकी
mechanical pulverization	यांत्रिक संशोदन		

mechanisation		यन्त्रीकरण	*Media (= δ Sagittarii)	<i>Astron.</i>	मीडिया (= δ धनु, δ सैगिटैरियाइ)
mechanisch-flaserig	<i>Geol</i>	यांत्रिक रेखीगठन	mediad	<i>Bot.</i>	मध्यस्थ
mechanised farming		यन्त्रीकृत कृषि	mediaeval town	<i>Geog.</i>	मध्यकालीन नगर
mechanism		1 क्रियाविधि 2 यांत्रिकत्व 3 यन्त्रावलि, साधन	medial	<i>Bot., Zool., Geol</i>	मध्यस्थ, मध्यवर्ती, मध्य
mechanism of a reaction		अभिक्रिया की क्रियाविधि	medial cell		मध्यवर्ती कोशिका
mechanism of a watch		घड़ी की यन्त्रावली	medial cross vein		मध्यवर्ती जन्तुप्रस्थ नाडिका (शिरा)
mechanism of eruption		उद्भेदन-क्रियाविधि	medial depressor		मध्य अवनमनी
mechanism of hearing		श्रवण की क्रियाविधि	medial humidity		मध्यम आद्रता
mechanism of precipitation		अवक्षेपण की क्रियाविधि	medial malleolus		मध्य गुल्फवर्ध
mechanistic		क्रियाविधिक	medial moraine		मध्यस्थ हिमोड, मध्यस्थ मोरेन
mechanistic box		क्रिया-विधि पेटिका	medial nerve cord		मध्यवर्ती तंत्रिका रज्जु
"mechanistic" photo-chemistry		क्रियाविधिक भा-रसायन	medial posterior nerve		मध्यपश्च तंत्रिका
mechanistic theory	<i>Zool.</i>	यांत्रिक सिद्धान्त	medial pseudomoraine		मध्यस्थ कूटमोरेन
mechanized boat	<i>Zool.</i>	यांत्रिक नौका	medial rotator		मध्य घूर्णी
mechanized craft		यांत्रिक नौजन	medial row		मध्य पक्ति
mechanized fishing		यांत्रिक मत्स्यन	medial section		माध्यमिक परिच्छेद
mechanized vessel		यांत्रिक पोत	median		1 मध्य, मध्यस्थ 2 माध्यिका, मीडियन
mechanocaloric effect		यांत्रिक ऊष्मीय प्रभाव	median age		माध्यक वयम्
mechano receptor		यांत्रिक्रयाही	median area		मध्य क्षेत्र
mechi silk	<i>H Sc.</i>	मेची रेशम	median average		माध्यक औसत
Meckel's cartilage		मेकल उपास्थि	median axillary micro-zooid		मध्य वक्षीय सूक्ष्मजीवक
mecomba	<i>H Sc</i>	मेकोम्बा	median caudal artery		मध्यपुच्छ धमनी
meconic acid	<i>Chem.</i>	मेकॉनिक अम्ल	median condyle		मध्यकंद, मध्य मुडिका
meconidium	<i>Zool</i>	मीकोनिडियम, बहिष्पुष्पाम	median cell		माध्य कोशिका
meconin	<i>Chem.</i>	मेकॉनिन	median centre		माध्यिका केन्द्र
meconinic acid	<i>Chem.</i>	मेकॉनिक अम्ल	median ciliated groove		मध्य परमाषी खाव
meconium	<i>Zool</i>	नवविष्टा	median cord		माध्यक रज्जु
Mecoptera	<i>Zool.</i>	मेकोप्टेरा	median effective dose		मध्यम प्रभावी मात्रा
mecopteran		दीर्घपंखी	median epicondyle		मध्य अधिकंद
Mecoy's boiling point apparatus		मेकॉय क्वथनांक उपकरण	median epicranial suture		मध्य अधिकपाल संधिरेखा
Medart straightener	<i>Chem</i>	मेडर्ट ऋतुकारक			
media		मीडिया			

median estimate of $\sigma$	$\sigma$ का माध्यिका बाकल	median visceral ganglion	मध्य अंतरंग गुच्छिका
median eye	मध्य नेत्र	median wing covert	मध्य पक्षावरक
median fin fold	मध्य पखपुट	median zooid	मध्य जीवक
median frontal suture	मध्य ललाट सीवन	mediastinum	Zool. फुफ्फुस मज्यावकाश
median giant fibre	मध्य महातंतु	Medicago	मेडिकागो
median hinge bar	मध्य हिन्ज दंड	<i>Medicago sativa</i>	मेडिकागो सैटाइवा (गरारी)
median labial muscle	माध्य ओष्ठीय पेशी, माध्य लेवियमी पेशी	medical care	H.Sc. चिकित्सा देखभाल
median lethal dose	माध्य घातक मात्रा	medically pure	Chem. चिकित्सीय शुद्ध
median lethal time	माध्य घातक काल	medical mycology	Bot. चिकित्सा कवकविज्ञान
median line	1. माध्यिका रेखा 2. मध्य रेखा	medicament	Chem. औषधि
median lip	मध्य ओष्ठ	medication	H.Sc. उपचार, औषधि प्रयोग, औषधि प्रदान
median longitudinal channel	मध्य अनुदैर्घ्य प्रणाल	medicinal enema	H.Sc. औषधि एनिमा
median mass	मध्यस्य भूभाग, मध्य-भूसंहति	medicinally pure	Chem. औषधतः शुद्ध
median nervule	माध्य शिरांत	medicinal spring	Geol. औषधीय झरना
median oesophageal bulb	मध्य ग्रसिका कन्द	medicinal water	Geog. स्वास्थ्यकर जल
median olfactory lobe	घ्राण मध्य पालि	medicinal wine	H.Sc. औषधीय मदिरा
median oviduct	माध्य अंडवाहिनी	medicine chest	Geog. औषध पेटी
median plane	मध्य तल	medicine man	Geog. ओझा
median pseudobulb	मध्य कूटकंद	medicine pipe	Geog. औषध नली
median retractor muscle	मध्य आकुंचक पेशी	medieval portrayal	Geog. मध्यकालीन चित्रण
median sacral artery	मध्य त्रिक घमनी	medifixus	Bot. मध्यलग्न
median sector	माध्य सेक्टर	mediiphyric	Geol. मध्यपर्षिकरीय
median space	माध्यक अवकाश	<i>Medinilla hasseltii</i>	Bot. मेडिनिल्ला हैसेल्टियाइ
median spinneret	मध्य वयित्र	medio-cubital cross vein	Zool. मीडियो क्यूबिटल अनुप्रस्थ नाडिका (शिरा)
median suspensory ligament	माध्य निलम्बन स्नायु	mediodorsal	Zool. मध्यपृष्ठी
median suture	माध्य सीवन	mediolateral ray	मध्यपार्श्व अर
median test	माध्यिका-परीक्षण	mediophyric	Geol. मध्यमपर्षिकरीय
median vein	माध्य शिरा	mediosilicic	Geol. मध्यसिलिक
median ventral bar	मध्य अधर दंड	mediosilicic rock	मध्यसिलिक शैल
median ventral cartilage	मध्य अधर उपास्थि	mediostapes	Zool. मध्यस्तीभका, मीडियो-स्टेपीज
median vertical septum	मध्योदग्र पट	medioventral	Biol. मध्याधर
		Mediterranean agriculture	Geog. भूमध्यसागरीय कृषि
		Mediterranean area	भूमध्यसागरीय क्षेत्र

Mediterranean basin	भूमध्यसागरीय बेसिन	medullarin	मेडुलेरिन, मध्यकिन
Mediterranean climate	भूमध्यसागरीय जलवायु	medullar test	<i>Geol</i> अतस्य चीन
Mediterranean forest belt	भूमध्यसागरीय वन भेखला	medullary canal	मध्याश नाल
Mediterranean land	भूमध्यसागरीय देश	medullary cord	मध्याश रज्जु
Mediterranean tillage	भूमध्यसागरीय जुताई	medullary fold	तन्निका पुट
Mediterranean town	भूमध्यसागरीय नगर	medullary groove	तन्निका खाच
medium	(adj) मध्यम (n) माध्यम	medullary plate	तन्निका पट्टिका
medium cloud	मध्यम मेघ	medullary ray	मज्जा किरण
medium density plasma	मध्यक घनत्व प्लास्मा	medullary sheath	मज्जा वाच्छद
medium dispersion	मध्यम विक्षेपण	medullary shell	<i>Geol</i> अतस्य कवच
medium effect	माध्यम प्रभाव	medullary substance	मज्जा पदार्थ
medium flint	मध्यम पित्रष्ट	medullary thread	मध्याश सूत्र
medium grain	मझोला दाना, मध्यम दाना	medullary tissue	मज्जा ऊतक
medium mass nucleus	मध्यम द्रव्यमाना न्युक्लियस	medullated	<i>Zool.</i> मज्जायुक्त
medium nucleus	मध्यम नाभिक, मध्यम न्युक्लियस	medullated fibre	मज्जायुक्त तंतु
medium oil allyds	मध्य तेल ऐल्किड	medullated nerve	मज्जायुक्त तन्निका
medium range forecast	मध्यमकालीन पूर्वानुमान	medullated stele	मज्जायुक्त रभ
medium range radar	मध्यम परास रेडार	medullation	मज्जायन
medium scale	मध्यम पैमाना	Medullosa	<i>Bot.</i> मेडुलोसा
medium scissors	मध्यम कैंची	Medullosa anglica	मेडुलोसा ऐंग्लिका
medium shot	मध्यम शॉट	Medullosan	<i>Bot</i> मेडुलोसीय
medium sized particle	मध्यम परिमाण कण	Medullosan ancestry	मेडुलोसीय पूर्वजता
medium stature	मध्यम वद	Medullosan microsporangia	मेडुलोसीय सूक्ष्म बीजाणु-धानी
medium strong interaction	मध्यम प्रबल अन्योन्य क्रिया	Medullosan seedfern	मेडुलोसीय बीजी पर्णाग
medium wave	मध्य तरंग	Medullosan stele	मेडुलोसी रभ
medius	<i>Zool.</i> मध्यम	medusa	<i>Geol, H Sc, Zool.</i> मेडूसा
medley	<i>Geog.</i> सम्मिश्रण	medusa bud	मेडूसा मुकुल
medula	<i>Phy.</i> मेडुला	Medusagynaceae	<i>Bot.</i> मेडूसागयनेसी
medulated protostele	<i>Bot.</i> मज्जायुक्त टोसरंभ	Medusandraceae	<i>Bot</i> मेडूसान्द्रेसी
medulla	<i>Bot., Zool., H.Sc.</i> 1 मध्याश 2 मज्जा	Medusina	<i>Geol</i> मेडूजिना
medulla oblongata	<i>Zool.</i> मेडुला ऑब्लॉन्गेटा	medusoid	<i>Zool, H.Sc.</i> मेडूसाय, मेडूसासम
		medusoid bod	मेडूसासम मुकुल
		medusoid polymorph	मेडूसासम बहुरूपक
		meenpow	<i>H Sc.</i> मीनपाँ
		meerschamm	<i>Geol.</i> भीरशौम
		Meerwein-Ponndorf-Oppenauer mixture	<i>Chem.</i> मीरवाइन-पोन्दोर्फ-ओपेनौअर मिश्रण

Meerwein-Ponndorf Verley reduction		मीरवाइन पोन्डोर्फ वर्ली अवकरण	Megalodon	Geol.	मेगेलोडॉन
Meerwein rearran- gement	Chem.	मीरवाइन पुनर्व्यवस्था	Megalodon cucullatus		मेगेलोडॉन कूकूलेटस
neet	Math.	1. (of members of lattice) अवसंधि 2. (of sets) सर्वनिष्ठ	megalograph	Chem.	मेगलोग्राफ
neeting house	Geog.	सम्मेलन गृह	Megalonychidae	Zool.	मेगालोनिकिडी
nega		1. स्थूल, गुरु, महा 2. स्पष्ट 3. नियुक्त (दशलक्ष)	Megalonychoidea		मेगालोनिकॉयडिया
negabit	Phy.	मेगाबिट	megalopa	Zool.	मेगालोपा, दीर्घाम्बक
negabreccia	Geol.	दीर्घसंकोणाश्म	megalopa larva		दीर्घाम्ब्र डिम्बक, मेगालोपा लावा
negacephalic	Zool., Geol.	दीर्घशीर्ष	megalopolis	Geog.	विश्वनगरी, मेगालोपोलिस
negacephalous	Bot.	बृहन्मुंडकी	megalops	Zool.	मेगालॉप्स
Megaceros	Bot.	मेगासिरस	Megaloptera	Zool.	मेगालोप्टेरा
Megachiroptera	Zool.	मेगाकाइरोप्टेरा	Megalosaurus		मेगालोसॉरस
Megachromosome	Zool.	मेगाक्रोमोसोम, अतिगुण- सूत्र	megaloschizont	Zool.	मेगेलीशाइजॉन्ट
Megacolon	Zool.	महावृहदन्त्र	megalosphere	Geol.	दीर्घगोलक
Megacurie	Phy.	मेगाक्यूरी	megalospheric	Geol.	दीर्घगोलक शंखनाभि
Megacycle	Phy.	मेगासाइकिल	nucleoconch		
Megadyne	Geog.	मेगाडाइन	Megaloxylon	Bot.	मेगालोक्सिलन
Megaesophagus	Zool.	महाग्रसिका	megamere	Zool.	बृहत्खंड
Megaevolution	Zool.	गुरुविकास, महाविकास	meganephridium	Zool.	गुरुवृक्कक
Mega fauna	Zool.	महाप्राणिजात	meganucleus	H.Sc., Zool.	महाकेन्द्रक, गुरुकेन्द्रक
Mega fossil	Bot.	गुरुजीवाश्म	megaparsec	Math.	मेगापारसेक
Megagamete (= macrogamete)	Biol., H.Sc.	गुरुयुग्मक	megaperm	Chem.	मेगापर्म
Megagametocyte	Zool., H.Sc.	गुरुयुग्मकजनक	megaphanerophyte	Bot.	गुरुजन्तुदोद्भिद्
Megagametogenesis	Biol.	गुरुयुग्मकजनन	megaphenocryst		स्थूल लक्ष्य क्रिस्टल
Megagametophyte	Bot.	गुरुयुग्मकोद्भिद्	megaphone	Chem.	मेगाफोन, भोंपू
Megakaryocyte	Zool.	महाकेन्द्रक कोशिका	megaphyll	Bot.	गुरुपर्ण, स्थूल पर्ण
Megalecithal	Zool.	अतिपीतकी, मेगालेसियल	megaphyllous		स्थूलपर्णी, बृहत्पर्णी, गुरुपर्णी
Megalecithal ovum		अतिपीतकी अंडाणु	megaphyllous pterido- phyte		गुरुपर्णी टैरिडोफाइट
Megalichthys	Zool.	मेगालिक्थीज	megaphylly		गुरुपर्णता, स्थूलपर्णता
Megalith	Geog.	मेगालिथ	megaphyric	Geol.	स्थूलपर्णीफेरीय
Megalithic age		मेगालिथी काल	megaplankton	Zool.	महाप्लवक
Megalobatrachus	Zool.	मेगालोबैट्रेकस	Megapodidae	Zool.	मेगापोडिडी
Megaloblast	Zool., H.Sc.	महालोहित	Megapodius		मेगापोडियस
			megaporphyritic	Geol.	मेगापर्पोफराइटी, दीर्घपर्पोफराइटी
			Megaptera	Zool.	मेगाप्टेरा

megapyr	Chem.	मेगापिर	megohm meter	मॅगओम मारी
megarche type	Bot.	मैगाकीं प्ररुप	megohm sensitivity	मॅगओम सुधाहिता
megarhizous	Bot.	बृह्मूलक	*Megrez (= $\delta$ Ursae Majoris)	अरि, मॅग्रेज (= $\delta$ ऋषि, $\delta$ अरि मैजॉरिस)
megasclere	Zool, Geol.	दीर्घकटिका	Mehari	मेहारी
megascleric		1 दीर्घकटकीय 2 दीर्घकसीय	meherjun	मेहेरजुन
megascleric chamber	Zool	दीर्घकक्षीय कोष्ठ	Mehler Dirichlet integral	मेलेर-डिरिक्ले समाकल
megascleric shell		दीर्घकक्षीय कवच	Mehler's theorem	मेलेर प्रमेय
Megascolecidae	Zool	मैगास्कोलेसिडी	Mehlis's gland	मेह्लिस ग्रन्थि
Megascolex	Zool.	मेगास्कोलेक्स	Meibomian gland	मायबोमी ग्रन्थि
megascope	Chem	स्थूलदर्शी	meifod	मीफोड, मध्यावास
megascopic	Bot, Geol	स्थूलानार	Meigen's reaction	माइगेन अभिक्रिया
megascopic character		स्थूल लक्षण	Meigen's test	माइगेन परीक्षण
megascopic classification		स्थूल वर्गीकरण	meller	मेल्लर
megascopic crystal	Phy	विशाल क्रिस्टल	Meinel band	माइनेल पट्टी
megascopic fabric symmetry		स्थूल सन्वित्याम सममिति	meiocyte	अर्धसूत्रीकोशिका, अर्धसूत्राणु
megaseismic region	Geol.	महाभूकम्पी प्रदेश	meiometry	अल्पावयवता
megasporangial mass	Bot	गुरुबीजाणुघानीय पिंड	meionite	माइओनाइट
megasporangiate		गुरुबीजाणुघानिक	meiosis	अर्धसूत्री विभजन, अर्धसूत्रण
megasporangium		गुरुबीजाणुघानी	meiosporangium	मायोबीजाणुघानी
megaspore		गुरुबीजाणु	meiospore	मायोबीजाणु
megaspore haustoria		गुरुबीजाणु चूषकांग	meiotic behaviour	अर्धसूत्रण व्यवहार
megaspore mother cell		गुरुबीजाणु मातृ कोशिका	*Meissa (= $\lambda$ Orionis)	माइसा (= $\lambda$ ओरिओनिम)
meGasporogenesis	Bot	गुरुबीजाणु जनन	Meissner effect	माइस्नर प्रभाव
meGasporophyll	Bot.	गुरु बीजाणुपर्ण	Meissner's corpuscle	माइस्नर नणिका
Megatheriidae	Zool.	मेगाथेरिवाइडी	meizoseismal	तीव्रतम भूकम्पी
megaton bomb	Phy.	मेगाटन बम	meizoseismal area	तीव्रतम भूकम्पी क्षेत्र
megatron tube	Phy.	मेगाट्रॉन नलिका	meizoseismal curve	तीव्रतम भूकम्पी वक्ररेखा
megazooid	Zool.	महाजीवक	*Mekbuda (= $\xi$ Geminorum)	मेकबुडा (= $\xi$ मिथुन, $\xi$ जेमिनोरम)
megazoospore	Zool	महाचलबीजाणु	Meker burner	मेकर बर्नर, मेकर-ज्वालक
Mege Mouries process	Chem	मेजे माउरीस प्रक्रम	mekometer	मैकोमीटर
Megerlina		मेगर्लिना	mel	मेल
meggar	Phy.	मेगर, मेगजोममारी	mela basalt	श्याम बैसाल्ट
Megger method	Geol.	मेगर विधि		
megimide	Chem.	मेबिमाइड		
megohm	Phy.	मॅगओम		

Melaconiales	Bot.	मैलैकोनिएलीज
melaconite	Geol.	मैलैकोनाइट
meladiabase	Geol.	श्यामढायवेस
meladiorite	Geol.	श्यामढायोराइट
melagabbro	Geol.	श्यामगैब्रो
melamine	Chem.	मेलऐमीन
melamine formaldehyde		मैलैमीन-फार्मऐल्डिहाइड
Melampsora lini	Bot.	मेलम्पसोरा लाइनाइ
Melamporidium betulinum	Bot.	मेलम्पसोरिडियम-बीटुलिनम
melancholia	H.Sc.	विपण्णता, मैलेन्कोलिया
melanchyme	Geol.	मैलेन्काइमे
Melanconiales	Bot.	मैलेन्कोनिएलीज
Melanesian	Geog.	मैलेनेशियाई
melange	Geol.	1. मैलांज
	H.Sc.	2. बहुरंगी
melangeophilus	Bot.	दुमटरागी
melangeophyllia		दुमटी समुदाय
melangeur	Chem. (Food)	मैलांजर
melange yarn	H.Sc.	बहुरंगी सूत्र
melanic gene	Zool.	मैलैनिनीय जीन
melaniline	Bot.	मैलैनिलीन
melanin	Bot., Zool., H.Sc.	मैलानिन
melanism	Zool.	अतिकृष्णता
melanite	Geol.	मैलैनाइट
melano	Bot.	श्याम
melanochalcite	Geol.	मैलैनोकेल्साइट
Melanochroic race	Geog.	मैलानोक्रोइक प्रजाति
melanocratic	Geol.	श्यामचूर्णी
melanocyte	Zool.	असिताणु
Melanodon	Zool.	मैलैनोटॉन
Melanogastraceae	Bot.	मैलैनोगैस्ट्रेसी
melanophlogite	Geol.	मैलैनोफ्लोगाइट
melanophore	Zool.	मैलानोफोर, मैलानिन-घर

melanophyllous	Bot.	श्यामपर्णी
melanosome	Bot., Zool.	श्यामांगक, मैलानोसोम
melanospermous	Bot.	श्यामबीजी
Melanospore chionea	Bot.	मैलैनोस्पोरा कियो-निया
melanospore	Bot.	कृष्णबीजाणु
melanterite	Chem., Geol.	मैलैन्टेराइट
melaphyre	Geog., Geol.	मैलाफायर
melarsen	Chem.	मैलासिन
melasmatic layer	Bot.	श्यामोतकी परत
melasmatic tissue		श्यामोतक
Melastomaceae	Bot.	मैलास्टोमेसी
Melastoma malabathricum		मैलास्टोमा, मैलैवैश्रिकम
Meldola's blue	Chem.	मैल्डोला ब्लू, मैल्डोला नील
meldometer	Chem.	मैल्डोमीटर
Meleagrididae	Zool.	मैलिऐग्रिडिडी
Meleagrina		मैलिऐग्रिना
Meleagris	Zool.	मैलिऐग्रिस
M-electron	Phy.	M-इलेक्ट्रॉन
Melengkhet resin	Chem.	मैलैकेट रेजिन
melezitose	Chem.	मिलेजिटोस
Meles taxus	Zool.	मीलीस टॅक्सस
Melia azadirachta	Bot.	मीलिया एजाडिरैचटा (नीम)
Melia azaderach		मीलिया एजाडराक (बकायन)
Meliaceae		मीलिऐसी
Melia tesselata		मीलिया टेसेलेटा
melibiose	Bot., Chem.	मैलिबायोस
melikaria	Geol.	मैलिकेरिया
melilith	Chem.	मैलिलिय
melilite	Geol.	मैलिलाइट
melilitite	Geol.	मैलिलिटाइट
Melilotus alba	Bot.	मैलिलोटस ऐत्वा
Melilotus indica		मैलिलोटस इन्डिका

Meliolaceae		मेलिओलेसी	Melongena	Zool.	मेलोन बेना
<i>Meliola corallina</i>		मेलिओला कोरैलाइना	melonite	Chem.	मेलोनाइट
Meliphagidae	Zool.	मेलिफैगिडी	Melonites	Bot.	मेलोनाइटीड
meliphanite	Geol.	मेलिफेनाइट	melon mosaic	Bot., H.Sc.	तरबूज विमौर
melissic acid	Chem.	मेलिसिक अम्ल	melon mask	H.Sc.	खरबूजा
melisyl		मीलिसिल	Melophagus	Zool.	मेलोफैगस
melittopalynology	Bot.	मधुपरागणु विज्ञान	<i>Melosira varians</i>	Bot	मेलोसाइरा वैरिएन्स
melittophilae	Bot.	गुहमक्षिका परागित	melrose	H.Sc.	मेलरोड
melittophilous		गुहमक्षिका परागित	melt	Geol., Chem.	1. (n) गलित 2. (v) पिघलना, गलना
<i>Melivora capensis</i>	Zool.	मेलिवोरा कैपेन्सिस	meltback transistor	Phy.	मेल्ट बैक ट्रांजिस्टर
mellaconite	Chem.	मेलाकोनाइट	melted fat test	Chem.	गलित वसा सपरीक्षण
melleabilising	Chem.	पत्रणीयन, आघातवर्धो- करण	melteigite	Geol.	मेल्टीगाइट
melleability		पत्रणीयता	meltemi	Geog.	मेलटेमी
melleable		पत्रणीय	melter	Chem.	गालक
melleus	Bot.	मधुवर्णा, मधुस्वारी	melting	Chem., Phy.	गलन, पिघलना
mellifera	Zool.	मधुकर	melting area		गलन क्षेत्र
melliferous		मधुकारी	melting channel		गलन चैनल
Mellin transform	Math.	मैलिन रूपांतर	melting line		गलन रेखा
melliphagous	Zool.	मधुभक्षी	melting point		गलनांक
mellissic acid	Chem.	मेलिसिक अम्ल, मेनिसिक ऐसिड	melting temperature		गलन ताप
mellisugous	Zool.	मधुचूसक	meltoa	H.Sc.	मेल्टन
mellitic acid	Chem.	मेलिटिक अम्ल, मेनिटिक ऐसिड	melt-quench transistor	Phy.	ड्रुट मेल्ट बैक ट्रांजिस्टर
mellitose	Chem.	मेलीटोज	melt spinning	H.Sc.	मेल्ट कलाई
mellophanic acid	Chem.	मेलोफैनिक अम्ल	melt water	Geog, Geol	पिघला जल, हिम-जल
Mellor's mean	Geol.	मेल्लर माध्य	melt-water stream		हिम-जल सरिता
mellowing	Geol.	वर्णपरिवर्तन	melting ice		गलनशील बर्फ
mellozing	Chem.	धातु कुहरन, धातु शीकरण	melusine	H.Sc.	मेलूसीन
melocana		मेलोकेना	Melville molecular sandwich	Chem.	मेलविल अणु-संरचना
melodeon	Phy.	मेलोडियन	meltwater structure	Geol.	हिमजल संरचना
melody	Phy.	स्वरानुक्रम, लय	<i>Melursus arctos</i>	Zool.	मेलसंस आर्क्टोस
Meloidae	Zool.	मेलोइडी	<i>Melursus ursinus</i>		मेलसंस अर्सिनस (मानु)
Melonechinoida	Zool.	मेलोनिकाइनॉयडा	member (of series)	Phy.	सदस्य
Melonechinus	Geol.	मेलोनएवाइनस	membranaceous	Geol.	मिल्लीदार, मिल्लीमय
<i>Melonechinus multiporus</i>		मेलोनएकाइनस मल्टीपोरस	membrana chalarifera	Zool.	मनेचरगुधर कला
			membrana dorsalis		पृष्ठीय कला



membrana elastica externa		बाह्य प्रत्यास्थ कला	memory cell		स्मृति सेल, स्मृति कोष्ठिका
membrana elastica interna		अन्तःप्रत्यास्थ कला	memory core		स्मृति कोर्ड
membrana fenestrata		गवाक्ष झिल्ली	memory cycle		स्मृति चक्र
membrana granulosa		कणिकामय कला	memory delay		स्मृति विलंब
membrana reticularis		जालिका कला	memory device		स्मृति युक्त, स्मृति यन्त्र
membrana reuniens		पुनर्योजि कला	memory dump		स्मृति निक्षेप
membranated embryo		कलायुक्त भ्रूण	memory effect		स्मृति प्रभाव
membrana tympaniformes externa		बाह्य कर्णपटह कला	memory protection		स्मृति रक्षण
membrana tympaniformes interna		आन्तर कर्णपटह कला	memphis cotton	<i>H.Sc.</i>	मेम्फिस कपास
membrana ventralis		अधरीय कला	menaccanite	<i>Geol.</i>	मेनेकेनाइट
membrane	<i>Biol., Chem.</i>	झिल्ली, झिल्लिका, कला	menachanite	<i>Chem.</i>	मेनाकैनाइट
membrane analogy		झिल्ली सादृश्य	menachine	<i>Chem.</i>	मिनेशीन
membrane analogy bending		झिल्ली सादृश्य वक्रन	menachite	<i>Chem.</i>	मेनाकाइट
membrane flagellum		कला कशाभ	menadione	<i>Chem.</i>	मेनाडाइआन
membrane function		झिल्ली फलन	menagerie	<i>Zool.</i>	प्राणिशाला
membranella	<i>Zool.</i>	मेम्ब्रेनेला, कलाभ	menarche	<i>H.Sc.</i>	रजोदर्शन
membrane potential		झिल्ली विभव	Me-nam	<i>Geog.</i>	मिनाम
membrane semilunaris		अर्ध चन्द्रकला	menazon	<i>Chem.</i>	मैनेज़ोन
Membranipora		मेम्ब्रेनीपोरा	mende	<i>H.Sc.</i>	मेंडे
<i>Membranipora elliptica</i>		मेम्ब्रेनीपोरा इलिप्टिका	Mendeleef's periodic law	<i>Chem.</i>	मेन्डेलीफ का आवर्त नियम
membranization		झिल्लिकाभवन	mendelevium	<i>Chem.</i>	मेन्डेलीवियम
membranous		कलामय, झिल्लीमय	Mendelian inheritance	<i>Zool., Bot.</i>	मेन्डेलीय आनुवंशिकता
membranous labyrinth	<i>Zool., H.Sc.</i>	कला लेविरिन्थ, कला गहन	Mendelian population		मेन्डेलीय समष्टि
memistor	<i>Phy.</i>	मेमिस्टर	Mendelian unit		मेन्डेलीय एकक
memmeru	<i>H.Sc.</i>	मेमेरू	Mendelism	<i>Biol.</i>	मेन्डेलवाद
memomotion study	<i>H.Sc.</i>	मेमोमोशन अध्ययन	Mendel's law		मेन्डेल-नियम
memorial	<i>Geog.</i>	स्मारक	mending	<i>H.Sc.</i>	मरम्मती सिलाई
memory	<i>Math., Phy.</i>	1. स्मृति 2. स्मृति तंत्र	mendip	<i>Geog.</i>	मेंडिप
memory assignment table		स्मृति निदेश सारणी	mendipite		मेन्डिपाइट
memory capacity		स्मृति क्षमता	Mendius reaction	<i>Chem.</i>	मेन्डिअस अभिक्रिया
			Menelaus theorem	<i>Chem.</i>	मेनेलाउस का प्रमेय
			menhaden	<i>Chem., Geog.</i>	मेनहेडेन
			menhaden oil		मेनहेडेन तेल
			menhofu	<i>H.Sc.</i>	मेनहोफू

menhir	Geog.	मेनहिर, एकाग्र स्मारक	mental map	Geog.	मानस मानचित्र
menilite	Geol.	मेनीलाइट	mental measurement		मानमिक्त मापन
meninges	H Sc.	तानिका, मस्तिष्कावरण	mental patient		मनोरोगी
meningo-encephalitis	Zool	तानिका मस्तिष्क शोथ	mental prominence		चिबुक उभार
Meniscotherium	Zool.	मेनिस्कोथेरियम	mental retardation		मानमिक्त मंदता
Meniscotheriidae		मेनिस्कोथेराइडी	mental shield		चिबुक विशल्क
meniscus	Phy.	नवचन्द्रक, मेनिस्कस	mental suture	Zool	चिबुकाय सीवन
meniscus lens		नवचन्द्रक लेन्स	mental test scores		मानमिक्त परीक्षण समक
*Menkalian	Astron.	मेन्कैलिनान (= $\beta$ प्रजापति	mental trait		भासमिक्त विशेषता
(= $\beta$ Aurigae)		$\beta$ ऑरिजी)	mental vibrissae		चिबुक दृढरोम
*Menkar (= $\alpha$ Ceti)		मेन्कार (= $\alpha$ सीटाइ)	<i>Mentha arvensis</i>		मेन्था आर्वेन्सिस (पुरीना)
*Menkib (= $\beta$ Pegasi)		मेन्किब (= $\beta$ पेगासाइ)	menthol	Chem	मेन्थॉल
menkwa	H Sc	मेन्क्वा	menthone	Chem	मेन्थोन
menognatha	Zool.	चिखन्दी	menthyl tosylate		मेन्थिल टासिलेट
menopause	H Sc	रजोनिवृत्ति	mentomeckelian	Zool	चिबुक-मेन्की
Menopon	Zool	मीनोपॉन	mentomeckelian bone		चिबुक-मेन्की अस्थि
Menoponidae		मीनोपॉनिडी	mentum	Zool., H.Sc.	मेन्टम, चिबुकांग
menofaxis	Zool	अशानुचलन	menu	H Sc.	भोजन तानिका, मेनू
Menotyphla	Zool.	मेनोटिफ्ला	menu planning		भोजन तानिका योजना, मेनू योजना
*Mensa	Astron	मेन्सा	Menuræ	Zool.	मेन्चूरी
menshusu	H Sc.	मेनशुसू	Menuridae		मेन्चूरीडी
Menschutkin reaction		मेनशुटकिन अभिव्रिया	mephitic	Geol	1. चिबुका 2. दुर्गंध
menstrual		आतंन	mephitic	Geol	1. चिबुका 2. दुर्गंध
menstrual fluid	H Sc, Zool.	रज	mephitic	Geol	1. चिबुका 2. दुर्गंध
menstrual history		आतंन वृत्त	mephitic	Geol	1. चिबुका 2. दुर्गंध
menstrual period		आतंन काल	mephitic	Geol	1. चिबुका 2. दुर्गंध
menstrual phase		आतंन प्रावस्था	mephitic	Geol	1. चिबुका 2. दुर्गंध
menstruation	H.Sc.	ऋतुश्राव, रजोधर्म	mephitic	Geol	1. चिबुका 2. दुर्गंध
menstruum	Bot.	विनायक	mephitic	Geol	1. चिबुका 2. दुर्गंध
mensuration	Math.	विस्तार-कलन, मेन्सुरेशन	mephitic	Geol	1. चिबुका 2. दुर्गंध
mental	H Sc., Zool.	मानमिक्त चिबुक	mephitic	Geol	1. चिबुका 2. दुर्गंध
mental attitude	Geog.	मनोवृत्ति	mephitic	Geol	1. चिबुका 2. दुर्गंध
mental construction		मानसिक रचना	mephitic	Geol	1. चिबुका 2. दुर्गंध
mental effort		मानमिक्त प्रयास	mephitic	Geol	1. चिबुका 2. दुर्गंध
mental foramen	Zool	चिबुक रंध	mephitic	Geol	1. चिबुका 2. दुर्गंध
			meral	Chem	मरैल (मिथानु)
			meraline	H Sc.	मेरालिन
			meral plate	Zool.	मेराल पट्टिका
			mercantile law	Geog.	वाणिज्य-विधि
			mercantile system		वाणिज्य हस्त
			mercaptol process	Chem.	मर्कैप्टॉल प्रक्रम
			mercaptide	Chem.	मर्कैप्टाइड

mercapturic acid	<i>Chem.</i>	मरकेप्टयूरिक अम्ल	mercuride	मर्क्युराइड
mercast process	<i>Chem.</i>	पारदसंच प्रक्रम	mercuridesilylation	मर्क्युरी डिसिलिलन
Mercator's Atlas	<i>Geog.</i>	मर्केटर एटलस	mercurimetric method	मर्क्युरीमिति पद्धति
Mercator's chart		मर्केटर-चार्ट, मर्केटर-संचित्त	mercurium captans (=seizing mercury)	मर्क्युरियम कैप्टन्स (पारद ग्रहण)
Mercator's grid projection		मर्केटर ग्रिड प्रक्षेप	mercurize	पारद निवेश करना
Mercator's projection		मर्केटर-प्रक्षेप	mercurous	<i>Chem.</i> मर्क्यूरस
Mercator's representation		मर्केटर निरूपण	*Mercury	<i>Astron.</i> बुध, मर्करी
mercerised thread	<i>H.Sc., Chem.</i>	मर्सरीकृत धागा	mercury	<i>Chem.</i> पारद, पारा
mercerised wool		मर्सरीकृत ऊन	mercury arc lamp	पारद आर्कलैम्प
mercerising		मर्सरीकरण	mercury arc rectifier	<i>Phy.</i> पारद-आर्कडिप्टकारी
merchandise	<i>Geog.</i>	पण्य, व्यापारिक माल	mercury barometer	पारद वायुदावमापी, पारद बैरोमीटर
merchantable ore	<i>Geol.</i>	विक्रय्य अयस्क	mercury cleaning apparatus	पारद निर्मलन उपकरण
merchant galey	<i>Geog.</i>	वाणिज्य-पोत	mercury column	पारद स्तंभ
merchantman	<i>Geog.</i>	1. सौदागर 2. व्यापारी जहाज	mercury distillation apparatus	पारद आसवन उपकरण
merchant marine	<i>Geog.</i>	व्यापारी पोतसमूदाय	mercury gauge	पारदीय दावमापी
merchant mill	<i>Chem.</i>	व्यापारिक मिल	mercury manometer	पारद दावांतरमापी
merchant vessel		व्यापारी जहाज	mercury pool cathode	पारद कूंड कैथोड
Merco centrifugal	<i>Chem.</i>	मर्को अपकेन्द्री	mercury purifying apparatus	पारद शोधन उपकरण
mercoloy	<i>Chem.</i>	मर्कोलाय (मिथ्रातु)	mercury sealed stirrer	पारद संमृद्रित विलोडक
mercurammine	<i>Chem.</i>	मर्क्यूरैम्मीन (यौगिक)	mercury steel thermo- meter	पारद इस्पात तापमापी
mercurate	<i>Chem.</i>	मर्क्यूरैट	mercury thermometer	पारद तापमापी, पारद थर्मामीटर
mercurated		मर्क्युरीकृत, पारदीकृत	mercury thread	पारद-सूत्र
mercuration		पारद निवेशन	mercury tongs	पारद-चम्मच
mercurial	<i>Chem., Geol.</i>	पारदीय, मर्क्युरियल	mercury trap	पारद पाश
mercurial barometer		पारद-वायुदावमापी, पारद-बैरोमीटर	mercury tray	पारद किशती, पारद- तश्तरी, पारद ट्रे
mercurial horn ore	<i>Geol.</i>	कैलोमेल	mercury vapour lamp	पारद-वाष्प दीप, पारद-वाष्प लैम्प
mercurial thermo- meter		पारदिक तापमापी, पारदिक थर्मामीटर	mercury vapour pump	पारद-वाष्प पम्प
mercuric		पारदिक, मर्क्यूरिक	mercury vapour rectifier tube	पारद वाष्प डिप्टकारी नलिका
mercuric cyanide		मर्क्यूरिक सायनाइड	mercury vapour tube	पारद वाष्प नली
mercuric fulminate		मर्क्यूरिक फुल्मिनेट	Merdeka	<i>Geog.</i> मेरडेका
mercuric oxide		मर्क्यूरिक ऑक्साइड		

merdivorous (coprophagous)	Zool.	विष्ठाहारी	meridional plane		रेखाशिक तल
mere (near)	Geog., Geol.	1. सीमारेखा 2. मीयर	meridional scale	Geog.	याम्योत्तरी माप
merestone		सीमा पत्थर	meridional sextant		याम्योत्तर सेक्सटैन्ट
merest touch	Geog.	सूक्ष्मतम स्पर्श	meridosternous	Zool.	मेरोडोस्टर्नेस, एकाग्र- कीय
Meretrix	Zool.	मेरेट्रिक्स	merising	Chem	मेरीलाइसन
Meretrix casta		मेरेट्रिक्स कास्टा	meringue	H Sc	मेरंग
Meretrix meretrix		मेरेट्रिक्स मेरेट्रिक्स	merino	H Sc.	मेरीनो
Meretrix ovum		मेरेट्रिक्स ओवम	merino crepe	H Sc	मेरीनो क्रेप
merge		विलय	Merismopedia elegans	Bot	मेरिस्मोपीडिया एली- गैन्स
mergence	Geog.	विलय	merispore	Bot	अशबीजाणु
merge of documents	Math.	प्रलेखों का विलय	meristem	Bot	विभज्योतक, मेरिस्टेम
meriblastic	Bot	अशकीरक	meristemetic		विभज्योतकी, मेरिस्टमी
mericarp	Bot.	फलाशक	meristemetic tissue		विभज्योतक, मेरिस्टमी ऊतक
mericlinal chimaera	Bot., Zool.	त्रिव्यखडाशी विचित्रोत्पत्ती	meristic character	Zool	गणनीय लक्षण
meridian		याम्योत्तर, ध्रुववृत्त	meristoderm	Bot.	विभाजकत्वक्
meridian altitude		याम्योत्तरी उन्नतांश	meristogenous	Bot	एकतनुज
meridian circle		याम्योत्तर वृत्त	merit (of coil)	Phy	गुणताक
meridian day		याम्योत्तर दिवस	meritectic (=peritectic)	Chem	परिक्रान्तिक
meridian lines		याम्योत्तर रेखाएँ	merit of tube	Phy.	नलिका गुणताक
meridian of Greenwich	Geog	ग्रीनिच ध्रुववृत्त	Merling's formula	Chem.	मेरिंग सूत्र
meridian of longitude		देशान्तरीय याम्योत्तर	Merluccius	Zool.	मर्लुसियस
meridian passage		याम्योत्तर स्थानान्तरण	mermaid	Geog.	जलपरी
meridian plane	Phy.	अक्षीय तल	meroblastic	H.Sc., Zool.	अशभजी
meridian section		याम्योत्तरीय काट, अक्षीय काट	meroblastic cleavage		अशभजी विदलन, अपूर्ण विदलन
meridional		1 रेखाशिक 2. याम्योत्तरीय	meroblastic division		अशभजी विभाजन
meridional arc	Geog.	याम्योत्तरीय चाप	meroblastic ovum		अशभजी अंडाणु
meridional canal		रेखाशिक नाल	merocrine gland	Zool.	अंशस्रावी ग्रंथि
meridional circulation	Geog., Geol.	उत्तर दक्षिणी परिसंचरण, रेखाशिक परिसंचरण	merocrine secretion		अशस्रावी स्राव
meridional cleavage		रेखाशिक विदलन	merocrystalline	Geol	अंश विस्टली
meridional deflection	Geog.	याम्योत्तरीय विक्षेप	merocyte	Zool.	अशणु
meridional direction	Geog.	याम्योत्तरीय दिशा	merogamy	Bot.	प्रयुग्मन
meridional focal line		रेखाशिक फोकस रेखा	merogony	Zool.	मीरोगोनी, अशविभजन
meridional furrow		रेखाशिक छीता	Merogregarina	Zool.	मीरोगिगेरिना

merohedral twin	Phy.	बंशकृतकी यमन	merry-thought bone	Zool.	फरकुला
meroistic egg tube	Zool.	पोषी बंडनलिका	Merseberg process	Chem.	मर्सबर्ग प्रक्रम
meroistic ovariole		पोषी बंडावयक	Meruliaceae	Bot.	मेरुलिएसी
meroistic type		पोषी प्रकार	<i>Merulius domesticus</i>		मेरुलियस डोमेस्टिकस
merokarst	Geog.	बंशकार्स्ट	merus	Zool.	करुबंड
meromictic	Geog.	मेरोमिक्टिक	merv	H.Sc.	मर्व
meromictic lake		मेरोमिक्टिक झील	Merychippus	Zool.	मेरीकिप्पस
meromictic stratification		मेरोमिक्टिक स्तरण	mesa	Geol.	मेसा
meromixis	Geog.	मेरोमिक्सिस, बहुरंग परिवर्तन	Mesacanthidae	Zool.	मेसैकैन्थिडी
meromorphic function	Math.	बनवकी फनक्शन	mesaconic acid	Chem.	मेसाकोनिक अम्ल, मेसाकोनिक ऐसिड
meromyosin	Chem.	मेरोमायोसिन	mesadenia	Zool.	मेसाडेनिया, मध्य ग्रंथि
meron		मेरोन	mesanthophilic	Bot.	उदासीनता रागी
meronephridium	Zool.	अंगवृक्कक	mesantoin (methoin)	Chem.	मेसैन्टोइन (मेथोइन)
meront	Bot.	खंडक	mesarch	Bot.	मध्यादिदाहक
*Merope (= δ Tauri)	Astron.	मेरोपी (δ वृष, δ टॉरस)	*Mesartim (= γ Arietis)	Astron.	मेसार्तिम (= γ मेष, γ एरिएटिस)
meropelagic	Zool.	अंगवेलानवती	mesaticephalic	Geog.	मेसाटिसिफालीय
merophyte	Bot.	खंडोद्भिद्	mesa transistor	Phy.	मेसा ट्रांजिस्टर
Meropidae	Zool.	मेरोपिडी	mesa village	Geog.	मेसा ग्राम
meroplankter	Zool.	अंगम्लवकांश	Mesaxonia	Zool.	मेसैक्सोनिया
meroplankton	Bot., Geol., Zool.	अंगम्लवक	mesaxonic	Zool.	मध्यांश, मध्यांशी
meropodite	Zool.	खंडनादांश	mesaxonic condition		मध्यांश अवस्था
meroquinene		मेरोक्विनीन	mesaxonic pattern		मध्यांश प्रतिरूप
merosporangium	Bot.	खंडबीजाणुधानी	mescal	Chem.	मेस्कैल
Merostomata		मेरोस्टोमेटा	mescaline	Chem.	मेस्कैलीन
merotrichous	Zool.	अंगशूक	mesencephalic flexure	Zool.	मध्यमस्तिष्क आनमन
merotype	Bot.	बनव प्ररूप	mesencephalon		मेसेन्सेफालोन, मध्यमस्तिष्क
meroxene	Chem., Geol.	मेरोक्सिन	mesenchymal	Zool., Geol.	मध्योतक
merozoite (schizozoite)	Zool., H.Sc.	खंडजाणु	mesenchymal cell		मध्योतक कोशिका
merozygote	Zool.	अंगयुग्मक	mesenchymal gland		मध्योतक ग्रंथि
Merrill Crowe process	Chem.	मेरिल क्रोव प्रक्रम	mesenchymal muscle system		मध्योतक पेशी-तंत्र
Merrill filter		मेरिल फिल्टर	mesenchymal musculature		मध्योतक पेशीविन्याय
merrillite	Chem.	मेरिल्लाइट	mesenchymal net		मध्योतकी जाल
Merrill press	Geol.	मेरिल प्रेस			
merina wool	H.Sc.	मेरिन वूल			

mesenchymal sclerite		मध्योत्तरी स्क्नेराइट	mesic structure	Phy.	मेसानी संरचना
mesenchymal tissue		मीजेतकाइमल ऊतक, मध्योत्तक	mesidine	Chem.	मेसिडीन
mesenchyme	Zool.	मीजेन्काइम, मध्योत्तक	mesinfraepisternum	Zool.	मध्यअन्तःप्रपाश्वंक
mesenterial	Zool.	आन्त्रयोजनी, पटीय	mesitic	Chem.	मेसिटिक
mesenterial sinus		आन्त्रयोजनी कोटर	mesitic acid		मेसिटिक अम्ल
mesenteric		मेसेन्टेरिक, आन्त्रयोजनी	mesitic alcohol		मेसिटिक ऐल्कोहॉल
mesenteric artery		मेसेन्टेरिक धमनी, आन्त्रयोजनी धमनी	mesitite	Chem.	मेसिट्टाइट
mesenteric filament	Zool.	पटीय तन्तु	mesitoate	Chem.	मेसिटोएट
mesenteric node		आन्त्रयोजनी पर्व	mesitoic acid	Chem.	मेसिटोइक अम्ल
mesenteric vein		मेसेन्टेरिक शिरा, आन्त्रयोजनी शिरा	mesitylene	Chem.	मेसिटिलीन
mesenteron	Zool.	मेसेन्टरॉन, मध्यांत्र	mesityl oxide		मेसिटिल ऑक्साइड
mesenteron rudiments		मध्यांत्र अवशेष	mesium	Chem.	मेसियम
mesentery	Zool.	मेसेन्टरी, आन्त्रयोजनी	Mesnager test piece	Chem.	मेसनाजेर संपरीक्षण घट
mesentoblast	Zool.	मध्यान्तरकोरक	mesobenthos	Geog. Zool.	मेसोबेंथोस, मध्यवितल मध्यवितलक
mesentoblast cell		मीसेन्टोब्लास्ट कोशिका, मध्यान्तरकोरक- कोशिका	mesobilirubinogen	Chem.	मेसोबिलीरुबिनोजेन
mesentoderm	Zool.	मध्यान्तर्जनस्तर	mesoblast	Zool.	मध्यकोरक
mesepimeron	Zool.	मध्यपश्चपाश्वंक	mesoblastic band		मध्यकोरकीय ध्रुव- कोशिका
mesepisternum	Zool.	मध्याप्रपाश्वंक, मेसेपिस्टर्नम	mesoblastic pole cell		मध्यकोरकीय ध्रुव- कोशिका
mesethmoid	Zool.	मीजेथमॉइड, मर्सरिका	mesoblastic somite		मध्यकोरक कायघट
mesh	Chem., Geol., Math.	1 जाली 2. (of net) जालाक्षि	Mesoblastus		मेसोब्लैस्टस
mesh analysis	Phy.	पाश विखेयण	mesobranchial	Zool.	मध्यकलोमी
mesh fraction	Chem.	जालाक्षि प्रमाण	mesobrochate	Bot.	मध्य जालिकाशी
mesh of network		जाल के पाश	mesobronchium	Zool.	मध्यश्वमनी
mesh points	Math.	जालाक्षि बिन्दु	mesobronches	Zool.	मध्यश्वमनी, मीसीब्रोचस
mesh slide		जालाक्षि भुजा	mesocardium	Zool.	हृदयोजनी
mesh sieve	Chem.	जाली चालनी	mesocarp	Bot.	मध्य कर्न-वर्धित
mesh-structure	Geol.	जाल संरचना	mesocatalyst	Chem.	मध्य उत्प्रेरक
mesh system	Math.	जालाक्षि-निकाय	mesocercaria	Zool.	मेसोसर्कारिया
mesh work		जाल	mesocerebrum	Zool.	मध्यमस्तिष्क
mesial	Geol.	मध्य	mesochil	Bot.	मोष्टमध्यक
mesic atom	Chem.,Phy.	मेसिक परमाणु मेसॉनिक परमाणु	mesochite	Bot.	मध्यच्छद
			mesocoele	Bot.	मध्यगुहा
			mesocolloid	Phy.,Chem.	मेसोकॉलोइड
			mesocolloidal		मेसोकॉलोइडी, मध्य कोलाइडी
			mesocolon	Zool.	मध्यवत्रयोजनी

mesocolpium	Bot.	विदरक मध्य
meso-complex	Chem.	मेसो संकुल, मध्य संकुल
mesocoracoid	Zool.	मेसोकौराकायड, मध्य- वंसतुंड
mesocoria	Zool.	मध्यसंधिकला
mesocotyl	Bot.	दलमध्यक, बीजपत्र मध्यक
mesocoxa	Zool.	मध्यकजांग
mesocoxal cavity		मध्यकजांगी गुहिका
mesocrystalline	Geol.	मध्यमक्रिस्टली
mesocuneiform	Zool., Geol.	मध्यकोलकास्त्रि
mesoderm	H.Sc., Zool.	मध्यजनस्तर, मेसोडर्म
mesodermal somite		मध्यजनस्तर कायखंड
Mesodesma glabraium	Zool.	मेसोडेस्मा ग्लब्रेटम
mesodesmic	Chem., Phy.	मध्याबंध
mesodesmic structure		मध्याबंधी संरचना
mesodont	Zool.	मध्यदन्ती
mesoduodenum	Zool.	ऋहनीयोजनी
mesofauna	Zool.	मध्यप्राणिजात
meso-form		अंतःपूरित रूप, मेसो रूप
mesofurca	Zool.	मध्यद्विशिख
mesogamy	Bot.	मध्यप्रवेश
mesogaster	Zool.	जठरयोजनी
mesogastrium		जठरयोजनी
mesogenous	Bot.	मध्यज
mesogeosyncline	Geol.	मध्यस्थ भूवसितति
mesogloea	Geol., H.Sc., Zool.	मध्यरलेपस्तर, मेसोग्लिया
mesogloea cell		मध्यरलेपस्तर कोशिका
mesogonadic	Zool.	मध्यजनप्रदीप, मध्य- जनद
mesohaline water	Geol.	नितलवनी जल
Mesohippus	Zool.	मेसोहिप्पस
mesohydrophyte	Bot.	मध्यजलोद्भिद्
meso-ionic compound	Chem.	मध्य आयनी यौगिक
mesokarst	Geog.	मध्यकास्ट, मेसोकास्ट
mesokurtic	Math.	मध्यककुटी
mesokurtic curve		मध्यककुटी वक्र

mesokurtosis		मध्यककुटता
mesolamella	Zool.	मध्यपटलिका
mesolecithal	Zool.	मध्यपीतक, मीसोलेसिथल
mesolimnion	Zool.	मध्यतापस्तर
mesolite	Geol.	मेसोलाइट
mesolithic	Geol.	मध्यपाषाणी
mesome	Bot.	मेसोम
mesomere	Zool.	मध्यखंड
mesomeric effect	Chem.	मेसोमरी प्रभाव
mesomerism	Chem.	मेसोमरता, मध्यावयवता
mesomeros	Zool.	मध्यखंड
mesometamorphism	Bot., Geol.	मध्यकायांतरण
mesometeorological	Geol.	स्थूलमौसम वैज्ञानिक
mesomitosis	Zool.	मध्यमूत्रण, मध्यमूत्री- विभाजन
mesomorphic	Bot.	मध्याद्भिदी
mesomorphic structure	Chem.	मध्य आकृतिक संरचना, मेसोमॉर्फिक संरचना
mesomorphic state	Chem.	मेसोमॉर्फिक अवस्था, मध्य आकृतिक अवस्था
mesomorphism	Chem.	मध्यरूपिता
mesomyodian	Zool.	मेसोमयोडियन, मध्य- शब्दनीपिशीय
meson	Phy.	मेसॉन
Mesonacis	Geol.	मेसोनेसिस
mesonephric duct	Zool.	मध्यवृक्क बाहिनी, बोल्की बाहिनी
mesonephric tubule		मध्यवृक्क नलिका
mesonephros	Zool., H.Sc.	मध्यवृक्क
meson field function	Phy.	मेसॉन क्षेत्र फलन
mesonic atom	Phy.	मेसॉनिक परमाणु
mesonic field	Chem.	मेसॉनिक क्षेत्र
mesonic potential well (=yukawa potential well)	Phy.	मेसॉनी विभवकूप, युकावा विभवकूप
mesonotum	Zool.	मध्यवसपृष्ठक
meson transformation	Phy.	मेसॉन रूपांतरण
meson wave function		मेसॉन तरंग फलन
meson wave function field		मेसॉनी तरंग फलन क्षेत्र

Mesonychidae	Zool	मेमोनीकिडी	mesopterygium	Zool.	मध्यपखक
Mesopalaeaster	Chem.	मेसोपैलिऐस्टर	mesopterygoid	Zool	मध्यत्वयिका
mesopause	Geol.	मध्य सीमा	mesoptile	Zool	मीथोप्टाइल, द्वितीय- शावपिच्छ
mesopegmatophyte	Geol.	बल्पयामपेगमैटोफायर	mesorchium	Zool.	बृषणधर, मेसोक्रियम
mesopelagic	Zool.	मध्यवेलापवर्ती	mesorectum	Zool.	मलाशययोजनी
mesopelagic zone		मध्यवेलापवर्ती महल	mesorhabdion	Bot	बन्धोच्छगुहा भित्ति
meso-perigenous	Bot.	मध्यपरिज	mesorhinal	Zool	मध्यघ्राणीय
mesoperiodate	Chem.	मेसोपरब्रायोडेट	mesorrhine	Geog	मेसोराइन, मध्यम नास
mesoperiodic acid		मेसोपरब्रायोडिक अम्ल	mesosalpinx	Zool	फलोपी मोत्रनी
mesophanerophyte	Bot	मध्य व्यक्तोद्भिद्	mesosaprobe	Biol.	समपूति जीव
mesophase	Chem	मध्य प्रावस्था	mesosaprobia		समपूतिजीवन
Mesophella	Bot.	मीडोफेलिया	mesosaprobic		समपूतिजीवी
mesophil	Zool	मध्यरागी	mesoscapular segment	Zool.	मध्यअसफलक खंड
mesophilic	Zool.	मध्यरागीय (मध्यतापरागीय)	Mesosceptron		मेसोसेप्ट्रान
mesophragma	Zool.	मध्यवृत्ति	mesoscopic	Bot	मध्याकार
mesophyll	Bot, H.Sc.	1. पर्णमध्योत्तक 2. मध्यम पर्ण	mesoscutellum	Zool	मध्यस्कूटेलम
mesophyllous		मध्यपर्णी	mesoscutum	Zool.	मध्यस्कूटम
Mesophyllum	Bot	मेसोफिलम	mesosiderite	Geol	मेसोसिडेराइट
Mesophyllum vesiculosum		मेसोफिलम वेसीकुलो- सम	mesosoma	Zool, Geol	मध्यकाय
mesophyte	Bot, Geog.	समोद्भिद्	mesosomatic		मध्यकायिक
mesophytic		समोद्भिदीय	mesosomatic appendage		मध्यकायिक उपाग
mesophytic forest		समोद्भिदीय वन	mesosomatic segment		मध्यकायिक खंड
mesophytic vegetation		समोद्भिदीय वनस्पति	mesosome	Zool	मध्यकाय, मीडोसोम (phallosome)
mesopiestic	Geog.	मेसोपीस्टी	mesosphere	Geol.	मध्यमण्डल
mesoplankton	Zool., Geol., Geog.	मध्यप्लवक	mesospore	Bot.	मध्यबीज, मध्यबीजाणु
mesoplasm	Bot.	मेसोप्लासम, मध्य प्रद्रव्य	mesosporinulum	Bot	पराग मध्यबीज
mesoplastron	Zool.	मध्यत्रय	mesosporium	Bot	बीजाणु मध्यबीज
mesopleurite	Zool	मध्यपारवकाश	mesosternal cavity	Zool:	मध्याघरक गुहिका
mesopleuron	Zool	मध्यपारवक	mesosternum		1. मेसोस्टेनम, मध्य- उरोस्थि 2. मध्याघरक
Mesoplodon		मेसोप्लोडोन	mesostigmata	Zool.	मध्यवक्रागच्छ
mesopodium	Zool.	मध्यपाद	mesostilbene diamine	Chem	मैथो-स्टिलबीन डाई- ऐमीन
mesopora		मध्यपानी	mesostom	Bot.	मध्य स्टोम
mesopore	Zool, Geol.	मध्यरंध्र	mesostriatum	Zool.	मध्यरेखित पिर
mesoporium	Bot.	सूत्रक मध्य			



mesostylous	Bot.	मध्यवर्तिक	mesozoic fossil		मध्यजीवी जीवाश्म
mesotarsal joint	Zool.	मध्यगुल्फिका संधि	mesozoic mammal		मध्यजीवी स्तनी
mesotarsus	Zool.	मध्यगुल्फ	Mesozoic period		मध्यजीवी काल, मेसोजोइक काल
mesotartaric acid	Chem.	मेसोटार्टरिक अम्ल, मेसोटार्टरिक एसिड	mesozoic plexus		मध्यजीवी जालक
mesotergal muscle	Zool.	मध्यपृष्ठक पेशी	mesozoic pterido- sperm		मध्यजीवी बीजीपर्णांग, मध्यजीवी टेरिडोस्पर्म
mesotergal pulsatile organ	Zool.	मध्यपृष्ठक स्पन्दी अंग	mesozone	Geol.	मध्यमण्डल
mesotergum	Zool.	मध्यपृष्ठक	mesozooid	Zool.	मध्यजीवक
mesothamnion	Bot.	मध्य सरोवरस्तर	mesquite	Geog.	मैस्कीट (वनस्पति)
mesotherm	Bot., Geol., Geog.	मध्यतापी	mesquite grass		मैस्कीट-घास
mesothermal		मध्यतापीय	mesquite thicket		मैस्कीट झुरमुट
mesothermal climate		मध्यतापीय जलवायु	message	Phy.	संदेश
mesothermal deposit		मध्यतापीय निक्षेप	message register		संदेश अभिलेखी
mesothermic hygrophilous		मध्यतापीय आर्द्रता रागी	messenger	Zool.	प्रेषक, दूत
mesothermophilae		मध्यतापरागी	messenger RNA	Zool.	दूत आर एन ए
mesothetic reaction	Bot.	मध्यप्रतिक्रिया	mesta	Geog.	मैस्टा (संगठन)
mesothoracic terga	Zool.	मध्यवक्षीय पृष्ठक	mestem	Bot.	मैस्टेम
mesothoracic pulsatile organ	Zool.	मध्यवक्षीय स्पन्दी अंग	mestiza	H.Sc.	मैस्टीजा
mesothorax	Zool.	मध्यवक्ष	mestizo	Geog.	मैस्टीजो
mesothorax ganglion		मध्यवक्ष गुच्छिका	mestome		मैस्टोम
mesothorium	Bot., Chem., Phy.	मेसोथोरियम	Mesua ferrea	Bot.	मैसुआ फेरिआ (नाग केसर)
mesotil	Geol.	मेसोटिल	mesyl	Bot.	मेसिल
mesotrochal	Zool.	मध्यचक्रक	meta-Abelian group (=metabelian group)	Math.	अध्याबेली समूह
mesotron	Phy.	मैसोट्रॉन	meta aluminate	Chem.	मेटा-ऐल्यूमिनेट
mesotrophic	Zool.	मध्यपोपी	meta argillite	Geol.	मेटाआर्जिलाइट, मेटा-दुबुमुदाश्म
mesotrophy		मध्यपोषिता	meta arsenic acid	Chem.	मेटा-आर्सेनिक अम्ल, मेटा आर्सेनिक एसिड
mesotubarium	Zool.	अंडवाहिनी योजनी, हिम्नवाहिनी योजनी	meta basalt	Geol.	मेटा-बेसाल्ट
mesotype	Chem., (Met.)	मैसोटोइप	metabasidium	Bot.	मेटाबैसिडियम
mesovarium	Zool.	मीसोवेरियम, अंडाशयधर	metabasite	Geol.	मेटाबैसाइट
Mesozoa	Zool.	मेसोजोजा (मध्यजन्तु)	metabentonite	Geol.	मेटाबेन्टोनाइट
mesozoan		मध्यजन्तु	metabiont	Bot.	बहुकोशी जीव
Mesozoic Era	Geol., Zool., Bot.	मध्यजीवी महाकल्प	metablosis	Zool.	अनुजीविता

metablotite	Geol.	मेटाब्लोटोटाइट	metachromatic	Bot., Zool.	1. विविधरञ्जनीय 2. विविधरञ्जक
Metabola	Zool.	मेटाबोला	metachromatic granule	Bot.	विविधरञ्जक कणिका
metabolic	Biol.	मेटाबोलिक, उपापचयी	metachromatin	Bot., Zool.	मेटाक्रोमेटिन
metabolic anomalies	Chem.	उपापचयी असंगति मेटाबोलिक असंगति	metachromatin granule		मेटाक्रोमेटिन कणिका
metabolic defect		उपापचयी दोष	metachromy	Bot.	वर्णान्तरण
metabolic exchange cycle		उपापचय चक्र	metachronal rhythm	Zool.	अनुक्रमिक लय
metabolic product		उपापचयी उत्पाद	metachronal wave	Bot.	एकान्तरवर्ती तरंग
metabolic water		उपापचयी जल	metachronism	Zool.	अनुक्रमिकता
metabolism	H.Sc., Zool.	उपापचय	metacalse	Geol.	उत्तरदिहन
	Chem.	उपापचय	metacneme	Zool.	मेटाक्नेम
metabolite	Biol.	उपापचयक, मेटाबोलोटाइट	metacinnabar	Bot., Chem.	मेटासिनाबार
metabolous	Zool.	वायान्तरी	metacinnabarite		मेटासिनाबारोटाइट
metaboly	Bot.	आकारान्तरण	metacoele	Zool.	पृथ्वीगुहा, मेटाकोली
meta bond	Chem., (Met.)	मेटा बाँध, धातुबंधक	metacolloid	Chem.	मेटाकोलाइड
metabranhial	Zool.	पृथ्वीगुहा	metacompact space	Phy.	अधिमहन समष्टि
meta carbonate	Chem.	मेटाकार्बोनेट	metacone	Zool.	पृथ्वीगुहा
metacarbonic acid		मेटाकार्बोनिक् अम्ल	metaconid	Geol.	मेटाकोनिड
metacarpal	Zool.	करभिका, मेटाकार्पाल	metacglomerate	Geol.	वायान्तरी समुदिकारम, मेटासमुदिकारम
metacarpodigital		करभिक-अंगुलि	metacoxa	Zool.	पृथ्वीगुहा
metacarpus	Zool.	करभ, मेटाकार्पस	metacresol purple	Bot., Chem.	मेटा-क्रोमोल पर्सल, मेटा-क्रोमोल मीनलोहित
meta centre	Math., Zool., Phy.	आप्लव केन्द्र	Metacrinus	Zool.	मेटाक्रिनस
metacentric		1. आप्लव केन्द्र 2. मध्यकेन्द्र	Metacrinus interruptus		मेटाक्रिनस इन्टरप्टस
metacentric chromosome		मध्यकेन्द्र गुणसूत्र	metacritical temperature	Chem.	मध्यक्रान्तिक ताप
metacentric parabola		आप्लव केन्द्र परवलय	metacromian process	Zool.	पृथ्वीगुहा प्रवर्ध
metacentric ratio		आप्लव केन्द्र अनुपात	metacryptozoid	Zool.	मेटाक्रिप्टोडोइड
metacephalon	Zool.	पृथ्वीगुहा, मेटासिफैलॉन	metacryptozoite	Zool.	अनुक्रिप्टोडोइड, मेटाक्रिप्टोडोइड
metacercaria	Zool.	मेटासर्कारिया	metacryst	Geol.	मेटाक्रिस्ट
metacercarial stage		मेटासर्कारिया अवस्था	metacrystal		मेटाक्रिस्टल
metacerebrum	Zool.	पृथ्वीगुहा	metacycle equation	Math.	अनुचक्रिय समीकरण
metachloridine	Chem.	मेटा क्लोरिडीन	metacyclic	Zool.	अनुचक्रिय
metachromasia (metachromasy)	Zool.	विविधरञ्जकता			

metacyclic form		अनुचक्री रूप	metal base transistor		धातु-बेस ट्रांजिस्टर
metacyclic stage		अनुचक्री अवस्था	metal bearing ore		धातुमय अवस्क-
metadiscoidal placenta	Zool.	परचक्रकाम अपरा	metal carbonyl		धातु कार्बोनिल
metadolerite	Geol.	मेटाडोलेराइट	metal catalysed		धातु-उत्प्रेरित
metadyne	Phy.	मेटाडाइन	metalclad fusion cutter		मेटल क्लेड गलन कर्तन
metadyne drive (=amplidyne drive)		ऐम्प्लिडाइन चालक	metal coated		धातु लेपित
metaepimeron (metepimeron)	Zool.	परचएपीमीरॉन, परच-परचपाश्चक	metal comparator		धातु तुलनित्र
metaepisternum (metepisternum)	Zool.	परचाप्रपार्वक	metal complex		धातु-संकुल
metaflavoprotein	Bot., Chem.	मेटाफ्लवोप्रोटीन	metalcote		मेटलकोट, धातु लेप
metafluidal	Geol.	गतिक प्रवाही	metal cutting fluid		धातु कर्तन तरल
meta gabbro	Geol.	मेटा गैब्रो	metal deactivator		धातु निष्क्रियक
metagalaxy	Math.	वधिनसंदाकिनी	metaldehyde	Chem.	मेटऐलिडहाइड
Metagallate	Chem.	मेटागैलेट	metal detector		धातु संसूचक
metagame matrix	Math.	वधिवेल आव्यूह	metal disc		धातु-चक्रिका
metagame pay off matrix		वधिवेल भुगतान आव्यूह	metal dyebaths		धातु रंजक अवगाह
metagastric	Zool.	परचजठरीय	metalepsy	Chem.,	प्रतिस्वपन
metagastrula	Zool.	परचकन्दुक	metaleucite	Geol.	मेटाल्यूसाइट
metagenesis	Zool., H.Sc.	मेटाजेनेसिस, समकान्तरण	metal eye		धातु अक्षिका
metageometry	Math.	अयुक्लिडीय ज्यामिति	metal film resistor		धातु फ़िल्म प्रतिरोधक
metagnatha	Zool.	प्रह्वी	metal fog		धातु कूहा
metagnathous	Zool.	मेटाग्नैथस, व्यत्यस्तचंचु	metal galley		धातु गैली
metagonia	Zool.	परचकोण	metal gathering		धातु संग्रहण
metagyny	Zool.	परचजायता	metal glaze resistor		धातु काचित. प्रतिरोधक
metahalloysite	Geol., Geog.	मेटाहेलॉयसाइट	metal-globe		धातु-ग्लोब
metahexamide	Chem.	मेटाहेक्समाइड	metalimnion (thermocline)	Bot., Zool., Geol.	मध्यसर
metahydroxide	Chem.	मेटाहाइड्रॉक्साइड	metal inlaying		धातु खचन
meta-igneous rock	Geol.	मेटा आग्नेय शैल	metal ion indicator		धातु आयन सूचक
metal		1. धातु 2. मौलिक द्रव्य	metal ion sensitive indicator		धातु आयन सुग्राही सूचक
metal arc welding		धातु-चाप संघान	metal lace	H.Sc.	धातु-लेस
metalastic		खर धातु बंधन	metallate	Chem.	मेटलेट, धातु-संकल
metalation		धातु वेगन, धातु निवेश	metallato	Chem.	धातुसंकुल, मेटलेटो
metalayer process	Chem.	मेटलेयर प्रक्रम	metal leaf		धातु पत्ती
metal backing		धात्विक पृष्ठ लेप	metalled road	Geog.	पक्की सड़क
			metallescent	Chem.	धात्वामासी
			metallescent effect		धात्वामासी प्रभाव

metallic	<i>Chem., Geol.</i>	धातु, धात्विक	metal ligand bond		धातु सलनी बाध, धातु लिगंडे बाध
metallic binding		धात्विक बन्धन	metal ligand bonding		धातु-सलनी बाधन
metallic bond		धात्विक आबंध	metal line		मेटल रेखा
metallic bonding		धात्विक बाधन	metalline	<i>Geol.</i>	धात्विक
metallic catalyst		धात्विक उत्प्रेरक	metallisation		1. धात्विकीकरण 2. धातु लेपन
metallic circuit		धात्विक परिपथ	metallites	<i>Geol.</i>	मेटल्लाइड्स
metallic conductivity		धातुक चालकता	metallizable dye		धात्विकीय रजक
metallic emitter		धात्विक उत्सर्जक	metallize		धातुलेपन
metallic fabric		धात्विक वस्त्र	metallized acid dye		धात्विक अम्ल रजक
metallic filings		धातु का रेतन	metallized capacitor		धात्विकृत संधारित्र
metallic force		धातु-बल	metallized resistor		धात्विकृत प्रतिरोधक
metallic halide		धात्विक हैलाइड	metallizing		धातुक्षेपण
metallic ion		धात्विक आयन	metallocene	<i>Chem.</i>	मेटलोसीन
metallic ketyl		धात्विक केटिन	metallochrome		धातु वर्णता
metallic line star		धातुरेख तारा	metallogenic	<i>Geol., Geog.</i>	धातु जननिक
metallic lustre		धात्विक द्युति, धात्विक चमक	(= metallogenetic)		
metallic meteorite		धात्विक उल्कापिंड	metallogenic element	<i>Geol.</i>	अयस्क तत्व
metallic mineral		धात्विक खनिज	metallogenic epoch		धातुजननिक युग
metallic mirror		धातुक दर्पण	(= metallogenetic epoch)		
metallic mordant		धातु रजक	metallogenic map		धातु उत्पादन-दर्शा मानचित्र
metallic negative		धात्विक नेगेटिव	metallogenic province		धातुजननिक क्षेत्र
metallic orbital		धातुक कक्षाक	(= metallogenetic province)		
metallic polyanions		धातुक बहु-ऋणायन	metallogeny	<i>Geol.</i>	धातु जननिक
metallic prominence		धात्विक सौरज्वाला	metallographic	<i>Phy.</i>	धातु चित्रण सूक्ष्मदर्शी
metallic rectifier		धात्विक दिष्टकारी	microscope		
metallic reflection		धात्विक परावर्तन	metallographic technique		धातु चित्रण तकनीक
metallic ring		धातु-वलय	metallography		1. धातु वर्णना 2. धातु चित्रण
metallic salt		धात्विक लवण	metalloid		उपधातु
metallic slat		धातु पत्ती	metalloprotein		धात्विक प्रोटीन
metallic soap		धातुक साप	metallurgical	<i>Chem.</i>	धातुकर्म-सम्बन्धी, धातु-कर्मिक
metallic tape		धात्विक क्रीता	metallurgical treatment		धातुकर्मिक उपचार
metallic wire		धातु-तार	metallurgist		धातुकर्मिक
metallic yarn		धातु सूत्र			
metalliferous	<i>Geog.</i>	धातुमय			
metalliferous region		धातुमय क्षेत्र			
metalliferous vein		धातुमय शिरा			

metallurgy		धातुकी, धात्विकी, धातु-कर्म	metamerism	<i>Chem. Biol.</i>	1. मध्यावयवता 2. विखंडावस्था
metallurgy of powders		चूर्णिक धातुकी	metamerization		विखंडीभवन
metal mounted		धातु-मढ़ा	metameros	<i>Zool.</i>	पश्चखंड
metal mounted blueprint		धातु मढ़ा नीला-छाप	metamesolite	<i>Geol.</i>	निर्जलीकृत मेसोलाइट
metalock		मेटलाक, धातु कर्म	metameter	<i>Math.</i>	परिचल
metalometer		धातु कठोरतामापी, मेट-लोमीटर	metamic	<i>Chem.</i>	मेटामिक
metaloph	<i>Zool.</i>	पश्च शिखर	metamict	<i>Geol.</i>	मेटामिक्ट
metal parts		धातुभारीय अंश	metamictization	<i>Geol.</i>	मेटामिक्टोभवन
metal physics		धातु भौतिकी	metamict mineralization		मेटामिक्ट खनिजन
metal plate		धातु-प्लेट	metamidium	<i>Chem.</i>	मेटामिडियम
metal plate rectifier		धातु पट्टिका दिष्टकारी	metamitosis	<i>Zool.</i>	पश्चसूत्रण
metal printer		धातु-मुद्रक	metamorphic	<i>Biol., Geol.</i>	कायांतरणी, कायांतरित, कायांतरी
metal probe		धातु एपणी	metamorphic assemblage		कायांतरी समुच्चय
metal rectifier		धात्विक दिष्टकारी	metamorphic aureole		कायांतरण-मण्डल
metal saccharate]		धातु सैकरेट	metamorphic change		कायांतरण
metal sorter		मेटल सार्टर, धातुसंवरक	metamorphic complex		कायांतरी जटिल संघ
metal spray	<i>Geog.</i>	धातु-स्प्रे, धातु फुहार	metamorphic differentiation		कायांतरी विभेदन
metal spraying		धातु शीकरण, धातु छिड़-काव	metamorphic diffusion		कायांतरी विसरण
metal stitching		धातु सीवन, धातु स्यूति	metamorphic fabric		कायांतरी संविन्यास
metal tender	<i>Chem.(Gl.)</i>	ताप नियन्ता	metamorphic facies		कायांतरित संलक्षणो
metal thread		धातु धागा	metamorphic grade		कायांतरी कोटि
metal tool		धातु-औजार	metamorphic migration		कायांतरणी प्रवास
metal tube		धातु-नली	metamorphic plutonic cycle		कायांतरी वितलीय चक्र
metal wood		धातु-काष्ठ	metamorphic rock		कायांतरित शैल
metal worker		धातु कर्मकार	metamorphics		कायांतरित शैल
metal working		धातु कर्म	metamorphic ferrane		कायांतरी क्षेत्र
metal working industry		धातु-शिल्प उद्योग	metamorphic water		कायांतरी जल
metamer	<i>Chem.</i>	मध्यावयवी	metamorphism	<i>Geol.</i>	कायांतरण
metamere	<i>Zool.</i>	विखंड	metamorphisme locale		कायांतर स्थानीकरण
metameric	<i>Zool., Chem., Geol.</i>	1. विखंडी 2. मेटामेरिक	metamorphisme stratique		कायांतर-स्तर
metameric sac		विखंडी कोश	metamorphosed	<i>Geol.</i>	कायांतरित
metameric segmentation		विखंडन			

<i>metamorphosed adinole</i>		कायांतरित एडिनोल	<i>Metapenaeus dobsoni</i>		मेटापेनियस डोब्सोनी
<i>metamorphosed sediment</i>		कायांतरित तलछट, कायांतरित अवसाद	<i>Metapenaeus monoceros</i>		मेटापेनियस मोनोसे- रांस
<i>metamorphosis</i>	<i>H.Sc., Zool.</i>	कायांतरण	<i>metapepsis</i>	<i>Geol.</i>	परिपाकांतरण, मेटापेप्सिस
<i>metamorphous</i>	<i>Geol.</i>	कायांतरी, कायांतरित	<i>metaperiodate</i>	<i>Chem.</i>	मेटा-परआयोडेट
<i>metamyelocyte</i>	<i>Zool.</i>	परचमज्जाणु	<i>metaphase</i>	<i>Biol., H.Sc.</i>	मेटाफेज, मध्यावस्था
<i>metanacrite</i>	<i>Geol.</i>	निर्वलीकृत नेत्राइट	<i>metaphasic plate</i>		मध्यावस्थीय पट्टिका
<i>metanauplius</i>	<i>Zool.</i>	मेटानीप्लियस	<i>metaphen</i>	<i>Chem.</i>	मेटाफेन
<i>metandry</i>	<i>Bot.</i>	स्त्रीपूर्वता, अनुपुसकता	<i>metaphenylene-diamine</i>	<i>Chem.</i>	मेटा फेनिलीन डाइएमीन
<i>Metanemertine</i>	<i>Zool.</i>	मेटानेमर्टीन	<i>metaphloem</i>	<i>Bot.</i>	अनुफ्लोएम, अनुपोषवाह
<i>Metanemertini</i>	<i>Zool.</i>	मेटानेमर्टिनाइ	<i>metaphosphimic acid</i>	<i>Chem.</i>	मेटाफॉस्फिमिक अम्ल
<i>metanephric diverticulum</i>	<i>Zool.</i>	परचवृक्क अंधवर्ध	<i>metaphragma</i>	<i>Zool.</i>	परचवृत्ति
<i>metanephric duct</i>		परचवृक्क वाहिनी	<i>metaphysical conception</i>	<i>Math.</i>	बधिभौतिकीय संकल्पना
<i>metanephridial</i>		परचवृक्कीय	<i>metaphysical philosophy</i>	<i>Phy.</i>	कल्पनामूलक दर्शन
<i>metanephridial type</i>		परचवृक्क प्ररूप	<i>metaphysics</i>	<i>Chem.</i>	तन्त्रमीमासा
<i>metanephridium</i>	<i>Zool.</i>	परचवृक्कक	<i>metaplanta</i>	<i>Zool.</i>	परचगुल्फसंनिधि
<i>metanephrine</i>	<i>Chem.</i>	मेटानेफ्रीन	<i>metaplasin</i>	<i>Bot.</i>	मेटाप्लासिन
<i>metanephrogenous</i>	<i>Zool.</i>	परचवृक्कजननीय	<i>metaplasia</i>	<i>Geol.</i>	मेटाप्लासिस, पूर्णविनाशा- वस्था
<i>metanephrogenous tissue</i>		परचवृक्कजननी ऊतक	<i>metaplasma</i>	<i>Biol.</i>	मेटाप्लासम, अजीवद्रव्य
<i>metanephromixium</i>	<i>Zool.</i>	परचवृक्ककमिश्र	<i>metapleural bristle</i>	<i>Zool.</i>	परचपारसर्वक मूक
<i>metanephros</i>	<i>Zool.</i>	परचवृक्क	<i>metapleural fold</i>		परचपारसर्वक पुट
<i>metanicotine</i>	<i>Chem.</i>	मेटानिकोटीन	<i>metapleure</i>		परचपारसर्वक
<i>metanilic acid</i>	<i>Chem.</i>	मेटानिलिक अम्ल	<i>metapleuron</i>	<i>Zool.</i>	परचपारसर्वक
<i>metanil yellow</i>	<i>Chem.</i>	मेटनिल यलो, मेटनिल पीत	<i>metapneustic respiratory system</i>	<i>Zool.</i>	परचरंज श्वसन संघ
<i>metanotal gland</i>	<i>Zool.</i>	परचनसपुच्छक ग्रंथि	<i>metapodeon</i>	<i>Zool.</i>	अनुवृत्तोदर
<i>metanotum</i>	<i>Zool.</i>	परचनसपुच्छक	<i>metapodium</i>	<i>Zool.</i>	परचपाद
<i>metanthesis</i>	<i>Bot.</i>	मदपुष्पन	<i>metapophysis</i>	<i>Zool.</i>	अधवर्ध
<i>metaoestrum</i>	<i>Zool.</i>	मेटाईस्ट्रम	<i>metapore</i>	<i>Zool.</i>	परचरंध
<i>metapatagium</i> (= postpatagium)	<i>Zool.</i>	परचचर्मप्रसर	<i>metaprogram</i>	<i>Math.</i>	बधि प्रोग्राम
<i>metaped</i>	<i>Zool.</i>	परचपद	<i>metapterygium</i>	<i>Zool.</i>	परचपंखक
<i>Metapenaeus</i>	<i>Zool.</i>	मेटापेनियस	<i>metapterygold</i>	<i>Zool.</i>	परच खपिका
<i>Metapenaeus affinis</i>		मेटापेनियस ऐफिनिस	<i>metaquartzite</i>	<i>Geol.</i>	मेटाक्वार्ट्ज आइट काया- ंतरी क्वार्ट्ज आइट
<i>Metapenaeus brevicornis</i>		मेटापेनियस ब्रेविकॉ- निस			

metarhabdion	Bot.	अनुरेवडियाँ.	metastasis	Geol.,	मेटास्टैसिस, अपररूपान्तरण
meta ripple	Geol.	मेटा-ऊर्मिका		Biol.	1. उपापचय (metabolism) 2. विलेप
metarrheophyte	Bot.	धारालग्नोडमिड	metastatic	Chem.	मेटास्टेटिक, मितस्वैतिक
metarteriole	Zool.	पश्चधमनिका	metastatic infection	Biol.	विलेपी संक्रमण
metascolex	Zool.	पश्चमूर्ध	metaster	Zool.	पश्चतारिका
metascope	Phy.	मेटास्कोप	metasternal epimera	Zool.	पश्चाधरकीय, पश्चपाश्वक
metascutellum	Zool.	पश्चस्कूटेलम	metasternal episterna		पश्चाधरकीय अग्रपाश्वक
metascutum	Zool.	पश्चस्कूटन	metasternal wing		पश्चाधरकीय पर्णम
metasediment	Geol.	मेटा अवसाद	metasternellum	Zool.	पश्चोपाधरक
metaseptum (metasepta)	Zool., Geol.	पश्चपट	metasternite	Geol.	मेटास्टर्नाइट
metasilicate	Chem.	मेटासिलिकेट	metasternum	Zool.	1. मेटास्टर्नम, पश्च-उरोस्थि 2. मेटास्टर्नम, पश्चाधरक
meta silicic acid	Chem.	मेटा सिलिसिक अम्ल, मेटा सिलिसिक ऐसिड	metastigmata	Zool.	पश्चश्वासाछिद्र
metasimulation	Math.	अध्यनुकार, अध्यनुकारिता	metastoma	Zool., Geol.	पश्चमुखक
metasitism	Zool.	अनुभलता	metastome		मेटास्टोम
metasoma (metasome)	Zool., Geol.	पश्चकाय	metastyle	Zool.	मेटास्टाइल, अनुदंताग्र
metasomal segment		पश्चकायिक खंड	metatarsal	Zool.	(n.) मेटाटार्सल, प्रपदिका, (adj.) मेटाटार्सली, प्रपदकीय
metasomatic		1. पश्चकायिक 2. प्रतिस्थापनी	metatarsus	Zool.	मेटाटार्सल, प्रपद
metasomatism	Geol.	तत्वांतरण, मेटैसोमैटिज्म	metatergum	Zool.	पश्चपृष्ठक
metasomatite	Geol.	मेटैसोमैटाइट, तत्वांतराकम्	metatheory	Math.	अधिसिद्धांत
metasomatosis	Geol., Geog.	तत्वांतरण	Metatheria	Zool.	मेटाथीरिया
metasome	Geol.	तत्वांतरी खनिज, मेटा-सोम	metathesis	Chem.	विनिमय
metasomosis	Chem. (Met.)	मेटासोमोसिस, अयस्क रूपान्तरण	metathetey	Zool.	पश्चपूर्णता
metaspiracle	Zool.	पश्चश्वासरंध्र	metathetical invariant	Chem.	विनिमय अचर
metastability	Geol.	मितस्वैयित्व	metathetic reaction		विनिमय अभिक्रिया
metastable	Chem., Phy., Geol.	मितस्वैयी	metathiotic acid	Chem.	मेटा धायोबोरिक अम्ल
metastable assemblage		मितस्वैयी समुच्चय	metathoracic organ	Zool.	पश्चवक्षीय अंग
metastable equilibrium		मितस्वैयी संतुलन, मेटा-स्टेबल संतुलन	metathoracic spiracle		पश्चवक्षीय श्वासरंध्र
metastable ion		मितस्वैयी आयन	metathoracic terga		पश्चवक्षीय पृष्ठक
metastable level		मितस्वैयी स्तर	metathoracic ganglion		पश्चवक्ष गुच्छिका
metastable relict		मितस्वैयी अवशेष	metathorax	Zool.	पश्चवक्ष
metastable state		मितस्वैयी अवस्था	metafroch	Zool.	पश्चचक्रक
metastannic acid		मेटास्टैन्निक अम्ल, मेटास्टैन्निक ऐसिड	metatrophic	Bot., Zool.	उभयपौषित, पश्चपौषित

metatropy	Geol.	भौतिक रूपांतरण, मेटा-ट्रॉपी	meteoritic detonation	उल्कापिंडीय विस्फोटन
metatungstate	Chem.	मेटाटंगस्टेट	meteoritic dust	उल्का धूलि
metatype	Zool, Geol	अनुप्ररूप	meteoritic energy	उल्का ऊर्जा
metavolcanics	Geol.	परिवर्तित ज्वालामुखी शैल	meteoriticist	उल्कापिंडविज्ञानी
metaxas	H Sc.	मेटाक्षम	meteoritic orbit	उल्का कक्षा
metaxenia	Bot	मेटाजीनिया, परागानु-प्रभाव	meteoritic process	उल्का प्रक्रम
Metaxya	Bot.	मेटाक्षया	meteoritic tectites	उल्कापिंडी टेक्टाइड्स
metaxylem	Bot.	अनुदाह, मेटासाइलम	meteor magnitude	उल्का-कातिमान
metaxylem type		अनुदाह-प्रकार	meteorograph	भौसमलेखी, मेटिओग्राफ
metayage	Geog	मेटेयाज	meteoroid	उल्काम
metazirconium chloride	Chem	मेटाजर्कोनियम क्लोराइड	meteorological	भौसमविज्ञान सम्बन्धी
Metazoa	Zool, H Sc	मेटाजोआ	meteorological disturbance	भौसम-सम्बन्धी विक्षोभ
metazoaecia	Zool.	मेटाजोइया, पञ्चजोइया	meteorological elements	भौसमवैज्ञानिक अवयव
metazoan	Zool.	उत्तरजन्तु	meteorological minima	भौसमी अल्पिष्ठ
metrolizing	Chem. (Met)	मेटकोलन	meteorological observatory	भौसम-प्रेक्षणशाला
metel	H Sc.	मोटेस	meteorological report	भौसम-विज्ञान रिपोर्ट
metelodine	Chem.	मेटेलोइडीन	meteorological rocket	भौसम रॉकेट
metencephalon	Zool	अनुमध्यमस्तिष्क, मेटेन्से-फैलॉन	meteorological sequence	भौसम-विज्ञान अनुक्रम
metenteron	Zool.	अन्वत	meteorological service	भौसम-विज्ञान सेवा
meteor		उल्का	meteorological survey	भौसम सर्वेक्षण
meteor crater		उल्का गर्त, उल्का क्रेटर	meteorological tide	भौसमी ज्वारभाटा
meteoric debris		उल्का मलबा	meteorologist	भौसमविज्ञ
meteoric iron		उल्का लोह	meteorology	भौसम विज्ञान
meteoric scatter		उल्कीय प्रकीर्णन	meteorology optics (=atmospheric optics)	वायुमण्डलीय प्रकाशिकी
meteoric stone		उल्काश्म	meteor shower	उल्का वृष्टि
meteoric water	Geol.	आकाशी जल	meteor spectra	उल्का स्पेक्ट्रम
meteorite	Math., Phy, Geol	उल्कापिंड	meteor stream	उल्का धारा
meteorite bomb		उल्कापिंड बम	meteor traff	उल्का पथ
meteorite crater		उल्कापिंड क्रेटर	meteor train	उल्का पथदोष्टि
meteorite detector		उल्कापिंड अभिज्ञापक	metepisternal stunk glands	पश्चात्पार्श्वक पूति ग्रंथि
meteorite impact		उल्कापिंड संघट्ट	meter	मीटर
meteorite iron		उल्का लोह	meter bridge	मीटर-मेनु, मीटर बिज
meteoritic artifacts		उल्कापिंडीय अवशेषरूप		



meter candle		मीटर कैंडल	methionine biogenesis	मेथायोनीनी जीवोत्पत्ति, मेथायोनीनी जीवजनन
meter gauge	Geog.	मीटर लाइन	method	रीति, विधि
metering		मीटरन, मापन	methodics	पद्धति विज्ञान, पाद्धतिकी
metering circuit	Phy.	मापन परिपथ	method of bracketing	कोष्ठकन विधि
metering signal		मापन संकेत	method of coincidence	संपात-विधि
meter kilogram second system		मीटर किलोग्राम सेकन्ड पद्धति	method of collocation	विन्यास-विधि
meter rate	H.Sc.	मीटर दर	method of coordinates	निर्देशांक विधि
metestrus	Zool.	मदह्वास	method of difference	अंतरीय विधि
methacrolein	Chem.	मेथैक्रोलीन	method of elimination	निराकरण विधि
methacrylate	Chem.	मेथैक्रिलेट	method of exhaustion	निश्शेषण-विधि
methacrylic acid		मेथैक्रिलिक अम्ल	method of false position	मिथ्या स्थिति विधि
methallyl alcohol	Chem.	मेथैलिल ऐल्कोहॉल	method of field	फील्ड पद्धति
metham	Chem.	मेथैम	method of Gates	गेट्स-विधि
methanal	Chem.	मेथैनेल	method of hypercircle	ऊनविमवृत्त-विधि
methanation	Chem.	मेथैनन	method of images	प्रतिबिम्ब-विधि
methane	Chem.	मेथैन	method of intense high index reflection	तीव्र उच्च सूचकांकी परावर्तन आधारित विधि
methanethiol		मेथैनथाइऑल	method of intersection	प्रतिच्छेदन विधि
methanide		मेथैनाइड	method of inversion	प्रतिलोमन-विधि
Methanococcus mazei	Bot.	मेथैनोकोकस मेजिई	method of iteration	पुनरावृत्ति विधि
methanoic acid	Chem.	मेथैनाइक अम्ल	method of least squares	न्यूनतम वर्ग विधि
methanol	Chem.	मेथैनाल	method of linear flow	रेखिक प्रवाह विधि
Methanomonas methanica	Bot.	मेथैनोमोनास मेथैनिका	method of measurement	मापन-विधि
methanometer	Chem.	मेथैन मापी, मेथैनोमीटर	method of mixtures	मिश्रण-विधि
methapheniline		मेथैफिनीलीन	method of moments	आघूर्ण विधि
methapyriline		मेथैपिरिलीन	method of overlapping maps	परस्पर व्यापी चित्रण विधि
methaqualone	Chem.	मेथैक्वैलीन	method of path coefficient	पथ गुणांक विधि
metharmosis	Geol.	प्रसंधातोत्तर परिवर्तन	method of perturbation	क्षोभ विधि
methemalbumin	Chem.	मेथैमैल्बुमिन	method of postmultiplication	उत्तर गुणन विधि
methemoglobin	Chem.	मेथैमोग्लोबिन	method of progression (stadia traversing)	श्रेढी-विधि
methemoglobin structure		मेथैमोग्लोबिन संरचना		
methetoin	Chem.	मेथैटॉइन		
methicillin	Chem.	मेथिसिलिन		
methionine	Chem., Biol.	मेथाइयोनीन		

method of radiation		विकिरण विधि	methoxycinnamic acid	मेथाक्सीसिनेमिक अम्ल
method of randomised block		यादृच्छिकीकृत खंडक-विधि	methoxyflurane	मेथॉक्सी फ्लुरेन
method of rational equivalence		परिमेय तुल्यता विधि	methoxylase	मेथाक्सीनेस
method of resection		रिसेक्शन विधि	methsuccinide	मेथसकिमाइड
method of scoring		संस्क विधि	methu-hale	मेथू ह्यूल
method of selected points		वरित बिन्दु विधि	methurital	Chem. मेथुरिटैल
method of selection		चरण विधि	methyl	Chem. मेथिल
method of semi-average		अर्धमाध्य विधि	methylacrylate	मेथिल ऐक्रिलेट
method of similar triangle		समरूप त्रिभुज विधि	methyl alcohol	मेथिल ऐल्कोहॉल
method of Slater and Kirkwood		स्लेटर कर्कवुड विधि	methyl arochidate	मेथिल अरोकिडेट
method of steepest descent	Math.	प्रवणतम अवरोहण विधि	methylated spirit	मेथिलित स्पिरिट
method of stepping	Geog.	सोपान विधि	methylating agent	मेथिलन कारक
method of successive approximation		उत्तरोत्तर सन्निकटन विधि	methylation	मेथिलीकरण
method of summation		सकलन-विधि	methyl bromide	मेथिल ब्रोमाइड
method of tangential angles		टैजेंट-विधि	methyl carbinol	मेथिल कार्बिनॉल
method of truncation		छिन्नकरण विधि	methyl cellosolve	मेथिल सेलोसॉल्व
method of undetermined coefficients		अनिर्धारित गुणांक विधि	methyl cerodate	मेथिल सेरोडेट
method of undetermined multipliers		अनिर्धारित गुणक विधि	methylchloranthrene	मेथिल क्लोरोएन्थ्रीन
methodology	Chem., H.Sc.	क्रिया-पद्धति	methyl cyanide	मेथिल सायनाइड
methods engineering	Math.	कार्यविधि इंजीनियरी	methylene	मेथिलीन
methohexital	Chem.	मेथोहेक्सिटैल	methylene blue	मेथिलीन ब्लू
metholn	Chem.	मेथॉल	methylene glycol	मेथिलीन ग्लाइकोल
methopterin		मेथोप्टेरिन	methylene green	मेथिलीन ग्रीन
methoxide		मेथॉक्साइड	methylene heliotrope extra strong	मेथिलीन हेलीोट्रोप अति प्रबल
methoxone	Chem.	मेथॉक्सीन	methyl ether	मेथिल ईथर
methoxy		मेथॉक्सी	methyl formate	मेथिल फॉर्मेट
methoxy borane		मेथाक्सी बोरेन	methyl glycyrrhetate	मेथिल ग्लाइसिररिटेट
methoxychlor		मेथॉक्सीक्लोरो	methyl glucoside	मेथिल ग्लूकोसाइड
			methyl green	मेथिल ग्रीन
			methyl glycine	मेथिल ग्लाइसिन
			methyl guanidine	मेथिल ग्वानीडिन
			methyl- $\beta$ -indole acetate	मेथिल बीटा-इन्डोल ऐसीटेट
			methyl- $\beta$ -indole butyrate	मेथिल बीटा-इन्डोल ब्यूटिरेट
			methyl- $\beta$ -indole propionate	मेथिल बीटा-इन्डोल प्रोपीओनेट

methyl lithium		मेथिल लीथियम	metrical structure		दूरीक संरचना
methyl machaerate		मेथिल मैकीरेट	metrical tensor		दूरीक प्रदिश, दूरीक टेन्सर
methyl- $\alpha$ naphthalene acetate		मेथिल ऐल्फा-नैफथैलीन ऐसीटेट	metrical variable		दूरीक चर
methylol		मेथिलॉल	metric axiom		दूरीक अभिगृहीत
methyl orange		मेथिल-औरेन्ज	metric data	Phy.	माप दत्त
methylosis	Geol.	रासायनिक अंतरण	metric photography		माप फोटोग्राफी
methyl oxalate		मेथिल ऑक्सलेट	metric density		दूरीक घनत्व
methyl pentose		मेथिल पेंटोस	metric differential geometry		दूरीक अवकल ज्यामिति
methyl phenyl acetate		मेथिल फ्रेनिल ऐसीटेट	metric invariant		दूरीक निश्चर
methyl red		मेथिल रेड, मेथिल रक्त	metric limit		दूरीक सीमा
methyl salicylate		मेथिल सैलिसिलेट	metric linear space		दूरीक रेखिक समष्टि
methyl stannonic acid		मेथिल स्टेनानिक अम्ल	metric product		दूरीक गुणनफल
methyl treleasegenate		मेथिल ट्रेलीसीजि नेट	metric property		दूरीक गुणधर्म
methyl violate		मेथिल वायोलेट	metric scale		मेट्रिक स्केल
methyl yellow		मेथिल यलो, मेथिल पीत	metric space		दूरीक समष्टि
metitopalynology	Bot.	मधु पुरागणु विज्ञान	metrics without conjugate points	Math.	संयुग्मी विन्दुरहित दूरीक
metlon	H.Sc.	मेटलॉन	metric system		मीटरी पद्धति
metol	Chem.	मेटॉल	metric tensor		दूरीक टेन्सर, दूरीक प्रदिश
Metonic cycle	Math.	मीटानी चक्र	metric topology		दूरीक संस्थिति
metonym	Bot.	अनुनाम	metric unit		मेट्रिक इकाई
metoposaurid	Geog.	मेटोपोसॉरिड	Metridium	Zool.	मेट्रीडियम
metraterm	Zool.	गमशियांत	metrizability		दूरीकनीयता
metrazole	Chem.	मेट्राजोल	metrizable		दूरीकनीय
metrechoin	Phy.	मेट्रेकोन	metrization		दूरीकन
metre grid	Geog.	मीटर-ग्रिड	metrization lemma		दूरीकन-प्रमेयिका
metric	Math.,Phy.	1. दूरीक 2. मीटरी	metrize		दूरीकित करना
metrical invariant		दूरीक निश्चर	metrogen lens	Geog.	मेट्रोजन-लेन्स
metrically complete		दूरीकतः पूर्ण	metrology	Geog.,Phy.	मापिकी, मापविज्ञान
metrically dense in itself		दूरीकतः स्वतः सघन	metronome	Phy.	तालमापी
metrically dense set		दूरीकतः सघन समुच्चय	metropolis	Geog.	महानगर
metrically embedded		दूरीकतः अंतः स्थापित	metropolitan	Geog.	महानगरीय
metrical manifold		दूरीक प्रसमष्टि	metropolitan area		महानगर-क्षेत्र
metrical property		दूरीक गुणधर्म	metropolitan centre		महानगरीय केन्द्र
metrical scattering		दूरीक प्रकीर्णन	metropolitan city	Geog.	महानगरीय-सहर

opolitan community		महानगरीय समुदाय	Meyers process	Chem	मेयर्स प्रक्रम
opolitan concept		महानगरीय संकल्पना	mezacaline		मेसकालिन
opolitan district		महानगरीय जिला	mezzani	H.Sc.	मेजानी
opolitan France		महानगरीय फ्रान्स	mezzetta	H.Sc.	मेजेटा
opolitan fringe		महानगरीय उपान्त	mho	Phy.	मो
opolitan integration		महानगरीय एकीकरण	mbometer		मोमोमी
opolitanism	Geog.	महानगरवाद	Miadesmia	Bot.	मियाडेस्मिया
opolitan planning		महानगरीय योजना	miag calcinator	Geol	मियाग-कैल्सीनेटर, मियाग-निस्तापित्र
opolitan region		महानगरीय प्रदेश	*Miaplacidus (=β Argus Navis)	Astron.	माइआप्लेसिडिस (=β आर्गस नेविस)
opolitan urban area		महानगरीय शहर-क्षेत्र	miargyrite	Geol.	माइआर्जिराइट
rosideros		मेट्रोमिडेरॉस	miarolitic cavity	Geol	मियारोलिटिक गुहिका
roxylon rumphii	Bot.	मेट्रोक्विलॉन रम्फिआई (साबूदाने का पेड़)	miarolitic structure		मियारोलिटिक संरचना
ttler analytical balance	Chem.	मेटलर वैज्ञानिक तुला	miaskite (miascite)	Chem, (Met)	मिएस्काइट
ttler vibro-spatula	Chem	मेटलर कम्पी स्पेट्युला	miazines	Chem	माइऐजीन
tula	Bot.	प्रागुलपर	mica		अभ्रक
etzgeria	Bot.	मेटजीरिया	micareo-calcareous	Geol	अभ्रक-कैल्सियमी
etzgeriopsis	Bot.	मेटजीरिऑप्सिस	micaceous	Geol	अभ्रकी
etzgerites	Bot.	मेटजीराइटीड	micaceous hematite		अभ्रकी हेमाटाइट
etzgerites globosus		मेटजीराइटीड, ग्लोबोसस	micaceous iron-ore		अभ्रकी लोह-अयस्क
euniers thermoem	Math.	मॉनियर-प्रमेय	micaceous mineral		अभ्रकी खनिज
ev	Chem, Phy	एम. ई. वी. (mev)	micaceous quartzite		अभ्रकी क्वार्ट्ज-आइट
hevalonic acid	Chem.	मेवलॉनिक अम्ल	micaceous sand		अभ्रकी बालू
exican cotton	H.Sc.	मेक्सिको कपास	micaceous sandstone		अभ्रकी बालुकागम
exican cotton ball weevil	Zool.	मेक्सिको कपास गोलक घुन	mica condenser		अभ्रक सघारित्र
exican onyx	Geol	मेक्सिकन ऑनिस	mica diorite		अभ्रक डायोराइट
exican process	Chem.	मेक्सिको प्रक्रम	mica family		अभ्रक-कुल
exican sheep	H.Sc.	मेक्सिको भेड़	mica flake		अभ्रक पत्र
eyer and Eichholz reagent	Chem (Met.)	माइयर और ईकहोल्ड अभिकर्मक	mica lamprophyre		अभ्रक लैम्प्रोफायर
eyer bar	Chem (Ink)	मेयर बलाना	mica mine		अभ्रक-खान
eyer's apparatus		माइजर, उपकरण (मेयर उपकरण)	mica norite		अभ्रक नोराइट
			mica peridotite		अभ्रक पेरिडोटाइट
			micaphyre		अभ्रकी पॉर्फरी, माइका-फायर
			mica schist		अभ्रक-गिस्ट
			micalization	Geol.	अभ्रकीकरण, अभ्रकन

mice eaten quartz	<i>Geol.</i>	अतिछिद्रिल स्फटिक	microalloy transistor		सूक्ष्म मिश्रातु ट्रांजिस्टर
micella	<i>Bot.</i>	मिसेला	microampere	<i>Geog.,Phy.</i>	माइक्रोएम्पीयर
micellar	<i>Bot.</i>	मिसेली	micro-analysis	<i>Chem.</i>	सूक्ष्म विश्लेषण
micellar structure		मिसेली संरचना	micro-analytical method	<i>Geol.</i>	सूक्ष्म विश्लेषिक विधि
micelle	<i>Bot.</i>	मिसेल	microaphanitic	<i>Geol.</i>	सूक्ष्म-अदृश्य क्रिस्टली
micellverbande	<i>Chem.</i>	मिसेल फेवर्न्डि, मिसेल विलय, पिड़ विलय	microaplanospore	<i>Bot.</i>	लघु अचलबीजाणु
Michaelies constant	<i>Chem.</i>	माइकेलिस स्थिरांक	microarthropod	<i>Zool.</i>	सूक्ष्मसंघिपाद
Michaelis Menton constant		माइकेलिस मेन्टन स्थिर	microassociation	<i>Bot.</i>	सहसंध
Michelinia	<i>Geol.</i>	माइकेलीनिया	microbacteria	<i>Chem.</i>	सूक्ष्म जीवाणु
Michelinia favosa		माइकेलीनिया फ़ावोसा	<i>Microbacterium flavum</i>	<i>Bot.</i>	माइक्रोबैक्टीरियम फ़्लैवम
Michellia champaca	<i>Bot.</i>	माइकेलिया चंपका (चंपा)	micro balance	<i>Phy.</i>	सूक्ष्ममापी तुला
Michelson interferometer	<i>Phy.</i>	माइकेलसन का व्यतिकरण-मापी	microbaloon	<i>Chem.</i>	सूक्ष्म गोलिका
Michelson interferometer experiment		माइकेलसन का व्यतिकरण-मापी प्रयोग	microbarograph	<i>Geog.,Phy.</i>	सूक्ष्मवायुदावलेखी, सूक्ष्म वारोप्राफ
Michelson Morley experiment		माइकेलसन-मोरले प्रयोग	microbasic	<i>Zool.</i>	सूक्ष्माघारी
Michlers ketone	<i>Chem.</i>	मिशलर कीटोन	microbasic mastigophore		सूक्ष्माघारी कशाभघर
micosterol	<i>Chem.</i>	कवक स्टेरॉल, माइको-स्टेरॉल	microbe	<i>Biol.</i>	रोगाणु
micraesthete	<i>Zool.</i>	सूक्ष्मावगमक	microbeaker	<i>Chem.</i>	माइक्रोबीकर, सूक्ष्म बीकर
micraesthetic		सूक्ष्मावगमकीय	microbeam	<i>Phy.</i>	सूक्ष्म किरणपुंज
micraner	<i>Zool.</i>	लघुनर	microbenthos	<i>Zool.</i>	सूक्ष्मनितलक
micranthus	<i>Bot.</i>	लघुपुष्पी	microbial	<i>Biol.,Chem.</i>	सूक्ष्मजैविक रोगाणवीय, रोगाणुक
micrinite	<i>Geol.</i>	माइक्रिनाइट	microbial cell		सूक्ष्मजीवी कोशिका
microadaptation	<i>Zool.</i>	सूक्ष्मानुकूलन	microbial decomposition		सूक्ष्मजीवी अपघटन
microadapter	<i>Bot.</i>	सूक्ष्म ऐडेप्टर	microbial ecologist		रोगाणुक परिस्थिति-विज्ञानी
microadaptive		सूक्ष्मानुकूली	microbial ecology		रोगाणुक परिस्थिति-विज्ञान
microaerophil (=microaerophilous)	<i>Zool.</i>	अल्पवातरागीय	microbial inositide		सूक्ष्मजैविक इनोसिटाइड
microaerophile	<i>Zool.</i>	अल्पवातरागी	microbial protein		रोगाणवीय प्रोटीन
microaerophilic		अल्पवातप्रिय	microbian	<i>Geol.</i>	सूक्ष्मजीवी
microaggregate	<i>Geog.</i>	सूक्ष्म समुच्चय	microbiological production		सूक्ष्मजैविकी उत्पादन
microalloy diffused transistor	<i>Phy.</i>	सूक्ष्म मिश्रातु विसरित ट्रांजिस्टर	microbiologist		सूक्ष्मजीवविज्ञानी
			microbiology		सूक्ष्मजैविकी, सूक्ष्मजीव-विज्ञान

microbiophagy	Zool	सूक्ष्मविभोजिता	microchemistry	Chem, Bot.	सूक्ष्मरसायन
microbiostratigraphy	Geol	सूक्ष्मवैवस्तरिकी	Microchiroptera	Zool.	माइक्रोचिरोप्टेरा
microbiota	Zool.	सूक्ष्मजीविता	microchromosome	Zool.	लघुगुणसूत्र
microblast	Zool.	सूक्ष्मकोरक	microcircuit	Phy.	सूक्ष्म परिपथ
Microbrachius	Zool	माइक्रोब्रैकियस	micro circuitry	Phy.	सूक्ष्म परिपथिकी
microbreccia	Geol	सूक्ष्म सकोणारम	micro circuit wafer		सूक्ष्म परिपथ पटनिका
microburette	Chem.	सूक्ष्ममापी ब्यूरेट	microcirculation	Zool	सूक्ष्मपरिमचरण
microburner	Chem	सूक्ष्म ज्वालक, माइक्रो ज्वालक	microcladous	Bot	लघुशाखायुक्त
microcachrys	Bot.	माइक्रोकैकिस	microclastic	Geol	सूक्ष्मखडक
microcalorimeter	Phy	सूक्ष्म ऊष्मामापी, सूक्ष्म कैलरीमापी	microclimate	Geog.	सूक्ष्म जलवायु
microcalorimetry	Phy.	सूक्ष्म ऊष्मापिति	microclimatology		सूक्ष्मजलवायु विज्ञान
microcalthrop	Zool	लघुममचतुररिका, लघु-कैल्प पि	microcline	Geol.	माइक्रोक्लाइन, माइक्रो-क्लीन
microcanonical assembly	Phy.	सूक्ष्म-विहित समुच्चय	microcneme	Zool.	लघुपट
microcanonical ensemble		सूक्ष्मविहित समुदाय	microcommunity	Zool.	सूक्ष्मसमुदाय
microcapillary	Bot.	सूक्ष्म केशिका	microcomponent	Chem	सूक्ष्म घटक
Microcebus	Zool	माइक्रोसीबस	microconidium	Biol.	माइक्रोकोनोडियम
microcell	Bot Chem	सूक्ष्मकोशिका माइक्रोसेल, सूक्ष्मसेल	microconjugant	Zool.	लघुमयुग्मी
microcentrifuge	Chem	सूक्ष्म अपकेंद्रीय	Microconodon	Zool.	माइक्रोकोनोडॉन
microcentrum	Zool	माइक्रोसेन्ट्रम, सूक्ष्मकेन्द्र	microconodont	Geol.	माइक्रोकोनोडॉन्ट, सूक्ष्म-शत्रुदंत
microcephalic	Zool	लघुशीर्ष	microconstituent	Zool.	सूक्ष्मघटक
microcereous	Zool	लघुपुच्छीय	microcoquina	Geol	सूक्ष्मकोकीना
microchaeta	Zool.	लघुशूक	microcosm	Geog.	सूक्ष्म जगत, माइक्रोकोस्म
microchemical	Bot., Chem.	सूक्ष्मरासायनिक	microcosmos	Math	सूक्ष्मब्रह्मांड
microchemical analysis		सूक्ष्मरासायनिक विश्लेषण	microcrack	Phy.	सूक्ष्म त्रिंदर
microchemical detection		माइक्रोकेमिकल अभिज्ञान, सूक्ष्मरासायनिक अभिज्ञान	microcreep	Phy.	सूक्ष्म विमर्षण
microchemical reaction		सूक्ष्मरासायनिक अभिक्रिया	microcrucible	Chem.	सूक्ष्म कृषिकल, सूक्ष्म मूया
microchemical set		सूक्ष्मरासायनिक सेट	microcryptocrystalline	Geol	सूक्ष्मपृष्ठत्रिस्टली
microchemical technique		सूक्ष्मरसायन प्रविधि	microcrystal		सूक्ष्मक्रिस्टल
microchemical test		सूक्ष्मरासायनिक परीक्षण	microcrystalline		सूक्ष्मक्रिस्टली
			microcrystalline domain		सूक्ष्मक्रिस्टली डोमेन
			microcrystalline structure		सूक्ष्मक्रिस्टली संरचना
			microcrystallitic		सूक्ष्मक्रिस्टलाइटी
			microcurie	Phy.	माइक्रोक्युरी
			microcuvette	Bot.	सूक्ष्मक्युवेट

Microcycas	Bot.	माइक्रोसाइकस	microfelsitic		सूक्ष्मफेल्साइट
Microcycas calocoma		माइक्रोसाइकस कैलो- कोमा	microfibril	Bot.	सूक्ष्म तंतुक
microcyclic		लघुचक्री	microfiche	Phy.	माइक्रोफिश
microcyclic rust		लघुचक्री किट्ट	microfiche reader		माइक्रोफिश पाठित
Microcyprinae	Zool.	माइक्रोसाइप्रिनी	microfilariae	Zool.	माइक्रोफाइलेरिया, सूक्ष्म- सूत्राभ
microcytase	Zool.	माइक्रोसाइटेस	microfilm	Phy., Geol.	माइक्रोफिल्म
microcyte	Zool.	सूक्ष्माणु	microfilming		माइक्रोफिल्मन, सूक्ष्म- फिल्मीकरण
microcytic	H.Sc.	सूक्ष्मलोहित कोशिका	microfilm reader		माइक्रोफिल्म पाठी
microdensitometer		सूक्ष्मघनत्वमापी	microfilm record		माइक्रोफिल्म अभिलेख
microdensitometer tracing		सूक्ष्मघनत्वमापी अनुरेखन	microflagellate	Zool.	सूक्ष्मकशाभ
microdensitometry		सूक्ष्म घनत्वमिति	microflaser	Geol.	सूक्ष्मरेखित
microdiorite	Geol.	माइक्रोडायोराइट	microflash	Phy.	सूक्ष्मकालीन दमक
microdissection	Zool.	सूक्ष्मविच्छेदन	microflocculation	Zool.	सूक्ष्मऊर्णन
microdont	Zool.	लघुदन्ती	microflora	Bot., Geog.	सूक्ष्म वनस्पतिजात
microdrop	Zool.	सूक्ष्मबिन्दु	microfluidal	Geol.	सूक्ष्मप्रवाही
microdurometer	Chem.	माइक्रोड्यूरोमीटर	microfluorimetric procedure	Bot.	सूक्ष्म प्रतिदीप्ति प्रक्रिया
microeconomic equations	Math.	व्यष्टि-आर्थिक समीकरण	microfluxion	Geol.	सूक्ष्मप्रवाह
microeconomic quantity	Math.	व्यष्टि-आर्थिक राशि	microfoliation	Geol.	सूक्ष्मशल्कन
micro effect	Phy.	सूक्ष्म प्रभाव	microfossil	Geol.	सूक्ष्मजीवाश्म
microelectrode	Phy., Zool.	सूक्ष्मइलेक्ट्रोड	microfossil assemblage		सूक्ष्मजीवाश्म समुच्चय
microelectronics	Phy.	सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी	microfossil content		सूक्ष्मजीवाश्म-अंश
micro electrophoretic cell	Chem.	सूक्ष्म विद्युत् कण संचलन सेल	microfossil group		सूक्ष्मजीवाश्म वर्ग
microelement	Chem.	सूक्ष्म तत्व	microgamete	Zool.	लघुयुग्मक
micro element wafer	Phy.	सूक्ष्म अवयवी पटलिका	microgametoblast	Zool.	लघुयुग्मककोरक
micro-environment	Zool.	सूक्ष्मपरिस्थिति, सूक्ष्म- वातावरण	microgametocyte	Biol., H.Sc.	लघुयुग्मकजनक
microeutaxitic	Geol.	सूक्ष्मसुपट्टित	microgametogenesis	Zool.	लघुयुग्मकजनन
microevolution	Biol.	सूक्ष्मविकास	microgametophyte	Bot.	लघुयुग्मकोद्भिद्
microfacies	Geol.	सूक्ष्मसंलक्षणी	microgamy	Zool.	सूक्ष्मसंलयन
microfauna	Zool., Geog. Geol.	सूक्ष्मप्राणिजात	microgeology	Geol.	सूक्ष्मभूविज्ञान
microfaunal assemblage		सूक्ष्मप्राणि समुच्चय	microglass	Chem.	सूक्ष्म काच
microfaunal zone		सूक्ष्मप्राणिजात जोन	microglia	Zool., H.Sc.	सूक्ष्मबन्ध, सूक्ष्मतन्त्रिका बन्ध
microfelsite	Geol.	सूक्ष्मफेल्साइट	microgonidium		सूक्ष्मगोनीडियम
			micrograft		सूक्ष्मकलम
			microgram	Phy., H.Sc.	माइक्रोग्राम

microgranite	Geol	माइक्रोग्रेनाइट, सूक्ष्मग्रेनाइट	microlaterologging	Geol	सूक्ष्मपाश्र्व सनेखन
microgranitic		सूक्ष्मग्रेनाइटी	microleucoblast	Zool	सूक्ष्मश्वेतकोरक
microgranitoid	Geol.	सूक्ष्मग्रेनाइटाम, माइक्रोग्रेनिटॉइड	microleucocyte	Zool	सूक्ष्मश्वेताणु, माइक्रोल्बुकोमाइट
microgranodiorite	Geol.	सूक्ष्मग्रेनोडाइयोराइट, माइक्रोग्रेनोडाइयोराइट	microline	Chem.	माइक्रोलाइन
microgranular	Geol.	सूक्ष्मकणिकामय, सूक्ष्मग्रेनाइटी	microlist	Geol	माइक्रोलिस्ट
microgranulitic	Geol.	सूक्ष्मकणिकीय	microlites	Geol	क्रिस्टलिका
micrograph	Chem., Geol.	1 सूक्ष्मलेख, 2. सूक्ष्मरूपलेखी 3. सूक्ष्मआलेखी	microlith	Geol	सूक्ष्म सूचिकाश्म
micrographic	Geol	सूक्ष्म-आलेखी	microlithic	Geol	सूक्ष्मारमोय
micrographic intergrowth		सूक्ष्मआलेखी अतवृद्धि	microlithology	Geol	सूक्ष्मारमविज्ञान
micrography	Chem. (Met)	सूक्ष्मलेखिकी	microlitic texture	Geol.	क्रिस्टलिका गठन
microgravimetric analysis	Chem.	सूक्ष्मभारमापक विश्लेषण	microlock	Phy.	माइक्रोलॉक
Microgromia	Zool.	माइक्रोग्रोमिया	microlog	Geol, Chem	माइक्रोलॉग, सूक्ष्मसलेख
microgyne	Zool	लघुजाया	microlog device		सूक्ष्मसलेख युक्ति
microhabitat	Zool, Bot	सूक्ष्मावास	micrologging	Geol	सूक्ष्मसलेखन
micro-hardness testing	Chem	सूक्ष्म-बठोरता सपरीक्षण	micromanipulation		सूक्ष्म हम्मनकोशल
microhost	Bot	सूक्ष्मपरपोषी	micromanipulator	Chem	सूक्ष्म प्रमपादित, माइक्रोमैनिपुलेटर
Microhyala	Zool	माइक्रोहाइला	micromanometer	Chem	सूक्ष्म दाबातरमापी, सूक्ष्म निपीडानरमापी
microhystichosphere	Geol	माइक्रोहिल्स्ट्रीकोस्फियर	micromastia	Zool	लघुस्तनता
microimage	Phy.	सूक्ष्म प्रतिबिम्ब	micromechanics	Phy	सूक्ष्मयांत्रिकी
microimmersion filter	Chem	सूक्ष्म निमज्जन फिल्टर, सूक्ष्म निमज्जन निर्यन्दक	micromelittophilous	Bot.	लघुमक्षिकापरार्थिन
microincineration	Chem	सूक्ष्म भस्मन	micromere	Zool	लघुखंड
microinjection	Bot	सूक्ष्म अंतक्षेपण	micromeristic	Zool	सूक्ष्मविखंडीय
microinstruction	Phy	लघु अनुदेश	micromeristic theory		सूक्ष्मविखंडीय भिद्धान
micro-irradiation	Phy.	सूक्ष्म किरणन	micromeritic	Geol	सूक्ष्मखंडी
microjet coater	Chem.	सूक्ष्मप्रधार लेपक	micromerozoite	Zool	लघुखंडजाणु
micro-Kjeldahl method	Bot.	सूक्ष्म ज्वेलहाल विधि, माइक्रोजेलहाल विधि	micrometacentric	Zool.	माइक्रोमेटासेंट्रिक
microknife	Chem.	सूक्ष्म क्षुर	micrometeor	Geol	सूक्ष्म उल्का
microlaples	Geog.	माइक्रोलेपीज	micrometeorite	Phy	सूक्ष्म उल्का पिंड
			micrometeorological	Geol., Geog.	सूक्ष्म मीममवैज्ञानिक
			micrometeorology	Geog	सूक्ष्म मीममविज्ञान
			micrometer	Phy.	सूक्ष्ममापी, माइक्रोमीटर
			micrometer microscope	Phy.	सूक्ष्ममापी सूक्ष्मदर्शी
			micrometer reading eyepiece	Geog.	सूक्ष्ममापी पठन नेत्रिका



micrometer screw		सूक्ष्ममापी पेच, माइक्रो-मीटर पेच	micronucleus	<i>Biol.</i>	सूक्ष्मकेन्द्रक
micrometer syringe	<i>Chem.</i>	सूक्ष्ममापी पिचकारी, सूक्ष्ममापी शृंगक	micro nutrient	<i>Chem.,H.Sc.</i>	सूक्ष्म पोषक
micrometer theodolite	<i>Geog.</i>	माइक्रोमीटर थियोडोलाइट	microophitic	<i>Geol.</i>	सूक्ष्मजोफ़ाइट्टी
micrometer transit theodolite	<i>Geog.</i>	माइक्रोमीटर ट्रांजिट थियोडोलाइट, सूक्ष्म-मापी ट्रांजिट थियोडो-लाइट	microorganism	<i>Biol.,H.Sc.</i>	सूक्ष्मजीव
micrometer tube	<i>Geog.</i>	सूक्ष्ममापी नलिका	micropalaeobotany	<i>Geol.</i>	सूक्ष्मपादपाश्म विज्ञान
micrometry	<i>Bot.</i>	सूक्ष्ममिति	micropalaeontological content	<i>Geol.</i>	सूक्ष्मजीवाश्म्रीय अंश
micro-micron	<i>Zool.</i>	सूक्ष्म माइक्रॉन	micropalaeontological method		सूक्ष्मजीवाश्म्रीय विधि
micromineralogy	<i>Geol.</i>	सूक्ष्म खनिज-विज्ञान, सूक्ष्मखनिजिकी	micropalaeontological sample		सूक्ष्मजीवाश्म्रीय प्रतिदर्श
microminiature circuit	<i>Phy.</i>	सूक्ष्मीकृत परिपथ	micropalaeontologist		सूक्ष्मजीवाश्मवेत्ता, सूक्ष्म-जीवाश्मविज्ञानी
micro miniaturization	<i>Phy.</i>	सूक्ष्मीकरण	micropalaeontology		सूक्ष्मजीवाश्मिकी, सूक्ष्म-जीवाश्मविज्ञान
micromodule	<i>Phy.</i>	सूक्ष्म माड्यूल	micropalaeozoology	<i>Geol.</i>	सूक्ष्मप्राणिअश्मविज्ञान, सूक्ष्मफासिल प्राणि-विज्ञान
micromol	<i>Chem.</i>	माइक्रोमोल	microparasite	<i>Zool.</i>	सूक्ष्मपरजीवी
micromolarity	<i>Bot.</i>	सूक्ष्ममोलरता	micropedology	<i>Geog.</i>	सूक्ष्ममृदाविज्ञान
micromotion film	<i>H.Sc.</i>	सूक्ष्मचलचित्र फिल्म	micropegmatite	<i>Geol.</i>	सूक्ष्मपेग्माटाइट, माइक्रोपेग्माटाइट
micromovie	<i>Phy.</i>	सूक्ष्मचलचित्र	micropegmatitic		सूक्ष्म आलेखी, माइक्रोपेग्माटाइट्टी
micromutation	<i>Biol.</i>	सूक्ष्म उत्परिवर्तन, माइक्रो-म्यूटेशन	micropegmatitic texture		सूक्ष्म आलेखी गठन
micromyelocyte	<i>Zool.</i>	सूक्ष्ममज्जाणु, माइक्रो-माइलोसाइट	micropenitent	<i>Geog.</i>	माइक्रोपेनीटेंट
<i>Micromys minutus</i>	<i>Zool.</i>	माइक्रोमिस माइन्सूटस	micropertthite	<i>Geol.</i>	माइक्रोपेर्थाइट
micron	<i>Phy.</i>	माइक्रॉन	Micropetalon	<i>Zool.</i>	माइक्रोपेटैलॉन
microne	<i>Zool.</i>	माइक्रोन	Micropetrygium	<i>Bot.</i>	माइक्रोपेट्रीजियम
micro needle	<i>Biol.</i>	सूक्ष्म सूचिका, सूक्ष्म सुई	microphage	<i>Zool.</i>	सूक्ष्ममलक
micronephridium	<i>Zool.</i>	सूक्ष्मवृक्कक	microphagocyte		सूक्ष्मभक्षकाणु
Micronesia	<i>Geog.</i>	माइक्रोनीशिया	microphagous	<i>Biol.</i>	सूक्ष्मभक्षी
micronite	<i>Geol.</i>	माइक्रोनाइट	microphagy	<i>Zool.</i>	सूक्ष्मभक्षकता
micronizer	<i>Geol.</i>	माइक्रोनाइज़र, सूक्ष्मचूर्णित	microphanerophyte	<i>Bot.</i>	लघुव्यक्तोद्भिद्
micronizing process	<i>Chem.</i>	सुकणन प्रक्रम	Micropharyngea	<i>Zool.</i>	माइक्रोफैरिन्जिया
micronuclear exchange	<i>Zool.</i>	लघुकेन्द्रकी विनिमय	microphenocryst	<i>Geol.</i>	सूक्ष्मलघुक्रिस्टल, माइक्रोफ़ीनोक्रिस्ट
micronuclear mutation		लघुकेन्द्रक उत्परिवर्तन	microphone	<i>Geol.,Phy.</i>	माइक्रोफोन
micronucleocyte	<i>Zool.</i>	सूक्ष्मकेन्द्रकाणु	microphone boom		माइक्रोफोन विस्तारदाम, भुज, माइक्रोफोन वूम

microphone button		माइक्रोफोन बटन	microprobe spectrometer	Chem	माइक्रोप्रोब स्पेक्ट्रममापी, सूक्ष्म परीक्षी स्पेक्ट्रोमीटर
microphone mixer		माइक्रोफोनीय मिश्रक	micro programming	Phy.	सूक्ष्म प्रोग्रामन
microphone noise		माइक्रोफोनिक रव	microprofection	Bot., Phy.	सूक्ष्म प्रक्षेपण
microphone probe		माइक्रोफोन अन्वेषक	microprojector	Phy.	सूक्ष्मप्रक्षेपी
microphonic disturbance		माइक्रोफोनीय विक्षोभ	micropterism	Zool.	लघुपक्षता
microphonics		माइक्रोफोनिक रव	micropterous		लघुपक्षीय
microphonism		माइक्रोफोनिक रव	Micropterygidae	Zool.	माइक्रोप्टेरीजिडी
microphony	Phy.	माइक्रोफोनी स्वोत्पादन	Micropteryx	Zool.	माइक्रोप्टेरिक्स
microphotograph	Phy., Zool., Geol.	1 सूक्ष्मफोटोग्राफ 2. सूक्ष्मदर्शीफोटो	micropulsation	Phy.	सूक्ष्म स्पन्दन
microphotography		सूक्ष्मफोटोचित्रण, सूक्ष्मदर्शी फोटोग्राफी	Micropygidae	Zool.	माइक्रोपाइजिडी
microphotometer	Phy	सूक्ष्मप्रकाशमापी, माइक्रो-फोटोमीटर	micropylar canal	Bot	बीजाडदारी नलिका
microphotometry	Phy.	सूक्ष्मप्रकाशमिति	micropylar tube		बीजाडदारी नलिका
microphthalmia (mi)	Zool	माइक्रोफथैल्मिया (माइ)	micropyle	Bot., Zool.	बीजाडद्वार अडद्वार
microphyll	Bot	लघुपत्र	microquantity	Chem.	सूक्ष्म मात्रा, माइक्रोमात्रा
microphylline	Geol	सूक्ष्मपत्रा	microradiography	Phy.	सूक्ष्म विकिरणपी चित्रण
microphyllous	Bot	लघुपत्रा	microradiometer	Phy.	सूक्ष्म विकिरणमापी
microphyritic	Geol.	सूक्ष्मक्रीयरी, माइक्रोफ्रा-यरी	microreflectometer	Phy	सूक्ष्मपरावर्तनमापी
microphysical problem	Geol.	सूक्ष्मभौतिक समस्या	microrespirometer	Bot.	सूक्ष्मश्वसनमापी
microphysics	Geol., Phy	सूक्ष्मभौतिकी	microrhabdus	Zool	माइक्रोरैब्डस
microphysiography	Geol	शैलवर्णना	Microsauria (Adelospodyll)	Zool	माइक्रोसॉरिया (एडिलोस्पॉन्डाइली)
micropipette	Bot.	सूक्ष्मपिपेट	microsaurian	Zool.	सूक्ष्मसर्पटाभ
microplankton		सूक्ष्मप्लवक	microschizogony	Zool.	सूक्ष्मविखटनीजनन
microplaque	Zool.	सूक्ष्मप्लाक, सूक्ष्मप्रपट्ट	microschizont	Zool.	माइक्रोशाइजॉन्ट, सूक्ष्म-शाइजॉन्ट
Micropodidae	Zool.	माइक्रोपोडिडी	Microscilla flagellum		माइक्रोसिला फ्लैजेलम
micropodous	Zool.	लघुपदीय	microsclere	Zool., Geol.	लघुकटिका
micropoikilitic	Geol.	सूक्ष्मवांयकिलिटिक	microscleric	Zool.	1. लघुकक्षीय 2. लघुकटकीय
micropolariscope	Phy.	द्रुवण-सूक्ष्मदर्शी	microscleric chamber		लघुकक्षीय कोष्ठ
micropore	Zool., Chem.	सूक्ष्मरंध्र	microscleric shell		लघुकक्षीय कवच
microporosity		सूक्ष्मरंध्रता	microscleric spicule	Geol.	लघुकक्षकटिका
microporous		सूक्ष्मरंध्री	Microsclex phosphoreus	Zool.	माइक्रोस्कोलेक्स फॉस-फोरियस
microporphyrritic	Geol	सूक्ष्मपोर्फिराइट्री	microscope		सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप
micro power circuit	Phy	सूक्ष्म शक्ति परिपथ	microscope count method		सूक्ष्मदर्शी गणन विधि

microscope objective	सूक्ष्मदर्शी अभिवृक्षक	*Microscopium	<i>Astron.</i>	माइक्रोस्कोपियम
microscope slide	सूक्ष्मदर्शी स्लाइड	microscopy	<i>Phy., Biol.</i>	सूक्ष्मदर्शिकी
microscopic	सूक्ष्म, सूक्ष्मदर्शीय, सूक्ष्मदर्शनी	microsecond	<i>Phy.</i>	माइक्रोसेकन्ड
microscopical examination	सूक्ष्मदर्शीय परीक्षण	microsection	<i>Geol., Zool.</i>	सूक्ष्मपरिच्छेद, सूक्ष्मकाट
microscopical method	सूक्ष्मदर्शी विधि	microseism	<i>Geol., Phy., Geog.</i>	सूक्ष्मभूकंप
microscopic contamination	अतिसूक्ष्म संदूषण	microseismic level		सूक्ष्मभूकंपी तल
microscopic cross- section	सूक्ष्म परिक्षेत्र (प्रायिकता क्षेत्र)	microseismic movement		सूक्ष्मभूकंपी संचलन
microscopic current density	सूक्ष्म धारा घनत्व	microseismic oscillation		सूक्ष्मभूकंपी दोलन
microscopic description	सूक्ष्म वर्णन	microseismic region		सूक्ष्मभूकंपी प्रदेश
microscopic equipment	सूक्ष्मदर्शी उपस्कर	microseismograph		सूक्ष्मभूकंपलेखी
microscopic fabric symmetry	सूक्ष्म संविन्यास-सममिति	microseismometer		सूक्ष्मभूकंपमापी
microscopic formula	सूक्ष्म सूत्र	microseptum	<i>Zool.</i>	सूक्ष्मपट
microscopic fraction	सूक्ष्म अंश	microsere	<i>Bot., Zool.</i>	सूक्ष्मक्रमक
microscopic granule	सूक्ष्म दाना	microserology		सूक्ष्मसीरमविज्ञान
microscopic histochemistry	सूक्ष्मदर्शी ऊतकरसायन	microshell	<i>Geog.</i>	सूक्ष्म कवच
microscopic illuminator	सूक्ष्मदर्शी प्रदीपित	microsmatic	<i>Zool.</i>	अल्पघ्राणीय
microscopic impurity	अतिसूक्ष्म अपद्रव्य	microsmatic brain		अल्पघ्राणीय मस्तिष्क
microscopic law	सूक्ष्मीय नियम	Microsol Black	<i>Chem.</i>	माइक्रोसॉल ब्लैक
microscopic magnetic field	सूक्ष्म चुम्बकीय क्षेत्र	microsomal fraction	<i>Bot.</i>	माइक्रोसोमी अंश
microscopic Max- well's equation	सूक्ष्म मैक्सवेल समीकरण	microsomal lipoprotein	<i>Chem.</i>	माइक्रोसोमीय लाइपो- प्रोटीन
microscopic mobility	सूक्ष्मदर्शी गतिशीलता	microsome	<i>Zool., Chem</i>	माइक्रोसोम, लघुकाय
microscopic particle	सूक्ष्मकणिका	microsomite	<i>Geol.</i>	माइक्रोसोमाइट
microscopic plant	सूक्ष्म पादप	microspecies	<i>Zool.</i>	माइक्रोस्पीसीज, सूक्ष्म- जाति
microscopic state	सूक्ष्मपरिभाषी स्थिति	microspectrophoto- meter	<i>Phy.</i>	सूक्ष्मस्पेक्ट्रोमीय प्रकाशमापी
microscopic structure	सूक्ष्मदर्शीय संरचना	microspectrophoto- metric method	<i>Bot., Phy.</i>	सूक्ष्मस्पेक्ट्रोमी प्रकाश- मितिक विधि
microscopic technique	सूक्ष्मदर्शनी तकनीक, सूक्ष्म- दर्शनी प्रविधि	microspectrophoto- metry	<i>Phy., Zool.</i>	सूक्ष्मस्पेक्ट्रम प्रकाशमिति
microscopic value	सूक्ष्म मान	microspectroscope	<i>Phy., Bot.</i>	सूक्ष्म स्पेक्ट्रमदर्शी, सूक्ष्म- स्पेक्ट्रोस्कोप
microscopic variation	सूक्ष्म विचरण	microspectroscopy	<i>Phy.</i>	सूक्ष्मस्पेक्ट्रमिकी
microscopist	सूक्ष्मदर्शिक	Microspermae	<i>Bot.</i>	माइक्रोस्पर्मि
		microspermatocyte	<i>Zool.</i>	सूक्ष्मशुक्राणुकोशिका
		microsphere	<i>Geol.</i>	सूक्ष्मगोलक
		microspheric	<i>Zool</i>	लघुवेरमी

microspheric juvenarium	Geol.	सूक्ष्मगोलक लक्षणवर्त	microstylous	Bot.	लघुवर्तिक
microspheric proloculus	Geol.	सूक्ष्मगोलक जाद्यकोष्ठक	microsurgery	Bot., Zool	सूक्ष्मशल्यकर्म
microspherulitic	Geol.	सूक्ष्मस्फेरुलाइटी	microswarm	Zool.	सूक्ष्मवृन्द
Microspira aestuarii	Geol	माइक्रोस्पाइरा एस्टु-आराई	microswarmer		लघुचलाणु
microsporangial mass	Bot.	लघुबीजाणुधानी पिंड	microsyenite	Geol	सूक्ष्मसायनाइट
microsporangiate		लघुबीजाणुधानिक	microsymbiote	Zool.	सूक्ष्मसहजीवी
microsporangiate cone		लघुबीजाणुधानिक शंकु	microtechnique	Phy.	सूक्ष्म प्रक्रिया, सूक्ष्म तंत्रनीक
microsporangium		लघुबीजाणुधानी	Microtermes	Zool.	माइक्रोटर्मोस
microspore	Bot	लघुबीजाणु, माइक्रोस्पोर	micro tessar-type objective	Bot	सूक्ष्म टेसर-प्रकार अभि-दृश्यक
Microsporidia	Zool.	माइक्रोस्पोरीडिया	micro theory	Math.	सूक्ष्म सिद्धांत
microsporocyte	Bot	लघुबीजाणुमातृकोशिका	microtherm	Bot.	न्यूनतापी
microsporogenesis		लघुबीजाणुजनन	micro-thermal climate	Geog	न्यूनतापीय जलवायु
microsporophyll	Bot	लघुबीजाणुपर्ण	microthorax	Zool	सूक्ष्मवक्ष
microsporozoite	Zool	सूक्ष्मबीजाणुज, माइक्रोस्पोरोजोआइट	microtitration	Bot	सूक्ष्म अनुमापन
microstate	Chem.	सूक्ष्म अवस्था, माइक्रोस्टेट	microtitration technique		सूक्ष्म अनुमापन तंत्रनीक
microstome	Bot, Zool.	सूक्ष्मउद्ग	microtitrimetric determination	Chem	सूक्ष्मअनुमापनी निर्धारण
Microstomum	Zool	माइक्रोस्टोमम	microtome	Bot.	माइक्रोटोम
microstratigrapher	Geol.	सूक्ष्मस्तरणविज्ञ	microtomy		माइक्रोटोमी
microstratigraphical correlation		सूक्ष्मस्तरिक सहसंबन्ध	microtool		सूक्ष्म औजार
microstratigraphical profile		सूक्ष्मस्तरिक प्रोफाइल	microtorr	Phy.	माइक्रोटोर्
microstratigraphical research		सूक्ष्मस्तरिक अनुसंधान	microtrichium	Zool	सूक्ष्मरोमक
microstratigraphical sector		सूक्ष्मस्तरिक खंड	microtrichous	Bot	सूक्ष्मरोमी
microstratigraphical zone		सूक्ष्मस्तरिक जोन	microtriod	Zool.	माइक्रोट्रिऑड
microstratigraphic examination		सूक्ष्मस्तरिक परीक्षण	microtron	Phy	माइक्रोट्रॉन
microstratigraphy	Geol.	सूक्ष्मस्तरिकी	microtubule	Bot.	सूक्ष्मनलिका
microstrip	Phy.	सूक्ष्म संचरण लाइन, लघुपट्टिका	microtumour	Zool.	सूक्ष्मार्बुद
microstrongyle	Zool.	माइक्रोस्ट्रॉन्गिल	micro type (life cycle)	Bot.	सुस्पृष्टि लघु-चरण
microstructure	Bot.	सूक्ष्म संरचना	micro unit	Chem.	सूक्ष्म मात्रक, सूक्ष्म एकक
microstyloilite	Geol.	सूक्ष्मस्टाइलोनोलाइटी	microvac pump	Phy.	महानिर्वात पम्प
			microvibratory	Bot.	सूक्ष्मकंपित
			microvillus	Bot, Zool.	सूक्ष्मोद्ग, सूक्ष्माकुर
			microvision	Phy.	सूक्ष्मदृष्टि
			microvolumetric analysis	Chem.	सूक्ष्म आयतनी विरलेषण

micro wafer	<i>Phy.</i>	सूक्ष्म पटलिका	micton	<i>Bot.</i>	मिक्टॉन
microwave	<i>Phy., Geol.</i>	सूक्ष्म तरंग	micturition	<i>H.Sc.</i>	मूत्रण
microwave absorption		सूक्ष्म तरंग अवशोषण, माइक्रोवेव अवशोषण	mid-air	<i>Geog.</i>	आकाश, वायुमध्य
microwave acoustics		सूक्ष्मतरंग ध्वानिकी	midani	<i>H.Sc.</i>	मिडानी
microwave early warning		सूक्ष्म तरंगी पूर्व चेतावनी	midas	<i>Phy.</i>	मिडास
microwave early warning radar		सूक्ष्म तरंग पूर्व चेतावनी रेडार	Mid-Atlantic ridge	<i>Geog.</i>	मध्य-अटलांटिक कटक
microwave filter		सूक्ष्म तरंग फ़िल्टर	midbay bar	<i>Geog.</i>	मध्यखाड़ी रोधिका
microwave gyrator		सूक्ष्म तरंग परिभ्रामक	midbrain	<i>H.Sc., Zool.</i>	मध्य मस्तिष्क
microwave mixer		सूक्ष्मतरंगीय मिश्रित	midcourse guidance	<i>Phy.</i>	पथ मध्य निर्देशन
microwavepower transmission		सूक्ष्म तरंग शक्ति संचरण	mid-course phase		पथ मध्य कला, पथ मध्य प्रावस्था
microwave radar		सूक्ष्म तरंग रेडार	mid-day	<i>Geog., Bot.</i>	मध्याह्न
microwave radar receiver		सूक्ष्म तरंग रेडार अभिग्राही	mid-day closure		मध्याह्निक निमीलन
microwave radar transmitter		सूक्ष्म तरंग रेडार प्रेषित	mid-depth	<i>Geog.</i>	अर्ध गहराई
microwave radiometry		सूक्ष्म तरंगी विकिरणमिति	mid-Devonian Lycopod	<i>Bot.</i>	मध्य डिवोनी लाइको- पोड
microwave spectrograph		सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रमलेखी	mid-digital	<i>Zool.</i>	मध्यांगुलि
microwave spectroscopy		सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रमिकी	middle		मध्य
microwave spectrum		सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रम	middle age		मध्ययुग
microwave tube		सूक्ष्म तरंग नलिका	middle band		मध्य पट्टी
microwave turbulence		सूक्ष्म तरंगी प्रकीर्ण	middle class		मध्य वर्ग
microwave ultrasonics		सूक्ष्म तरंग पराश्रव्यिकी	middle car		मध्य कर्ण
microweighing tube	<i>Chem.</i>	सूक्ष्म तौलन नली	middle evolute		मध्य केन्द्रज
microxea	<i>Zool.</i>	लघुमतीक्ष्णिका	middle finger		मध्यमा, मध्यांगुलि
microzooid	<i>Zool.</i>	सूक्ष्मजीवक	middle fraction		मध्य प्रभाज
microzoon	<i>Zool.</i>	सूक्ष्मप्राणी	middle gyrus		मध्य जाइरस
microzoophilous	<i>Bot.</i>	लघुजीवपरागित	Middle Himalayas (= Lesser Himalayas)		मध्य हिमालय, लघु हिमालय
microzoophobic	<i>Bot.</i>	लघुजीवभीरु	middle income group		मध्यम आय वर्ग
microzooplankton	<i>Zool.</i>	सूक्ष्मप्राणिप्लवक	middle man	<i>Geol.</i>	मध्य पट्टी
microzoospore	<i>Zool.</i>	सूक्ष्मचलवीजाणु	middle marker		मध्य सूचक
micrurgical	<i>Bot.</i>	सूक्ष्मविच्छेदनीय	middle oil	<i>Chem.</i>	मध्यम तेल, कार्बोलिक तेल
micrurgic method	<i>Geol.</i>	सूक्ष्म-कर्म-विधि	middle plane		मध्य समतल
micrurgy	<i>Bot.</i>	सूक्ष्मकर्म	middle power objective		मध्य-आवर्धक अभिदृश्यक
mictism	<i>Bot.</i>	विषममिश्रण	middle surface		मध्य पृष्ठ
			middle term		मध्यपद

middle third set (= Cantor's discontinuum)	<i>Math.</i>	निर्मध्यतृतीय समुच्चय	mid-range		मध्य परिसर
middle tint		मध्य आभा	mid range modulation frequency		मध्य परिसर माडुलन आवृत्ति
middle westerner		मध्य पश्चिमवासी	mid-rank method		मध्य कोटि विधि
middle zone		मध्य क्षेत्र	mid rib		मध्य शिरा
middling	<i>Chem., Geol.</i>	मध्यक, मिडलिंग	midshipman	<i>Geog.</i>	मिडशिपमैन
mid dorsal line		मध्य पृष्ठ रेखा	midsquare		मध्य वर्ग
midly twill	<i>H. Sc.</i>	मिडी ट्वील	mid-tide		मध्य ज्वार
mid-feather	<i>Geol.</i>	सपोजी शिरिका	mid tropical water	<i>Zool.</i>	मध्योष्ण कटिबंधी जल
midfrequency response		मध्य आवृत्ति अनुक्रिया	mid-ventral gland	<i>Zool.</i>	मध्याधर ग्रंथि
midge	<i>Zool.</i>	मशकाम	mid-ventral line		मध्य अघर रेखा
Midjet implinger	<i>Geol.</i>	मिजेट अघाती	mid-ventral region		मध्याधर क्षेत्र
midjet unit	<i>Chem.</i>	लघु एकक, मिजेट यूनिट	mid water feeder		मध्यजल भोजी
midgrass	<i>Bot.</i>	मध्य घास	mid water fishing		मध्यजल मत्स्यन
mid gut	<i>Zool.</i>	मध्यांत्र	mid water trawl		मध्यजल आनाय
mid heaven		मध्य गगन	midwife toad (= obstetrical toad)	<i>Zool.</i>	घातुं भेक
mid intestine		मध्यांत्र	mid world sea	<i>Geog.</i>	विश्वमध्य सागर
mid latitude		मध्यअक्षांश	miemite	<i>Geol.</i>	मीमाइट
midlittoral zone (balanoid zone)		मध्य बेलाचलीय क्षेत्र (बैलेनस क्षेत्र)	Mie scattering	<i>Phy.</i>	मी प्रकीर्णन
mid menstrual pain	<i>H. Sc.</i>	अंतरांतर वेदना	Miescher corpuscle	<i>Zool.</i>	मीशर वणिका
mid-night		मध्य रात्रि	Miescher's tube		मीशर नलिका
midnight sun	<i>Geog.</i>	मध्य रात्रि सूर्य	Mie's extension	<i>Chem.</i>	मी-विस्तार
mid-noon		मध्याह्न	Mie's theory	<i>Chem. Geol.</i>	मी-वाद
mid-ocean ridge	<i>Geog.</i>	मध्य-महासागरीय कटक	mi-fils	<i>H. Sc.</i>	मि-फिल्स
midot	<i>Phy.</i>	मिडाट	Mi-Florence	<i>H. Sc.</i>	मिफ्लोरेन्स
mid-point		मध्य बिंदु	migma	<i>Geol.</i>	मिग्मा, मिग्मा
midpoint biasing		मध्य बिंदु बायसिंग	migmatite	<i>Geol.</i>	मिग्माटाइट
midpoint convex space		मध्यबिंदु अवमुख समष्टि	migmatite front		मिग्माटाइट अग्र
midpoint formula		मध्यबिंदु सूत्र	migmatite superstructure		मिग्माटाइट अधिसंरचना
midpoint method		मध्य बिंदु विधि	mignardis		मिग्नार्डिस
midpoint quadrature formula		मध्य बिंदु क्षेत्रकलन सूत्र	mignonette	<i>H. Sc.</i>	मिग्नोनेट
mid-point tapping (= centre tapping)		मध्य बिन्दु निक्काट	mignonette lace	<i>H. Sc.</i>	मिग्नोनेट लेस
mid prophase		मध्य पूर्वावस्था	migrant	<i>Bot.</i>	प्रवासी
			migrante (migrant)	<i>Zool.</i>	माइग्रैण्टी, पक्षप्रवासी
			migrant form	<i>Geog.</i>	प्रवासी रूप
			migrant species	<i>Bot., Zool.</i>	प्रवासी जाति

migrating divide	<i>Geol.</i>	प्रवासनी विभाजक	migratory swarm		प्रवासी दल
migrating dune	<i>Geol.</i>	गतिमान टिच्चा	migrule	<i>Bot.</i>	प्रवासांश
migrating fluid		गतिशील द्रव	mijkate	<i>Geol.</i>	मिजेकाइट
migrating group	<i>Chem.</i>	अभिगामी समूह	mikado	<i>H.Sc.</i>	मिकाडो
migrating ion		अभिगामी आयन	mikroplakite	<i>Geol.</i>	माइक्रोप्लैकाइट
migration		प्रवास, अभिगमन	Mikus's acid	<i>Chem.</i>	मिकूश अम्ल
migrational stream		प्रवासी समूह	mil (=1/1000 of an inch)	<i>Phy.</i>	मिल
migration area		प्रवासन क्षेत्र	Milan	<i>H.Sc.</i>	मिलैन
migration constant		अभिगमनांक	milanise yarn	<i>H.Sc.</i>	मिलैनेज सूत
migration length		प्रवासन दूरी	Milas reagent	<i>Chem.</i>	मिलाज अभिकर्मक
migration potential		अभिगमन विभव	milch cow		दुधार गाय
migration routes		प्रवासी मार्ग	mild		मंद, मृदु
migration tube		अभिगमन नलिका	mild alkali		मंद क्षार
migration velocity		प्रवास-वेग	mild climate		मृदु जलवायु
migratory		प्रवासी, अभिगामी	mild etch virus		मंद रद वाइरस
migratory agriculture		प्रवासी कृषि	mildew	<i>Bot., Chem., H.Sc.</i>	वासिता
migratory aptitude		अभिगामी अभिवृत्ति	mildewcide		वासिता नाशक
migratory bird		प्रवासी चिड़िया	mildew proof		वासिता सह
migratory cell		प्रवासी कोशिका	mildew resistant		वासिता रोधी
migratory cycle		प्रवासी चक्र	mild-humic soil	<i>Geog.</i>	मृदुह्यूमी मृदा
migratory farmer		प्रवासी कृषक, भ्रमण-शील कृषक	mild mosaic		मंद किर्मोरि, मंद मोजेक
migratory fishes		प्रवासी मीन	mild peat		कोमल पीट
migratory hand tillage		प्रवासी हस्त-जुताई	mild soap		मृदु साबुन
migratory hunting population		प्रवासी आखेटी जन	mild steel		मृदु इस्पात
migratory life		प्रवासी जीवन	mild winter	<i>Geog.</i>	मृदु शीत
migratory locust		प्रवासी टिड्डी	mile	<i>Math., Geog.</i>	मील
migratory movement		प्रवासी संचलन	mileage of route	<i>Geog.</i>	मार्ग-मील दूरी
migratory nematode		प्रवासी सूत्रकृमि	mileage recorder	<i>Geog.</i>	मील-अभिलेखी
migratory nucleus		प्रवासी केन्द्रक	milestone	<i>Geog.</i>	मील-स्तम्भ
migratory pastoral population		प्रवासी पशुचारणिक जन	miliary	<i>Zool.</i>	मिलियरी, यवाम
migratory phase		प्रवास प्रावस्था	miliary granule		मिलियरी कणिका, यवाम कणिका
migratory primitive		प्रवासी आदिम, भ्रमण-शील आदिम	miliary spine		यवाम शूल
migratory primitive culture		प्रवासी आद्य संवर्ध	milieu		वातावरण, परिस्थिति
			Miliola	<i>Geol.</i>	मिलियोला
			miliolid	<i>Geol.</i>	मिलियोलासम
			miliolitic formation	<i>Geol.</i>	मिलियोलाइटो शैलसमूह

military conquest	Geog.	सैन्य विजय	milky way	Math . Geog	आकाश गंगा दुग्धमेखला
military gamlog	Math	सैनिक खेल	mill		1 पेपणी, चक्की 2 मिल, कारखाना 3 हिमाली कूप
military gas	Chem.	युद्ध गैस	millboard	Geol.	मिलबोर्ड
military geography	Geog.	सैनिक भूगोल, सैनिक भूज्ञान	milled head	Chem	रेखोत्कीर्ण शीर्ष
military map		सैनिक मानचित्र	milled head micrometer	Geog.	खचित मूदमपापी
military road		सैनिक सडक	milled ring	Geog	खचिन वलय
Military Route Book		मिलिटरी रूट बुक, सैन्य मार्ग-मुस्तिका	millefiori	Chem (Gl)	मिलिफिओरो, बहुपुष्पी
military security		सैन्य सुरक्षा	mille map	Geog	मिली मानचित्र, सहस्राक्ष मानचित्र
military series	Geog	सैन्य मानचित्र माला	Millepora	Zool	मिलीपोरा
military standard		सैनिक मानक	Millepora alcicornis		मिलीपोरा एल्सिकॉर्निस
military stronghold		सैनिक गढ़	millepore	Zool.	सहस्ररंध्री
military work		सैन्य किलाबन्दी	millepore coral		सहस्ररंध्री प्रवाल, मिलीपोर प्रवाल
militate		प्रतिकूल	Milleporidium	Geol.	मिलीपोरीडियम
milium	H Sc.	मिलियम	Milleporina	Zool.	मिलीपोरिना
Milvusa velutina	Bot	मिलिजसा वेलूटीना	Miller circuit	Phy.	मिलर परिपथ
milk	H Sc , Zool.,Geog.	दुग्ध, दूध	Miller effect		मिलर प्रभाव
milk canine		दूध दान (रदनक)	Miller index		मिलर सूचकांक
milk drip	H Sc.	दुग्ध च्यवन	Miller Integrator		मिलर समाकनित
milk fish	Zool.	पालमीन, चेनाड	millerite	Geol	मितेराइट
milk gland		दुग्ध ग्रन्थि	Miller ovum	Zool.	मिलर बड़ाणु
milkiness	Chem	दुग्धिलता, दूधियापन	Miller's itch		मिलर खजती
milk of coconut	Bot.	कारियल का पानी	Miller's process	Chem	मिलर प्रक्रम
milk of lime	Chem	दूधिया चूना	Miller system		मिलर पद्धति
milk of sulphur		दूधिया गंधक	Miller time base		मिलर समयाधार
milkshake	H Sc.	मिल्कशेक	millet wheat	Geol ,H Sc.	मिलर गेहूँ
milkstone	Geol	दुग्धप्रस्तर, मिल्कस्टोन	Millestroma		मिलेस्ट्रोमा
milk streak	Zool	स्तन्य रेखा	millet	Bot ,Geog	मिलेट (ज्वार, बाजरा आदि)
milk tea	H.Sc.	दुग्ध चाय	millet rain	Geog.	मिलेट-वर्षा
milk teeth	Zool ,H.Sc.	पानुक दन्त, दूध के दात	milliammeter	Chem.	मिलीअमीटर, सहस्राक्ष अमीटर
milkweed	H Sc.	मिल्कवीड	milliampere	Phy.	मिली ऐम्पियर
milk white		दुग्ध श्वेत	millibar	Phy.	मिलीबार
milky	Chem , Geog.	दूधिया			
milky quartz		दूधिया स्फटिक			
milky sea		दूधिया सागर			



millibarn	Phy.	मिलीबार्न	milliosmol	Chem., Zool.	मिलीओसमॉल
millicurie	Phy.	मिलीक्यूरी	millipede	Zool.	मिलीपीड, सहस्रपाद
millicurie hour		मिलीक्यूरी घंटा	milliphot	Phy.	मिलीफोट
milliequivalent	Chem.	1. सहस्रांश तुल्यांक, मिलीतुल्यांक 2. मिलीतुल्य	millipoise	Chem.	मिलीपाइज
milliequivalent weight	Chem.	मिली तुल्यांकी भार, सहस्रांश तुल्यांकी भार	millipore filter method	Bot.	सहस्रछिद्र निरस्यन्दक विधि
milligal	Geol.	मिलीगेल	milliscope	Chem.	मिलीदर्शी
milligram	Math., Phy., H.Sc.	मिलीग्राम	millisite	Geol.	मिलीसाइट
milligram analysis		मिलीग्राम विश्लेषण	millivolt	Phy.	मिलीवोल्ट
Millikan's oil drop method	Chem.	मिलिकन विन्दुपात पद्धति	Millon's base	Chem.	मीयाँ क्षारक
Millikan's value		मिलिकन-मान	Millon's reaction		मियाँ अभिक्रिया
millilitre	Math., Phy., Chem.	मिलीलिटर	mill pond	Geog.	मिल-ताल
millimass unit (mmu)	Phy.	मिली-द्रव्यमान-मात्रक	mill-race	Geog.	मिल-रेस
millimeter	Math., Phy.	मिलीमीटर	mill-sampling	Geol.	मिल-प्रतिचयन
millimeter wave		मिलीमीटर तरंग	mill scale	Chem.	मिल शल्क
millimeter wave tube		मिलीमीटर तरंग नलिका	Mills-Nixon effect	Chem.	मिल्स निकसन निष्पत्ति
millimho	Phy.	मिलीमो	Mills process		मिल्स प्रक्रम
millimicron	Phy., Chem.	मिलीमाइक्रान	Mill's ratio	Math.	मिल-अनुपात
millimicrosecond	Phy.	मिलीमाइक्रोसेकेंड	millstone	Geol.	पेपण प्रस्तर
millimol	Chem.	मिलीमोल	millstone grit	Geol.	मिलस्टोन ग्रिट
millimolar	Zool.	मिलीमोलर	millstream	Geog.	मिल सरिता
millimole		मिलीमोल	mill trommel	Geol.	मिल ट्रामेल
milling	Chem.	मिलियन, निर्माणयन, पेषण, रेखोत्कीर्णन	mill white	Chem.	मिल श्वेत, मिल ह्वाइट
milling blue	Chem.	मिलिंग ब्लू, मिलिंग नील	mill worker	H.Sc.	मिल मजदूर
milling dye	Chem. (Text.)	मिलियन रंजक	Milnean expansion	Math.	मिलन विस्तार
millinormal	Chem.	सहस्रांश नार्मल, मिली नार्मल	Milne-Eddington model	Math.	मिलन एडिंग्टन निदर्श
million	Math.	दशलक्ष, दस लाख	Milner-Debye theory	Chem.	मिलनर डेवाइ सिद्धांत
Millionaire city	Geog.	मिलियनायर सिटी	Milne's method	Math.	मिलन विधि
millionaire row	Geog.	कोटीपति-भक्ति	Milne's problem		मिलन समस्या
million city	Geog.	मिलियन सिटी	Milne Thomson's construction		मिलन टामसन रचना
million-mark city	Geog.	दशलाखी शहर	Milori blue	Chem.	मिलोरी नील
millionth scale	Geog.	दशलाखवां पैमाना	miloschite	Geol.	मिलोशाइट
			milowite	Geol.	मिलोवाइट
			milpa		मिल्पा
			milt	Zool.	मत्स्य शुक
			Miltown		मिल्टाउन

<i>Milvus migrans</i>	Zool	मिल्वस माइग्रंस (चील)
mimeograph	Chem., Geog.	1. अनुलिपित्र, मिमिओग्राफ 2. अनुलिपि
mimesis	Bot.	माइमैसिस
mimetesite	Chem	मिमेटेसाइट
mimetic	Zool., Geol.	अनुहारी
mimetic crystallization		अनुहारी क्रिस्टलन
mimetic twin		अनुहारी यमन
mimetite	Chem, Geol.	मिमेटाइट
mimic	Zool	अनुहारक
mimicry	Zool	अनुहरण
mimophyre	Geol	मिमोफायर
mimosa	Geog.	मिमोसा
<i>Mimosa pudica</i>	Bot.	मिमोसा प्यूडिका (लाशवन्ती, छुईमुई)
<i>Mimosa rubricaulis</i>		मिमोसा रुब्रीकौलिस
Mimosaceae		मिमोसा
mimosite	Geol.	मिमोसाइट
Mimosoideae	Bot.	मिमोसाइडी
mimotype	Bot	अनुहारी प्ररूप
<i>Mimulus gracillus</i>	Bot	मिमुलस ग्रैसिलिस
<i>Mimulus he xandra</i>		मिमुसोपस हेक्सेन्ड्रा
mina cloth	H Sc.	मिना वस्त्र
minalpha	Chem	मिनेल्फा (मिथानु)
minaret	Geog	मीनार
minargent	Chem	मिनारेंट (मिथानु)
mince (food)	Chem, H.Sc	(n) कीमा (v) कीमाकरण
miacemeat	H Sc.	कीमा
minchew silk	H Sc.	मिच्यू रेशम
mincing machine		कीमा यंत्र
Mindel glaciation	Geog	मिन्डेल-टिमनदन
Minding's theorem	Math	साइन्डिंग प्रमेय
mine	Geol.	खान, खदान
mine crater	Geol	खनि विवर, खनि क्रेटर

mine detector (=mine detecting set)	Phy	माइन समूचक
mine filling	Geol	खनि पूरण
miner	Geol	खनक
mineragraphy	Geol	घातु खनिज वर्णना
mineral		खनिज
mineral acid		अकार्बनिक खनिज अम्ल
mineral ash		खनिज राख
mineral association		खनिज साहचर्य
mineral belt		खनिज पट्टी
mineral beneficiation		खनिज सफ़ाईकरण
mineral binder		खनिज बंध, खनिज धोजक
mineral bister		खनिज बिस्टर
mineral black		खनिज ब्लैक, मिनरल ब्लैक
mineral blossom	Geol.	झुञ्जी स्फटिक
mineral blue	Geol.	मिनरल ब्लू
mineral caoutchouc	Geol.	इनेटराइट
mineral charcoal		खनिज काष्ठकीयना
mineral charged water		खनिज प्रभारित जल
mineral chemistry		खनिज रसायन
mineral classification		खनिज वर्गीकरण
mineral cleavage		खनिज विचलन
mineral coal		खनिज कोयला
mineral constituent		खनिज अवयव
mineral content		खनिजांश
mineral cotton		खनिज कपास
mineral deposit		खनिज निक्षेप
mineral detritus		खनिज अपरद
mineral disintegration		खनिज विघटन
mineral dressing		खनिज प्रसाधन
mineral dust		खनिज धूलि
mineral element		खनिज तत्व
mineral fertilizer		खनिज उर्वरक
mineral fibre		खनिज तंतु
mineral food		खनिज खाद्य
mineral fragment		खनिज धाँस

mineral fuel		खनिज ईंधन	mineral water		खनिज जल
mineralization	<i>Geol., Geog.</i>	खनिजीभवन, खनिजन	mineral wax		खनिज मोम
mineralized		खनिजीकृत, खनिजीभूत	mineral wedging		खनिज फाननिवेशन
mineralized matter		खनिजीभूत पदार्थ	mineral wool		खनिज ऊर्ण
mineralized zone		खनिजीभूत क्षेत्र	mineral zoning		खनिज मंडलन
mineralizer	<i>Geol.</i>	खनिजकारक	mine rescue car	<i>Geol.</i>	खनिरक्ष यान
mineralizing agent		खनिजन कर्मक	mine rock	<i>Geol.</i>	खनि-शैल
mineralizing solution		खनिजकारी विलयन	minerogenesis	<i>Geol.</i>	खनिजजनन
mineral kingdom		खनिज जगत्	minerogenetic province		खनिजजननिक प्रदेश
mineral line		खनिज रेखा	miner's fuze	<i>Phy.</i>	विक्रफोर्ड फ्यूज (= Bickford fuze)
mineral load		खनिज भार	miner's inch	<i>Geol.</i>	खनक इंच
mineral map		खनिज मानचित्र	miner's oil		खनक तेल
mineralogical analysis		खनिजीय विश्लेषण	minervite	<i>Geol.</i>	मिनेर्वाइट
mineralogical maturity		खनिजीय पक्वता	minery	<i>Geol.</i>	1. खनिसमूह 2. खनिक्षेत्र
mineralogical phase rule		खनिजीय प्रावस्था नियम	mine shaft	<i>Geol.</i>	खनि कूप
mineralogist	<i>Geol., Geog.</i>	खनिज वैज्ञानिक, खनिजज्ञ	mine symbol	<i>Geog.</i>	खान-प्रतीक
mineralography	<i>Geol.</i>	खनिजवर्णना	minette	<i>Geol.</i>	मिनेट
mineralogy	<i>Geol., Geog.</i>	खनिजिकी, खनिजविज्ञान	mine water	<i>Geog.</i>	खदान-जल
mineral oil		खनिज तेल	mingchow	<i>H.Sc.</i>	मिंगचो
mineral opal		खनिज उपल	Ming land	<i>Geog.</i>	मिंग भूमि
mineral ore		खनिज अयस्क	miniature		लघुरूप, लघु
mineral pitch		खनिज डामर, ऐस्फाल्ट	miniature atoll	<i>Geol.</i>	लघु प्रवालद्वीप वलय, लघु अडल
mineral province		खनिज क्षेत्र	miniature base	<i>Geog.</i>	लघु आधार
mineral purple		मिनरल परपल	miniature canal		लघु नहर
mineral raw material		कच्चा खनिज पदार्थ, असंस्कृत खनिज पदार्थ	miniature circuit	<i>Phy.</i>	लघु परिपथ
mineral resources		खनिज साधन	miniature valve		लघु वाल्व
mineral seal oil		खनिज सील तैल	miniaturization	<i>Geol., Phy.</i>	लघुरूपण
mineral soil		खनिज मृदा	minifying glass	<i>Geog.</i>	मिनिफाइंग ग्लास
mineral species		खनिज जाति	minigroove record	<i>Phy.</i>	मूक्ष्म खांच रेकार्ड
mineral spring		खनिज झरना	minimal area	<i>Bot.</i>	अल्पतम क्षेत्र
mineral toxicity		खनिज आविषालुता	minimal curve	<i>Math.</i>	शून्यदूरीक वक्र (= null curve)
mineral vein		खनिज शिरा	minimal equation	<i>Math.</i>	अल्पिष्ठ समीकरण
mineral violet	<i>Chem.</i>	मिनरल वैंगनी, मिनरल जाम्ब	minimal formula	<i>Chem.</i>	निम्नतम सूत्र
			minimal hypersurface		अल्पिष्ठ अन्तर्विम पृष्ठ

minimal income	<i>H.Sc.</i>	न्यूनतम आय	minimum polynomial		अल्पतम बहुपद
minimal light	<i>H.Sc.</i>	अल्पतम प्रकार	minimum price	<i>H.Sc.</i>	न्यूनतम कीमत
minimal member	<i>Math.</i>	अल्पिष्ठ सदस्य	minimum quadrat number	<i>Bot</i>	न्यूनतम क्वाड्रेट सदस्य
minimal path		अल्पिष्ठ पथ	minimum redundancy code	<i>Math.</i>	निम्नतम अतिरेक कूट
minimal polynomial		अल्पिष्ठ बहुपद	minimum requirement method	<i>Geog</i>	न्यूनतम आवश्यकता विधि
minimal principle		अल्पिष्ठ नियम	minimum surface of revolution	<i>Math</i>	अल्पिष्ठ परिक्रमण पृष्ठ
minimalraum	<i>Bot</i>	अल्पतम क्षेत्र	minimum temperature epoch	<i>Geog</i>	निम्नतम ताप-काल
minimal route	<i>Math.</i>	अल्पिष्ठ मार्ग	minimum wage	<i>H.Sc.</i>	न्यूनतम मजदूरी
minimal surface		अल्पिष्ठ पृष्ठ	minimum wage rate	<i>Math.</i>	न्यूनतम मजदूरी दर
minimal surface of revolution	<i>Math.</i>	अल्पिष्ठ परिक्रमण पृष्ठ	mining	<i>Geol., Geog</i>	खनन
minimal variety		अल्पिष्ठ उपसमष्टि	mining camp		खनन कैंप
minimax approximation		अल्पमहिष्ठ सन्निकटन	mining centre		खनन केन्द्र
minimax estimation		अल्पमहिष्ठ आकलन	mining debris		खनन मलबा
minimax principle		अल्पमहिष्ठ सिद्धान्त	mining geology		खनन भूविज्ञान
minimax regret		अल्पमहिष्ठ खेद	mining industry		खनन उद्योग
minimization of cost	<i>Math.</i>	लागत का न्यूनतमीकरण	mining mechanization		खनन यन्त्रीकरण
minimized iteration		न्यूनतमोद्गत पुनरावृत्ति	mining town		खनन नगर
minimizing sequence		न्यूनतमकारी अनुक्रम	minion	<i>Geol</i>	छानन
minimum		1 न्यूनतम, अल्पतम, निम्नतम 2 (of curve) निम्निष्ठ	Mniopterus	<i>Zool</i>	मिनिओप्टेरस
minimum-access-programming		अल्पतम अविद्यमी प्रोग्रामन	minophytic	<i>Geol.</i>	अनिमूदमपर्याफितीय
minimum boiling point		निम्नतम वरथनाक	minishirt	<i>H.Sc.</i>	मिनीशर्ट
minimum clearance		न्यूनतम निष्कासन	miniskirt		मिनीस्कर्ट
minimum condition		अल्पतमता प्रतिबंध	mini track	<i>Phy</i>	लघुप्रेषित पथ
minimum deviation		अल्पतम विचलन	mini track radio		लघुप्रेषित पथ अभिप्राही
minimum distance decoder		अल्पतम दूरी कूटवाचक	minium	<i>Chem</i>	मिनियम
minimum induced drag		अल्पतम प्रेरित वर्षण	mink	<i>Bot, Zool.</i>	मिंक
minimum ionization		निम्नतम आयनन	Minkowski force	<i>Math., Phy.</i>	मिन्कोव्स्की बल
minimum maximum error approximation		अल्पमहिष्ठ त्रुटि सन्निकटन	Minkowski functional		मिन्कोव्स्की फलनक
minimum point (of curve)	<i>Chem.</i>	निम्निष्ठ बिन्दु	Minkowski inequality		मिन्कोव्स्की असमिका
			Minkowski world		मिन्कोव्स्की द्विजाल, मिन्कोव्स्की जगत्
			minnesotaite	<i>Geol.</i>	मिनेसोटेआइट
			minnow	<i>Zool.</i>	मिनो
			"min" of a function	<i>Math.</i>	फलन का न्यूनतम

minophyric	<i>Geol.</i>	लघुपर्णोफरीय	minovar	<i>Chem.</i>	मिनोवार
minor		1. लघु, गौण 2. उपसारणिक, उप- डिटमिनेन्ट	mint	<i>Bot.,H.Sc.</i>	पुदीना
minorant (=lower bound)		निम्न परिवंद	*Mintaka (=δ Orionis)	<i>Astron.</i>	मिताका (=δ ओरिओ- निस)
minor arc		लघुचाप	mintalik drill	<i>H.Sc.</i>	मिन्टालिक ड्रिल
minor axis		लघु अक्ष	Minton drier	<i>Chem.</i>	मिन्टन शुष्कक
minor calyx		लघु कलश	mint sauce	<i>H.Sc.</i>	पुदीना चटनी
minor characteristic		गौण अभिलक्षण	mint tea		पुदीना चाय
minor community		लघुसमुदाय	minuend	<i>Math.</i>	व्यवकल्प
minor cone		गौण शंकु	minus	<i>Math.</i>	ऋण
minor control		लघु नियंत्रण	minus formula		ऋण सूत्र
minor correction		गौण संशोधन	"minus" minerals	<i>Geol.</i>	"माइनस" खनिज
minor cycle (=word time)	<i>Phy.</i>	शब्द काल	minus sign	<i>Math.</i>	ऋण चिह्न
minor element		अप्रधान तत्व	minus zone	<i>Phy.</i>	ऋणचिह्न क्षेत्र, ऋणचिह्न जोन
minor face		लघु फलक	minute		1. (angle) कला, मिनट 2. (time) मिनट
minor factor		गौण कारक, गौण घटक	minute floating algae	<i>Geog.</i>	सूक्ष्म प्लवमान शैवाल
minor flow system		लघु प्रवाही तंत्र	minute mercury cathode	<i>Chem.</i>	अल्प पारद कैथोड
minor fold		गौण बलन	minutest detail	<i>Geog.</i>	सूक्ष्मतम दितेल
minor function		निम्न फलन	minverite	<i>Chem.</i>	मिन्वेराइट
minor gas-constituent	<i>Chem.</i>	अल्प गैस	miny	<i>Geol.</i>	खनीय
minor geosyncline		लघु भूअभिनति	Minyas	<i>Zool.</i>	मिन्यास
minor intrusion		लघु अन्तर्वेधन, गौण अन्तर्वेधन	Miobatrachus	<i>Zool.</i>	मायोबैट्रैकस
minorised subset	<i>Math.</i>	निम्न परिवद्ध समुच्चय	Miocene	<i>Geol.,Zool.</i>	मध्यनूतन
minority carrier	<i>Phy.</i>	अल्पांश वाहक	miogeosyncline	<i>Geol.</i>	उपांतभूअभिनति
minority carrier life time		अल्पांश वाहक आयु	Miohippus	<i>Zool.</i>	माइओहिप्पस
minority emitter	<i>Phy.</i>	अल्पसंख्यक उत्सर्जक	miokrystalline	<i>Geol.</i>	अंशक्रिस्टलीय
minor lobe		गौण पालि	Miolate-Rosenheim scheme	<i>Chem.</i>	मायोलेटी रोजेनहाइम पद्धति, मायोलेटी रोजेनहाइम स्कीम
minor segment		लघु खंड	miombo	<i>Geog.</i>	माइओम्बो (अरेण्य)
minor six		लघु षष्ठ	miospore	<i>Bot.</i>	सूक्ष्म बीजाणु, मिओ- बीजाणु
minor tone		लघु टोन	*Mira (=ο Ceti)	<i>Astron.</i>	माइरा (=ο सीटाई)
minor town	<i>Geog.</i>	लघु नगर	Mirabilis jalapa	<i>Bot.</i>	मिराविलिस जलापा
minor triangulation		लघु त्रिकोणीयन	mirabilis type	<i>Zool.</i>	मिराविलिस प्ररूप
minor twist	<i>Geog.</i>	सूक्ष्म ऐठन	mirabilite	<i>Geol.</i>	मिराविलाइट
minor value		लघुमान, गौणमान			

*Mirach (=β Andromedae)	Astron.	माइरेक (=β ऐन्ड्रोमिडो)	mirror machine	Phy.	प्रतिबिम्ब यंत्र
miracidial	Zool	मीरासीडियमी	mirror nuclei	Phy	प्रतीप नाभिक, प्रतीप न्यूक्लियस
miracidium		मीरामीडियम	mirror nuclide		दर्पण न्यक्लाइड
miracle	Geog.	चमत्कार	mirror operation		दर्पण सञ्चिया
Mirafra erythroptera	Zool	मिराफ्रा एरिथ्रोप्टेरा (जंगली अगिया)	mirror pair		दर्पणी युग्म
mirage	Phy, Geog	मरीचिका	mirror plane		दर्पण समतल
*Mirak (=ε Bootis)	Astron.	माइरेक (=ε बोटिस)	mirror-reflection echo	Phy	बहुपरावर्तनी प्रतिध्वनि
*Mirak (=β Ursae Majoris)	Astron.	पुलह, माइरेक (=β उर्सि, β अर्मी मेजोरिस)	mirror relationship		दर्पणी संबंध
miran (missile ranging)	Phy.	मिरान (मिसाइल परा- सन)	mirror screw		दर्पण घूर्णी शापट
Miranda aurantia	Zool.	मिरान्डा ऑरेंजिआ	mirt	Phy.	मिर्त
mire	Bot., Geog	शायर, कीचड़	miry	Geog	कीचड़मय
mirreshka	H Sc.	मिरेस्का	miscarriage	H Sc	गर्भपात
*Mirfak (=α Persel)	Astron.	मिर्फक (=α प्रसिआर्द)	miscegenation	Geog.	श्वेताश्वेत संकरण
mirin	H.Sc	मिरिन	miscellaneous		विविध
Miripiana	Zool	मिरिपिन्ना	misch metal	Chem.	मिश धातु
Miripinnati	Zool	मिरिपिन्नाटी	miscomany	Bot	वृताधिक्य
Mirkim	Geog.	मिरकिम	miscibility	Chem., Bot, Phy	मिश्रणीयता
mirlon	H Sc	मिरलॉन	miscibility curve		मिश्रणीयता वक्र
mirocel	H Sc.	मिरोसेल	miscibility gap		मिश्रणीयता अंतरान
miroir	H Sc	मिरॉयर	miscible		मिश्रणीय
mirror	Chem., Phy Geog, Zool.	दर्पण मुकुर	misclosure	Geog	समापन शक्ती, समापन अणुदि
mirror clinometer		दर्पण प्रवणतामापी, दर्पण क्लाइनोमीटर	misfire	Chem, Phy, Geol	अतिस्फोटन, फिम हो जाना
mirror effect		दर्पण प्रभाव	misfit	Geog	अनुपापन्न, बेमेल
mirror formula		दर्पण सूत्र	misfit river		अनुपापन्न नदी, बेमेल नदी
mirror image		दर्पण प्रतिबिंब	misfit stream		अनुपापन्न सरिता, बेमेल सरिता
mirror image form		दर्पण प्रतिबिंब स्वरूप	misinterpretation	Geog, Math.	अपनिर्वचन
mirror-image isomerism		बिंब प्रतिबिंब समावयवता	mismatched lines	Phy.	कुमेनित साइज
mirror image relationship		दर्पण प्रतिबिंब संबंध	mismatching	Phy	कुमेनित
mirror interferometer	Phy.	समुद्र परावर्ती व्यतिकरण- मापी	misomer	Zool.	मिथ्याताम
mirror line	Phy.	परावर्तन रेखा, दर्पण रेखा	misorientation	Phy.	तुङ्गविक्रमास, दुर्गम- विन्यास
			mispairing	Zool.	कुयुग्मन

mispickel	Geol.	मिसपिकेल
misregistration	Phy.	अप अभिलेखन
misrun	Chem.	कुघावित
miss distance	Phy.	लघुतम दूरी
missense mutation	Zool.	अपार्थक उत्परिवर्तन
missile	Chem.,Phy.	प्रक्षेपणास्त्र, मिसाइल
missile master		मिसाइल मास्टर
missile plume		मिसाइल पिच्छ
missilry	Phy.	अस्त्रविज्ञान
missing electron	Phy.	अनुपस्थित इलेक्ट्रान
missing element	Chem.	अज्ञात तत्व
missing line	Phy.	लुप्त रेखाएँ
missing link	Biol.	अप्राप्त कड़ी
missing plot technique	Math.	अप्राप्त क्षेत्रक प्रविधि
missing pulse detector	Phy.	लुप्त स्पंद संसूचक
mission net	H.Sc.	मिशन नेट
mist	Geog.	धूमिका, कुहासा
mistake		भूल
mist coat	Chem.	धूमिका लेप
mist forest	Geog.	चिरमेघी वन
misting	Chem. (Ink.)	धूमिकायन
mistletoe	Bot.	मिसलटो
mistral	Geog.,H.Sc.	मिस्ट्रल
mistuning	Phy.	अपस्वरता, अपस्वरण
misty (m)	Zool.	तुपारीय (तुप)
mitchellite	Geol.	मिचेल्लाइट
Mitchell screen	Geol.	मिचेल छन्ना
Mitchell's method	Chem.	मिचेल पद्धति
mite	Zool.	वरुथी, चिचड़ी
mite dermatitis	Zool.	वरुथी त्वक्शोथ
Mitella	Zool.	माइटेला, मिटेला
mithridatite	Geol.	मिथ्रिडेटाइट
miticide	Chem.,Zool.	माइटनाशी, वरुथीनाशी, चिचड़ीनाशी
mitochondria	Biol., Chem., H.Sc.	सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया

mitochondrial lipoprotein		माइटोकॉन्ड्रिया लाइपोप्रोटीन
mitochondrial sheath	Zool.	माइटोकॉन्ड्रिया आच्छद, सूत्रकणिका आच्छद
mitogenetic ray	Bot.	वर्धनप्रभावी रश्मि
mitosis	Biol.,H.Sc.	सूत्रीविभाजन, समसूत्रण, माइटोसिस
mitosporangium	Bot.	माइटोव्रीजा गुधानी
mitospore	Bot.	माइटोव्रीजाणु
mitotic coefficient		सूत्री विभाजन गुणांक
mitotic index		सूत्री विभाजनांक
mitotic poison	Chem.	समसूत्री विष
Mitragyna parviflora	Bot.	मिट्रागाइना पार्वीपलोरा
mitral valve (bicuspidate valve)	H.Sc.,Zool.	मिट्रल वाल्व, द्विकर्पद कपाट
mitraphylline	Chem.	माइट्रेफिलीन
Mitraster	Geol.	मिट्रास्टर
Mitraster hunteri		मिट्रास्टर हन्टेराइ
mitriform	Bot.	टोपीरूप, मिट्रीफॉर्म
Mitscherlich lamp	Chem.	मिचलिक दीप
Mitscherlich's Law of isomorphism	Chem.	मिचलिक समाकृतिकता नियम
Mittag Leffler function	Math.	मिताग-लेफ्लर फलन
Mittleurope	Geog.	मध्य यूरोप
mitten	Chem., Geog.,H.Sc.	मिटन, निरंगुल दस्ताना
Mittler's green	Chem.	मिट्लर हरित, मिट्लर ग्रीन
MIU content	Chem. (Paints)	एम. आई. यू. अर्न्तवस्तु, एम. आई. यू. अंश
miwata	H.Sc.	माइवाता
mix	Chem. (Gl.)	(n.) मिश्रघान (adj.) मिश्र
mix crystal		मिश्र क्रिस्टल
mixed aniline point		मिश्रित ऐनिलीन बिन्दु
mixed avalanche		मिश्र अवघाव
mixed-base notation		मिश्रित आधार अंकन पद्धति

mixed boundary condition		मिश्र परिसीमा प्रतिबन्ध	mixed powder method		मिश्र चूर्ण विधि
mixed bud		मिश्रित कली	mixed prairie		मिश्र प्रेअरी
mixed characteristic function		मिश्र अभिलक्षणिक फलन	mixed product		मिश्र उत्पादन
mixed checks	<i>H Sc.</i>	मिश्रित चेक	mixed protostele		मिश्रित भादिरभ
mixed continuous group		मिश्र सतत समूह	mixed recurring decimal		मिश्र आवर्त दशमलव
mixed crystals		मिश्र क्रिस्टल	mixed sample		मिश्र प्रतिदर्श
mixed cultivation	<i>Geog.</i>	मिश्रित कृषि	mixed stock	<i>Geog.</i>	मिश्रित प्रभव
mixed culture	<i>Zool.</i>	मिश्रित सदर्श	mixed strategy	<i>Math.</i>	संयुक्त युक्ति
mixed decimal		मिश्र दशमलव	mixed stress tensor		मिश्र प्रतिबल प्रदिश
mixed dope		मिश्रित डोप	mixed tensor		मिश्र प्रदिश, मिश्र टेन्सर
mixed effects model		मिश्र प्रभाव निदर्श	mixed twill		मिश्र रेखिका, मिश्र ट्विल
mixed element		मिश्रित तत्व	mixed use		मिश्रित उपयोग
mixed (volcanic) eruption		मिश्रित (ज्वालामुखीय) उद्गार	mixed wool		मिश्रित ऊन
mixed factorial experiment		मिश्र उत्पादनीय प्रयोग	mixer	<i>Phy. Chem., H Sc.</i>	1 मिश्रित (यंत्र) मिश्रण यंत्र 2 मिश्रक (ध्वनि)
mixed farming		मिश्रित कृषि	mixer couple circuit		मिश्रक युग्मन परिपथ
mixed fibres		मिश्रित तंतु	mixibility of water		जन-मिश्रणता
mixed forest		मिश्रित वन	mixing		मिश्रण
mixed fraction		मिश्र भिन्न	mixing amplifier		मिश्रक प्रवर्धक
mixed glyceride	<i>H Sc.</i>	मिश्रित ग्लिसराइड	mixing bowl		मिश्रण बटोरा
mixed highs		उच्चावृत्ति मिश्रित	mixing coefficient		मिश्रण गुणांक
mixed indicator		मिश्रित सूचक	mixing efficiency		मिश्रण दक्षता
mixed integer continuous variable		मिश्र पूर्णांक सतत चर	mixing glass		मिश्रण ग्लाम
mixed melting point method		मिश्र गलनांक पद्धति	mixing head		मिश्रण शीर्ष
mixed model		मिश्र निदर्श	mixing nozzle		मिश्रण नुड
mixed moment		मिश्र आघूर्ण	mixing point		मिश्रण बिन्दु
mixed number		मिश्र सङ्ख्या	mixing room		मिश्रण गृह
mixed order (reactions)		मिश्र क्रम (अभिक्रियाएँ)	mixing-settling equipment		मिश्रण-अवसादन उपकरण
mixed phase cracking		मिश्र प्रावस्था भ्रजन	mixing unit		मिश्रण एकक
mixed pickle	<i>H Sc.</i>	मिश्रित अचार	mixite	<i>Geol.</i>	मिश्रनाइट
mixed plth		मिश्रित मज्जा	mixochimaera	<i>Biol.</i>	मिश्र त्रिचित्रोवकी
mixed planting		मिश्रित रोपण	mixocoel	<i>Zool.</i>	मिश्रगुहा
mixed pointed twill		मिश्र मोहदार रेखिका	mixohydric	<i>Bot.</i>	मिश्र जलशोषी
			mixonephrium	<i>Zool.</i>	मिश्रवृक्क
			mixoploid	<i>Biol.</i>	मिश्रगुणित
			mixotrophic	<i>Bot. Zool.</i>	मिश्रपोषी, मिश्रपोषित



mixotrophy		मिश्रपोषिता	moccarrero	<i>Geog., Geol.</i>	मॉकेरीरो
mixture		मिश्रण, मिश्र	moccasin	<i>Geog.</i>	मोकासिन
mixture crepe	<i>H.Sc.</i>	मिश्रक्रेप	moccasin flower	<i>Bot.</i>	मोकासिन पुष्प
*Mizar (=ξ Ursae Majoris)		वसिष्ठ, माइजर (=ξ कृषि, ξ अर्सी मंजोरिस)	Moccullochella	<i>Zool.</i>	मोक्यूलोकीला
mizzenmast		मिज़ेनमास्ट	Mocha		मोका कहवा, मोका कॉफी
mizzle	<i>Geog.</i>	मिज़िल	mocha pebble	<i>Geol.</i>	मोशा प्रस्तर
mizsonite	<i>Chem.</i>	मिज़ोनाइट	mock crepe	<i>H.Sc.</i>	मॉक क्रेप
M.K.S. System	<i>Phy.</i>	M.K.S. पद्धति	mock firing	<i>Phy.</i>	मूक फायरिंग
mnemonic code	<i>Phy.</i>	स्मृति सहायक कोड	mock lead	<i>Geol.</i>	कूट सीसा
mnemonic symbol	<i>Math.</i>	स्मरणोपकारी प्रतीक	mock leno	<i>Chem., H.Sc.</i>	नकली जाली
mnemotechnic	<i>Chem.</i>	स्मृतिवर्धी	mock moon (paraselene)	<i>Geog.</i>	चन्द्राभास (पैरासिलीन)
moat	<i>Zool.</i>	खाई, परिखा	mock silver	<i>Geol.</i>	कूट रजत
moibidic	<i>Phy.</i>	चलञ्जकीय कम्प्यूटर	mock sun (parhelion)	<i>Geog.</i>	सूर्याभास (पारहेलियन)
mobile	<i>Chem., Phy., Geol.</i>	गतिशील, चलिष्णु, चल	mock sun ring	<i>Geog.</i>	सूर्याभास वलय
mobile antenna (=portable antenna)	<i>Phy.</i>	सुवाह्य ऐन्टेना	mock-up	<i>Geog.</i>	मॉक-अप
mobile belt		गतिशील पट्टी	mock voife	<i>H.Sc.</i>	नकली वाँयल
mobile component		गतिशील घटक, चल घटक	modacrylic fibre	<i>Chem., H.Sc.</i>	मॉडऐक्रिलिक रेशा
mobile defect		चलिष्णु दोष	modal	<i>Chem.</i>	प्रायिकता, मॉडल
mobile equilibrium		चलिष्णु साम्य	modal variety	<i>Geol.</i>	मोडीय प्रकार
mobile phase		गतिशील प्रावस्था	mode	<i>Phy., Geog.</i>	1. विधि, रीति, प्रणाली, विधा
mobile sperm		गतिशील शुक्राणु		<i>Math.</i>	2. बहुलक, मोड
mobile telemetering		चल दूरमापन		<i>Geol.</i>	3. अवस्था
mobile warfare		चलयुद्ध	mode filter		4. (Mineral.) मोड
mobility		गतिशीलता	mode interference		विधा फिल्टर
mobility analogy		गतिशील अनुरूपता	mode interference		विधा व्यतिकरण
mobility coefficient		गतिशीलता गुणांक	mode jump		विधा झंप
mobility type analogy		गतिशीलता प्ररूपी अनुरूपता	model		प्रतिरूप, मॉडल, निदर्श
Mobius band	<i>Math.</i>	मोबियस पट्टी	model (=stereo model)	<i>Geol.</i>	द्विविम क्षेत्र मॉडल
Mobius function		मोबियस फलन	model atmosphere		मॉडल वायुमण्डल, निदर्श वायुमण्डल
Mobius inversion formula		मोबियस प्रतिलोमन सूत्र	model construction		निदर्श रचना
Mobius surface		मोबियस पृष्ठ	model-construction phase		निदर्श रचना प्रावस्था
Mobius transformation		मोबियस रूपांतरण	model economic mechanism	<i>Math.</i>	आदर्श आर्थिक क्रिया-विधि
moccador	<i>H.Sc.</i>	मॉकैडॉर	modelling clay	<i>Chem.</i>	प्रतिरूपण मृदा

Modell number	<i>Chem</i> ( <i>Met</i> )	मॉडेल अंक	moderating process	<i>Phy</i>	विमन्दक प्रक्रम
model plane tabling		मॉडल प्लेन टेबलन	moderating ratio	<i>Phy.</i>	विमन्दकता अनुपात
model sampling	<i>Geog.</i>	निदर्श प्रतिचयन	moderating reflection	<i>Phy.</i>	परिवर्तित परावर्तन
model stellar atmosphere		निदर्शी तारकीय परिमंडल	moderation	<i>Chem.,</i> <i>Phy.</i>	विमदन
Modelung constant	<i>Phy.</i>	मादेलूंग स्थिरांक	moderation theorem	<i>Geol</i>	विमदन प्रमेय
modem (modulator demodulator)	<i>Phy.</i>	मोडेम (माडुलक विमाडुलक)	moderator	<i>Chem,</i> <i>Phy.</i>	विमदक
modena	<i>H Sc</i>	मोडेना	moderator control		विमदक नियंत्रण
mode of dispersal		प्रकीर्णन-विधि	moderator-coolant	<i>Chem</i>	मथरक शीतक
mode of life	<i>Geog.</i>	जीवन-प्रणाली	moderator lattice		मथरक जालक
mode of management		प्रबंध-विधा	moderator ratio		मथरक अनुपात
mode of movement		संचलन-विधि	modern		आधुनिक
mode of occurrence		उपस्थिति की अवस्था	modern algebra		आधुनिक बीजगणित
mode of vibration		कणन की विधा	modern castaway		आधुनिक परिन्यक्नजन
mode purity		विधा शुद्धता	modern extra-departmental map		आधुनिक अनिर्दिक्त विभागीय मानचित्र
moder (= coder)	<i>Phy.</i>	कोडित	modern ground survey		आधुनिक भूमि-सर्वेक्षण
moderamen	<i>Bot</i>	मृदु अन्तरण	modern grouping		आधुनिक समूहन
moderate		साधारण	modern household		आधुनिक गृहस्थी
moderate breeze		अल्पबल समीर	modern level		आधुनिक लेवल
moderate doping	<i>Phy.</i>	मध्यम मादन	modern physics		आधुनिक भौतिकी
moderate fog	<i>Geog</i>	मध्यम कुहरा	modern style		आधुनिक शैली
moderate gale	<i>Geog</i>	अल्पबल धक्का	modern survey		आधुनिक सर्वेक्षण
moderate interference	<i>Geog</i>	सामान्य अन्तरक्षेप	modern taxonomist		आधुनिक वर्गीकरण विशेषज्ञ
moderately clouded	<i>Geog.</i>	मध्यम मेघी	modern topographical survey		आधुनिक स्थलाहृतिक सर्वेक्षण
moderately concentrate	<i>Chem</i>	साधारण सांद्रित	modern town		आधुनिक नगर
moderately soluble	<i>Chem.</i>	साधारण विलेय	modern urbanisation		आधुनिक नगरीकरण
moderately to heavily clouded	<i>Geog.</i>	मध्यम घन मेघी	mode shade	<i>Chem</i>	कैशन शेड, कैशन छाया
moderately toxic	<i>Phy.</i>	मध्यम विषैला	mode shift		विधा परिवर्तन
moderate rain	<i>Geog.</i>	अल्पबल वर्षा	mode skip (= oscillation skip)	<i>Phy.</i>	दोलन उल्लंघन
moderate sea	<i>Geog.</i>	सामान्य तरंगित सागर	mode stripping (= mode skip)		दोलन उल्लंघन
moderate-sized project	<i>Geog.</i>	साधारण आकार प्रोजेक्ट, साधारण आकार आयोजना	mode suppressor		विधा निरोधी
moderate unloading	<i>Math.</i>	साधारण भारमोचन	mode transducer		विधा ट्रांसड्यूसर
moderating	<i>Geog.</i>	परिमितकरण	mode wavelength		विधा तरंग दैर्घ्य
moderatlag material	<i>Phy.</i>	विमन्दक पदार्थ			

modica	<i>H.Sc.</i>	मोडिका	modify	रूपांतर करना
modifiability	<i>Zool.</i>	रूपांतरणशीलता	modifying agent	रूपांतरकारी, अंशान्तरकारी
modification	<i>Math., Geog., Geol.</i>	आपरिवर्तन, रूपांतर, रूपांतरण	modifying factor	रूपांतरक कारक
modification of address		पता-आपरिवर्तन	moding	<i>Phy.</i> विधाकरण
modification of leaf		पर्ण-रूपांतरण, पर्ण-परिवर्तन	Modiola	<i>Zool.</i> मोडियोला
modification principle		आपरिवर्तन-नियम	<i>Modiola imbricata</i>	मोडियोला इम्ब्रीकेटा
modified		रूपांतरित, आपरिवर्तित	modor(=moleculari- sed Doppler radar)	<i>Phy.</i> सूक्ष्मीकृत डॉप्लर रेडार
modified Bessel's equation		आपरिवर्तित बेसल समीकरण	modular circuit	<i>Phy.</i> माड्यूलरी परिपथ
modified Bouguer anomaly	<i>Geol.</i>	संशोधित बूगे असंगति	modular construction	माड्यूलरी संरचना
modified cell wall		आपरिवर्तित कोशिका भित्ति	modular function	<i>Math.</i> प्रतिरूपक फलन
modified control limit		आपरिवर्तित नियंत्रण सीमा	modular lattice	प्रतिरूपक जालक
modified descendant		आपरिवर्तित वंशज	modular law	प्रतिरूपक नियम
modified differences		आपरिवर्तित अंतर	modular number system	<i>Math.</i> भाषांक संख्या प्रणाली
modified exponential curve		आपरिवर्तित चरघातांकी वक्र	modular surface	भाषांक पृष्ठ
modified Galitzin seismograph		रूपांतरित गैलिट्ज़िन भूकंपलेखी	modulated	<i>Phy.</i> 1. (music) मूछनायुक्त 2. (radio) माड्यूलित
modified mass		आपरिवर्तित द्रव्यमान	modulated amplifier	माड्यूलित प्रवर्धक
modified mean		आपरिवर्तित माध्य	modulated frequency	माड्यूलित तरंग आवृत्ति
modified polyconic	<i>Geog.</i>	मॉडोफाइड पॉलिऑनिक	modulated projection	माड्यूलित प्रक्षेप
modified pseudosteady flow		आपरिवर्तित छद्म-स्थायी प्रवाह	modulating signal	माड्यूलक संकेत, माड्यूलक सिग्नल
modified reflection		आपरिवर्तित परावर्तन	modulating transformer	माड्यूलक ट्रांसफार्मर
modified sateen	<i>Chem.</i>	अंशान्तरित साटन	modulation	<i>Phy.</i> 1. (music) मूछना 2. (radio) माड्यूलन
modified secant conical projection	<i>Geog.</i>	मॉडोफाइड सेकेंट शंकव प्रक्षेप, आपरिवर्तित सेकेंट शंकव प्रक्षेप	modulation capability	माड्यूलन क्षमता, माड्यूलनीयता
modified spring constant		आपरिवर्तित कमानी स्थिरांक	modulation-demodulation amplifier	माड्यूलन विमाड्यूलन प्रवर्धक
modifier		1. आपरिवर्तक 2. रूपांतरक (modifying gene) 3. अंशान्तरकारी	modulation depth	माड्यूलन गहराई
modifier complex		रूपांतरक कारक व्यूह	modulation envelope	माड्यूलन अन्वालोप
			modulation factor	माड्यूलन गुणक
			modulation frequency	माड्यूलन तरंग आवृत्ति
			modulation index	माड्यूलन सूचकांक
			modulation noise	माड्यूलन रव
			modulation product	माड्यूलन उत्पाद

modulator	<i>Phy.</i>	माडुलक	Moeritheriidae	<i>Zool.</i>	मीरीथिरिआइडे
module	<i>Phy., Math.</i>	माड्यूल, प्रतिरूपक	Moeritherium		मीरीथिरियम
module basis		प्रतिरूपक आधार	Moeritheroidea		मीरीथिरिऑइडिया
modulo	<i>Math.</i>	माड्यूलो, सापेक्ष	mofette	<i>Geog.</i>	मोफेट
modulo n check	<i>Phy.</i>	माड्यूलो n जांच	Moffat process	<i>Chem</i>	मोफैट प्रक्रम
modulus	<i>Phy, Math.</i>	मापाक, माड्यूलस	mog	<i>Geol.</i>	मोग
	<i>Geol.</i>		mogadore	<i>H Sc</i>	मोगाडोर
modulus of common logarithm		साधारण लघुगणक का मापाक	mogullizer	<i>Chem.</i>	मोगलाइडक
modulus of complex number		सम्मिश्र संख्या का मापाक	mohair	<i>H.Sc, Geog</i>	मोहेर, अगोरा बाल
modulus of compression		संपीडन प्रत्यास्यता गुणांक	Mohawk Indian	<i>Geog.</i>	मोहाक इंडियन
modulus of continuity		संततत्य-मापाक	Mobler test	<i>Chem</i>	मोब्लर निष्प
modulus of distribution		वहन मापाक	Mohorovicic crust	<i>Geol</i>	मोहरोविचिस्ट पर्पटी
modulus of elasticity		प्रत्यास्यता गुणांक	Mohorovicic discontinuity		मोहरोविचिक असंततत्य
modulus of elasticity in shear		अपरूपणांक	Mohr's diagram	<i>Math</i>	मोर-आरेख
modulus of extension		तननांक	Mohr's salt	<i>Chem, Geol</i>	मोर-सवण
modulus of foundation		मूलाधारक	Mohr titration		मोर अनुमापन, मोर टाइट्रिकरण
modulus of hydrostatic compression		द्रवस्थैतिक संपीडनांक	Mohs hardness		मोस कठोरता
modulus of precision		परिशुद्धता मापाक	Mohs scale		मोस मापक्रम
modulus of reduced form of a game		खेल के समानीत रूप का मापाक	Mohs scale of hardness	<i>Chem, Geol.</i>	मोस कठोरताक मापनी
modulus of rupture		विदारण मापाक	Mol		मोई
modulus of structural rigidity		संरचनात्मक दृढताक	moiety	<i>Geog.</i>	मॉई-इ-टि, वर्धास
modulus of torsion		मरोड गुणांक	moil	<i>Chem.</i>	मॉइल, अवशिष्ट (बांध)
modulus of transformation		रूपान्तरण मापाक	moil sample	<i>Geol.</i>	मॉइल प्रतिदर्श
modulus projection		माडुलम प्रक्षेपण, मापाक प्रक्षेपण	moire	<i>Geol.</i>	1 आर्टे-कोणय
Moebius electrolytic process	<i>Chem.</i>	मोबियस विद्युत् अपघटनी प्रक्रम	moire-effect	<i>Phy, H.Sc</i>	2 श्वार
Moebius-pseudo group	<i>Math.</i>	मोबियस-उद्म-समूह	moire-effect		श्वार प्रभाव
moel	<i>Geog.</i>	मोइल	moireing	<i>H.Sc.</i>	तणोलकीर्णन
moela	<i>Geog.</i>	मोइला	moire interference pattern		श्वार व्यतिकरण चित्राम, श्वार व्यतिकरण पैटर्न
			moire poplin	<i>H Sc.</i>	श्वार पोपलीन
			Moissan furnace	<i>Chem</i>	म्वॉसी फ्राइड, म्वॉसी फूनी
			moissanite	<i>Chem.</i>	म्वॉसैनाइट
			Moissan's apparatus	<i>Chem</i>	म्वॉसी उपकरण
			moist		नम, धाई, गोला
			moisten		तर करना, धिपीना

moistened valley		नम घाटी, आद्रित घाटी	molar conductivity		अणुक चालकता, मोलर चालकता
moist fumigation		आर्द्र धूमन	molar dispersivity	<i>Chem.</i>	आणविक वर्ण-विक्षेपण
moist room condition		आर्द्र कम परिस्यतियाँ	molar electrode potential		ग्राम अणुक इलेक्ट्रोड विभव, मोलर इलेक्ट्रोड विभव
moisture	<i>Geog.</i>	आर्द्रता, नमी	molar entropy		मोलीय ऐन्ट्रॉपी, ग्राम अणुक ऐन्ट्रॉपी
moisture-bearing wind		आर्द्रताधारी पवन	molar fraction		ग्राम-अणुक भिन्न
moisture content		नमी की मात्रा, नमी का अंश	molar heat		ग्राम अणुक ऊष्मा, मोलीय ऊष्मा
moisture-depth curve		आर्द्रता गहराई वक्र	molar heat capacity		मोलीय ऊष्माधारिता
moisture-depth percentage		आर्द्रता गहराई प्रतिशतता	molariform	<i>Zool.</i>	चर्वणरूपी
moisture equilibrium		आर्द्रता-साम्य	molarisation	<i>Zool.</i>	चर्वणकीभवन
moisture equivalent		आर्द्रता तुल्यांक	molarity		ग्राम अणुकता, मोलरता
moisture factor		आर्द्रता गुणांक	molar latent heat	<i>Chem.</i>	आणविक गुप्त ऊष्मा
moisture-holding capacity		नमी धारण क्षमता	molar magnetic rotation		अणु चुंब घूर्णन
moisture-laden air		आर्द्रतायुक्त वायु	molar narcotic potency		मोलर स्त्रापक शक्ति, अणुक स्त्रापक शक्ति
moisture proof film		नमीनह फिल्म	molar polarizability		मोलीय ध्रुवणीयता
moisture property		नमी गुणधर्म	molar polarization	<i>Chem.</i>	मोलीय ध्रुवण
moisture sampling		आर्द्रता प्रतिचयन	molar potential		मोलीय विभव, ग्राम अणुक विभव
moisture stress		आर्द्रता प्रतिबल	molar process	<i>Zool.</i>	चर्वणक वर्ध
moisture tension		आर्द्रता तनाव	molar refraction		मोलर अपवर्तन, ग्राम अणुक अपवर्तन
moisture utilization diagram		नमी उपयोग आरेख	molar rotation		अणुक घूर्णन
moist-warm climate		नमोष्ण जलवायु	molar rotatory power		अणुक घूर्णी क्षमता
moko	<i>Geog.</i>	मोको, गोदना	molar solution		ग्राम अणुक विलयन, मोलीय विलयन
mol (mole)		ग्राम अणु, मोल	molar surface		मोलर सतह
molal		1. ग्राम-आणव, मोलल 2. ग्राम आणव प्रतिभार	molar susceptibility		ग्राम अणुक ग्रहणशालित्व, मोलर ग्रहणशालित्व
molality		ग्राम-आणवता, मोललता	molar teeth	<i>Zool., H.Sc.</i>	चर्वणक
molal solution	<i>Chem.</i>	ग्राम आणव विलयन (प्रति 1000 ग्राम विलयक)	molar volume		ग्राम अणुक आयतन
molano	<i>H.Sc.</i>	मोलानो	molasse	<i>Geol.</i>	मोलासे
molar	<i>Phy., Chem.</i>	ग्राम अणुक, मोलर, मोलीय	molasses	<i>Chem.</i>	मोलेसेज, शीरा, चोटा
	<i>Geol., Zool.</i>	दाढ़, चर्वणक	moldability	<i>Chem.</i>	संचनीयता
molar absorption coefficient	<i>Chem.</i>	अणुक अवशोषण गुणांक	moldavites	<i>Geol.</i>	मोल्डेवाइट्स
molar absorptivity		ग्राम अणुक अवशोषकता, मोलर अवशोषकता			

<i>molded capacitor</i>	<i>Phy.</i>	साचित सघारित्र	<i>molecular depression of freezing point</i>		द्विभाक दाय अणु अवनमन
<i>molding sand</i>	<i>Chem.</i>	साचा बाळू	<i>molecular diagram</i>		आण्विक आरेख, आण्विक रेखाचित
<i>molding sink</i>	<i>Chem (Plastics)</i>	सचन मज्जिका	<i>molecular dimension</i>		आण्विक साइज, आण्विक परिमाण, अणु-परिमाण
<i>mold life</i>	<i>Chem. (Plastics)</i>	सचावधि	<i>molecular dipole</i>		आण्विक द्विध्रुव
<i>mold oil</i>	<i>Chem</i>	साचा तेल, सच तेल	<i>molecular disperse form</i>		अणुत परिक्षिप्त रूप आण्विक प्रकीर्ण रूप
<i>mold shrinkage</i>	<i>Chem.</i>	सच कुंचन	<i>molecular disperse state</i>		आण्विक परिक्षिप्त अवस्था, आण्विक प्रकीर्ण अवस्था
<i>mole</i>	<i>Chem, Phy. Zool, H Scs</i>	ग्राम अणु, मोल 1. छछुन्द 2. तिल	<i>molecular elevation constant</i>		ग्राम अणुक उन्नयन स्थिराक
<i>mole cricket</i>	<i>Zool.</i>	छछुन्द हीगुर	<i>molecular energy level</i>		अणु-ऊर्जा स्तर
<i>molecular</i>	<i>Chem, Phy.,</i>	आण्विक, अणु	<i>molecular extinction coefficient</i>	<i>Chem.</i>	ग्राम-अणु विलोपन गुणाक
<i>molecular abundance</i>		आण्विक बाहुल्य	<i>molecular field</i>	<i>Phy.</i>	अणुजन्य क्षेत्र
<i>molecular analogue</i>		अणु-सादृश्य	<i>molecular field coefficient</i>		आण्विक क्षेत्र गुणाक
<i>molecular association</i>		अणु सगुणन, आण्विक सगुणन	<i>molecular field constant</i>		अणु-क्षेत्र नियताक
<i>molecular asymmetry</i>		आण्विक असममिति	<i>molecular field theory</i>		अणु-क्षेत्र सिद्धांत
<i>molecular attraction</i>		आण्विक आकर्षण	<i>molecular film</i>		आण्विक फिल्म
<i>molecular beam</i>		आण्विक रेखि पुज	<i>molecular flow</i>		आण्विक प्रवाह
<i>molecular biology</i>		अणुजैविकी, अणुजीव विज्ञान	<i>molecular force</i>		आण्विक बल
<i>molecular bombardment</i>		आण्विक धमसारी	<i>molecular formula</i>		आण्विक सूत्र
<i>molecular change</i>		आण्विक परिवर्तन	<i>molecular free path</i>		अणु मुक्त पथ
<i>molecular chaos</i>		अणु असनव्यस्तता	<i>molecular heat</i>		ग्राम अणुक ऊर्जा
<i>molecular circuit</i>	<i>Phy.</i>	सूक्ष्म परिपथ	<i>molecular ion</i>		अणु-आयन
<i>molecular cohesion</i>		आण्विक ससजन	<i>molecularity</i>		अणुसंख्या
<i>molecular collision</i>		अणु सघट्टन	<i>molecular lattice</i>		अणुजालक, अणुनैटिस
<i>molecular complex</i>		आण्विक संकुल	<i>molecular magnet</i>		अणु चुंबक
<i>molecular complexity</i>		आण्विक जटिलता	<i>molecular magnetic moment</i>		आण्विक चुंबकीय आघूर्ण
<i>molecular compound</i>		आण्विक यौगिक	<i>molecular magnitude</i>		अणु परिमाण
<i>molecular configuration</i>		आण्विक विन्यास	<i>molecular mass-susceptibility</i>		ग्राम अणु हव्यमान प्रकृति (चुंबकीय)
<i>molecular constant</i>		अणुस्थिराक	<i>molecular mechanism</i>		अणु क्रियाविधि
<i>molecular crystal</i>		अणु क्रिस्टल, अणु स्फाटक	<i>molecular microwave amplifier</i>		आण्विक सूक्ष्म तरंग प्रवर्धक
<i>molecular current</i>		आण्विक धारा			
<i>molecular depression constant</i>		ग्राम अणुक अवनयन स्थिराक			

molecular model	अणु प्रतिरूप	molecular surface energy	अणु-मृच्छीय ऊर्जा
molecular morphology	अणु आकारिकी	molecular temperature	आण्विक ताप
molecular motion	आण्विक गति	molecular transformation	अणु-रूपांतरण
molecular orbital	आण्विक आर्बिटल, आण्विक कक्षक	molecular velocity	आण्विक वेग
molecular orbital theory	अणु कक्षक सिद्धांत	molecular vortex	अणु-घ्रमिल
molecular oxygen	आण्विक ऑक्सीजन	molecular wavelength	आण्विक तरंग दैर्घ्यं
molecular parameter	अणु पैरामीटर	molecular weight	अणु भार, आण्विक भार
molecular photo-chemistry	अणु-भा-रसायन, अणु प्रकाश रसायन	molecular yield	आण्विक लब्धि
molecular physics	आण्विक भौतिकी	molecule	<i>Phy., H.Sc., Chem.</i> , अणु
molecular polarization	आण्विक ध्रुवण	mole-drainage	<i>Geog.</i> बांध-अपवाह
molecular pump	आण्विक पम्प	mole fraction (= molfraction)	<i>Chem., Phy.</i> मोल-अंश
molecular rearrangement	आण्विक पुनर्विन्यास	molelectronics	<i>Phy.</i> अणु इलेक्ट्रॉनिकी
molecular refraction	आण्विक अपवर्तन	molendinaceous	<i>Bot.</i> वृहत्पक्षयुक्त
molecular rotation	ग्राम-अणुक घूर्णन	mole rat	<i>Zool.</i> छछुन्दक
molecular sandwich	आण्विक सैन्डविच	mole ratio complex	<i>Chem.</i> ग्राम अणु अनुपात संकुल, मोल अनुपात संकुल
molecular scattering	आण्विक प्रकीर्णन	Molgulidae	<i>Zool.</i> मोल्गुलिडी
molecular shower	अणु बौछार, अणु वर्षण	mollic acid	<i>Chem.</i> मोल्लिक अम्ल, मोल्लिक ऐसिड
molecular sieve	अणु चालनी, आण्विक छन्नी	Molina's table	<i>Math.</i> मोलिना-सारणी
molecular sieve principle	आण्विक छन्नी नियम	moline	<i>H.Sc.</i> मोलिन
molecular size	अणु का साइज	Molinaria	मोलीनेरिया
molecular space	1. आण्विक आकाश 2. अणु निर्देशाकाश	molinia pasture	<i>Geog.</i> मोलिनिया-चरागाह
molecular species	अणु जाति	Molisch test	<i>Chem.</i> मोलिश संपरीक्षण
molecular spectrum	आण्विक स्पेक्ट्रम	mollerising	<i>Chem.</i> मोलराइजन
molecular speed	अणु की चाल	mollis	<i>Bot.</i> मूदुरोमिल
"molecular spring"	अणु-स्प्रिंग	mollisol	<i>Geol.</i> मॉलीसॉल
molecular stability	आण्विक स्थायित्व	<i>Mollugo cerviana</i>	<i>Bot.</i> मालगो सेरविणना
molecular state	आण्विक अवस्था	<i>Mollugo nudicaulis</i>	मालगो नूडीकॉलिस
molecular stopping power	आण्विक निरोधी क्षमता	mollusc	<i>Zool.</i> मोलस्क, मूदुकवची
molecular streaming	आण्विक अभिस्रवण	Mollusca	<i>Zool., Geol.</i> मोलस्का
molecular structure	आण्विक संरचना	molluscan fisheries	मोलस्क मात्स्यकी
		molluscicide	<i>Zool.</i> मोलस्कनाशी, मूदुकवचीनाशी

molluscivorous		मोलस्काहारी, मृदुवक्त्राहारी	momental		आघूर्णी
Mollweide projection	<i>Geog.</i>	मॉलवीड प्रक्षेप	momental circle		आघूर्णी वृत्त
Moloch	<i>Geog.</i>	मोलॉक	momental ellipse		आघूर्णी दीर्घवृत्त
moloxide	<i>Chem.</i>	मोलॉक्साइड	momental ellipsoid		आघूर्णी दीर्घवृत्तज
molozonide	<i>Chem.</i>	मोलोओनाइड	momental plane		आघूर्णी तल
Molpadia	<i>Zool.</i>	मोलपॅडिया	momental sphere		आघूर्णी गोला
Molpadida		मोलपॅडिडा	moment arm		आघूर्ण भुजा
molt	<i>Geol.</i>	निर्मोचन	momentary	<i>Phy</i>	क्षणिक
molten zone	<i>Chem.</i>	गलित अंचल	moment coefficient		आघूर्ण गुणांक
molvacuum meter	<i>Chem.</i>	मोल निर्वात मापी	moment distribution function		आघूर्ण घटन फलन
molybdate	<i>Chem.</i>	मोलिब्डेट	moment generating function		आघूर्णजनक फलन
molybdate orange		मोलिब्डेट नारंग, मोलि- ब्डेट अरिज	moment matrix		आघूर्ण-आव्यूह
molybdate fest		मोलिब्डेट संपरोक्षण	moment of a couple		बन्धुगम का आघूर्ण
molybdena		मॉलिब्डेना	moment of a force		बल का आघूर्ण
molybdenite	<i>Geol.</i>	मॉलिब्डेनाइट	moment of dispersion		विशेषण का आघूर्ण
molybdenum	<i>Chem.</i>	मॉलिब्डेनम	moment of frequency distribution		बारबारता-घटन का आघूर्ण
molybdenum blue		मॉलिब्डी ब्लू, मोलिब्डी नील	moment of inertia		जड़त्व आघूर्ण
molybdenum deficiency disease		मॉलिब्डेनम न्यूनता रोग	moment of momentum	<i>Math</i>	संवेग आघूर्ण
molybdenum ochre		मॉलिब्डेनम गैरिक	momentoid	<i>Phy.</i>	संवेगाभ
molybdenyle		मॉलिब्डेनिल	moment operator		आघूर्ण सञ्चारक
molybdic		मॉलिब्डेनमी	moment problem		आघूर्ण समस्या
molybdic acid		मॉलिब्डिक अम्ल	moment problem of Hausdorff		हाउसरडॉर्फ की आघूर्ण समस्या
molybdic ochre		मॉलिब्डेनमी गैरिक	moment ratio		आघूर्णानुपात
molybdicyanic acid		मालिब्डीसायनिक अम्ल	moment sequence		आघूर्ण अनुक्रम
molybdine		मोलिब्डीन	moment tensor		आघूर्ण प्रदिश, आघूर्ण टन्सर
molybdlite	<i>Geol.</i>	मॉलिब्डाइट	momentum	<i>Math., Phy., Chem.</i>	संवेग
molybdoarsenic acid		मोलिब्डोआर्सेनिक अम्ल	momentum boundary layer		संवेग परिसीमा पृष्ठ
molybdoena		मॉलिब्डोना	momentum component		संवेग घटक
molybdomancy	<i>Geol</i>	गलसीमिक खोज, मॉलि- ब्डोमैन्सी	momentum conser- vation		संवेग संरक्षण
molybdosilicic acid		मॉलिब्डोसिलिनिक अम्ल	momentum coordinates		संवेग-निर्देशांक
molybdotellurate		मॉलिब्डोटेल्लुरेट	momentum density		संवेग-घनत्व
molyte	<i>Chem.</i>	मॉलाइट			
moment	<i>Math., Phy.</i>	आघूर्ण			



momentum density function		संवेग-घनत्व-फलन	monad	<i>Chem.</i>	1. एकसंयुज 2. अमेद्य 3. जीवैकक, मोनैड
momentum diffusivity		संवेग-विसरणशीलता	monadelphous	<i>Bot.</i>	एकसंघी
momentum distribution		संवेग वितरण	monadelphous	<i>Bot.</i>	एकसंघता
momentum equation		संवेग-समीकरण	monadiform	<i>Zool.</i>	कशाभरूपी
momentum filter		संवेग फ़िल्टर	monadnock	<i>Geol.</i>	मोनैडनॉक
momentum flow tensor		संवेग-प्रवाह-प्रदिश	Monadodendron	<i>Zool.</i>	मोनैडोडेन्ड्रीन
momentum flux		संवेग फ़्लक्स	Monandrae	<i>Bot.</i>	मोनैन्ड्री
momentum flux density		संवेग अभिवाह घनत्व	monandrous	<i>Bot.</i>	1. एकपुकेसरी, एकपुंघा- निक 2. एकपुंगामी
momentum forbidden		संवेग-वर्जित	monandry	<i>Bot.</i>	एकपुंगता, एक पुंघानिता
momentum integral		संवेग-समाकल		<i>Zool.</i>	एकपुंगमन
momentum integral equation		संवेग-समाकल-समीकरण	monangial	<i>Bot.</i>	एकबीजाणुधानोपुंजी
momentum matrix		संवेग मैट्रिक्स	monanthous	<i>Bot.</i>	एकपुष्पी
momentum operator		संवेग संकारक	monarch	<i>Bot.</i>	एक-आदिदारुक
momentum pass band		पार्य संवेग बैंड	monarinus	<i>Bot.</i>	एकपुकेसरी
momentum representation		संवेग निरूपण	Monas	<i>Zool.</i>	मोनास
momentum space		संवेग समष्टि	monascidian	<i>Zool.</i>	एकल एमिडियन
momentum sphere		संवेग गोला	monascous		एकएस्कसी
momentum theorem		संवेग-प्रमेय	Monascus	<i>Bot.</i>	मोनैस्कस
momentum thickness		संवेग-मोटाई	Monaspis	<i>Zool.</i>	मोनैस्पिस
momentum thrust		संवेगी प्रणोद	Monass		मोनैस
momentum transfer theory		संवेग-स्थानांतरण-सिद्धांत	monastery	<i>Geog.</i>	मठ
momentum vector		संवेग सदिश	monastic cell	<i>Geog.</i>	गोम्पाकक्ष
momie cloth	<i>H.Sc.</i>	मॉमी वस्त्र	monastic city		गोम्पा-शहर
momie crepe		मॉमी क्रेप	monastral blue	<i>Geog., Chem.</i>	मोनैस्ट्रल नीला
momie weave		मॉमी वयन	monastral dye		मोनैस्ट्रल रंजक
<i>Momordica balsamina</i>	<i>Bot.</i>	मॉमॉर्डिका बाल- सैमिना	monastral fast blue		मोनैस्ट्रल गाढ़ नील
<i>Momordica charantia</i>		मोमोर्डिका चरंशिया (करेला)	monastral solid		मोनैस्ट्रल अविच्छिन्न
monacanthid	<i>Zool.</i>	एकगूलपंक्तिक	<i>Monas vestita</i>	<i>Zool.</i>	मोनास वेस्टीटा
monact	<i>Zool.</i>	एकदिशी	monatomic	<i>Chem.,Phy.</i>	एकपरमाण्विक
monactine	<i>Zool.,Geol.</i>	एकअरीय	monatomic layer		एकपरमाणु परत
			monaural listening	<i>Phy.</i>	एककर्णी श्रवण
			monaural sound system		एकपय ध्वनि व्यवस्था
			monax glass		मोनैक्स काच

monaxial heteropolar symmetry	Zool.	एकाक्षीय विषमध्रुवी सम-मिति	moniliform antenna		मालाकार शृंगिका
monaxon	Zool., Geol.	एकाक्षक, एकाक्ष कटिका	moniliform gland		मालाकार ग्रथि
monaxonic		एकाक्षकीय	moniliform nucleus		मालाकार केन्द्रक
Monaxonida	Zool.	मोनैक्सानिडा	Moniligaster	Zool.	मोनिलिगेस्टर
monazite	Geol.	मोनेजाइट	Moniligastridae		मोनिलिगेस्ट्राइडी
monchiquate		मान्चिक्वाइट	Monimiaceae	Bot.	मोनोमिपेसी
Mond gas	Chem.	मॉन्ड गैस	monimolimonion	Geog.	मोनिमोलिमिजॉन
mondhaldcite	Geol.	मॉन्डहेल्डेआइट	monimolite	Geol.	मोनिमोलाइट
Mond process	Chem.	मॉन्ड प्रक्रम	monimostylic		मानिमोस्टाइलिक, अचल निलंबित
Monell process	Chem.	मॉनेल प्रक्रम	monitor	Phy., Geol., Chem., Math.	1. मॉनीटर 2. मॉनीटर करना 3. गतिक विश्लेषक
monel metal		मॉनेल धातु	monitor counter		मानीटर गणित
monenolic form	Chem.	एकइनोली रूप	monitoring		मानोटरन
monetary	Geog.	मुद्रा, मौद्रिक	monitoring amplifier		मानीटर प्रवर्धक
monetary gold		मुद्रा-स्वर्ण	monitoring antenna		मानीटर ऐन्टेना
monetary system		मुद्रा-प्रणाली	monitoring device		मानीटरन-युक्ति
money crop	Geog.	नकदी सस्य	monitoring		मानोटरन धारामापी
money index	Math.	मुद्रा सूचकांक	galvanometer		
money management	H.Sc.	मुद्रा व्यवस्था	monitoring tube		मानीटर नलिका
money wages	Math.	द्रव्य वेतन	monitor routine	Phy.	नियंत्रण नेमका
Mongolo-Dravidian	Geog.	मंगोल द्रविड़	monitor scatterer		मानीटर प्रकीर्णक
Mongoloid	Geog.	मंगोलकल्प	monitor system		मानीटर पद्धति
Mongoloid feature		मंगोलकल्प लक्षण	monitor telescope		मानीटर दूरदर्शक
Mongoloid race		मंगोलकल्प प्रजाति	monkey	Zool.	बंदर
Mongoloid stock		मंगोलकल्प प्रभवं	monkey puzzle	Bot.	ऑटोकेरिया
Mongoloid strain		मंगोलकल्प वंश	monkey-saddle	Math.	बगिन्यत्याण
mongol-orange pencil		मंगोल नारंगी पेसिल	Monnier process	Geol.	मोनियर प्रक्रम
mongoose	Zool.	नेवला, मुंगूस, नकुल	monoacetate	Chem.	मोनोऐसिटेट
mongrel equation	Math.	मिश्र समीकरण	monoactin		मोनोऐसिडिन
monic polynomial	Math.	एकगुणाकी बहुपद	monoacidic	Chem.	एकाम्लिक, एकांसी
Monera cuneifolia	Bot.	मोनोएरा क्यूनोफो- लिया (जल नीम)	monoalkyl silanol	Chem.	मोनोऐल्किल शिलेनाल
Monier-Williams cryoscope	Chem.	मोनियर विलियम्स हिमाचदर्शी	monoamide	Chem.	मोनोऐमाइड
monilia	Bot.	मोनिलिडा	monoamine oxidase	Chem.	मोनोऐमीन ऑक्सीडेस
Moniales		मोनिलिएलोइ	monoatomic (= monatomic)	Phy., Chem.	एकपरमाणु, एकपरमाण्विक
moniliform	Bot., Zool.	मालाकार	monoatomic gas		एकपरमाणु गैस

monoatomic linear lattice		एकपरमाणु रेखिक जालक	monochromatic X-rays		एकवर्णी एक्स किरण, समांगी एक्स किरण
monobasic	Chem.	एकआरकी	monochromator	Phy.	मोनोक्रोमेटर, एकवर्णित
monoblast	Zool.	एकलकोरक	monochrome brown BC conc.	Chem.	मोनोक्रोम भूरा BC सांद्रित
Monoblepharidales		मोनोब्लीफीरिडेलीज	monochrome receiver	Phy.	मोनोक्रोम ब्राउन BC सांद्रित
mono-branched chain	Chem.	एकशाखित शृंखला	monochrome receiver	Phy.	एकवर्ण अभिग्राही
mono-bromo acetic acid		मोनो-ब्रोमोऐसीटिक अम्ल	monochrometer system	Zool.	एकवर्णमापी पद्धति
mono butyrylase		मोनोब्यूटिरिनेस	monochrome transmissi- on		एकवर्ण संचरण
monocalcium		मोनोकैल्सियम	monochromic	Bot.	एकवर्णी
monocalcium phosphate		मोनोकैल्सियम फॉस्फेट	monochronic	Bot.	सक्रुद्धभवो
monocarpellary	Bot.	एकांडपी	monociliated	Zool.	एकपधमाभी
monocarpic	Bot.	1. सकृत्फली 2. एक कार्पोगोनियमी	Monocleaceae	Bot.	मोनोक्लिऐसी
monocaryotic	Bot.	एककेन्द्रक	monoclimax	Bot.	एकचरम
monocaulous tree	Bot.	एकस्तंभीय वृक्ष	monoclinal	Geol., Geog.	एकनतिक
monocentric	Bot.	एककेन्द्री	monoclinal block		एकनतिक खंड
monocephalic		एकमुंडकी	monoclinal coast		एकनतिक तट
monocephalous	Bot.	एकमुंडकी	monoclinal dip		एकनतिक नति
*Monoceros	Astron.	मोनोसिरॉस	monoclinal flexure		एकनतिक आनसन
monoceros	Zool.	1. एकजुंगी 2. एकपुच्छी	monoclinal fold		एकनतिक बलन
monochasial	Bot.	एकलशाखी	monoclinal fold scarp	Geol.	एकनतिक बलन कगार
Monochlamydeae	Bot.	मानोक्लैमाइडी	monoclinal mountain		एकनतिक पर्वत
monochlamydeous	Bot.	एकपरिदलपुंजी	monoclinal ridge		एकनतिक कटक
monochlamydeous flower		एकपरिदली पुष्प	monoclinal scarp		एकनतिक कगार
monochlorobenzene		मोनोक्लोरोबेंजीन	monoclinal shifting		एकनतिक विस्थापन
monochord	Phy.	मोनोमोटर, स्वरमापी	monoclinal valley		एकनतिक घाटी
Monochoria hastifolia	Bot.	मोनोकोरिआ हैस्टी-फोलिआ	monoclinic	Geol., Phy.	एकनताक्ष
monochromated radiation	Phy.	एकवर्णी विकिरण, एका-वृत्ति विकिरण	monoclinic block		मोनोक्लिनिक ब्लॉक
monochromatic	Phy.	एकवर्णी	monoclinic crystal		एकनताक्ष क्रिस्टल
monochromatic beam		एकवर्णी किरण पुंज	monoclinic sulphur		एकनताक्ष गंधक
monochromatic light		एकवर्णी प्रकाश	monoclinic symmetry		एकनताक्ष सममिति
monochromatic vibrations		एकवर्णी कंपन, एकावृत्तिक कंपन	monoclinic system		एकनताक्ष समुदाय
			monoclinous	Bot.	उभयर्धलगी
			monoclinous flower		उभयर्धलगी पुष्प
			monoclonal	Bot.	एकक्लोनी
			monocolpate	Bot.	एकविदरकी

monocoating	<i>Geol.</i>	एकलेपन	monodisperse system	<i>Phy.</i>	समापकीर्ण तंत्र
monocondylia	<i>Zool</i>	मोनोकांडाद्विधा	<i>Monodora myristica</i>		मोनोडोरा मिरिस्टिका
monocondylic articulation	<i>Zool</i>	एककदी संधि	monodont	<i>Zool.</i>	एकदन्ती
monocoque	<i>Phy.</i>	पृष्ठीय दृढता वायु फेम	monodromy theorem	<i>Math.</i>	एकमानता प्रमेय
monocotyledon	<i>Bot ,H Sc</i>	एकबीजपत्री	monodynamism	<i>Geol</i>	एकगतिवाद
monocotyledony		एकबीजपत्रता	monodynamous	<i>Bot</i>	एकदीर्घी
monocrater	<i>Geog.</i>	मोनोक्रैटर	monoecious	<i>Bot ,H Sc</i>	उभयलिंगाश्रयी (पादप)
monocrepid	<i>Zool ,Geol.</i>	मोनोक्रैपिड	monoecism		उभयलिंगाश्रयिता
monocrepid desmome		मोनोक्रैपिड डेस्मोम	monoembryonic	<i>Bot</i>	एकध्रुणी
monocrystal	<i>Phy.</i>	एकाकी क्रिस्टल	monoembryonic species		एकध्रुणी जाति
monocular	<i>Zool.,Geog., Geol.</i>	एकनेत्री	monembryony	<i>Zool.</i>	एकध्रुणता
monocular hand level		एकनेत्री हस्तलेवेल	mono-energetic	<i>Geol ,Phy.</i>	समोर्जी
monocular instrument		एकनेत्री यंत्र	monoenergetic beam	<i>Phy ,Math , Geol.</i>	समोर्जी किरणपुंज
monocular microscope		एकनेत्री सूक्ष्मदर्शी	monoenergetic neutrons		एकोर्जीय न्यूट्रॉन, सम-ऊर्जी न्यूट्रॉन
monocular stereoscope		मोनोदुलर स्टीरियोस्कोप	monoenergetic proton		समोर्जी प्रोटॉन
monocular vision	<i>H.Sc.</i>	एकाक्षिक दृष्टि	mono-energetic radiation	<i>Chem</i>	समोर्जी विकिरण
monocule	<i>Zool.</i>	एकाक्षी	monoenergetic $\beta$ -rays		समऊर्जी बीटा किरणें
monoculture	<i>Geog</i>	एकधान्य कृषि	monoenergic	<i>Zool.</i>	मोनोएनर्जिक
Monoeychica	<i>Zool</i>	मोनोसाइकलिका	monoestrous	<i>Zool</i>	एकमदकाल
monocyclic		एकचक्री	monofactorial		एककारकी
monocyclic calyx		एकचक्रीय चपिका	monofier	<i>Phy.</i>	मोनोफायर
monocyclic landscape		एकचक्री दृश्यभूमि	monofilament	<i>Chem</i>	एकतंतुक
monocystic	<i>Bot</i>	एकगुहिक	monofilament yarn	<i>H Sc.</i>	एकतंतु सूत्र
Monocystis	<i>Zool ,H Sc</i>	मोनोसिस्टिस	monofile	<i>Chem.</i>	एकतंतुक
monocyte	<i>Zool ,H.Sc.</i>	मोनोसाइट, एककेन्द्रकाणु	monofrax	<i>Chem</i>	मोनोफ्रेक्चर
monocytic	<i>Bot</i>	एककेन्द्रक श्वेतकोशिक	monogamic	<i>Geol.,Zool</i>	एकसंगमनो
monocytosis	<i>Zool</i>	एककेन्द्रकाणुता	monogamous		एकसंगमनो
monodactylous	<i>Zool.</i>	एकागुलिक	monogamy	<i>Zool.</i>	एकसंगमन
monodactyly		एकागुलितता	monogastric	<i>Zool.</i>	एकजठरगुहिक
Monodella	<i>Zool</i>	मोनोडेला	Monogena	<i>Zool.</i>	मोनोजेना
monodelphic	<i>Zool</i>	युक्तगर्भाशयी	monogene	<i>Geol.</i>	मोनोजेना
<i>Monodelphis henseli</i>	<i>Zool.</i>	मोनोडेल्फिस हेन्सेलाइ	monogenic	<i>Zool</i>	एकबीज
monodisk strobilation	<i>Zool.</i>	एकचक्र प्रयुक्तजन	monogeneric order		एकबीजिय गण
monodisperse	<i>Chem.</i>	समवर्णपरिक्षेपी	monogenesis	<i>Bot.</i>	एकबीज जनन
monodisperse suspension	<i>Bot.</i>	समवर्णपरिक्षेपी निलम्बन			

monogenetic trematode	Zool.	एकपोषीय पर्णकृमि
monogenetic volcano	Geol.	एककालज ज्वालामुखी
monogenic	Geol.	एकोद्भव
monogenic analytic function (= analytic function)		विश्लेषिक फलन
monogeosyncline	Geol.	सरलभूखम्बित
monogermene	Chem.	मोनोजर्मन
monoglacial	Geog.	एकहिमनदीय
monoglot	Geog.	एकभाषा
monoglyceride	Bot.,H.Sc.	मोनोग्लिसेराइड
monoglyphic form	Zool.	एकग्रसिकाखांच रूप
monogole (= monopropellant)	Phy.	एक प्रावस्था प्रणोदक
monogony	Bot.	अनिपकेजनन
monograph	Geog.	प्रबन्ध, मोनोग्राफ
Monograptus	Zool.	मोनोग्रैप्टस
<i>Monograptus colonus</i>		मोनोग्रैप्टस कोलोनस
<i>Monograptus leptotheca</i>	Geol.	मोनोग्रैप्टस लेप्टोथीका
<i>Monograptus lobiferous</i>		मोनोग्रैप्टस लोवाफे- रस
<i>Monograptus nilsoni</i>		मोनोग्रैप्टस निल्सोनाइ
<i>Monograptus priodon</i>		मोनोग्रैप्टस प्रियोडॉन
<i>Monograptus spinigerus</i>		मोनोग्रैप्टस स्पिनीजे- रस
monogynic	Zool.	एकजायी
monogynous	Bot.	एक स्त्री केसरी
monogynous insect	Zool.	एकजायी कीट
monogyny	Zool.	एकजायता
monohalogenated	Chem.	एकहैलोजेनीकृत, एक- हैलोजनित
monohybrid	Bot.,Zool. H.Sc.	एकसंकर
monohybrid inheritance		एकसंकर वंशानति
monohybrid ratio		एकसंकर अनुपात
monohydrate	Chem.	मोनोहाइड्रेट, एकहाइड्रेट

monohydric	Chem.,Bot.	1. मोनोहाइड्रिक, एक- हाइड्रोजनी 2. एकहाइड्रॉक्सी
monohydric alcohol		मोनोहाइड्रिक ऐल्कोहॉल
mono-hydroxy acid		मोनोहाइड्रॉक्सी एसिड
monocious (= monoecious)	Bot.	उभय-लिंगाश्रयी
monoiodotyrosine	H.Sc.	मोनोआयडोटायरोसिन
monoisotopic sensitization	Chem.	एकसमस्थानिक सुग्राही- करण, एकसमस्थानिक सुग्राहण
monokinetic particles	Phy.	समवेगी कण
mono-layer	Chem.,Phy., Bot.	एकाणुक परत, एकाणुक स्तर, एक स्तर, एकल परत
monolepidus	Bot.	एकशल्की
monolete	Geol.,Bot.	एकथार, एकबरी
monolith	Geol.,Geog.	1. एकाश्म 2. मोनोलिय
monolithic circuit (= integrated circuit)	Phy.	एकीकृत परिपथ
monolithic lining	Chem.	अखंड अस्तर
monolithic refractory		अखण्ड उच्चतापसह
monolophus	Zool.	एकशिखर
monomagnesium phosphate	Bot.	मोनोमैग्नीशियम फॉस्फेट
monomastigote	Zool.	एककशाभ
monomer	Chem.	एकलक
monomere		एकलक
monomeric	Chem.	एकलकी, एकतयी, मोनो- मैरिक
monomericous	Bot.	एकभागी
monomer solvent system		एकलक विलायक तंत्र
monometallic	Geol.,Geog.	एकधात्विक
monometallic base bar	Geog.	एकधातु आधार दण्ड
monomial	Math.	एकपदी
monomial matrix		एकपदी आव्यूह
monomict	Geol.	एकघटकी अवसाद, मॉनो- मिक्ट

monomictic	Zool	एकपर्यायी	monophyletic origin	एकस्रोतोद्भवो उत्पत्ति	
monomikt rock	Geol	एकपटकी अबसारी शैल	monophyllus	Bot.	एकपर्णी
monomineralic	Geol	एकवनित्रीय	monophyly	Zool.	एकस्रोतोद्भवता
mono-molecular film	Geol	एकाणुक फिल्म	monophyodont	Zool, H.Sc.	एकवारदती
monomolecular layer	Chem.	एकाण्वक स्तर, एकाणुक स्तर	monoplane	Phy.	एकपट्टी विमान
monomorph	Phy	एकाकारी	monoplanetic	Bot.	एकचल
monomorphic	Math Zool	एकैक समाकारी एकरूपी	monoplanetism		एकचालिना
monomorphism	Geol, Zool. Phy, Math.	एकरूपता एकैक समाकारिता	monoploid	Bot, Zool	एकगुणित
monomorphous	Chem	एकरूपी	monoploid hybrid		एकगुणित संकर
monomyarian	Geol, Zool.	एकाभिवर्तनीपेशी, एकाभिवर्तनी	Monopneumona	Zool	मोनोन्यूमोना
mono-n-octadecenyl	Chem	मोनो- $\mu$ -ऑक्टाडेसेनिल	monopneumous	Zool	एकफुफुमी
monont	Zool	वियुग्मनप्रज, वियुग्मनक	monopodal	Zool.	एकपादामी
mononuclear	Chem Biol.	1. एकनाभिकीय 2. एककेन्द्रकी	monopodial	Bot. Zool.	एकलासी एकपदीय
mononuclear compound	Chem.	एक-केन्द्रक यौगिक	monopodial trunk	Bot.	एकलासीय स्तम्भ
mononuclear ions	Chem.	एक-केन्द्रकीय आयन	monopodium	Zool. Bot.	एकपद एकलास
mononucleosis	Zool.	एककेन्द्रकाणुता	monopole	Phy, Math., Chem. (Nucl)	एकध्रुव
mono-nucleotide	Chem.	मोनोन्यूक्लिओटाइड	monopole charge		एकध्रुवी आवेश, एकध्रुवी चार्ज
mononychous	Zool	एकनेखरी	monopole movement		एकध्रुव आपूर्ण
mono-oval twin	Zool.	एकाइज यमज	monopole strength		एकध्रुव-सामर्थ्य
monopellant		एकप्रावस्था प्रणोदक	monopolistic control		एकाधिकृत नियंत्रण
monoperphthalic acid	Chem.	मोनोपरर्यैलिक अम्ल, मोनोपरर्यैलिक ऐसिड	monopolistic industry		एकाधिकृत उद्योग
monopetalous	Bot H.Sc.	एकदली	monopoly		एकाधिकार
monophagous animal		एकाहारी प्राणी	monoporate	Bot.	एकछिद्रकी
monophasic pegmatite	Geol	एकप्रावस्था पेग्माटाइट	monopotassium phosphate	Bot, Chem.	मोनोपोटैशियम फॉस्फेट
monophasic recording	Zool.	एकप्रावस्था अभिलेख	monoprotic		एकप्रोटी
monophonic sound system	Phy.	एकगण्य ध्वनि व्यवस्था	monoprimida	Geol.	एकप्रूनिडा
monophyletic	Bot, Zool., Geol.	एकस्रोतोद्भवो	monopterous	Bot.	एकपस
monophyletical	Geol.	एकस्रोतोद्भूत	monopulse radar	Phy	एकस्पदी रेडार
monophyletic evolution	Zool.	एकस्रोतोद्भवो विकास	monorail	Geol.	एकरेल
monophyleticism		एकस्रोतोद्भवत्व	monorchic	Zool.	एकवृषणीय
			monorheithry	Bot.	एकीद्वयमता
			monorhinous	Zool.	एकनासीय
			monosaccharide	Chem, H.Sc., Bot	मोनोसैक्यारिड

monosaccharose	Bot.	मोनोसैकरोस	monostele	Bot.	एकरम्भ
monoschematic	Geol.	एकव्यवस्थ	monostelic		एकरम्भी
monoscope	Phy.	मोनोस्कोप	monostichodont jaw	Zool.	एकदंतावलि हनु
monose	Chem.	मोनोस	Monostichodonta	Zool.	मोनोस्टिकोडॉन्टा
monoselenide	Chem.	एकसेलिनाइड, मॉनो- सेलिनाइड	monostichous	Bot., Zool.	एकपवितक, एकावलिक
Monoselenium	Bot.	मॉनोसेलीनियम	monostome	Zool.	एकचूपक
Monoselenium tenerum		मॉनोसेलीनियम टेनेरम	monostromatic	Bot.	एकस्तरिक
monosepalous	Bot.	एकवाह्यदली	monostylous	Bot.	एकवतिक
Monosiga	Zool.	मोनोसाइगा	monostyrene	Chem.	एकस्टाइरीन, मोनोस्टाइ- रीन
monosiphonic	Zool.	एकविनालीय	monosulcate	Geol.	एकखांची
monosiphonous	Bot.	एकनलिकीय	monosulcate ostracode	Geol.	एकखांची ऑस्ट्रेकोड
monosodium phosphate		मोनोसोडियम फॉस्फेट	monosyllabism	Geog.	एकाक्षरिता, एकाक्षर विभ्रलेपण
monosome	Zool.	एकलसूत्र	monosyllable	Geog.	एकाक्षर
monosomic	Zool.	एकन्यूनसूत्र	monosymmetric	Geol.	एकसममित
monospecific	Zool.	एकजातीय	monosymmetrical	Bot.	एकव्यास सममित
monospecific bloom		एकजातीय पुंज	monosymmetric system		एकसममित वर्ग
monosperm	Bot.	एकबीजी	monotap	H.Sc.	एकटोंटी
monospermic	Bot., Zool.	1. एकबीजी 2. एकशुक्राणुक	monotaxic	Zool.	एकानुचलनी, एकतरंगी
monospermus		एकबीजी	monotaxic locomotion		एकानुचलनी गति
monospermy		एकशुक्राणुता	monotaxis	Zool.	एकानुचलन
monosporangium	Bot.	एकबीजाणुधानी	monotectic	Chem.	एकक्रांतिक, मोनोटैक्टिक
monospore	Bot.	एकबीजाणु	monotectic change		एकक्रांतिक परिवर्तन
Monosporella bicuspidata	Bot.	मोनोस्पोरेला वाइक- स्पिडेटा	monotectoid		एकक्रांतिकाम
monosporic		एकबीजाणुज	monothalamous	Zool., Geol.	एकवेश्मी एकावानी
monosporous		एकबीजी	monothalamous foraminifera	Zool.	एकवेश्म छिद्रधर
monosporous culture		एकबीजाणवी संवर्ध	monothecal	Bot.	एककोप्टकी
monostable multivibrator.	Phy.	एकस्थितिक बहुकंपित्र	monotheistic	Geog.	एकेश्वरीय
monostable multivibrator circuit	Geol.	एकस्थायी बहुकंपित्र परि- पथ	monotheistic character		एकेश्वरवादी लक्षण
monostable timer	Phy.	एकस्थितिक कालद	monotheistic religious belief		एकेश्वरीय धार्मिक मत
monostatic radar	Phy.	एकस्थितिक रेडार	monothetic	Math.	एकस्थितय
Monostegia	Geol.	मोनोस्टीगिया	monotocardia		मोनोटोकार्डिया
			monotocous	Bot.	सङ्कलनी

monotone	<i>Math , Chem ,Phy</i>	एकदिष्ट	monotroydite	<i>Chem.</i>	मोनोट्रायडाइट
monotone class		एकदिष्ट वर्ग	monotube	<i>H Sc</i>	एकनली
monotone increasing net		एकदिष्ट वर्धमान जाल	monotype	<i>Zool.</i>	एकलप्ररूप, मोनोटाइप
monotone increasing sequence		एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम	monotype casting machinery	<i>Geog</i>	मोनोटाइप कास्टिंग मशीनरी
monotone net		एकदिष्ट जाल	monotypic	<i>Biol</i>	एकलप्ररूपी
monotone set function		एकदिष्ट समुच्चय-फलन	monotypic antiserum		एकलप्ररूपी प्रतिमौरम
monotone transfinite sequence		एकदिष्ट परिमितातीत अनुक्रम	monotypic serum		एकलप्ररूपी मोरम
monotone tweed	<i>H Sc.</i>	एकदिष्ट ट्वीड	monotypic taxon		एकलप्ररूपी वर्गक
monotonically		एकदिष्टतः	monotypism	<i>Biol</i>	एकलप्ररूपता
monotonically increasing net		एकदिष्ट वर्धमान जाल	monotypy	<i>Geol</i>	एकल प्ररूपी
monotonically increasing sequence		एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम	monovalence	<i>Chem.</i>	एक-संयोजकता
monotonic function		एकदिष्ट फलन	monovalent	<i>Chem Bot.</i>	एकसंयोजक अयुग्मली
monotonic increase		एकदिष्ट वृद्धि	monovariant		एकचर
monotonic relation variable		एकदिष्ट संबंध चर	monovariant system		एकचर तंत्र
monotonic response		एकदिष्ट अनुक्रिया	monovelocity beam		एकवेगी विद्युत्पृज
monotonic sequence		एकदिष्ट अनुक्रम	monoverticillate	<i>Bot</i>	एकचक्रक
monotonic universe		एकदिष्ट विश्व	monovular	<i>Bot ,Zool</i>	एकांडज
monotonoid function		एकदिष्टाभ फलन	monoxenic	<i>Bot.</i>	एकागन्तुकी
monotomy		नीरमता, उकतादृष्ट	monoxide	<i>Chem</i>	मोनो-ऑक्साइड
monotopic	<i>Zool.</i>	एकस्रोत्री	monoxylic	<i>Bot</i>	एकदाहक
monotopic effect	<i>Chem</i>	एकस्थानिक प्रभाव	monozoic tapeworm	<i>Zool</i>	एकमंडी फीनाइडम
Monotremata	<i>Zool.</i>	मोनोट्रीमेटा (एकविद्राण)	monozygote	<i>Zool</i>	एकयुग्मज
monotreme	<i>Geog ,Zool.</i>	अंडजस्तनी, एकविद्रा	monozygotic		एकयुग्मजी, एकांडजी
monotrichous	<i>Biol.</i>	1 एरोकभी 2 एककशाभी	monozygotic twin (= identical twin)		एकांडज यमज (समरूप यमज)
monotron	<i>Phy.,Chem</i>	मोनोट्रॉन	Monsanto mass	<i>Chem</i>	मोन्सेन्टो द्रव्यमान
monotron test		मोनोट्रॉन भवरीक्षण	Monsavon process	<i>Chem.</i>	मोन्सावॉन प्रक्रम
monotropic	<i>Chem ,Zool. Phy.,Chem.</i>	1 एकरूपी 2 एकाभुवर्ती	monsoon	<i>Geog.</i>	मानसून
monotropic allotropy		एकरूपी अपररूपता	monsoonal change		मानसूनी परिवर्तन
monotropically		एकरूपतः	monsoon country		मानसूनी देश
monotropy		एकरूपिता	monsoon forest		मानसून-वन
			monsoon front		मानसून पूर्व कानाघ
			monsoon land		मानसून-देश
			monsoon region		मानसून-प्रदेश
			monsoon season		मानसून-ऋतु
			Monstrilla	<i>Zool</i>	मॉन्स्ट्रिला



monstrosity	Zool.	विकटरूपता	montmorillonite	Chem., (Met.) Geog.	मॉन्टमॉरिलोनाइट
montage	Phy.	मोंताज	montmorillonitic clay		मॉन्टमॉरिलोनाइट मृदा
Montagena	Bot.	मान्टेजिना	monton wax	Geol.	मोन्ता मोम
Montagnac	H.Sc.	मॉन्टान्यक	monument	Geog.	स्मारक
montana	Geog.	मोन्टेना	monumental building	Geog.	स्मारकीय भवन
montane	Geog., Bot.	पर्वतीय	monumental map	Geog.	अतिमहत्वपूर्ण मानचित्र
montane forest		पर्वतीय वन	monuron	Chem.	मोनयूरोन
montane humus soil		पर्वतीय ह्यूमी मृदा	monzome shusu	H.Sc.	मॉन्जोम शुसु
montane region		पर्वतीय प्रदेश	monzonite	Geol.	मोन्जोनाइट
montane thick		पर्वती निकुंज	monzonitic texture		मोन्जोनाइट गठन
montanic acid	Chem.	मॉन्टैनिक अम्ल	monzosyenite	Geol.	मोन्जोसायनाइट
montanine	Chem.	मॉन्टैन	moon	Geog., H.Sc.	चंद्रमा मून (कपास)
montan wax	Chem.	मॉन्टैन मोम	moon cake	H.Sc.	मून केक
Mont Cenis synthetic ammonia process	Chem.	मॉन्ट सेनिस संश्लेषी अमो- निया प्रक्रम	Mooney equation	Chem., Math.	मूने समीकरण
monte	Geog.	मान्ते	Mooney material		मूने पदार्थ
monte alto		मान्ते आल्तो	moonfish	H.Sc.	मूनफिश
monte bajo		मान्ते बायो	moon pillar (= light pillar)	Geog.	द्युति-स्तम्भ
"Monte Carlo" calculation	Math., Chem.	मोन्टे कार्लो परिकलन	moon-sickle	Geog.	नव चंद्र
Monte Carlo method		मोन्टे-कार्लो विधि	moon's sidereal motion	Geog.	चांद्र नक्षत्र-गति
Montecatini process	Chem. (Fert.)	मॉन्टकाटिनी प्रक्रम	moonstone	Chem. (Met.)	मूनस्टोन, चन्द्रोपल मणि, चन्द्रकान्त मणि
montegal	Chem.	मॉन्टगल	moonstone glass		चन्द्रोपल कांच
monteith	H.Sc.	मॉन्टीथ	moor	Bot., Geog., Geol.	मूर
Montel space	Math.	मॉन्टेल-समष्टि	mooraboolite	Geol.	मूरबूलाइट
Montenegrin	Geog.	मान्टीनीग्रो-निवासी	moorband pan	Geol.	मूरबैंड पैन, मूर पर्यटी
monthery	H.Sc.	मॉन्थेरी	Moore filter	Geol.	मूर फिल्टर
Monthier's blue	Chem. (Met.)	मॉन्थियर नील, मॉन्थि- अर-ब्लू	Moore Smith convergence	Math.	मूर-स्मिथ अभिसरण
monthly statistics	Math.	मासिक बांकड़े	moorhen	Zool.	खार कुक्कुट
monticellite	Geol.	मॉन्टिसेलाइट	mooring mast	Geog.	लंगर-मस्तूल
monticle	Geol.	अट्रिका	Moorish lace	H.Sc.	मूरिश लेस
monticulate	Geol.	अट्रिकामय	moor land	Geog.	मूर भूमि
monticule	Geol.	अट्रिका	moorland area		मूरभूमि-क्षेत्र
montiform	Geol.	अट्रिकारूप			
Montipora	Zool.	मॉन्टिपोरा			

moorland ridge		मूर भूमि-बटक	moral character	Geog.	नैतिक चरित्र
moorpan	Geol.	मूरपन, मूरपण्टी	moral geography		नैतिक भूगोल
moorpeat	Geol.	मूरपीट	morass	Bot.	बनूप
Moor's test	Chem.	मूर निकष	morass ore	Geol.	दलदल-लोहब्रयस्क
moorra	H.Sc.	मूर्दा	morat	H.Sc.	मोरेंट
moor whin	Geol.	मूर ह्विन	Moraxell javis	Bot.	मोराक्सेला बोविस
moose	Geog.	मूज	morbidity	Geog.	अस्वस्थता
moose disease	Zool.	मूज रोग	Morchella conica	Bot.	मार्कॅला कोनिका
mop	Chem (Met)	1. माँप, 2. सम्मार्जनी	Morchia	Bot.	मोर्किया
mopa	Phy.	माँपा	Mordacia	Bot.	मॉर्डॅसिया
mopane	Geog.	माँपाने	mordant	Chem, Bot, H.Sc.	रगबधक
mopane forest		माँपाने-वन	mordanting		रगबधन
mop-cloth	H.Sc.	सम्मार्जनी	mordanting process		रगबधन प्रक्रम
moplen	H.Sc.	माँप्लेन	mordenite	Chem	मॉर्डेनाइट
mopping	H.Sc.	पोचा लगाना	morea	H.Sc.	मोरिया
moquette	H.Sc.	मोक्केट	morfen	H.Sc.	मोरीन
mor	Geog.	मॉर	morel	Bot.	मॉरिल
Moraceae	Bot.	मोरेसी	morelo cherry	H.Sc.	मोरेलो चेरी
morainal apron	Geol, Geog.	हिमोड एप्राँन	Morenoella quercina	Bot.	मारेनीला क्वेर्सिना
morainal gravel		हिमोड बजरी, हिमोड ग्रेवेल	morenosite	Geol.	मारेनीमाइट
morainal lake		हिमोड सरोवर, हिमोड झील	morex	Bot.	मॉरे
morainal topography		हिमोड स्थलाकृति	mor fi	H.Sc.	मॉर्फिल
moraine	Geol., Geog.	मोरेन, हिमोड	morgan (unit)		मॉर्गेन
moraine amphitheatre		हिमोड ऐम्फिथियेटर	morganite	Geol.	मॉर्गेनाइट
moraine bar		मोरेन रोधिका, हिमोड रोधिका	Morgan-Walls phenanthridine synthesis	Chem.	मॉर्गेन-वाल्ल फिन्थ्रिडीन संश्लेषण
moraine deposit		हिमोड निक्षेप	mor humus	Geog.	मॉर ह्यूमस
moraine profonde		मोरेन-प्रोफोन्डे	mori	H.Sc.	मोरी
moraine rampart		हिमोड प्राचीर	moribund	Bot., Geog.	मृतप्राय, मरणामन्व
moraine topography		हिमोड स्थलाकृति	moribund port		मृतप्राय बन्दरगाह
moraine belt		हिमोडपट्टी स्थलाकृति	morin	Chem.	मॉरिन
moraine topography			Morinda citrifolia	Bot.	मोरिन्डा मिट्टीफ्री- लिया
morainic character	Geog.	मोरेनीय स्वरूप	Morinda tinctoria		मोरिन्डा टिन्टोरिया
morainic hill		हिमोड पहाड़ी	Moringaceae	Bot.	मोरिंगेसी
morainic loop	Geol.	हिमोड लूप, हिमोड पाथ			
morainic ridge		मोरेनीय बटक			

morion		मोरिऑन
Moritz mixer	<i>Chem. (Fert.)</i>	मोरिट्ज मिश्रक
Morley's apparatus	<i>Chem.</i>	मॉलि उपकरण
Morley's method		मॉलि पद्धति
morlop	<i>Geol.</i>	मॉलॉप
morning glory	<i>Bot.</i>	सानिग ग्लोरी
morning star		प्रातस्तारा
moro	<i>H.Sc.</i>	मोरो
Morocco leather		मोरक्को चर्म, मोरक्को चमड़ा
Morocco rock	<i>Chem.</i>	मोरक्को शैल
morotic acid	<i>Chem.</i>	मोरोटिक अम्ल
Moroideae		मोरोइडी
moronite	<i>Geol.</i>	मोरोनाइट
morose temperament		चिड़चिड़ा स्वभाव
morotic acid	<i>Chem.</i>	मोरोटिक अम्ल
morph	<i>Zool.</i>	रूप
morphallaxis	<i>Zool.</i>	अंगान्तरण
morphic equivalents	<i>Geol.</i>	समरूपी द्विपमप्रभव
morphic prefiguration	<i>Geol.</i>	आकृतिक पूर्वलक्षण
morphic representation		आकृतिक निरूपण
morphine	<i>Chem.</i>	मॉफीन
morphogenesis	<i>Biol., Geol.</i>	संरचनाविकास
morphogenetic change	<i>Zool., Geol., Geog.</i>	संरचनाविकास परिवर्तन
morphogenetic factor		संरचनाविकासक
morphogenetic line		संरचनाविकासी रेखा
morphogenetic movement		संरचनाविकास गति
morphogenetic process		संरचनाविकास प्रक्रम
morphogenetic region		संरचनाविकासी प्रदेश
morphogenetic survey		संरचनाविकासी सर्वेक्षण
morphogenic phase		संरचनाविकासी प्रावस्था
morphogeny	<i>Geol., Zool.</i>	संरचनाविकास
morphographic map	<i>Geog.</i>	आकृतिक मानचित्र
morphography	<i>Geog.</i>	आकृति-वर्णना

morphol	<i>Chem.</i>	मॉरफॉल
morpholine	<i>Chem.</i>	मॉफॉलीन
morphological	<i>Biol., Geog., Geol.</i>	आकृतिक, आकारिकीय
morphological adaptation		आकृतिक अनुकूलन, आकारिकी अनुकूलन
morphological anisogamy		आकृतिक असमयुग्मकता
morphological correspondence		आकृतिक संगतता
morphological derivation		आकृतिक व्युत्पत्ति
morphological disfiguration		आकारीय विरूपता
morphological region		आकृतिक प्रदेश
morphological series		आकृतिक श्रेणी
morphological survey		आकारिकीय सर्वेक्षण
morphological term		आकृतिक शब्द
morphological transition		आकारिकीय संक्रमण
morphological variant		आकारिकीय परिवर्तन
morphologic type		आकृतिक प्ररूप
morphologist		आकृतिविज्ञानी
morphology		आकृतिविज्ञान, आकारिकी
morphometric character	<i>Zool.</i>	आकृतिमान लक्षण
morphometry	<i>Bot., Geog.</i>	आकारमिति
morphon		मॉफॉन
morphorogenic phase	<i>Geol.</i>	पर्वतनी प्रावस्था
morphosculpture	<i>Geog.</i>	आकृति-लक्षण
morphosequent	<i>Geog.</i>	आकृत्यनुवर्ती
morphospecies	<i>Zool.</i>	रूपजाति
morphostructure	<i>Geog.</i>	आकृति संरचना
morphotectonic	<i>Geog., Geol.</i>	आकृतिविवर्तनिक, मॉफॉ-टेक्टोनिक
morphotectonics	<i>Geol.</i>	आकृतिविवर्तनिकी
morphotexture	<i>Geog.</i>	आकृति गठन
morphotropy	<i>Chem.</i>	आकाररूपिता
morphotype	<i>Geol.</i>	चित्रप्ररूप
morphotypus	<i>Zool.</i>	रूपप्ररूप

morra (game)	<i>Math</i>	मोरा
Morris chair	<i>H Sc.</i>	मॉरिस कुर्सी
Morrison formation	<i>Geol</i>	मॉरिसन शैलमम्ह
Morris process	<i>Chem.</i>	मॉरिस प्रक्रम
Morris rug	<i>H.Sc.</i>	मॉरिस रग
Mortis style	<i>H Sc.</i>	मॉरिस शैली
Morse equation	<i>Chem, Phy</i>	मोर्स समीकरण
Morse function		मोर्स फलन
Morse key		मोर्स कुंजी
Morse potential		मोर्स विभव
Morse sounder		मोर्स ध्वनित्र
mortal	<i>Chem.</i>	खरल, खल्ल
mortality		मृत्यु सख्या, मृत्यु दर, मर्याता
mortality curve		मृत्यु वक्र
mortality rate		मृत्यु दर
mortality statistics		मृत्यु आकडे
mortality table		मृत्यु मारणी
mortar	<i>Chem</i>	1 चूनापिप, चूनापिप 2 खरल, खल्ल
mortar structure	<i>Geol.</i>	दलित कण संरचना
mortgage	<i>H Sc.</i>	बधक, गिरवी, रेहन
mortgagee		बन्धकग्राही
<i>Mortierella rostrafinskii</i>	<i>Bot</i>	माटिएरेला रास्ट्र-फिन्सकी
mortification	<i>Geol.</i>	सक्रियता ह्रास
mortlake	<i>Geog.</i>	मार्टलेक, मृत-झील
mortress	<i>H Sc.</i>	मार्ट्रेस
morula	<i>Zool</i>	मोरुला, तूनक
morular organ	<i>Bot.</i>	मोरुलीय अंग
Moruloidea	<i>Zool.</i>	मोरुलोइडिया
<i>Morus alba</i>	<i>Bot.</i>	मोरस ऐल्वा
<i>Morus indica</i>		मोरस इन्डिका
morvan	<i>Geog.</i>	मोरवान
mosaic		1 मोझेक 2. किर्मीर
mosaic blocks		मोजेक खण्डक

mosaic crystal		मोजेक-क्रिस्टल, मोजेक स्फाटक
mosaic development		मोजेक परिवर्धन, किर्मीर परिवर्धन
mosaic electrode		मोजेक इलेक्ट्रोड
mosaic endospermi		मोजेक झूणपोप, किर्मीर झूणपोप
mosaic evolution		मोजेक विकास, किर्मीर विकास
mosaic formation		मोजेक रचना, किर्मीर रचना
mosaic gold		मोजेक स्वर्ण
mosaic growth		मोजेक वृद्धि, किर्मीर वृद्धि
mosaicing	<i>Geog.</i>	मोजेकन
mosaicing officer		मोजेकन अधिकारी
mosaic-like		किर्मीरसम, मोजेकसम
mosaic mottling		मोजेक कर्वरण
mosaic of grid		ग्रिड-मोजेक
mosaic of habitat		आवास मोजेक
mosaic of population		जनसख्या किर्मीर
mosaic-resistant		मोजेक-प्रतिरोधी
mosaic screen		मोजेक पर्दा
mosaic silver		मोजेक रजत
mosaic structure		मोजेक संरचना
mosaic theory		मोजेक सिद्धांत, किर्मीर सिद्धांत
mosaic vision		मोजेक दृष्टि, किर्मीर दृष्टि
mosaikkrankheit		मोजेक रोग
Mosby thermo-sound	<i>Zool.</i>	मोस्बी उष्णमापी
Moschus	<i>Zool.</i>	मोस्कस
mosdiode	<i>Phy.</i>	मोस डायोड
Moses-Oakford tables	<i>Math</i>	मोसेस-ओकफोर्ड मारणी
mosfet	<i>Phy.</i>	मोस्फेट, धातु आवसाइड अर्धचालक
Mosfield effect transistor	<i>Phy.</i>	मोस्फील्ड प्रभाव ट्रांजिस्टर
moslem city	<i>Geog</i>	मुसलिम-नगर
Mosley diagram	<i>Phy.</i>	मोस्ले-आरेख
mosor	<i>Geol.</i>	मोसोर

mosore	<i>Geog.</i>	मोजोर	moth	<i>Zool., Geol.</i>	माँथ, शलभ
Mosotti Clausius equation	<i>Chem.</i>	मोसोटी क्लाउजियस समीकरण	mother cell	<i>Biol.</i>	जनक कोशिका
mosque	<i>Geog.</i>	मस्जिद	mother city	<i>Geog.</i>	मातृ-शहर
mosquito	<i>Zool., Geol.</i>	मच्छर, मशक	mother cloud		सीप मेघ
moss	<i>Bot., Geog., Geol.</i>	माँस	mother colony	<i>Zool.</i>	पितृ निवह
moss agate	<i>Geol.</i>	दुमी गोमेद, सीजरी	mother country	<i>Geog.</i>	मातृ देश
Mossbauer effect	<i>Chem.</i>	माँसबीर-प्रभाव	mother craft	<i>H.Sc.</i>	मातृ कला
moss crepe	<i>Chem., H.Sc.</i>	माँस-क्रेप	mother crystal	<i>Phy.</i>	मातृ क्रिस्टल
moss fallows		माँसहीन दलदल	mother cyst	<i>Zool.</i>	मातृ पुटी
moss gold	<i>Geol.</i>	द्रुमी स्वर्ण	motherhood	<i>H.Sc.</i>	मातृत्व
mossite	<i>Chem.</i>	माँसाइट	mother liquor	<i>Geol.</i>	मातृद्रव, मदर लिक्वर
moss land		माँस भूमि	mother lode	<i>Geol.</i>	मातृ शिरानिक्षेप, मातृ लोड
mossotite	<i>Chem.</i>	माँसोटाइट	mother of coal	<i>Geol.</i>	कोयला जनक
moss peat	<i>Geog.</i>	माँस-पीट	mother of pearl	<i>Geol.</i>	मुक्ता सीप
moss silver	<i>Geol.</i>	द्रुमी रजत	mother of pearl cloud	<i>Geog.</i>	मुक्ताम मेघ
mossy		मोसीय	mother of vinegar	<i>Bot.</i>	चुक्रजननी
most efficient estimator	<i>Math.</i>	दक्षतम आकलक	mother rock	<i>Geol.</i>	मातृ शैल, जनक शैल
most general iteration formula	<i>Math.</i>	व्यापकतम पुनरावृत्ति-सूत्र	mother shell	<i>Phy.</i>	जनक सांचा
most general solution		व्यापकतम साधन, व्यापकतम हल	mother state	<i>Geog.</i>	मूल राज्य
mostly clouded	<i>Geog.</i>	अधिकांश मेघी	moth flower	<i>Bot.</i>	शलभ पुष्प
mostly to overcast clouded		अधिकांश-पूर्ण मेघी	moth fly	<i>Zool.</i>	शलभ मदी, शलभ मक्खी
most nearly continuous function	<i>Math.</i>	सन्निकटतम संतत फलन	moth proof	<i>H.Sc.</i>	कीट रोधी, शलभ अभेद्य
most powerful critical region	<i>Math.</i>	शक्तिशाली क्षेत्र	mothproofing		शलभसहक
most probable		प्रायिकतम	mothproofing agent	<i>Chem.</i>	शलभ सहक
most probable phase distribution		प्रायिकतम प्रावस्था-व्यंजन	motif	<i>Chem.</i>	अनुकल्प, रूपांकन
most probable velocity		प्रायिकतम वेग	Motif formula	<i>Phy.</i>	मोटिफ सूत्र
most-significant-digit theory	<i>Math.</i>	सायंकतम अंक सिद्धांत	motile		गतिशील, चर
most stringent test	<i>Math.</i>	कठोरतम परीक्षण	motility	<i>Zool., H.Sc.</i>	गतिशीलता, स्वतःचरता
notes	<i>Chem.</i>	बीजिका	motility factor		गतिशीलता कारक
			motion	<i>Phy., H.Sc. Math.</i>	गति अनुद्वैतिक रूपांतरण
			motional electromotive force	<i>Phy.</i>	गतिक विद्युत् बाहक बल
			motional impedance		गतिक प्रतिबाधा
			motion economy	<i>H.Sc.</i>	गति बचत
			motion head	<i>Geog.</i>	गति (पेन्-) शीर्ष

<i>motionless</i>		गतिहीन, अचल	<i>motory phenomena</i>	<i>Chem.</i>	प्रेरक परिघटना
<i>motionmindedness</i>		गति सजकता	<i>mottle</i>	<i>Chem (Ink)</i>	कबूट
<i>motion of relative inertia</i>		सापेक्ष जड़त्व की गति	<i>mottled</i>	<i>Geol.</i>	चित्रकबूट, कबूटरिल, कबूट
<i>motion picture</i>	<i>Phy.</i>	चल चित्र	<i>mottled paper</i>		कबूटरिल कागज
<i>motion picture camera</i>		चल चित्र कैमरा	<i>mottled pig iron</i>		कबूटर ढलवाँ लोहा, चित्रकबूट इस्पात लोहा
<i>motion-picture pick up</i>		चल चित्र पिकअप	<i>mottled teeth</i>	<i>H.Sc.</i>	कबूटरिल दाँत
<i>motion projector</i>		चलचित्र प्रक्षेपी	<i>motting</i>		कबूटरण
<i>motivated behaviour</i>	<i>Zool.</i>	अभिप्रेरित व्यवहार	<i>mottramite</i>	<i>Chem (Met)</i>	मोट्रामाइट
<i>motivating force</i>		अभिप्रेरक बल	<i>mott scattering formula</i>	<i>Phy</i>	मॉट प्रकीर्णन सूत्र
<i>motivation</i>	<i>H.Sc.</i>	अभिप्रेरण	<i>moulage</i>	<i>Chem (Plastics)</i>	संचाक
<i>motive power</i>	<i>Phy.</i>	गतिदायी शक्ति, गामक शक्ति	<i>mould (mold)</i>	<i>Bot, Chem., H.Sc.</i>	1. साचा 2. ऋषूदी
<i>motivity</i>		गतिदायकता, गामकता	<i>mould amortization</i>	<i>Chem. (Plastics)</i>	संच परिशोधन
<i>motor</i>	<i>H.Sc., Zool. Phy.</i>	प्रेरक मोटर	<i>mould backing</i>		संच बालव
<i>motorboat</i>	<i>Phy.</i>	1 मोटर नौका 2 फटफटना	<i>moulder's rule</i>		संचाकार मापनी
<i>motorboating</i>		फटफटी-कम्पन	<i>moulding</i>	<i>H.Sc., Geog.</i>	संचन, साचे में ढालना
<i>motor centre</i>	<i>Zool.</i>	प्रेरक केन्द्र	<i>mould loft</i>		संच कक्ष
<i>motor disorder</i>	<i>H.Sc.</i>	प्रेरक विकार	<i>mould mark</i>		संच चिह्न
<i>motor fibre</i>		प्रेरक तंतु	<i>mould ripened cheese</i>	<i>H.Sc.</i>	फफूदी पसब पनीर
<i>motor fishing vessel</i>	<i>Zool.</i>	मोटर मत्स्यन पोत	<i>mouldrite</i>	<i>Chem.</i>	मोल्ड्राइट
<i>motor generator</i>	<i>Phy.</i>	मोटर जनित	<i>mould shoe</i>		संच योजक
<i>motor-guide book</i>		मोटर गाइड बुक	<i>mould starch</i>		फफूदी मड, फफूदी स्टाच
<i>motorium</i>	<i>Zool, H.Sc.</i>	गतिप्रेरककाय	<i>moulin</i>	<i>Geol., Geog.</i>	हिफानी मूल, मूल
<i>motor launch service</i>		मोटर लांच सर्विस	<i>moulin pothole</i>		मूल गह्वर, हिफानी मूल-गह्वर
<i>motor method</i>	<i>Chem.</i>	मोटर पद्धति	<i>moult</i>	<i>Zool.</i>	निर्मोक
<i>motor nerve</i>	<i>Zool.</i>	प्रेरक तंत्रिका	<i>moulting</i>		निर्मोचन
<i>motor nerve cell</i>		प्रेरक तंत्रिका कोशिका	<i>moulting fluid</i>		निर्मोक तरल
<i>motor nerve fibre</i>		प्रेरक तंत्रिका तंतु	<i>moulting gland</i>		निर्मोचन ग्रंथि
<i>motor neuron</i>		प्रेरक तंत्रिकोशिका	<i>moult migration</i>		निर्मोक प्रवास
<i>motor oculi</i>	<i>H.Sc.</i>	नेत्र प्रेरक तंत्रिका	<i>mound</i>	<i>Geog.</i>	दीला
<i>motor organs</i>		प्रेरक अंग	<i>mound work</i>	<i>Geog.</i>	इन्ध्रिय दीला
<i>motor transport</i>	<i>Geog.</i>	मोटर-परिवहन			
<i>motor trawler</i>	<i>Zool.</i>	मोटर आनायक			
<i>motor unit</i>	<i>Zool, H.Sc.</i>	प्रेरक एकक			
<i>motorway</i>	<i>Geog.</i>	मोटरमार्ग			

mount	<i>Phy.</i>	1. आरोपण 2. आरोह, धारक 3. आरोप्य 4. पहाड़ी	mountainous group		पर्वतीय समूह, पर्वतीय वर्ग
	<i>Geog.</i>		mountainous land		पर्वतीय देश, पर्वतीय भूमि
mountain		पर्वत, पहाड़	mountain paper	<i>Geol.</i>	माउन्टेन पेपर
mountain ash (tree)		पर्वत-ऐश (वृक्ष)	mountain pasture		पर्वत-चरागाह
mountain barometer		पर्वत-वायुदावमापी	mountain pediment		पर्वत-पेडिमेन्ट
mountain breeze		पर्वत-समीर	mountain rain	<i>Geog.</i>	पर्वतकृत वर्षा
mountain brown ore	<i>Geol.</i>	लिमोनाइट	mountain refugee		पर्वतीय शरणार्थी
mountain building		पर्वत रचना	mountain region		पर्वत-प्रदेश
mountain building movement		पर्वत-निर्माणी संचलन	mountain resort		पर्वत-विनोदस्थल
mountain building period		पर्वतोत्पत्ति-कल्प, पर्वत रचना कल्प	mountain rim		पर्वत-किनारा
mountain-building phenomenon		पर्वत-निर्माणी परिघटना	mountain saddle		पर्वत काठी, पर्वत पत्याण
mountain butter	<i>Geol.</i>	ऐलूनोजेन	mountain shoreline		पर्वतीय तट-रेखा
mountain chain		पर्वत-माला	mountain sickness		पर्वत-रोग
mountain circus		पर्वत-सरकन	mountain slide		पर्वत स्खलन
mountain classification		पर्वत-वर्गीकरण	mountain soap	<i>Geol.</i>	माउन्टेन सोंप
mountain climate		पर्वतीय जलवायु	mountain soil		पर्वत-मृदा
mountain cork		काग ऐस्त्रेस्टस	mountain system		पर्वत तन्त्र
mountain crystal		स्फटिक, विल्लौर	mountain tallow	<i>Geol.</i>	माउन्टेन टेलो
mountain drag		पर्वत कर्ष	mountain-top detritus		पर्वत-शिखर अपरद
mountain effect		गिरि प्रभाव	mountain torrent		पर्वत-वेगधारा
mountain feature		पर्वत-लक्षण, पर्वत आकृति	mountian tract		पर्वतप्रदेश
mountain fescue		पर्वत-फेस्क्यू	mountain wind		पर्वत-पवन
mountain front		पर्वताग्र	mountain without root	<i>Geog.</i>	आधारहीन पर्वत
mountain girt		पर्वत-घेरा	mountain wood	<i>Geol.</i>	काष्ठ ऐस्त्रेस्टस
mountain glacier		पर्वतीय हिमनद	mountebank	<i>Geog.</i>	कठबँध
mountain green	<i>Geol.</i>	मैलेकाइट	mounting	<i>Biol.</i>	आरोपण, स्थापन व्यवस्था
mountain knot		पर्वत सम्मेल, पर्वत ग्रंथि	mounting media		आरोपण माध्यम
mountain lake		पर्वत-सरोवर	mounting of map	<i>Geog.</i>	मानचित्र-मढ़ाई
mountain leather	<i>Geol.</i>	चर्म ऐस्त्रेस्टस	mounting of plane-table	<i>Geog.</i>	प्लेन-टैबुल मढ़ना
mountain line		पर्वत-रेखा	mounting paper		आरोपणी कागज
mountain meadow		पर्वत-वांगर, पर्वत-शाद्ल	mounting slide		आरोपण स्लाइड
mountain meal	<i>Geol.</i>	टापटोमाइट	mounting specimen		आरोपित प्रतिदर्श
mountain milk	<i>Geol.</i>	माउन्टेन मिल्क	moupak		मौपक
			mourning rite	<i>Geog.</i>	अन्वेषिष्ठ क्रिया
			mouse	<i>Zool.</i>	मृपक

mouse leukemia virus		मुपक श्वेतरक्तना विषाणु	movement of extension		विस्तार-गति
mouth	<i>Biol., Phy, H.Sc.</i>	मुख, मुह	movement of growth		वृद्धि गति
mouth angle plate	<i>Geol.</i>	मुखान पट्टिका	movement of locomotion		चलन गति
mouth armature	<i>Zool.</i>	मुख-उपवला	movement of ocean-water		समुद्रजल-संचलन
mouth blow pipe		फुकनी	movement of population	<i>Math</i>	जनसंख्या का गमनागमन
mouth breeding		मुखीय प्रजनन	movement plan		चलन पद्धति
mouth capsule		मुख पुटिका	movement symmetry		चलन सममिति
mouth cavity		मुख गुहा	move number	<i>Chem</i>	चालक संख्या
mouth opening		मुख द्वार	move structure	<i>Math</i>	चाल संरचना
mouth organ		मुख आर्गन	movie	<i>Phy., Geog</i>	चलचित्र
mouth papilla		मुख पैपिला	movie camera		चलचित्र-कैमरा
mouth part		मुखांग	movietone	<i>Phy.</i>	मूवीटोन
mouth piece	<i>Phy</i>	1 मुखिका 2 प्रवक्ता	moving	<i>Math., Geol, Phy.</i>	गतिमान
mouth pore		मुख छिद्र	moving area		गतिमान क्षेत्र
mouth spear		मुख शुक	moving average		गतिमान माध्य
mouth to mouth respiration		मुखाभिमुख श्वसन	moving average disturbance		गतिमान माध्य विक्षोभ
movable cheek	<i>Zool.</i>	मुक्त कपोल	moving axis		गतिमान अक्ष
movable contact	<i>Phy.</i>	सर्पि सपर्कक	moving bar grizzly	<i>Geol</i>	चल शलाका गिजली
movable jockey		सर्पि सपर्कक	moving body		गतिमान पिंड
movable joint	<i>H Sc., Zool</i>	चल सन्धि	moving boundary method	<i>Chem</i>	चल सीमा पद्धति
movable property	<i>H.Sc.</i>	चल संपत्ति	moving cavity		गतिमान कोटर
movable pulley	<i>Phy.</i>	चल धिरनी	moving charge		गतिमान आवेश
movable ring	<i>Bot</i>	चल वलय	moving cluster parallax		गतिमान गुच्छ सवन
movable sieve	<i>Geol</i>	चल-चालनी	moving coil galvanometer	<i>Phy.</i>	चल कुहली-धारामापी, चल कुहली-गैल्वेनोमीटर
move	<i>Math.</i>	चाल	moving coil instrument		चल कुहली यंत्र
movement		1 गति 2 आंदोलन 3 संचलन	moving coil microphone		चल कुहली माइक्रोफोन
movement in prices	<i>H.Sc.</i>	कीमत उतार चढ़ाव	moving coil pick up		चल कुहली निक अप
movement of conflux		संगम-संचलन	moving conductor	<i>Math.</i>	गतिमान चालक
movement of contraction		सकुचन-गति			
movement of curvature		वक्रण गति			
movement of dispersion		परिखेपण-संचलन			



moving conductor electromagnetic seismograph	<i>Geol.</i>	गतिमान चालक विद्युत् चुम्बकीय भूकम्पलेखी	moving target indicator		चल लक्ष्य सूचक रेडार
moving constant force		गतिमान नियत बल	moving total	<i>Math.</i>	गतिमान जोड़
moving coordinate system		गतिमान निर्देश-तंत्र	moving trihedral		गतिमान त्रिफलक
moving dipole		गतिमान द्विध्रुव	moving weight		गतिमान भार
moving disturbance		गतिमान विक्षोभ	mower	<i>Geog., H.Sc.</i>	मोबर, लावक यन्त्र, घासकर्तक
moving element		गतिमान अवयव	mowing	<i>H.Sc.</i>	घास काटना
moving frame		गतिमान तंत्र	mowrah oil	<i>Chem.</i>	मोरा तैल
moving glacier	<i>Geol.</i>	गतिमान हिमानी, गतिमान हिमनद	moya	<i>Geol.</i>	मोया
moving iron galvanometer		चल लोह धारामापी	mozambique	<i>H.Sc.</i>	मोजम्बीक
moving jog mechanism		चल जाग क्रियाविधि, चल ज्युति क्रिया विधि	Mozingo reaction	<i>Chem.</i>	मोजिंगो अभिक्रिया
moving load		चल लोड	M.P.L. (maximum permissible level)	<i>Phy.</i>	वधिकतम निर्धारित स्तर
moving magnet galvanometer		चल चुम्बक धारामापी	m-ranking	<i>Math.</i>	m-कोटि निर्धारण
moving magnet type		चल चुम्बक वर्गीय	mrigal	<i>Zool.</i>	मृगल
moving material		गतिमान द्रव्य	msitu	<i>Geog.</i>	सितु (झाड़ी)
moving medium		गतिमान माध्यम, गतिमान प्रेक्षक	M-space	<i>Math.</i>	M-समष्टि
moving observer		गतिमान प्रेक्षक	M-test for integral	<i>Math.</i>	समाकल का M-परीक्षण
moving observer technique		गतिमान प्रेक्षक विधि	mu	<i>Phy.</i>	म्यू
moving point		गतिमान बिंदु	mucic acid	<i>Chem.</i>	म्यूसिक अम्ल, म्यूसिक एसिड
moving point charge		गतिमान बिंदु आवेश	mucilage	<i>Biol., Geol.</i>	म्यूसिलेज, श्लेष्मक
moving pulsating force		गतिमान स्पंदमान बल	mucilage cavity		श्लेष्मक कोटर, श्लेष्मक गुहिका
moving range chart		गतिमान परिसर-संचित्र	mucilage-envelope		श्लेष्मावरण
moving screw dislocation	<i>Phy.</i>	चल स्क्रू प्रघ्नंश, चल पेश प्रघ्नंश	mucilage papilla		श्लेष्मक पपिला
moving seasonal variation		गतिमान ऋतुनिष्ठ विचरण	mucilage-prism		श्लेष्मक-प्रिस्म
moving singularity		गतिमान विचित्रता	mucilage-sheath		श्लेष्मक छद
moving summation process		गतिमान संकलन प्रक्रम	mucilage-stalk		श्लेष्मक-चूत
moving system		गतिमान निकाय	mucilaginous extract	<i>Chem.</i>	श्लेष्मक निष्कर्ष
moving tape transmitter	<i>Phy.</i>	चलटैप प्रेषित्र	mucilaginous matter	<i>Geol.</i>	श्लेष्मकीय पदार्थ
			mucin	<i>Zool.</i>	म्यूसिन
			mucinase	<i>Chem.</i>	म्यूसिनेज
			muck	<i>Geol., Geog., Chem., Bot.</i>	मक, कार्दनी कर्दम
			muck bar		मक शलाका
			muck deposit		मक निक्षेप
			mucker	<i>Geol.</i>	मकक्षेपक

muck soil		भूक. मृदा	mudar	H Sc.	मृदा
mucocutaneous	Zool.	श्लेष्मत्वचीय	mud bank		पक-तट
mucocutaneous leishmaniasis		श्लेष्मत्वचीय लीशमैनिथता	mud belt		पक पट्टी
mucoid	Chem.	श्लेष्माभ, म्यूकॉइड	mud-bottom pond		पक तलीय ताल
mucoid growth		श्लेष्माभ प्रवर्ध	mud-box		पक पेटी
mucoid plug		श्लेष्माभ प्लग	mud breccia		पक सकोणाश्म
mucosin	Chem, Zool	म्यूकॉइडिन	mud capping		पक छत्रक
mucolipide	Chem	म्यूकोलिपिड	mud circle		पक-वृत्त
muconic acid	Chem	म्यूकॉनिक अम्ल	mud clam		पक सीपी
mucopetide	Chem.	म्यूकोपेटाइड	mud crab	Zool.	पक ककट
mucopolysaccharide	Chem	म्यूकोपॉलिसैकेराइड	mud crack (sun crack)		आतप विदर, पक विदर
mucoprotein	Zool	म्यूकोप्रोटीन	mud cracked loam	Geol.	पकविदरी धुमट
Mucor	Bot.	म्यूकर	mud cracked polygons		पकविदरी बहुभुज
Mucorales		म्यूकरेलीड	mud crawler	Zool	पक रिंगक
Mucor mucedo		म्यूकर म्यूसिडो	mud dauber (thread waisted wasp)		पक नीडक (मूत्रकटि बर)
mucosa	H Sc., Zool	श्लेष्मका, श्लेष्मल	mud deposit	Geog.	पक-निक्षेप
mucosal cell		श्लेष्मलीय कोशिका	muddy channel	Geog.	पकिल प्रणाल
mucous	Zool, H Sc., Bot.	श्लेष्मल	muddy shore		पकिल तट
mucous canal		श्लेष्मनाल	muddy suspension		पकिल निलम्बन
mucous cell		श्लेष्मा कोशिका	muddy water		पकिल जल
mucous envelope		श्लेष्मा आवरण, श्लेष्मादरण	mud eaters	Zool.	पकभोजी
mucous gland		श्लेष्मा-ग्रथि	mud-filtrate resistivity	Geol.	पकनिस्यद प्रतिरोधकता
mucous gland cell		श्लेष्मा ग्रथि कोशिका	mud flat		पक मैदान
mucous membrane		श्लेष्मल झिल्ली	mud flow		पक प्रवाह
mucous tissue	Zool.	श्लेष्मा-ऊतक	mudflow breccia		पक प्रवाह सकोणाश्म
mucoviscidosis	Zool.	श्लेष्मरयानता	mud flow deposit		पक प्रवाह निक्षेप
micro	Geol	तीक्ष्णग्र, नोक	mud geyser	Geol.	पकरोष्
mucron	Zool.	म्यूक्रॉन, शूक्र	mud glacier		पक-हिमनदी
mucronate	Bot., Geol.	तीक्ष्णाग्र, शंकदार	mud hall		पक-महाडी
mucronation		तीक्ष्णाग्रन	mud hole		पकरंध
mucronella	Bot.	म्यूक्रोनेला	mudir	Geog.	मृदीर
Mucuna	H Sc.	म्यूक्यूना	Mudiriya	Geog.	मृदीरिया (प्राग)
Mucuna pruriens	Bot.	म्यूक्यूना प्रुरिएन्स	mud lava		पक-स्तावा
mucus	Botol.	श्लेष्मा	mud line		पक-रेखा
mud		पक			

mud lump	<i>Geog., Geol.</i>	पंक शंकु	mule	<i>Zool., Geog.</i>	1. खेसर, खच्चर
mud lump development		पंक शंकु विकास		<i>H.Sc.</i>	2. म्यूल
mud mark		पंक चिह्न	mule path		खच्चर-पथ
mud off	<i>Chem.</i>	पंकरोधन	Muler circle	<i>Phy.</i>	म्यूलर वृत्त
mud pellet		पंक-गुलिका	mule spinning	<i>H.Sc.</i>	म्यूल कताई
mud plug	<i>Geog.</i>	पंक-प्लग	mule spinning frame	<i>H.Sc.</i>	म्यूल कताई फ्रेम
mud probing	<i>Zool.</i>	पंकान्वीक्षण	muleteer	<i>Geog.</i>	खच्चरवान
mud puppy		पंक सरट	mule track	<i>Geog.</i>	खच्चर-मार्ग
mud sampler		पंक प्रतिदर्शक	mule twist	<i>H.Sc.</i>	म्यूल सूत्र
mud shale		पंक शैल	mulga	<i>Bot., Geog.</i>	मुल्गा, कीकर कुंज
mud skipper	<i>Zool.</i>	न्यूटा, पंकलंबी	mulga scurb		मुल्गा-गुल्म
mud splash	<i>Geog.</i>	पंक-उच्छल	mull	<i>Geog., H.Sc.</i>	1. अंतरीप 2. मल (ट्यूमर)
mud stone	<i>Geol.</i>	पंकाश्म	Mullard conductivity bridge	<i>Chem.</i>	मुलाई चालकता सेतु
mud-up	<i>Chem.</i>	पंक-मुद्रण	Mullard potentiometer		मुलाई विभवमापी
mud vent	<i>Geog.</i>	पंक-द्वार, पंक-छिद्र पंक-विकास	Mullen tester	<i>Chem.</i>	मुलेन निकपित्र
mud volcano	<i>Geog.</i>	पंक ज्वालामुखी	muller	<i>Geol., Geog. H.Sc.</i>	1. मूसली 2. मलर
mu factor	<i>Phy.</i>	म्यू गुणांक	Mullerian duct	<i>Zool.</i>	म्यूलरी वाहिनी
muff	<i>Chem.</i>	मफ	Mullerian groove		म्यूलरी खांच
muffin	<i>H.Sc.</i>	मफिन	Mullerian mimicry		म्यूलरी अनुकरण
muffin cap	<i>H.Sc.</i>	मफिन कैप	Muller-Kuhne process	<i>Chem.</i>	मूलर कुने प्रक्रम
muffin pan		मफिन पैन	muller's glass	<i>Geol.</i>	हायालाइट
muffin stand	<i>H.Sc.</i>	मफिन स्टैंड	Muller's larva	<i>Zool.</i>	म्यूलर-डिम्भक
muffle furnace		मफ़ल भट्टी	Muller's method		मूलर पद्धति
mug	<i>H.Sc.</i>	मग	mullet	<i>Zool.</i>	बोई
muga silk	<i>H.Sc.</i>	मूगा रेशम, मूगा सिल्क	mulligan	<i>H.Sc.</i>	मलीगन
mugearite	<i>H.Sc.</i>	म्यूगीराइट	Mullikan electronegativity	<i>Chem.</i>	मूलीकन विद्युत्-ऋणता
<i>Mugil cephalus</i>	<i>Zool.</i>	मुजिल सेफ़लिस	mulling agent	<i>Chem.</i>	मर्दक
Muhlfeldtia		मुलफेल्डशिया	mullion structure	<i>Geol.</i>	मुलियन संरचना
mukharech	<i>H.Sc.</i>	मुखरेच	mullite	<i>Chem.</i>	मलाइट
mulatto	<i>Zool., Geog.</i>	मुलाटो	mullock	<i>Geol.</i>	मुलाक
mulberry	<i>Bot., H.Sc.</i>	शहतूत	"Mulls" (=suspensions)	<i>Chem.</i>	निलम्बन
mulberry silk	<i>H.Sc.</i>	शहतूत रेशम	mulola	<i>Geog.</i>	मुनोला
mulch	<i>Geog., H.Sc.</i>	मलच, पलवार	multangular	<i>Bot., Zool.</i>	बहुकोणी
mulching		पलवारना, मलच बनाना	multangular major	<i>Zool.</i>	बृहत् बहुकोणिका
mulch tillage	<i>Bot.</i>	मलची जुताई			

multangular mirror		लघु बहुकोणिका	multicircuit	Phy	बहुपरिपथ
multiaddress	Phy.	बहुपता	multicloner collector	Geol.	बहुसाइकलोन संग्राहक
multianode tube	Phy.	बहु ऐनोडी नलिका	multicoated	H.Sc.	बहुलेपित
multiaperture device	Phy.	बहुछिद्री युक्ति	multicollinearity	Math	बहुभरेखता
multiar	Phy.	मल्टीअर, आयाम तुलनित	multicolour electrostatic printer	Geog	बहुरंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिन्टर, बहुरंग विद्युत्स्थैतिक प्रिन्टर
multiaxial construction	Bot.	बहुअक्षीय निर्माण	multicolour map	Geog	बहुरंग-मानचित्र
multibaculate	Bot.	बहुवंकुलामय	multicomponent	Phy, Chem.	बहुघटक
multiband antenna	Phy	बहुबैंड ऐन्टेना	multicomponent glass		बहुघटक काच
multibox	Chem.	बहुकक्ष	multicomponent mixtures		बहुघटक मिश्रण
multibrachiata	Zool.	अनेकबाहु	multiconductor cable	Geol	बहुचालक केबिल
multibrachiata crinoid		अनेकबाहु चिनायड	multiconstant theory	Math	बहुअचर सिद्धांत
multibranching star	Chem	बहुशाखित तारा	multicontact timer	Phy	बहुसम्पर्क कालद
multicarpellate	Bot.	बहुअङ्गी	multicoordinating group	Chem	बहु समन्वयी समूह, कोऑर्डिनेट समूह
multicase code	Math	बहुस्थितिक कूट	multicore cable	Phy	बहुतारपी केबिल
multicavity klystron amplifier	Phy	बहुकोटर क्लाइस्ट्रॉन प्रवर्धक	multicostate	Biol	बहुशिरामय
multicavity klystron tube		बहुकोटर क्लाइस्ट्रॉन नलिका	multicounter problem	Math	परिकलित समस्या
multicellular	Biol.	बहुकोशिक	multicoupler	Phy	बहुयुग्मक
multicellular gland		बहुकोशिक ग्रन्थि	multicuspidate	Zool.	बहुदलाभ
multicellular horn	Phy	बहुकोशी शृंग	multicycle coast	Geog, Geol	बहुचक्री तट
multicellularity	Biol.	बहुकोशिकता	multicyclic landscape	Geol.	बहुचक्री दृश्यभूमि
multicellular voltmeter	Phy.	बहुकोशी बाल्टतामापी	multicyclic relief		बहुचक्री उच्चावच
multicentred	Chem.	बहुकेन्द्रित	multidecision problem	Math	बहुगत निर्णय-समस्या
multichannel case	Math.	बहुप्रणाल स्थिति	multi-deck screen	Chem.	बहुडेक चालनी
multichanneling	Phy.	बहुचैनलन	multideficiency syndrome	H.Sc.	बहुहीनता संलक्षण
multichannel pulse height analyser		बहु चैनल स्पष्ट उच्चता विरलेपक	multidentate	Chem, Zool.	बहुदन्तुर
multichannel radio transmitter		बहु चैनल रेडियोप्रेषित	multidigitate	Zool.	बहुअङ्गुल्याकार
multichannel stereo		बहु चैनल स्टीरियो	multi-dimensional manifold	Math	बहुविम प्रसामान्य
multichannel telephone communication		बहुचैनली टेलीफोन संचार	multidimensional normal distribution		बहुविम प्रसामान्य वितरण
multichip circuit	Phy.	बहु चिप परिपथ	multidimensional random variable		बहुविम यादृच्छिक चर
multiciliate	Biol.	बहुपरमाशो	multi-effect evaporator	Chem.	बहु प्रभावी वाष्पित्र

multielectrode valves	Phy.	बहुइलेक्ट्रोडी वाल्व	multilayer adsorption	Chem.	बहुस्तरीय अधिशोषण
multi-electron atom	Chem.	बहुइलेक्ट्रॉन परमाणु	multilayer coil	Math.	बहुपरत कुंडली
multiemitter transistor	Phy.	अनेक उत्सर्जक ट्रांजिस्टर	multilayer film		बहुस्तरीय फिल्म
multi-equational model	Math.	बहु समीकरण निदर्श	multi-layer paper		बहुस्तर कागज
multiexchange system	Phy.	बहुविनिमय तंत्र	multilevel continuous sampling plan	Math.	बहुस्तरी सतत प्रतिचयन आयोजना
multifabric	H.Sc.	बहुवस्त्र	multilevel plan		बहुस्तरी आयोजना
multifactorial design	Math.	बहु-उपादानिय अभिकल्पना	multilinear	Math.	1. बहु एकघाती 2. बहु रैखिक
multi-family housing	Geog.	बहुपरिवारीय आवास	multilinear map		बहु रैखिक प्रतिचित्र
multi-family structure	Geog.	बहुपरिवारीय गृह	multilingual state	Geog.	बहुभाषी राज्य
multifarious	Bot.	बहुपंक्तिक	multilith	Geog.	मल्टीलिय
multifascicular	Bot.	बहुपूली	multifocular	Bot., Geol.	बहुकोष्ठकी
multifid	Bot.	बहुशाखित, बहुपालित	multifocular nucleoconch		बहुकोष्ठकी शंखनाभि
multiflagellate	Zool.	अनेककशामी	multilocular shell		बहुकोष्ठकी कवच
multiflorous	Bot.	बहुपुष्पी	multilocular species		बहुकोष्ठकी जाति
multiflow propulsion system	Math.	बहु-प्रवाह नोदन प्रणाली	multilocular test		बहुकोष्ठकी चोल
multiform	Zool.	अनेकरूप	multilophodont	Zool.	बहुकटकदंत
multifrequency transmitter	Phy.	बहु आवृत्ति प्रेषित्र	multilophodont molar		बहुकटक चर्वणक
multiganglionate	Zool.	अनेकगुच्छिक	multi luber	Chem.	बहु स्नेहित
multigenic	Zool.	बहुजीनी	multimeter	Phy.	बहुलमापी
multigenic inheritance		बहुजीनी वंशागति	multimetering	Chem.	बहुल पादन
multigraph	Math.	मल्टीग्राफ	multi method	Math.	मल्टी पद्धति
multigrid converter	Phy.	बहुग्रिड परिवर्तित	multimodal distribution	Math.	बहु बहुलकी वंटन, बहुमोड वंटन
multi-group model	Phy.	बहुवर्ग मॉडल	multimode propagation	Phy.	बहुविधा संचरण
multi-hearth furnace	Chem. (Met.)	बहु चुल्ली भ्राष्ट्र	multimoding	Phy.	बहुविधाकरण
multihole coupler	Phy.	बहुछिद्री युग्मक	multi-national state	Geog.	बहुराष्ट्रीय राज्य
multihop transmission	Phy.	बहु प्लुति संचरण	multinervate	Zool.	बहुतंत्रिक
multi-index transportation problem	Math.	बहुसूचक परिवहन समस्या	multinet growth		बहुजालित वृद्धि
multi-item inventory	Math.	बहुपद तालिका	mutinodal		बहुपर्वसंधिक
multijugate	Bot.	बहुयुगली	multinomial distribution	Math.	बहुपदी
multilateral agreement	Geog.	बहुपक्षी समझौता	multinomial distribution		बहुपद वंटन
			multinomial theorem		बहुपद प्रमेय
			multinormal distribution	Math.	बहुप्रसामान्य वंटन

multinucleate	<i>Biol., Geol.</i>	बहुकेन्द्रको	multiple address instruction	बहुपता अनुदेश
multinucleate agamont		बहुकेन्द्रको एगामोंट	multiple adsorption	बहुगुणित अधिशोषण
multinucleated		बहुकेन्द्रकित	multiple allele	<i>Biol.</i> बहुविकल्पी, बहु अलील
multi-nuclei growth	<i>Geog.</i>	बहु केन्द्रक वृद्धि	multiple allelism	बहुविकल्पता
multi-nuclei hypothesis		बहुकेन्द्रक परिकल्पना	multiple angle	बहुल कोण
multinucleolate	<i>Zool.</i>	बहुकेन्द्रकीय	multiple batholith	बहुवेधी महास्कंध
multipactor	<i>Phy.</i>	मल्टीपेक्टर	multiple beam interferometer	बहुकिरणपुत्र व्यतिकरण-मापी
multipactor gap loading		मल्टीपेक्टर अंतराल लोडन	multiple-bench quarrying	बहुसोपानी उत्खनन
multiparasitism	<i>Zool.</i>	बहुपरजीविता	multiple Bernoulli trial	बहु बर्नौली-अभिप्रयोग
multiparous	<i>Bot.</i> <i>Zool.</i>	1. बहुशाखी 2. बहुप्रजक	multiple break contacts	बहु भंग संपर्क
multipartite		बहुभाजित	multiple catalyst	मिश्र उत्प्रेरक
multipass	<i>Phy.</i>	बहु पार	multiple centre growth	बहुकेन्द्रीय विकास
multipass sort		बहुपार छाट	multiple choice problem	विकल्पी समस्या
multipass weld		बहुपार संधान	multiple circuit	बहु परिपथ
multipath cancellation	<i>Phy.</i>	बहुपथी निरसन	multiple coincidence	<i>Phy.</i> बहुल संपात
multipath reception		बहुपथी अभिग्रहण	multiple contact	बहुसंस्पर्श, बहुसंपर्क
multipath transmission		बहुपथी संचरण	multiple-contact method	बहुसंस्पर्श विधि
multipedal body	<i>Zool.</i>	बहुपदीय काय	multiple cord	बहुतारी केबल
multi-perforate		बहुछिदी	multiple correlation	बहु सहसंबंध
multi-phase current	<i>Chem., Phy.</i>	बहुकला धारा	multiple correspond-ence	बहुक संगति
multi-phase medium		बहुचरण माध्यम	multiple cropping	बहुशस्योत्पादन
multi-phase sampling		बहुचरण प्रतिचयन	multiple cross	<i>Biol.</i> बहु संकर
multi-phase trans-former	<i>Phy.</i>	बहुवलीय ट्रांसफार्मर	multiple crossing over	<i>Biol.</i> बहु विनिमय
multi-pileate		बहुछत्री	multiple crossover	बहुविनिमयक
multiplate cloud chamber		बहुपट्टिका-अभ्रकोष्ठ	multiple-cycle valley	<i>Geog., Geol.</i> बहुचकी घाटी
multiplaten press	<i>Chem.</i> (Plastics)	बहुप्लेटन सपीडक, बहु मुद्रणपट्टिका सपीडक	multiple deck revolving round table	बहु-रेक घूर्णी शोषपटल
multiple		(adj.) गुणित, बहुगुण; बहु, बहुन (n) गुणक, अपवर्त्य	multiple division	<i>Zool.</i> बहुगुणी विभाजन
multiple address (= multi address)		बहु पता	multiple drumlin	<i>Geog.</i> बहुस ड्रमलिन
multiple address code		बहुपता कोड		

multiple dyke		वहुवेधी भित्ति, बहुवेधी-डाइक	multiple neutron addition	वहुन्यूट्रॉन निवेशन
multiple echo	<i>Phy.</i>	वहुलित प्रतिध्वनि	multiple nuclei theory	वहुकेन्द्रक सिद्धान्त
"multiple effect" evaporator		वहु-प्रभाव वाष्पित्र	multiple operation	वहुकार्य प्रचालन
multiple-electrode resistivity logging		वहुइलेक्ट्रोड प्रतिरोधकता संलेखन	multiple pair	वहु युग्मक
multiple encounter		वहुक समागमन	multiple passage	वहुक संक्रमण
multiple factor	<i>Biol.</i>	1. बहुविकल्पी 2. बहुकारक	multiple path phenomenon	वहुपथ घटना
multiple fault		वहुल भ्रंश	multiple perforation	वहु छिद्रण
multiple feed		वहु भरण	multiple personality	वहु व्यक्तित्व
multiple filament yarn	<i>H.Sc.</i>	वहुतंतु सूत्र	multiple point	वहुल बिन्दु
multiple fission	<i>Biol.</i>	वहु खंडन, वहु फ़िशन	multiple Poisson distribution	वहु-प्वासॉन्-वंटन
multiple fissure		वहुविदर	multiple precision	वहुक परिशुद्धता
multiple Fourier transform		वहुक फूरिए रूपांतर	multiple primitive cell	वहुक आदिम कोष्टिका
multiple frame		वहुफ्रेम	multiple prism	वहुक प्रिज्म
multiple frequency table		वहु-वारवारता सारणी	multiple production	वहुल उत्पादन
multiple fruit		संग्रहित फल	multiple programming	वहु अनुदेश प्रोग्रामन
multiple gating		वहु गेटन	multiple proportion	गुणित अनुपात
multiple-hop ray transmission	<i>Phy.</i>	वहु पदी किरण संचरण	multiple punching	वहु छिद्रण
multiple horns	<i>Phy.</i>	वहु शृंग	multiple range indicator	वहु परासी सूचक
multiple integral	<i>Math.</i>	वहु समाकल	multiple reaction	वहुगुण अभिक्रिया
multiple integration		वहु समाकलन	multiple reflection	वहुलित परावर्तन
multiple intrusion	<i>Geol.</i>	वहु अंतवैधन	multiple regression	वहु समाश्रयण
multiple ionization	<i>Geol.,Phy.</i>	वहु आयनन	multiple regression analysis	वहुसमाश्रयण विश्लेषण
multiple jack	<i>Phy.</i>	वहु संपर्क जैक	multiple regression coefficient	वहुसमाश्रयण गुणांक
multiple laccolith		वहुवेधी लैकोलिय	multiple regression equation	वहुसमाश्रयण समीकरण
multiple Lebesgue integral		वहुक लेबेग समाकल	multiple resonant system	वहुअनुनादी तंत्र
multiple linegraph		वहुरेखा ग्राफ, वहुरेखालेख	multiple root	वहुल मूल
multiple lopolith		वहुवेधी लोपोलिय	multiple sampling	वहुक प्रतिचयन
multiple metering	<i>Phy.</i>	वहुल मापन	multiple sampling inspection plan	वहुक प्रतिचयन निरीक्षण धार्योजना
multiple model		वहुक निदर्शन	multiple scattering	वहुलित प्रकीर्णन
multiple modulation		वहुगुण मॉडूलन	multiple-screen well	वहुस्क्रीनी कूप
			multiple seismometer	<i>Geol.</i> भूकंपमापी पुंज

multiple-ship survey		बहुजहाज सर्वेक्षण	multiplex method	<i>Math.</i>	बहुसूत्र विधि
multiple shothole		बहुविस्फोट छिद्र	multiplex projector		मल्टीप्लेक्स प्रोजेक्टर
multiple sill		बहुवेधी सिल	multiplex reduction printer		मल्टीप्लेक्स लघुकरण मुद्रक
multiple spot scanning		बहु बिन्दु क्रमवीक्षण	multiple zero		बहुधात शून्य बिन्दु
multiple star		बहुक तारा	multiplicand		गुण्य
multiple step process		बहुचरण प्रक्रम	multiplication		गुणन
multiple stock	<i>Geol.</i>	बहुवेधी स्तब्ध	multiplication by columns (of determinant)		(सारणिक का) स्तम्भः गुणन
multiple storey apartment	<i>Geog.</i>	बहुमंजिल अपार, बहु-मंजिल फ्लैट	multiplication by rows (of determinant)		(सारणिक का) पंक्तिः गुणन
multiple stratification		बहुस्तरण	multiplication constant		गुणनरक
multiple structure		बहुक संरचना	multiplication factor		गुणन कारक
multiple style recorder		बहुशैली अभिलेखी	multiplication length		गुणन लंबाई, गुणन दैर्घ्य
multiple switch		बहुकार्य स्विच	multiplication of chances		प्रायिकताओं का गुणन
multiplet	<i>Phy.</i>	बहुक	multiplication of probabilities		प्रायिकताओं का गुणन
multiple target system		बहु लक्ष्य तंत्र	multiplication point		गुणन बिन्दु
multiple test outfit		बहुपरीक्षण सज्जा, बहु-परीक्षण सभार	multiplication region		गुणन प्रदेश
multiplet level		बहुक स्तर	multiplication theorem		गुणन-प्रमेय
multiple track range		बहुपथ परिमर	multiplication time		गुणन काल
multiple transit		बहुनिर्गत गमन	multiplicative allele	<i>Zool</i>	गुणनात्मक विकल्पी
multiple trip echo		बहुखेप प्रतिध्वनि	multiplicative axiom		गुणनात्मक अभिव्युद्गीत
multiplet ship		बहुक संपेण	multiplicative collision	<i>Phy</i>	संवर्धनी संघट्ट
multiplet splitting		बहुक विपाटन	multiplicative effect		गुणनात्मक प्रभाव
multiplet structure		बहुक संरचना	multiplicative function		गुणनात्मक फलन
multiple tuned antenna	<i>Phy.</i>	बहुसमस्वरित ऐन्टेना	multiplicative group		गुणनात्मक समूह
multiple twinning	<i>Phy.</i>	बहुयमलन, बहुयमल	multiplicative group of skew field		विषम क्षेत्र का गुणनात्मक समूह
multiple valued function		बहुमानो फलन	multiplicative inverse		गुणनात्मक प्रतिलोभ
multiple valued potential		बहुमानो विभव	multiplicatively closed subset		गुणनात्मक संवृत उपसमुच्चय
multiplex	<i>Geog., Geol.</i>	मल्टीप्लेक्स	multiplicative mixing		गुणन मिश्रण
multiplex aeroprojector		मल्टीप्लेक्स एयरोप्रोजेक्टर	multiplicative semigroup		गुणनात्मक सामिसमूह
multiplex equipment		मल्टीप्लेक्स उपकरण	multiplicative shower		संवर्धनी वर्षण
multiplexer	<i>Phy.</i>	बहुसंकेतक			
multiplexing		बहुसंकेतन			
multiplex machine		मल्टीप्लेक्स मशीन			



multiplicative system		गुणनात्मक निकाय	multipole expansion		बहु ध्रुव प्रसार
multiplicative variation		गुणनात्मक विचरण	multipole field		बहु ध्रुव क्षेत्र
multiplicator		गुणक	multipole moment		बहु ध्रुव-आघूर्ण
multiplicity		बहुकता	multipole order		बहु ध्रुव क्रम
multiplicity of roots		मूल-बहुकता	multipole radiation	<i>Phy.</i>	बहु ध्रुवी विकिरण
multiplicity of zero		शून्यक की बहुकता	multipole representation		बहु ध्रुवी निरूपण
multiplicity reactivation		बहुकता पुनः सक्रियण	multiporous	<i>Zool., Geol.</i>	बहु छिद्री
multiplier		गुणक	multipotent	<i>Bot.</i>	बहुक्षम
multiplier-accelerator system		गुणक त्वरक प्रणाली	multi processing	<i>Phy.</i>	बहु अनुदेश संसाधन
multiplier analysis		गुणक विश्लेषण	multiprogramming	<i>Math., Phy.</i>	बहु-प्रोग्रामन
multiplier component		गुणक घटक	multiprogramming supervisor		बहु-प्रोग्राम पर्यवेक्षक
multiplier equation		गुणक समीकरण	multi propellant	<i>Phy.</i>	बहु-प्रावस्था प्रणोदक
multiplier formula		गुणक सूत्र	multi purpose reflectometer	<i>Chem.</i>	बहुउद्देशीय परावर्तनमापी
multiplier phototube		गुणक प्रकाशनली, गुणक फोटोनली	multi purpose sampling		बहुउद्देशीय प्रतिचयन
multiplier value		गुणक मान	multi purpose table	<i>H.Sc.</i>	बहुप्रयोजी मेज
multiply		1. गुणा करना 2. संवर्धन	multi-purpose trawler		बहुप्रयोजी जालायक -
multiply connected domain	<i>Math.</i>	बहुसंबंधित प्रांत	multi-purpose vessel		बहुप्रयोजी पोत
multiply connected region		बहुसंबंधित प्रदेश	multiradiate	<i>Bot.</i>	बहुअरी
multiply connected superconductor		बहुसंबंधित अतिचालक	multiramose	<i>Bot.</i>	बहुशाखी
multiplying punch		गुणन यंत्र, गुणन छेदन	multiramous plasmotocyst	<i>Zool.</i>	बहुशाखी द्रव्य
multiply ionised	<i>Phy.</i>	बहु आयनित	multirap screen	<i>Geol.</i>	बहुधाती छन्ना
multiply paper	<i>Chem.</i>	बहुस्तरित कागज	multirate meter	<i>Phy.</i>	बहुदरमापी
multipoint iteration formula	<i>Math.</i>	बहु बिन्दु पुनरावृत्ति सूत्र	multiresonant line	<i>Phy.</i>	बहु अनुनादी लाइन
multipolar	<i>Bot., Phy., Zool.</i>	बहु ध्रुवी	multiseed nature	<i>Bot.</i>	बहुबीजी प्रकृति
multipolar armature		बहु ध्रुवी आर्मेचर	multiseptate	<i>Zool.</i>	बहुपट्टीय
multipolar axon	<i>Zool.</i>	बहु ध्रुवी तंत्रिकाक्ष	multiseriality	<i>Geol.</i>	बहुक्रमिकता
multipolar ganglion cell		बहु ध्रुवी गुच्छिका कोशिका	multiseriate	<i>Bot.</i>	बहुपंक्तिक
multipolar neuron	<i>Zool.</i>	बहु ध्रुवी तंत्रिकोशिका	multi-shelf converter	<i>Chem.</i>	बहु-शेल्क रूपान्तरित
multipole	<i>Math., Phy., Chem.</i>	बहु ध्रुव	multispiral		बहु सर्पिलक
			multistage	<i>Math., Phy.,</i>	बहुचरणी, बहुपदी
			multistage amplifier		बहुपदी प्रवर्धक
			multistage problem		बहुचरणी समस्या
			multistage process		बहुपद प्रक्रम
			multistage queuing		बहुचरणी पंक्तीकरण

multistage random sampling		बहुचरणी यादृच्छिक प्रतिचयन	multivariate distribution		बहुचर बटन
multistage rocket		बहुक्रम राकेट, बहुचरणी राकेट	multivariate normal distribution		बहुचर प्रसामान्य बटन
multistage sample		बहुचरणी प्रतिदर्श	multivariate population		बहुचर समष्टि
multistage sampling		बहुचरणी प्रतिचयन	multivariate quality control		बहुचर गुणता नियन्त्रण
multistage single tuned amplifier		बहुपद एकस्वरित प्रवर्धक	multivector	Math.	बहुसदिश
multistage transportation problem		बहुचरणी परिवहन समस्या	multivibrator	Phy.	बहुकम्पित्र
multistep	Chem.	बहुपदी, बहुचरणी	multivibrator oscillator	Geol.	बहुकम्पित्र दोलित
multistep formula		बहुचरणी सूत्र	multivinculum	Geol.	मल्टीविन्कुलम
multistep method		बहुचरणी विधि	multiviscosity grade	Chem.	बहुश्यानता श्रेणी
multistranded	Zool.	बहुतरज्जुकी	multivoltine	Zool.	बहुप्रज
multistrand filament	Phy.	बहुतारी तन्तु	multivoltmeter	Phy.	बहु वोल्टता मापी
multistratose	Bot.	बहुस्तर	multi-wash collector	Geol.	बहु-धाव सफाहिन, बहुधाव कलेक्टर
multite	Chem.	मल्टाइड	multiwire antenna	Phy.	बहुतार ऐन्टेना
multitemporal model	Math.	विभिन्नकालीन निदर्श	multocular	Zool.	अनेकानी
multitentaculate	Zool.	बहुसंपर्शकी	multungulate	Zool.	बहुशर्णीय
multitrack recording system	Phy.	बहुपथी अभिलेखन तंत्र	mum	H.Sc.	मम
multitubercular	Zool.	बहुगुलिका	mu ( $\mu$ ) meson	Phy.	म्यू-मेसॉन, $\mu$ -मेसॉन
Multituberculata	Zool.	मल्टीड्यूब्रकुलेटा	mu ( $\mu$ ) metal	Phy.	म्यूधातु, $\mu$ -धातु
multituberculate mammal	Zool.	बहुगुलिकादानी स्तनी	mummification	Bot. Geog.	ममीभूनाशम ममीकरण
multi-tubular cooler	Chem.	बहुनाल शीतलक	mummy canvas	H.Sc.	ममी कैनवास
multitubular cyclone		बहुनाल चक्रवात	mummy cloth		ममी वस्त्र
multitude of minor grouping	Geog.	सघुचर्वा-बाहुल्य	mumps	Chem./Zool.	कणमूलशोथ, मम्प्स, गलमुत्रा
multiumit antenna	Phy.	बहु एकक ऐन्टेना	mumps virus	Zool./Bot.	कनफेड विषाणु, गलमुत्रा विषाणु
multivalent	Chem.	बहुसंयोजक	mundane affair	Geog.	सांसारिक मामला
multivalent cations		बहुसंयोजक धनायन	mundic	Geol.	मुडिक, मोहू माडिक
multivalued	Phy.	अनेकमानी	mundleiste	Bot.	मुडनिन्ते, चक्रपट्टी
multivaluedness		अनेकमानिता	munduserone	Chem.	मुन्डुसेरोन
multivalve	Zool.	बहुकपाटीय	mungo	Chem.	निहृष्ट ऊर्ण
multivalve amplifier	Phy.	बहुकाल्पी प्रवर्धक	Munich beer	H.Sc.	म्यूनिक्र बियर
multivariate	Math.	बहुचर	municipality	Geog.	नगरभानिका
multivariate analysis		बहुचर विस्लेषण	municipio	Geog.	म्युनिसिपियो, नगर पानिका क्षेत्र

munition	Geog.	युद्ध-सामग्री	muriate of ammonia	Chem.	अमोनिया म्यूरिएट
Munk's reciprocal theorem	Math.	मंक का व्युत्क्रम प्रमेय	muriate of potash		पोटाश म्यूरिएट
Munnopsis	Geog.	मुनॉप्सिस	muriatic acid	Chem.	म्यूरिएटिक अम्ल
Munroe crucible	Chem.	मन्रो मूपा, मन्रो कूसिवल	muricate	Bot.	रक्षवर्ध
munsell chroma	Chem.	मुन्सेल वर्णसंतुप्ति	murication		रक्षवर्धन
Munsell color notation		मन्सेल वर्ण संकेतन	muricid	Geog.	म्यूरिसिड
Munsell colour system	H.Sc.	मन्सेल वर्ण पद्धति	murid	Zool.	मुरोद
Munsell system		मन्सेल पद्धति	muriform	Bot.	इष्टिकापुंजाभ
Munson and Walker method		मन्सन वॉकर विधि		Zool.	तूतरूप
Muntz metal	Chem.	मुन्ट्स धातु (मिश्रधातु)	murine typhus fever	Zool.	मूप टाइफस ज्वर
mu oil	Chem.	टंग तेल	*Murphid (= $\eta$ Bootis)	Astron.	मरफ़िड (= $\eta$ वोटिस)
muon	Phy.	म्यूऑन, म्यूमेसॉन	murram	Geol., Geog.	मुरम
muonic charge	Phy.	म्यूआनी चार्ज, म्यूआनी आवेश	<i>Murraya exotica</i>	Bot.	मराया इक्सोटिका (कामिनी)
<i>Muraenesox talabonoides</i>	Zool.	म्युरीनेसॉक्स टैलेवो-नॉइडीस (बाम)	<i>Murraya koeningi</i>	Bot.	मराया कोइनिगार्ड (मीठा नीम)
Murakami's reagent	Chem. (Met.)	मुराकामी अभिकर्मक	murrina	Zool.	मुरिना
muralis	Bot.	भित्तिवर्धी	murumuru oil	Chem.	मरूमरु तेल
mural jointing	Geol.	भित्ति संधि	murus	Bot.	प्रकटक
mural pores		भित्ति रंध्र	*Murzim (= $\beta$ Canis Majoris)	Astron.	मरज़ीम (= $\beta$ -केनिस मैजॉरिस)
mural stylet		भित्ति शूलिका	musa antenna	Phy.	मूसा ऐन्टेना
mural tooth		भित्तिस्थ दंत	<i>Musaceae</i>	Bot.	म्यूजेसी
murate	Bot.	भित्तिकामय	<i>Musa paradisiaca</i>	Bot.	म्यूजा पैराडिज़िएका
mura yama	Geog.	मुरा यामा	<i>Musa sapientum</i>		म्यूजा सैपाइन्टम
murbruk	Geol.	दलित कणिक संरचना	<i>Musa textiles</i>		म्यूजा टेक्सटिलिस
murbruk structure		दलित कणिक संरचना	Musca	Zool.	मस्का
murchisonite	Geol.	मर्चिसोनाइट	<i>Musca domestica</i>		मस्का डोमेस्टिका
Murex	Zool.	म्यूरेक्स	<i>Musca nebulosa</i>		मस्का नेबुलो
murexide	Chem.	म्यूरेक्साइड	muscardine fungus	Bot.	मस्कार्दिन कवक
Murex process	Geol.	म्यूरेक्स प्रक्रम	muscatel	H.Sc.	मस्काटेल
murgatroyed belt	Chem.	मार्गाट्रायड-पट्ट, मार्गाट्रायड वेल्ड	musci	Bot.	मसाइ
muri	Geog.	मुरी, गुल्म	Muscicapidae	Zool.	म्यूसीकैपिडी
muriacite	Geol.	म्यूरियेसाइट	Muscicolous	Bot.	मॉसवासी
			Muscidae	Zool.	मस्किडी
			Muscites	Bot.	मसाइटीज

muscle	<i>Zool, Geol., H Sc.</i>	पेशी	muscular movement	<i>Zool, H Sc</i>	पेशी गति
muscle banner	<i>Zool.</i>	पेशी पताका	muscular pocket	<i>Zool.</i>	पेशी कोटरिका
muscle bundle		पेशी पूल	muscular sac		पेशी कोष
muscle cardio-apicalis		कार्डियोएपिकलिस पेशी, ग्रीपस्थ हृत्पेशी	muscular scar		पेशीय चिह्न
muscle cell		पेशी-कोशिका	muscular septum		पेशीय पट
muscle cramp	<i>H.Sc</i>	पेशी उद्वेष्ट, पेशी ऐंडन	muscular strand		पेशी ततुक
muscle fibre		पेशी ततु	muscular system		पेशी तन्त्र
muscle fibrillae		पेशी ततुक	muscular tissue		पेशी ऊतक
muscle glycogen		पेशी ग्लाइकोजन	muscular tube		पेशी नलिका
muscle physiology		पेशी त्रियावित्तान	musculature	<i>Zool, H Sc</i>	पेशीग्याम
muscle plate		पेशी पट्टिका	musculi pectinati	<i>Zool</i>	मण्डुली पेक्टीनेटी, ककताप पेशी
muscle process		पेशी प्रवर्ध	musculo-cutaneous	<i>Zool</i>	पेशीत्वचीय
muscle ray		पेशी अर	musculo-epithelial cell		पेशी उपरचना कोशिका
muscle scar		पेशी चिह्न	musculo-glandular organ		पेशी-ग्रन्थि अंग
muscle scar node		पेशी चिह्न गाँठ	musculo-vascular tissue		पेशी-संवहनीय ऊतक
muscle scar pattern		पेशी चिह्न पैटर्न	musculus tensor chorioideae	<i>Zool</i>	रक्तपटल तानन पेशी, भस्कयूनस टेंसर कोरिआयडिया
muscle scar pit (= pitted muscle scar)		गतित पेशी चिह्न	musc zabafa	<i>Chem</i>	मस्क जीवाटा
muscid fly	<i>Zool</i>	मॉस मशिका	muscum	<i>Zool.</i>	सप्रहालय
muscid plant	<i>Bot.</i>	मॉसाभ पादप	mush	<i>Phy, Geol.</i>	मश
muscone	<i>Chem</i>	मस्कोन	mush area	<i>Phy</i>	बाघा क्षेत्र, पय क्षेत्र
muscovite	<i>Geol</i>	श्वेत शक्क, मस्कोवाइट	mush coil	<i>Phy.</i>	मश कुंडली
muscovitization		मस्कोवाइटीभवन, मस्कोवाइटन	mushi meshi	<i>Chem</i>	तटुल सुरा
muscovy	<i>Geog</i>	मस्कोवी	mushiness	<i>Chem</i>	ममृणता
muscovy glass	<i>Geol.</i>	मस्कोवाइट	mushing error	<i>Phy.</i>	मशम त्रुटि
muscular	<i>Zool., Geol., H Sc.</i>	पेशीय	mushroom	<i>H Sc</i>	छत्रक
muscular band		पेशी-पट्ट	mushroom body	<i>Zool</i>	छत्रक पिंड
muscular cap	<i>Zool.</i>	पेशी शिरस्क	mushroom chair	<i>H Sc</i>	छत्रक कुर्सी
muscular gland		पेशी ग्रन्थि	mushroom commune	<i>Geog.</i>	सलग्न कम्यून
muscular gland organ		पेशीय ग्रन्थि अंग	mushrooming	<i>Geol.</i>	घनन
muscular impression	<i>Geol.</i>	पेशीय चिह्न	mushroom rock	<i>Geol., Geog.</i>	छत्रक शील
muscularis mucosa	<i>Zool., H.Sc</i>	भनेमिका पेशी	mushroom shaped gland	<i>Zool.</i>	छत्रकरूप ग्रन्थि
muscularity	<i>Zool.</i>	पेशीयता	mushroom stalagmite		छत्रक स्टैलागमाइट

mushroom stone		छत्रकी जीवाश्म	mustard	<i>Bot.,H.Sc.</i>	सरसों, राई, सरपप
mushroom town	<i>Geog.</i>	छत्रक नगर	mustard gas	<i>Chem.</i>	मस्टर्ड गैस
musby coal	<i>Geol.</i>	मशौ कोयला	mustard gold		सरपप स्वर्ण
mushy stage	<i>Chem.</i>	मसृणानस्या	mustard mosaic		सरसों किर्मीर
music		संगीत	mustard oil reaction		मस्टर्ड तेल अभिक्रिया, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया
musical		संगीत, संगीतिक	mustard plaster		सरपप पलस्तर
musical acoustics		संगीत ध्वनिकी	mustard poultice		सरपप उपनाह
musical echo	<i>Phy.</i>	सुस्वर प्रतिध्वनि	Mustelidae	<i>Zool.</i>	मस्टूलिडी
musical flame	<i>Phy.</i>	गायक ज्वाला	Mustelus		मस्टूलस
musical box		संगीत पेटी	mutability	<i>Zool.,Geog.</i>	उत्परिवर्तनशीलता
musical instrument	<i>Phy.</i>	वाद्य, साज, वाजा	mutable gene		उत्परिवर्तनशील जीन
musical interval	<i>Phy.</i>	स्वरान्तराल	mutagen		उत्परिवर्तजन
musical notation		स्वर लिपि	mutagenic		उत्परिवर्तजनी
musical note		संगीतिक स्वर	mutagenic agent		उत्परिवर्तजनी कारक
musical sound	<i>Phy.</i>	सुस्वर ध्वनि	mutagenic effect		उत्परिवर्तजनी प्रभाव
music quality		संगीतिक स्वरूप	mutagenicity	<i>Zool.</i>	उत्परिवर्तजनीयता
music room		संगीत कक्ष	mutant	<i>Bot.,Zool.</i>	उत्परिवर्ती, म्यूटैन्ट
music scale	<i>Phy.</i>	स्वर ग्राम	mutant character		उत्परिवर्ती गण
musk	<i>Zool.</i>	कस्तूरी, मृगमद	mutant gene		उत्परिवर्ती जीन
musk deer		कस्तूरी मृग	mutant isoallele		उत्परिवर्ती समविकल्पी
muskeg	<i>Geog.,Bot., Geol.</i>	मस्केग	mutant phage		उत्परिवर्ती विभोजी
musket shot	<i>Geog.</i>	तुपक छरां	mutant protein		उत्परिवर्ती प्रोटीन
musk rat	<i>Zool.</i>	कस्तूरी उन्दुर	mutant strain		उत्परिवर्ती विभेद
musk secreting gland		कस्तूरी स्रावी ग्रंथि	mutarotation	<i>Phy.</i>	परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन
<i>Mus musculus</i>	<i>Zool.</i>	मस मस्क्यूलस (मुसा)	mutase	<i>Chem.</i>	म्यूटेस
muslin	<i>H.Sc.</i>	मलमल, मजलिन	mutation	<i>Zool</i>	उत्परिवर्तन, म्यूटेशन
Musophagidae	<i>Zool.</i>	म्यूसोफ़ैजिडी	mutational equilibrium		उत्परिवर्तीय साम्यावस्था
mu space	<i>Chem.</i>	म्यू अवकाश म्यू स्पेस	mutational load		उत्परिवर्तीय भार
mussel	<i>Zool.,Geol.</i>	मसल, शंभु	mutationist	<i>Zool.</i>	उत्परिवर्तनवादी
mussel band		मसल स्तर	mutation pressure		उत्परिवर्तन दाब
mussel bind		मसल स्तर	mutation rate	<i>Zool.</i>	उत्परिवर्तन दर, म्यूटेशन दर
mussel crab	<i>Zool.</i>	शंभु कर्कट	mutation suppressor		उत्परिवर्तन निरोधी
mussel ground		मसल स्थल	mutation theory		उत्परिवर्तन सिद्धान्त, म्यूटेशन-सिद्धान्त
must	<i>Chem.</i>	मस्ट	mutatochrome	<i>Bot.</i>	म्यूटेटोक्रोम
Mustag type glacier	<i>Geol.</i>	मुस्ताग प्ररूप, हिमानी			

mutator	Zool.	उत्परिवर्तकारी	mutualistic symbiosis	Biol.	सहोपकारी सहजीवन
mutator gene		उत्परिवर्तकारी जीन	mutually		परस्पर
mutator shaft		उत्परिवर्तक प्रदंड	mutually disjoint		परस्पर अयोग्य
mute	Geog., H. Sc.	1 मूट 2 मूक, गुंगा	mutually exclusive		परस्पर अपवर्जी
muthmannite	Chem.	मूथमनाइट	mutually exclusive events		परस्पर अपवर्जी घटनाएँ
Mutica	Zool.	म्यूटिका	mutually projective pencil		परस्पर क्षेप्य कूचिकारें
muticous	Bot.	कुटित	mutually reconcilable path		परस्पर समाधेय पथ
mutilated multiplet	Math.	विकल बहुक	mutually singular measure		परस्पर विचित्र माप
mutillid wasp	Zool.	म्यूटिलिड बरं	mutual moment		पारस्परिक आघूर्ण
mutineer	Geog.	विद्रोही, बाघी	mutual potential energy		पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा
muting	Phy.	चुपकरण	mutual recession		पारस्परिक प्रतिसार
muting control		चुपकारी नियन्त्रण	mutual solution		अन्योन्य विलयन, पारस्परिक विलयन
muting sensitivity		चुपकरण सुग्राहिता	mutual work		पारस्परिक कार्य
muting switch		चुपकारी स्विच	mu tube	Phy.	$\mu$ -नलिका, म्यू नलिका
muting systems		चुपकारी तन्त्र	muzhik		मुजिक
muton	Zool.	उत्पाणु, म्यूटॉन	muzzle		1. भ्रूय, धूशन 2. नालमुख
muton unit		उत्पाणु एकक, म्यूटॉन एकक	muzzle flash		नाल मुखी स्फुर
mutton	H.Sc.	मटन, भेड़ बकरी का मांस	muzzle velocity		नाल मुखी वेग
mutton chop	H. Sc.	मटन चॉप	mv tube	Phy.	mv नलिका
mutual	Math., Phy.	पारस्परिक, अन्योन्य	Mya	Zool.	माइया
mutual action		पारस्परिक क्रिया	myall	Geog.	माइऑल
mutual antagonism		अन्योन्य विरोध	Mya truncata		माइया ट्रंकेटा
mutual attraction		पारस्परिक आकर्षण	mycarose	Chem.	माइकेरोस
mutual azimuth		पारस्परिक दिग्ग	myrella	Geog.	माइरेलिया
mutual boundary texture		अन्योन्य सीमांत गठन	Mycella sterilla	Bot.	माइसीलिया स्टेरिलिया
mutual capacity		पारस्परिक धारिता	mycelioid	Bot.	कवकजालसम
mutual characteristics		अन्योन्य अभिलक्षणिक	mycelium		कवकजाल, माइसीलियम
mutual coagulation		परस्पर स्कंदन	mycelle	Bot.	माइसेल
mutual conductance		अन्योन्य चालकत्व	mycenastrum	Bot.	माइसिनेस्ट्रम
mutual exclusion	Zool.	असहवास	mycestism	Bot.	छत्रक विपाकन
mutual impedance		पारस्परिक प्रतिबाधा	mycetome	Zool.	माइसीटोम, विपुन
mutual inductance		अन्योन्य प्रेरकत्व	mycetophagous	Zool.	कवकपशी
mutual induction		अन्योन्य प्रेरण			
mutualism	Bot., Zool.	सहोपकारिता			
mutualistic		सहोपकारिक			

Mycetozoa	Zool.	माइसेटोज़ोआ	myiasis	Zool.	माइएसिस, मझिकता
mycohelminth	Biol.	कवककिक्किश	myiophilus	Bot.	मन्वी पराणित
mycology	Bot.	कवक विज्ञान	Mylar	H.Sc.	माइलर
mycomycin	Chem.	माइकोमाइसिन	Mylar base sheet	Geog.	माइलर आधार पत्र, माइलर आधार शी
mycopathological	Bot.	कवक रोगात्मक	Mylar film		माइलर फिल्म
mycopathology		कवक रोगविज्ञान	Myliobatidae	Zool.	माइलिओबेटाइडी
mycophage	Bot.	कवकभोजी, माइकोफ़ाज	mylitta	Bot.	माइलिट्टा
mycophagus	Zool.	कवकभक्षी	Mylodontidae	Zool.	माइलोडॉन्टिडी
<i>Mycoplasma dimorpha</i>	Bot.	माइकोप्लेना डाइमोर्फ़ी	mylohyoid	Zool.	चिबुककंठिका, माइलोहॉयड
mycoplasm	Bot.	कवकद्रव्य	mylohyoid muscle		माइलोहॉयड पेशी, चिबुक कंठिका पेशी
<i>Mycoplasma canis</i>	Bot.	माइकोप्लाज्मा कैनिस्	mylonisation		माइलोनीकरण
mycoprotein	Bot.	कवक प्रोटीन	(mylonitisation)		
mycorrhiza	Bot., Geog.	कवकमूल	mylonite	Geol.	माइलोनाइट
mycose		कवक शर्करा, माइकोस	mylonite gneiss		माइलोनाइट-नाइस
mycosin	Bot.	माइकोसिन	Mylostoma	Zool.	माइलोस्टोमा
mycosis	Bot.	कवकाति	Mylostomidae	Zool.	माइलोस्टोमिडी
<i>Mycosphaerella tulipiferae</i>	Bot.	माइकोस्फ़ीरिला ट्यूलिपिफ़ेरी	myna	Zool.	मैना
mycostatic	Bot.	कवकनिरोधी	myo	Geog.	म्यो
mycostatin	Zool.	माइकोस्टैटिन	myoalbumin	Zool.	मायोएल्बुमिन
mycosterol	Chem.	माइकोस्टेरोल	myoblast	Zool.	पेशीकोरक
mycotrophic	Bot.	कवक सहपोषित	myocarditis	Zool.	हृत्पेशीशोथ
mycotrophy	Bot.	कवक सहपोषिता	myocardium	Zool.	मध्यहृत्स्तर
mydriatic	Chem.	ताराविस्फारक, मिड्रिएटिक	myochorous	Bot.	म्युकवर्णी
myelencephalon	Zool.	माइलेन्सिफ़ैलॉन	myochrome	Zool.	पेशीवर्णक
myelin	Chem., H.Sc., Zool.	माइलिन	myocode	Geol.	मायोकोड
myelin sheath		माइलिन आच्छद	myocoel	Zool., Geol.	मायोसील, आदिपेशीगुहा
myeloblast	Zool.	मज्जाकोरक	myocoma	Zool.	वंतरापेशीपट्ट, मायोकोमा
myeloblastosis	Zool.	मज्जाकोरकता, मायलोब्लास्टोसिस	Myoconcha	Geol.	मायोकाँन्चा
myelocoel	Zool.	मज्जागुहा	<i>Myoconcha cretacea</i>		मायोकाँन्चा क्रिटैशिया
myelocyte	Zool.	मज्जाणु, माइलोसाइट	myocyte	Zool.	पेशीकोशिका
myeloid hyperplasia	Zool.	मज्जान वृत्तिवृद्धि	myofibril	Zool.	मायोफाइब्रिल, पेशीतन्तुक
myeloleukaemia	Zool.	मज्जाश्वेतरक्तता	myoga	H.Sc.	म्योगा
myeloma	Chem.	माइलोमा, मज्जादुद	myogenesis	Zool.	पेशीजनन
myeloxylon	Bot.	माइलॉक्सिलॉन	myogenic	Zool.	पेशीजनक

myoglobin	Bot., H.Sc., Zool	मायोग्लोबिन	myrmecophagous		चीदीमधी. वज्रभशी
myoglobulin	Zool.	मायोग्लोबुलिन	<i>Myriangium duriaei</i>	Bot.	मीरिएन्जियम दूरिई
myohaematin	Zool	मायोहीमेटिन	myriaphone	Phy.	मीरियाफोन
myohaemoglobin (= myohemoglobin)	Bot., Zool	मायोहीमोग्लोबिन	myriapod	Zool., Geol.	अयुतपाद
myoid	Zool.	पेशिभ	Myriapoda	Zool.	मिरियापोडा
myo inositol	Chem	मायो-इनोसिटोल	myriapodous form	Zool	अयुतपादी रूप
myokinase	Chem	मायोकाइनेस	myrica	Chem	मिरिका
myology	Zool.	पेशीविज्ञान	Myricaceae	Bot	मिरीकेसी
myomere	Zool.	पेशीखंड	Myricales		मिरीकेसीज
Myomorpha	Zool	मायोमॉर्फा	<i>Myrica nagi</i>	Bot	मिरका नागी (काफल)
myoneme	Zool Geol	पेशीमूत्र मायोनीम	myricil alcohol	Chem	मिरिसिल ऐल्कोहॉल
myophoric apophyses	Geol.	मायोफोरिक विवर्ध	myricyl	Chem.	मिरिसिल
myophrisk	Zool, Geol.	पेशीमूत्रक, मायोफ्रिस्क	myriosporous	Bot	बहुबीजाणवी
myopia	Phy., H.Sc.	निकट दृष्टि, मायोपिया	Myriothela	Zool	मीरिओथेला
myoplasm	Zool.	पेशीद्रव्य	myristate	Chem.	मिरिस्टेट
Myoporaceae	Bot	मायोपोरेसी	<i>Myristica canarica</i>	Bot.	मिरिस्टिका कॅनेरिका
<i>Myoporum viscosum</i>	Bot	मायोपोरम विस्कोसम	Myristicaceae	Bot	मिरिस्टिकेसी
myoseptum	Zool	अन्तरपेशी पट्ट	myristic acid	Chem	मिरिस्टिक अम्ल, मिरिस्टिक एसिड
myosia	Bot.	मायोसिया	myristic alcohol	Chem.	मिरिस्टिक ऐल्कोहॉल
myosmine	Chem.	मायोस्मीन	<i>Myristica fragrans</i>		मिरिस्टिका फ्रॅग्रन्स
myosurus variation	Bot.	मायोसूरस विविधता	<i>Myristica malabarica</i>		मिरिस्टिका मॅलेबॅरिका
<i>Myotis lucifugus</i>	Zool	मायोटिस ल्यूसिफ्यूगस	Myristica type		मिरिस्टिका प्ररूप
myoto	H.Sc.	म्योटो	myristoleic acid		मिरिस्टोलेइक अम्ल
myotomal muscle	Zool.	आदिखंड पेशी	myrmecochorus	Bot.	पिपीलिका प्रकीर्ण
myotome	Zool, H.Sc.	आदिपेशीखंड, मायोटोम	Myrmecobius	Zool	मिमिकोबियस
myotonia	Zool.	पेशीतनाव	<i>Myrmecobius fasciatus</i>		मिमिकोबियस फॅसीएटस
myoxanthin		मायोऑन्थिन	<i>myrmecochory</i>	Bot	पिपीलिका प्रकीर्णता
myrcene		मरसीन	myrmecodia		मिमिकोदिया
Myriacanthus	Zool.	माइरियाकॅन्थस	myrmecolous	Zool.	वज्रवासी
myriad	Geog.	असंख्य	Myrmecophaga	Zool.	मिमिकोफॅगा
myriad distant bodies	Geog.	असंख्य दूरस्थ पिंड	Myrmecophagidae		मिमिकोफॅगिडी
Myriangiaceae	Bot	मीरिएन्जिएसी	Myrmecophagoidea		मिमिकोफॅगोइडिया
Myriangiales		मीरिएन्जिएसीज			



myrmecophagous		चींटीभक्षी, वज्रभक्षी	mythology	Geog.	1. देवकथाशास्त्र, पुराणशास्त्र 2. देवकथा, पुराणकथा
myrmecophagous insect		चींटीभक्षी कीट	mytilopsis	Bot.	माइटिलॉप्सिस
myrmecophil	Zool.	वज्ररागी	Mytilus	Zool.	मिटिलस, माइटिलस
myrmecophily	Bot.	1. चींटीरागिता, पिपीलिकारागिता 2. चींटो परागण, पिपीलिका परागण	Mytilus edulis		मिटिलस एडुलिस
	Zool.	वज्ररागिता	Mytilus latus		मिटिलस लेटस
myrmecophobous	Bot.	पिपिलिकामीर	Mytilus viridis		मिटिलस विरिडिस
myrmecophoby	Zool.	वज्रभीति	myxa	Zool.	मिक्सा
myrmecophyte	Zool.	वज्रपादप	myxamoeba	Zool., Bot.	मिक्सवमीवा, श्लेष्म- वमीवा
myrmekite	Geol.	मर्मिकाइट	myxedema	Chem.	मिक्सिडीमा
myrobalans	Chem. (Leath.)	हरीतकी	Myxidium	Zool.	मिक्सीडियम
myronate		माइरोनेट	Myxidium lieber- kuhnii		मिक्सीडियम लीबर्कुनाई
myrosin	Bot.	माइरोसिन	Myxine	Zool.	मिक्साइन
myrothamnaceae	Bot.	मायरोथैम्नेसी	Myxine glutinosa		मिक्साइन ग्लूटिनोसा
myrrh (myrrha)	Geog.	रसगंध, सुगंधित गोंद	Myxine limosa		मिक्साइन लाइमोसा
Myrsinaceae	Bot.	मिसिनेसी	Myxinidae	Zool.	मिक्सिनिडी
Myrsine africana	Bot.	मिसीन अफ्रीकाना	myxinoid	Zool.	मिक्सीनॉइड
Myrsine capitellata	Bot.	मिसीन कैपिटलेटा	Myxinoidea		मिक्सीनॉइडिया
Myrtaceae	Bot.	मर्टेसी	Myxobdella	Zool.	मिक्सोव्डेला
myrtle	H.Sc.	मरटिल	Myxobolus	Zool.	मिक्सोवोलस
Myrtle communis	Bot.	मिरटिल कम्यूनिस	Myxobolus mulleri		मिक्सोवोलस म्यूलराई
myrtle wax	Bot.	मरटिल मोम	Myxochloris	Zool.	मिक्सोक्लोरिस
Myrtus communis	Bot.	मिर्टस काम्यूनिस	Myxochrysis	Zool.	मिक्सोक्राइसिस
Mysidacea	Zool.	मिसीडेथिया	Myxochrysis paradoxa		मिक्सोक्राइसिस पैराडोक्स
mysis	Zool	माइसिस	Myxococcus albus		मिक्सोकोकस एल्बस
mysis stage		माइसिस अवस्था	myxocyte	Zool.	श्लेष्माणु
Mysore		मैसूर	myxoedema	Zool., H.Sc.	मिक्सिडिमा, अवटुबल्प- क्रियता
Mysore silk	H.Sc.	मैसूर रेशम	myxoflagellate	Zool.	श्लेष्मकशाभ
Mysore wool		मैसूर ऊन	myxogastrales	Bot.	मिक्सोगैस्ट्रेलीज
mysost	H.Sc.	माइसॉस्ट	myxoma	Zool.	मिक्सोमा, मिश्रावृंद
mystacial vibrissae	Zool.	श्मश्रु दृढरोम	myxomatosis	Zool.	मिक्सोमता, मिश्रावृंदता
Mysticeti	Zool.	मिस्टिसेटी	myxomatosis virus		मिक्सोमेटोसिस वाइरस, मिश्रावृंदता विषाणु
Mystus scenghala	Zool.	मिस्टस सींगाला (सिंघाला)			

myxoma virus	Zool.	मिश्राबृद विषाणु	myxospore	Bot.	मिक्सोबीजाणु
Myxomycetes	Bot.	मिक्सोमाइसिटीज	Myxosporidia	Zool.	मिक्सोस्पोरीडिया
Myxophyceae	Bot.	मिक्सोफिसी	myxotroph	Zool.	मिश्रपोषी
Myxophycean scum		मिक्सोफाइसी-न्तक	myxotrophy		मिश्रपोषिता
Myxophyta	Bot.	मिक्सोफाइटा	myxovirus	Zool.	मिश्रविषाणु, मिक्सोवाइरस
myxopodium	Zool.	श्लेष्मपादाभ	myxoxanthin	Bot.	मिक्सोन्ड्रिथन
myxopterygium (=mixipterygium)	Zool.	मिश्रपत्रक	myxoxanthophyll	Bot.	मिक्सोन्थोफिल
myxorhodin	Bot.	मिक्सोरोडिन	Myzocytium proliferum	Bot.	माइजोसाइटियम प्रोलिफेरम
Myxospongia	Zool.	मिक्सोस्पजिया	myzodendraceae	Bot.	मायजोडेन्ड्रेसी
Myxospongiae	Zool.	मिक्सोस्पजिई	myzorhynchus	Zool.	चूपप्रतुण्ड
Myxospongida	Geol.	माइक्सोस्पोन्जिडा			
myxosporangium	Bot.	मिक्सोबीजाणुधानी			

## N

nab	Geog.	नैब	nacre velvet	H Sc.	नेकर मखमल
nabla	Math.	नाब्ला	nacrite	Geol.	नैक्राइट
nablock	Geol.	नैब्लाक	Nacromer	Chem.	नैक्रोमर
nabo	H Sc.	नेबाँ	nacrous	Zool.	मुक्ताभी
nacarat	H Sc.	नैकारेट	nadel-diorite	Geol.	यूची-हाइओराइट
Naclean colours	Chem.	नैक्लिनशन रंग	NADH (reduced coenzyme)	Chem.	एन० ए० ही० एच०
nacre	Zool., Geol.	मुक्ताभ, नेकर	n-adic homogeneous form	Math.	n-यक समघात
nacre layer	Zool., Geol.	नेकर स्तर, मुक्ताभ स्तर	nadir		अधोबिन्दु
nacreous	Geol.	मुक्ताभ, मौक्तिक	nadir point		अधोबिन्दु
nacreous cloud	Geog.	मुक्ताभ मेघ	nadic point of triangulation	Geog.	त्रिकोणीयन अधोबिन्दु
nacreous layer	Geol.	मुक्ताभ स्तर	Naegleria		नीग्लेरिया
nacreous pigment		मुक्ताभ वर्णक	nagana	Zool.	नगाना
nacreous sulphur		मुक्ताभ सल्फर	nagatelite	Geol.	नैगटेलिट
nacre prints	H.Sc.	नेकर प्रिंट			
nacre-secreting layer	Zool.	नेकर स्रावी स्तर, मुक्ताभ स्रावी स्तर			

nagelfluh	Geog.	नैगेलफ्लू	nanism	Bot.	वामनता
nagelschmidite	Chem.	नगेलश्मिडाइट	nankin (nankeen)	H.Sc.	नैनकीन
nagyagite	Geol.	नेगियागाइट	nankinet	H.Sc.	नैनकीनेट
nahrhumus	Geog.	नारह्यूमस	nannandrium	Bot.	पुंवामन
nahyad	Geog.	नाह्यद	nannandrous		पुंवामनीय
Naidita	Bot.	नाएडीटा	nannocyte	Bot.	वामनोशिका
<i>Naiadita lanceolata</i>		नाएडीटा लेन्सिओलेटा	nannofossil	Geol., Bot.	परासूक्ष्म जीवाश्म
<i>Naia hanna</i>	Zool.	नाया हन्ना	nannoplankton	Geog., Biol., Geol.	परासूक्ष्म प्लवक
<i>Naia naia</i>		नाया नाया	nano	Chem., Phy.	नैनो
naid		जलामंक, नाएड	nanometer	Chem., Phy.	नैनोमीटर
naif	Geol.	मूलचूत्तिमान	nanophanerophyte	Bot.	वामन व्यक्तोद्भिद्
nail		1. नख 2. कील	nanophyll	Bot.	वामनपर्ण
nailbourne	Geog.	नेलवोर्न	nanosecond	Chem.	नैनो-सेकंड
nail cutter	H.Sc.	नख कर्तक	Nansen reversing bottle	Zool.	नैन्सेन व्युत्क्रमी बोतल
nail head bond		कील शीर्षी बंध	nantoquite	Chem.	नैन्टोकाइट
nail head spar	Geol.	कीलशिर स्पार	nanus	Bot.	वामन
nailing	Chem. (Met.)	नेलन	*Naos (= ἘArgus Navis)	Astron.	नेऑस (= Ἐ आर्गस नेविस)
nail polish		नख पालिश	nap	Chem., H.Sc.	1. लोमगुत्थ 2. रोआँ, रोएँदार
*Nair al Zaurak (= α Phoenicis)	Astron.	नाइरअल जौरक (= α फिनाइसिस)	napaceous	Bot.	कुम्भसम
*Naja (= Naia)	Zool.	नाजा (नाग)	napalite	Geol.	नैपेलाइट
naked bud	Bot.	नग्न कली, नग्न कलिका	napalm	Chem.	नेपाम
naked flower		*नग्न पुष्प	nape	Zool.	कंधरा
naked ion		नग्न आयन	napelline	Chem.	नैपेलीन
naked karst	Geol.	अनावृत कास्ट	napery	H.Sc.	नैपेरी
nalgiovensin	Chem.	नाल्गिओवेन्सिन	naphta bitumen	Geol.	नेफ्टा बिटूमिन
nalorphine	Chem.	नैलॉर्फोन	naphtha	Chem., Geol.	नैफ़था
namatium	Bot.	सरित् समुदाय	naphtha bottoms		नैफ़था अवशेष
namatophilous	Bot.	स्रोतरागी, स्रोतारागी	naphthacene	Chem.	नैफ़थासीन
Nametkin rearrangement	Chem.	नामेट्किन पुनर्व्यवस्था	naphtha gas		नैफ़था गैस
nanako	H.Sc.	नानाको	naphthalene	Chem.	नैफ़थलीन
NAND	Phy.	नय	naphthalic acid		नैफ़थैलिक अम्ल, नैफ़थैलिक ऐसिड
NAND gate		नयगेट	naphthalize	Geol.	नैफ़थासंक्षेप
Nandinaceae	Bot.	नन्दीनेसी	naphthene	Chem.	नैफ़थीन
nanellus	Bot.	वामन			

naphthenic acid		नैपथेनिक अम्ल, नैपथेनिक ऐसिड	narceine	Chem	नार्सीइन
naphthionic acid	Chem	नैफ्थिआनिक अम्ल, नैफ्थिओनिक ऐसिड	Narcissus	Bot	नार्सिसस (नरगिस)
naphthoflavone	Chem	नैपथोफ्लवोन	narcissus mosaic		नरगिस किर्बीट, नरगिस भोजक
naphthoic acid	Chem.	नैपथॉइक अम्ल, नैपथॉइक ऐसिड	Narcobatoidea		नार्कोबेटॉइडिआ
naphthol phthalein	Chem	नैपथॉन फॅलीन	Narcomedusae	Zool	नार्कोमिड्यूसी
β-naphthol test		β-नैपथॉल सपरीक्षण	narcosis	Chem.	स्वापक-मुक्ति, नार्कोसिस
naphthol yellow		नैपथाल पीन	narcotic	Chem	स्वापक
naphthoresorcinol test	Chem	नैपथोरिसासिनॉन निक्षप	narcotic potency		स्वापक शक्ति
naphthsulfam	Chem	नैपथसल्टैम	narcotifre	Ghem	नार्कोटीन
naphthsultone	Chem.	नैपथसल्टोन	narcotropism	Bot	स्वापकानुवर्तन
naphthyl red	Chem	नैफ्थिल रेड, नैफ्थिल रबन	nardil (phenalzone)	Chem	'नार्डिल'
naphthine	Geol	नैप्टीन	Nardostachys jatamansi	Bot.	नारडोस्टैचिस जटामान्सी (जटाभासी)
naphtholthe	Geol.	नैप्टोलिथे	Nardus pasture	Geog	नारडस-चरागाह
Napichadium	Bot.	नैपिक्नैडियम	nares	Zool, H Sc	नासाछिद, नासारघ्न
napier	H Sc.	नैपियर	nares imperval		अप्रवेश्य नासारघ्न
Napierian	Math.	नैपिरीय	nares perval		प्रवेश्य नासारघ्न
Napierian logarithm		नैपिरीय लघुगुणक, नैपिरीय लागेरियम	narite	Chem (Met)	नेराइट
Napierian system of logarithm		नैपिरीय लागेरियम पद्धति	narki (alloy)	Chem	नार्की
napiform	Bot	कुम्भीरूप	narrow		सकीर्ण, बारीक
napkin	H Sc	1. नैपकिन 2. बलोट, लपोट	narrow band axis	Phy.	सकीर्ण बैंड अक्ष
Naples yellow	Chem	नेपल्स यलो, नेपल्स पीठ	narrow beam absorption		सकीर्ण किरणपुञ्ज अवशोषण
napolean	Chem	नैपोनियन	narrow coastal plain	Geog	सकीर्ण तटीय मैदान
Napolcona vogelli	Bot.	नेपोलिओना वोगेलाइड	narrow crested anticline	Geol.	सकीर्ण शीर्ष अपनति
nappe	Geol, Geog.	नापे	narrow determinism		सकीर्ण नियतत्ववाद
napped fabric	H.Sc.	रोएसर वस्त्र	narrow fabric	H.Sc.	सकीर्ण वस्त्र
nappe outlier		नापे पुरात भाषी	narrow gauge	Geog	छोटी लाइन
nappe structure		नापे-संरचना	narrow head	Geog.	सकुचित शिरच्छ
nappe tectonics		नापे-द्विवर्तनिकी	narrow islet	Geog.	सकीर्ण निवेशिका
napping	H.Sc.	लोभीकरण	narrow market	H.Sc.	सीमिन बाजार
Naravelia zeyhana	Bot.	नारवेलिया जेलियाना	narrow nose		सकुचित नाक, सकुचित नासिका
			narrow obstacle		सकीर्ण अवरोध

narrow pass	<i>Geog.</i>	संकीर्ण दर्रा	naso-hypophysial opening		नासा-हाइपोफिस्ती रंध
narrow range test paper		संकीर्ण परिसर संपरीक्षण-पत्र	naso-hypophysial sac		नासा-हाइपोफिस्ती कोश
narrow shoulder		संकीर्ण स्कंध	naso-labial gland		नासा-ओष्ठ ग्रंथि
narrow slanting lid	<i>Geog.</i>	पतली तिरछी पलक	naso-lacrymal duct		नासाश्रु वाहिनी
narrow tube		संकीर्ण नली	naso-palatine		नासा-तालव
narwhal	<i>Geog.</i>	नारह्वल	nasopalatine canal	<i>Zool.</i>	नासा-तालु नाल
narwhale	<i>Zool.</i>	नारव्हेल	nasopharyngeal cavity		नासा-ग्रसनी गुहा
narwedine	<i>Chem.</i>	नार्वेडीन	nasopharyngeal myiasis		नासा-ग्रसनी मक्षिकता
n-ary form	<i>Math.</i>	n-तमक समघात	nasopharynx		नासाग्रसनी
nasal	<i>Zool.</i>	(adj.) नासा, नासीय (n). नेत्रल	nasoturbinal		नैसोटर्वाइनल, नासासपिलास्त्रिय
nasal barbels		नासा स्पर्शवर्ध	<i>Nassarius mutabilis</i>	<i>Bot.</i>	नासैरियस म्यूटैविलिस
nasal bone		नासास्त्रिय	<i>Nasturtium indicum</i>		नस्टर्शियम इन्डिकम
nasal capsule		नासा-सम्पुट	<i>Nasturtium officinale</i>		नस्टर्शियम आफ्रीसिनेल
nasal cavity		नासा गुहा	nasty		अनुकुंचन
nasal fontanelle		नासा-कलावकाश	nasute soldier	<i>Zool.</i>	तुंड सैनिक
nasal index		नासा सूची	natal	<i>H.Sc.</i>	प्रसव
nasalis		नासापेशी, नैसैलिस	natal down	<i>Zool.</i>	शावपिच्छ (नीडशावक पिच्छ)
nasalisation	<i>Phy.</i>	अनुनासिकन	natalite	<i>Chem. (Met.)</i>	नैटेलाइट
nasal myiasis		नासा मक्षिकता	natality	<i>Bot.</i>	जन्मदर
nasal pit		नासा गर्त	natans	<i>Bot.</i>	प्लवमान
nasal region		नासा क्षेत्र	natatores	<i>Zool.</i>	तरण-पक्षी
nasal root		नासा मूल	natatorial	<i>Zool.</i>	तरणार्थ, तरणिक
nasal rudiment		नासा-शाघांग	natatorial foot		तरणार्थ पाद
nascent	<i>Biol., Chem.</i>	नवजात	natatory	<i>Zool.</i>	तरणार्थ, तरणिक
nascent embryo		नवजात भ्रूण	natatory part		तरणांग
nascent group		नवजात समूह	Nathusius furnace	<i>Chem.</i>	नाथुसिक्स फ्राष्ट
nascent hydrogen		नवजात हाइड्रोजन	naticiform	<i>Geol.</i>	नैटिकारूप
nascent state		नवजात अवस्था	national	<i>Geog.</i>	राष्ट्रीय
naseberry	<i>H.Sc.</i>	चीकू	national accounting		राष्ट्रीय लेखांकन
Nash Hylor pump	<i>Chem.</i>	नैश हाइटर पम्प	National Atlas		राष्ट्रीय ऐटलस
*Nashira (=γ Capricorni)	<i>Astron.</i>	नैशिरा (=γ घनु, केप्रिकोर्नाई)	national end		राष्ट्रीय उद्देश्य
nasobuccal groove	<i>Zool.</i>	मुखनासा खांच	national frontier		राष्ट्रीय सीमा
naso-ethmoidal cartilage	<i>Zool.</i>	नासा-एथैरिका उपास्त्रिय			
naso-frontal process		नासा-ललाट प्रवर्ध			

national grid system	राष्ट्रीय ग्रिड-तन्त्र	native element	प्राकृत तत्व
national highway	राष्ट्रीय महामार्ग	native farm	देशीय फार्म, देशीय खेत
national homogeneity	राष्ट्रीय एकरूपता	native inhabitant	मूल निवासी
national ideology	राष्ट्रीय विचारधारा	native life	स्थानीय जीवन, देशज जीवन
national income	राष्ट्रीय आय	native metal	प्राकृत धातु
national interest	राष्ट्रीय स्वार्थ	native paraffin	<i>Geol</i> ओडोके राइट, प्राकृत पैराफिन
nationalist bias	राष्ट्रवादी अभिमत	native production	देशीय उत्पादन
nationalist kingdom	राष्ट्रवादी राज्य	native settlement	मूलनिवासी बस्ती, प्राकृत आवास
nationalist tendency	राष्ट्रवादी प्रवृत्ति	native silk	<i>H Sc</i> देशज रेशम
nationality	राष्ट्रीयता	native steel	प्राकृत इस्पात
nationality problem	राष्ट्रीयता समस्या	native water	<i>Geol</i> स्थानीय जल
national museum	राष्ट्रीय संग्रहालय	native wool	देशीय ऊन
National park	नेशनल पार्क	native worker	देशीय वर्मचारी
National Physical Laboratory	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला	Natke's alloy	<i>Chem.</i> नेट्के मिश्रण
national planning	राष्ट्रीय योजना	Natomas dredge	<i>Geol</i> नाटोमस ड्रेज
national register	राष्ट्रीय रजिस्टर, राष्ट्रीय पंजी	Natomas dredge jig	नाटोमस ड्रेज जिग
National Sample Survey	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण	natramblygonite	<i>Geol.</i> नेट्राम्ब्लिगोनाइट
national savings	राष्ट्रीय बचन	natrium	<i>Chem</i> नेट्रियम
national service	राष्ट्रीय सेवा	natroalunite	<i>Geol</i> नेट्रोऐलुनाइट
national socialist policy	राष्ट्रीय समाजवादी नीति	natroborocalcite	<i>Geol</i> नेट्रोबोरकैल्साइट
national uniformity	राष्ट्रीय समरूपता	natrochalcite	<i>Geol</i> नेट्रोचैल्साइट
national value	राष्ट्रीय मान	natrolite	<i>Chem</i> नेट्रोलिथ
nation state	राष्ट्र-राज्य	natrolith	<i>Chem.</i> नेट्रोलिथ
nation-wide framework	राष्ट्रव्यापी ढांचा	natrometer	<i>Chem</i> नेट्रोमिटर
native	<i>Geol, H.Sc.</i> 1 प्राकृतिक, प्राकृत <i>Geog</i> 2 मूल निवासी	natron	<i>Geol</i> नेट्रॉन
native adze	देशी वस्तु	natron catapleiite	नेट्रॉन-कैटप्लेइइट
native asphalt	प्राकृत ऐस्फाल्ट	natron granite	नेट्रॉन-ग्रेनाइट
native coke	प्राकृत कोक	natia catalyst	नैट्टा उत्प्रेरक
native community	मूलनिवासी समुदाय	nattaxon	<i>Bot</i> नैट्टासमूह
native culture	स्थानीय संस्कृति, देशज संस्कृति	nat'lerjack	<i>Zool.</i> नैटरलेजर, घावी भेक
native dwelling	मूलनिवासी वास, प्राकृत-वास	natural	<i>Geog, Bot,</i> <i>Geol.</i> 1. प्राकृतिक, प्राकृत 2. स्वाभाविक
		natural abundance	प्राकृतिक बाहुल्य
		natural activity	प्राकृतिक सक्रियता
		natural adminis- trative unit	प्राकृतिक प्रशासनिक एकक

natural admittance		स्वाभाविक प्रवेश्यता	natural fecundity		प्राकृतिक बहुप्रजता
natural arch		प्राकृतिक चाप	natural formation		प्राकृतिक रचना
natural area		प्राकृतिक क्षेत्र	natural for- tification		प्राकृतिक किलेबन्दी
natural areal unit		प्राकृतिक क्षेत्रीय एकक	natural frequency		स्वाभाविक आवृत्ति, प्राकृतिक आवृत्ति
natural asphalt		प्राकृतिक ऐस्काल्ट	natural fuel		प्राकृतिक ईंधन
natural background radiation		प्राकृतिक पृष्ठभूमिय विकिरण	natural gamma- radiation intensity		प्राकृतिक गामाविकिरण तीव्रता
natural $\beta$ -ray spectra		प्राकृतिक $\beta$ -किरण स्पेक्ट्रम	natural gas		प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस
natural boundary		प्राकृतिक सीमा, प्राकृतिक परिसीमा	natural gauge		स्वाभाविक प्रमापी
natural boundary condition		प्राकृतिक परिसीमा- प्रतिबंध	natural geographical region		प्राकृतिक भौगोलिक प्रदेश,
natural breadth (of spectral lines)		स्वाभाविक चौड़ाई, नेज चौड़ाई	natural glow curve		प्राकृतिक दीप्ति वक्र
natural bridge		प्राकृतिक सेतु	natural gravel		प्राकृतिक बजरी
natural broadening		प्राकृतिक पृथुलन	natural hinterland		प्राकृतिक पश्चभूमि
natural capital		प्राकृतिक राजधानी	natural history	<i>Zool.</i>	प्रकृति-विज्ञान
natural classification		प्राकृतिक वर्गीकरण	natural hollow		प्राकृतिक खोखला, प्राकृतिक गल्ल
natural clearing		प्राकृतिक निर्वृक्ष क्षेत्र	natural homomorphism	<i>Math.</i>	विहित समाकारिता, प्राकृतिक समाकारिता
natural coke		प्राकृतिक कोक	naturalia	<i>H.Sc.</i>	नेचुरैलिया
natural colour reception		प्राकृतिक वर्ण अभिग्रहण	natural increase		प्राकृतिक वृद्धि
natural convection		स्वाभाविक संवहन	naturalist	<i>Geog.</i> <i>Zool.</i>	1. प्रकृतिवादी 2. प्रकृति वैज्ञानिक
natural coordinates		प्राकृतिक निर्देशांक	naturalist explorer	<i>Geog.</i>	प्रकृतिवादी अन्वेषक
natural correspondence		प्राकृतिक संगति	naturalistic motif		प्राकृतिक अनुकल्प
natural curves		स्वाभाविक वक्र	naturalization	<i>Geog.</i>	देशीयकरण, नागरिकीकरण
natural differentiability (=intrinsic differentiability)	<i>Math.</i>	नेज अवकलनीयता	naturalize		नागरिकता प्राप्त या प्रदान करना, देशीय- करण करना
natural division		प्राकृतिक विभाग	natural landmark		प्राकृतिक भूचिह्न
natural drainage		प्राकृतिक अपवाह	natural landscape		प्राकृतिक दृश्यभूमि
natural dyes		प्राकृतिक रंजक	natural leaching		स्वजनित निदालन
natural earth currents		प्राकृतिक विद्युत् धारायें	natural levee		प्राकृतिक तटबंध
natural equation (=intrinsic equation)	<i>Math.</i>	नेज समीकरण	natural line width		स्वाभाविक रेखा- पृथुलता
natural feature		प्राकृतिक वाक्यति, प्राकृतिक लक्षण	natural logarithm		प्राकृतिक लघुगुणक, प्राकृतिक लॉगेरिथ्म
			natural magnet		प्राकृतिक चुंबक

natural manure		प्राकृतिक खाद	natural typification		प्राकृतिक प्ररूपण
natural mapping		प्राकृतिक प्रतिचित्रण	natural uranium reactor		प्रकृत यूरेनियम रिएक्टर
naturalness	<i>H Sc.</i>	सहजता	natural vegetation		प्राकृतिक वनस्पति
natural number	<i>Math.</i>	घनपूर्ण सङ्ख्या, घन पूर्णांक	natural vibrations		स्वाभाविक कंपन, प्राकृतिक कंपन
natural obstacle		प्राकृतिक अवरोध	natural water		प्राकृतिक जल
natural optical activity		प्राकृतिक घ्रुवण घूर्णकला	natural well		प्राकृतिक कूप
natural order (= family)	<i>Biol</i>	कुल	natural whisker	<i>Phy.</i>	सहज श्मश्रु
natural oscillation		प्राकृतिक दोलन, स्वाभाविक दोलन	nature	<i>Biol.</i>	1 प्रकृति 2. स्वभाव, स्वरूप
natural pairing		प्राकृतिक युग्मन	naturell	<i>H Sc</i>	नेचुरेल
natural pasture		प्राकृत चरवागाह	nature of light		प्रकाश का स्वरूप
natural period		स्वाभाविक आवर्तकाल	nature of space time		दिक्-काल का स्वरूप
natural pit		प्राकृतिक गर्त	<i>Nuclea cadamba</i>	<i>Bot</i>	नौकिलया कदम्बा (कदम्ब)
natural projection		प्राकृतिक प्रक्षेप	nauker	<i>H.Sc</i>	नाँकर
natural pump		प्राकृतिक पम्प	nanlet	<i>H Sc.</i>	नान्लेट
natural quarrying		प्राकृतिक आखनन	naumannite	<i>Geol</i>	नौमेनाइट
natural radioactivity		प्राकृतिक रेडियोएक्टिवता	Naumann's equation	<i>Chem.</i>	नाउमान समीकरण
natural region		प्राकृतिक प्रदेश	naupliiform larva	<i>Zool.</i>	नौप्लियस-रूप हिम्मक
natural resin		प्राकृतिक रेजिन	nauplius	<i>Zool</i>	नौप्लियम
natural resonance		स्वाभाविक अनुनाद	Nauru rock	<i>Chem. (Fert.)</i>	नौरु शील
natural resource		प्राकृतिक ससाधन, प्राकृतिक साधन	nausea	<i>H Sc.</i>	उल्टनेश, भचली, मतली
natural routeway		प्राकृतिक मार्ग	nauseating odour	<i>Chem</i>	वमनकर गंध, उल्टनेशी गंध
natural scale		प्राकृतिक पैमाना	nauseous	<i>Chem.</i>	उल्टनेशी
natural selection		प्राकृतिक चरण	nauseous smell		वमनकारी गन्ध
natural silk		प्राकृतिक रेशम	Nausithoe	<i>Zool.</i>	नौसिथी
natural spring		प्राकृतिक झरना	nautical	<i>Geog.</i>	1. नाविक 2 समुद्री
natural state		प्राकृतिक अवस्था	nautical almanac		नाविक पत्रिका
natural system		सहज प्रणाली	nautical chart		समुद्री चार्ट, नाविक चार्ट
natural tangent		प्राकृतिक टैन्जेंट, प्राकृतिक स्पर्शज्या	nautical fathom		समुद्री फूटम
natural tolerance		स्वाभाविक सहन	nautical mile		समुद्री मील
natural tolerance limit		स्वाभाविक सहन सीमा	nautical sextant		नाविक सेक्सटेंट
natural tolerance range		स्वाभाविक सहन-परिसर	nautical table		नाविक सारणी
natural tribedral		प्राकृतिक त्रिफलक	nautical twilight		नाटिकल साध्यप्रकाश, नाटिकल डाय



nautilicone	Geol.	नॉटिलसी कुंडली	navigable	Geog., Geol.	नाव्य, संचाल्य
nautiliform	Geol.	नॉटिलसरूप	navigable channel		नाव्य जलमार्ग
nautiloid	Geol.	नॉटिलॉइड	navigable river		नाव्य सरिता
Nautiloidea	Zool.	नॉटिलॉइडिया	navigation	Geog., Phy.	संचालन; नौसंचालन
Nautilus	Zool.	नॉटिलस	navigation aid		संचालन सहाय
<i>Nautilus macromphalus</i>		नॉटिलस मैक्रोम्फैलस	navigational microfilm projectors		संचालन माइक्रोफिल्म प्रक्षेपित
<i>Nautilus pompilius</i>	Geol.	नॉटिलस पाँम्पाइलिस	navigational planet	Phy.	संचालनीय ग्रह
<i>Nautilus regalis</i>		नॉटिलस रिगैलिस	navigation hazard		संचालन-संकट
navaglide	Phy.	नेवाग्लाइड	navigation mark		नौसंचालन-चिह्न
Navaho	Geol.	नैवाहो	navigator	Geog.	नौसंचालक
Navajo (formation)	Geol.	नैवाहो (शैलसमूह)	navy bean	H.Sc.	नेवी बीन
Navajo blanket	H.Sc.	नैवाहो कम्बल	navy blue		गहरा नीला, नेवी ब्लू
Navajo wool	H.Sc.	नैवाहो ऊन	naze	Geol., Geog.	अंतरीप
naval armament	Geog.	नौसैनिक शस्त्र-संभार	nazzaz	Geog.	नैज़ज़, दृढ़ पटल
naval brass	Chem.	नौ पित्तल	n-dimensional	Math.	n-विम
naval expedition	Geog.	नौसेना-खोजयात्रा	n-dimensional geometry		n-विम ज्यामिति
naval fleet		नौसेना बेड़ा	n-dimensional set		n-विम समुच्चय
naval problem		नौसेना समस्या	n-dimensional vector space		n-विम सदिश-समष्टि
naval store	Geog.	नाविक भंडार	N-display	Phy.	N-प्रदर्श
naval vessel	Geog.	नौसेना-जलयान	Neale's theory	Chem.	नील-वाद
navar	Phy.	नेवार, नौसंचालन-परासन	neamine	Chem.	निऐमीन
navarho	Phy.	नेवारो	Neanderthal man	Geog., Zool.	नियन्डरटाल मानव
navarin	H.Sc.	नावारिन	neanic	Geol.	किशोरावस्था
Navaschin's fluid	Bot.	नावाशिन-तरल	<i>Neanthes virens</i>	Zool.	निएन्थीस वाइरेन्स
Navaschin solution		नावाशिन घोल	neapolitan cream	H.Sc.	नीमापोलिटन क्रीम
navascope	Phy.	नैवारदर्शी	neap range	Geog.	लघुतम (ज्वार) परास
navel	Zool.	नाभि	neap rise	Geog.	नीपराइज, लघुतम ज्वार-उच्चतम भाटा-अन्तर
navel point (=umbilic)	Math.	शून्यवृत्तक	neap tide	Geog.	लघु ज्वार भाटा
navicella	H.Sc.	नौरचना	Nearctic	Geog., Zool.	निआर्कटिक
navicular	Zool.	(n.) नौकानिका (adj.) नौकाकार	Nearctic realm		निआर्कटिक प्रदेश
<i>Naviculla minuta</i>	Bot.	नैवीकुला माइन्यूटा	Nearctic subregion		निआर्कटिक उपप्रदेश
Navier's equation	Math.	नेवियर समीकरण	near echo	Phy.	निकट-प्रतिध्वनि
Navier Stokes equation of motion		नेवियर स्टोक्स गति-समीकरण	near end cross talk		निकट अंत अप्रासंगिक सिग्नल

nearest approach	<i>Phy.</i>	निकटतम उपगमन	nebular distribution		नीहारिका बटन
nearest neighbour		निकटतम प्रतिवेशी	nebular hypothesis		नीहारिका-परिकल्पना
near field		निकट क्षेत्र	nebularine	<i>Chem.</i>	नेबुलैरीन
near infra-red		निकट अवरक्त	nebular radiation		निहारिका-विकिरण
nearly circular orbit	<i>Math.</i>	वृत्तीयप्राय कक्षा	nebular spectrum		नीहारिका स्पेक्ट्रम
nearly general fall	<i>Geog</i>	लगभग सर्वत्र वर्षा	nebular theory		नीहारिका-मिथ्यात
nearlying triplet state	<i>Chem</i>	समीपस्थ त्रिक अवस्था	nebular variable (star)		नीहारिकीय चरकाति तारा
nearly open map	<i>Math</i>	त्रिवृत्तप्राय प्रतिचित्र	nebulium	<i>Chem</i>	नेबूलियम
nearly perfect crystal	<i>Phy</i>	पूर्णप्राय निस्टल	nebulium line		नेबूलियम रेखा
near miss	<i>Phy</i>	अणीचूक	nebulosity	<i>Geog</i>	नीहारिमयता
near optimum solution	<i>Math</i>	इष्टतमप्राय हल	nebulous star	<i>Math</i>	नीहारिकाम तारा
near point (of the eye)	<i>H Sc.,Phy., Zool</i>	(आख का) निकट बिन्दु	nebulous structure	<i>Geog</i>	नीहारिकाभ संरचना
near point source	<i>Chem.</i>	बिन्दुप्राय स्रोत	necanee	<i>H Sc</i>	निकैनी
near region		निकट प्रदेश	<i>Necator americanus</i>	<i>Zool</i>	निकेटर अमेरिकैन्स
near resonance	<i>Phy</i>	अनुनाद प्राय	necessary and sufficient condition	<i>Math</i>	आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबन्ध
near set	<i>Phy, Math.</i>	समीप समुच्चय	necessary condition		आवश्यक प्रतिबन्ध
near surface changes	<i>Geol</i>	उपपृष्ठ परिवर्तन	neck	<i>Biol, Geol, Geog.</i>	1 शीवा, गर्दन 2 कठ
near surface fault	<i>Geol</i>	अगभीर ध्रज	neck bulb		शीवा बन्द
near surface fissure		अगभीर विदार	neck canal cell		शीवा नाल कोशिका
near ultraviolet		निकट पराबैंगनी	neck furrow		शीवा खाच
near zone		निकट प्रदेश	neck gland		शीवा ग्रन्थि
neascus	<i>Zool.</i>	निएस्कम	necking	<i>Geol</i>	मध्यकृशन
neatsfoot oil	<i>Chem.</i>	द्विशफपाद तेल	neck initial		शीवा आरम्भक
neat soap	<i>Chem.</i>	नीट सोग, नीट साबुन	necklace	<i>H Sc.</i>	नेकनिम, हार
neat wool	<i>H.Sc.</i>	नीट ऊन	necklace of leaves		पर्ण हार, पर्ण-माला
Nebalia	<i>Zool.</i>	नेबेलिया	neckline	<i>H.Sc.</i>	गने की रेखा
Nebaliacea	<i>Zool.</i>	नेबेलिएसिया	neck mold		शीवा सच
Nebauer crucible	<i>Chem.</i>	नेबौयर क्रुसिबल, नेबौयर मूषा	neck organ	<i>Zool.</i>	शीवांग
Nebenkörper	<i>Bot</i>	नेबेनकोरपर	neck retractor		शीवा अकुचक
neben series	<i>Phy.</i>	शोण श्रेणी	neck ring		शीवा वलय
Neber Bossel reaction	<i>Chem.</i>	नेबर बोसल अभिक्रिया	neck rot		शीवा विगलन
Neber rearrangement		नेबर पुनर्विन्यास, नेबर पुनर्व्यवस्था	necktie	<i>H.Sc.</i>	नेकटाई
nebula	<i>Math, Phy.</i>	नीहारिका	neck triangle	<i>H Sc.</i>	शीवा त्रिभुज
			necridium	<i>Bot.</i>	नैक्रिडिया
			necrobiont	<i>Zool</i>	क्षत्रांगजीवी

necrobiosis	Zool., Bot.	1. मरणोत्तर सक्रियता, 2. ऊतकक्षयजीवन	Needham's sac		नीघम कोप
necrobiotic		मरणोत्तर सक्रियतात्मक	needle	Phy., H.Sc., Geol.	सुई, सूची
necrocoenose	Geol.	नेक्रोसीनोज	needle bar		सुई छड़, नीडल बार
necrocytosis	Zool.	कोशिकाद्रव्यक्षय	needle blight		सूची अंगमारी
necrohormone	Bot.	मृतजहामॉन	needle chatter		सूची ध्वनि
necrophage	Bot.	मृतभक्षी	needle cord		नीडल काई
necrophyte	Bot.	मृतजीवी पादप	needle deviation		संकेतिक विचलन
necrophytophagous	Bot.	मृतपादप भक्षी	needled steel		सूचीयित इस्पात
necropsy	Bot.	शव परीक्षा	needle fish		सूची मीन
necrosis	Bot.	ऊतकक्षय	needle gap		सूची अंतराल
necrotic		ऊतकक्षयी	needle ironstone		सूची लोहायम
necrotic ring		ऊतकक्षयी बलय	needle ore		सूची अयस्क
necrotic spot		ऊतकक्षयी चकत्ता, ऊतकक्षयी लक्ष्म	needle point	H.Sc.	नीडल प्वाइन्ट
necrotic strain		ऊतकक्षयी विभेद	needle point cutter	Geog.	नोकदार कटर, नीडल- प्वाइन्ट कटर
necrotype	Bot.	विलुप्त प्ररूप	needle problem		सूची-समस्या, सुई-समस्या
nectar	Bot. H.Sc.	मकरंद नेक्टर	needler	Chem.	सूचीयक
nectariferous		मकरंदघर	needle scratch		सूची रव
nectariferous organ		मकरंदघारी अंग	needle shale		सूची शेल
Nectaromycetaceae	Bot.	नेक्टरोमाइसिटेसी	needle shapd		सूच्याकार
nectarostigma	Bot.	मकरंददंठक	needle shaped galaxy		सूच्याकार मंदाकिनी
nectary	Bot., H.Sc.	1. मकरंद कोप 2. पोषी कोशिका	needle spar	Geol.	नीडिल स्पार, ऐरंगोनाइट
nectiferous	Bot.	मकरंदघर	needlestone	Geol.	नीडिलस्टोन, नेट्रोलाइट (=natrolite)
nectocalyx	Zool.	तरणचपिका	needle talk		सूची ध्वनि
nectochacte	Zool.	नेक्टोकोट, तरणगूक	needle tapestry	H.Sc.	नीडल टैपेस्ट्रि
nectomonad	Zool.	तरणकक, नेक्टोमोनैड	needle tin		सूची बंग
nectophore	Zool.	नेक्टोफोर, तरणघर	needle valve	Phy.	पिन वाल्व, सूची वाल्व
Nectophyrnoides	Zool.	नेक्टोफिरनाइडीज	needle work	H.Sc.	सुईकारी
nectosome	Zool.	नेक्टोसोम, तरणकाय	Neel point	Chem.	नील बिन्दु
Nectriaceae	Bot.	नेक्ट्रिएसी	Neel temperature		नील ताप
Nectria cinnabarina		नेक्ट्रिया सिनैबारिना	Neenah expansionmeter	Chem.	नीना प्रसारमापी
Nectridia	Zool.	नेक्ट्रीडिया	Neesiella	Bot.	नीसिएला
nectridian	Geog.	नेक्ट्रीडियन	Nef and Spengler method	Chem.	नेफ-स्पेन्जलर विधि
Necturus	Zool.	नेक्ट्युरस	Nef reaction		नेफ अभिक्रिया
Necatheifera	Bot.	निवाथीफेरा			

nefud	<i>Geog.</i>	नेफुद	<i>negative definite matrix</i>	ऋणात्मक निश्चित माट्रिक्स
negation	<i>Math.</i>	निषेध	<i>negative deviation</i>	ऋणात्मक विचलन
negativation (=negativity)	<i>Chem.</i>	ऋणता	<i>negative discharge</i>	ऋणात्मक विमर्जन
negative		1. ऋण, ऋणात्मक 2 (photo) नेगेटिव	<i>negative dynamic resistance</i>	ऋणात्मक गतिक प्रतिरोध
negative absorption		ऋणात्मक अवशोषण	<i>negative electric charge</i>	ऋणात्मक विद्युत् आवेश, ऋणात्मक विद्युत् चार्ज
negative adsorption		ऋणात्मक अधिशोषण	<i>negative electron</i>	ऋण इलेक्ट्रॉन
negative angle		ऋण कोण	<i>negative elements</i>	ऋण घटक
negative anti-proton		ऋणात्मक एन्टिप्रोटान	<i>negative elongation</i>	ऋणात्मक दीर्घीकरण
negative association		ऋण साहचर्य	<i>negative energy</i>	ऋणात्मक ऊर्जा
negative attribute	<i>Math.</i>	अभावात्मक गुण, निषेधात्मक गुण	<i>negative entries</i>	ऋणात्मक प्रविष्टियाँ
negative autocorrelation		ऋणात्मक स्वसहस्रचष	<i>negative error</i>	ऋणात्मक अशुद्धि
negative branch		ऋणात्मक शाखा	<i>negative eugenics</i>	नकारात्मक सुजननिकी, नकारात्मक सुजनन- विज्ञान
negative catalysis	<i>Chem.</i>	अवप्रेरण	<i>negative evidence</i>	नकारात्मक साक्ष्य, नकारात्मक सबूत, नकारात्मक प्रमाण
negative catalyst		अवप्रेरक	<i>negative examiner</i>	नेगेटिव परीक्षक
negative character		निषेधी लक्षण	<i>negative feed back</i>	ऋणात्मक पुनर्भरण
negative charge		ऋण आवेश, ऋण चार्ज	<i>negative field</i>	ऋण क्षेत्र
negative charge carrier		ऋण आवेश वाहक	<i>negative geotaxis</i>	ऋणात्मक गुरुत्वानुचलन
negative chirality		ऋण इगिता, ऋण किरैलिटी	<i>negative glow</i>	ऋण दीप्ति
negative compliance		ऋण अनुवृत्ति	<i>negative image</i>	व्युत्क्रम प्रतिबिम्ब
negative conductor		ऋणात्मक चालक	<i>negative impedance</i>	ऋण प्रतिबाधा
negative contour	<i>Geol.</i>	निम्नतल समोन्वरेखा	<i>negative interaction</i>	ऋणात्मक परस्परक्रिया
negative corpuscle		ऋण कणिका	<i>negative ion</i>	ऋण आयन
negative corrector		नेगेटिव शोधक	<i>negative keeper</i>	नेगेटिव रखवाला
negative correlation		ऋणात्मक सहसंबंध	<i>negative landforms</i>	ऋणात्मक स्थलाहृति
negative counting		ऋण गणना	<i>negative latitude</i>	<i>Geog.</i> दक्षिणी अक्षांश
negative coupling		ऋण युग्मन	<i>negative lens</i>	ऋणात्मक लेन्स, ऋण / लेन्स
negative crystal crystallization		ऋणात्मक क्रिस्टल ऋण क्रिस्टलन	<i>negative lens system</i>	ऋणात्मक लेन्स तंत्र
negative curvature		ऋण वक्रता	<i>negatively charged particle</i>	ऋण आवेशी कण
negative damping		ऋणात्मक अवमदन	<i>negative lynchet</i>	<i>Geog.</i> ऋण त्रिबेट, अनिश्चित क्षेत्रान्तर भूमि
negative definite form		ऋणात्मक निश्चित समघात	<i>negatively rheotactile</i>	<i>Zool</i> ऋणात्मकत धारानुचननी

negative magnetostriction	ऋणात्मक चुम्बकत्व विरूपण	negative skewness	ऋण वैषम्य
negative mass	ऋणात्मक द्रव्यमान	negative staining	नकारात्मक अभिरंजन
negative matrix	ऋणात्मक आव्यूहन	negative test	नेगेटिव परीक्षा
negative modulation	ऋणात्मक मॉड्यूलन, नेगेटिव मॉड्यूलन	negative thermion	ऋण तापायन
negative moment	ऋण आवूर्ण	negative Thomson effect	ऋणात्मक टाम्सन प्रभाव
negative movement	ऋणात्मक गति	negative topographic forms	<i>Geol.</i> अधः स्थलाकृतिक रूप
negative number	ऋण संख्या	negative tract	<i>Geog.</i> अवासित क्षेत्र, अवासित प्रदेश
negative peak modulation	ऋण शिखर मॉड्यूलन	negative transconductance oscillator	ऋणात्मक अन्योन्य चालकता दोलित
negative pedal	ऋण पदिक	negative transmission	<i>Phy.</i> 1. ऋणात्मक संचरण <i>Bot.</i> 2. नकारात्मक संचरण अप्रभावी संचरण
negative phototaxism	ऋणात्मक प्रकाशानुचलता	negative velocity gradient	ऋणात्मक वेग प्रवणता
negative picture modulation	नेगेटिव चित्र मॉड्यूलन	negative viscosity	ऋणात्मक श्यानता
negative picture phase	नेगेटिव चित्र कला	negative volcanic form	ऋणात्मक ज्वालामुखीय रूप
negative plate	नेगेटिव प्लेट	negative wire	ऋण तार
negative plate keeper	नेगेटिव प्लेटवाला	negative zero	ऋणात्मक शून्य
negative pole	ऋण ध्रुव	negator	<i>Math.</i> निषेधक
negative pressure	ऋणात्मक दाब	negatron	<i>Phy.</i> नेगाट्रॉन
negative principal points	ऋणात्मक मुख्य बिंदु	negligible	उपेक्षणीय
negative print	नेगेटिव प्रिंट, नेगेटिव-छाप	Negress	<i>Geog.</i> हवसिन
negative proton	ऋण प्रोटॉन	negretti	<i>H.Sc.</i> निग्रेटो
negative quantify	ऋण राशि	Negrilo	<i>Geog.</i> निग्रियोटो
negative reaction	ऋण अभिक्रिया	Negrilo group	निग्रियोटो वर्ग
negative resistance	ऋण प्रतिरोध	Negrilo life	निग्रियोटो जीवन
negative resistance temperature coefficient	(प्रतिरोध का) ऋणताप गुणांक	Negrilo people	निग्रियोटो जन
negative response	ऋण अनुक्रिया, ऋण प्रति-चेष्टा	Negrilo pygmy	निग्रियोटो पिग्मी
negative result	नकारात्मक परिणाम	Negrilo stock	निग्रियोटो-प्रभव
negative retoucher	नेगेटिव-अनुशोधक	Negro	<i>Geog.</i> नीग्रो (हब्बो)
negative rotational level	ऋणात्मक घूर्णनी स्तर	Negroid	<i>Geog.</i> नीग्रोइड, नीग्रॉयड
negative scribing	नेगेटिव-चित्रण	Negroid facial feature	नीग्रॉयड मुख-लक्षण
negative semi-definite form	ऋणात्मक अर्धनिश्चित समघात	Negroid Papuan	नीग्रॉयड पैपुअन
negative side	ऋण पक्ष	Negroid stock	नीग्रॉयड प्रभव
		Negro tribe	नीग्रो-जनजाति
		Negro village	नीग्रो-ग्राम

negus	<i>Geog.</i>	नीगस	nemacide	<i>Bot.</i>	सूत्रकृमिनाशी
Nehring	<i>Geog.</i>	नेरुंग		<i>Zool.</i>	सूत्रकनाशी
Needle method	<i>Chem</i>	नाइडल विधि	nemaline	<i>Geol</i>	सूत्रमय
neighbourhood	<i>Chem , Math ,Geog</i>	1 प्रतिवेश 2. सामीप्य	<i>Nemalion multifidum</i>	<i>Bot.</i>	नेमैलिआन मल्टीफिडम
neighbourhood axiom		प्रतिवेश-अभिगृहीत	nemalite	<i>Geol</i>	नेमालाइट
neighbourhood base		प्रतिवेश-आधार	nemathecium	<i>Bot</i>	निमाथीतियम
neighbourhood basis		प्रतिवेश-आधार	nemathyome	<i>Zool</i>	नेमैथियोम, सूत्रपुवधर
neighbourhood business street		सामीप्य वाणिज्य-स्ट्रीट	nematic	<i>Chem.</i>	सूत्रित, नेमटिक
neighbourhood store		सामीप्य भंडार	nematicide	<i>Zool</i>	सूत्रकृमिनाशी
neighbourhood sub-base		प्रतिवेश-उपाधार	nematicization	<i>Zool</i>	सूत्रकृमिप्रमन
neighbourhood system		प्रतिवेश निकाय	nematic phase	<i>Phy</i>	नेमैटिक प्रावस्था
neighbourhood unit		सामीप्य एकक	nematoblast	<i>Zool , H Sc</i>	सूत्रकोरक
neighbouring groups		प्रतिवेशी समूह	nematoblastic	<i>Geol</i>	सूत्रज्वास्टी, नेमाटोब्लास्टी
neighbouring levels		प्रतिवेशी तल	Nematocera	<i>Zool</i>	नेमाटोसेरा
neighbouring point		प्रतिवेशी बिंदु, निरुद्धवर्ती बिंदु	nematocide	<i>Bot</i>	सूत्रकृमिनाशी
neighbouring settlement	<i>Geog.</i>	निरुद्धवर्ती बस्ती	nematocyst	<i>H Sc.,Zool</i>	दशकोशिका
neighbours problem		सामीप्य समस्या	Nematocysts	<i>Zool</i>	नेमैटोसिस्टिस
Neill jig	<i>Geol.</i>	नील जिग	nematocyte (cnidoblast)	<i>Zool</i>	शुक्राणु (सूत्रकोरक)
neisseria	<i>Chem</i>	नाइडिरीआ	Nematoda	<i>Zool</i>	नेमाटोटा (सूत्रकृमि सभ)
Neithea	<i>Geol.</i>	नीथिया	nematode	<i>Zool</i>	सूत्रकृमि
*Nekkar (=β Bootis)	<i>Astron.</i>	नेक्कार (=β बोटिस)	nematode vector		सूत्रकृमि रोगवाहक
Nekrassoff's nomograph	<i>Math.</i>	नेकरासाफ सररेखण चाट	nematode wool		सूत्रकृमि ऊर्ण
nckton	<i>Geol.,Geog., Zool</i>	तरणक	nematodiriasis	<i>Zool</i>	निमैटोडाइरिसिस
nektonic animal	<i>Zool</i>	तरणक-प्राणी	nematogen	<i>Zool</i>	निमैटोजन, सूत्रजन
Nelsonia campestris	<i>Bot.</i>	नेल्सोनिया कम्पेस्ट्रिस	<i>Nematogenia panamaensis</i>	<i>Zool</i>	निमैटोजोनिया पना- मेन्सिस
nelsonite	<i>Geol.</i>	नेल्सोनाइट	nematologist	<i>Bot ,Zool</i>	सूत्रकृमिज्ञ
Nelumbium speciosum	<i>Bot</i>	निलम्बियम स्पेसियो- सम	nematology		सूत्रकृमिज्ञान
nema	<i>Zool ,Geol.</i>	नेमा, सूत्रक	nematoparenchy- matous form	<i>Bot</i>	तनु मृदूनकीय रूप
			nematophagous	<i>Zool.</i>	सूत्रकृमिमशी
			nematophore (sarcostyle)	<i>Zool</i>	सूत्रधर (पेशीरन्ध्र), नेमैटोफोर
			nematosis	<i>Bot.,Zool</i>	सूत्रकृमिभ्रान्ति (सूत्रकृमि- भ्रान्ति)
			Nematosporangium	<i>Bot.</i>	नेमैटोस्पोरैंगियम
			nematostat	<i>Bot.</i>	सूत्रकृमि स्थिरकारी

Nematothallus	Bot.	निर्मटोथैलस	neodymium		नियोडिमियम
nematotheca	Zool.	सूत्रप्रावरक	Neofelis nebulosa	Zool.	नियोफ़ेलिस नेबूलोसा
nematozooid	Zool.	सूत्रजीवक	neofucocanthin	Bot.	निओफ्यूकोजैन्थिन
Nemec phenomenon	Bot.	नेमेक प्रक्रम	neogaea	Zool.	निओगिया (निओगेइक परिमंडल)
Nemertine	Zool.	नेमर्टिन	(neogaic realm)		
Nemertinea		नेमर्टिनिया	Neogaeornis	Zool.	निओगिऑर्निस
Nemertini		नेमर्टिनाइ	neogastropod	Zool.	नवजठरपाद, निओगैस्ट्रो-पाँड
Nemestrinidae	Zool.	नेमेस्ट्रिनिडी	Neogene	Geol.	नियोजीन (युग)
nemic	Bot.	सूत्रकृमि संबंधी	neogenic	Geol.	नवजनित
	Zool.	सूत्रकी	Neognathae	Zool.	नियोगनैथी
nemicide	Bot.	सूत्रकृमिनाशी	neoherculin	Chem.	निओहर्कुलिन
nemic index		सूत्रकृमि सूचकांक	neohetramine	Chem.	निओहेट्रैमीन
nemin	Bot.	नेमिन	neohexane	Chem.	निओहेक्सेन
nemo	Phy.	नेमो, बाह्य प्रोग्रामन	neoholotype	Geol.	नवआदिप्ररूप
nemoralis	Bot.	वनवासी	neo-Hookean law	Math.	हुकीयकल्प नियम
nemotinic acid	Chem.	नेमोटिनिक अम्ल	neo-Jurassic	Geol.	नव-जुरैसिक
nemus	Bot.	विवृत वनस्यली, नीमस	neo-Lamarckian school	Bot., Zool.	नव-लामार्कवादी विचार-धारा
Nencki reaction	Chem.	नेन्सकी अभिक्रिया	neo-Lamarckism	Zool.	नव-लामार्कवाद
neoantergan	Chem.	निओएन्टर्गन	Neolan Fast	Chem.	निओलान फास्ट
Neobalaena	Zool.	नियोवैलीना	Neolithic	Geol.	नवपाषाणी
Neobalaena marginata	Zool.	नियोवैलीना मार्जिनेटा	Neolithic age	Geog.	नव प्रस्तर काल
neocarmine	Chem.	निओकार्मीन	Neolithic deposit		नव प्रस्तर निक्षेप
Neocene	Geol.	नियोसीन युग	neo-Malthusianism	Geog.	निओमाल्थसवाद
Neoceratodus	Zool.	नियोसेरैटोडस	neo-Malthusianist		निओमाल्थसवादी
Neoceratodus forsteri		नियोसेरैटोडस फोस्टेरी	Neomenia	Zool.	नियोमीनिया
Neocomian	Geol.	नियोकोमियन	Neomenia carinata	Zool.	नियोमीनिया कैरीनेटा
Neoconocephalus palustris	Zool.	नियोकोनोसिफैलस पलुस्ट्रिस	neomenthol	Chem.	निओमेन्थॉल
neocotype	Geol.	नवग्रहरूप	Neometra	Zool.	निओमेट्रा
neo-cuproin	Chem.	नियोकूप्राइन	neomineralization	Geol.	नवखनिजन
neo-Cuvierian	Zool.	नवकुवियेरवादी	neomorph	Zool.	नवरूप
neo-Darwinian	Zool.	नव डार्विनवादी	neomorphic	Geol.	नवरूपांतरी
neo-Darwinian school		नवडार्विनवादी विचार-धारा	neomorphology	Bot.	नव आकारिकी
neo-Darwinism	Biol.	नवडार्विनवाद	neomorphosis	Zool.	नवोत्पत्ति
neodinoxanthin	Bot.	निओडाइनोजैन्थिन	neo-mutationist	Bot., Zool.	नव-उत्परिवर्तनवादी
			neomycin	Chem.	निओमाइसिन
			neon	Chem.	निऑन

neonatal	Zool., H.Sc.	नवजात	neotechnic era	Geog.	नव-तकनीकी काल
neonatal mortality		नवजात मर्त्यता	neotechnique		नव-तकनीक
neonate	Zool.	नवशाव	neoteinic	Zool.	नववर्धित
neonatus	Zool.	नवजात	neotenous	Zool.	चिरदिम्भीय
neonicotine	Chem.	निओनिकोटोन	neoteny	Bot., Geol., Zool.	1 चिरदिम्भता 2 चिरभ्रूणता
neon-lamp		निऑन लैम्प	Neotermes	Zool.	निओटर्मोस
neon oscillator		निऑन दोलित्त	neothalamus	Zool.	नवचेतक
neon stabilizer		निऑन स्थायीकारी	neotigogenin	Chem.	नीओटिगोजेनिन
neontological	Zool.	नवजीवविज्ञानीय	neofocite	Geol.	नियोटोमाइट
neontologist		नवजीवविज्ञानी	Neofremata		नियोट्रेमेटा
neontology	Zool., Geol.	नवजीवविज्ञान	Neotropical	Geog.	निओट्रोपिकल, नवोष्ण- कटिबंधी
neon tubing	Phy.	निऑन नलिका स्थापन, निऑन ट्यूबिंग	Neotropical realm	Zool.	नियोट्रोपिकल परिमंडल
neowenian	Zool.	नवओवेनवादी	neotropical region		नियोट्रोपिकल प्रदेश, नवोष्णकटिबंधी प्रदेश
Neo-Palaeozoic	Geol.	नवपुराजीवी	Neottia	Bot.	नियोटिया
neopallium	Zool.	नवप्रावार	neotype	Geol., Zool.	नवप्ररूप
neoparatype	Geol.	नवानुप्ररूप	neotypologist	Zool.	नवप्ररूपविज्ञानी
neopentane	Chem.	निओपेन्टेन	neovirus	Zool.	नवविषाणु
neopentyl alcohol	Chem.	निओपेन्टिल ऐल्कोहॉल	neovitamin	Zool.	नवविटामिन, नियोविटामिन
neopentyl rearrangement	Chem.	निओपेन्टिल पुनर्व्यवस्था	neovitamin A		नियोविटामिन A
neophyl radical	Chem.	निओफिल मुलक	neovolcanic	Geol.	नवज्वालामुखीय
neophyte	Bot.	नवोद्भिद्	neovolcanic rock		नवज्वालामुखीय शैल
Neopifina	Zool.	निओपिफिलिना	neo-volcanism		नवज्वालामुखी क्रिया
neoplasia	Zool.	अर्बुदता	Neovossia indica	Bot.	निओवोसिया इन्डिका
neoplasm	Zool.	नवद्रव्य	neoxanthin	Bot.	निओजेन्थिन
neoplastic	Zool.	अर्बुदीय, नवद्रव्यीय	Neozoa	H.Sc.	नीओजा
neoplastic disease		अर्बुदीय रोग	Neozoic	Geol.	निओजोइक
neoprene	Chem., Phy.	निओप्रोन	nep	H.Sc.	नेप, छोटी मंड
Neopterygil	Zool.	नियोप्टेरीजाई	Nepa	Zool.	नेपा
neopyrithiamine	Chem.	निओपिरिथियामिन	Nepenthaceae	Bot.	नेपेन्थेसी
Neornithes	Zool.	नियोर्निसीज	nepenthes	Bot.	नेपेन्थोस, घटपर्णी
neosalvarsan	Chem.	निओसैल्वरसैन	Nepenthus ampullaria		नेपेन्थस एम्पुलरिया
Neosporidia	Zool.	नियोस्पोरिडिया	neper	Phy.	नेपर
neossoptile (neoptile)	Zool.	निओसॉप्टाइल, शावकिन्ठ	Nepeta cataria	Chem.	नेपेटा कैटेरिया
neosyl	Chem.	निओसिलिन	nepetic acid	Chem.	नेपेटिक अम्ल
neotaxonomy	Bot.	नव वर्गीकी			



<i>Nephantis serinopa</i>	Zool.	नेफ्रेण्टिस सेरीनोपा	nephritis	Zool., H.Sc.	वृक्कशोथ
nephelauxetic effect	Chem.	नेफेलाँक्सेटिक प्रभाव, अभ्रप्रसरण प्रभाव	nephritoid	Geol.	नेफ्रोटाँइड
nepheline	Geol.	नेफलिन	nephroblast	Zool.	वृक्ककोरक
nepheline basalt family		नेफलिन बेसाट्ट कुल	Nephrochytrium	Bot.	नेफ्रोकिट्रियम
nepheline syenaite		नेफलिन सायनाइट	nephrocyte	Zool.	नेफ्रोसाइट, वृक्ककोशिका
nephelinite	Geol.	नेफेलिनाइट	Nephrodium	Bot.	नेफरोडियम
nephelite	Geol.	नेफेलाइट	nephrogenic cord	Zool.	वृक्कजन रज्जु
<i>Nephelium lappaceum</i>	Bot.	नेफेलियम लेपेसियम	nephrogenous	Zool.	वृक्कजनक
<i>Nephelium longana</i>		नेफेलियम लोंगाना	(= nephrogenic)		
nephelometer		नेफेलोमीटर	nephrogenous tissue	Zool.	वृक्कजनक ऊतक
nephelometric analysis	Chem.	नेफेलोमितीय विश्लेषण, आविलतामितीय विश्लेषण	nephroid	Bot.	वृक्काभ
nephelometrically		नेफेलोमितीयतः, आविलतामितीयतः	nephrolepidine	Geol.	नेफोलेपिडिनासम
nephelometric endpoint		आविलतामितीय अंत्य बिन्दु, नेफेलोमितीय अंत्य बिन्दु	nephrolepidine embryonic apparatus	Geol.	नेफोलेपिडिन भ्रूणीय उपकरण
nephelometric method		नेफेलोमापी पद्धति, आविलतामापी पद्धति	Nephrolepis	Bot.	नेफोलेपिस
nephelometry		आविलतामिति	<i>Nephroma laevigatum</i>	Bot.	नेफ्रोमा लीवीगेटम
nephology	Geog.	मेघविज्ञान, नभोविज्ञान	nephromixium	Zool.	वृक्ककामिश्र
nephometer	Bot.	नभोमापी, मेघमापी	<i>Nephromopsis stracheyii</i>	Bot.	नेफ्रोमॉप्सिस स्ट्रेकिआई
nephoscope	Phy., Geog.	नभोदर्शी, मेघदर्शी	nephron	Zool.	नेफ्रोन, वृक्काणु
nephridial aperture	Zool.	वृक्कक छिद्र	nephro-peritoneal sac	Zool.	वृक्क-पर्युदर्या गोणी
nephridial canal		वृक्कक नाल	Nephrops	Zool.	नेफ्रॉप्स
nephridial complex		वृक्कक पुंज	<i>Nephrops norvegicus</i>	Geog.	नेफ्रॉप्स नॉर्वेजिकस
nephridial gland		वृक्कक ग्रंथि	nephrosclerosis	H.Sc.	वृक्क काठिन्य
nephridial plexus		वृक्कक जालक	nephrosis	Chem.	अपवृक्कता
nephridial system		वृक्कक तंत्र	nephrosonephritis	Zool.	अपवृक्कताशोथ
nephridial tube		वृक्कक नलिका	nephrostome	Zool.	वृक्ककमुख
nephridial vessel		वृक्कक वाहिका	nephroteloblast	Zool.	वृक्कतकोरक
nephridioblast	Zool.	वृक्कककोरक	nephrotome	Zool.	नेफ्रोटोम, आदिवृक्क खंड
nephridiopore	Zool.	वृक्ककरन्ध्र	Nepidae	Zool.	नेपिडी
nephridiostome	Zool.	वृक्कक मुख	nepionic chamber	Geol.	भ्रूणोत्तर कोष्ठ
nephridium	H.Sc., Zool.	नेफ्रीडियम, वृक्कक	nepionic chamber septa	Geol.	भ्रूणोत्तर कोष्ठ पट
nephrite	Geol.	नेफ्राइट	nepionic stage	Geol.	भ्रूणोत्तर अवस्था
			neppy cotton	H.Sc.	नेपी कपास
			neptunate	Chem.	नेप्ट्यूनेट
			Neptune	Astron.	नेप्ट्यून

Neptunea	Bot	नेप्ट्यूनिया	neritic waters		नेरिटाबनी जल
<i>Neptunea oleracea</i>	Bot	नेप्ट्यूनिया ऑलिरैसिया	neritic zone	Geol	नेरिटाबल
Neptune's cup	Zool.	नेप्ट्यून चषक	neritopelagic	Zool	नेरिटाबनी बेलापवती
Neptune's goblet	Zool	नेप्ट्यून श्लेष्मा	<i>Nerium odorum</i>	Bot	नीरियम ओडोरम (कनेर)
neptunian dyke	Geol	समुद्री भित्ति, समुद्री डाइक	<i>Nerium oleander</i>		नीरियम ओलिण्डर (कनेर)
neptunic rock	Geol	समुद्री शैल	Nernst apparatus	Chem, Phy.	नेन्स्ट उपकरण
neptunism	Geol, Geog	जनवाद	Nernst calorimeter		नेन्स्ट ऊष्मामापी, नेन्स्ट कॅलारीमीटर
neptunist	Geol, Geog	जनवादी	Nernst effect		नेन्स्ट प्रभाव
neptunium	Chem	नेप्टूनियम	Nernst equation		नेन्स्ट समीकरण
<i>Neptunus pelagicus</i>	Zool.	नेप्टूनस पेलैजिकस	Nernst filament		नेन्स्ट तन्तु
<i>Neptunus sanguinolentus</i>		नेप्टूनस सैंगुई- नोलेन्टस	Nernst heat theorem		नेन्स्ट ऊष्मा प्रमेय
neptunyl	Chem.	नेप्ट्यूनिल	Nernst lamp		नेन्स्ट लैम्प, नेन्स्ट दीप
nep yarn	H Sc.	नेपयूत्र	Nernst potential		नेन्स्ट विभव
neral	Chem.	नेरैल	Nernst's distribution law		नेन्स्ट वितरण नियम
neriid community	Bot.	शैवाल समुदाय	Nernst's theory		नेन्स्ट सिद्धान्त
nerieider	Bot	धारा शैवाल	Nernst Thomson rule		नेन्स्ट टॉमसन नियम
Nereis	Zool.	नेरीस	nerol	Chem.	नेरोल
<i>Nereis cultrifera</i>	Geog.	नेरीस कल्द्रीफेरा	nerolidol	Chem.	नेरोलिडॉल
<i>Nereis diversicolor</i>	Zool	नेरीस डाइवरसिकलर	nerolin	Chem.	नेरोलिन
<i>Nereis limnicola</i>		नेरीस लिम्नीकोला	neroli oil	Chem., H.Sc.	नारण पुष्प तेल, नेरोलिन तेल
nerelite	Geol.	नेरेआइट	neroli pastry	H.Sc.	नेरोलिन वेस्ट्री
<i>Nereocystis luteana</i>	Bot	नीरिओसिस्टिस ल्यूकेआना	Nertalic process	Chem.	नेर्टैलिक प्रक्रम
neriantigenin	Chem	नेरिएन्टिजेनिन	nervation	Bot.	शिरा विन्यास
neriantin	Chem	नेरिएन्टिन	nerve	H.Sc., Zool.	तन्त्रिका
nerj silk	H Sc.	नेरी रेशम	nerve cell		तन्त्रिका कोशिका
Nerita	Geog., Geol.	नेरिटा	nerve centre		तन्त्रिका केंद्र
<i>Nerita globosa</i>		नेरिटा ग्लोबोसा	nerve collar		तन्त्रिका कॉलर
<i>Nerita ustulata</i>		नेरिटा उस्तूलैटा	nerve cord		तन्त्रिका रज्जु
neritic	Geog, Geol, Zool	नेरिटाबली	nerve fibre		तन्त्रिका तन्तु
neritic biochore		नेरिटाबली जीवभौमा	nerve ganglion		तन्त्रिका गुच्छिका
neritic fauna		नेरिटाबली प्राणिजगत	nerve net		तन्त्रिका जाल
neritic plankton		नेरिटाबली प्लवक	nerve plexus		तन्त्रिका जालक
neritic province		नेरिटाबली क्षेत्र	nerve ring		तन्त्रिका बलय

nervicolous	<i>Bot.</i>	शिरावासी	nesting cover		नीडन आवरण
nervon	<i>Chem.</i>	नर्वॉन	nesting cycle		नीडन चक्र
nervonic acid	<i>Chem.</i>	नेर्वॉनिक एसिड	nesting habit		नीडन स्वभाव
nervosa	<i>Zool.</i>	तंत्रिकांश	nesting of subroutines	<i>Math.</i>	उपनित्यक्रमों का समावेशन
nervous	<i>Zool.,H.Sc.</i>	तंत्रिकीय, तंत्रिक	nesting season	<i>Zool.</i>	नीडन ऋतु
nervous impulse		तंत्रिक आवेग	nesting site		नीडन स्थल
nervous inhibition		तंत्रिक संदमन	nestling	<i>Zool.</i>	नीड-शावक, नीडक
nervous stimulation		तंत्रिक उद्दीपन	nestling downs	<i>Zool.</i>	शावपिच्छ (नीड शावक पिच्छ)
nervous system	<i>Zool.</i>	तंत्रिका तंत्र	nestling plumage	<i>Zool.</i>	शावपक्षति, (नीड शावक पक्षति)
nervous tissue		तंत्रिका ऊतक	Nestorian church	<i>Geog.</i>	नेस्टोरियन चर्च
nervule	<i>Zool.</i>	शिरांत	nestorite	<i>Chem.</i>	नेस्टोराइट
nervure	<i>Zool.</i>	शिरा	nest site	<i>Zool.</i>	नीड-स्थल
nervus connectivus	<i>Zool.</i>	तंत्रिक संयोजी	net	<i>H.Sc.</i>	1. (n.) जाल, जाली 2. (adj.) नेट
Nesbitt's process	<i>Chem.</i>	नेसबिट प्रक्रम	net apron	<i>Geog.</i>	जाल-ऐप्रॉन
nesistor	<i>Phy.</i>	नेसिस्टर	net bonding	<i>Chem.</i>	नेट बंधन
nesquehonite	<i>Chem.</i>	नेस्केहोनाइट	net canvas		नेट कैनवास
ness	<i>Geog.,Geol.</i>	अंतरीप	net charge		नेट चार्ज
Nesslerimeter	<i>Chem.</i>	नेस्लरीमापी	net culturable area		नेट कृष्य क्षेत्र
nesslerization	<i>Chem.</i>	नेस्लरन	net current density		नेट धारा घनत्व
Nessler reaction		नेस्लर अभिक्रिया	net earning		नेट उपार्जन, नेट कमाई
Nessler's reagent		नेस्लर अभिकर्मक	net flow		नेट प्रवाह
Nessler tube		नेस्लर नलिका, नेस्लर नाल	net gain		नेट लाभ
nest	<i>Zool.</i> <i>Math.</i>	नीड, घोंसला नीड	nether formed		अधस्थ निर्मित
nest characterisation		नीड-लक्षणणीकरण	net income		नेट आय, नेट आमदनी
nested base		नीडित आधार	net increase		नेट वृद्धि
nested caldera	<i>Geol.,Geog.</i>	जटिल ज्वालामुखी कुंड, आंतर ज्वालामुखी कुंड	net leno		नेट लीनो
nested crater		आंतर क्रेटर, जटिल क्रेटर	net mass flow		नेट द्रव्यमान प्रवाह
nested multiplication		नीडित गुणन	net moment		नेट आघूर्ण, अवशिष्ट आघूर्ण
nested sampling		1. बहुक्रम प्रतिचयन 2. समावेशी प्रतिचयन	net necrosis	<i>Bot.</i>	जालाभ क्षय
nested volcano		जटिल ज्वालामुखी, आंतर ज्वालामुखी	net of Tchebychev		शेबीशेव का जाल
nest feeding	<i>Zool.</i>	नीडाशन	net plane		जाल समतल
nesting	<i>Zool.,Geog.</i>	नीडन	net plasmodium		जालाभ प्लैज्मोडियम
nesting behaviour		नीडन व्यवहार	net price		नेट मूल्य, नेट कीमत
nesting bird		नीडन पक्षी	net production		नेट उत्पादन

net profit		नेट लाभ	neural crest		तंत्रिक शिखर
net protoplankton	Zool.	जाल आदिप्लवक	neural groove		तंत्रिक खांच
net reproduction rate		नेट जनन दर	neural inhibition		तंत्रिक सद्मन
netropsin		निट्रॉप्सिन	neural keel		तंत्रिक नौतल
net shift		नेट विस्थापन	neural net		तंत्रिक जाल
net silk		नेट रेशम	neural plate		तंत्रिक पट्ट
net slip		नेट सर्पण	neural region		तंत्रिक क्षेत्र
nett (silk)	Chem. (Text)	सतत तन्तु (कौशेय)	neural spine		तंत्रिक कटक
netting	H.Sc	1. जाली लगाना 2. जाली से पकड़ना	neural zygapophysis		तंत्रिक योजिकाबंध
nettle	H.Sc.	बिच्छू बूटी, नेटल	neuraminic acid	Chem	न्यूरैमिनिक अम्ल
nettle cell (nematocyst)	Zool, Geol.	दश कोशिका (सूत्रपुटी)	neuraminidase	Chem.	न्यूरैमिनिडेस
nettle cloth	H.Sc.	नेटल वस्त्र	neurapophysis	Zool. Geol.	तंत्रिवर्ध तांत्रिकीय त्रिवर्ध
nettle fibre	H.Sc.	नेटल रेशा	neurasthenia	Chem.	न्यूरैस्थिनिया, तंत्रिका- बलाद, तन्त्रिकादीर्घस्य
nettle ring	Zool	दश वलय	neururation	Zool.	शिराविन्यास
nettling	Zool	दशन	neuraxon	Zool.	तंत्रिकाश, न्यूरैक्सॉन
net value		नेट मूल्य, नेट कीमत	neurenteric canal	Zool.	तंत्रिकाद्व नाल
net veined		जाल शिराल	neurenteron	Zool.	न्यूरैन्टेरोन, तंत्रिकाद्व
network		जाल (परिपथ)	neurilemma	Zool.	तंत्रिकाच्छद
network analogue		परिपथ जाल अनुरूप	neurine	Chem	न्यूरिन
network analyser		जाल विश्लेषक, परिपथ जाल विश्लेषक	neuristor	Phy.	न्यूरिस्टर
network analysis		परिपथ जाल विश्लेषण	neurite	Zool.	तंत्रिकावर्ध, न्यूरैश्ट
network constant		जाल स्थिरांक	neuritis	H.Sc.	तंत्रिकाशोथ
network element		जाल तत्व, जाल अवयव	neuroanatomist	Zool.	तंत्रिकाशास्त्रीरज्ञ
network game		जालक्रीडा	neuroanatomy		तंत्रिकाशास्त्री
network nebula		जाल नौहारिका	neurobiotaxis	Zool	तंत्रिकीयानुचलन
network of streams		सरिता-जाल	neuroblast	Zool.	तंत्रिकोरक
network synthesis		परिपथ जाल संश्लेषण	neuroblast cell		तंत्रिकोरक कोशिका
Neumann band	Chem.	नॉयमान बैंड, नॉयमान पट्टी	neurocentral suture	Zool.	तंत्रिकाद्वय सीवन
Neumann boundary condition		नॉयमान का परिधीय प्रतिबंध	neurocoel	Zool	तंत्रिकागुहा, न्यूरोगोत्र
Neumann expansion		नॉयमान-विस्तारण	neurocord	Zool.	प्रातंत्रिकारज्जु
Neumann's potential		नॉयमान विभव	neurocranium	Zool	तंत्रिका-कपाल
neural	Zool.	तंत्रिक	neurodermal receptor	Zool.	तंत्रिकाचर्मीय शरी
neural arch		तंत्रिक चाप	neurofibril	H.Sc, Zool	तंत्रिका-सतुल, न्यूरोग्लाइन्
neural canal		तंत्रिक नाल	neurogenic	Zool.	तंत्रिकाजन
			neuroglia	Zool, H.Sc.	तंत्रिकवर्ध

neuroglia cell		तंत्रिवंध कोशिका	neuropil	Zool.	न्यूरोपिल, तंत्रिकोर्ण (तंत्रिका ऊर्ण)
neurohormonal mechanism	Zool.	तंत्रिकाहॉर्मोनी क्रियाविधि	neuropile	Zool.	तंत्रिकापुंजक
neurohormone	Chem.	न्यूरोहॉर्मोन	neuropiasm	Zool.	तंत्रिकाद्रव्य
neurohumor	Zool.	तंत्रिकोद, न्यूरोह्यूमर	neuropod	Zool.	निम्नपाद, न्यूरोपाँड
neurohumoralism	Zool.	न्यूरोह्यूमोरेलिज्म, तंत्रिकोदता	neuropophysis	Zool.	न्यूरोपोफिसिस, तंत्रिका- चापवर्ध
neurohypophysis	Zool.,H.Sc.	तंत्रिका हाइपोफिसिस	neuropore	H.Sc.,Zool.	तंत्रिकारंध्र, न्यूरोपोर
neurokeratin	Chem.	न्यूरोकेराटिन	Neuroptera	Zool.	न्यूरोप्टेरा
neurolemma	Zool.,H.Sc.	तंत्रिकाच्छद, न्यूरोलेमा	neuropteran	Zool.	तंत्रिपंखी
neurological	H.Sc.	तंत्रिकीय	Neuropteris	Bot.	न्यूरोप्टेरिस
neurology	Zool.	न्यूरोलॉजी, तंत्रिकाविज्ञान, तंत्रिकी	Neuropteris heterophylla		न्यूरोप्टेरिस हेटेरोफिला
neurolymphoma	Zool.	तंत्रिलसीकार्बुद	neurosecretion	Zool.	तंत्रिकान्नाव
neurolymphomatosis	Zool.	तंत्रिलसीकार्बुदता	neurosecretory cell		तंत्रिकान्नावी कोशिका
neuromasts (sensory papillae)	Zool.	तंत्रिका-पैपिला, न्यूरोमैस्ट	neurosensory	Zool.	तंत्रिकासंवेदी
neuromere	Zool.	तंत्रिकाखंड	neurosensory cell		तंत्रिकासंवेदी कोशिका
neuromotor apparatus	Zool.	तंत्रिकाप्रेरक उपकरण	neurosensory system		तंत्रिकासंवेदी तंत्र
neuromotor fibril		तंत्रिकाप्रेरक तन्तुक	neurosis	H.Sc.	न्यूरोसिस, विक्षिप्ति
neuromotorium	Zool.	तंत्रिकाप्रेरक पुंज	neurospora	Chem.	न्यूरोस्पोरा
neuromotor mechanism		तंत्रिकाप्रेरक क्रियाविधि	Neurospora tetra- sperma		न्यूरोस्पोरा टेट्रास्पेर्मा
neuromotor system		तंत्रिकाप्रेरक तंत्र	neurotoxic	Zool.	तंत्रिआविपी
neuromuscular	Zool.	तंत्रिकापेशीय	neurotoxic effect		तंत्रिआविपी प्रभाव
neuromuscular mechanism		तंत्रिकापेशीय क्रियाविधि	neurotoxin	Zool.	तंत्रिआविप
neuromuscular transmission		तंत्रिकापेशीय संचरण	neurotropic	Bot.,Zool.	1. तंत्रिकानुवर्ती 2. तंत्रिकाप्रभावी
neuromuscular tremor		तंत्रिकापेशी कम्प	neurotropic strain		तंत्रिकाप्रभावी विभेद
neuron	Zool.	तंत्रिकोशिका	neurotropism	Zool.	तंत्रिकानुवर्तन
neuroneme	Zool.,H.Sc.	न्यूरोनीम, तंत्रिकानूत्र	neurovirulence	Zool.	तंत्रिकाउग्रता
neuroneme system		न्यूरोनीम तंत्र, तंत्रिकासूत्र तंत्र	neurovirulent strain	Zool.	तंत्रिकाउग्र विभेद
neuronephroblast	Zool.	तंत्रिकावृक्कोरक	neurula	Zool.	न्यूह्ला
neuropathogenicity	Zool.	तंत्रिरोगजनकता	neurulation	Zool.	तंत्रिकाभवन
neurophysiological mechanism	Zool.	तंत्रिकायिकी क्रियाविधि	neuston	Zool.	पटलक
			neuter		नपुंसक
			neutral	Math.,Phy. Geog.,Geol. H.Sc.	उदासीन मध्यसिलिक निष्प्रभावी
			neutral atom	Phy.	अनाविष्ट परमाणु

neutral axis		उदासीन अक्ष	neutralising power		निष्प्रभावन क्षमता
neutral axis of flexure		उदासीन आनमन-अक्ष	neutralising voltage		निष्प्रभावन वोल्टता
neutral burning		उदासीन ज्वलन	neutrality	Phy.	उदासीनता
neutral colloid		उदासीन कोलॉइड	neutral jog		उदासीन जॉग, उदासीन प्लुति
neutral combination		अनावेशी संयोजन	neutral line		उदासीन रेखा
neutral conductor		उदासीन चालक	neutral loading		उदासीन उद्भारण
neutral defect		अनाविष्ट त्रुटि	neutral meson	Phy.	अनाविष्ट मेसॉन, आवेशहीनमे सॉन
neutral density filter	Phy.	वर्ण निरवेष क्लिटर	neutral mode of disturbance		उदासीन विक्षोभ विधा
neutral disturbance		उदासीन विक्षोभ	neutral negative ion		उदासीन ऋणात्मक आयन
neutral equilibrium		उदासीन सतुलन, उदासीन साम्य	neutral oxide		उदासीन आक्साइड
neutral estuaries	Geol	मिथलवणीय ज्वारनदमुख	neutral pi-meson		आवेशहीन पाई मेसॉन
neutral flower	Bot.	बध्य पुष्प	neutral plane		उदासीन समतल
neutral fold		न्युट्रल बलन	neutral point		उदासीन बिंदु
neutral fraction		उदासीन प्रभाज	neutral red		न्युट्रल रेड, न्युट्रल रबन
neutral glass		उदासीन काँच, तटस्थ काँच	neutral reflection		उदासीन परावर्तन
neutral grassland	Geog.	मध्यक घामस्थल	neutral rock		मध्यमिलिक शील
neutral hue		उदासीन प्रवर्ण	neutral salt		उदासीन लवण
neutral index		उदासीन सूचक	neutral salt effect		उदासीन लवण प्रभाव
neutral instability		उदासीन अस्थिरता	neutral salt error		उदासीन लवण त्रुटि
neutral interaction		उदासीन परस्परक्रिया	neutral shoreline		निष्प्रभावित तटरेखा
neutralisability		उदासीनीकरणक्षमता	neutral soil		उदासीन मिट्टी
neutralisation		1 उदासीनीकरण, उदासन 2. निष्प्रभावन	neutral solution		उदासीन विलयन
neutralisation curve		उदासीनीकरण वक्र	neutral stability		उदासीन स्थायित्व
neutralisation hypothesis		उदासीनीकरण परिकल्पना	neutral stability curve		उदासीन स्थायित्व वक्र
neutralisation number		उदासीनीकरण अंक	neutral subsonic disturbance		उदासीन अलघ्वनिक विक्षोभ
neutralisation test		उदासीनीकरण परीक्षण	neutral surface		उदासीन पृष्ठ
neutralise		उदासीन करना, निष्प्रभावन करना, निराकरण करना	neutral temperature		उदासीन ताप
neutralised push pull circuit	Phy.	निष्प्रभावित धर्षापर्यायी परिपथ	neutral-tinted tamarisk	Geog.	निरंगी तामरक
neutraliser	Chem., H Sc.	उदासीनित्र, निष्प्रभावनक	neutral wire		उदासीन तार
neutralising coil	Phy.	निष्प्रभावन कुंडली	neutral zone	Geog.	तटस्थ कटिबंध, निष्प्रभावन क्षेत्र
			neutretto	Chem.	न्युट्रेटो
			neutriflorus	Bot	नयुनकफुलकी
			neutrino	Phy, Chem	न्युट्रिनी

neutrodyne	<i>Phy.</i>	न्यूट्रोडाइन	neutron number	न्यूट्रॉन संख्या
neutrodyne circuit		न्यूट्रोडाइन परिपथ	neutron Physics	न्यूट्रॉन भौतिकी
neutrodyne system		न्यूट्रोडाइन विधि	neutron proton model	न्यूट्रॉन-प्रोटॉन मॉडल, न्यूट्रॉन-प्रोटॉन प्रतिरूप
neutron	<i>Chem., Phy.</i>	न्यूट्रॉन	neutron recoil counter	न्यूट्रॉन प्रतिक्षिप्त गणित
neutron age		न्यूट्रॉन वय, फर्मी एज	neutron recoil particle	न्यूट्रॉन-प्रतिक्षिप्त कण
neutron attenuation		न्यूट्रॉन क्षीणन	neutron rich	न्यूट्रॉन समृद्ध
neutron bombarding		न्यूट्रॉन वमवारी	'I' neutron	'I' न्यूट्रॉन
neutron booster		न्यूट्रॉन बूस्टर	neutron scattering	न्यूट्रॉन प्रकीर्णन
neutron chain reaction		न्यूट्रॉन शृंखला लभिक्रिया	neutron selection	न्यूट्रॉन वरण
neutron cross-section		न्यूट्रॉन परिक्षेत्र, न्यूट्रॉन प्रायिकता क्षेत्र	neutron source	न्यूट्रॉन उद्गम
neutron cycle		न्यूट्रॉन इतिवृत्त	neutron spectrometer	<i>Phy.</i> न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमामी, न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर
neutron decay		न्यूट्रॉन क्षय	neutron temperature	<i>Phy.</i> न्यूट्रॉन ताप
neutron degradation		न्यूट्रॉन नीचीकरण	neutron tight	<i>Chem.</i> न्यूट्रॉन रुद्ध
neutron density		न्यूट्रॉन घनत्व	neutron-transmutation	<i>Phy.</i> न्यूट्रॉनी तत्वांतरण
neutron detector		न्यूट्रॉन संसूचक	neutron yield	<i>Phy.</i> न्यूट्रॉन उत्पादन, न्यूट्रॉन उत्पाद
neutron diffusion		न्यूट्रॉन विसरण	neutropause	<i>Phy.</i> उदासीन मंडल सीमा
neutron dosage		न्यूट्रॉन डोज	neutrophile	<i>Zool.</i> न्यूट्रोफाइल, उदासीनरंजी
neutron economy		न्यूट्रॉन मितव्यय	neutrosphere	<i>Phy.</i> उदासीन मंडल
neutron effect		न्यूट्रॉन-प्रभाव	Nevadan orogeny.	<i>Geol.</i> नेवादा-पर्वतन
neutron energy group		न्यूट्रॉन ऊर्जा वर्ग	nevados	<i>Geog.</i> निवादोज (पवन)
neutron excess		न्यूट्रॉन आधिक्य	Nevalina's theorem	<i>Math.</i> नेवालिना प्रमेय
neutron excess number		न्यूट्रॉन आधिक्यांक	nevascreen	<i>Phy.</i> नेवार-परदा
neutron flux		न्यूट्रॉन फ्लक्स	neva wet	<i>H.Sc.</i> नेवा वेट
neutron gamma log		न्यूट्रॉन गामा संलेख	neve	<i>Geol.</i> नेवे, कणहिम
neutron half life		न्यूट्रॉन की अर्ध आयु	neve-field level	<i>Geol.</i> कणहिम क्षेत्र तल
neutron hardening		न्यूट्रॉन कठोरीकरण	neveification	<i>Geog.</i> नेवेमवन
neutron multiplication factor		न्यूट्रॉन संवर्धन गुणक	neve line	<i>Geol.</i> कणहिम रेखा
neutron lethargy		न्यूट्रॉन लेथार्जी	Nevile-Winther's acid	<i>Chem.</i> नेविल-विन्टर अम्ल
neutron lifetime		न्यूट्रॉन आयु	Néville resin	<i>Chem.</i> नेविल रेजिन
neutron log		न्यूट्रॉन संलेख	nevindene	<i>Chem.</i> नेविन्डीन
neutron logging		न्यूट्रॉन संलेखन	<i>Nevskia ramosa</i>	<i>Bot.</i> नेव्सकिया रैमोसा
neutron logging method		न्यूट्रॉन संलेखन पद्धति	new born	<i>H.Sc.</i> नवजात
neutron monochromator		न्यूट्रॉन मॉनोक्रोमेटर	new born infection period	<i>H.Sc.</i> नवजात संक्रमण काल
			Newburg sauce	<i>H.Sc.</i> न्यूबर्ग सॉस

Newcomb's operator	<i>Math.</i>	न्यूकोम संकारक	Newton's divided difference formula		न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र
new folder		नई विस्द, नया फोल्डर	Newton's equation		न्यूटन समीकरण
Newhouse crusher	<i>Geol.</i>	न्यूहाउस दलित	Newton's identities		न्यूटन की सर्वसमिकाएँ
new ice	<i>Geog.</i>	नवीन बर्फ	Newton's law of cooling		न्यूटन का शीतन नियम
New Jersey process	<i>Chem.</i>	न्यूजर्सी प्रक्रम	Newton's laws of motion		न्यूटन के गति-नियम
New Jersey tea	<i>H Sc.</i>	न्यूजर्सी चाय	Newton's ring	<i>Phy.</i>	न्यूटन वलय
Newland's law of octaves		न्यूलेंड का अष्टक नियम	Newton static theory	<i>Chem</i>	न्यूटन का स्थैतिकवाद
newloy	<i>Chem.</i>	न्यूलॉय	Newzealand cotton	<i>H Sc</i>	न्यूजीलैंड कपास
Newman projection	<i>Chem.</i>	न्यूमन प्रक्षेप	Newzealand flax		न्यूजीलैंड फ्लैक्स
Newman's rule of six	<i>Chem.</i>	न्यूमन षट् नियम	Newzealand (will)		न्यूजीलैंड दूबील
new moon	<i>Astron.</i>	नयावस्था, नवचन्द्र	Newzealand wool		न्यूजीलैंड ऊन
newscast	<i>Phy.</i>	समाचार प्रसारण	nexine	<i>Bot</i>	अधोबाह्य चोल
newscaster	<i>Phy.</i>	समाचार प्रसारक	next immediate neighbour	<i>Phy.</i>	द्वितीय आसन्न प्रतिवेशी
news ink	<i>Chem.</i>	समाचार स्याही, समाचार मती	nexus	<i>Bot.</i>	सधि
newspaper circulation area	<i>Geog.</i>	समाचार पत्र वितरण क्षेत्र	nexus of communication	<i>Geog</i>	संचार सम्पर्क
newspaperman		पत्रकार	Neyman allocation	<i>Math.</i>	नेमेन नियतन
newsprint	<i>Geog</i>	अध्वारी कागज	Neyman Pearson theory		नेमेन-पियर्सन-सिद्धान्त
new stone age	<i>Geog.</i>	नवपाषाण काल	n'hangellite	<i>Geol.</i>	एन्हंगेल्लिट
new survey	<i>Geog.</i>	नया सर्वेक्षण	n-heptoic acid	<i>Chem.</i>	n-हेप्टोइक अम्ल
new systematics	<i>Zool</i>	नववर्गीकरण पद्धति	niacin	<i>Chem.</i>	नियामीन
newt	<i>Zool</i>	न्यूट	niacinamide		नियामीनऐमाइड
Newth's method	<i>Chem.</i>	न्यूथ पद्धति	Niagara screen	<i>Geol</i>	नियोगेरा छन्ना
Newth's ozone apparatus		न्यूथ ओजोन उपकरण	niaye	<i>Geog.</i>	निआये
Newtonian concepts	<i>Phy., Chem</i>	न्यूटनी धारणाएँ	nib	<i>Geog.</i>	निब
Newtonian flow		न्यूटनी प्रवाह	nibbit	<i>H.Sc.</i>	निबिट
Newtonian fluid		न्यूटनी तरल	nibblending	<i>Chem.</i>	समिश्रण
Newtonian liquid		न्यूटनी द्रव	nibbling	<i>H Sc.</i>	बहुवार आहार
Newtonian mechanics		न्यूटनी यांत्रिकी	nicaloy	<i>Chem.</i>	निकालॉय
Newtonian potential energy		न्यूटनी स्थितिज ऊर्जा	ni-carbing	<i>Chem.</i>	नाइकार्बिंग
Newtonian 'putty ball' model		न्यूटनी 'पुटीबाल' मॉडल	Nicare process	<i>Chem.</i>	निकेरो प्रक्रम, निकल उपनविद्य प्रक्रम
Newtonian telescope		न्यूटनी दूरबीन, न्यूटनी दूरदर्शक	niccoliferous	<i>Geol.</i>	निकोलिफेरोस
Newtonian transformation		न्यूटनी रूपांतरण	niccolite	<i>Geol.</i>	निकोलिट



nich	<i>Geol.</i>	निच, भित्तिगत	nickel ware	<i>H.Sc.</i>	निकैल पात्र
niche	<i>Bot.</i>	कर्मस्थिति, कर्मता	nickling	<i>Chem.</i>	अवच्छेदन
	<i>Zool.</i>	निकेत	nickoline	<i>Chem.</i>	निकोलीन
niche glacier	<i>Geol., Geog.</i>	गतस्थ हिमानिका	nickpoint	<i>Geog.</i>	निकप्पाइंट
niche segregation	<i>Zool.</i>	निकेत पृथक्करण	nicla	<i>Chem.</i>	निक्ला
Nicholson blue		निकलसन ब्लू	niclad	<i>Chem.</i>	निकलाच्छादन
Nicholson Bohr theory		निकलसन बोर वाद	nico	<i>Chem.</i>	निको
Nichols refractometer	<i>Chem.</i>	निकल्स अपवर्तनमापी	<i>Nicodemia diversifolia</i>		निकोडेमिया डाइवर्सिफोलिया
Nichols ruling		निकल्स रेखापट	nicol	<i>Phy.</i>	निकल
nichrome	<i>Chem.</i>	निक्रोम	nicol prism		निकल प्रिज्म
nick	<i>Geog.</i>	कटान, खांचा	Nicotiana mosaic	<i>Bot.</i>	तम्बाकू किर्मीर, तम्बाकू मोजेक
nick break test	<i>Chem.</i>	अवच्छेद भंजन संपरीक्षण	<i>Nicotiana plumbaginifolia</i>	<i>Bot.</i>	निकोटिआना प्लंबैजिनीफोलिया
nickel	<i>Chem., H.Sc.</i>	निकैल	<i>Nicotiana tabacum</i>		निकोटिआना टैबेकुम (तम्बाकू)
nickelate	<i>Chem.</i>	निकैलेट	nicotinamide	<i>Chem.</i>	निकोटिनमाइड
nickel bloom	<i>Geol.</i>	निकैल ब्लूम	nicotine	<i>H.Sc.</i>	निकोटीन
nickel glance		निकैल ग्लान्स	nicotine sulphate		निकोटीन सल्फेट
nickel grid		निकैल ग्रिड, निकैल जालक	nicotinic acid	<i>Zool.</i>	निकोटिनिक अम्ल
nickelic oxide	<i>Chem.</i>	निकैलिक ऑक्साइड	nicotinic acid	<i>Chem.</i>	निकोटिन्यूरिक अम्ल
nickeliferous	<i>Chem., Geol.</i>	निकैलधारी, निकैलमय	nical	<i>Chem.</i>	निकल
nickelin	<i>Chem.</i>	निकैलिन	nicrite	<i>Chem.</i>	निक्राइट
nickeline	<i>Geol.</i>	निकैलिन	microbraz	<i>Chem.</i>	निक्रोब्रैज
nickelite	<i>Chem.</i>	निकैलाइट	microsilal	<i>Chem.</i>	निक्रोसिलैल
nickelizing	<i>Chem.</i>	निकैलीकरण, निकैल निक्षेपण	nictitating membrane	<i>Zool.</i>	निक्षेपक पटल
nickel matte		निकैल मैट	nidality	<i>Zool.</i>	नीडलता
nicke locher	<i>Geol.</i>	ऐनाबर्जाइट	nidamental	<i>Zool.</i>	बंडावरणी
nickel plated electrode		निकैल पट्टित इलेक्ट्रोड	nidamental chamber		बंडावरणी कक्ष
nickel pyrite		निकैल माक्षिक, निकैल पाइराइट	nidamental gland		बंडावरणी ग्रंथि
nickel silver	<i>H.Sc.</i>	निकैल सिल्वर (जर्मन सिल्वर)	nidamentum	<i>Zool.</i>	बंडश्लेथ, बंडावरक
nickel oreide		निकैल खोरीड	nidarial	<i>Zool.</i>	नीडीय
nickelous oxide	<i>Chem.</i>	निकैलोसिक ऑक्साइड	nidicolae (altrices)	<i>Zool.</i>	नीडाश्रयो (महायापेक्षी)
nickeloy	<i>Chem.</i>	निकैलॉय	nidicolous	<i>Zool.</i>	नीडवासी
nickel vitriol		निकैल विट्रिऑन (निकैल सल्फेट)	nidification	<i>Zool.</i>	नीडरचन
			nidifugae (precoces)	<i>Zool.</i>	नीडापाश्रयो

Nidulariales	Bot.	निडुनैरिएनीड	night sky spectra	Phy.	रात्रि आलोक स्पेक्ट्रम
niello	Geol.	निएलो	night soil	H Sc, Geog.	मल
niello silver		निएलो मिल्वर	nigraniline	Chem.	निर्धैनिलीन
Niel temperature	Phy.	नील ताप	nigrescens	Bot.	श्यामल
Nierenstein synthesis		नीरन्स्टाइन संश्लेषण	nigrescent	Bot	श्यामल
Nier's mass spectrograph	Chem	नीर सहति स्पेक्ट्रमलेखी	nigre soap	Chem	निहृष्ट साबुन, नाइगर साबुन
Niessner slag-print process	Chem	नीमनर धातुमल-मुद्रण प्रक्रम	nigrine	Chem.	नाइग्रिन
Nietzki's rule	Chem.	नीट्स्की नियम	nigrometer	Chem	दृष्णतामापी
nife	Chem., Geog	निफे	Nigropogan		नाइग्रोपोगल
nife cell	Chem	निफे सेल	nigrosine	Chem.	नाइग्रोसीन
nigger	Geog.	हृग्गी	*Nihal (=β Leporis)	Math	निहाल (=β लेपोरिस)
niggerhead	Geol, Geog., H Sc.	निगरहेड	nihilum album (=zinc oxide)	Chem	निहिलम ऐल्बम (बिन्क ऑक्साइड)
nigh-dweller	Geog.	निकटवासी	nikalium	Chem.	निकेलियम
night-blind	Zool	नक्तान्ध	nile	Phy	नाइल
night-blindness	Zool, H Sc	नक्तान्धता, रतींधी	nile blue procedure	Bot.	नाइल ब्लू प्रक्रिया
night blue	Chem	नाइटबील, नाइट ब्लू	nili	Geog.	नाइली
nightcap	H.Sc.	नाइट कैप	nilla	H.Sc.	निला
night closure	Bot	रात्रि निमीलन	nilo	Chem.	निलो
night dress	H.Sc.	रात्रि पोशाक, रात्रि परिधान	Nilo-Hamite	Geog.	नाइलो-हैमाइट
night effect	Phy	रात्रि ध्रुवण क्षुटि	Nilo-Hamitic pastoralist		नाइलो-हैमाइटी पशुचारक
night fighter air craft		रात्रि लडाकू विमान	nilometer	Geog	नाइलोमीटर
night-fire	Geog.	निशा अग्नि	Nilotic	Geog.	नीलनदीय
night gown	H.Sc.	नाइटगॉउन	Nilotic race		नीलनदीय जाति
night heron	Zool.	नीच बक	nilvar	Chem.	निल्वार
nightingale	Zool.	बुनबुन, कलविकक	nilpotent algebra	Math.	शून्यभावी बीजावली
night jar	Geog.	उत्तुक	nilpotent element		शून्यभावी अवयव
night light flame	Chem.	रात्रि प्रकाश ज्वालता	nilpotent ideal		शून्यभावी गुणजावली
nightmare	H.Sc.	दुस्वप्न	nilpotent matrix		शून्यभावी आय्यूह
night range	Phy.	रात्रि पराम	nilpotent operator		शून्यभावी सकारक
night sight		रात्रि दृष्टि	nilpotent semigroup		शून्यभावी सामिसभूह
night signal		रात्रि संकेत	nilpotent subalgebra		शून्यभावी उपबीजावली
night sky radiation	Geog.	निशाकाश विकिरण	nilpotent transformation		शून्यभावी रूपांतरण
			nil radical	Math.	शून्य करणो
			nlsaria	H.Sc.	निस्सरिया

nimbostratus	Geog.	वर्षास्त्री मेघ	nishiki	H.Sc.	निशिकी
nimbus	Geog.	वर्षामेघ	Nishin sampler	Zool.	निशिन प्रतिदर्शक
Nimravus		निमरैवस	nisin	Chem.	नाइसिन
nine-point circle	Math.	नवविन्दु वृत्त	nisinic acid	Chem.	नाइसिनिक अम्ल, नाइसिनिक ऐसिड
Ningsia carpet	H.Sc.	निंगसिया कालीन	Nissen stamp	Geol.	नीसेन स्टैम्प
ninhydrin	Bot.	निनहाइड्रिन	Nissl granule	Zool.	निस्सल कणिका
ninhydrin-positive		निनहाइड्रिन ग्राही	nistri	H.Sc.	निस्त्रि
ninol	Geol.	नीनाल	nit	Phy.	निट
Ninon	H.Sc.	नीनाँन	nital	Chem.	नाइटैल
Ninon sauce		नीनाँन सॉस	Nitella acuminata	Bot.	नाइटैला ऐक्यूमिनेटा
Ninon voile		नीनाँन बाँयल	nitidus	Bot.	मसृण
niobate	Chem.	नायोबेट	nito	H.Sc.	नीटो
niobic acid	Chem.	नायोबिक अम्ल	nitogenin	Chem.	नाइटोजिनिन
niobite	Chem.	नायोबाइट	niton	Chem.	नाइटॉन
niobium	Chem.	नायोबियम	nitracidium cati c L	Chem.	नाइट्रैसिडियम धनायन
niobotantalate	Chem.	नायोबोटैन्टैलेट	nitral	Geol.	शोरा संस्तर
niobo-titanate	Chem.	नायोबोटैटाइटेनेट	nitralizing	Chem.	नाइट्र मज्जन
nioximate	Chem.	निऑक्सिमेट	nitralloy	Phy.	नाइट्रैलाय
nioxime	Chem.	निऑक्सिम	nitramide	Chem.	नाइट्रैमाइड
nip	H.Sc., Geog., Geol., Chem.	1. निप 2. स्पशिका	nitramine	Chem.	नाइट्रैमीन
nīpa	H.Sc.	नीपा	nitranilic acid	Chem.	नाइट्रैनिलिक अम्ल
Nipa fruticans	Bot.	नीपा फ्रूटिकैन्स	nitrate	Chem., H.Sc.	(n.) नाइट्रेट, नाइट्रिकरण (v.) नाइट्रेटित करना
nip angle	Geol.	ग्राह कोण	nitrated		नाइट्रोकृत, नाइट्रेटित
nīpis	H.Sc.	नीपिस	nitratine	Chem.	नाइट्रेटीन
Nipkow disc	Phy.	निपको मंडलक	nitrating action	Chem.	नाइट्रोकरण क्रिया, नाइट्रेटन क्रिया
Nipkow disc system		निपको डिस्क तंत्र	nitration	Chem.	नाइट्रोकरण, नाइट्रेटन
nip out	Geol.	कोयला संस्तर सोपन	nitratator	Chem.	नाइट्रोकारक, नाइट्रेटर
nip padding	Chem.	स्पशिका तल्प	nitrate radical	Chem.	नाइट्रेटो मूलक
nipple	Zool., H.Sc.	स्तनाग्र, बूचुक निपल	nitratator house	Chem.	नाइट्रेटिन गृह, नाइट्रेटर गृह, नाइट्रोकारक गृह
Nippotaenia	Zool.	निप्पोटैनिआ	nitrazine	Chem.	नाइट्रेजीन
niquidine	Chem.	निक्वीडीन	nitre	Chem.	शोरा
niquine	Chem.	निक्वीन	nitre bed		शोरा स्तर
niranium	Chem.	निरैरनियम	nitre cake		शोरे की पपड़ी
"nirosta" (steel)	Chem.	निरोस्ता (इस्पात)			
'nirvanol'	Chem.	निर्वानाल			
'nirvotin'	Chem.	निर्वोटिन			

nitrene	<i>Chem.</i>	नाइट्रीन	nitrodiol	<i>Chem.</i>	नाइट्रो-डाइऑल
nitre oven		शोरा कंठु	nitrosufurantoïn	<i>Chem.</i>	नाइट्रोस्युरेन्टॉइन
nitric acid	<i>Chem.</i>	नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक ऐसिड	nitrosurazon	<i>Chem.</i>	नाइट्रोस्युरेजोन
nitridation	<i>Chem.</i>	नाइट्राइडोकरण	nitrogelatine	<i>Chem.</i>	नाइट्रो जिलेटिन
nitride	<i>Chem.</i>	नाइट्राइड	nitrogen	<i>Chem., H.Sc.</i>	नाइट्रोजन
nitrided		नाइट्राइडित	nitrogenase	<i>Chem.</i>	नाइट्रोजनेम
nitriding		नाइट्राइडोकरण	nitrogen assimilation		नाइट्रोजन-स्वांगीकरण
nitriding process		नाइट्राइडोकरण प्रक्रम	nitrogen balance		नाइट्रोजन सतुलन
nitriferous	<i>Chem.</i>	शोरामय	nitrogen bulb		नाइट्रोजन बल्ब
nitrification	<i>H.Sc.</i>	नाइट्रीकरण	nitrogen cycle	<i>H.Sc.</i>	नाइट्रोजन चक्र
nitrifier		नाइट्रीकारक	nitrogen estimation apparatus		नाइट्रोजन परिमापन उपकरण
nitrifying bacteria		नाइट्रीकारी जीवाणु	nitrogen excess		नाइट्रोजन आधिक्य
nitriole	<i>Chem.</i>	नाइट्रॉल	nitrogen fixation		नाइट्रोजन यौगिकीकरण
nitriolic	<i>Chem.</i>	नाइट्रिलिक	nitrogen fixing bacteria		नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु
nitriolo	<i>Chem.</i>	नाइट्रिलो	nitrogen flask		नाइट्रोजन फ्लास्क
nitrite	<i>Chem., Geol.</i>	नाइट्राइट	nitrogenize	<i>Chem.</i>	नाइट्रोजनीकरण
nitrito	<i>Chem.</i>	नाइट्रिटो	nitrogenous	<i>Chem., H.Sc.</i>	नाइट्रोजनी
nitrito group		नाइट्रिटो समूह	nitrogenous excretion	<i>H.Sc.</i>	नाइट्रोजनी उत्सर्जन
nitro acinitro system	<i>Chem.</i>	नाइट्रो-ऐसीनाइट्रो स्रस	nitrogenous extract		नाइट्रोजनी सार
nitro aerial spirit	<i>Chem.</i>	नाइट्रो वायु स्फिरिट	nitrogenous fertilizer value		नाइट्रोजनीय उर्वरक मान
nitroamon	<i>Chem.</i>	नाइट्रोऐमोन	nitrogenous organic material		नाइट्रोजनी कार्बनिक द्रव्य
nitrobacter	<i>Chem.</i>	नाइट्रोबैक्टर	nitrogenous metabolism		नाइट्रोजन उपापचय
<i>Nitrobacter agilis</i>		नाइट्रोबैक्टर एजिलिस	nitrogen peroxide		नाइट्रोजन परऑक्साइड
nitrobenzene	<i>Chem.</i>	नाइट्रो-बेन्जीन	nitrogen trioxide		नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड
nitrocellulose	<i>Chem., H.Sc.</i>	नाइट्रो-सेलुलोज	nitroglycerine	<i>Geog.</i>	नाइट्रोग्लिसरीन
nitrocellulose method		नाइट्रो-सेलुलोज विधि	nitrol	<i>Chem.</i>	नाइट्रॉल
nitrochalk	<i>Chem.</i>	नाइट्रोचाक	nitrolene	<i>Chem.</i>	नाइट्रॉलीन
Nitrococcus	<i>Bot.</i>	नाइट्रो-सोलाणु, नाइट्रोकोकस	nitroloam	<i>Chem.</i>	नाइट्रॉलियम
nitro compound	<i>Chem.</i>	नाइट्रो यौगिक	nitrolic acid	<i>Chem.</i>	नाइट्रॉलिक अम्ल, नाइट्रॉलिक ऐसिड
nitrocopper	<i>Chem.</i>	नाइट्रोक्वापर	nitrolime ( $\approx$ nitrolim)	<i>Chem.</i>	नाइट्रॉलियम
nitro cotton	<i>Chem., Geol.</i>	नाइट्रो कपास, नाइट्रो कॉटन	nitro-magnesite	<i>Chem.</i>	नाइट्रो मैग्नेसाइट
<i>Nitrocystis micropunctata</i>	<i>Bot.</i>	नाइट्रोसिस्टिस माइक्रोपक्टेटा			
nitrodealkylation	<i>Chem.</i>	नाइट्रोडिऐल्किलेशन			

nitro-mannite	Chem.	नाइट्रो मैनाइट	<i>Nitrosospira antarctica</i>	Chem.	नाइट्रोसोस्पाइरा एंटाक्टिका
nitrometer	Chem.	नाइट्रोजनमापी	nitroso-sulphuric acid	Chem.	नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक ऐसिड
nitron	Chem.	नाइट्रॉन	nitro-starch explosive	Chem.	नाइट्रो स्टार्च विस्फोटक
nitrone	Chem.	नाइट्रोन	nitrosubstitution	Chem.	नाइट्रोप्रतिस्थापन
nitronium	Chem.	नाइट्रोनियम	nitrosulphuric acid	Chem.	नाइट्रोसल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोसल्फ्यूरिक ऐसिड
nitronium cation		नाइट्रोनियम धनायन, नाइट्रोनियम केटायन	nitrosyl	Chem.	नाइट्रोसिल
nitronium ion		नाइट्रोनियम आयन	nitrosylate	Chem.	नाइट्रोसिलेट
nitro-oximino system	Chem.	नाइट्रो-ऑक्सिमिनो तंत्र	nitrosyl chloride	Chem.	नाइट्रोसिल क्लोराइड
nitroparaffin	Chem.	नाइट्रोपैराफ्रिन	nitrosyl hydrogen sulphate		नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट
nitrophenol	Chem.	नाइट्रोफोनॉल	nitrous	Chem.	नाइट्रस
nitrophilous	Bot.	नाइट्रोरागी	nitrous acid	Chem.	नाइट्रस अम्ल
nitrophosphate	Chem.	नाइट्रोफॉस्फेट	nitrous oxide	Chem., H.Sc.	नाइट्रस ऑक्साइड
nitroprusside	Chem.	नाइट्रोप्रुसाइड	nitrous vitriol	Chem.	नाइट्रस विट्रिऑल
nitrosation	Chem.	नाइट्रोसेशन, नाइट्रोसीकरण	nitroxyllic acid	Chem.	नाइट्रॉक्सिलिक अम्ल
nitrosification	Chem.	नाइट्रोसीकरण	nitryl	Chem.	नाइट्रिल
nitrosifying bacteria	Chem.	नाइट्रोसीकारी जीवाणु, नाइट्रोसीकारी बैक्टीरिया	nitryl perchlorate		नाइट्रिल परक्लोरेट
nitrosoamine	Chem.	नाइट्रोसोऐमीन	nits	Zool.	निट, यूकांड
nitroso bacteria (= nitrifying bacteria)	Chem.	नाइट्रोसीकारी जीवाणु, नाइट्रोसीकारी बैक्टीरिया, नाइट्रोसो जीवाणु	nitting	Geol.	अयस्क-मल
nitrosobenzene	Chem.	नाइट्रोसोबेन्जीन	nivalis	Bot.	हेमवर्णी, हेम
<i>Nitrosococcus nitrosus</i>		नाइट्रोसोकोकस नाइट्रोसस	nival region	Geog.	नाइवल प्रदेश
nitroso-dimethyl aniline	Chem.	नाइट्रोसो डाइमेथिल ऐनिलिन	nivated	Geol.	नेवेकृत
<i>Nitrosogloea merismoides</i>	Bot.	नाइट्रोसोग्लिया मेरिस्मोइडीज	nivation cirque	Geog.	नेवेशन सर्क
nitrosomonas	Bot.	नाइट्रोसोमोनास	nivation hollow	Geol., Geog.	नेवेशन गत
<i>Nitrosomonas monocella</i>		नाइट्रोसोमोनास मानोसेला	nivation niche		नेवेशन लघुवेदिका
nitrosonium ion	Chem.	नाइट्रोसोनियम आयन	nivenite	Chem.	निवेनाइट
nitrosopentammine salt	Chem.	नाइट्रोसोपेन्टाम्मीन लवण	niveo-eollan	Geog.	निविओ वायूड
nitroso-reaction	Chem.	नाइट्रोसो अभिक्रिया	niveus	Bot.	हिम श्वेत
			nix alba	Chem.	निक्स ऐल्बा
			nixferrum	Chem.	निक्सफेरम
			n-leaved rose		n-दल रोज, n-दल वक्र
			Noachian deluge	Geog.	नोएकियाई जलप्रलय

no address instruction	<i>Phy.</i>	अपता अनुदेश	nodal diagram		निस्पन्द आरेख
Noah's ark shell	<i>Zool.</i>	नोआ नौदवची	nodal equation		नोड समीकरण
nobelium	<i>Chem.</i>	नोबेलियम	nodal half plane		निस्पदीय अर्धममन्तल
noble	<i>Geog.</i> <i>Geol.</i>	1 अभिमान 2 उत्कृष्ट	nodalizer (chamber)	<i>Phy</i>	बवकारक
Noble and Wood sheet machine	<i>Chem.</i>	नोबेल वुड चादर मशीन	nodal line	<i>Geog</i>	नोड रेखा, निस्पन्द रेखा
noble gas mixture		उत्कृष्ट गैस मिश्रण	nodal locus		नोड पथ
noble metal		उत्कृष्ट धातु	nodal plane		नोडीय तल, निर्नति तल
noble mineral		उत्कृष्ट खनिज	nodal plane (sound)		निस्पन्द तल
noble-opal		उत्कृष्ट ओपल	nodal point	<i>Phy, Geog.</i>	1. नोडीय बिन्दु, आसधि बिन्दु 2. (Optics) निर्नति बिन्दु 3. (Sound) निस्पन्द बिन्दु 4. (Astron) पान बिन्दु
noble potential		उत्कृष्ट विभव	nodal point keying		निस्पन्द बिन्दु कुजीयन
nocardamine	<i>Chem.</i>	नोकार्डीमीन	nodal points town		मार्गं समम नगर
Noctiluca	<i>Zool.</i>	नॉक्टील्यूका	nodal slide		निन्दत स्लाइड
<i>Noctiluca mularis</i>		नॉक्टील्यूका माइलरिस	nodal surface		निस्पन्द पृष्ठ
<i>Noctiluca scintillans</i>		नॉक्टील्यूका सिन्टीलैन्स	nodal time		पातिक समय
noctilucent cloud	<i>Geog.</i>	निशातीप्त मेघ	node		1 नोड, आमधि 2 (Astron) पान 3 (Optics) निर्नति 4 (Sound) निस्पन्द 5 (Bot.) पर्वसधि, गाड
Noctilucidae	<i>Zool.</i>	नॉक्टील्यूसिडी	node cycle	<i>H.Sc., Geog.</i>	नोड चक्र
noctovision	<i>Phy.</i>	नक्तवीक्षण	noded	<i>Geol.</i>	अधिल, गाठदार
noctovisor	<i>Phy.</i>	नक्तवीक्षक	no delay operation	<i>Phy</i>	अधिलम्ब प्रचालन
Noctuidae (Agrotidae)	<i>Zool.</i>	नॉक्टाइडी (एग्रोटिडी)	node of route-system	<i>Geog.</i>	मार्गं तन्त्र आसधि
nocturia	<i>H.Sc.</i>	नक्तमेह	nodical month	<i>Geog</i>	पातिक मास
nocturnal	<i>Biol.</i>	रात्रिचर, नैश	Nodosaria	<i>Zool.</i>	नोडोसेरिया
nocturnal animal		रात्रिचर प्राणी, रात्रिचर जंतु	Nodosaria zippei	<i>Geol</i>	नोडोसेरिया जिपाई
nocturnal bird		रात्रिचर पक्षी	nodosaroid	<i>Zool</i>	नोडोसेरियाभ, मणिकाम
nocturnal diurnal activity cycle	<i>Zool.</i>	दिवानिश क्रियाचक्र	nodosaroid chamber		मणिकाम कोष्ठ, नोडोसेरियाभ कोष्ठ
nocturnal duct	<i>Phy.</i>	रात्रिकालीन वाहिनी	nodose	<i>Geol.</i>	गाठदार
nocturnal inversion		रात्रिकालीन प्रतिलोमन	nodular	<i>Geol.</i>	अधिको
nocturnal migrant	<i>Zool.</i>	नैश प्रवासी	nodular organ		अधिको अंग
nocturnal periodicity		नैश आवृत्ति	nodular phosphate		अधिको फॉस्फेट
nocturnal radiation	<i>Geog.</i>	निशा विकिरण	nodule	<i>Zool., Geol</i>	अधिका
nocturnal spider		रात्रिचर मकड़ी	nodulize	<i>Geol.</i>	अधीभवन
nocturnal variation		नैश विचरण	nodulized	<i>Chem.</i>	पर्वकृत, अधिकृत
nodal analysis	<i>Phy.</i>	नोडीय विश्लेषण			
nodal cross section	<i>Math</i>	निस्पदीय अनुप्रस्थ परिच्छेद			

nodulose	<i>Geol.</i>	गाँठदार, ग्रंथिल	noise generator		रव जनित
nodulosus	<i>Bot.</i>	लघुपर्वसंघित	noise immunity		रव अप्राहिता
nodulus	<i>Zool.</i>	ग्रंथिका	noise level (in a room)		रव का प्रदलता स्तर
nodum	<i>Bot.</i>	नोडम	noise limiter		रव सीमक
nodus	<i>Zool.</i>	1. बक्षोदर चंड 2. स्वनुप्रस्य शिरा	noise meter		रवमापी
*Nodus Secundus (=δ Draconis)	<i>Astron.</i>	नोडस सेकंडस (=δ ड्रेकोनिस)	noise modulation		रव माडुलन
Noeggerathia	<i>Bot.</i>	नोएगेरैथिया	noise power		रव शक्ति
Noeggerathiae	<i>Bot.</i>	नोएगेरैथिई	noise proof		रव रोधी
Noetherian condition	<i>Math.</i>	नोथेरी प्रतिबंध	noise quieting		रव शमन
Noetherian ring		नोथेरी बलय	noise ratio		रव अनुपात
Noether's equation		नोथेर-समीकरण	noise reduction		रव न्यूनन
Noether's theorem		नोथेर-प्रमेय	noise side band		रव पार्श्व बंड
Noguchia cuniculi		नोगूशिया क्यूनीकुलाइ	noise suppressor		रव निरोधक
noil	<i>Chem.</i>	1. (Met.) नॉइल 2. लघुर्ण	noise temperature		रव ताप
	<i>H.Sc.</i>	लघु तन्तुक, नॉइल	noise temperature equivalent		रव ताप तुल्यांक
noil stripes	<i>H.Sc.</i>	नॉइल धारियाँ (वस्त्र)	noise thermometer		रव तापमापी
noily wool	<i>H.Sc.</i>	नॉइली ऊन	noise unit		रव मात्रक
noise	<i>Phy.</i>	शोर, रव	noise-voltage generator		रव वोल्टता जनित
noise autocorrelation		रव स्वसहसंबंध	noisiness	<i>Phy.</i>	रवता
noise bandwidth		रव बैंड-विस्तार	No-kol burner	<i>Chem.</i>	नो-कोल बर्नर, नो-कोल ज्वालक
noise cancelling microphone		रव निरोधी माइक्रोफोन	no-load characteristic	<i>Phy.</i>	शून्य लोड अभिलक्षण
noise cavitation		रव कोटरन	no-load condition	<i>Phy.</i>	शून्य लोड अवस्था
noise characteristic		रव अभिलक्षण	no-load losses -		शून्य लोड हानि
noise current generator		रव धारा जनित	no-load release		शून्य लोड विसंपर्कक
noise diode		रव डायोड	nomad	<i>Geog.</i>	चलवासी, खानाबदोश
noise equivalent power		रव तुल्यांक शक्ति	<i>Nomadacris septemfasciata</i>	<i>Zool.</i>	नोमाडाक्रिस सेप्टेमफै- सिएटा
noise equivalent resistance		रव तुल्यांक प्रतिरोध	nomad carpet	<i>H.Sc.</i>	नोमैड कालीन
noise error	<i>Phy.</i>	रव त्रुटि	nomad economy		चलवासी अर्थव्यवस्था
noise factor (=noise figure)		रवांक	nomadic	<i>Geog.</i>	यायावर, चलवासी
noise figure		रव गुणांक, रवांक	nomadic herding		चलवासी पशुचारण
noise filter		रव फिल्टर	nomadic hunting life		यायावर आखेटी जीवन
noise free channel		रवमुक्त प्रणाल	nomadic hunting people		यायावर आखेटी जन
			nomadic man	<i>Geog.</i>	खानाबदोश मनुष्य

nomadic pastoral people		चलवासी पशुचारणिक जन	non-absolute convergence	Math.	सापेक्ष अभिसरण
nomadic tribe		चलवासी जनजाति	non absorbent	H Sc.	अनवशोषी
nomadism		यायावरता, चलवासिता	non-absorbing medium	Math.	अनवशोषी माध्यम
nom. alt.	Bot.	विकल्प नाम	nonacarbonyl	Chem	नोनाकार्बोनिल, नव कार्बोनिल
no-man's land	Geog.	साबारिम भूमि	non-acid soil	Geog.	अम्लहीन मृदा
nom. cons.	Bot.	सं नाम (सरभित नाम)	nonacosane	Chem.	नॉनाकोसेन, एकविंशति
nomen ambiguum	Bot.	सदिग्ध नाम	non-actinic	Phy.	अ-भारक्षोन्मिय
nomenclatural type	Biol.	नामपद्धति प्ररूप नामार्थ प्ररूप	nonactive repressor	Zool	अक्रिय दमनकारी
nomenclature		नामपद्धति, नाम तर	nonadapted strain	Bot	अनुकूलित विभेद
nomea confusum	Bot.	भ्रात नाम	nonadaptive	Biol.	अनुकूलनी
nomen divium		सदिग्ध नाम	nonadaptive variation		अननुकूली विभिन्नता
nomen invalidum		अमान्य नाम	non-additive number	Phy	अयोग्य सख्या
nomen nudum (blank name)	Biol., Geog.	नामिन न्यूडम, वृथा नाम	nona-decane	Chem.	नोनाडेकेन, एकोन विंशति
nomen validum		मान्य नाम	nonadecylic acid (= nondecanoic acid)	Chem.	नोनाडेसिलिक अम्ल, एकोन विंशत्क अम्ल
nomina conservanda	Zool.	सरसिन नाम	non adherent deposit	Chem.	असंगली निक्षेप, अनासजित निक्षेप
nominal band	Phy.	नामीय बैंड	non-adiabatic reaction	Phy, Chem.	अनु एडियाबेटिक अभि- क्रिया
nominal capacity	Chem.	अंकित धारिता	non-adiabatic transition	Chem.	अनु एडियाबेटिक संक्रमण, अनु- एडियाबेटिक संक्रमण
nominal diameter	Geol.	अभिहित व्यास	nonadyne	Chem.	नोना डाइनाइन, नव डाइनाइन
nominal expenditure	H.Sc.	नाममात्र खर्च	non-adjacent station	Geol., Geog.	असंगल चौडा, असंगल स्टेशन
nominal frequency		नामीय आवृत्ति	nonadjustable instrument	Geog.	असमायोज्य यंत्र
nominal line width		नामीय रेखा विस्तार	non-administrative town	Geog	प्रशासन मरुल्यालय रहित नगर
nominal port	Geog.	नियत पत्तन	nonadsorbed	Bot.	अनपिशोषित
nominal rent	H Sc.	नाममात्र किराया	nonagon	Math.	नवभुज
nominal value		अंकित मान	non-agricultural group	Geog.	अनुपित्रीवी वर्ग
nom. legit.	Bot	विहित नाम	non-agricultural people		अनुपित्रीवी जन
nom. nov.		नवनाम	non-agricultural worker		अनुपित्रीवी श्रमिक
nom. nud.		वृथा नाम			
nomogram	Geog.	नोमोग्राम, संरेखण-चार्ट			
nomograph		संरेखण चार्ट			
nomophilous	Bot	चरागाहुरागी, चारण स्थलरागी			
nomotaxon	Bot.	नोमोटैक्सान			
nom. rej.	Bot.	अस्वी नाम (अस्वीकृत नाम)			
nomud carpet	H.Sc.	नोमद कालीन			
non-Abelian group	Math.	अनु-आबेली ग्रुप			



nona hydrate	<i>Chem.</i>	नव हाइड्रेट, नौनाहाइड्रेट	non-benzenoid aromatic	<i>Chem.</i>	अबेन्जीनीय एरोमैटिक
nonalgebraic	<i>Math.</i>	अबीजीय	non-Bessemer ore	<i>Geol.</i>	अबेसेमर अयस्क
non al	<i>Bot.</i>	नेतर	nonbinding joint	<i>Chem.</i>	अबंधक संधि
nonallelic	<i>Zool.</i>	अविकल्पी (अयुग्म-विकल्पी)	non-black body	<i>Phy.</i>	अकृष्ण वस्तु
non-aluminous	<i>Chem.</i>	एलूमिनियम रहित	non-bleeding	<i>Chem.</i>	अन्नावी
non amalgamable ore	<i>Geol.</i>	अपारदनीय अयस्क	nonblood sucking	<i>Zool.</i>	अरक्त चूषी
nonanal	<i>Chem.</i>	नोनानल	nonbonded interaction	<i>Chem.</i>	अनावंधित अन्योन्य क्रिया
nonane	<i>Chem.</i>	नोनेन, नवेन	nonbonded radius		अनावंधित त्रिज्या
nonantigenic	<i>Biol.</i>	अप्रतिजन, अनैन्टीजन	non-bonding		अनावंधी
non aperturate	<i>Bot.</i>	द्वारकहीन	non-bonding electron		अनावंधी इलेक्ट्रान
non aqueous membrane	<i>Bot.</i>	निर्जल झिल्ली	non bonding electron pair		अनावंधी इलेक्ट्रॉन युग्म
non-archimedean	<i>Math.</i>	अनाकिमीडी	non bonding molecular orbital		अनावंधवी आण्विक कक्षक
nonarid soil	<i>Geog.</i>	अशुष्क मृदा	non bonding-non-bonding		अनावन्धक-अनावन्धक
non-aromatic	<i>Chem.</i>	अन् ऐरोमैटिक	non-breeding population	<i>Zool.</i>	निष्प्रजननीय समष्टि
non-associated liquid	<i>Chem.</i>	असंगुणित द्रव, अन्ऐसो-सिएटित द्रव	noncaking	<i>Chem.</i>	अवटिकायन, अकैकन, अकैकी
nonastringent	<i>Bot.</i>	अकपाय	noncalcified	<i>H.Sc.</i>	अकैल्सी भूत
non-astronomical force	<i>Geog.</i>	अखगोलीय बल	non-calc procedure	<i>Math.</i>	निष्कलन क्रियाविधि
nonatmospheric control	<i>Phy.</i>	वायुमण्डल निरपेक्ष नियंत्रण	non-capillary pore	<i>Geog.</i>	अकेशिका-छिद्र
non-atomic ring	<i>Math.</i>	परमाणु रहित बलय	noncapsulated	<i>Zool.</i>	असम्पुटित
non-autocorrelated	<i>Math.</i>	अस्वसहसंबंधित	non-capture disintegration	<i>Phy.</i>	प्रग्रहणहीन विघटन
nonautonomous development	<i>Zool.</i>	अस्वायत्त परिवर्धन	non-catalytic cracking	<i>Chem.</i>	अनुत्प्रेरित भंजन
non-averaged equation	<i>Math.</i>	अमाध्यत समीकरण	non-catalytic reaction		अनुत्प्रेरित अभिक्रिया
non-axial direction	<i>Phy.</i>	अनक्षीय दिशा	non-cellular	<i>Biol., H.Sc.</i>	अकोशिक, कोशिकाहीन
non-axial spicule	<i>Geol.</i>	निरक्ष कटिका	noncellular organism		अकोशिक जीव, कोशिकाहीन जीव
non-barophilic organism	<i>Zool.</i>	वायुदावविरागी जीव	non-central collision	<i>Phy.</i>	अकेन्द्रीय संघट्ट
non-base-catalyzed decompositions	<i>Chem.</i>	अक्षारक उत्प्रेरित अपघटन	non-central confidence interval		अकेन्द्रीय विश्वास्यता अंतराल
non-basic activity	<i>Geog.</i>	अनाधारभूत क्रिया	non-central distribution		अकेन्द्रीय वंटन
non-basic employment	<i>Geog.</i>	जीविका नियुक्तता	non-central force		अकेन्द्रीय बल
non-basic function	<i>Geog.</i>	अनाधारभूत कार्य	non-central spin dependent force		अकेन्द्रीय प्रचक्रणायित बल
non basic solution	<i>Math.</i>	आधारीतर हल			
non battue	<i>H.Sc.</i>	नॉन बैट्यू			

nonchitinous	Zool.	अकाइटिनिय	non-conformity	Geol.	असमविव्याप्त
non-chromatic material	Zool.	अवर्णक पदार्थ	non-coagulable	Chem.	अशीतनीय
nonchromosomal gene	Zool.	अगुणसूत्री जीन	non conjugacy hypothesis		असयुग्मता परिकल्पना
nonciliated	Zool.	अपशमाशी	non-conjugant	Zool.	असयुग्मक
non-circular definition	Math.	अचक्रक परिभाषा	non-conjugated	Chem.	असयुग्मित
non-circulating field	Phy.	अपरिसंचारी क्षेत्र	non-consecutive curve	Math.	अक्रमगत वक्र
non-classical	Phy.	अश्रेण्य, चित्रप्रतिष्ठितेतर	non-conservative forces	Math, Phy.	असंरक्षी बल
non-classically bonded	Chem.	अपुरासम्भूतन आबन्धित	non-consoluble	Chem.	असंक्रिय
nonclathrate	Bot.	अ-जालाकार	non-consort interaction	Zool.	असमर्पे क्रिया
non-cleidoic egg	Zool.	अकोन अंडा	nonconstant monic polynomial	Math.	अचरैतर एकगुणाकी बहुपद
non coagulable	Bot.	अस्कंदनीय	non-contiguous plot	Geog.	असन्नान प्लॉट
noncoelomate	Zool.	अगुहिक	non-contiguous urbanised area		असन्नान नगरीकृत क्षेत्र
noncoelomate animal		अगुह् प्राणी	non-continuable collision	Math.	अननुवृष्य संघट्टन
noncoelomic space	Zool.	अगुहिक अंतरान	non-contractile	Zool.	अकुचनशील
noncoherent scattering	Math.	असंगत प्रकीर्णन	non-contractile canal		अकुचनशील नाल
noncoiling	Geol.	अकुहलन	non-contractile vacuole		अकुचनशील धानिका
non-coincidence effect	Phy.	असमान प्रभाव	non-contractile vessel		अकुचनशीला वाहिका
non-coking	Geol.	अकोककर	non cooperative games	Math.	असाझेदारी खेल
non coking coal		अकोककर कोयला	non-cooperative system	Phy.	असहयोगी तंत्र
non-collimated shower	Phy.	असमातरित वर्षण	noncorrosive	Chem.	असंसारक
non-collinear	Math.	असरेख	non coulomb field	Phy.	कूलम्बेतर क्षेत्र
non-collinear atom		असरेखी परमाणु	non-coulomb scattering		कूलम्बेतर प्रकीर्णन
non-colloidal		अकोलाइडी	non-coupled oscillator	Chem.	अयुग्मित दोलक
noncolonial form	Geol.	अनिवह जीव	non-coupled wave		अयुग्मित तरंग
non-combining levels	Phy.	असयोगी तल	non-covariance	Math.	असहपरिवर्तन
non-commutability	Phy.	अक्रमविनिमेयता	non-covenant notation		असहपरिवर्ती संकेतन
non-competitive sorption	Chem.	अप्रतियोगी आबुषण	non-crossing rule	Phy.	अनघन नियम
non-complexing medium	Chem.	असकुलन माध्यम	non-crossover	Zool.	अविनिमय, अविनिमयज
non-concentrable rock	Geol.	अगांठनीय रौल	non-crush	Chem.	अदमनीय
non conductive coupling	Phy.	अचालनीय युग्मन			
non-conductor	Phy.	अचालक			
nonconformable	Geol.	असमविवन्धित			

non-crystalline	<i>Geol.</i>	अक्रिस्टली
noncrystal oscillator		अक्रिस्टलीय दोलित्र
noncubic crystal	<i>Phy.</i>	अघनीय क्रिस्टल
noncubic metal		अघनीय धातु
non-cyclic change	<i>Phy.</i>	अचक्रीय परिवर्तन
noncyclic scan		अचक्रीय क्रमवीक्षण
noncyclic terrace		अयुग्म वेदिका
noncyclic variation		अचक्रीय परिवर्तन
nonda	<i>H.Sc.</i>	नॉन्डा
non-Daltonide compounds	<i>Chem.</i>	अडाल्टनी यौगिक
non-deciduate	<i>Biol.</i>	अपाती
non-deciduate placenta	<i>Zool.</i>	अपाती अपरा
non-deformable body	<i>Math.</i>	अविरूप्य पिंड
non-degenerate	<i>Math.</i>	अनपन्नष्ट
nondegenerate basic feasible solution		अनपन्नष्ट आधारित सुसंगत हल
nondegenerate basic solutions		अनपन्नष्ट आधारित हल
non-degenerate level		अनपन्नष्ट स्तर
non-degenerate state		अनपन्नष्ट अवस्था
nondegenerate transportation problem		अनपन्नष्ट परिवहन समस्या
non-dense	<i>Math.</i>	अघन
non-dense set		अघन समुच्चय
non-denumerable infinity of points	<i>Math.</i>	विन्दुओं का अगणनीय अनंत
non-denumerable set		अगणनीय समुच्चय
non-derogatory matrix	<i>Math.</i>	अहीन आव्यूह
non-Desarguesian system	<i>Math.</i>	अ-दजागोय निकाय
nondestructive analytical method	<i>Chem.</i>	अविनाशी वैश्लेषिक विधि
non-destructive inspection	<i>Math.</i>	अविनाशी निरीक्षण
non-destructive test	<i>Chem.</i>	अनाशक संपरीक्षण
nondeterministic net	<i>Phy.</i>	अनिश्चयात्मक जाल

nondevelopable	<i>Geog.</i>	अविकासनीय
nondeviative absorption	<i>Phy.</i>	अविचलनी अवशोषण
non-diagnostic	<i>Zool.</i>	अनिदानमूचक
non-diagram lines	<i>Phy.</i>	अनारेखी रेखा
non-dialyzing	<i>Bot.</i>	अनापोहनी
non-differentiable	<i>Math.</i>	अनवकलनीय
non-diffusible	<i>Phy.</i>	अविसरणशील
non-dimensional	<i>Chem., Math.</i>	अविम, अविमीय
nondimensional coefficient of moment		अविम आघूर्ण गुणांक
nondimensional equation		अविम समीकरण
nondimensional form		अविम रूप
nondimensional parameter		अविम प्राचल
nondimensional quantity		अविम राशि
non-dimensional species	<i>Zool.</i>	अविमीय जाति
nondipole field	<i>Geol.</i>	द्वि ध्रुवेतर क्षेत्र
non-directional antenna	<i>Phy.</i>	अदिशिक ऐन्टेना
non directional microphone		अदिशिक माइक्रोफोन
non-disjunction	<i>Zool.</i>	अवियोजन
non-dispersive analyzer	<i>Chem.</i>	अपरिक्षेपी विश्लेषित्र
non-dispersive medium	<i>Phy.</i>	अक्षेपणी माध्यम
non-dispersive X-ray absorptiometer		अपरिक्षेपी ऐक्स किरण अवचूषणमापी
non-dissipative	<i>Phy.</i>	ऊर्जा संरक्षी
non dissociating	<i>Phy.</i>	अवियोजी
non-divergent fluid	<i>Geol.</i>	अनपसारि तरल
non dividing cell	<i>Bot.</i>	अविभाजो कोशिका
non earning	<i>H.Sc.</i>	अनर्जक
non-earning dependant	<i>Math.</i>	अनर्जक आश्रित
non-economic privilege	<i>Geog.</i>	लाभहीन विशेषाधिकारी

non-ecumene	<i>Geog.</i>	अवास्य क्षेत्र	nonferrous metal	<i>Geog ,Geol</i>	अलोह धातु
non-elastic	<i>Phy.</i>	अप्रत्यास्य	nonferrous metallurgy		अलोह धातुकर्म
non-electrolyte	<i>Phy.</i>	विद्युत् अनपघट्य	non-ferrous ore	<i>Geog ,Geol</i>	अलोह अयस्क
non-electrolyte character	<i>Chem</i>	विद्युत् अनपघट्य लक्षण, अविद्युदक्ष लक्षण	non-fibrous raw material	<i>Chem.</i>	रेशाहीन कच्चा पदार्थ
non-electromagnetic	<i>Math ,Phy.</i>	अविद्युत् चुम्बकीय	nonfilterable	<i>Zool</i>	अनिस्यन्दनीय
non electronic	<i>Phy.</i>	अन् इलेक्ट्रॉनी	nonfinancial incentives	<i>Math</i>	अवित्तीय प्रोत्साहन
non empty subset	<i>Math.</i>	अरिक्त उपसमुच्चय	non-flagellated	<i>Zool</i>	अकशाभी
nonencapsulated	<i>Zool</i>	अपपुटित	non-flagellated cell		अकशाभी कोशिका
nonene		नोनीन	non-flammability	<i>Chem.</i>	अज्वलनशीलता
$\alpha$ - $\beta$ nonenoic acid	<i>Chem</i>	$\alpha$ - $\beta$ -नोनेनोइक अम्ल	nonflammable	<i>H Sc</i>	अज्वलनशील
non-equilibrium condition	<i>Chem.</i>	असाम्य अवस्था	nonfluorescing glass	<i>Chem</i>	अ-प्रतिदीप्तिशील काँच
non-equilibrium disorder	<i>Phy.</i>	असाम्य दुर्व्यवस्था, सतुलनहीन दुर्व्यवस्था	non-foaming water	<i>Chem.</i>	अफेनद जल
non-equilibrium distribution	<i>Phy.</i>	साम्यहीन वितरण	non-focal'ity hypothesis	<i>Math.</i>	अनाभिना परिकल्पना
non-equivalence	<i>Phy.</i>	अतुल्यता	non food medium		खाद्येतर माध्यम
non-equivalent electron	<i>Phy.</i>	तुल्येतर इलेक्ट्रॉन, भिन्नकक्षकीय इलेक्ट्रॉन	non free radical	<i>Chem</i>	अमुक्त मूलक
nonessential amino acid	<i>Chem., H Sc</i>	अनावश्यक ऐंशीनो अम्ल	non-friable	<i>Chem.</i>	अचूर्णीय
nonessential goods	<i>H Sc.</i>	अनिवार्येतर वस्तुएं	non-fully saturated soil	<i>Math.</i>	अपूर्णत सतृप्त मृदा
non-esterified fatty acid (NEFA)	<i>Chem.</i>	अनैस्टरीकृत वसा अम्ल (एन ई एफ ए)	non fusible	<i>Chem</i>	अपघनीय
non-Euclidean geometry	<i>Math.</i>	अयूक्लिडो ज्यामिति	nongaussian noise	<i>Phy</i>	अगाउसीय रव
non-Euclidean space		अयूक्लिडीय सपष्टि	non-geostrophic	<i>Geol ,Geog.</i>	अभूविज्ञेयी
non-evolutional shock wave	<i>Math.</i>	अविनासीय प्रघात तरंग	nongeostrophic method		अभूविज्ञेयी पद्धति
nonex	<i>Phy.</i>	नोनेक्स	non-glaciated region	<i>Geog.</i>	अहिमनदित प्रदेश
non exchange force	<i>Phy.</i>	अविनिमयी बल	non-graded sediments	<i>Geol</i>	अक्रमिक अवसाद
non existence	<i>Math</i>	अस्तित्व	nongranular	<i>Geol.,Geog.</i>	कणहीन
nonexperimental observations	<i>Math.</i>	अप्रायोगिक प्रेक्षण	nongranular soil		कणहीन मृदा
non-extendability	<i>Math</i>	अविस्तार्यता	non greasy area	<i>Geog</i>	चिकनाई रहित क्षेत्र
non-faradic current	<i>Chem.</i>	अफैराडो धारा	nongreat circle propagation	<i>Phy.</i>	भूपृष्ठीय संचरण
non-ferromagnetic	<i>Phy.</i>	अनोहचुम्बकीय	(= ground scatter propagation)		
non-ferromagnetic phase		अलोहचुम्बकीय अवस्था	nongrowing cell	<i>Bot</i>	अवर्धी कोशिका
			non-hardening resla	<i>Chem.</i>	अकठोरी रेजिन, अकठोरी राल
			non harmonic	<i>Phy.</i>	अमरल आवर्त
			nonhoming	<i>Phy.</i>	नस्येतर अन्वेषण

nonhoming finder	<i>Phy.</i>	लक्ष्येतर अन्वेषक
nonhomogeneity	<i>Chem.</i>	असमांगता
nonhomogeneous	<i>Math.,Phy., H.Sc.</i>	1. असमांगी 2. असमघात
non-homogeneous gravitational field		असमांग गुरुत्वीय क्षेत्र
non-homogeneous integral equation		असमघात समाकल समीकरण
non-homogeneous turbulence		असमांग प्रक्षोभ
non-homologous	<i>Zool.</i>	असमजात
nonhybrid origin	<i>Bot.</i>	असंकर उत्पत्ति
non-hydrogenic	<i>Phy.</i>	हाइड्रोजनसमेतर
non-hydrogen like system	<i>Phy.</i>	अ-हाइड्रोजनवत् तंत्र
nonhygroscopic	<i>Chem.</i>	अनाद्रंताग्राही
non-ideal gas	<i>Chem.,Phy.</i>	अनादर्श गैस
non-ideal medium		अनादर्श माध्यम
non-ideal superconductor (=hard super conductor)		अनादर्श अधिचालक
non-ideal system		अनादर्श-तंत्र
non-identical classes	<i>Zool.</i>	असम वर्ग
non-identity	<i>Chem.</i>	असर्वसमता, अतत्समता
nonimmune	<i>Zool.</i>	अप्रतिरक्षी
non-immunizing strain		अप्रतिरक्षाकारी विभेद
non-impinging injector	<i>Phy.</i>	असम्मिलित अंतःक्षेपक
non-individual body	<i>Math.</i>	अव्यष्टिगत पिंड
non-inductive resistance	<i>Phy.</i>	प्रेरणहीन प्रतिरोध
non inductive winding	<i>Phy.</i>	अप्रेरणिक कुंडलन
non-infectious	<i>H.Sc.,Bot.</i>	असंक्रामक
non-infectious chlorosis		असंक्रामक हरिमाहीनता
non infective	<i>H.Sc.</i>	अप्रभावी
non-infinitesimal allocation	<i>Math.</i>	अनत्यणु नियतन

non-inflammable	<i>Chem.,Phy., H.Sc.</i>	अज्वलनशील
non-inflammable lacquer		अज्वलनशील लेकर, अज्वलनशील प्रलाक्षा
non-instantaneous plastic response	<i>Math.</i>	अतात्क्षणिक सुघट्य अनुक्रिया
non-instantaneous response		अतात्क्षणिक अनुक्रिया
non-integrable	<i>Math.</i>	असमाकलनीय
non-integrability of length		लम्बाई की असमाकलनीयता
non-integral	<i>Phy.</i>	अपूर्णांक
non-interacting	<i>Phy.</i>	अन्योन्यक्रियाहीन
non-interacting particle		अन्योन्यक्रियाहीन कण
non-intercombination line	<i>Phy.</i>	अंतरापद संयोगेतर रेखा, नान्तरापद संयोगी रेखा
non-intersecting	<i>Math.</i>	अप्रतिच्छेदी
non-intersecting set		अप्रतिच्छेदी समुच्चय
non-ionic		अनायनिक
nonionic surface active agent	<i>Chem.</i>	अनायनिक पृष्ठ सक्रियक
non-ionizably bound	<i>Chem.</i>	अनायनीयतः बद्ध
non-irritant	<i>Chem. (Food.)</i>	अप्रकोपक
nonisoelectric effects	<i>Phy.</i>	असम प्रत्यास्रव प्रभाव
nonisoentropic flow	<i>Math.</i>	विषमएन्ट्रॉपीय प्रवाह
non-isolated essential singularity	<i>Math.</i>	अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता
non-isothermal	<i>Chem.</i>	असमतापी
non-isotropic system	<i>Math.</i>	असमदैशिक निकाय
non-isotropic turbulence		असमदैशिक प्रक्षोभ
non-isotropic vector		असमदैशिक सदिश
non-killer strain	<i>Zool.</i>	अमारक विभेद
non-knocking	<i>Chem.</i>	अनपस्फोटी
non-labile equilibrium	<i>Chem.</i>	अचंचल साम्य, अपरिवर्ती साम्य
non-lactating	<i>Zool.</i>	अदुग्धदात्री
nonlaminatē	<i>Bot.</i>	फलकविहीन

non-lifting aerofoil	<i>Math</i>	अनुत्थापक एरोफ़ायल	non-linear time base		अरैखिक समयधार
nonline accumulating soil	<i>Geog</i>	चूनाहीन सचयी मृदा	non linear vibration		अरैखिक कपन
non-limiting equilibrium	<i>Math.</i>	बसीमात सतुलन	non-lipid		अलिपिड
non-limiting numbers		बसीमात सख्याएँ	non-local service	<i>Geog.</i>	विस्थानीय सेवा
nonlinear algebraic equation	<i>Math.</i>	अरैखिक बीजीय समीकरण	non-locking key	<i>Phy.</i>	अनुबध कुञ्जी
non-linear characteristic		अरैखिक अभिलक्षण	non-luminous	<i>Phy</i>	ज्योतिहीन
non-linear circuit element	<i>Phy.</i>	अरैखिक परिपथाण, अनओमी परिपथाण	nonluminous detritus	<i>Geol</i>	तापरहित अपरद
non-linear conductor		अरैखिक चालक, अन-ओमी चालक	non-lumping	<i>Chem</i>	असंग्रिन
non-linear conformation		अरैखिक सरूप	norlysogetic	<i>Biol.</i>	1 सवरोधी, अनयनिक 2 अनपचटनी
non-linear correlation		अरैखिक सहसंबध	nonlysogetic strain		अनयनिक विभेद
nonlinear differential equation		अरैखिक अवकलन समीकरण	non-magnetic	<i>Phy.</i>	अचुम्बकीय
nonlinear distortion		अरैखिक विरूपण	non-magnetic chassis		अचुम्बकिक शोसि
nonlinear dynamic system		अरैखिक गतिक प्रणाली	non-magnetic salt		अचुम्बकीय लवण
non-linear elasticity		अरैखिक प्रत्यास्यता	nonmalarious	<i>Zool.</i>	मनेरियारहित
non-linear electro-dynamics		अरैखिक विद्युत्गतिकी	nonmarine	<i>Geol.,Zool</i>	अममुद्री
nonlinear equation		अरैखिक समीकरण	nonmarine waters (= fresh waters)		अममुद्री जल
nonlinear fashion		अरैखिक विधि	non-mechanical quantity	<i>Math.</i>	अयान्त्रिक राशि
nonlinear function		अरैखिक फनन	non-medullated	<i>Zool.</i>	मज्जारहित
non-linear Integral equation		अरैखिक समाकलन समीकरण	non-merohedral twin	<i>Phy.</i>	अन्-अशाकनकी यमन
non-linearity		अरैखिकता	nonmetabolic absorption	<i>Bot.</i>	अनुपापचयी अवशोषण
non-linearity distortion		अरैखिकता विरूपण	non-metal	<i>Chem.</i>	अधातु
non-linear molecule		अरैखिक अणु	non-metallic	<i>H Sc ,Geol</i>	अधात्विक
non-linear programming		अरैखिक प्रोग्रामन	non-metallic lustre		अधात्विक च्युति
non-linear region		अरैखिक प्रदेश	non-metallic mineral		अधात्विक खनिज
nonlinear regresslon		अरैखिक समाश्रयण	non-metallic road	<i>Geog.</i>	कच्ची सड़क
non-linear relationship		अरैखिक संबंध	non metallic solid		अधात्विक ठोस
non-linear set		अरैखिक समुच्चय	non-metallic wrapping		अधात्विक वेष्टन
			nonmetering relay	<i>Phy.</i>	अनेछी रिले
			nonmotile cilia	<i>Zool</i>	अचल पदमाप
			non-musical note	<i>Phy.</i>	असंगीतिक स्वर
			nonmutant	<i>Zool.</i>	अनुत्परिवर्ती
			non-negative coordinates	<i>Math.</i>	ऋणेतर निर्देशांक
			non-negative integer		ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक

non-negatively homogeneous function		ऋणेतरतः समभाव फलन
non-negative orthant		ऋणेतर आर्षेट
non-negative rational		ऋणेतर परिमेय संख्या
non-negative solution		ऋणेतर हल
non-negative value		ऋणेतर मान
non-negative variable		ऋणेतर चर
non-negative weights		ऋणेतर चरभार
non-negativity restrictions		ऋणेतर प्रतिबंध
nonnette	H.Sc.	नॉनैट
non Newtonian liquid	Chem.	अन्यूटनी द्रव
non-normal	Math.	अप्रसामान्य
non-normal gas		अप्रसामान्य गैस
non-normal population		अप्रसामान्य समष्टि
non-null hypothesis	Math.	अनिराकरणीय परिकल्पना
non-null projection	Math.	शून्येतर प्रक्षेप
nonnutritive	Zool.	अपोषक
nonoceanic state	Geog.	असागरीय राज्य
non-octahedral complex	Chem.	अन्-अष्टफलकी संकुल
non-ohmic circuit element	Phy.	अन्-ओम परिपथांग, अरेखिक परिपथांग
non ohmic contact		अन् ओमीय संपर्क
non ohmic resistance		अन्-ओमी प्रतिरोध
nonoic acid	Chem.	नोनाइक अम्ल, नव-ओइक अम्ल
non-oileaginous matter	Chem.	अतेलीय पदार्थ
non-oncogenic	Zool.	अनवृद्धजनक
non-operculated	Zool.	अप्रच्छादित
non-optimal	Math.	इष्टतमेतर
non-optimum sequencing		इष्टतमेतर अनुक्रमण
non-orientable	Math.	अनभिद्विन्यसनीय
non-orientable manifold		अनभिद्विन्यसनीय प्रसमष्टि
non-orthogonal data	Math.	अस्वतंत्र आंकड़े

non-oscillating	Phy.	अदोलनी, दोलनहीन
non-oscillatory		दोलनहीन
non-osmotic theory	Bot.	अपरासरण वाद, अपरासरण सिद्धांत
non-osmotic uptake		अपरासरणी उद्ग्रहण
non-overlapping	Phy., Zool.	अनतिव्यापी
non-overlapping code		अनतिव्यापी संकेत
non-overlapping ions		अनतिव्यापी आयन
non-paired terrace		अयुग्म वेदिका
non-pair theory	Phy.	युगलहीन सिद्धांत
nonpalaeontological	Zool.	अपुराजीवविज्ञानीय
non-parallel enantiotropy	Chem.	असम-उत्क्रम्यरूपिता, असम उभरूपिता
non-parametric	Math.	अप्राचलीय, अप्राचलिक
non-parametric method		अप्राचल विधि
non-parametric procedure		अप्राचलिक क्रियाविधि
non-parametric semigroup		अप्राचलित सामिसमूह
nonparametric technique		अप्राचलिक प्रविधि
nonparametric test		अप्राचलिक परीक्षण
non-parametric tolerance limit		अप्राचलीय सहन-सीमा
non-parametric trend		अप्राचलिक उपनति
non-parasitic	Zool.	अपरजीवी
nonpareilles	H.Sc.	नॉनपारेल्स
non-parous	Zool.	अप्रजक, अप्रसवी
nonparticulate preparation	Bot.	कणिकेतर कृति
nonpathogenic	Zool.	अरोगजनक
nonpayment	H.Sc.	गैरअदायगी
non-penetrating orbit	Phy.	अन् अन्तर्वेधी कक्षा
non-perennial stream		असदानारा
non-perforated	H.Sc.	अछिद्रित
nonperiodic fraction	Math.	अनावर्ती भिन्न
non-perishable commodity	Geog.	अविकारीय पण्य

non-permanent finish	<i>H Sc.</i>	अस्थायी परिष्कृति
non-persistent gases	<i>Chem.</i>	अदीर्घ स्थायी गैस
non-perturbed system	<i>Chem.</i>	अखुब्ध तंत्र
non-photoconducting phosphor	<i>Phy.</i>	अ-प्रकाशिक अचालक फास्फर
non-photographic	<i>Geog.</i>	अफोटोग्राफीय
nonphotographic filter	<i>Chem</i>	अफोटोग्राफीय फिल्टर
non-photosynthetic	<i>Zool</i>	अप्रकाशसंश्लेषी
nonphylogenetic	<i>Zool</i>	अजातिवृत्तीय
non-physical	<i>Phy</i>	अभौतिक
nonphysical primary		अभौतिक मूलवर्ण
non-physical quantity		अभौतिक राशि
non-phytotoxicity	<i>Biol</i>	अपादप-आविषानुता
nonpiercement dome		अनुत्तरी गुब्द
nonpigmented	<i>Zool</i>	अवर्णकित
non-planar conformation	<i>Phy.</i>	अनमतलीय स्वरूप
non-planar molecule		अममननीय अणु
nonplanar network		अममननीय जाल
non-plunging fold	<i>Geol.</i>	अनवनमनी वनन
non-plunging syncline		अनवनमनी अभिनति
non-poisonous	<i>Zool</i>	विषहीन, निविष
nonpolar dielectrics	<i>Phy</i>	अध्रुवी डाइलेक्ट्रिक
nonpolarizable method	<i>Geol</i>	अध्रुवणीय विधि
nonpolarizable reference electrode		अध्रुवणीय सदस्य इलेक्ट्रोड
non-polar molecule	<i>Phy.</i>	अध्रुवी अणु
non-porous	<i>H Sc.</i>	अरक्षी
non-potential energy	<i>Phy</i>	स्थितिजैतन ऊर्जा
non-potential field	<i>Phy</i>	अविभव क्षेत्र, निविभव क्षेत्र
non-precision camera	<i>Geog</i>	अपरिणुद्ध कैमरा
non-predissociating level	<i>Phy.</i>	पूर्वविशोदनेतर स्तर
non-prehensile	<i>Zool.</i>	अपरिग्राही
non-primitive lattice	<i>Phy</i>	अविभाज्येतर जालक
nonprobabilistic approach	<i>Math.</i>	प्रायिकत्वेतर दृष्टिकोण

non probability sampling		प्रायिकत्वेतर प्रतिचयन
non-product application		उत्पादेतर अनुप्रयोग
nonproduct use		उत्पादेतर उपयोग
non-prolongable	<i>Math</i>	अप्रसार्य
non-protolytic	<i>Chem</i>	अप्रोटॉनाशनी, अप्रोटोपघटनी, अप्रोटोशनी
non-protonic	<i>Chem</i>	अप्रोटॉनीय
non-protrusible	<i>Zool</i>	अबहि सारी
non-puddled soil	<i>Geog</i>	अनोष्ठवती मृदा
non-pyroelectric lattice	<i>Math</i>	अतापविद्युत् जालक
non-pyroelectric phase		अतापविद्युत् प्रावस्था
non-quantitative	<i>Zool</i>	अमात्रात्मक
nonquantitative map	<i>Geog</i>	अमात्रात्मक मानचित्र
nonquantized level	<i>Chem.</i>	अक्वाटित स्तर
non-radiating	<i>Phy</i>	अविकिरणी
non-radiating collision		अविकिरणी टक्कर, अविकिरणी संघात
non-radioactive	<i>Chem , Phy</i>	रेडियोऐक्टिवनाहीन, रेडियमक्रियनाहीन
non-radiogenic	<i>Phy ,Geol , Chem</i>	अरेडियमक्रियताजन्य
nonradiogenic isotope		अरेडियोमक्रियताजन्य आइसोटोप
non-radiometric experiment	<i>Chem.</i>	अरेडियोमितीय प्रयोग
non-rain-bearing cloud	<i>Geog , Phy.</i>	अ-वृष्टिवाही मेघ
non-random assortment	<i>Zool.</i>	अयादृच्छिक अय्युहन
non-random mating		अयादृच्छिक संगम
non-random sample		अयादृच्छिक प्रतिदर्श
non-random sampling method		अयादृच्छिक प्रतिचयन विधि
non reactive factor	<i>Bot.</i>	अनिर्मित्यातीत कारक
nonreal colour primary	<i>Phy.</i>	अवर्णी मूलवर्ण



non-reciprocal recombination	Zool.	अव्युत्क्रम पुनर्योग	nonrestoring division	Math.	अप्रत्यानयी विभाजन
nonrecombinant	Zool.	अपुनर्योगज	non-retractile	Zool.	अनाकुंचनशील, अप्रत्या- कर्षी
non-rectifying	Phy.	अदिष्टकारी	nonretractile claw		अनाकुंचनशील नखर
non-recurrent apomixis	Bot.	अनावर्ती असंगजनन	non-reversible	Math.,Phy.	अनुत्क्रमणीय
non-recurring	Math.	अनावर्त	non-Riemannian geometry	Math.	अरीमानी ज्यामिति
non reducing sugar	Bot.	अनपचयी शर्करा	nonrigid		अदृढ
non-reflecting	Phy.	अपरावर्ती	non-rigid molecule	Phy.	अदृढ अणु
non-reflecting film		अपरावर्ती फिल्म	nonrotating	Geog.	अनावर्ती
non register system	Phy.	अलेखी तंत्र	non-rotating coordinate system	Math.	अधूर्णो निर्देश तंत्र
non-relativistic	Math.,Phy.	अनापेक्षिकीय	non-rotating earth	Phy.	अधूर्णो पृथ्वी (युक्ति)
non-relativistic kinematics		अनापेक्षिकीय शुद्धगतिकी	nonrotating oscillator		अधूर्णो दोलक
non-relativistic quantum mechanics		अनापेक्षिकीय क्वांटम यान्त्रिकी	non-rotational strain	Geol.	अधूर्णात्मक विकृति
nonrelativistic range		अनापेक्षिकीय परिसर	non-sampling error	Math.	अप्रतिचयन त्रुटि
non-relativistic velocity		अनापेक्षिकीय वेग	non-scaling (mud)	Chem.	अशल्की (पंक)
non-renewable resource	Geog.	अनवीकरणीय साधन	nonscanning antenna	Phy.	अक्रमवीक्षक ऐन्टेना
non-repetitive	Phy.	अनावर्ती	nonsegmented	Zool.	खंडहीन
non-repetitive peak reverse voltage	Phy.	अनावर्ती चरम प्रतिवोल्टता	non-selective	Math.	अवस्थात्मक
non-representative sample	Math.	अप्रतिनिधि प्रतिदर्श	nonselective fading	Phy.	अवस्थात्मक अवतीव्रण
non-residential land	Geog.	गैर-आवासी भूमि	non-self quenching counter	Phy.	स्वतः अशमनकारी गणित
non-residential use		गैर-आवासी उपयोग	non-sense correlation	Math.	निरर्थक सह-संबंध
non-resistant	Phy.	अप्रतिरोधक	non-sense mutation	Zool.	अनर्थक उत्परिवर्तन
non-resolvable	Chem.	अवियोज्य	non-sensitiveness		असम सुग्राहिता
non-resonance method	Phy.	अनुनादहीन विधि	non-sensitive prices	Math.	असंवेदी मूल्य
non-resonance proton		अननुनादी प्रोटॉन	nonsequence	Geol.,Geog.	अननुक्रम
non resonant feeder		अननुनादी भरण लाइन	nonsequential stochastic programming	Math.	अननुक्रमिक प्रसंभाव्य प्रागामन
non resonant transmission line		अननुनादी संचरण लाइन	nonsex chromosome	Zool.	अलिंग शुणसूत्र
non resonant wire	Phy.	अननुनादी तार	non-sexual phase	Bot.	अलैंगिक प्रावस्था
non-resonating aerial		अननुनादी ऐन्टेना	non-shaded	Geog.	छायारंजन रहित
non-response	Math.	अननुक्रिया, अनुत्तर	non shetterable	Chem.	अशीय
nonresponsiveness	Zool.	अननुक्रियाशीलता	non shorting contact switch	Phy.	अलघुकारी संपर्क स्विच
nonresponsive reaction		अननुक्रियाशील प्रतिक्रिया	non shrinkable wool	H.Sc.	अकुंचनशील ऊन
			non-significant	Math.	असायक

non-silicate	<i>Chem.</i>	मिलोनेट रहित, असिली-कैदी	non-superconducting cylinder	<i>Math</i>	अनतिचालक बेलन
non-singular matrix		व्युत्क्रमणीय आव्यूह	non-superconducting ellipsoid		अनतिचालक दीर्घवृत्तज
non-singular trans-formation (= regular trans-formation)	<i>Math.</i>	नियमित रूपान्तरण	non-superconductor		अनतिचालक
non-sinusoidal	<i>Math., Phy.</i>	ज्यावक्रैतर	non-surfaced road	<i>Geog</i>	कच्ची सड़क
non-sizing	<i>Chem.</i>	अपमापन	nonsusceptibility	<i>Zool</i>	असुषाहता
non-slotted magnetron	<i>Phy.</i>	अखचित मॅग्नेट्रॉन	nonsusceptible	<i>Zool</i>	असुषाह
non sodic	<i>Chem.</i>	सोडा रहित	non-sustained discharge	<i>Math</i>	अपोषित विमर्जन
non-soluble	<i>H Sc.</i>	अघिलेय	nonsymmetrical	<i>Math, Phy., Geol</i>	असममितीय
non-spectral colour	<i>Phy.</i>	स्पेक्ट्रमेतर रंग	nonsymmetric bilinear form		असममिन द्वि रैखिक सम-घात
non-spectroscopic	<i>Chem.</i>	अस्पेक्ट्रमी	non-symmetric matrix		असममिन आव्यूह
non-spherical distri-bution	<i>Chem.</i>	अगोलीय बंटन	nontangential shock	<i>Math.</i>	अस्पर्शी प्रघात
non-spherical in-dicatrix of scattering	<i>Math</i>	अगोलीय प्रकीर्णन छोनिका	nontechnical	<i>Zool</i>	अनवनीची, अप्राविधिक
non-spiracular segment	<i>Zool.</i>	अश्वासरम्रीय खंड	non-tectonite	<i>Geol</i>	अटेक्टोनाइट
nonsporeforming bacteria	<i>Chem.</i>	बीजाणु अनुत्पादी जीवाणु	nontemporal	<i>Zool</i>	अकालिक
non sporulating	<i>Chem</i>	बीजाणु अनुत्पादी	non-tensor quantity	<i>Math</i>	अप्रदिश राशि
non-staggered pair	<i>Phy.</i>	अविभिन्न स्वरित युग्म	nonterminating fraction	<i>Math</i>	अनदशाती भिन्न
nonstandard propagation	<i>Phy.</i>	अमानक संचरण	non-textiles merchandise	<i>H Sc</i>	अस्वेतर पण्य
non-static line element	<i>Math.</i>	अस्थैतिक रेखा अल्पांश	non-thermoluminescent	<i>Geol.</i>	अनापसदीप्त
non-static model		अस्थैतिक निदर्श	non-tidal component	<i>Geol</i>	अ्वारेतर घटक
non-static universe		अस्थैतिक विश्व	non-tidal wave	<i>Geog.</i>	अश्वारीय तरंग
non-stationary flow	<i>Math.</i>	अनप्रवाही प्रवाह	non-toxic	<i>Chem., H Sc., Zool.</i>	निराविषी
non-stationary motion		अनप्रवाही गति	non-toxic drug	<i>Zool</i>	निराविषी औषधि
non-steady system	<i>Math.</i>	अस्थिर निकाय	non-toxicity		निराविषालुता
nonstochastic problem	<i>Math.</i>	अप्रसन्नान्य समस्या	non-transition element	<i>Phy</i>	अक्रमगेतर तत्व
non-stoichiometric	<i>Chem.</i>	अ-रससमीकरण मितीय	nontranslit theodolite	<i>Geog.</i>	नॉन ट्रांसलिट थियोडोलाइट
non-stoichiometric compound		अ-रससमीकरण मितीय यौगिक	nontranslocated	<i>Zool.</i>	अध्यानांतरित
non storage camera tube	<i>Phy.</i>	असंचायक कैमरा नलिका	non-trivial	<i>Math</i>	अनुच्छ
nonsulcate	<i>Geol.</i>	असूक्ष्म	non-trivial factorization		अनुच्छ गुणनखंडन
			non-trivial real valuation		अनुच्छ वास्तविक मापन
			non-trivial solution		अनुच्छ हल

nontrivial space		अतुच्छ समष्टि	non-viscous equation		श्यानताहीन समीकरण
nontrivial translation		अतुच्छ स्थानांतरण	nonviscous fluid		श्यानताहीन तरल
nontronite	<i>Geol., Geog.</i>	नॉट्रोनाइट	non-viscous gas motion		श्यानताहीन गैस गति
non-turbulent stream	<i>Math.</i>	अप्रक्षुब्ध धारा	nonviscous incompressible fluid		श्यानताहीन असंपीड्य तरल
nontypological	<i>Zool.</i>	अप्ररूपविज्ञानीय	non-visual flight	<i>Geog.</i>	दृश्यहीन उड़ान
nonumbilical	<i>Geol.</i>	अनाभिक	non-vitreous	<i>Chem.</i>	अकाचीय
non-uniform convergence	<i>Math.</i>	नैकसमान अभिसरण	non-void	<i>Math.</i>	अरिक्त
non-uniform cooling	<i>Chem., Geog.</i>	असमान शीतलन	non-void connected subset	<i>Math.</i>	अरिक्त संबद्ध उपसमुच्चय
non-uniform dimensional change		असमान विस्तार परिवर्तन	non-void intersection		अरिक्त सर्वनिष्ठ
non-uniform gas	<i>Math.</i>	असमांग गैस	non-void subfamily		अरिक्त उपपरिवार
non-uniform grid structure		असमान ग्रिड संरचना	non-void subset		अरिक्त उपसमुच्चय
non uniformity	<i>Phy.</i>	नैकसमानता	non-void system		अरिक्त निकाय
non-uniform pressure	<i>Geol.</i>	असम दाब	non-volatile	<i>Chem.</i>	अवाष्पशील, अनुवाष्प
non-uniform rotation		असमान घूर्णन	non-wetted	<i>Geol.</i>	अनाद्र
non-uniform sensitiveness	<i>Phy.</i>	असम चुयाहिता	non-woven fabric	<i>H.Sc.</i>	अवयवित वस्त्र
non-uniform soil	<i>Zool.</i>	असमान मिट्टी	nonyl alcohol	<i>Chem.</i>	नॉनिल ऐल्कोहॉल
non-urban district	<i>Geog.</i>	गैर नगरीय क्षेत्र	nonylate	<i>Chem.</i>	नॉनिलेट
non-urban use		गैर नगरीय उपयोग	nonylene		नॉनिलीन
non-vacuous (= non void)	<i>Math.</i>	अरिक्त	nonylic acid		नॉनिलिक अम्ल
non-vanishing determinant	<i>Math.</i>	शून्येतर सारणिक	non-zero angular momentum	<i>Phy.</i>	शून्येतर कोणीय संवेग
nonvanishing translation		शून्येतर स्थानान्तरण	non-zero autocorrelation coefficient		शून्येतर स्वसहसंबंध गुणांक
non-variant	<i>Math.</i>	अचर	non-zero coefficient		शून्येतर गुणांक
non-variant system		अचर तंत्र	non-zero correction		शून्येतर संशोधन
non-venomous	<i>Zool.</i>	निर्विष, विषहीन	non-zero determinant		शून्येतर सारणिक
non-verticality	<i>Geog.</i>	अनूध्वाधरता, अलम्बता	non-zero digit		शून्येतर अंक
nonviable	<i>Biol.</i>	जीवनाक्षम	nonzero ideal		शून्येतर गुणजावली
nonviable egg	<i>Zool.</i>	वर्धनाक्षम अंडा, जीवनाक्षम अंडा	non-zero lower bound		शून्येतर निम्न परिवंध
nonvirulent	<i>Zool.</i>	अनुग्रह	non-zero mass		शून्येतर द्रव्यमान
non-viscous	<i>Phy.</i>	श्यानताहीन	non-zero moment		शून्येतर आघूर्ण
nonviscous acoustic wave		श्यानताहीन ध्वनि तरंग	non-zero quadrupole moment		शून्येतर चतुर्ध्रुवी आघूर्ण
			non-zero spin		शून्येतर प्रचक्रण
			non-zero sum game		शून्येतर योग खेल

non-zero value		शून्येतर मान	norepinephrine	Chem	नॉर-एपिनेफ्रीन
non-zero variable		शून्येतर चर	norequilenin	Chem.	नॉरएक्विबलेनिन
noodle	H.Sc.	नूडल	norethandrolone	Chem	नॉर-एथेन्ड्रोसोन
nook	Geog.	निर्जन स्थान	norethisterone	Chem.	नॉर-एथिस्टेरोन
noon		मध्याह्न	Norfolk cotton	H.Sc.	नॉरफक कपास
no-op instruction	Phy.	व्यसक्रिया अनुदेश	Norfolk jacket	H.Sc.	नॉरफक जैकेट
Nootka	Geog.	नूटका	Norfolk sheep	H.Sc.	नॉरफक भेघ
Nootka group		नूटका समूह	NOR gate	Phy	NOR गेट, नापि गेट
Nootka village		नूटका ग्राम	Norge saltpeter	Chem	नॉर्ज साल्टपीटर, नॉर्ज गोरा
nopal	H.Sc.	नोपाल	norgine	Chem., H.Sc.	नॉर्जीन
nopales	H.Sc.	नोपैल्स	norharman	Chem	नार्हार्मन
nopinolacetic acid	Chem.	नोपिनोलेसीटिक अम्ल	nor	H.Sc.	नॉर
nopinone	Chem.	नोपिनोन	norla	Geog	नोरिआ, रहट
no-pressure laminating	Chem	दाबहीन पटलन	Noric race	Geog	नोरिक जाति
NOR	Phy.	नापि, NOR	Norit	Chem.	नारिट, विरजक चारकोन
nor	Chem.	नॉर (जैसे नॉरकैम्फेन)	norite	Geol	नोराइट
noradrenalin	Zool.,H.Sc.	नॉरएड्रीनेलिन	norium	Chem	नोरियम
noral	Chem.	नॉरल	norleucine	H.Sc., Chem.	नॉरल्स्यूमीन
norane	H.Sc.	नॉरेस	norm	Math, Geol.	मानक
norarecoline	Chem.	नॉर-एरिकोलान	*Norma	Astron.	नॉर्मा
Norbide	Chem.	नॉर्बाइड	normable space	Math.	मानकनीय भूमिति
norbixin	Chem.	नॉरबिक्सिन	normagal	Chem.	नार्मागान
norbornadiene	Chem.	नॉरबोर्नाडाइ-ईन	Norma-Hoffman stability test	Chem.	नार्मा हॉफमन स्थायित्व सपरीक्षण
Nordberg-Wood classifier	Geol.	नॉर्बेर्ग वुड वर्गीकर	normal		1. (according to rule) प्रसामान्य 2. (=natural) प्राकृत 3. (=standard, as in NTP) मानक 4. (=usual) सामान्य, साधारण 5. (=perpendicular) अभिन्न 6. (in compounds, strengths of solu- tion etc.) नॉर्मल
norcamphor	Chem.	नॉरकैम्फर	normal acceleration		अभिन्न त्वरण
norcarane	Chem.	नॉरकैरेन	normal alcohol		नार्मल ऐल्कोहॉल
norcardia acidophilis	Chem.	नॉरकार्डिया एसिडोफिलिस	normal angle		अभिन्न कोण
Notcross viscometer	Chem.	नॉटक्रॉस विधानतामापी			
Nordengren process	Chem.	नार्डेग्रेन प्रक्रम			
Nordhausen acid	Chem.	नार्डेहाउसेन अम्ल			
Nordic		नार्डिक			
nordihydrogualectic acid	Chem.	नॉर डाइहाइड्रोक्वामरेटिक अम्ल			
nordmarkite	Geol.	नॉर्दमार्कइट			
nore	Geog.	नॉर, अन्तरीप			
nordost	H.Sc.	नॉरदॉस			

normal anticlinorium	<i>Geol.</i>	सामान्य समपनति	normal distribution	प्रसामान्य वंटन
normal approximation		प्रसामान्य सन्निकटन	normal distribution function	प्रसामान्य वंटन फलन
normal atom	<i>Phy., Chem.</i>	अनुत्तेजित परमाणु, सामान्य परमाणु	normal earthquake	साधारण भूकंप
normal beam technique		अभिलंब किरणपुंज तकनीक	normal elastic curve	प्रसामान्य प्रत्यास्थ वक्र
normal boiling point		प्रसामान्य क्वथनांक	normal emission	सामान्य उत्सर्जन
normal break contact	<i>Phy.</i>	सामान्यतः विच्छेद संपर्क	normal encounter	प्रसामान्य समागम
normal class		सामान्य वर्ग	normal equation	प्रसामान्य समीकरण
normal closure		प्रसामान्य संवरक	normal equivalent deviate	प्रसामान्य तुल्य विचल
normal coloured edition		सामान्य रंगीन संस्करण	normal erosion	सामान्य अपरदन
normal complex		सामान्य संकुल	normal error	प्रसामान्य त्रुटि
normal component		अभिलंब घटक	normal error curve	प्रसामान्य त्रुटि वक्र
normal component of stress		अभिलंबीय प्रतिबल घटक	normal extension	प्रसामान्य विस्तार
normal cone		प्रसामान्य शंकु	normal family of functions	प्रसामान्य फलन कुल
normal congruence		अभिलंब द्विप्राचल रेखाकुल	normal fault	सामान्य भ्रंश
normal consistency		सामान्य संगति	normal flight	सामान्य उड़ान
normal contact		सामान्य संपर्क	normal flux	अभिलंब फ्लक्स
normal convergence		प्रसामान्य अभिसरण	normal fold	सामान्य बलन
normal coordinate		प्रसामान्य निर्देशांक	normal force	अभिलंब बल
normal correlation		प्रसामान्य सहसंबंध	normal form	सामान्य रूप, प्रसामान्य रूप
normal covalency radius		सामान्य सहसंयोजनी त्रिज्या	normal form for the matrix	आय्यूह का प्रसामान्य रूप
normal curvature		अभिलंब वक्रता	normal free-air reduction	सामान्य युक्त वायु संशोधन
normal curve		प्रसामान्य वक्र	normal freezing	सामान्य जमना
normal cycle of erosion	<i>Geog.</i>	सामान्य अपरदन चक्र	normal frequency	प्रसामान्य बारंबारता
normal density		प्रसामान्य घनत्व	normal function	प्रसामान्य फलन
normal density function		प्रसामान्य घनत्व फलन	normal gabbro	सामान्य गैब्रो
normal derivative		प्रसामान्य अवकलज	normal glass	प्रसामान्य काँच
normal deviate		प्रसामान्य विचल	normal gradient	सामान्य प्रवणता
normal difference		प्रसामान्य अंतर, नामेल अंतर	normal horizontal separation	अभिलंब क्षैतिज पृथक्करण
normal dispersion		प्रसामान्य वर्ण विलोपण	normal hydrocarbon	नामेल हाइड्रोकार्बन
normal displacement		प्रसामान्य विस्थापन	normal hydrogen	सामान्य हाइड्रोजन
			normal hydrogen electrode	नामेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड

normal incidence radiometer	अभिलव आपतन विकिरणमापी	normalized impedance	प्रसामान्यीकृत प्रतिबाधा
normal indication	सामान्य सूचन	normalized measure	प्रसामान्यीकृत माप
normal induction	अभिलव प्रेरण	normalized minor	प्रसामान्यीकृत उपसाराणिक
normal inspection	सामान्य निरीक्षण	normalized representation	मानकीकृत निरूपण
normal integral	प्रसामान्य समाकल	normalized star density	प्रसामान्यीकृत तारा घनत्व
normal isoallele	Zool. सामान्य भ्रमविकल्पी	normalized steel	सामान्यीकृत इस्पात
normality	Math. Chem. प्रसामान्यता नार्मलता	normalized structure	प्रसामान्यीकृत संरचना
normality condition	प्रसामान्यता प्रतिबंध	normalized utility	प्रसामान्यीकृत उपयोगिता
normality of population	जनसंख्या की प्रसामान्यता	normalized value	प्रसामान्यीकृत मान
normalization	प्रसामान्यीकरण	normalized wave function	प्रसामान्यीकृत तरंग फलन
normalization algebra	प्रसामान्यीकृत बीज्यावली	normalizer	प्रसामान्यक
normalization condition	प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध	normalizing device	प्रसामान्यकारी युक्ति
normalization constant	प्रसामान्यीकरण नियतांक	normalizing factor	प्रसामान्यकारक गुणक
normalization factor	प्रसामान्यीकरण गुणक	normal lapse rate	प्रसामान्य च्युति-दर
normalization of characteristic function	अभिलक्षण फलन का प्रसामान्यीकरण	normal law of error	प्रसामान्य द्रुति नियम
normalization of finite games	परिमित खेलों का सामान्यीकरण	normal limiting distribution	प्रसामान्य सीमांत वटन
normalization to unity	एकांकी प्रसामान्यीकरण	normal line	सामान्य रेखा
normalization volume	प्रसामान्यीकरण आयतन	normally closed	सामान्यत बन्द
normalized autocorrelation	प्रसामान्यीकृत स्वसहसंबंध	normally correlated surface	प्रसामान्यत-सहसंबंधित पृष्ठ
normalized covering	प्रसामान्यीकृत सवरण	normally open	सामान्यत खुला
normalized curve	प्रसामान्यीकृत वक्र	normally ordered aggregate	प्रसामान्यत-क्रमित समुच्चय
normalized determinant	प्रसामान्यीकृत साराणिक	normal machinery	साधारण व्यवस्था
normalized distribution function	प्रसामान्यीकृत वितरण फलन	normal magnetisation curve	प्रसामान्य चुंबन वक्र
normalized eigen vector	प्रसामान्यीकृत अभिलाक्षणिक सदिश	normal magnification	प्रसामान्य आवर्धन
normalized floating point number	प्रसामान्यीकृत चलबिन्दु संख्या	normal make contact	सामान्यत-संबंध संपर्क
normalized function	प्रसामान्यीकृत फलन	normal matrix	प्रसामान्य आधुह
		normal melting point	प्रसामान्य गलनांक
		normal metamorphism	सामान्य रूपांतरण
		normal mirror plane	अभिन्ने दर्पण तल
		normal mixture	सामान्य मिश्रण
		normal mode	प्रसामान्य विधा
		normal-mode method	प्रसामान्य विधामुलक विधि

normal molecule	सामान्य अणु	normal salt	नॉर्मल लवण, नॉर्मल साल्ट
normal multivariate distribution	प्रसामान्य बहुविचर वंटन	normal scale	सामान्य पैमाना
normal number	प्रसामान्य संख्या	normal scarpland	साधारण कगारभूमि
normal operator	प्रसामान्य संकारक	normal semi-group	प्रसामान्य सामिसमूह
normal orthogonal basis	प्रसामान्य लंबकोणीय बाधार	normal sequence of functions	प्रसामान्य फलन-अनुक्रम
normal orthogonal function	प्रसामान्य लंबकोणीय फलन	normal series	प्रसामान्य श्रेणी
normal perforation	अभिलंबीय छिद्रण	normal shock	अभिलंब प्रघात
normal permeability	अभिलंबी चुंबकशीलता	normal solution	तुल्यांकी विलयन, नार्मल विलयन
normal phonolite	सामान्य फ़ोनोलाइट	normal space	प्रसामान्य समष्टि
normal photoelectric effect	प्रसामान्य प्रकाशविद्युत् प्रभाव	normal spirial (=normal spiral nebula)	प्रसामान्य सर्पिल नीहारिका
normal place	प्रसामान्य स्थान	normal state	सामान्य अवस्था
normal population	प्रसामान्य समष्टि	normal strain	अभिलंब विकृति
normal potential	प्रसामान्य विभव	normal stress	अभिलंब प्रतिबल
normal pressure	मानक दाब	normal subgroup (=distinguished subgroup)	प्रसामान्य उपसमूह, विशिष्ट उपसमूह
normal price	सामान्य कीमत	normal survey	सामान्य सर्वेक्षण
normal probability curve	प्रसामान्य प्रायिकता वक्र	normal synclinorium	सामान्य समभिनति
normal probability distribution	प्रसामान्य प्रायिकता वंटन	normal tax	सामान्य कर
normal probability table	प्रसामान्य प्रायिकता सारणी	normal telescope	सामान्य दूरबीन
normal profit	सामान्य लाभ	normal temperature	मानक ताप
normal projection	अभिलंब प्रक्षेप	normal tension	सामान्य तनाव
normal pyroxenic	सामान्य पाइरोक्सीनी	normal threshold of hearing	श्रवण की सामान्य देहली
normal quantization	सामान्य क्वान्टीकरण, नॉर्मल क्वान्टीकरण	normal topological space	प्रसामान्य सांस्थितिक समष्टि
normal random variable	प्रसामान्य यादृच्छिक चर	normal trade	सामान्य व्यापार
normal reaction	1. अभिलंब प्रतिक्रिया 2. सामान्य प्रतिक्रिया	normal transformation	प्रसामान्य रूपांतरण
normal resolute	अभिलंबी वियोजित	normal ulmin	सामान्य उल्मिन
normal response	सामान्य अनुक्रिया	normal valence	सामान्य संयोजकता
normal river	सामान्य नदी	normal valence compounds	सामान्य संयोजकता यौगिक
normal rule and practice	सामान्य नियम व प्रयोग	normal vector	अभिलंब सदिश
normal run record	सामान्य धाव अभिलेख	normal velocity	अभिलंबीय वेग
		normal velocity surface	अभिलंब वेग पृष्ठ

normal vision		प्रसामान्य दृष्टि	norm of an element	<i>Math.</i>	अवयव वा मानक
normal work area	<i>H.Sc.</i>	सामान्य कार्य क्षेत्र	norm of an ideal		गुणवावली वा मानक
normal Zeeman effect		सरल जेमान प्रभाव	norm of a vector		सदिश मानक
normal Zeeman triplet		सरल जेमान त्रिक	norm of four-vector		चतुर्विध सदिश का मानक
normameter	<i>Chem.</i>	नार्मानोमिटर	norm reflexive		मानक स्वतुल्य
normande sauce	<i>H.Sc.</i>	नॉरमन्ड सॉस	norm system		मानक प्रणाली
normandy val	<i>H.Sc.</i>	नॉरमान्डी वैल	norm topology		मानक सत्स्थिति
normative		मानकी	norpinic acid		नार्पिनिक अम्ल
normative decision theory		मानकी निर्णय सिद्धांत	Norseman	<i>Geog.</i>	नार्समेन
normative mineral	<i>Geol.</i>	मानकी खनिज	Norte	<i>Geog.</i>	नार्टे (पवन)
normative value	<i>H.Sc.</i>	मानकी मूल्य	north	<i>Geog.</i>	उत्तर
norm axiom	<i>Math.</i>	मानक अभिगृहित	Northants iron stone	<i>Chem.</i>	नोरथेन्ट्स, नोड्हायम
norm classification		मानक वर्गीकरण	north east	<i>Geog.</i>	उत्तरपूर्व, ईशानकोण
norm convergence (=strong convergence)		मानक अभिसरण, प्रबल अभिसरण	Norther	<i>Geog.</i>	नार्थर (पवन)
norm determining manifold		मानक निर्धारक प्रममष्टि	northern		उत्तरी
normed algebra		मानकित बीजावली	northern circuit		उत्तरी परिपथ
normed conjugate		मानकित सयुग्मी	northern hemisphere		उत्तरी गोलार्ध
normed conjugate space		मानकित सयुग्मी समष्टि	northern light	<i>Geog.</i>	उत्तरी ध्रुव प्रकाश
normed lattice		मानकित जालक	northern node		उत्तर धात
normed linear space		मानकित रैखिक समष्टि	northern star	<i>H.Sc.</i>	नॉर्नस्टार
normed ring		मानकित वलय	north galactic pole		उत्तर महाकियोध ध्रुव
normed semi-group		मानकित सामिसमूह	nothing	<i>Geol.</i>	अभ्युत्तर अशानर
normed space		मानकित समष्टि	north magnetic pole		उत्तर चुम्बकीय ध्रुव
normed vector space		मानकित सदिश समष्टि	north point		उत्तर बिन्दु
norm isomorphism	<i>Math.</i>	मानक तुल्याकारिता	north polar distance		उत्तर ध्रुवीय दूरी
normoblast	<i>Zool.</i>	सुलोहिताणुकोरक, नॉर्मोब्लास्ट	north polar sequence		उत्तर ध्रुवीय तारानुक्रम
normocyte	<i>Zool.</i>	सुलोहिताणु	north pole	<i>Geog.</i>	उत्तर ध्रुव
normocytic		सुलोहिताणुक	North sea	<i>Geog.</i>	उत्तरी सागर
normocyte	<i>Zool.</i>	शामान्याणु	Northrup furnace	<i>Chem.</i>	नार्थरूप फर्नास
normocytic		शामान्याणुविक	north seeking pole	<i>Geol.</i>	उत्तरमुखी ध्रुव, उत्तरमुखी ध्रुव
normoblast	<i>Zool.</i>	दक्षिण कोशिकाकोरक, नॉर्मोब्लास्ट	north-south correction		उत्तर-दक्षिण समोधन
normograph	<i>Geog.</i>	नार्मोग्राफ	north-south effect		उत्तर-दक्षिण प्रभाव
			northward bulge	<i>Geog.</i>	उत्तरदिशिमुख उभार
			north west	<i>Geog.</i>	उत्तर पश्चिम, वायुकोण
			north wind		उत्तरी पवन
			Norwegian lobster	<i>Geog.</i>	नार्वेजियाई सर्बिस्टर



Norwegian yarn	<i>H.Sc.</i>	नार्वेजियाई मूल	notation of complex plane		सम्मिश्र तल का संकेतन
norwester wind	<i>Geog.</i>	काल बैसाखी	notch		खाँच, कोण कटान
Norwich crag	<i>Geog.</i>	नारविच श्रृंग	notch adjustment		खाँच समायोजन
Norwich crepe	<i>H.Sc.</i>	नारविच क्रेप	notch antenna		खाँच एन्टेना
Norwich shawl	<i>H.Sc.</i>	नारविच शॉल	notch-diplexer		खाँच द्वियुग्मक
nose	<i>Zool.</i> <i>Geol., Geog.</i>	नासा, नासिका, नाक नोज (अंतर्रोप)	notched bar testing		खाँचित दंड संपरीक्षण
nosean		नोजिएन	notched wood		खाँचदार काष्ठ
nose cone		नासा शंकु	notched wrack		खाँचदार समुद्रीजैवाल
nose diving		नासा-मज्जन	notch filter		खाँच फ़िल्टर
nose drag		नासा कर्षण	notch-keel		खाँच कूटक
nose fly	<i>Zool.</i>	नासा मक्खी	notch network		खाँच जाल
noselite	<i>Geol.</i>	नोज़ेलाइट	notch pulse		खाँच स्पंद
<i>Nosema apis</i>	<i>Zool.</i>	नोज़ेमा एपिस	note	<i>Phy.</i>	स्वर
<i>Nosema bombycis</i>		नोज़ेमा बोम्बाइसिस	Noterocladia	<i>Bot.</i>	नोटैरोक्लैडिया
nose piece	<i>Zool.</i>	नोज़ पीस	not function	<i>Math.</i>	निषेध फलन
nose-sheild		नासा विशल्क	NOT gate	<i>Phy.</i>	NOT गेट, न गेट
nose stick		नासिकाकील	Nothosauria	<i>Zool.</i>	नोथोसॉरिया
noshi ito	<i>H.Sc.</i>	नोशी इटो	Notidanoidea	<i>Zool.</i>	नोटोडेनॉइडिया
nosing off	<i>Geol.</i>	वलन शूंडन	Notidanus (Chlamydoselachus)	<i>Zool.</i>	नोटोडेनस (क्लैमिडोसेलैकस)
no-slip	<i>Math.</i>	असर्पण	notification	<i>Geog., H.Sc.</i>	अधिसूचना
no slip condition		असर्पण प्रतिबंध	notion of operations	<i>Math.</i>	संक्रिया-धारणा
nosographical map	<i>Geog.</i>	नोजोग्राफीय मानचित्र, रोग-वितरण मानचित्र	Notioprogonia	<i>Zool.</i>	नोटिओप्रोगोनिया
nosological	<i>Geog.</i>	नोजोलॉजीय, रोग वर्गिकीय	notocentrous	<i>Zool.</i>	पृष्ठकशोश्ककायी, पृष्ठकामिक
nosological map		नोजोलॉजीय मानचित्र, रोग वर्गिक मानचित्र	notochord	<i>H.Sc., Zool.</i>	नोटोकॉर्ड, पृष्ठरज्जु
nosology		नोजोलॉजी, रोग वर्गिकी	notochordal canal	<i>Zool.</i>	पृष्ठरज्जु नाल
nostril	<i>Zool.</i>	नासाद्वार	notochordal groove		पृष्ठरज्जु खाँच
nostrum	<i>H.Sc.</i>	गुप्तीपथ	notochordal rod		पृष्ठरज्जु दंड
NOT	<i>Phy.</i>	न, NOT	notochordal sheath		पृष्ठरज्जु आवरण
notable evolutionary change	<i>Geog.</i>	विशिष्ट विकासीय परिवर्तन	notochordal tissue		पृष्ठरज्जु ऊतक
Notaden	<i>Zool.</i>	नोटैडन	Notodiaphorus		नोटोडायाफोरस
notal wing process	<i>Zool.</i>	पृष्ठक पक्षबंध	Notodontidae	<i>Zool.</i>	नोटोडॉन्टिडी
notate	<i>Bot.</i>	अंकित	notogaea (notogaenic realm)	<i>Zool.</i>	नोटोगिया (नोटोगेइक परिर्मंडल)
notation	<i>Chem., Math., Phy.</i>	1. संकेतन, अंकन 2. अंकन-पद्धति, संकेत पद्धति	notopodial setae	<i>Zool.</i>	पृष्ठपाद शूक
			notopodium	<i>Zool.</i>	पृष्ठपाद

Notoptera	Zool.	नोटोप्टेरा	nowhere dense set		नकुदापि सघन समुच्चय
Notopteroldea		नोटोप्टेरोइडिया	noxious industry	Geog	अनिष्टकारी उद्योग
Notopteris		नोटोप्टेरस	noxious stimulus	Zool.	पीडा उद्दीपन
<i>Notopterus chitala</i>	Zool.	नोटोप्टेरस चितला (चीतल)	Noy (unit of annoyance)	Phy.	नाय
<i>Notopterus kaporat</i>	Zool.	नोटोप्टेरस केपीरेंट	Noyes apparatus	Chem.	नॉयस उपकरण
notoriety		कुख्याति	nozzle	Chem., H Sc	तुड, चच्
Notoryctes	Zool.	नोटोरिक्टोज	nozzle area ratio		तुड क्षेत्रानुपात
<i>Notoryctes typhlops</i>		नोटोरिक्टोज टिफलोप्स	nozzle box		नाजल बक्स, चच् बक्स
Notoryctidae	Zool.	नोटोरिक्टिडी	nozzle operation		चच् प्रचालन
Notostomus	Geol., Geog.	नोटोस्टोमस	nozzling	Chem., Zool	तुडन
Notostraca	Zool	नोटोस्ट्रैका	n-parametric family	Math	n-प्राचल कुल
notostracan	Zool.	नोटोस्ट्रैकन, सपुच्छवर्गी	n-p-i-n transistor	Phy	n-p-i-n ट्रांजिस्टर
Nototherium	Zool.	नोटोथीरियम	n-p-i-n triode transistor		n-p <sup>2</sup> -i-n ट्रायोड ट्रांजिस्टर
nototribe	Bot.	आगन्तुक पुष्प स्पर्शा	n-ply orthogonal system of hypersurfaces	Math.	ऊनविम पुच्छो वा n-तया सम्बन्धीय निकाय
Notoungulata	Zool.	नोटोअग्युलेटा	n. prov.	Bot.	अनविम नाम
Nottingham lace	H Sc.	नॉटिंघम लेस	n-shift	Phy.	n-विस्थापन
Nottingham ware	H.Sc.	नॉटिंघम भाण्ड	n-shift rule	Phy.	n-विस्थापन नियम
notum	H Sc., Zool.	वक्षपुच्छक	n sp.	Bot.	नव जाति
noumeite	Geol.	नूमाइट	n-type semiconductor	Phy	n-प्ररूपी अर्ध चालक
nourishment	H Sc.	पोषण	n-type conductivity	Phy.	n-प्रकार की चालकता
nov.	Bot.	नव	nuage	H Sc.	नृण
nova	Math	नवजारा, नोवा	nuance	Chem	सूक्ष्मान्तर
novaculite	Geol.	नोवाकुलाइट	nub	H.Sc.	नव
noval base	Phy.	नोवल आधार	nubbin	Geog	नविन
nova-like variable	Math.	नवताराभ चरकाति तारा	nub yarn	H.Sc.	नव सूत्र
novalite	Chem.	नोवैलाइट	nucamentum	Bot	नतत्रणिस, भेटस्ति
novelty weave	H Sc.	विचित्र बयन	Nucella	Geol.	न्युमेला
novelty yarn	H.Sc.	विचित्र सूत्र	nucellar beak	Bot.	बीजाइकाय-चच्
noviol glass	Phy.	नोवियोल काच	nucellar budding		बीजाइकाय-मुकुनन
novoblocin	Chem.	नोवोब्लोसिन	nucellar cap		बीजाइकाय-नीप
novocaine	Chem.	नोवोकेन	nucellar embryo		बीजाइकाय-भ्रूण
novokonstant	Chem.	नोवोकान्स्टेन्ट	nucellar embryony		बीजाइकाय-भ्रूणता
Novolak	Chem.	नोवोलेक	nucellar pad		बीजाइकाय तल
<i>Nowakowskella macrospora</i>	Bot.	नोवाकोस्किएला मैक्रोस्पोरा	nucellar tracheid		बीजाइकाय वाहिनिका
nowhere dense	Math.	नकुदापि सघन			

nucellus	<i>Bot.</i>	बीजांडकाय	nuclear compound	केन्द्रकीय यौगिक
nuchal cartilage	<i>Zool.</i>	कंधरा उपास्थि	nuclear constant	न्यूक्लीय स्थिरांक
nuchal crest	<i>Zool.</i>	न्यूकल किरोट (कलगो)	nuclear cross section	नाभिकीय प्रायिकता क्षेत्र
nuchal organ		कंधरा अंग	nuclear debris	नाभिक अवशेष
nuchal plate		कंधरा पट्टिका	nuclear de-excitation	न्यूक्लीय व्युत्तेजन
nuchal sense organ		कंधरा ज्ञानेन्द्रिय	nuclear demagnetisation	न्यूक्लीय विचुंबकन
nuchar	<i>Chem.</i>	न्युचार	nuclear dipole moment	न्यूक्लीय द्विध्रुव आघूर्ण
nucidine	<i>Chem.</i>	न्यूमिडीन	nuclear division	केन्द्रकीय विभाजन
nuciferous	<i>Bot.</i>	दृढफलधर	nuclear emulsion	नाभिकीय पायस, न्यूक्लीय इमल्शन
nuclear	<i>Phy., Chem. Biol.</i>	नाभिकीय, न्यूक्लीय केन्द्रक, केन्द्रकीय	nuclear emulsion plate	न्यूक्लीय इमल्शन प्लेट
nuclear apparatus		केन्द्रकीय अंग, केन्द्रक समुच्चय	nuclear endosperm	केन्द्रकीय झ्रूपपोष
nuclear area	<i>Geog.</i>	केन्द्रक क्षेत्र	nuclear energy (=atomic energy)	नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु-ऊर्जा
nuclear atom		नाभिकीय परमाणु	nuclear engineering	नाभिकीय इंजीनियरी, न्यूक्लीय इंजीनियरी
nuclear audiofrequency spectroscopy		न्यूक्लीय श्रव्य आवृत्ति स्पेक्ट्रमिकी	nuclear envelope	केन्द्रक आवरण
nuclear binding energy		न्यूक्लीय बन्धन ऊर्जा, नाभिकीय बन्धन ऊर्जा	nuclear explosion	नाभिकीय विस्फोट
nuclear boiling		नाभिकीय क्वथन, न्यूक्लीय क्वथन	nuclear fission	नाभिकीय विखंडन
nuclear bomb		नाभिकीय बम, न्यूक्लीय बम	nuclear force	नाभिकीय बल
nuclear cap		केन्द्रक-टोपी	nuclear fuel	नाभिकीय ईंधन, न्यूक्लीय ईंधन
nuclear cascade		नाभिकीय सोपान	nuclear furnace	नाभिकीय भट्टी
nuclear chain reaction		नाभिकीय शृंखला अभिक्रिया, न्यूक्लीय शृंखला अभिक्रिया	nuclear fusion	न्यूक्लीय संलयन, नाभिकीय संलयन
nuclear charge		न्यूक्लीय चार्ज, नाभिकीय आवेश	nuclear gas model	न्यूक्लीय गैस मॉडल
nuclear charge distribution		न्यूक्लीय चार्ज वितरण	nuclear geophysics	नाभिक भूभौतिकी
nuclear charge number		न्यूक्लीय चार्ज संख्या, नाभिकीय आवेश संख्या	Nuclearia	<i>Zool.</i> न्यूक्लिएरिया
nuclear chemistry		न्यूक्लीय रसायन, नाभिकीय रसायन	nuclear importance function	न्यूक्लीय महत्व फलन
nuclear chromatin	<i>Zool.</i>	केन्द्रकीय क्रोमैटिन	nuclear induction	नाभिकीय प्रेरण
nuclear clone		केन्द्रकीय क्लोन	nuclear isomer	1. नाभिकीय समावयवी 2. केन्द्रकीय समावयवी
nuclear collision		न्यूक्लीय टक्कर, न्यूक्लीय संघट्ट	nuclear isomerism	1. नाभिकीय समावयवता, न्यूक्लीय समावयवता 2. केन्द्रकीय समावयवता
			nuclear level	न्यूक्लीय स्तर, नाभिकीय ऊर्जा स्तर

nuclear logging	नाभिक मलेखन	nuclear quadrupole spectroscopy	नाभिकीय चतुर्ध्रुव स्पेक्ट्रमित्री
nuclear magnetic moment	न्यूक्लीय चुंबकीय आघूर्ण	nuclear radius	नाभिकीय त्रिज्या, न्यूक्लीय त्रिज्या
nuclear magnetic resonance (N. M. R.)	नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद (एन०एम०आर०)	nuclear reaction	नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लीय अभिक्रिया
nuclear magnetic resonance spectroscopy	नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रमित्री	nuclear reactor	नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लीय रिएक्टर
nuclear magnetic shielding	नाभिकीय चुंबकीय प्रतिरक्षण	nuclear region	केन्द्रक प्रदेश
nuclear magneton	नाभिकीय मैग्नेटॉन, न्यूक्लीय मैग्नेटॉन	nuclear reorganization	केन्द्रकीय पुनर्गठन
nuclear matter	नाभिकीय द्रव्य, न्यूक्लीयर मैटर	nuclear resonance	नाभिकीय अनुनाद, न्यूक्लीय अनुनाद, न्यूक्लीय रेडोनाम्ब
nuclear membrane Biol.	केन्द्रकीय झिल्ली, केन्द्रक कला	nuclear resonance absorption	न्यूक्लीय अनुनादी अवशोषण
nuclear model	नाभिकीय मॉडल	nuclear resonance induction	न्यूक्लीय अनुनादी प्रेरण
nuclear moment (= nuclear magnetic moment)	न्यूक्लीय (चुंबकीय) आघूर्ण	nuclear resonance levels	न्यूक्लीय अनुनाद स्तर, नाभिकीय अनुनाद स्तर
nuclear moment scale	न्यूक्लीय आघूर्ण स्केल	nuclear reticulum	केन्द्रक जालिका
nuclear para-magnetic	नाभिकीय अनुचुंबकी	nuclear rocket	न्यूक्लीय राकेट, नाभिकीय राकेट
nuclear paramagnetic resonance	नाभिकीय अनुचुंबकी अनुनाद	nuclear sap	केन्द्रक रस
nuclear para-magnetism	नाभिकीय अनुचुंबकत्व, न्यूक्लीय अनुचुंबकत्व	nuclear science	न्यूक्लीय विज्ञान, नाभिकीय विज्ञान
nuclear particle	नाभिकीय कण	nuclear shell structure	न्यूक्लीय कोश संरचना
nuclear photo-effect	नाभिकीय प्रकाश-विद्युत् प्रभाव	nuclear shower (= penetrating shower)	नाभिकीय वर्षण, वेधी वर्षण
nuclear physics	नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लीय भौतिकी	nuclear size resonance	न्यूक्लीय साइज अनुनाद
nuclear polymerism	नाभिकीयता बहुलकता, न्यूक्लीय बहुलकता	nuclear space	न्यूक्लीय समष्टि, नाभिकीय समष्टि
nuclear potential	नाभिकीय विभव, न्यूक्लीय विभव	nuclear spallation	नाभिकीय उल्छेदन, न्यूक्लीय स्फोटन
nuclear power (= atomic power)	नाभिकीय शक्ति, परमाणु शक्ति	nuclear species	न्यूक्लीय स्पीशीज, नाभिकीय जाति
nuclear power reactor	न्यूक्लीय शक्ति रिएक्टर, नाभिकीय शक्ति रिएक्टर	nuclear spectroscopy	नाभिकीय स्पेक्ट्रमित्री
nuclear quadrupole resonance	नाभिकीय चतुर्ध्रुव अनुनाद	nuclear spin	नाभिकीय प्रचक्रण, नाभिकीय स्पिन
		nuclear spin-cooling	न्यूक्लीय प्रचक्रण-शीतन
		nuclear spindle	केन्द्रकीय तंतु

nuclear spin function		नाभिकीय प्रचक्रण फलन	Nucleolites	Geol.	न्यूक्लियोलाइटीज
nuclear spin multiplicity		न्यूक्लीय प्रचक्रण बहुकता	<i>Nucleolites scutatus</i>		न्यूक्लियोलाइटीज स्कुटेटस
nuclear 'star'		न्यूक्लीय तारा	nucleolus	Bot.	केन्द्रिक, न्यूक्लियोलस
nuclear substitution		केन्द्रकीय प्रतिस्थापन	nucleon	Phy.	न्यूक्लिऑन
nuclear supermultiplet		नाभिकीय अतिबहुक, न्यूक्लीय अतिबहुक	nucleon-antinucleon annihilation		न्यूक्लिऑन-ऐन्टी-न्यूक्लियान विलोपन
nuclear symbol		नाभिकीय प्रतीक, न्यूक्लीय प्रतीक	nucleonema	Bot.	न्यूक्लियोनिमा
nuclear threshold detector		न्यूक्लीय देहली संसूचक	nucleonics	Phy.	न्यूक्लिऑनिकी
nuclear track		नाभिक पथ	nucleon number		न्यूक्लिऑन संख्या
nuclear track plate		न्यूक्लीय लीक प्लेट	nucleophile	Chem.	नाभिकस्नेही
nuclear transformation		नाभिकीय रूपांतरण, न्यूक्लीय रूपांतरण	nucleophilic	Chem.	नाभिकस्नेही, न्यूक्लि-ओफिलिक
nuclear transition		नाभिकीय संक्रमण, न्यूक्लीय संक्रमण	nucleophilicity	Chem.	नाभिकस्नेहिता
nuclear transmutation	Chem., Math.	न्यूक्लीय तत्वांतरण	nucleophilic reaction	Chem.	नाभिकस्नेही अभिक्रिया
nuclear weapons	Phy.	नाभिकीय आयुध	nucleoplasm	Biol., H.Sc.	केंद्रकद्रव्य
nuclease	Chem., H.Sc.	न्यूक्लिएस	nucleopore	Bot.	केन्द्रकरंध्र
nucleated settlement	Geog.	केन्द्रिकित वस्ती	nucleoprotein	Chem., H.Sc., Biol.	न्यूक्लियोप्रोटीन, केन्द्रकप्रोटीन
nucleated village	Geog.	केन्द्रिकित ग्राम	nucleoproteinase	Zool.	न्यूक्लिओप्रोटीनेट
nucleation	Phy., Geol.	नाभिकन	nucleor	Phy.	न्यूक्लिऑर
nucleation time		नाभिकन काल	nucleoside	Zool., Chem.	न्यूक्लिओसाइड
nucleic acid	Chem., Biol.	न्यूक्लीक अम्ल	nucleosome	Bot.	केन्द्रिकाम
nucleide	H.Sc.	न्यूक्लाइड	nucleotide	Chem., Zool.	न्यूक्लिओटाइड
nuclein	Biol.	न्यूक्लीन, केन्द्रकिन	nucleotoxic	Zool.	केन्द्रक-आविषी
nucleinase	Chem.	न्यूक्लीनेस	nucleus	Chem., Phy. Biol.	1. नाभिक, न्यूक्लिअस 2. केन्द्रक
nucleocidin	Chem.	न्यूक्लिओसाइडिन	nucleus of 2 set		समुच्चय का नाभिक
nucleoconch	Geol.	शंखनाभि	nucleus of diffusion		विसरण केन्द्रक
nucleocytoplasm	Biol.	न्यूक्लिओसाइटोप्लाज्म, केन्द्रक-कोशिका-द्रव्य	nucleus of Pander	Zool.	पेंडर केन्द्रक
nucleogenesis	Chem., Geol., Phy.	नाभिकजनन	nucleus of Semper		सेम्पर केन्द्रक
nucleoid	Zool.	केन्द्रकाम	nucleus of settlement		वस्ती केन्द्रक
nucleolar	Biol.	केन्द्रिकीय	nucleus solution	Chem.	केन्द्र विलयन
nucleolar matrix		केन्द्रिक आधात्री	nucule	Bot.	न्यूक्यूल
nucleolar organizer		केन्द्रिक संघटक	Nuculiferae	Bot.	नुक्यूलिफेरी
			Nuda	Zool.	न्यूडा
			nudibranch	Zool.	अनावृतकलोम
			Nudibranchia	Zool.	नूडिब्रैन्किया
			nudibranchiate	Zool.	अनावृतकलोमी

nudaulous	<i>Bot.</i>	अपर्णस्तभी
Nudiflorae	<i>Bot.</i>	न्यूडीफ्लोराई
nudiflorus	<i>Bot.</i>	नग्नपुष्पी
'Nudiki' (nucleoside diphosphokinase)	<i>Chem.</i>	'नुडिकी'
nues ardente	<i>Geog. Geol.</i>	नूप आदीन
nuevite	<i>Chem.</i>	न्यूएवाइट
nug	<i>Geol.</i>	नग, गाँठ
nugget	<i>Geol.</i>	जलोढ कण, नगेट
nuisance area (= Interference area = mush area)	<i>Phy.</i>	बाधा क्षेत्र
nuisance parameter	<i>Math.</i>	कण्टक प्राचल
nuisance variable		कण्टक चर
nujol	<i>Geol.</i>	नूजोल
Nujol absorption band	<i>Chem.</i>	नूजोल अवशोषण बैंड
null	<i>Math.</i>	शून्य
null-balance		शून्य सन्तुलन
null-cone		शून्य शंकु
null curve (= minimal curve)		शून्यदूरीक वक्र
null electrode		शून्य इलेक्ट्रोड
null element		शून्य अवयव
null event	<i>Math.</i>	अघट घटना
null function		शून्य फलन
null-geodesic		शून्य अल्पानरी
null hypothesis		निरासरणीय परिकल्पना
nullinervis	<i>Phy.</i>	गिराहीन
null instrument		शून्य विक्षेप उपकरण
nullipore	<i>Geol.</i>	ननोपोर
nullisomic	<i>Zool.</i>	द्विन्यूनसूत्री
nullity		1 शून्यता 2. (Electronics) स्वतंत्र पाश सख्या
null line		शून्य रेखा
null manifold		शून्य प्रममण्टि
null matrix		शून्य आय्यूह
null method		शून्य विशेष विधि
null plane		शून्य आयुष्ण समतल

null point		शून्यविक्षेप स्थिति
null point detector		शून्य विक्षेप स्थिति संसूचक
null point energy		परम शून्यताप ऊर्जा
null point potentiometry		शून्य बिन्दु विभवमापन
nullpunkts volume	<i>Chem.</i>	शून्य बिन्दु आयतन
null ray		शून्य किरण
null ring		शून्य वलय
null sequence		शून्य अनुक्रम
null set	<i>Math.</i>	रिक्त समुच्चय
null space		शून्य समष्टि
null-surface		शून्य पृष्ठ
null triangle		शून्य त्रिभुज
null vector		शून्य सदिश
number	<i>Math.</i>	सख्या
number-average molecular weight		सख्या औसत अणुभार
number axis		सख्या अक्ष
number concentration		सख्या सांद्रण
numbering	<i>Geog.</i>	अंकन
number mean		सख्या माध्य
number module		सख्या प्रतिरूपक
number of crossings		प्रतिच्छेदन-सख्या
number of defectives		दूषितों की सख्या
number of partitions		विभाजन-सख्या
number system		सख्या पद्धति
number theory		सख्या सिद्धांत
numeral	<i>Math.</i>	1. (n) सख्यांक 2. (adj) सख्यात्मक
numeration	<i>Math.</i>	सख्यान, सख्या देना
numerator	<i>Math.</i>	अंश
numerical	<i>Math.</i>	सख्यात्मक
numerical address		सख्यात्मक पता
numerical aperture		सख्यात्मक द्वारक
numerical approximation		सख्यात्मक सन्निकटन
numerical characteristics		सख्यात्मक अभिवर्तण

numerical cobweb scheme	संख्यात्मक मकड़जाल योजना	numeric character	Phy.	संख्यांक संलक्षण
numerical coefficient	संख्यात्मक गुणांक	numeric row	Math.	संख्यात्मक पंक्ति
numerical computation	संख्यात्मक बभिकलन	numeroscope	Phy., Geol.	संख्यादर्शी
numerical content	संख्यात्मक निघान	Numida	Zool.	न्यूमिडा
numerical data	संख्यात्मक उपात्त, संख्यात्मक आंकड़े	Numididae	Zool.	न्यूमिडिडी
numerical determination	संख्यात्मक निर्धारण	numismine	Chem.	न्यूमिस्मीन
numerical differentiation	संख्यात्मक अवकलन	numud	H.Sc.	नुमुद
numerical differentiation formula	संख्यात्मक अवकलन सूत्र	Numulites	Zool., Geol.	नुमुलाइटीज
numerical differentiation operator	संख्यात्मक अवकलन संकारक	<i>Numulites laevigatus</i>		नुमुलाइटीज लीवीगेटस
numerical equation	संख्यात्मक समीकरण	nummuloidal	Geol.	नुमुलॉइडल
numerical estimate	संख्यात्मक आकल	nunakol	Geog.	नूनाकोल
numerical estimation	संख्यात्मक आकलन	nunatak	Geol., Geog.	नूनाटक
numerical forecasting	संख्यात्मक पूर्वानुमान	*Nunki (= $\sigma$ Sagittarii)	Astron.	नून्की (= $\sigma$ धनु, $\sigma$ सैजिटेरिआई)
numerical instability	संख्यात्मक अस्थायित्व	nuptial	Zool.	कामद, मैथुनी
numerical integration	संख्यात्मक समाकलन	nuptial colours		कामद वर्ण
numerical integration method	संख्यात्मक समाकलन विधि	nuptial dance		कामद नृत्य
numerical integration operator	संख्यात्मक समाकलन संकारक	nuptial flight		कामद उड़ान
numerically correct value	संख्यात्मक: संशुद्ध मान	nuptial pad		कामद तल्प
numerical method	संख्यात्मक विधि	nuptial plumage		कामद पक्षति
numerical parameter	संख्यात्मक प्राचल	nuptial stage		कामद अवस्था
numerical phenomenon	संख्यात्मक परिघटना	nuptial tubercle		कामद गुलिका
numerical quadrature operator	संख्यात्मक क्षेत्रकलन संकारक	nural (alloy)	Chem.	न्यूरल
numerical selector	संख्यात्मक चरणक	Nuremberg gold	Chem.	न्यूरैमवर्ग स्वर्ण
numerical value	संख्यात्मक मान	Nurenberg green	Chem.	नुरन्वर्ग हरित, नुरन्वर्ग ग्रीन
numerical valued function (= functional)	फलनक	nurine	Chem.	न्यूरिन
numerical variable	संख्यात्मक चर	nurse	Zool., H.Sc.	घात्री, नर्स, परिचारिका
numerical vector	संख्यात्मक सदिश	nurse cell	Zool.	घात्री कोशिका
		nursery	H.Sc.	शिशुपालन गृह, शिशु सदन
		nursery bed	Geog., H.Sc.	रोपणी क्वारी
		nursery cloth	H.Sc.	नर्सरी बस्त्र
		nursery pond	Zool.	संवर्धन कुंड
		nursing	H.Sc.	परिचर्या
		nursing habit	Zool.	परिचरण स्वभाव
		nursing home	H.Sc.	परिचर्या गृह
		nursling	Zool.	शावक

*Nusakan (=β Coronae Borealis)	<i>Astron.</i>	नुसाकैन (=β कोरोनी बोरिबानिस)	nutritionist	पोषण-विज्ञानी, पोषणविद्
Nusselt number	<i>Math</i>	न्युसेल्ट सख्या	nutrition problem	पोषण समस्या
nut	<i>Bot, H Sc.</i>	1 द्विवरी 2 नट, दूदफल	nutritious grass	<i>Geog.</i> पोषक-घास
nutans	<i>Bot</i>	मुड दोली	nutritious pod	पोषक फली
nutating antenna	<i>Phy.</i>	अक्ष विचलन ऐन्टेना	nutritive	पोषक, पुष्टिकर
nutating field	<i>Phy.</i>	अक्षविचलन क्षेत्र	nutritive cell	पोषक कोशिका
nutation	<i>Astron Bot.</i>	अक्ष विचलन, विदोलन शिखा-चरण	nutritive matter	पोषक द्रव्य, पोषक पदार्थ
nutational constant		अक्ष विचलन-स्थिरांक	nutritive-muscular cell	पोषक पेशीय कोशिका
nutational ellipse		अक्ष विचलन दीर्घवृत्त	nutritive solution	पोषक विलयन
nut bread	<i>H Sc</i>	नट ब्रेड	nutritive value	पोषणिक मान, पोषक मान
nut butter	<i>H Sc.</i>	दूदफल मक्खन	nutritive zooid	<i>Zool.</i> पोष जीवक
nutcracker	<i>H Sc.</i>	नट चूकर	Nutting colorimeter	<i>Chem</i> नटिंग वर्णमापी
nutgall	<i>Geog.</i>	नटगाल	nux	<i>Bot.</i> नट, दूदफल
nutlatch	<i>Zool.</i>	नटहैच	nuzol	<i>Chem.</i> न्यूजॉल
nutlet	<i>Bot</i>	नटिका, दूदफलिका	n v (non vidi)	<i>Bot.</i> अदृष्ट
nutmeal	<i>H Sc.</i>	दूदफल चूर्ण	n-vector	<i>Math.</i> n-सदिश, n-वेक्टर
nutmeg	<i>Geog, H.Sc.</i>	जायफल, जातिफल	n-vector space	n-सदिश समष्टि
nutmeg butler	<i>H Sc.</i>	जायफल मक्खन	N <sub>3</sub> ctaginaceae	<i>Bot.</i> निकटैजिनेसी
nutmeg oil	<i>Chem, H Sc.</i>	जायफल तेल, जायफल तेल	nyctalopia	<i>Chem, H.Sc.</i> नक्तान्धता, रतौंधी
nut-mix problem	<i>Math.</i>	मेवा-मिश्रण समस्या	nyctanthous	<i>Bot.</i> नक्त पुष्पी
nutrient		पोषक	Nyctibiidae	<i>Zool.</i> निक्टीविभ्रादही
nutrient agar		पोषक एगार	Nycticebus	<i>Zool.</i> निक्टीसेबस
nutrient element		पोषक तत्व	nyctigamous	<i>Bot</i> नक्तोगामी
nutrient enema		पोषक एनिमा	nyctinastic	<i>Bot.</i> निशानुचो
nutrient humus		पोषक-ह्यूमस	nyctinasty	निशानुचन
nutrilite	<i>Bot</i>	उत्पोषक	Nyctiphanes	<i>Zool</i> निक्टीफेनीज
nutriment	<i>H Sc</i>	पोषक आहार	nyctitropic	<i>Bot</i> निशानुवर्ती
nutrition	<i>Bot, H.Sc.</i>	पोषण	Nyctotherus	<i>Zool</i> निक्टोथेरस
nutritional		पोषण	nyika	<i>Geog.</i> नाइका (बजर)
nutritional disorder		पोषण विकार	nykrom (nichrome)	<i>Chem</i> निक्रोम
nutritional relationship		पोषक संबंध	nylenka	<i>H Sc.</i> नाइलेंका
nutritional standard		पोषाहार मानक	nylon	<i>H.Sc.</i> नाइलॉन
			nymph	<i>H.Sc. Zool.</i> निम्फ अभंगक
			Nymphaea	<i>Bot</i> निम्फिया



<i>Nymphaea alba</i>	Bot.	निम्फिया ऐल्वा (श्वेत कुमुद)
Nymphaeaceae	Bot.	निम्फिएसी
<i>Nymphaea lotus</i>	Bot.	निम्फिया लोटस (कुमुद)
<i>Nymphaea stellata</i>		निम्फिया स्टेलेटा (नील कुमुद)
Nymphalidae	Zool.	निम्फेलिडी
nymphal instar	Zool.	बर्मकीय इन्स्टार
nymphochrysalis (protonymph)	Zool.	बर्मककोशस्य (प्रथमार्भक)
<i>Nymphoides cristatum</i>	Bot.	निम्फॉइडीज क्रिस्टेटम
<i>Nymphoides indicus</i>		निम्फॉइडीज इन्डिकस
Nymphon	Zool.	निम्फोन

<i>Nymphon hispidum</i>		निम्फोन हिस्पिडम
<i>Nymphula depunctalis</i>	Zool.	निम्फुला डीपंक्टेलिस
nyperene	Chem.	नाइप्रीन
Nyquist criterion	Phy.	नाइक्विस्ट निकप
Nyquist diagram		नाइक्विस्ट आरेख
Nyquist frequency		नाइक्विस्ट वारंवारता
Nyquist interval		नाइक्विस्ट अंतराल
Nyquist noise theorem		नाइक्विस्ट रव प्रमेय
Nyquist signalling rate		नाइक्विस्ट संकेतन दर
Nyssaceae	Bot.	नायसेसी
Nytrill	Chem.	निट्रिल
nytron	Chem.	नाइट्रॉन



oak	Bot., Geog.	वांज
oak apple gall	Zool.	वांज सेव पिटिका
oak-bark industry		वांज-छाल उद्योग
oak barren		वांज-दंजर
oaken hatch	Geog.	वलूती बांधद्वार
oakermanite	Geol.	ओकरमैनाइट
oak forest		वांज-वन
oak opening		वांज-वनावकाश
oak toad	Zool.	वांज भेक, ओक भेक
oakum	Chem.	ओकम
oar	Geog.	चणू, अरित्र
oar-fish	Zool.	अरित्रमीन
oar-shaped	Zool.	अरित्ररूप
oarsman	Geog.	खेवटिया, केवट

oasis	Geog.	नखलिस्तान, मरुदधान
oat	Bot., H.Sc.	जई
oat agar medium		जई ऐगार माध्यम
oat meal	H.Sc.	1. जई का दलिया, जई-चूर्ण 2. ओटमील
oat meal medium		जई माध्यम
oat meal wave		जई चूर्ण बुनती, जई चूर्ण व्यूति
oat smut		जई कंद
oban	H.Sc.	बोदेन
obclavate	Bot.	प्रतिमुद्गररूपी
obcompressed	Bot.	प्रतिबंधित
obconical	Bot., Geol.	अघोमुख शंकव, प्रतिशंकु रूप

obcordate	<i>Biol.</i>	अधोमुख हृदयाकार, प्रतिहृदयाकार	oblanceolate	<i>Bot.</i>	प्रतिकुताकार, अधोमुख भानाकार
obcuneate	<i>Bot.</i>	अधोमुख स्फानाकार, प्रति स्फानाकार	oblate		1. लघ्वक्ष 2. चपटा
obdiplostemonous	<i>Bot.</i>	दलाभिमुख-द्विवर्तयुकेसरी	oblate crystal		लघ्वक्ष क्रिस्टल
obeah	<i>Geog.</i>	जाडू-रोना	oblate ellipsoid of revolution		लघ्वक्ष परिव्रमण दीर्घवृत्तज
Obelia	<i>Zool., Geol., H. Sc.</i>	ओबीलिया	oblateness		लघ्वक्षता, चपटापन
obelisk	<i>Geog.</i>	ओबेलिस्क, सूच्याकार स्तम्भ	oblate spheroid		लघ्वक्ष गोलाम
Oberhoffer's reagent	<i>Chem. (Met)</i>	ओवरहॉफर-अभिकर्मक	oblate spheroidal coordinates		लघ्वक्षगोलाम निर्देशांक
oberon	<i>Phy.</i>	ओवरॉन	oblate symmetric top molecule		लघ्वक्ष सममित घ्रमी अणु
obese	<i>H.Sc., Zool.</i>	मेदुर, स्थूल	oblatoid	<i>Bot</i>	चपटा घा
obesity	<i>Zool., H.Sc</i>	स्थूलता, मेदुरता	obligate	<i>Biol.</i>	अविवलनी
obiji	<i>H.Sc.</i>	ओबिजि	obligate aerobe	<i>Zool.</i>	नियत वायुजीव, अविवलनी वायुजीव
obimbricatus	<i>Bot.</i>	प्रतिकोरछादी	obligate anaerobe		नियत अवायुजीव, अविवलनी अवायुजीव
object		1 वस्तु 2 ( <i>Astron</i> ) पिंड 3 ( <i>Opt</i> ) विंब	obligate apomict		अविवलनी असमजात
object-end		विम्ब-सिरा	obligate barophilic		अविवलनी वायुदाबपानो
object field		विम्ब-क्षेत्र	obligate mylasis		अविवलनी मसिकता, अविवलनी माइएसिस
object glass	<i>Phy</i>	अभिदृश्यक	obligate parasite		अविवलनी परजीवी
objective		(adj) वस्तुनिष्ठ (n.) 1. अभिदृश्यक 2 उद्देश्य	obligate saprobe		अविवलनी मृतजीवी
objective aperture		अभिदृश्यक द्वारक	obligate saprophyte		अविवलनी मृतोपजीवी
objective force		वस्तुनिष्ठ बल	obligate symbiont		अविवलनी सहजीवी
objective forecast		वस्तुनिष्ठ पूर्वानुमान	obligate thelytoky		अविवलनी अनिषेक- जनन
objective function		उद्देश्य फलन	obligative mutualism		अविवलनी सहोपकारिता
objective grating		अभिदृश्यक घट्टिंग	obligative parasitism (= obligatory parasitism)	<i>Biol.</i>	अविवलनी परिजीविता
objective lens		अभिदृश्यक लेन्स	obligatory aerobic		अविवलनी वायुशीली
objective prism		अभिदृश्यक प्रिज्म	obligatory anaerobic		अविवलनी अवायुशीली
objective sampling		वस्तुनिष्ठ प्रतिचयन	obligatory sarcobfont		अविवलनी मांसशीली
objective trade off		उद्देश्य विनिमय	obligatory vector		अविवलनी रोगवाही
object lens	<i>Phy.</i>	अभिदृश्यक लेन्स, अभिदृश्यक	oblique		तिर्यक्, तिरछा
object-point		विम्ब-बिंदु	oblique asymptote		तिर्यक् अनतस्पर्शी
object programme	<i>Phy.</i>	अभिलक्षणी प्रोग्राम	oblique axis		तिर्यक् अक्ष
object space		विम्ब प्रदेश			
object vane	<i>Geog.</i>	दृश्य वेधिका			

oblique centric ray		तिर्यक् माध्यिक किरण	obliquity of the ecliptic		क्रान्तिवृत्त-तिर्यक्ता
oblique component		तिर्यक् घटक	obliquus	<i>Bot., Zool.</i>	तिर्यक्
oblique cone		तिर्यक् शंकु	obliquus externus		बाह्य तिर्यक् पेशी
oblique cross section		तिर्यक् अनुप्रस्थ काट	obliquus internus		आंतर तिर्यक् पेशी
oblique factor		तिर्यक् उपादान	obliterate	<i>Geog.</i>	विलोपन
oblique fault		तिर्यक् भ्रंश	obliterated		विलुप्त
oblique frustum		तिर्यक् छिन्नक	obliterated water channel		विलुप्त जलप्रणाली
oblique horst		तिर्यक् उत्खंड	obliterating oscillator	<i>Phy.</i>	विलोपक दोलित्र
oblique illumination		तिर्यक् प्रदीप्ति	obliterative coloration	<i>Zool.</i>	अभिलोपी रंजन
oblique impact		तिर्यक् संघट्ट, तिरछी टक्कर	oblivion	<i>Geog.</i>	विस्मरण
oblique incidence		तिर्यक् आपतन, तिरछा आपतन	oblong	<i>Geog., Math.</i>	आयतरूप, दीर्घायत
oblique inflorescence		तिर्यक् पुष्पक्रम	oblongatus	<i>Bot.</i>	दीर्घायत
oblique joint		तिर्यक् संघि	oblong piece	<i>H.Sc.</i>	आयतरूप खंड
oblique lamination		तिर्यक् स्तरण	Oboe system	<i>Phy.</i>	ओवो तंत्र
oblique lattice		तिर्यक् आलक	obolus		ओबोलस
oblique muscle		तिर्यक् पेशी	oborite	<i>Geol.</i>	ओबोराइट
oblique parallelepiped		तिर्यक् समान्तरपट्टफलक	oboval	<i>Zool.</i>	प्रत्यंबाकार
oblique perforation		तिर्यक् छिद्रण	obovate	<i>Geol.</i>	प्रतिअंबाकार
oblique photograph		तिर्यक् फोटोग्राफ	obovoid	<i>Bot.</i>	प्रतिअंबाकार
oblique photography		तिर्यक् फोटोचित्रण	Obovothyris	<i>Geol.</i>	ओबोवोथाइरिस
oblique prism		तिर्यक् प्रिज्म	<i>Obovothyris obovata</i>		ओबोवोथाइरिस ओवोवेटा
oblique ray		तिर्यक् किरण, तिरछी किरण	obpyriform	<i>Bot.</i>	प्रति नाखरूप
obliques	<i>Geol.</i>	तिर्यगक्, तिर्यक् फोटो	obscured	<i>Geog.</i>	अस्पष्ट
oblique section		तिर्यक् परिच्छेद, तिरछी काट	obscure glass	<i>H.Sc.</i>	पारभासी कांच, अपारदर्शी कांच
oblique septum		तिर्यक् पट	obscure zone	<i>Geol.</i>	अल्पदृश्य मंडल
oblique shock		तिर्यक् प्रघात	obscuring material	<i>Math.</i>	दृष्टिरोधक द्रव्य
oblique sketchmaster	<i>Geog.</i>	तिर्यक् स्केचमास्टर, तिर्यक् रेखाचित्रक	obscurity		अल्प दृश्यता
oblique slip fault		तिर्यक् सर्पण भ्रंश	obsequent	<i>Geol., Geog.</i>	प्रत्यनुवर्ती
oblique system		तिर्यक् तंत्र	obsequent fault- line scarp		प्रत्यनुवर्ती भ्रंश-रेखा कनार
oblique variable		तिर्यक् चर	obsequent fault scarp		प्रत्यनुवर्ती भ्रंश कनार
oblique zenithal projection	<i>Geog.</i>	तिर्यक् खमर्घ्यी प्रक्षेप	obsequent river		प्रत्यनुवर्ती नदी
obliquity factor		तिर्यक्ता गुणक			

obsequent stream	प्रत्यनुवर्ती सरिता, प्रत्यनुवर्ती धारा	obsidian knife	Geog	ऑब्सीडियन छुरी
obsequent valley	प्रत्यनुवर्ती घाटी	obsolescent		लुप्तप्राय
observation	प्रेक्षण	obsolescent building	Geog	लुप्तप्राय भवन
observational error	प्रेक्षण त्रुटि	obsolete		लुप्त
observational prediction	प्रेक्षणरत्मक प्रागुक्ति	obstacle	Geog, Chem,Phy.	बाधा, अवरोध
observation circuit	प्रेक्षण परिपथ	obstacle theory		अवरोध वाद,
observation equation	प्रेक्षण समीकरण	obstetric history	H Sc	प्रभूति दत्त
observation error	प्रेक्षण अशुद्धि	obstetrician	H Sc	प्रभूति विज्ञानी
observation figures	प्रेक्षितांक	obstinate stain	H Sc	पक्का दाग
observation hole	प्रेक्षण छिद्र	obstructed labour	H Sc.	अवरुद्ध प्रसव
observation tube	प्रेक्षण नलिका, प्रेक्षण नली	obstructed vision	Geog.	बद्ध दृष्टि
observatory	Geog,Phy वेधशाला, वाभ्रवर्तरी	obstruction chart	Geog.	बाधासूचक चाट
observatory tent	वेधशाला तम्बू, प्रेक्षण- शाला तम्बू	obstruction clearing and marking criteria	Geog	बाधा-निवारण व अंकन नियम
observed	प्रेक्षित	obstructive filariasis	Zool.	अवरोधी फाइनेरियस
observed altitude	प्रेक्षित उन्नतांश	obstructive jaundice		अवरोधी कामला, अवरोधी पीनिय
observed colour index	प्रेक्षित वर्णान्क	obtect aedeiticous pupa	Zool	आवद्ध अक्षयविकृक कींशित
observed correlation	प्रेक्षित सहसंबंध	obtect pupa		आवद्ध प्युपा
observed error	प्रेक्षित त्रुटि	obturation	Phy.	पश्चरोध
observed frequency	प्रेक्षित बारबारता	obturator	Bot. Zool	सेतुक गवाक्ष
observed gravity map	प्रेक्षित गुरुत्व मानचित्र	obturator artery	Zool	श्रोणिरध्मीय धमनी
observed level difference	प्रेक्षित तलान्तर	obturator foramen	Zool	श्रोणिरध्म, गवाक्ष रध्म
observed nebula	प्रेक्षित नीहारिका	obturator nerve		श्रोणिरध्मीय तंत्रिका
observed regression	प्रेक्षित समाग्रयण	obturator notch		श्रोणि खांच, गवाक्ष रध्म
observed value	प्रेक्षित मान	obtuse		कुटाघ
observed zenith distance	प्रेक्षित शिरोविन्दु दूरी	obtuse angle	Math.	अधिक कोण
observed zero	प्रेक्षित जीरो	obtuse-angled		अधिककोणीय
observer	Phy. प्रेक्षक	obtuse angle fault		अधिककोण भ्रम
observer's meridian	प्रेक्षक का माध्योत्तर	obtuse bisectrix		अधिककोणी द्विभाजक
obsidian	Chem (Met.) आम्बोडियन	obtusifolius	Bot.	कुटाघपर्ण
obsidian head	ऑब्सीडियन शीर्ष	obtusilic acid	Chem.	आस्ट्रुमिनिक अम्ल
obsidianite	Geol ऑब्सीडियेनाइट	ocal	H Sc	ओकल
		occasional bourne	Geog.	अनियमित सरिता
		occasional break	Geog.	अनियमित विभंग

occasional floodplain		अनियमित वादकृत मैदान	occulation (of a star)	<i>Math.</i> <i>Geog.</i>	उपगूहन
occasional lot rejection	<i>Math.</i>	यदाकदा प्रचय अस्वीकरण	occult mineral		गूढ़ खनिज
occasional spare time occupier	<i>Geog.</i>	अनियमित अवकाश अनिष्ठाता	occult power	<i>Geog.</i>	गुह्य शक्ति, गुप्त शक्ति
occasional species	<i>Zool.</i>	आकस्मिक जाति	occult virus		गूढ़ वाइरस
occidental agriculture	<i>Geog.</i>	पश्चात्य कृषि	occupancy	<i>Geog.</i>	अध्यावास
occidental amethyst	<i>Geol.</i>	ऑक्सीडेटल ऐमेब्रिस्ट	occupancy problems	<i>Math.</i>	निवेशन-समस्याएँ
occidental civilization	<i>Geog.</i>	पश्चात्य सभ्यता	occupation	<i>Geog., H.Sc.</i>	व्यवसाय
occidentalis	<i>Bot.</i>	पश्चिमी	occupational dose	<i>Phy.</i>	व्यावसायिक मात्रा
occidental quartz		पश्चात्य स्फटिक	occupational exposure		व्यावसायिक प्रभावन
occipital	<i>Zool., Geol.</i>	अनुकपाल	occupational instinct		व्यावसायिक वृत्ति
occipital artery	<i>Zool.</i>	अनुकपाल धमनी	occupational pyramid		व्यावसायिक पिरैमिड
occipital condyle		अनुकपाल अस्थिकंद	occupational statistics		व्यावसायिक आंकड़े
occipital crest		अनुकपाल शिखर	occupational structure		व्यावसायिक संरचना
occipital furrow		अनुकपाल खाँच	occupation efficiency	<i>Phy.</i>	अधिष्ठान दक्षता
occipital gland		अनुकपाल ग्रंथि	occupation number	<i>Chem., Phy.</i>	अधिष्ठान संख्या अध्यासनांक
occipital lobe		अनुकपाल पालि	occupation road		व्यवसाय सड़क
occipital region		अनुकपाल क्षेत्र	occupation structure		व्यवसाय संरचना
occipital rib		अनुकपाल पर्शुका	occupation table		व्यावसायिक सारणी
occipital ring		अनुकपाल वलय	occupation tax	<i>H.Sc.</i>	व्यवसाय कर
occipital segment		अनुकपाल खंड	occupied orbital	<i>Chem.</i>	अध्यासित कक्षक
occipital spine		अनुकपाल शूल	occupied state		अध्यासित स्तर
occipital vein		अनुकपाल शिरा	occupier	<i>Geog.</i>	अधिष्ठाता
occipito-vertebral artery	<i>Zool.</i>	अनुकपाल-कशेरुक धमनी	occurrence		1. (of a substance) प्राप्ति, उपस्थिति 2. (of an event) घटना
occluded	<i>Biol.</i>	अधिविष्ट	occursion	<i>Chem.</i>	संचट्ट
occluded hydrogen	<i>Chem.</i>	अधिधारित हाइड्रोजन	ocean	<i>Geog., Biol.</i>	महासागर
occluded plate	<i>Geol.</i>	अधिविष्ट पट्टिका	oceanad	<i>Bot.</i>	सागरखादप
occluding apparatus	<i>Zool.</i>	अधिविष्ट समुच्चय	oceanarium	<i>Zool.</i>	समुद्रशाला
occluding chamber		अधिविष्ट कक्ष	ocean basin		महासागर द्रोणी
occlusion		अधिधारण	ocean beach spawner	<i>Zool.</i>	वेलाजनक
occlusion effect	<i>Phy.</i>	अधिरोधन प्रभाव	ocean biocycle		सागर जैवचक्र
occludor		संचारक	ocean bottom		महासागर तली
occluser muscle		संचारक पेशी	ocean bottom plain		महासागर तली मैदान
occulated	<i>Bot.</i>	गूढ़			
occult	<i>Geol.</i>	गढ़			

ocean coal		महासागरी कोयला	oceanic substructure		महासागरी अर्ध संरचना
ocean current map		महासागर धारा मानचित्र	oceanic trade		महासागरीय व्यापार
ocean exploration		महासागर खोज	oceanic transgression		महासागरीय अतिक्रमण
ocean floor		महासागर सतह	oceanic water		महासागर जल
ocean fog		महासागरी कुहरा	oceanic wind		महासागरीय वात, महासागरीय पवन
ocean glow		महासागर दीप्ति	oceanite	<i>Geol.</i>	ओशेना ट
ocean-going		महासागरगामी	oceanity	<i>Geog</i>	समद्रीयता
ocean-going ship		महासागरगामी जहाज	oceanodromous	<i>Zool.</i>	समुद्रगामी
ocean-going vessel		महासागरगामी जलयान	oceanodromy	<i>Zool</i>	समुद्रगमिता
ocean highway		महासागर महामार्ग	oceanographer	<i>Geog., Zool</i>	समुद्रवैज्ञानिक
Oceania	<i>Geog.</i>	ओशेनिया	oceanographic	<i>Geog</i>	समुद्रवैज्ञानिक
Oceanian		ओशेनियाई	oceanographical net		समुद्रवैज्ञानिक जाल
Oceanian life		ओशेनियाई जीवन	oceanographical research		समुद्रवैज्ञानिक अनुसंधान
oceanic		महासागर-महासागरी	<i>oceanographic</i> <i>institution</i>		समुद्रविज्ञान-संस्थान
oceanic basin		महासागरीय बेसिन	oceanographic survey		समुद्रविज्ञान सर्वेक्षण
oceanic block		महासागरी छड	oceanographic theory		समुद्रविज्ञान सिद्धांत
oceanic circulation		महासागरीय परिसंचरण	oceanography	<i>Geog.</i>	समुद्रविज्ञान
oceanic climate		महासागरी जलवायु	oceanography survey		समुद्रविज्ञान-सर्वेक्षण
oceanic communication		महासागरी संचार	oceanophilous	<i>Bot.</i>	सागररागी
oceanic crust		महासागरीय पटल	ocean outlet		महासागर-निकास
oceanic crustal rock		महासागरीय पर्वटी शैल	ocean route		महासागर मार्ग
oceanic depth		महासागरीय गहराई	ocean routeway		महासागर मार्ग
oceanic drainage		महासागरीय अपवाह	ocean shore		महासागर तट
oceanic ecosystem		समुद्री पारितंत्र	ocean-sounding		महासागर गभीरतामापन
oceanic fish		महासागरी मीन	ocean system		महासागर तंत्र
oceanic habitat		महासागरीय आवास	ocean transport		महासागर परिवहन
oceanic island		महासागरीय द्वीप	oceanus	<i>Geog.</i>	ऑसीजनस
oceanic network		महासागरीय मार्गजाल	ocean voyage		महासागर-यात्रा
oceanic outlet		महासागरीय निकास	ocellar basin	<i>Zool.</i>	नेत्रक द्रोणी
oceanic plankton ecosystem		समुद्री प्लवक पारितंत्र	ocellar lobe		नेत्रक पात्त
oceanic radiation		महासागरीय विकिरण	ocellar nerve		नेत्रक सन्निका
oceanic salt		महासागर लवण	ocellar structure	<i>Geol.</i>	नेत्रक संरचना
oceanic sediment		महासागरी अवसाद	ocellar texture		नेत्रक गठन
oceanic shore		महासागरीय तट	ocellate	<i>Zool.</i>	नेत्राक्षित
oceanic shoreland		महासागरीय तट भूमि	ocelli		अक्षिणी
oceanic stratosphere		सागरी समतापमंडल			

ocelliform structure	Zool.	नेत्रकरूप संरचना	octadecapeptide		ऑक्टडेकापेप्टाइड
ocellus	Zool., Bot.	नेत्रक	octadecenoic acid	Chem.	ऑक्टडेसेनोइक अम्ल
ocher	Chem.	ओकर	octadecylene		ऑक्टडेकिलीन
ochlesis	Bot.	कुसकुलता	octadiene	Chem.	ऑक्टडाइ-ईन
Ochnaceae	Bot.	ऑक्नेसी	octagon	Math.	अष्टभुज
Ochnales	Bot.	ऑक्नेलीज	octagonal mirror	Phy.	अष्टफलकी दर्पण
<i>Ochna squarrosa</i>	Bot.	ऑक्ना स्क्वैरोसा	octagynous	Bot.	अष्टवर्तिक; अष्टजायांगी
Ochotonidae	Zool.	ओक्टोटोनिडी	octahedral	Math., Geol., Phy.	अष्टफलकीय
ochre	Geol.	गैरिक	octahedral arrangement		अष्टफलकीय विन्यास, अष्टमुखी विन्यास
ochrea		ओक्रिया	octahedral configuration		अष्टफलकीय विन्यास
ochre brown		गैरिक वज्र	octahedral form		अष्टफलकी रूप
ochre yellow		गैरिक पीत	octahedral shear stress		अष्टफलकीय अपरूपण प्रतिबल
ochreous accumulation	Geog.	गेरुई संचय	octahedrite	Geol.	ऑक्टहीड्राइट
<i>Ochrobium tectum</i>	Bot.	ओक्रोवियम टेक्टम	octahedron	Math., Geol.	अष्टफलक
<i>Ochrocarpus longifolius</i>	Bot.	ओक्रोकार्पस लॉंगिफोलियस	octahydrophenazine	Chem.	ऑक्टहाइड्रोफेनैजीन
<i>Ochroma lagopus</i>	Bot.	ओक्रोमा लगोपस	octal base	Phy.	अष्टछिद्र बाधार
ochromonad swarmer	Bot.	ओक्रोमोनाससम चलाणु	octal digit	Phy.	अष्टाधारी अंक
<i>Ochromonas granularis</i>	Zool.	ओक्रोमोनास ग्रॅन्यूलेरिस	octal notation		अष्टाधारी संकेत
ochrosporous	Bot.	गैरिक बीजाणवी	octal system		अष्टाधारी पद्धति
ochthead	Bot.	तटपादप	octamerous	Bot.	अष्टभागी, अष्टतयी
ochthimium	Bot.	तटसमुदाय	octamine	Chem.	ऑक्टैमिनी
ocimene	Chem.	ऑसिमीन	octandrous	Bot.	अष्टपुंकेसरी
<i>Ocimum canum</i>	Bot.	ओसिमम कैनम	octane		ऑक्टैन
<i>Ocimum gratissimum</i>		ओसिमम ग्रेटिसिमम	octane number	Chem.	ऑक्टैन संख्या
<i>Ocimum sanctum</i>		ओसिमम सॅक्टम (तुलसी)	octane rating	Chem.	ऑक्टैन अधिमान
Ocnodrilidae	Zool.	ओक्नेरोड्रिलिडी	octanium	Chem.	ऑक्टैनियम
<i>Ocnodrilus occidentalis</i>	Zool.	ओक्नेरोड्रिलस ऑक्सीडेन्टैलिस	octanol		ऑक्टैनाॅल
ocpan	Chem.	ऑकपैन	*Octans	Astron.	ऑक्टैन्स
ocrea	Bot.	ओक्रिया	octant	Math.	अष्टांशक
octacide	Chem. (Pet.)	ऑक्टेसाइड	octantal component		अष्टांशक घटक
octadecadienoic acid	Chem.	ऑक्टडेकाडाइईनोइक अम्ल	octantal error		अष्टांशक त्रुटि
octadecane		ऑक्टडेकेन	octantherous	Bot.	अष्टपरागकोपी
			octant rule	Chem.	अष्टांशक नियम
			octapeptide	Bot.	ऑक्टैपेप्टाइड
			octarch	Bot.	अष्ट-आदिदारक

octatetraene	Chem.	ऑक्टेटेट्राईन
octavalence	Chem.	अष्ट-संयोजकता
octavalent		अष्ट संयोजी
octave	Geog. Phy.	1 अष्टक 2 सप्तक
octave band pressure level		सप्तक बैंड दाब स्तर, सप्तक पट्टी दाब स्तर
octave filter		अष्टक फिल्टर
octave note		अष्टम स्वर
octene	Chem	आक्टीन
octet	Phy	अष्टक
octet rule		अष्टक नियम
octine		ऑक्टाइन
octinucleate		अष्टकेन्द्रकी
octochaetine	Zool.	अष्टशूक
Octochaetoides	Zool.	ऑक्टोकोटाईडीज
Octocorallia	Zool.	ऑक्टोकोरैलिया
octocorallian	Zool	अष्टप्रवान, ऑक्टोकोरैलियन
octode	Phy.	ऑक्टोड
octodont	Zool	अष्टदंत
actolocular	Bot.	अष्टकोष्ठिक
octomeroous	Zool	अष्टसयी
octomolybdate	Chem	ऑक्टोमॉलिब्डेट
octonion	Phy.	अष्टबैंक, ऑक्टोनियॉन
octopetalous	Bot.	अष्टदली
octophore	Bot.	अष्टपुत्र
octopine	Chem.	ऑक्टोपीन
octoploid	Zool.	अष्टगुणित
octoploidy		अष्टगुणितता
octopod	Zool.	अष्टपाद
Octopoda	Zool	ऑक्टोपोडा
octopole moment	Phy.	अष्ट-ध्रुव आघूर्ण
Octopus	Zool	ऑक्टोपस, (अष्टशूक)
<i>Octopus fawonia</i>		ऑक्टोपस फेवोनिया
<i>Octopus herdmanni</i>		ऑक्टोपस हर्डमैनिआइ
<i>Octopus incertus</i>		ऑक्टोपस इनसर्टस

<i>Octopus octopodia</i>		ऑक्टोपस ऑक्टोपोडिया
<i>Octopus rugosus</i>		ऑक्टोपस रगोसस
Octoradiate	Bot	अष्टारक
Octorchandra	Zool	ऑक्टोरकैंड्रा
Octoroon (=octaroon)	Geog.	ऑक्टूरून
octosculate	Bot	अष्टवर्म
octosepalous	Bot	अष्टबाह्यदली
octoslichous	Bot	अष्टपत्तिन
octospermous	Bot.	अष्टबीजी
octospore	Bot.	अष्टबीजाणु
octostemonous	Bot.	अष्टपुकेसरी
octostiate	Zool	अष्टास्थ
octozoic	Zool.	अष्टबीजाणुज
octroma	H Sc	ऑक्ट्रोमा
octupole	Phy.	अष्टध्रुव
octyl	Chem	ऑक्टिल
octyl alcohol		ऑक्टिल ऐल्कोहॉल
octylene		ऑक्टिलीन
ocular		(adj.) चक्षुष, अक्षि, नेत्रीय (n) नेत्रिका
ocular accommodation		नेत्रीय समजन
ocular micrometer		चक्षुष सूक्ष्ममापी
ocular muscle	Zool	चक्षुष पेशी
ocular plate	Geol	अक्षि पट्ट
oculomotor	Zool.	ऑक्ट्यूलोमोटर, अक्षिप्रेरक
oculomotor nerve		अक्षिप्रेरक तंत्रिका
oculomotor nucleus		ऑक्ट्यूलोमोटर केन्द्रक, अक्षिप्रेरक केन्द्रक
Oda metal	Chem	ओडा धातु
odd	Math.	विषम
odd-carbon chain		विषम कार्बन शृंखला
odd curve		विषम वक्र
odd diagonal line	Phy.	विषमैतर रेखा
odd dimensionality		विषम विविधता
odd electron bond		विषम इलेक्ट्रॉन बंध
odd electronic state		विषम दोरेक्ट्रॉनीय अवस्था



odd electron molecule		विषम इलेक्ट्रॉन अणु	odometer	<i>Phy., Geog., Geol.</i>	पयमापी, ओडोमीटर
odd-even nucleus		विषम-सम नाभिक, विषम-सम न्यूक्लियस	Odonata	<i>Zool.</i>	ओडोनेटा
odd-even word time		विषम-सम शब्द काल	odonate	<i>Zool.</i>	दंतपंखी
odd-harmonic function		विषम प्रसंवादी फलन	Odontaspidae	<i>Zool.</i>	ओडोन्टेस्पिडी
oddity principle learning		वैषम्य सिद्धांत अधिगम	Odontaster	<i>Zool.</i>	ओडोन्टेस्टर
odd line interlace		विषम रेखा अन्तर्ग्रथन	odontia	<i>Bot.</i>	ओडोन्थिया
odd multiple		विषम अपवर्त्य, विषम गुणज	odontium	<i>Bot.</i>	दंतक
odd number		विषम संख्या	odontoblast	<i>H.Sc., Zool.</i>	ओडोन्टोब्लास्ट डेन्टीन कोशिका, दंतकोशिका कोरक
odd-odd nuclei		विषम-विषम नाभिक	Odontoceti	<i>Zool.</i>	ओडोन्टोसेटाइ
odd-odd nucleide		विषम-विषम न्यूक्लाइड	<i>Odontoglossum crispum</i>	<i>Bot.</i>	ओडोन्टोग्लोसम क्रिस्पम
odd-odd nucleus		विषम-विषम नाभिक, विषम-विषम न्यूक्लियस	Odontognathae	<i>Zool.</i>	ओडोन्टोग्नेथी
Oddo's rule	<i>Chem.</i>	ओडो नियम	odontoid process	<i>H.Sc., Zool.</i>	दंताम प्रवर्ध
odd parity		विषम समता, विषम पैरिटी	odontolite		ओडोन्टोलाइट
odd parity check		विषम समता जांच	odontophor		दंतामपद
odd parity state		विषम पैरिटी अवस्था	odontophore	<i>Zool., Geol.</i>	ओडोन्टोफोर, दंतधर
odd periodic extension		विषम आवर्ती विस्तार	Odontopteris	<i>Bot.</i>	ओडोन्टोप्टेरिस
odd permutation		विषम क्रमचय	Odontopteris type		ओडोन्टोप्टेरिस प्ररूप
odd pinnate		विषम पिच्छकी	Odontopteryx	<i>Zool.</i>	ओडोन्टोप्टेरिक्स
odd polynomial		विषम बहुपद	Odontostyle	<i>Bot.</i>	दंतशूलिका
odd proton model		अतिरिक्त प्रोटॉन मॉडल	Odontotermes	<i>Zool.</i>	ओडोन्टोटेर्मिस
odds	<i>Math.</i>	संयोगानुपात	odorant	<i>Chem.</i>	गंधकारी
odds against an event		घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात	odoratus	<i>Bot.</i>	सुगंधित
odd series		विषम श्रेणी	odoriferous	<i>Chem., Bot., Zool.</i>	गंधयुक्त, गंधवाही
odds in favour of an event		घटना के अनुकूल संयोगानुपात	odoriferous gland		गंध ग्रंथि, गंधवाही ग्रंथि
odd term of atom		परमाणु का विषम पद	odoriferous gland cell		गंधवाही ग्रंथि कोशिका
odd-toed	<i>Zool.</i>	अयुग्मांगुल	odoriferous scale		गंधवाही शल्क
odjaklik	<i>H.Sc.</i>	ऑडजाक्लिक	odorometer	<i>Chem.</i>	गंधमापी
Odling's formula	<i>Chem.</i>	ऑड्लिंग सूत्र	odorous gland	<i>Zool.</i>	गंधग्रंथि
Odobaenidae	<i>Zool.</i>	ओडोबोएनिडी	odour	<i>Chem., Geol., H.Sc.</i>	गंध
odo-graph	<i>Geog., Phy.</i>	ओडोग्राफ, पयलेखी	odourless		गंधहीन
			odyssic acid	<i>Chem.</i>	ओडिसिक अम्ल
			Oecophylla smaragdina	<i>Zool.</i>	ऑइकोफिला स्मरैरिडिना

oedema	<i>Chem</i> ( <i>Nucl</i> )	शोफ	oestriol	<i>Chem.</i>	एस्ट्रिऑल
oedocephaloid	<i>Bot.</i>	ईडोसेफैलममम	oestrogen	<i>Zool.</i>	ऑइस्ट्रोजन
<i>Oedocladium terreste</i>	<i>Bot.</i>	ईडोक्लेडियम टेरेस्टा	oestrone	<i>Chem</i>	एस्ट्रोन
<i>Oedogonium concatenatum</i>	<i>Bot.</i>	ईडोगोनियम कांक्रुंटीनेटम	oestrum	<i>Zool</i>	कामोन्माद; मदचक्र
oeil-de-perdix	<i>H Sc.</i>	अइ-ड-गडिक्स	oestrus cycle	<i>Zool.</i>	मदचक्र
oekumene (=oikoumene =oecumene)	<i>Geog.</i>	एकूमेन, आवास्य क्षेत्र	offal	<i>Geog., H Sc</i>	मासावशिष्ट, ओफेन
oenanthic acid	<i>Chem.</i>	ईनेन्यिक अम्ल, ईनेन्यिक ऐसिड	offall	<i>Chem.</i>	ओफाल
oenanthol	<i>Chem.</i>	ईनेन्यॉल	off balance	<i>Chem</i>	असुतुन
oenocyte	<i>Zool.</i>	पीताणु	off-centre	<i>Geol,Phy</i>	केन्द्रन्वृत्त, विकेन्द्र
oenocytoid	<i>Zool.</i>	पीताणुभ	off-centre dipole		विकेन्द्र द्विध्रुव
oenometer	<i>Chem</i>	ईनोमीटर	off-centre lobe		विकेन्द्र पार्श्व
Oenothera		ईनोथेरा	off-centre movement		विकेन्द्र गति
oersted (unit)	<i>Phy.</i>	ओस्टेड	off-centre operation		विकेन्द्री प्रचालन
Oersted process	<i>Chem</i>	ओस्टेड प्रक्रम	off-centre plan display		विकेन्द्र प्लान प्रदर्श
oesophageal artery	<i>Zool.</i>	प्रसिका घमनी	off-centre P.P.I.		विकेन्द्र P.P.I.
oesophageal caecum		प्रसिका अग्रनाल	off-channel selectivity	<i>Phy</i>	चैनल बाह्य चरण- घमनी, चैनल बाह्य चरणता
oesophageal collar		प्रसिका कॉलर	"off-diagonal" element	<i>Phy.</i>	अप विकर्ण अवयव
oesophageal commissure		प्रसिका सघाथी	offending salt	<i>Chem</i> ( <i>Nucl.</i> )	ताडक लवण
oesophageal connective		प्रसिका सयोत्री	offensive-defensive classification	<i>Math</i>	आक्रामकी प्रतिरक्षी वर्गीकरण
oesophageal cuticle		प्रसिका उपत्वचा	offensive missile	<i>Phy.</i>	आक्रामक मिनाहल, आक्रामक प्रक्षेपास्त्र
oesophageal funnel		प्रसिका कीप	offensive research		आक्रमण अनुसंधान
oesophageal gland		प्रसिका ग्रन्थि	off-flavor	<i>Chem</i>	अपमुसुदिक
oesophageal pouch		प्रसिका कोष्ठ	off-gas	<i>Chem</i> ( <i>Nucl</i> )	वहियेस
oesophageal radii		प्रसिका अर	offhand (free blown) process	<i>Chem.</i> ( <i>Gl</i> )	असच प्रक्रम, असज प्रक्रम
oesophageal ring		प्रसिका वलय	office copy	<i>Geog.</i>	कार्यालय प्रतिलि, ऑफिस कॉपी
oesophageal sympa- thetic system		प्रसिका अनुकम्पी तंत्र	official language	<i>Geog.</i>	राजभाषा
oesophageal valve		प्रसिका वपाट	official publication	<i>Geog.</i>	सरकारी प्रकाशन
oesophageocutaneous duct	<i>Zool.</i>	प्रसिकात्वग वाहिनी	official statistics		राजकीय आंकड़े
oesophagus	<i>Zool.,H.Sc.</i>	ईसोफेगस, प्रसिका, प्रासनली	official year		सरकारी वर्ष
oesterone		ईस्टेरोन	officialialis	<i>Bot.</i>	ओपगिफ
oestradiol	<i>Chem.</i>	एस्ट्रराइऑल	offing	<i>Math</i>	हुट गिरिध

offlap	Geol., Geog.	अव्याप्ति	offset twill weave	H.Sc.	ऑफसेट ट्वील वयन
offline equipment	Phy.	इतर उपस्कर	offset well	Geol.	ऑफसेट कुूप
off load	Phy.	निष्कामित भार	offset yield strength	Phy.	विस्थिति सहिष्णुता
off loading	Phy.	भार निष्कासन	off shade	Chem.	अपच्छाया, अदरंग
off-load voltage	Chem.	वन्द परिपथ बोल्टता	offshoot	Geol.	प्रशाखा
off peak load period	Chem.	अनत्युच्च भार काल	offshore	Geog., Geol.	अपतट
off period	Phy.	वन्द अवधि	offshore bar		अपतट रोधिका
off position (of switch)		वन्द स्थिति, विच्छेद स्थिति	offshore bench		अपतट बेंच
off-scale	Phy.	स्केल बाह्य	offshore drilling platform	Chem. (Pet.)	तट वेधन मंच
offset	Geol. Geog.	1. क्षैतिज विस्थापन 2. ऑफसेट 3. अंतर्लम्ब	offshore fisheries		अपतट मात्स्यकी
offset angle	Phy.	भूस्तारिका	offshore fishing		अपतट मत्स्यग्रहण, अपतट मत्स्यन
offset beam		आफसेट कोण	offshore fishing ground		अपतट मत्स्यन क्षेत्र
offset carrier		आफसेट किरणपुंज	offshore sand bar		अपतट बालू-भित्ति
offset carrier system		आफसेट वाहक	offshore slope		अपतट ढाल
offset course computer (=course computer)	Phy.	आफसेट वाहक तंत्र	offshore terrace		अपतट वेदिका
offset deposit		पथ कम्प्यूटर	offshore trough		अपतट द्रोणिका
offset duplicator	Chem.	ऑफसेट निक्षेप	offshore wind		अपतट पवन
offset hinge	H.Sc.	अंतरण प्रतिलिपित, ऑफसेट प्रतिलिपित	offshore zone		अपतट क्षेत्र
offset paper		अन्तर्लम्ब कक्षा	off sorts	H.Sc.	आफसाटेंस
offset parabola	Phy.	अन्तर्लम्ब कागज	off-target jamming	Phy.	परा लक्ष्य संवाधन, छद्म संवाधन
offset plotting	Geog.	अपशीर्ष परवलय	O.F.H.C. copper (oxygen free high conductivity copper)	Chem.	ऑ. मू. उ. चा. ताम्र (ऑक्सिजन मुक्त उच्च चालकता ताम्र)
offset point		अन्तर्लम्ब अंकन, आफसेट अंकन	ogival arch	Geog.	बोजाइवी मेहराव
offset press	Geog.	अन्तर्लम्ब विन्दु	ogival garland		बोजाइवी गोलपट्टी
offset printing machine		ऑफसेट प्रेस	ogive	Geog., Math.	1. बोजाइव 2. तोरण
offset punch		अन्तर्लम्ब मुद्रण यंत्र, ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन	oglioloro modification	Chem.	ऑग्लिओरोरो अंशान्तरण
offset ridge		ऑफसेट छिद्रक	ohio merino	H.Sc.	ओहायो मेरीनो
offset scale		ऑफसेट कटक	Ohly method	Chem. (Met.)	ओली पद्धति
offset stream		ऑफसेट स्केल, अन्तर्लम्ब मापनी	ohm	Phy.	ओम
offset tie-line		ऑफसेट धारा	ohmage	Phy.	ओमता
offsetting of inks	Chem.	अन्तर्लम्ब योजक रेखा, ऑफसेट योजक रेखा	ohmal	Chem.	ओमेल
		मत्सी-यन्त्रान्तरण	ohmarie	Chem	ओमेरी
			ohmic circuit	Phy.	ओमी परिपथ

ohmic conductor		ओमी चालक	oil cooling		तैलीय शीतलन
ohmic contact		ओमी सम्पर्क	oildag	<i>Chem.</i>	आयलडैग
ohmic coupling		ओमी युग्मन	oil-dehydrating plant		तैल-निर्जलीकारक मयत्र
ohmic dissipation		ओमी क्षय	oil deposit		तैल निक्षेप
ohmic drop		ओमी पात	oiled paper		तैलित पत्र
ohmic overvoltage	<i>Chem</i>	ओमी अधिवोल्टता	oiled silk		तैलित रेशम
ohmic resistance		ओमी प्रतिरोध	oil emulsion		तैल इमल्सन, तैल पायस
ohmic value		ओमी मान	oil expeller		तैल बहिष्कारित्र
ohmmeter	<i>Phy</i>	ओममापी	oil field		तेल क्षेत्र
Ohm's law	<i>Geog., Phy</i>	ओम नियम	oil field emulsion		तैल क्षेत्र पायस
olazine	<i>Chem.</i>	ओमेज़ीन	oil-fired shaft furnace		तैल ज्वलित प्रदट भट्टी
Oicomonas	<i>Zool</i>	ऑइकोमोनास	oil firing		तैल दाह्य
oidiodendron	<i>Bot</i>	ऑइडिओडेन्ड्रॉन	oil floatation method		तैल उत्तरण विधि, तैल उत्प्लाव विधि
oidiophore	<i>Bot.</i>	ऑइडियमधर	oil fuel		तैल ईंधन
oidiospore	<i>Bot.</i>	ऑइडियम बीजाणु	oil gas		तेल गैस
oidium		ऑइडियम	oil-gas tar		तेल गैस टार
oidization	<i>Bot</i>	ऑइडीकरण, ऑइडियम तंतु सयुग्मन	oil geologist		तेल भूवैज्ञानिक
oidid spine	<i>Geol</i>	ऑइडिफिड शूक	oil gland		तेल ग्रंथि
oikocryst	<i>Geol</i>	ग्रहीक्रिस्टल	oil globule		तेल गोलीका, तैल बिन्दु
Oikopleura	<i>Zool.</i>	ऑइकोप्ल्यूरा	oil green		मैलेकाइट हरित
<i>Oikopleura dioica</i>		ऑइकोप्ल्यूरा डिओइका	oil immersed switch		तैल निमज्जित स्विच
oikopleuridae		ऑइकोप्ल्यूरिडी	oil immersion		तैल निमज्जन
oil		तैल, तेल	oil immersion objective		तैल निमज्जन अभिदृश्यक
oil base polish		तेलाधार पॉलिश	oil immersion test		तैल निमज्जन निरूप
oil bath		तेलकुडी, तेल निमज्जनी	oil-impregnated paper		तैल सन्निभन कागज
oil bearing stratum		तेलयर स्तर	oiliness		तैलीयता
oil beetle	<i>Zool.</i>	तेल भृग	oiling		तेल डानना
oil bunkering port	<i>Geog.</i>	तेलकोष्ठ बन्दरगाह, तेलकोष्ठ पत्तन	oil in water emulsion		जले तैलम् पायस, जले तैलम् इमल्सन
oil-burning equipment		तेल-दहन उपकरण	oilite	<i>Chem.</i>	आयनाइट
oil cake	<i>Chem</i>	खनी	oil length		तैलानुमान, तैल दीर्घ
oilcake meal		खनी चूर्ण	oilless bessian	<i>H.Sc.</i>	तैलहीन टाट
oil cataract		तैल प्रघात	oilmist lubrication		तैल धूम्र स्नेहन
oil cavity		तैल-गुहा	oil of aniseed		अनीस का तैल
oil cloth	<i>H Sc</i>	तैलपट, मोमजामा, तैलवस्त्र	oil of calamine		कैलमिनादन तैल

oil of mirbane		मीर्वेन तैल		oiticica oil	<i>Chem.</i>	बॉयटिसिका तैल
oil of mustard		सरसों का तैल		Okinawa jyofu	<i>H.Sc.</i>	ओकीनावा ज्योफू
oil of myrrh		मरे तैल, रसगन्ध तैल		Okra	<i>H.Sc.</i>	ओक्रा
oil of organum		ओरीगैनम तैल		okta	<i>Geog.</i>	ऑक्टा
oil of thyme		बजवाइन का तैल		ol	<i>Chem.</i>	ऑल
oil of vitriol	<i>Chem.</i>	सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक ऐसिड		Olaceaceae	<i>Bot.</i>	ओलाकेसी
oil of winter green		विन्टरग्रीन तैल		Olaceales	<i>Bot.</i>	ओलाकेसीज
oil painting		तैल चित्र		olala	<i>H.Sc.</i>	ओलाले
oil palm		तैल ताड़, तैल ताल		olanes	<i>H.Sc.</i>	ऑलैस
oil palm fiber	<i>H.Sc.</i>	तैल ताड़ रेशा		old age	<i>Geog., Geol.</i>	वृद्धावस्था, जीर्णवस्था
oil-palm industry		तैल ताल उद्योग		old age pension	<i>H.Sc.</i>	वृद्धावस्था पेंशन
oil pigment mixture		तैल वर्णक मिश्रण		old bess	<i>H.Sc.</i>	बोल्डेस
oil pipeline		तैल पाइपलाइन		old departmental map	<i>Geog.</i>	पुराना विभागीय मानचित्र
oil pool		तैल संचय		<i>Oldenlandia corym- bosa</i>	<i>Bot.</i>	बोल्डेनलैंडिया कोरिम्बोसा
oil pump		तैल पम्प		<i>Oldenlandia umbellata</i>		बोल्डेनलैंडिया अम्ब्रेलेटा
oil refinery		तैल शोधन कारखाना		olden town	<i>Geog.</i>	पुराना नगर
oil reservoir	<i>Geol.</i>	तैलाशय		old-established nucleus	<i>Geog.</i>	पूर्व स्थापित केन्द्रक
oil sardine	<i>Zool.</i>	तारली, नल्लामत्ती		old fashioned air	<i>Geog.</i>	पुरातन रूप
oil sardine fishery		तारली मात्स्यकी		old fashioned indigenous		पुरातन देशज
oil shale		तैल-शैल		oldhamite	<i>Chem.</i>	ओल्हैमाइट
oil skin	<i>H.Sc.</i>	तैलचर्म (वस्त्र)		oldland	<i>Geog.</i>	जीर्णभूमि, प्रौढ़भूमि
oil spring		तैल स्रोत		oldland rock		जीर्णभूमि शैल
oilstone		ऑयलस्टोन		old settled area	<i>Geog.</i>	पूर्ववासित क्षेत्र
oil tank		तैल टंकी		old stream	<i>Geog., Geol.</i>	जीर्ण सरिता
oil technology		तैल शिल्पविज्ञान		old survey	<i>Geog.</i>	पुराना सर्वेक्षण
oil to oil heat exchanger		तैल-तैल ऊष्मा विनिमायक		Oleaceae	<i>Bot.</i>	ओलिएसी
oil trap		तैल पाश		oleaginous	<i>Bot.</i>	तैलोत्पादकी
oil treated fabric	<i>H.Sc.</i>	तैल अभिक्रियित वस्त्र		oleanane	<i>Chem.</i>	ओलीनेन
oil vacuole	<i>Biol.</i>	तैल घानिका		oleander	<i>Bot.</i>	कनेर
oil-water surface		तैल-जल संपर्क		oleander leaf texture	<i>Geol.</i>	कनेर पत्र गठन
oil well		तैल कूप		oleandomycin	<i>Chem.</i>	ओलीएन्डोमाइसिन
oilwheel		तैल चक्र		oleandrin	<i>Chem.</i>	ओलीएन्ड्रिन
oily component		तैलीय घटक		oleandrose	<i>Chem.</i>	ओलीएन्ड्रोस
oil zone		तैल-जोन				
"O=inside"	<i>Chem.</i>	अन्तर				
ointment	<i>H.Sc.</i>	मखम				

oleanol	Bot.	ओलिनोल	olfactory lobe	घ्राण पालि
oleate		ओलिनिएट	olfactory nerve	घ्राण-उत्त्रिका
olecranon	H.Sc.	कूपर, ऑलिक्रैनाँन	olfactory organs	घ्राणेंद्रिय
olecranon fossa	Zool.	कफोणि घात	olfactory peduncle	घ्राण-वृत्त
olecranon process		कफोणि प्रवर्ध	olfactory pit	घ्राण गतं
olefiant gas	Chem	एथिलीन गैस, ओलीफाएंट गैस	olfactory placode	घ्राण स्थाली
olefine (olefin)	Chem, H Sc	ओलिफिन	olfactory plate	घ्राण पट्टिका
olefinic bond		ओलिफिनिक आबध	olfactory region	घ्राण क्षेत्र
olefin-like hyperconjugation		ओलिफिनमम अतिसघुग्मन	olfactory response	घ्राण अतिक्रिया
oleic acid	Chem.	ओलीक अम्ल, ओलीक ऐसिड	olfactory sac	घ्राण कोष
oleic series		ओलीक श्रेणी	olfactory sense	घ्राण संवेद
oleiferous	Bot	तैलद	olfactory seta	घ्राण शूक
olein	H Sc.	ओनिइन	olfactotactile centre	Zool. घ्राणस्पर्शकेन्द्र
oleocasein paint	Chem	ओलिओकेसेइन प्रलेप	olfactovisceral centre	Zool. घ्राणांतरण केन्द्र
oleocyst	Zool	तैलयुटी	Oliensis spot test	Chem. (Pet.) ओलीन्सिस बिन्दु सपरीक्षण
oleomargarine	H Sc.	ओलिओमार्गेरीन, नीम का तेल	oligandrous	Bot. अल्पपुत्रेचरी
oleoresin	Chem.	ओलिओरेजिन, तैली रान	oliganthous	Bot. अल्पपुष्पी
oleoresinous		ओलिओरेजिनी	oligarch	Bot. अल्प-आदिदाहक
oleoresinous varnish		तेल-रेजिन वार्निश, तेल-रान वार्निश	oligist	Geol. ओलिजिस्ट
oleum	Chem	तेल, ओलियम	oligo	Chem. स्वल्प, ओलिगो
*oleum martis'	Chem.	ओलियम मार्टिस	oligoandrous	Bot. अल्पपुत्रेचरी
oleum neem		ओलियम नीम	oligobaculate	Bot. अल्पबाहुली
oleyl alcohol	Chem.	ओलीइल ऐल्कोहॉल	oligobrochate	Bot. अल्पजालिकाशी
olfaction	Zool, H Sc.	घ्राणबोध, घ्राणक्रिया, घ्राण	Oligocene	Zool., Geol. अल्पनूनन, ओलिगोसीन
olfacto-receptor	Zool.	घ्राण प्राप्ति	Oligocene epoch	ओलीगोसीन युग, अल्पनूनन युग
olfactory bud		घ्राण कनिष्ठा	oligochaete	Zool. अल्पशूक, ओलिगोकीट
olfactory capsule		घ्राण सयुद्धक	oligochase	Geol. ओलिगोक्वैज
olfactory epithelium		घ्राण कपकला, घ्राण एपीथीलियम	oligodactylous	Zool. अल्पांगुलीय
olfactory foramen		घ्राण रंध्र	oligodactyly	Zool. अल्पांगुलित्वा
olfactory hair		घ्राण रोम	oligodendroglia	H Sc. अल्पदन्द्नेन (कोशिका), ओलिगो हेन्ड्रोग्लिया
olfactory hair-cell		घ्राण रोम कोशिका	oligodynamic	Bot. अल्प सन्क्रिय
			oligodynamic action	Chem. अल्पगतिक क्रिया
			oligodynamy	Bot. अल्प सन्क्रियता
			oligoferate	Bot. अल्प रधी
			oligogene	Zool. अल्पबीज

oligogenic	Zool.	अल्पजीवी	oligosporous	Bot.	ओलिगोबीजाणवी
oligohalile	Bot.	अल्पलवणी	oligothermic	Zool.	अल्पतापीय
oligohaline	Zool., Geol.	अल्पलवणीय	oligotokous	Zool.	अल्पप्रजक
oligohaline brackish waters		अल्पलवणी द्वारा जल	oligotrophic	Geog., Geol., Zool.	अल्पपोषी, मितपोषणी
oligohaline water		अल्पलवणी जल	oligotrophic lake		मितपोषणी झील
oligolecithal	Zool.	अल्पपीतकी	oliguria	H.Sc.	अल्पमूत्रता
Oligolophus	Zool.	ऑलिगोलोफस	oliguric	H.Sc.	ऑलिग्यूरिक, अल्पमूत्री
<i>Oligolophus spinosus</i>		ऑलिगोलोफस स्पाइनोसस	olistolith	Geol.	ऑलिस्टोलिथ
oligomer	Chem., (Plastics.)	स्वल्पलक	olistostrome	Geol.	ऑलिस्टोस्ट्रोम
<i>Oligomeris linifolia</i>	Bot.	ऑलिगोमेरिस लिनिफोलिआ	olivaceous		जैतूनी
Oligomerization	Chem.	स्वल्पलकन	<i>Oliva gibbosa</i>	Zool.	ऑलिवा गिब्वोसा
oligomeric	Bot.	अल्पभागी, अल्पतयी	olivary body	Biol.	बर्तुलिका पिंड
<i>Oligometra serripinna</i>	Zool.	ऑलिगोमेट्रा सेरि- पिन्ना	olivauto cloth	H.Sc.	ऑलिवांतो वस्त्र
oligomict	Geol., Geog.	समाश्म	olive	H.Sc.	जैतून
oligomyodian	Zool.	ऑलिगोमायोडियन, अल्पशब्दिनीपेशीय	olive carp	Zool.	सराना
Oligoneuridae	Zool.	ऑलिगोन्यूरिडी	“Olive foots”	Chem.	जैतून पाद
oligopelic	Bot.	अल्पमृत्तिक	olive green	Chem., H.Sc.	ओलिव ग्रीन, जैतून हरित, जैतूनी हरा
oligophagous	Bot., Zool.	अल्पभक्षी	oliveneite	Geol.	ऑलिवेनाइट
oligophrenia	Chem.	मंद बुद्धिता, ऑलीगोफ्रेनिया	olive oil	H.Sc.	जैतून का तेल
oligophyllous	Bot.	अल्पपर्णी	olive oil enema		जैतून तेल एनिमा
oligopneustic system	Zool.	अल्परंध्र तंत्र	Oliver filter	Geol.	ओलिवर फिल्टर
oligopod	Zool.	अल्पपाद	olive shale	Geol.	जैतून हरित शैल
oligopod embryo		अल्पपाद घ्रूण	olivine	Geol.	ऑलिवीन
oligopod larva		अल्पपाद डिम्बक	olivine basalt		ऑलिवीन-बेसाल्ट
oligopod phase		अल्पपाद प्रावस्था	olivine dolerite		ऑलिवीन डोलेराइट
oligoporous plate	Zool.	अल्परंध्र पट्टिका	olivine gabbro		ऑलिवीन गैब्रो
oligorhizous	Bot.	अल्पमूलीय	olivineoid	Geol.	ऑलिविनाभ
oligosaccharide	Chem.	ओलिगो शर्कराइड, ओलिगो शर्कराइड	olivineophyre	Geol.	ऑलिवीनोफायर
oligosaprobe	Zool.	अल्पमृतोपजीवी	olona	H.Sc.	ओलोना
oligospermous	Bot.	अल्पबीजी	olone	H.Sc.	ओलोन
oligospore	Bot.	ओलिगोबीजाणु	olpidiopsidaceae	Bot.	ओल्पिडिऑप्सिडेसी
			Olsen test	Chem.,	ओल्सेन संपरीक्षण
			Olszewski apparatus	Chem.	ओल्सेव्स्की उपकरण
			olthiol	Chem.	ओल्थिऑल
			olynthus	Zool.	ऑलिन्यस
			olynthus stage		ऑलिन्यस अवस्था

omasum	Zool.	तृतीय आभाशय, ओर्ममम	omnicolous	Bot.	सर्ववासी
ombre	Chem, H.Sc.	छदीय रंग, धाम्ब्रे	omnocompetent state	Geog.	सर्वकार्यदक्ष राज्य
ombre printing	H.Sc.	धाम्ब्रे छपाई	omnidirectional	Geol., Phy	सर्वदिशिक, सर्वदेशिक
ombre raye	H.Sc.	धाम्ब्रे राय	omnidirectional microphone		सर्वदिशिक पादकोफोन
ombrogenous	Geol.	वर्षाजल	omnidistance	Phy	सर्वदिक्मान दूरी
ombrometer	Geog	ऑम्ब्रोमीटर, वर्षामापी	omnigraph	Phy	ओम्नीग्राफ
ombrophilous	Bot.	वर्षाप्रागी	omnimeter	Geog.	ओम्नीमीटर
ombrophobe	Bot.	वर्षाभीह	omnirange	Phy.	सर्वदिशिक परास
ombrophobous		वर्षाभीह	omnivore	Zool	सर्वाहारी
ombrophoby		वर्षाभीति, वर्षाभीहना	omnivorous	Zool.	सर्वाहारी, सर्वभक्षी
ombrophyte	Bot	वर्षा उद्भिद्	omnivorous scavenger		सर्वभक्षी अपभोजक
ombrothermic curve	Geog	धाम्ब्रोथर्मिय वक्र, वर्षाक्षीय वक्र	omohyoideus	Zool.	धसकडिनी
ombrothermic curve method		धाम्ब्रोथर्मिय वक्र विधि	omolinon	H.Sc.	ओमोलिनॉन
ombrothermic diagram		धाम्ब्रोथर्मिय आरेख	omosternum	Zool.	अग्रउरोस्थि, ओमोस्टर्नम
Omega chrome red	Chem	ओमेगा क्रोम रेड	omphacite	Geol.	ओम्फेसाइट
omega hyperon	Phy	ओमेगा हाइपरॉन, ω हाइपरॉन	omphalomesenteric artery	Zool.	नाभि-आत्रयोत्रनी धमनी
omega steel		ओमेगा इस्पात	omphalomesenteric vein		नाभि-आत्रयोत्रनी शिरा
omegatron	Phy., Chem.	ओमेगाट्रॉन	omuramba	Geog	ओमूरम्बा (शुष्कनदी पाट)
omelette	H.Sc.	ओमलेट	Ona	Geog.	ओना
omentum	Zool.	वपा, ओमेन्टम	Onagraceae	Bot	ओनाग्रेसी
Omes electroforging process		ओमेस विद्युत् फोर्जिंग प्रक्रम	once-through cooling	Chem.	एकदा पारगामी शीतलन
omission		छूट	onchiostyle	Bot.	ओन्कियोस्टाइल
omission of bed	Geol.	सम्तर लोपन	onchium	Zool	नद्यन्तर
omission solid solution	Phy	ह्यमात्मक ठोम विलयन	Onchocerca	Zool.	ओन्चोसर्वा
ommatidial unit	Zool	नेत्रांशक एकक	onchocerclasis (onchocercosis)	Zool.	ओन्चोसर्कना
ommatidium	H.Sc., Zool.	नेत्रांशक	onchomycosis	Bot.	नद्यति
ommochrome	Zool.	ओमोक्रोम, नेत्रदर्पक	onchosphere	Zool.	ओन्कोस्फियर, गोलागुह
omnibearing	Phy.	सर्वदिक्मान	onchus	Bot.	ओन्कस
omnibearing distance facility		सर्वदिक् दूरी सुविधा	oncogenic effect	Zool.	अर्कुरीय प्रभाव
omnibearing distance navigation system		सर्वदिक् दूरी संचालन तंत्र	oncogenic virus		अर्कुरीय विषाणु
omnibearing indicator		सर्व दिक् सूचक	oncoming current	Math.	अभ्यागामी धारा
			oncotic pressure	Chem	ऑन्कोटिक दाब
			oncus	Bot.	ओन्कस



onde	<i>H.Sc.</i>	ऑन्डे	one electron atom	<i>Chem.</i>	एक-इलेक्ट्रॉन परमाणु
ondee	<i>H.Sc.</i>	ऑन्डी	one electron system		एक-इलेक्ट्रॉनी तंत्र
ondine	<i>H.Sc.</i>	ऑन्डाइन	one element sample	<i>Math.</i>	एक-अवयव प्रतिदर्श
ondograph	<i>Phy.</i>	ऑन्डोग्राफ, वोल्डता तरंगलेखी	one frequency selection	<i>Phy.</i>	एक-आवृत्ति वरण
ondoscope	<i>Phy.</i>	ऑन्डोस्कोप	onegite	<i>Chem. (Met.)</i>	ओनीगाइट
ondule	<i>H.Sc.</i>	ऑन्डयूल	one hole coupler	<i>Phy.</i>	एकछिद्र युग्मक
one address	<i>Phy.</i>	एक पता	one hop ray transmission	<i>Phy.</i>	एकपदी किरण संचरण
one address instruction		एक पता अनुदेश	one horned rhinoceros	<i>Zool</i>	एकशृंगी गैंडा
one bath union dyeing	<i>Chem. (Text.)</i>	एकावगाह मिश्र रंजन	one inch map	<i>Geog.</i>	एक-इंची मानचित्र
one-body model		एकपिण्डी माडल	one inch series		एक-इंची श्रेणी
one-body theory	<i>Phy.</i>	एकपिण्डी सिद्धान्त	one man business	<i>H.Sc.</i>	एकजन व्यवसाय
one centre orbital	<i>Chem.</i>	एककेन्द्री ऑर्बिटल, एककेन्द्री कक्षक	one minute interval	<i>Geog.</i>	एक-मिनट अंतराल
one-colour reduction	<i>Geog.</i>	एक-रंग कलन	one panel integration	<i>Math.</i>	एकपट समाकलन
one component system		एक-घटक तंत्र	one parameter canonical semigroup		एकप्राचल विहित सामिसमूह
one-crop farming	<i>Bot.</i>	एकफसली-खेती	one parameter canonical sub-semigroup	<i>Math.</i>	एकप्राचल विहित उपसामिसमूह
one-cusped	<i>Bot., Zool.</i>	एकदंताग्र	one parameter family	<i>Math.</i>	समतल कुल, एकप्राचल कुल
one dimensional complex	<i>Chem.</i>	एकविम संकुल	one parameter semi group		एकप्राचल सामिसमूह
one dimensional coordinate space		एकविम निर्देशाकाश	one-particle model	<i>Phy.</i>	एक-कण माडल
one-dimensional density function		एकविम घनत्व फलन	one plus one address	<i>Phy.</i>	एकाधिक पता
one dimensional diagram		एकविम आरेख	one-ply strathmore board	<i>Geog.</i>	एकल-प्लाइ स्ट्रैथमोर बोर्ड
one dimensional energy		एकविम ऊर्जा	one-point boundary condition	<i>Math.</i>	एकबिंदु परिसीमा प्रतिबंध
one dimensional filter		एकविम निस्पन्दक, एकविम फिल्टर	one-point compactification		एकबिंदु संहतीकरण
one dimensional flow		एकविम प्रवाह	one point iteration formula		एकविन्दु पुनरावृत्ति सूत्र
one dimensional harmonic oscillator		एकविम समावर्त दोलित्र	one point perspective		एकबिंदु नेत्र दृश्य
one-dimensional model		एकविम माडल	Onera process	<i>Chem.</i>	ओनेरा प्रक्रम
one-dimensional momentum space		एकविम संवेग समष्टि	one-shot absorption	<i>Phy.</i>	एकल प्रक्रम अवशोषण
one dimensional motion		एकविम गति	one shot multivibrator	<i>Phy.</i>	एकस्थितिक बहुकंपित्र
one dish meal	<i>H.Sc.</i>	एक-भद भोजन	one-sided alternation	<i>Math.</i>	एकपुच्छीय विकल्प
			one-sided F-test		एकपुच्छी F-परीक्षण
			one sidedness	<i>Math.</i>	एकपक्षीयता

one-sided normal test		एकपुच्छी प्रसामान्य परीक्षण	onion bloat		प्याज का ब्लोट (रोग)
one sided procedure		एकपक्षीय क्रियानिधि	onion cloth		प्याज-वस्त्र
one-sided specifica- tions		एकपक्षीय विनिर्देश	onion like structure	Geol.	पलाइसम संरचना,
one sided surface		एकपक्षीय पृष्ठ	onion mold		प्याज की फफूंदी,
one sided terry	H.Sc.	एकपक्षीय टेरी	onion smut		प्याज कड़
one sided test		एकपुच्छ परीक्षण	onion thrips	Zool.	पलाइड रसाद, प्याज धिप्स
one sided variable plan		एकपक्षीय चर बायोमेट्रा	onion weathering	Geog.	प्याजवत् अपक्षयण
one skin depth	Phy.	एकत्वचिक गहराई	Oniscus	Zool.	ओनिस्कस
one spot tuning	Phy.	एकबिंदु समस्वरण	onjum salt link	Chem.	ओनियम लवण बंध
one-stage process	Chem.	एकचरण प्रक्रम	onlap	Geol.	अतिव्याप्ति
one-stage resin		एकचरण रेजिन	on line data reduction	Phy.	दत्त तत्काल समानयन
one-step addition	Chem.	एकपद सकलन	on line equipment	Phy.	युगपत् उपस्कर
one stroke lettering	Geog.	एक-स्ट्रोक अक्षरांकन	on line processing		युगपत् संसाधन
one tailed test	Math.	एकपुच्छ परीक्षण	on-load voltage	Chem.	बद परिपथ वोल्टता
one to one	Math.	एकैकी	$\alpha$ -onocerin	Chem.	$\alpha$ -ओनोसिरिन
one to one correspond- ence	Math,Phy.	एकैकी संगति	on-off control	Phy.	चालू-बंद नियंत्रण
one to one function		एकैकी फलन	on-off keying	Phy.	सर्कट विच्छेद कुञ्जीयन, चालू-बंद कुञ्जीयन
one to one homomor- phism		एकैक समाकारिता	on-off modulation		चालू-बन्द मॉड्यूलन
one to one linear function		एकैकी रैखिक फलन	on-off type	Geol.	ऑन-ऑफ टाइप
one to one map		एकैकी प्रतिचित्र	onofrite	Chem. (Met.)	ऑनोफ्राइट
one to one trans- former		एकैक ट्रांसफॉर्मर	onomastics	Geog.	नाम विद्या
one way causation	Math.	एकमार्गी कारणता	onomatype	Geol.	नामप्ररूप
one way circuit	Phy.	एकदिशिक परिपथ	onos	H.Sc.	ओनोस
one-way classification	Math	एकपक्ष वर्गीकरण	onoto	H.Sc.	ओनोटो
one way communica- tion		एकदिशिक संचार	on period	Phy.	चालू अवधि
one way relationship		एकमार्गी संबंध	'On' position (of switch)		सर्कट स्थिति, चुनी स्थिति
onion	Chem., H.Sc.	प्याज, पलाइड	onrush	Geol.	अप्रघात
onion agar medium		प्याज ऐगर माध्यम	Onsager conductivity equation	Chem,Phy.	ओन्सागर चालकता समीकरण
onion black mold		प्याज की काली फफूंदी	Onsager's principle of reciprocity		ओन्सागर परस्परता- सिद्धांत
onion blight		प्याज मीरगना, प्याज अगमारी	onset of monsoon	Geog.	मानसून आरम्भ
			onshore fishing	Zool.	अभितट मत्स्यन
			"on site" oxygen plant	Chem.	"पथा स्थान" आक्सीजन सयंत्र
			ontocora rug	H.Sc.	ऑन्टोरोगा रुफ

on-the-air monitor (=master monitor)	Phy.	अन्तिम मानीटर, मास्टर मानीटर	oogonium	Bot. Zool.	अंडधानी अंडजननी
on the head	Phy.	शीर्षोपरि, शीर्षज	ooid	Geol.	अंडक
on the nose	Phy.	कर्णोपरि, कर्णज	ookinete	Zool.	चलयुग्मज, ऊओकिनीट
on the pump	Chem.	पंपयोजित	oolicast	Geol.	अंडकरिवित
ontogenetic	Biol.	व्यक्तवृत्तीय	oolite	Geol.	1. अंडकाश्म, ऊओलाइट 2. अंडुक
ontogenetical	Bot., Geol.	व्यक्तवृत्तीय	oolite formation		अंडकाश्म शैल समूह
ontogenetic morpho- genesis	Zool.	व्यक्तवृत्तीय रचना विकास	oolith	Geol.	अंडक, ऊलिय
ontogenetic progression		व्यक्तवृत्तीय क्रमण	oolitic	Geog., Geol.	अंडकीय, ऊओलाइट
ontogenetic recapitul- ation		व्यक्तवृत्तीय पुनरावर्तन	oolitic grain		अंडकीय कण, ऊओलाइट कण
ontogenetic struct- ural pattern		व्यक्तवृत्तीय संरचनात्मक पैटर्न	oolitic hill		अंडकीय पहाड़ी
ontogeny	Zool.	व्यक्तवृत्त	oolitic ironstone		अंडकीय लोह प्रस्तर
onto map	Math.	आच्छादक प्रतिचित्र	oolitic limestone		अंडकीय चूनापत्थर
Onychaster	Chem.	आनिकैस्टर	oolitic ore	Geol.	अंडाश्म
Onychiuridae	Zool.	ओनाइकियूरिडी	oolitic scarpment		अंडकीय कगार
Onychodactylus	Zool.	ऑनिकोडेक्टाइलस	oolitic texture		अंडकीय गठन
Onychodectes	Zool.	ऑनिकोडेक्टीज	oology	Bot., Zool.	अंडविज्ञान
Onychophora	Zool.	ऑनिकोफोरा	oolong tea	H.Sc.	ऊलांग चाय
onychophoran	Zool.	नखरधारी, ओनिकोफोरा- प्राणी	Oomycetes		ऊओमाइसिटीज
onyx	Geog.	ओनीक्स	oopak	H.Sc.	ऊपैक
onyx marble	Chem.	सुलेमानी संगमरमर	oophriti	Zool.	अंडाशयशोथ
ooblast	Bot.	ऊब्लास्ट, अंडयोजि कोशिका	oophyte	Bot.	अंडोद्भिद्, युग्मकोद्भिद्
oocyanin	Zool.	ऊसायनिन	ooplasm	Zool.	डिम्बद्रव्य
oocyst	Zool.	युग्मकपुटी	ooporphyrin	Zool.	ऊपोरफाइरिन
Oocystis submarina	Bot.	ऊसिस्टिस सबमैरीना	oormuck	H.Sc.	ऊरमक
oocyte	Zool.	अंडक	Oort constant	Math.	ओर्ट-अक्षर
ooecium	Geol.	ओणधानी	Oort formula		ओर्ट सूत्र
oogamete	Zool.	अंडयुग्मक	oosperm	Zool.	निषिक्तांड
oogamous form	Bot.	विषमयुग्मकी रूप	oosphere		अंड, अंडगोल
oogamy	Zool.	विषमयुग्मकता	Oospora lactis	Bot., H.Sc.	ऊस्पोरा लैक्टिस
oogenesis	Zool.	अंडजनन	oospore	H.Sc., Bot.	निषिक्तांड
oogone	Bot.	अंडधानी	oosporin	Chem.	ऊस्पोरिन
oogonial cell	Zool.	अंडजननी कोशिका	oostegite	Zool., Geol.	अंडछाद
			oostegopod	Zool.	अंडछादपद
			ootheca	Zool.	अंडकवच
			ootype	Zool.	अंडवाहिनी

ooze	<i>Geol.</i> <i>H.Sc.</i> <i>Geog.</i>	(v) रिसना (n) 1 मिथुपक, निपक 2 ऊँच	open	<i>Math.</i> <i>Geog.</i>	(adj) खुला, विवृत (n) शृङ्खला बन्दरा, श्राद्धतिक विदर
ooze film	<i>Zool.</i>	निपक परत	open addressing system	<i>Math</i>	विवृत पता-प्रणाली
oozing	<i>Geol.</i>	स्यदन, रिसना	open air ionization chamber	<i>Phy</i>	मुक्त वायु आयनन कोष्ठ
oozoid	<i>Zool.</i>	बडजोवक	open air line		खुली लाइन
oozy bed	<i>Geog.</i>	सिधुपकी तल	open air workings		खुली खान
oozy lair		सिधुपकी गुहा	open ambulacral groove		विवृत वीथि खाच
oozy mud	<i>Geog</i>	सिधुपक	open anchorage		खुला लगरस्थान
opacified glassine	<i>Chem</i>	अपारदर्शीकृत श्लासीन	open bail		विवृत गोलक
opacifier	<i>Phy</i>	1. अपारदर्शकारी 2 शामक	open bed	<i>Geog.</i>	अनावृत्त तल
opacifying effect	<i>Chem.</i>	अपारदर्शी प्रभाव	open billed stork		विवृत चंचु बनाक
opacimeter	<i>Phy, Chem</i>	अपारदर्शितामापी	open bundle		वर्धी पूल, वर्धी बडल
opacite	<i>Geol</i>	ओपेलाइट, अजेयापारदर्श	open cast	<i>Geol, Geog.</i>	विवृत खान
opacity	<i>Geog, Geol, Phy.</i>	अपारदर्शिता, अपार्यता	open cast mining	<i>Geog.</i>	विवृत खनन
opal	<i>Geol</i> <i>H Sc.</i>	1. दूधिया पत्थर 2. अपन	open centre control	<i>Phy.</i>	बलपरूप केन्द्र प्रदर्श
opalescence	<i>Chem, Phy</i> <i>Geol.</i>	दूधियापन, दुग्धिलता, उपनभासिता	open chain compound		विवृत शृङ्खला यौगिक
opalescent	<i>Chem.</i>	दूधिया	open chain formula		विवृत शृङ्खला सूत्र
opal glass	<i>Chem, Geog.</i>	उपल काच, दुग्धिल काच	open chain potential		खुला शृङ्खला विभव
Opalina	<i>Zool.</i>	ओपेलाइना	open circuit		खुला परिपथ
Opalina obtrigona	<i>Zool.</i>	ओपेलाइना ओबट्रिगोना	open circuit grinding		खुला परिपथ कषण
Opalina ranarum		ओपेलाइना रैनरम	open circuit indicator		खुला परिपथ सूचक
opaline	<i>Chem, Geol.</i> <i>H Sc.</i>	1. दूधिया 2. ओपलिन	open circuit line		खुला परिपथ लाइन
opalinid ciliate	<i>Zool.</i>	ओपेलिनिड पदमापी	open circuit potential		खुला परिपथ विभव
opalite	<i>Chem.</i>	ओपेलाइट	open circuit voltage		खुला परिपथ वोल्टता
opalized wood	<i>Geol</i>	ओपलित काष्ठ	open cluster		विवृत तारा गुच्छ
opaque	<i>Phy.</i>	अपारदर्शी, अपार्य	open community	<i>Geog.</i>	मुक्त समुदाय, विवृत समुदाय
opaque attrite		अपारदर्शी रेंड्राइट	open connected set	<i>Math.</i>	विवृत सम्बन्ध
opaque body		अपारदर्शी वस्तु	open contact		खुला सम्पर्क
opaque nucleus		अपार्य न्युक्लियस	open country	<i>Geog.</i>	खुला प्रदेश, विवृत प्रदेश
opaque sheet		अपारदर्शी शीट	open cover		विवृत आवरण
opaque signal		अपारदर्शी संकेत, अप्रभावी संकेत	open covering		विवृत आवरण
opax	<i>Chem.</i>	ओपेक्स	open cross staff	<i>Geog.</i>	खुली गुनिया
			open cube		विवृत घन

open cup test		विवृत कप संपरीक्षण	open pot		विवृत पात्र
open cutting	<i>Geol.</i>	दीर्घ उत्खनन	open pressure		विवृत दाब
open decision	<i>Math.</i>	विचारणीय निर्णय	open product (=outer product)	<i>Math.</i>	बाह्य गुणनफल
open domain		विवृत प्रांत	open quadrature formula		विवृत क्षेत्रकलन-सूत्र
open end (of pipe)	<i>Phy.</i>	खुला मुख, मुक्तांत	open question		अनिर्धार्य प्रश्न
open end classes		विवृतांत वर्ग	open ray		विवृत अर्धरेखा
open ended line		खुला अन्त लाइन	open relation		विवृत संबंध
open end mill	<i>Geol.</i>	मुक्तांत मिल	open rock	<i>Geol.</i>	पारगम्य शैल
opener	<i>H.Sc.</i>	उन्मुद्रक	open routine		विवृत नेमका
open fault	<i>Geol.</i>	विवृत भ्रंश	open sand	<i>Geol.</i>	सरंद्र बालू
open field	<i>Geog.</i>	खुला खेत, खुला क्षेत्र	open sea fishery	<i>Geog.</i>	खुला सागर मात्स्यकी
open field system		खुला-क्षेत्र पद्धति	open sequential scheme		विवृत अनुक्रमिक योजना
open fold		विवृत बलन	open set		विवृत समुच्चय
open foliation	<i>Geol.</i>	असंसक्त शल्कन	open shelter		खुला आश्रयस्थान
open forest	<i>Geog.</i>	विवृत वन	open shop		खुला कद
open form		विवृत रूप	open-sight alidade		दर्शरेखक ऐलिडेड
open hearth process		खुली भट्ठी विधि	open soaper		विवृत सोंपित्र
open hole		विवृत कूप, खुला कूप	open space	<i>Geog.</i>	उन्मुक्त स्थान
opening		1. मुख, द्वार 2. वन-अवकाश, खुली जगह	open-space deposit	<i>Geol.</i>	रिक्तांतरी निक्षेप
opening muscle	<i>Zool.</i>	विवृतकर पेशी	open space shoot		रिक्तांतरी अयस्क पिंड
opening time		मुक्त कालावधि	open sphere		विवृत गोलक
open interval		विवृत अंतराल	open-steam cure	<i>Chem.</i>	विवृत प्रवाप्य संसाधन
open kernel		विवृत अष्टि	open subroutine	<i>Phy.</i>	विवृत उपनेमका
open loop testing		खुला पाश परीक्षण	open system		विवृत तंत्र
open manifold		विवृत समष्टि	open tier		विवृत श्रेणी
open mapping		विवृत प्रतिचित्रण	open transformation		विवृत रूपांतरण
open mapping theorem		विवृत प्रतिचित्रण प्रमेय	open traverse		विवृत चक्रम
open matter		रिक्ताकाशी द्रव्य	open tube diffusion		विवृत नलिका विसरण
"open maximum"		विवृत भ्रूयिष्ठ	open tube manometer		खुला मैनोमीटर
open ocean	<i>Geog.</i>	उन्मुक्त महासागर	open type		विवृत प्रकार
open pack	<i>Geog.</i>	अलग्न बर्फपूज (प्लावी)	open type formula		विवृत प्रकार का सूत्र
open pack ice		अलग्न बर्फपूज (प्लावी)	open waterway	<i>Geog.</i>	उन्मुक्त जलमार्ग
open packing	<i>Geol.</i>	रिक्त संकुलन	open window unit		उन्मुक्त वातायन मात्रक
open path vibrator		खुला पथ कंपित्र	open wire	<i>Phy.</i>	खुला तार, नग्न तार
open pit mining	<i>Geol.</i>	खुला खनन	opnewire line		नग्न तार लाइन
open pollination	<i>Bot.</i>	अमानवी परागण	openwire transmission line		खुलातार संचरण लाइन

open woodland		खुला वन	operational dynamics	सक्रियात्मक गतिकी
openwork	<i>H.Sc.</i>	विवृत रचना	operational gaming	सक्रियात्मक खेल
open work gravel	<i>Geol.</i>	रिक्तिक संवेल, रिक्तिक बजरी	operational integrator	सक्रियात्मक समाकलित
open working	<i>Geog., Geol.</i>	पृष्ठ खनन	operationalism	सक्रियावाद
open work reflector (= grating reflector)	<i>Phy.</i>	ग्रेटिंग परावर्तक	operational procedure	सक्रियात्मक प्रक्रिया
open work texture	<i>Geol.</i>	रिक्तिक गठन	operational readiness	कार्यकारी सज्जता
opera glass		नाट्य दूरबीन	operational research	सक्रिया विज्ञान
operand	<i>Math.</i>	सकार्य	operational suitability	कार्यकारी योग्यता
operand specification		सकार्य विनिर्देश	operational system	सक्रियात्मक प्रणाली
operated in coincidence	<i>Phy.</i>	सपात चालित	operational viewpoint	सक्रियात्मक दृष्टिकोण
operating area	<i>Phy.</i>	प्रचालन क्षेत्र	operation code	सक्रिया कूट
operating characteristic	<i>Math.</i>	1. सकारक अभिलक्षण 2. प्रचालन अभिलक्षण	operation decoder	सक्रिया कूटवाचक
operating character- istic curve		सकारक-अभिलक्षण-वक्र	operation indicator	प्रचालन सूचक
operating characteristic function		सकारक अभिलक्षण फलन	operation light	सक्रिया बत्ती
operating conditions		प्रचालन दशा	operation phase sequencing	सक्रिया प्रावस्था अनुक्रमण
operating contact		प्रचालन संपर्क	operation practice	प्रचालन पद्धति
operating distance		प्रचालन दूरी	operation register	सक्रिया-पंजी
operating frequency		प्रचालन आवृत्ति	operations engineering	सक्रिया इंजीनियरी
operating point		प्रचालन बिन्दु	operations research	सक्रिया विज्ञान
operating procedure	<i>Math.</i>	सक्रियात्मक क्रियाविधि	operations unit (= operational unit)	सक्रिया एकक
operating range		प्रचालन परास	operation table	सक्रिया सारणी
operating system		प्रचालन पद्धति	operative	<i>Math.</i> क्रियात्मक, क्रियाकारी, सकारी
operating time		प्रचालन अवधि	operative function	सकारी फलन
operating voltage		प्रचालन शोल्डता	operative mechanism	क्रियात्मक विधान
operating winding		प्रचालन कुंडली	operator	1. प्रचालक, ऑपरेटर 2. सकारक
operation	<i>Chem., Phy., Geol. Math.</i>	प्रचालन  सक्रिया	operator calculus	सकारक कलन
operational amplifier		सक्रियात्मक प्रवर्धक	operator domain	सकारक-प्रात
operational calculus		सक्रियात्मक कलन	operator equation	सकारक समीकरण
operational data		परिचालन-आंकड़े	operator function	सकारक फलन
operational definition		सक्रियात्मक परिभाषा	operator gene	प्रचालक जीन
operational differentiator		सक्रियात्मक अवकलित	operator homomorphism	सकारक-समांतरिता
			operator indicator	प्रचालक सूचक
			operator isomorphism	सकारक-सुन्याकारिता
			opercular	<i>Biol., H.Sc.</i> प्रच्छदी
			opercular bone	प्रच्छदास्थि

opercular canal		प्रच्छद नलिका	ophiopluteus larva	Zool.	ऑफिओप्लूटियस डिम्बक
opercular chamber		प्रच्छद कोष्ठ	<i>Ophiostoma ulmi</i>	Bot.	ऑफिओस्टोमा अल्माइ
Opercularia	Zool.	ओपक्यूलेरिया	Ophiothrix	Zool.	ऑफिओथ्रिक्स
opercular muscle		प्रच्छद पेशी	<i>Ophiothrix hirsuta</i>		ऑफिओथ्रिक्स हिर्स्युट
opercular plug		प्रच्छदी डाट	<i>Ophisaurus gracilis</i>	Zool.	ऑफिसॉरस ग्रैसिलिस
opercular ray		प्रच्छद अर	ophite	Geol.	ओफाइट
operculate	Bot.	प्रच्छदी	ophitic	Geol.	ओफाइटी
operculated	Zool.	प्रच्छादित	*Ophiucus	Astron.	ओफियूकस
operculum	Biol., Geol.	प्रच्छद	Ophiura	Zool.	ओफियूरा
operculum region		प्रच्छद क्षेत्र	ophiuran	Zool.	सर्पपुच्छाम
operm	H.Sc.	ओपर्म	(=ophiuroid)		
operon	Zool.	ओपेरॉन	Ophiuroidea	Zool.	ओफियुरॉइडिया
<i>Ophiactis savignyi</i>	Zool.	ऑफिएक्टिस सैविग्नाई	ophorite	Chem.	ओफोराइट
ophicalcite	Geol.	ओफीकैल्साइट	Ophrydium	Zool.	ओफीडियम
<i>Ophideres fullonica</i>	Zool.	ऑफिडेरीस फ्लोनिका	Ophryocystis	Zool.	ओफियोसिस्टिस
<i>Ophideres materna</i>		ऑफिडेरीस मैटर्ना	Ophryoglena	Zool.	ओफियोग्लेना
Ophiderpeton	Zool.	ऑफिडरपेटॉन	Ophryoscolex	Zool.	ओफियोस्कोलेक्स
Ophidia	Zool.	ओफीडिया	<i>Ophrysia superciliosa</i>	Zool.	ऑफिसिया सुपरसीलियोसा
ophidian organisation	Zool.	सर्पिय संगठन	ophthalmic artery	Zool.	नेत्र धमनी
Ophidiaster	Zool.	ऑफिडिएस्टर	ophthalmic glass	Chem.	उपनेत्र कांच, चश्मा कांच
ophimottling	Geol.	मिश्रक्रिस्टली अंतर्वेश	ophthalmic sternum	Zool.	नेत्र अघरक
ophiocephalous pedicellaria	Zool.	सर्पशीर्ष वृन्तपद	ophthalmicus profundus	Zool.	ऑफथैलमिकस प्रोफण्डस
Ophiocoma	Zool.	ऑफिओकोमा	ophthalmomyiasis	Zool.	ओफथैलमोमाइएसिस, नेत्रमक्षिकर्ता
<i>Ophiocoma scolopendrina</i>		ऑफिओकोमा स्कालोपेन्ड्रीना	ophthalmoscope	Zool., H.Sc.	नेत्र-अन्तर्दर्शी, नेत्रपटल दर्शी
ophiocystioid	Zool.	ऑफिओसिस्टिऑइड	opianic acid	Chem.	ओपिएनिक अम्ल, ओपिएनिक एसिड
Ophioglossaceae	Bot.	ओफिओग्लोसिसेी	opiate	Chem.	1. उपशामक 2. अहिफेनी
Ophioglossum	Bot.	ओफिओग्लोसम	Opillionidea	Zool.	ओपिलियोनाइडिया
Ophioglypha	Zool.	ओफिओग्लाइफा	opinion measurement	Math.	मत-मापन
<i>Ophioglypha lacertosa</i>		ओफिओग्लाइफा लेसरटोसा	opinion polls		मत गणना
<i>Ophiohela danae</i>	Zool.	ऑफिओहेला डैनी	opinion survey		मत सर्वक्षण
<i>Ophiophragmus relictus</i>	Zool.	ऑफिओफ्रैगमस रेलिक्टस	Opis	Geol.	ओपिस
Ophioplocus	Zool.	ऑफिओप्लोकस	opisometer	Geog.	ऑपिसोमीटर

opisthaptor	Zool	अनुस्थापक	opposing		विरोधी
opisthobranch	Zool.	अनुबलीम	opposing couple		विरोधी बलद्वयम्
Opisthobranchia		ओपिस्थोब्रैकिया	opposing moments		विरोधी आघूर्ण
Opisthocoele	Zool	ओपिस्थोकोसीला	opposing reaction	Chem.	प्रतिकूल अभिक्रिया
opisthocelous	Zool	पश्चगती	opposite	Bot., Math. Phy.	सम्मुख विपरीत
Opisthocomi	Bot.	ऑपिस्थोकोमी	opposite angle		सम्मुख कोण
Opisthocomus	Zool	ऑपिस्थोकोमस	opposite event		विपरीत घटना
opisthodelphic	Bot	पश्चेकअंशाशयी	opposite phase		विपरीत कला
opisthodontic	Geol	पश्चस्थ	opposite pitting		सम्मुख गतंन्यास
Opisthogypha	Zool	ऑपिस्थोग्लाइफा (पश्चविपदन्ती)	opposite sense		प्रति सकेत दिशा
opisthognathous head	Zool	पश्चहनु शीर्ष	oppositiflorus		सम्मुख पुष्पी
Opisthogoneata	Zool.	ओपिस्थोगोनिप्टा	oppositifluis		सम्मुखपर्ण
opisthogoneate	Zool.	अनुजनिक	opposition	Astron.	वियुति
opisthogyrate	Geol.	पश्चवक्रित	oppositipetalous		दलसमूह
Opisthomi	Zool	ऑपिस्थोमी	oppositusepalous	Bot.	बाह्यदलसमूह
opisthonephros	Zool	उत्तरवृक्क	opsin	H Sc , Chem	ऑप्सिन
Opisthorchis sinensis	Zool	ओपिस्थोर्किंस साइनेन्सिस	opsis type (life cycle)	Bot.	यूरोहोरहिन प्ररूप
opisthosoma	Zool ,Geol	अनुकाय	opsonic effect	Zool	ऑप्सोनिनीय प्रभाव
opisthosomatic segment	Zool.	अनुकायिक खंड	opsonic index	Bot	ऑप्सोनीय सूचकांक
opisthotic	Zool	कर्णपरिचक	opsonification	Zool.	ऑप्सोनिनकरण
opium	H Sc.	अफीम, अहिक्केत	opsonin	Bot.	ऑप्सोनिन
opium plant	Bot.,Geog	पोस्ता	opstal	Geog.	ऑपस्टल, फार्म-भवन
opoka	Geol.	ओपोका	optalic metamorphism	Geol.	ध्वजनी विधांतरण
Opolemur	Zool.	ओपोलीमर	optar (optical automatic ranging)	Phy.	आप्टर (प्रकाशीय स्वचालित परामन)
oporto	H Sc.	ओपोर्टो	optic	Phy.,Chem , Zool.	1. प्रकाशिक 2 चाक्षुष
opossum	Zool.	ओपोसम	optical	Chem , Geol ,Phy.	1 चाक्षुषीय 2. प्रकाशीय, प्रकाशिक
opossum shrimp		ओपोसम चिंगट	optical absorptibility		प्रकाशिक अवशोषकता
oppanal	Chem.	ओपेनाल	optical activity	Phy.	घूर्णन घूर्णकता
Oppenauer oxidation	Chem.	ओपेनाउअर ऑक्सीकरण	optical anomaly		प्रकाशीय विमंगति
Oppenheimer-Phillips process	Phy ,Chem.	ओपेनहाइमर-फिलिप्स प्रथम	optical antipode		प्रकाशीय प्रतिमुखी
oppidium	Geog.	ऑपीडम	optical appliance		प्रकाशिक साधन
opposable hallux	Zool	सम्मुख पादांगुष्ठ	optical axis		प्रकाशिक अक्ष
opposable thumb		सम्मुख अंगुष्ठ	optical bench		प्रकाशीय बैंच
opposed camp	Geog.	विरोधी दल			



optical bench camera	प्रकाशीय बेंच कैमरा	optical illusion	Phy.	दृष्टिभ्रम
optical bleaching	Chem. प्रकाश विरंजन, चाक्षुप विरंजन	optical inactivity	Phy.	ध्रुवण अचूर्णकता
optical borate flint glass	चाक्षुपीय बोरेट फ्लिन्ट कांच, प्रकाशीय बोरेट फ्लिन्ट कांच	optical instrument		प्रकाशिक यंत्र
optical centre (of a lens)	प्रकाशिक केन्द्र	optical inversion	Phy.	ध्रुवण प्रतीपन
optical character	प्रकाशिक लक्षण	optical isomer		प्रकाशिक समावयवी
optical communication	प्रकाशीय संचार	optical isomeride		ध्रुवण समावयवी
optical comparator	प्रकाशिक तुलनित्र	optical isomerism		प्रकाशिक समावयवता
optical condenser	प्रकाशिक संग्राही	optical lever		प्रकाशिक लीवर
optical constancy	चाक्षुप स्थिरता, प्रकाशीय स्थिरता	optical libration	Math.	आभासी दोलन
optical constant	प्रकाशिक नियतांक	optical light filter	Phy.	प्रकाश परावर्तन निरोधक
optical corrections	प्रकाशिक संशोधन	optical line spectrum		प्रकाशिक रेखा स्पेक्ट्रम
optical cross-section	प्रकाशिक परिकेन्द्र	optically	Phy.	प्रकाशतः
optical crown glass	चाक्षुपीय क्राउन कांच, प्रकाशीय क्राउन कांच	optically active	Chem.,Phy.	ध्रुवण घूर्णक
optical density	प्रकाशिक घनत्व	optically inactive		ध्रुवण अघर्णक
optical depth	प्रकाशिक गभीरता	optically negative		प्रकाशतः ऋण
optical dielectric constant	प्रकाशीय परावैद्युतांक	optically plane		प्रकाशतः समतल
optical differentiation	प्रकाशीय विभेदन, चाक्षुप विभेदन, आप्टिकल विभेदन	optically plane surface		प्रकाशतः समतल पृष्ठ
optical disc	प्रकाशीय डिस्क	optically positive		प्रकाशतः धन
optical distortion	प्रकाशिक विरूपण	optically void liquid		प्रकाशतः रिक्त द्रव
optical doublet	प्रकाशिक द्विक	optical maser		प्रकाशीय मेसर
optical electron	चाक्षुप इलेक्ट्रॉन, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन	optical mechanical scophony system		प्रकाश यांत्रिक स्कोफोनी तंत्र
optical electronic method	प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनिक विधि	optical memory		प्रकाशीय स्मृति
optical emulsion	प्रकाशिक इमल्शन	optical micrometer		प्रकाशीय सूक्ष्ममापी
optical exaltation	प्रकाशीय उत्कर्ष, चाक्षुप उत्कर्ष	optical model		प्रकाशिक माडल
optical flat	प्रकाशिक समतल पट्टिका	optical molecular spectrum		प्रकाशिक आणविक स्पेक्ट्रम
optical frequency	प्रकाशीय आवृत्ति	optical null method		प्रकाशिक शून्य वक्रता विधि
optical glass	प्रकाशीय कांच, आप्टिकल ग्लास	optical number		प्रकाशीय अंक, चाक्षुप अंक
		optical organ	Zool.	दृक्-अंग
		optical pair		प्रकाशीय युग्म
		optical path		प्रकाशीय दूरी
		optical phonon		प्रकाशिक फोनान
		optical polishing		प्रकाशिक पालिश करना
		optical printing		प्रकाशिक मुद्रण
		optical projection		प्रकाशीय प्रक्षेपण, चाक्षुप प्रक्षेपण, आप्टिकल प्रक्षेपण

optical property		प्रकाशिक गुणधर्म	optic bud	Zool	दृक् मुकुल
optical pyrometer		प्रकाशिक उतापमापी	optic chiasma		दृक् तंत्रिका-किण्वा, दृक् तंत्रिका- व्यत्यासिका
optical pyrometry		प्रकाशिक उतापमिति	optic cup		दृक् चषक
optical ray axis		प्रकाशिक किरण अक्ष	optic disc		दृक् विम्ब
optical record		प्रकाशिक अभिलेख	optic foramen		दृक् तंत्रिका रंध
optical representation		प्रकाशीय निरूपण	optic ganglion		दृक् गुच्छिका
optical rig		प्रकाशीय सञ्ज्ञा	optic isomer		प्रकाशिक समावयवी
optical ring sight		प्रकाशिक बलय लक्ष्यदर्शी	optic lobe		दृक् पानि
optical rotation		ध्रुवण घूर्णन	optic nerve		दृक् तंत्रिका
optical rotatory dispersion		चाक्षुष घूर्णन विक्षेपण	optic normal		प्रकाशिक अभिलव
optical rotatory power		ध्रुवण घूर्णन क्षमता	opticoel	Zool.	दृक्गुहा
optical scale	Chem	चाक्षुष मानकम	opticon	Zool.	ऑप्टिकॉन, अक्षिक
optical sensing		प्रकाशीय संवेदन	optico-olfactory chiasma	Zool.	दृक्-घ्राण व्यत्यासिका
optical spectrographic method		प्रकाशिक स्पेक्ट्रमलेखी विधि	optic organelle	Zool, H.Sc.	दृक्-अंगक, दृक् कोशिकांग
optical spectrum		प्रकाशीय स्पेक्ट्रम	optic placode		दृक् स्थानी
optical square		प्रकाशीय गुनिया, प्रकाशीय समकोण दर्शक यंत्र	optic radiation		दृक् विकिरण
optical superposition		प्रकाश का अध्यारोपण	optic recess	Zool	अक्षि रती
optical system		प्रकाशिक तंत्र	optic rod		दृक् शलाका
optical temperature	Chem.	चाक्षुष ताप	optics	Phy.	प्रकाशिकी, प्रकाश विज्ञान
optical thickness		प्रकाशिक मोटाई	optic stalk		दृक् शूल
optical tracking		प्रकाशीय अनुवर्तन	optic tectum		दृक् छद
optical train		प्रकाशिक अवनि, चाक्षुष अवनि	optic thalamus		दृक् थैलेमस, दृक् चेतक
optical transparency		चाक्षुष पारदर्शिता, प्रकाशिक पारदर्शिता	optic tract		दृक् पथ
optical twining		प्रकाशीय यमलन	optic vesicle		दृक्-आशय
optical view finder		प्रकाशिक दृश्यदर्शी	optimal basic feasible solution	Math.	इष्टतम आधारो मुसगत हल
optical wedge		प्रकाशीय वेज, प्रकाशीय पान	optimal bidding strategy		इष्टतम बोली युक्ति
optical zinc crown glass		चाक्षुषीय यशद त्राऊन काँच, प्रकाशीय यशद त्राऊन काँच	optimal choices		इष्टतम चरण
optic axial angle		प्रकाशिक अक्ष कोण	optimal combination		इष्टतम संयोजन
optic axial plane		प्रकाशिक अक्ष तल	optimal condition		इष्टतम अवस्था
optic axis		प्रकाशिक अक्ष	optimal damping		इष्टतम अवमदन
			optimal decision		इष्टतम निर्णय
			optimal decoding		इष्टतम दृष्टवाचन
			optimal estimate		इष्टतम आकल

optimal Hamming code	इष्टतम हैमिंग कूट	optimum molar concentration	अनुकूलतम ग्राम अणुक सांद्रता
optimal investment	इष्टतम निवेश	optimum performance	इष्टतम निष्पादन
optimality	इष्टतमत्व	optimum plan	अनुकूलतम योजना
optimality criterion	इष्टतमत्व निकष	optimum point	अनुकूलतम बिन्दु, इष्टतम बिन्दु
optimality test	इष्टतमत्व परीक्षण	optimum population	अनुकूलतम जनसंख्या
optimal lot size	इष्टतम प्रचय आमाप	optimum probability	अनुकूलतम प्रायिकता
optimal order	इष्टतम क्रम	optimum programming	इष्टतमकारी प्रोग्रामन
optimal over-all strategy	इष्टतम सम्पूर्ण युक्ति	optimum reverbertiom	इष्टतम अनुरणन
optimal path	इष्टतम पथ	optimum set	इष्टतम समुच्चय
optimal product mix	इष्टतम उत्पाद मिश्रण	optimum step size	इष्टतम सोपान आमाप
optimal programming	इष्टतम प्रोग्रामन	optimum strategy	इष्टतम युक्ति
optimal strategy	इष्टतम युक्ति	optimum stratification	इष्टतम स्तरण
optimal stratified procedure	इष्टतम स्तरित क्रिया-विधि	optimum value	अनुकूलतम मान
optimal titration	अनुकूलतम अनुमापन	optimum weight	इष्टतम भार
optimal value	इष्टतम मान	optimum yield	इष्टतम उत्पाद
optimization	Phy. इष्टतमीकरण	optochin	Chem. ऑप्टोसिन
optimization theory	इष्टतमकारी सिद्धांत	optocoele	Chem. दृक् निलय
optimizing	इष्टतमीकरण	optometer	Phy. दृष्टिमापी, आप्टोमीटर
optimum	अनुकूलतम, इष्टतम	optometrist	H.Sc. दृष्टिमितिज्ञ
optimum address	इष्टतम पता	optometry	Phy. दृष्टिमिति
optimum balance	अनुकूलतम संतुलन	optophone	Phy. प्रकाश-ध्वनि, आप्टोफोन
optimum bunching	इष्टतम गुच्छन	opuhe	H.Sc. ऑप्यूहे
optimum capacity	इष्टत क्षमता	opuntia	Bot. ओपन्शिया (नागफनी)
optimum condition	अनुकूलतम दशा	Opuntiales	ओपन्शिएलीज
optimum design	इष्टतम अभिकल्पना	OR	Phy. अपि, OR
optimum extrusion	इष्टतम वहिर्घन	ora	Bot. छिद्रक
optimum flight	इष्टतम उड़ान	orabolin	Chem. ओराबोलिन
optimum frequency	इष्टतम आवृत्ति	oracle	Geog. देववाणी
optimum growth	इष्टतम वृद्धि	orad	Zool. मुखवर्ती
optimum inventory level	इष्टतम तालिका स्तर	oral	Zool., Geol. 1. मुखीय, मुख 2. अमिमुख (adoral)
optimum load	इष्टतम भार	oral aboral axis	Zool. मुख-अपमुखी अक्ष
optimum magnification	इष्टतम आवर्धन	oral aorta	मुख-महाधमनी
optimum matrix	इष्टतम आव्यूह	oral aperture	मुख छिद्र

oral appendage		मुखीय उपाग	orange cross-ruing	<i>Geog</i>	नारंगी भ्राम रेखण
oral arm		मुख बाहु	orange extract	<i>H Sc</i>	नारंग मूल
oral cavity		मुख कोटर	orangeite	<i>Chem.</i>	ऑरेन्जाइट
oral cilia		मुख पशुमान	orange jelly	<i>H Sc</i>	नारंग जेली
oral cirrus		मुख मिरम, मुख कुरल	orange juice	<i>H Sc</i>	नारंग रस
oral direction	<i>H Sc</i>	मौखिक निदेशन	orange leaf rust		नारंगी का पर्णकित्ट
oral disk		मुख चिब	orange peel	<i>H Sc</i>	नारंग शलक
oral evagination		मुख वहिर्वलन	orange peel bucket	<i>Geol</i>	ऑरेन्ज पील बकेट
oral fimbriae		मुख झालर	orange peel effect		नारंग शलक प्रभाव
oral funnel	<i>Zool</i>	मुख बीप	orange pekoe tea	<i>H Sc</i>	ऑरेन्ज पीको चाय
oral gestation		मुखीय गर्भाविधि	orange tip	<i>Zool.</i>	नारंगान्त
oral gland		मुख ग्रथि	orange yellow		नारंगी पीला
oral groove		मुख-खाँच	orangite	<i>Geol</i>	ऑरेन्जाइट
oral hood		मुख-छद	orang utan	<i>Zool</i>	ऑरेन्ज उटैन
oral hydranth		मुख-हाइड्रन्थ, मुखोदमुस	orate	<i>Bot</i>	टिड्रकयुवत
oral inoculation		मुख निवेशन	orb	<i>Math ,Phy.</i>	खगोलीय गोला, खगोलीय बिम्ब
oral lip		मुखोष्ठ	<i>Orbicella</i>	<i>Zool.</i>	ऑर्बोसेला
oral lobe		मुख-भावि	<i>Orbicella annularis</i>		ऑर्बोसेला ऐनलरिस
oral orifice		मुख छिद्र	orbicular	<i>Geol</i>	सक्रेट्रशल्की
oral osphradium		मुख जनेशिका	orbicularis oculi	<i>H Sc.</i>	नेत्र मण्डलिका
oral papilla		मुख पिप्पन	orbiculate	<i>Bot.</i>	वर्तुल
oral plate		मुख पट्टिका	Orbiculoidea	<i>Geol.</i>	ऑर्बोकुलोइडिया
oral pouch		मुख कोष्ठ	<i>Orbiculoidea morruxi</i>		ऑर्बोकुलोइडिया मारिसाइ
oral ring		मुख बलय	orbiform curves (= curve of constant width)	<i>Math</i>	समचौड़ाई वक्र
orals	<i>Geol.</i>	परिमुख पट्ट	orbis terrarum	<i>Geog.</i>	ऑर्बिस टेरररम
oral set (labial set)	<i>Zool</i>	मुखीय समुच्चय (ओष्ठीय समुच्चय)	orbit	<i>Phy.,Geog. Zool.</i>	1. वक्रा 2. नेत्रघ, नेत्रकोटर, आंशकोटर
oral siphon		मुख-साइफन	orbital	<i>Phy., Zool.</i>	1. (n) ऑर्बिटल, वक्रक (1d) कक्षीय 2. नेत्र कोटर, नेत्रघ
oral stoma		मुख रंध्र	orbital angular momentum		कक्षीय कोणीय संवेग
oral stylet		मुख-शुबिका	orbital apsis		कक्षीय स्तब्धिका
oral sucker		मुख-त्रुपक	orbital cartilage	<i>Zool.</i>	नेत्रकोटर उपास्थि
oral surface		मुखीय तल			
oral tentacle		मुखीय स्पर्शक			
oral tract	<i>Phy</i>	मुख पथ			
orange	<i>H Sc. Phy.</i>	नारंगी नारंगी रंग			
orange butter	<i>H.Sc</i>	ऑरेन्ज बटर			
orange chrome	<i>Chem.</i>	नारंग-क्रोम			

orbital electron (=shell electron)		कक्षीय इलेक्ट्रॉन	<i>Orbitolites complanata</i>	आर्विटीलाइटीज काम्प्लेनेटा
orbital energy		कक्षीय ऊर्जा	orbito-nasal	Zool. नेत्रकोटरनासास्थि, नेत्रख-नासास्थि
orbital equation		कक्षीय समीकरण	orbitosphenoid	Zool. नेत्रकोटरजतुक
orbital flux		कक्षीय अभिवाह	orbitostegic	Geol. आर्विटीलाइटीज
orbital gland		नेत्रकोटर ग्रंथि	Orbitremites	Geol. आर्विटीलाइटीज
orbital lobe		आर्विटल खंड, कक्षक खंड	<i>Orbitremites derbiensis</i>	आर्विटीमाइटीज डर्बीएन्सिस
orbitally forbidden		कक्षकतः वर्जित	Orbulina	Geol. आर्वुलिना
orbital magnetic moment operator		कक्ष चुम्बकीय आघूर्ण संकारक	<i>Orbulina universa</i>	आर्वुलिना युनीवर्सा
orbital model		कक्षीय माडल	orb weaver	Zool. गोल बुनकर
orbital moment		कक्षक आघूर्ण	orb-weaving spider	गोल बुनकर लूता
orbital motion		कक्षीय गति	orb web	Zool. गोल जाल
orbital notch		नेत्रकोटर खांच, नेत्रख खांच	orchard	Geog.,H.Sc. फलोद्यान
orbital period	Geog.	कक्षीय अवधि	orchard house	H.Sc. फलोद्यान गृह
orbital plane		कक्षीय समतल	Orchasterias	Zool. ऑर्कैस्टेरियस
orbital process		नेत्रकोटर प्रवर्ध, नेत्रख प्रवर्ध	Orchestia	Zool. ऑर्कैस्टिया
orbital quantum number		कक्षीय क्वांटम संख्या	orchestra	Phy. आरकेस्ट्रा, वृन्दवादन; वाद्यवृन्द
orbital revolution	Geog.	कक्षीय परिक्रमण	orchid	Bot.,H.Sc. आर्किड
orbital ring	Zool.	अक्षि वलय	Orchidaceae	आर्किडेसी
orbital rotation	Geog.	कक्षीय घूर्णन	Orchidales	आर्किडेलीज
orbital sinus		नेत्रकोटर शिरानाल	Orchidarium	आर्किड आलय
orbital theory		आर्विटल सिद्धान्त, कक्षक सिद्धान्त	orchid house	आर्किड घर
orbital time	Math.	परिक्रमण काल	orchill (archil)	Chem. आर्चिल
orbital variable		कक्षीय चर	orchiodes	Bot. आर्किड-सम
orbital velocity		कक्षीय वेग	orchis	Bot. आर्किस
orbital wave function		आर्विटल तरंग फलन, कक्षकीय तरंग फलन	orchitis	Zool. वृषणग्रोथ
orbit analysis	Phy.	कक्षा विश्लेषण	orcinol	Chem. ऑर्सिनॉल
orbit element		कक्षा-अवयव	orcinol method	ऑर्सिनॉल विधि
orbit expanding coil		कक्षा-विस्तारक कुंडली	orcinol reaction	ऑर्सिनॉल अभिक्रिया
orbitoid chamber	Geol.	आर्विटास कोष्ठ	order	1. (=sequence) क्रम 2. (=rank) कोटि 3. (Taxonomy) गण, ऑर्डर 4. (=degree) घात 5. (surds) मूलांक 6. (group theory) समूहांक
orbitoid structure		आर्विटास संरचना		
Orbitolites	Geol.	आर्विटीलाइटीज		

order algebra	क्रम बीजावली	order of a group	समूह की कोटि
order axiom	क्रम अभिगृहीत	order of a matrix	आव्यूह की कोटि
order bound	क्रम परिवद्ध	order of an element in a group	समूह में अवयव की कोटि
order bound dual	क्रमपरिवद्ध द्वैत	order of an integral function	सर्वत्र वैश्लेषिक फलन की कोटि
order card	H Sc. ऑर्डर कार्ड	order of a pole	पोल का घात
order code	क्रम सञ्चेत	order of appearance	प्रादुर्भाव क्रम
order complete	क्रमत पूर्ण	order of a reaction	अभिक्रिया की कोटि
order convergent	क्रम अभिसारी	order of a subset of module	प्रतिरूपक के उपसमुच्चय की कोटि
order-disorder transformation	क्रम अक्रम रूपान्तरण	order of a surd	करण का मूलक
order-disorder transition	क्रम अक्रम सन्क्रमण, व्यवस्था-अव्यवस्था सन्क्रमण	order of a system	तन्त्र क्रम
order dual	क्रम द्वैत	order of characteristic	अभिलक्षण कोटि
ordered	क्रमित	order of convergence	अभिसरण कोटि
ordered alloy	व्यनस्थित मिश्र धातु	order of crystallization	क्रिस्टलन-क्रम
ordered arrangement	क्रमिक विन्यास	order of differential equation	अवकल समीकरण की कोटि
ordered domain	क्रमित प्रात	order of enumeration	गणन-क्रम
ordered field	क्रमित क्षेत्र	order of forbiddenness	वर्जिता की कोटि
ordered linear space	क्रमित रैखिक समष्टि	order of frequency	बावोरना क्रम
ordered pair	क्रमित युग्म	order of harmonic	हार्मोनिक क्रम
ordered set	क्रमित समुच्चय, क्रमित सेट	order of infinitesimal	अल्पानु की कोटि, अनन्य सूक्ष्मता की कोटि
ordered sum	क्रमित योगफल	order of interference	व्यनिकरण की कोटि
order function	क्रम फलन	order of magnitude	परिमाण कोटि
ordering	क्रमण, क्रमीकरण	order of operation	सक्रिया क्रम
ordering kinetics	व्यवस्थापन क्रमगतिकी	order of persistence	सतन स्थिति क्रम
ordering of topologies	संस्थितियों का क्रमीकरण	order of perturbation	क्षोभ कोटि
ordering policy	क्रमन नीति	order of smallness	स्यूनता की कोटि
order interval	क्रम अन्तराल	order of small quantities	लघुराशियों की कोटि
order isomorphic	क्रम-सुन्याकारी	order of spectra	स्पेक्ट्रम की कोटि
orderliness	सुव्यवस्था	order of stability	स्थायित्व क्रम
order number	कोटि क्रमांक	order of stratification	संस्तरण-क्रम
order of a Bessel function	बेसल फलन की कोटि	order of superposition	अध्ययन-क्रम
order of accuracy	परिगृह्यता की कोटि	order of tensor	प्रदिश कोटि
order of a determinant	सारणिक की कोटि डिटर्मिनेन्ट की कोटि	order of the parameter	प्राचल की कोटि

order of zero		शून्यक कोटि	ordinary twill	<i>H.Sc.</i>	साधारण ट्वील
order preserving		क्रम-परिरक्षी	ordinary twist		साधारण वेष्टन
order statistic		क्रम-प्रतिदर्शज	ordinary wave		साधारण तरंग
order summable		क्रम-संकलनीय	ordinary working expenses		साधारण कार्यचालन व्यय
order theoretic		क्रम सिद्धांतीय	ordinate	<i>Math.</i>	कोटि
order type		1. क्रम प्रकार 2. (ordinal type) क्रमसूचक प्रकार	ordnance	<i>Geog.</i>	आर्डनेंस
order wire circuit (=order wire)	<i>Phy.</i>	आदेश परिपथ	ordnance datum		आर्डनेंस बाधार
ordinal number	<i>Math.</i>	क्रमसूचक संख्या	ordnance survey		आर्डनेंस सर्वेक्षण
ordinal scale		क्रमसूचक मापनी	ordnance survey datum		आर्डनेंस सर्वे डेटम
ordinal series		क्रमसूचक श्रेणी	Ordovician	<i>Bot., Geol.</i>	ऑर्डोविशियन
ordinal type		क्रमसूचक प्रकार	Ordovician period	<i>Zool.</i>	ऑर्डोविशियन कल्प
ordinary aggregate		साधारण समुच्चय	ore		अयस्क
ordinary Alfven wave		साधारण ऐल्फवैन तरंग	oreanda	<i>H.Sc.</i>	ऑरिण्डा
ordinary canal traffic	<i>Geog.</i>	सामान्य नहरी यातायात	oreao	<i>Bot.</i>	पर्वत
ordinary composition series		साधारण संयोजन श्रेणी	<i>Oreaster lincki</i>	<i>Zool.</i>	ऑरिस्टर लिन्काई
ordinary differential equation		साधारण अवकल समीकरण	ore band	<i>Geol.</i>	अयस्क पट्टी
ordinary discontinuity		साधारण असांतत्व	ore bed		अयस्क संस्तर
ordinary discontinuity on the left		वाम साधारण असांतत्व	ore blocked out		उपरुद्ध अयस्क, अर्ध विकसित अयस्क
ordinary discontinuity on the right		दक्षिण साधारण असांतत्व	ore body		अयस्क पिंड
ordinary expenditure		साधारण खर्च	ore channel	<i>Geol.</i>	अयस्क प्रणाल
ordinary function		साधारण फलन	ore cluster		अयस्क गुच्छ
ordinary inner limiting set		साधारण आंतरिक सीमांत समुच्चय	Orectolobidae	<i>Zool.</i>	ऑरेक्टोलोबिडी
ordinary matrix (=nonsingular matrix)	<i>Math.</i>	व्युत्क्रमणीय आव्यूह	Orectolobus	<i>Zool.</i>	ऑरेक्टोलोबस
ordinary outer limiting set		साधारण बाह्य सीमांत समुच्चय	ore current		अयस्की धारा
ordinary perturbation problem		साधारण क्षोभ समस्या	ore delfe	<i>Geol.</i>	अन्तर्मीम अयस्क
ordinary ray		साधारण किरण	ore deposit		अयस्क निक्षेप
ordinary restricted Fourier's series		साधारण प्रतिबन्धित फूरिये श्रेणी	ore developed		विकसित अयस्क
			ore developing		द्विकसित अयस्क
			ore district		अयस्क प्रदेश
			ore-dressing		अयस्क प्रसाधन
			ore dump		अयस्क डम्प, अयस्क ढेर
			ore expectant		प्रत्याशित अयस्क
			ore faces		अधिकमित अयस्क
			'ore forming element'		अयस्ककारी तत्व

ore-genesis		अयस्क-उत्पत्ति	organic dyes		कार्बनिक रङक
ore geology		अयस्क भूविज्ञान	organic evolution		जैव विकास
ore haulage		अयस्क सवहन	organic hypochlorite		कार्बनिक हाइपोक्लोराइट
oreide	Chem	ओराइड	organic impurity		जैव अपद्रव्य
oreing down		पुन अयस्फन	organic insecticide		कार्बनिक कीटनाशक
ore in sight		दृश्य अयस्क	organic iron		कार्बनिक लोहा
ore magma		अयस्क मैग्मा	organic matter		जैव पदार्थ
Orsburg shawl	H Sc	ऑरिबर्ग शान	organic moderated reactor		कार्बनिक-मॉडिन रिएक्टर
Oreodonta	Zool	ऑरिओडॉन्टा	organic mound		जैव टीला
ore partly blocked		अंशविकसित अयस्क, असोपघट्ट अयस्क	organic nutrient		जैव पोषक
ore pass		अयस्क पथ	organic origin		जैव उद्गम
ore pocket		अयस्क कोटरिका	organic poison		कार्बनिक विष, जैव विष
ore reserve		अयस्क निक्षेप	organic precipitant		कार्बनिक अवक्षेपक
ore shoot		अयस्क पिंड	organic rock		जैव शैल
ore zone		अयस्क जोन	organic sedimentary rock		जैव अवसादी शैल
Orford process	Chem	ऑरफर्ड प्रक्रम	organic soil		जैव मृदा
orgadoculous	Bot	वनस्थलवासी	organic solvent		कार्बनिक विनायक
orgadophilous	Bot.	वनस्थलप्राणी	organic synthesis		कार्बनिक संश्लेषण
organ	Phy. H Sc., Zool.	आंगन, आंगन वाजा अंग, इन्द्रिय	organic yield		कार्बनिक लब्धि
organdy	H Sc	ऑर्गण्डि	organisation	Chem, Zool	संगठन
organelle	Zool., H Sc	कोशिकांग, अंगक	organism	Botol, H.Sc	जीव
organic		1 कार्बनिक 2 जैव	organismal theory	Bot	अंगवाद
organic acid theory		जैव अम्लवाद	organismic concept	Zool	वैविक संकल्पना
organically formed rock		जीवकृत शैल	organizational content	Math.	संगठन विवरण
organic base		कार्बनिक क्षारक, कार्बनिक बेस	organizational inefficiency		संगठन अक्षमता
organic base exchange softeners		कार्बनिक बेस विनिमय मृदुकारी, कार्बनिक क्षारक विनिमय मृदुकारी	organizational objective		संगठन उद्देश्य
organic chemistry		कार्बनिक रसायन	organizational operation		संगठनात्मक सक्रिया
organic colloid		कार्बनिक कोलॉइड	organizational structure		संगठनात्मक संरचना
organic content		कार्बनांश, कार्बनिक अन्तर्वस्तु	organization theory		संगठन सिद्धांत
organic deposit		जैव निक्षेप	organized activity		संगठित गतिविधि
			organizer		संगठक, आंगेनाइजर
			organo-alkali compound		कार्ब-क्षार क्षारीयक



organocolumbium compound	<i>Chem.</i>	कार्बं कोलम्बियम यौगिक	organophilic pigment	<i>Chem.</i>	कार्बंस्नेही वर्णक
organ of Bojanus		बोजैनस-अंग	organosilicon	<i>Chem.</i>	कार्बं-सिलिकन, ऑर्गेनोसिलिका
organ of Corti		कॉर्टी अंग	organosol	<i>Chem.</i>	ऑर्गेनोसाल, कार्बविलय
organ of defence		प्रतिरक्षांग	organotin radical	<i>Chem.</i>	ऑर्गेनोटिन मूलक
organ of equilibrium		संतुलन अंग	organotrophy	<i>Bot.</i>	कार्बनिक पोषिता
organ of ingestion		अंतर्ग्रहण अंग	'organotropic'	<i>Chem.</i>	अंगस्नेही
organ of offence		आक्रमण अंग	organ pipe	<i>Phy.</i>	आर्गन-पाइप
organoform	<i>Geol.</i>	जीवरूपी	organ-pipe coral	<i>Zool., Geol.</i>	बहुनाल प्रवाल, आर्गन पाइप प्रवाल
organ of Owen		ओवेन अंग	organ stop	<i>Phy.</i>	आर्गन नली तंत
organ of Siebold		सीबोल्ड अंग	OR gate	<i>Phy.</i>	OR गेट, अपि गेट
organ of Valenciennes		वाल्लांसिएँ अंग	orgeade	<i>H.Sc.</i>	ऑरगिएड
organ of Van der Hoeven		वान डेर होवेन अंग	orgeat	<i>H.Sc.</i>	ऑरजेट
organogen	<i>Chem.</i>	ऑर्गेनोजन, कार्बजन	oribatid mite	<i>Zool.</i>	ऑरिबैटिड चिचड़ी
organogenesis	<i>Zool., H.Sc.</i>	अंगविकास	orichalc	<i>Geol.</i>	ऑरीकैल्क
organogenic conglomerate	<i>Geol.</i>	जीवकृत संगुटिकाारम	orichalceous	<i>Geol.</i>	ऑरीकैल्की
organogenous	<i>Geol.</i>	जीवजात	orichalcum	<i>Chem.</i>	ऑरिक्कैल्कम
organogeny	<i>Zool.</i>	अंगभवन	orientability	<i>Math.</i>	अभिविन्यसनीयता
organographic	<i>Bot.</i>	अंगवर्णनात्मक	orientable		अभिविन्यसनीय
organography		अंगवर्णन	orientable manifold		अभिविन्यसनीय प्रसमष्टि
organoid	<i>Zool., Bot.</i>	अंगाम कोशिकांगक	orientable variety		अभिविन्यसनीय उपसमष्टि
organoidium compound	<i>Chem.</i>	कार्बं-इन्डियम यौगिक	oriental	<i>H.Sc., Geog.</i>	1. प्राच्य <i>Geol.</i> 2. ओरिएन्टल
organoleptic panel	<i>Chem.</i>	इन्द्रियग्राही प्रपट्ट, इन्द्रियग्राही पैनल	oriental agate	<i>Geol.</i>	भास्वर गोमेद, ओरिएन्टल ऐगेट
organoleptic test		इन्द्रियग्राही निकष	oriental agricultural population	<i>Geog.</i>	प्राच्य कृषि जन
organolite	<i>Chem.</i>	ऑर्गेनोलाइट	oriental alabaster	<i>Geol.</i>	पट्टित स्टैलैग्माइट, ओरिएन्टल अलाबास्टर
organolithium compound	<i>Chem.</i>	कार्बं-लियियम यौगिक	oriental amethyst	<i>Geol.</i>	वैंगनी कोरंडम, ओरिएन्टल एमिथिस्ट
organology	<i>Bot.</i>	अंग विज्ञान	oriental carpet	<i>H.Sc.</i>	पूर्वी कालीन
organomercurial	<i>Bot.</i>	कार्बं-पारदीय, कार्बं- मरक्यूरियल	oriental country	<i>Geog.</i>	प्राच्य देश
organometallic	<i>Chem.</i>	कार्बं-धात्विक	orientale	<i>Bot.</i>	पूर्वी
organo-metallic compound		कार्बं-धात्विक यौगिक	oriental emerald	<i>Geol.</i>	हरित कोरंडम, ओरिएन्टल एमेरेल्ड

oriental garnet	Geol.	भास्कर तामड़ा, ओरिएण्टल गार्नेट
oriental lace	H.Sc	ओरिएण्टल लेस
oriental land	Geog.	पूर्वी देश, प्राच्य देश
oriental realm	Zool.	ओरिएण्टल परिमडल
oriental region	Geog	प्राच्य प्रदेश
oriental rug	H.Sc	प्राच्य रग
oriental satin	H.Sc.	ओरिएण्टल साटन
oriental sore		प्राच्य व्रण, प्राच्य दाह
oriental topaz	Geol.	ओरिएण्टल पुष्पराग, ओरिएण्टल पुष्पराज
orientation	Bot. Zool,Phy H.Sc,Geol	दिक्विन्यास अभिविन्यास अनुस्थापन पूर्वाभिमुखीकरण
orientational polarizability	Phy.	अभिविन्यासी ध्रुवणता
orientational polarization		अभिविन्यासी ध्रुवण
orientation behaviour		अभिविन्यास व्यवहार
orientation blocking		अभिविन्यास पिण्डबन्ध
orientation double refraction		अभिविन्यास द्वि-अपवर्तन
orientation effect		अभिविन्यास निष्पत्ति
orientation number		अभिविन्यास अंक
orientation of coordinates		निर्देशाङ्को का अभिविन्यास
orientation of surface		पृष्ठ का अभिविन्यास
orientation organs		दिक्विन्यास अंग
orientation polarization		दिक्विन्यासी ध्रुवण
orientation-preserving		अभिविन्यास परिरक्षी
orient blue	H.Sc.	अवनील]
oriented	Phy.	अभिविन्यस्त
oriented adsorption		अभिविन्यस्त अधिशोषण
oriented coagulation theory		अभिविन्यस्त स्कन्द सिद्धान्त
oriented cores		अभिविन्यस्त कोर
oriented detector		अभिविन्यस्त समूचक
oriented envelope		अभिविन्यस्त अन्वलीप
"oriented-growth"	Phy.	दिष्ट प्ररोहण

oriented lakes	Geol	अभिविन्यस्त सरोवर
oriented manifold		अभिविन्यस्त प्रसमष्टि
oriented squaring detector		अभिविन्यस्त वर्गोत्त संसू- चक
oriented vector space		अभिविन्यस्त सदिश समष्टि
oriented wedge theory		अभिविन्यस्त फल सिद्धान्त
orienting	Geol	अभिविन्यसन
orifice	Boal, Geol, Phy.	मुख, दर, द्वार
orifice ring		मुख वलय
Origanum	Bot.	ओरिगेनम
origin		1 उद्गम, उद्भव, उत्पत्ति 2 मूल बिन्दु
original		प्रारम्भिक, मूल, मौलिक
original cost	H.Sc.	प्रारम्भिक लागत
original dip		मूल नति
original drawing		प्रारम्भिक आरेखण, मूल आरेखण
original entry		मूल प्रविष्टि
original estimate	H.Sc.	मूल अनुमान
original interstice	Geol	आद्य अंतराकाश
original island nucleus		मूलद्वीप केन्द्रक
original method		मूल विधि
original owner		मूल स्वामी
original record		मौलिक अभिलेख, प्रारम्भिक अभिलेख
original signal frequency		मूल सिग्नल आवृत्ति
original strain seismograph		प्रारम्भिक विकृति भूकंपलेखी
original survey		ओरिजिनल सर्वेक्षण, प्रथम सर्वेक्षण, मूल सर्वेक्षण
origin of continent	Geog.	महाद्वीप उत्पत्ति
origin of coordinates		निर्देश-मूल-बिन्दु
origin of inversion	Math	प्रतिव्योमन केन्द्र
origin of species	Zool.	जातियों का उद्भव
origin of turbulence		प्रथोम-उद्भव
origin time	Geog.	उद्भव काल

orinase	H.Sc.	ओरीनेस	Ornithorhynchidae	Bot., Zool.	बॉनिथोरिन्किडी
oriocrystal	Geol.	मितक्रिस्टल	Ornithorhynchus	Zool.	बॉनिथोरिन्कस
*Orion	Astron.	मृग, ओरायन	Ornithorhynchus		बॉनिथोरिन्कस
Orkla process	Chem.	ऑक्ला प्रक्रम	anatinus		ऐनेटाइनस
orkney	H.Sc.	ऑकनी	Ornithosuchidae	Zool.	बॉनिथोसुकिडी
orlean dye	Chem.	ऑर्लीन रंजक	Ornithosuchus	Zool.	बॉनिथोसुकस
orleantine	H.Sc.	ऑर्लियन्टाइना	Ornstein Uhlenbeck	Math.	ऑर्नस्टाइन ऊलेनबेक- प्रक्रम
orlon	H.Sc.	ऑरलॉन	Orobanchaceae	Bot.	वारोबैकेसी
ormuk	H.S.c	ऑर्मक	Orobanchaea egyptiaca	Bot.	वारोबैन्की
ormulu	Chem.	ऑर्मलू			ऐजिप्टिआका
ornamental bird	Zool.	अलंकारी पक्षी	oro-branchial area	Zool.	मुख-श्लोम क्षेत्र
ornamental flower	Bot.	सजावटी पुष्प	orocratic period	Geog.	ऑरोक्रेटीय काल, भू-क्रांति काल
ornamental house	Geog.	अलंकृत गृह	orogen	Geol.	पर्वतजन
ornamental pond	Zool.	अलंकृत ताल	orogenesis	Geog., Geol.	पर्वतन
ornamentation	H.Sc.	1. अलंकार	orogenetic		पर्वतनी, पर्वतजननिक
	Biol.	2. अलंकरण, सजावट	orogenetic cycle		पर्वतजननिक चक्र
ornate	Geog.	अलंकृत	orogenetic period		पर्वतजननिक काल
ornate type		अलंकृत प्ररूप	orogenetic phase		पर्वतजननिक प्रावस्था
Ornithella	Geol.	ऑर्नीथेला	orogenic	Geol.	पर्वतनी
Ornithella		ऑर्नीथेला	orogenic activity		पर्वतन-क्रिया
ornithocephala		ऑर्नीथोसेफेला	orogenic belt		पर्वतन-पट्टी
ornithine	Chem.	बॉनिथीन	orogenic facies		पर्वतन-संलग्नी
Ornithischia	Zool.	ऑर्नीथिस्क्रिया	orogenic force		पर्वतन बल
ornithocoprophilous	Bot.	पक्षिमलरागी	orogenic process		पर्वतन प्रक्रम
Ornithodesmus	Zool.	बॉनिथोडेस्मस	ogogenic revolution		पर्वतन, पर्वतन क्रांति
Ornithodoros megnini	Zool.	ऑर्निथोडोरस मेग्नीनी	orogenic vulcanism		पर्वतनी ज्वालामुखी क्रिया
Ornithodoros moubata		ऑर्निथोडोरस मोवाटा	orogenic zone		पर्वतन मंडल
ornithofauna	Zool.	पक्षिजात	orogeny		पर्वतन
ornithogamous	Bot.	पक्षिपरागित	orogeosyncline		पर्वतनी भूबन्धन
ornithologist	Geog., Zool.	पक्षिविज्ञानी	oroghosy	Geog.	पर्वत-विज्ञान, पार्वतिकी
ornithophilous	Zool.	पक्षिरागी	orographic	Geog.	पर्वतीय
	Bot.	पक्षिपरागित	orographical feature		पर्वतीय लक्षण, पर्वतीय वाह्य
ornithophily	Bot.	पक्षिपरागण	orographical snowline		पर्वतीय हिमरेखा
Ornithopoda	Zool.	बॉनिथोपोडा	orographic correction		पर्वतीय संशोधन, पर्वतसंहति संशोधन
ornithopodous form	Zool.	पक्षिपाद रूप			
Ornithoptera	Zool.	बॉनिथोप्टेरा			

orographic map		पर्वतीय मानचित्र	orthobaric density	Chem.	ऑर्थोबारिक घनत्व, समनिपीवीय घनत्व
orographic precipitation	Geog	पर्वतकृत वर्षा	ortho-carbonate	Chem	ऑर्थोकार्बोनेट
orographic reduction		पर्वतीय लघुकरण, पर्वतसहस्रि लघुकरण	ortho-carbonic acid	Chem	ऑर्थोकार्बोनिक अम्ल
orography	Geog	पर्वत विज्ञान, पार्वतिकी	orthocarpus	Bot	ऋतुफलौ
Orohippus	Zool	ओरोहिप्पस	orthocentre	Math	सब केन्द्र
oroide	Geol	ओरोऑइड	orthocentric		सब केन्द्रीय
Orolcestes	Zool	ओरोलेस्टीड	orthocentric triangle		सबकेन्द्रीय त्रिभुज
orology	Geog., Geol	पर्वतविज्ञान, पार्वतिकी	orthoceracone	Geol	ऑर्थोसिरैकॉन
oronasal groove	Zool	मुख-नासा खाव	Orthoceras	Geol.	आर्थोसिरैस
oronite	Geol	ओरोनाइट	<i>Orthoceras annulatum</i>		ऑर्थोसिरैस ऐनुलैटम
oropa	H Sc.	ओरोपा	<i>Orthoceras</i>		ऑर्थोसिरैस
Oroperipatus	Zool	ओरोपेरीपेटस	<i>intermedium</i>		इंटरमीडियम
oro-pharynx	Zool	मुख-ग्रसनी	<i>Orthoceras undulatum</i>		ऑर्थोसिरैस अंडुलैटम
orophilous	Bot	पर्वतरागी	orthochromatic	Phy.	आर्थोक्रोमेटिक (फिल्म)
oroseite	Geol	ओरोसाइट	(photographic film)		
orotic acid	Chem	ऑरोटिक अम्ल	orthochromatic reproduction	Phy.	आर्थोक्रोमेटिक पुनरुत्पादन, यथार्थ वर्ण पुनरुत्पादन
orotidylic acid	Chem.	ऑरोटिडाइलिक अम्ल	orthoclase	Geol	ऑर्थोक्लेस, ऑर्थोक्लेस
oroza fever	Zool	ओरोया ज्वर	orthoclase syenite		ऑर्थोक्लेस सायनाइट
orpiment	Geol	हरताल	orthoclastic	Geol	अनुसूच विदगी
orrery		ओरेरी	orthoconglomerate	Geol.	ऑर्थोसंगुटिकाश्म
orsa	H Sc.	ओर्सा	orthodichotriaene	Geol	ऑर्थोडाइचोट्रायेन
Orsat's apparatus	Chem	ऑर्सेट वा उपकरण	orthodome	Geol	सब अक्ष डोम
orsellinic acid	Chem.	ऑर्सेलिनिक अम्ल	orthodont incisor	Zool	ऑर्थोडॉन्ट कृतक
orterde	Geog	ऑर्टेर्डे	orthodox resin exchanger	Chem.	मान्य रेजिन विनिमायक
orthanilic acid	Chem	ऑर्थेनिलिक अम्ल	orthodox strangeness	Phy.	हड़ विमिश्रणता
orthenchyma	Bot.	उदभ्रोतक	orthodrome	Geog.	ऑर्थोड्रोम, जन्ममार्ग
orthid	Geol	ऑर्थिड, ऑर्थोमी	ortho-effect	Chem.	ऑर्थो प्रभाव
orthidium	Bot.	आर्थिडियम	orthofilm	Geog.	आर्थोफिल्म
orthite	Geol.	ऑर्थीट	orthoform	Phy.	आर्थोफॉर्म
ortho-antimonic acid	Chem.	ऑर्थोऐन्टीमोनिक अम्ल	orthogamy	Zool.	सहस्रसम्बन्ध
ortho-antimonous acid	Chem	ऑर्थोऐन्टीमोनम अम्ल	orthogenesis	Bot , Zool.	1. ऋतुजनन 2. नियंत्रणविज्ञान
orthoapsidal projection	Geog.	सम्बद्धरान्तिक प्रक्षेप, सम्बद्धकोणीय प्रक्षेप	orthogenesis theory		नियंत्रणविज्ञान सिद्धांत
orthoarenite	Geol	ऑर्थोरिणुनायम, ऑर्थोऐरेनाइट	orthogenetic		नियंत्रणविज्ञानीय
ortho-arsenic acid	Chem.	ऑर्थोआर्सेनिक अम्ल			
orthoaxis	Geol.	संब अक्ष			

orthogenetic variation		नियतविकासीय विविधता	orthogonal regression		लांबिक समाश्रयण
orthogeosyncline	<i>Geol.</i>	मूल भूखनिनति	orthogonal sequence		लांबिक अनुक्रम
orthognathism	<i>Zool.</i>	सरल हनुता, अवक्र हनुता	orthogonal spatial coordinate		लांबिक आकाशीय निर्देशांक
orthognathus	<i>Geog.</i>	ऑर्थोग्नेथस, सीघा जवडायुवत	orthogonal subspace		लांबिक उपसमष्टि
orthogneiss	<i>Geol.</i>	वाग्नेय नाइस	orthogonal sum		लांबिक योग
orthogonal	<i>Math.</i>	लंब कोणीय, लांबिक	orthogonal supercell		लंबकोणीय महा-कोष्ठिका
orthogonal axes		लंबकोणिक अक्ष	orthogonal surface		लंबकोणीय पृष्ठ
orthogonal circle		लंबकोणीय वृत्त	orthogonal system		लांबिक निकाय
orthogonal complement		लांबिक पूरक	orthogonal trajectory		लंबकोणीय संछेदी
orthogonal coordinates		लंबकोणीय निर्देशांक	orthogonal transformation		लांबिक रूपांतरण
orthogonal curvilinear coordinates		लंबकोणीय वक्ररेखी निर्देशांक	orthogonal variate transformation		लांबिक विचर रूपांतरण
orthogonal data		स्वतंत्र आंकडे	orthogonal vector		लांबिक सदिश
orthogonal dimension		लांबिक विमा	orthograde	<i>Zool.</i>	उदग्रचर
orthogonal ennuple		लंबकोणीय समवाय	orthograde distribution	<i>Zool.</i>	ऋजुक्रम वितरण, उदग्र वितरण
orthogonal equivalence		लांबिक तुल्यता	orthographical relief	<i>Geog.</i>	लंबकोणिक उच्चावच
orthogonal family		लांबिक परिवार	orthographic polar zenithal projection		लंबकोणीय ध्रुवीय शिरोविन्दु प्रक्षेप
orthogonal function		लांबिक फलन	orthographic projection		लंबकोणीय प्रक्षेप
orthogonal group		लांबिक समूह, लांबिक ग्रुप	orthoguarinite	<i>Geol.</i>	ऑर्थोग्वारिनाइट
orthogonal idempotent		लांबिक वर्गसम	orthogyrate	<i>Geol.</i>	ऋजुवक्रित
orthogonal involution		लंबकोणीय अन्तर्वलन	orthohedral theory	<i>Chem.</i>	षष्टफलकीय सिद्धान्त
orthogonality		लंबकोणीयता, लांबिकता	orthohelium level	<i>Phy.</i>	ऑर्थोहीलियम तल
orthogonality condition		लंबकोणीयता अवस्था	orthohelium term	<i>Chem.</i>	ऑर्थोहीलियम पद
orthogonalization		लांबिकीकरण	orthohydrogen	<i>Chem.,Phy.</i>	ऑर्थोहाइड्रोजन
orthogonalization process		लांबिकीकरण प्रक्रम	orthoiconoscope	<i>Phy.</i>	ऑर्थोआइकोनोस्कोप, ऑर्थिकोन
orthogonalizing		लांबिकीकरण	orthokinesis	<i>Zool.</i>	ऋजुगतिक्रम
orthogonal Latin square		लांबिक लैटिन वर्ग	orthokinetic flocculation	<i>Chem.</i>	ऑर्थोकाइनेटिक रुग्ण, यादृच्छगतिल रुग्ण
orthogonal linear transformation		लांबिक रैखिक रूपांतरण	orthomagmatic	<i>Geol.</i>	आदिमैग्मी, ऑर्थोमैग्मी
orthogonally congruent		लांबिकतः समतुल्य	orthomarble	<i>Geol.</i>	ऑर्थोमार्बल
orthogonal manifold		लांबिक प्रसमष्टि	orthometamorphite	<i>Geol.</i>	ऑर्थोमेटामॉर्फाइट
orthogonal matrix		लांबिक आव्यूह	orthometric density	<i>Chem.</i>	ऑर्थोमितीय घनत्व, ऑर्थोमिट्रिक घनत्व
orthogonal projection		लंबकोणीय प्रक्षेप			
orthogonal reduction		लांबिक समानयन			

orthometric height	<i>Geol.</i>	लाविक उच्चता	orthoquartzite	<i>Geol.</i>	ऑर्थोक्वार्ट्जाइट
orthomitic feldspar	<i>Geol.</i>	ऑर्थोमिक फेल्सपार	orthoquartzitic conglomerate		ऑर्थोक्वार्ट्जाइटी सगुटिकागम
orthomodification	<i>Phy.</i>	ऑर्थो रूप, पैरा रूप	orthoquartzitic sandstone		ऑर्थोक्वार्ट्जाइटी बालुकागम
orthomolecule	<i>Phy.</i>	ऑर्थो अणु	orthoquinone	<i>Chem</i>	ऑर्थोक्विनोन
orthomorphic	<i>Geog.</i>	यथाकृतिक	orthorhombic	<i>Geol. Phy.</i>	विषमलम्बाक्ष
orthomorphic projection		यथाकृतिक प्रक्षेप	orthorhombic rule	<i>Phy.</i>	समन्वतुर्भूमी नियम
Orthonectidae	<i>Zool.</i>	ऑर्थोनेक्टिडी	orthorhombic sulphur		विषमलम्बाक्ष गंधक
ortho-nitrogen	<i>Phy</i>	ऑर्थोनाइट्रोजन	orthorhombic symmetry	<i>Geol. Phy</i>	विषमलम्बाक्ष सममिति
orthonormal	<i>Math.</i>	ऑर्थोनॉर्मल, प्रसामान्य लाविक	orthorhombic system		विषमलम्बाक्ष समुदाय
orthonormal basis		प्रसामान्य लाविक आधार	ortho-rock	<i>Geol.</i>	मैग्नामूलक शैल, आग्नेयमूलक शैल
orthonormal coordinate system		प्रसामान्य लाविक निर्देश तन्त्र	orthorhaphous	<i>Zool.</i>	ऋजुविहारी
orthonormal frame		प्रसामान्य लाविक तन्त्र	orthoschist	<i>Geol.</i>	आग्नेयशिष्ट, ऑर्थोशिस्ट
orthonormal function (= normal orthog- onal function)		प्रसामान्य लाविक फलन	orthoscopic lens	<i>Phy.</i>	यथार्थदर्शी लेन्स
orthonormal set		प्रसामान्य लाविक समुच्चय	orthoscopic system		यथार्थदर्शी तन्त्र
orthonormal system		प्रसामान्य लाविक समुच्चय	orthose	<i>Geol.</i>	ऑर्थोड
orthophenanthroline	<i>Chem</i>	ऑर्थोफेनॉथ्रॉलिन	orthoselection	<i>Zool.</i>	अनुकूलचरण
orthophone	<i>Phy.</i>	ऑर्थोफोन्	orthosilicate	<i>Chem.</i>	ऑर्थोसिलिकेट
orthophosphate	<i>Bot.</i>	ऑर्थोफॉस्फेट	orthosilicic acid	<i>Chem.</i>	ऑर्थोसिलिसिक अम्ल
ortho-phosphoric acid	<i>Chem.</i>	ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल	orthosite	<i>Geol.</i>	ऑर्थोसाइट
orthophotography	<i>Geog.</i>	ऑर्थोफोटोग्राफी	orthostannic acid	<i>Chem</i>	ऑर्थोस्टैन्निक अम्ल
orthophoto-map	<i>Geog.</i>	ऑर्थोफोटो मानचित्र	orthostichous	<i>Bot</i>	ऋजुपत्रिक
orthophotoscope	<i>Geog.</i>	ऑर्थोफोटोस्कोप	orthostichy	<i>Bot.</i>	उदप्रपत्रित, ऋजुपत्रि
orthophyre	<i>Geol.</i>	ऑर्थोफायर	orthostomous	<i>Bot</i>	ऋजुरध्नी
orthophyric	<i>Geol</i>	ऑर्थोफायरीय	orthostrophic	<i>Geol</i>	समकुडनी
orthopinacoid	<i>Geol.</i>	लम्ब अस पिनाकोइड	orthostylic	<i>Geol.</i>	ऋजुवर्तिकीय
orthoplumbic acid	<i>Chem</i>	ऑर्थोप्लम्बिक अम्ल	orthotectic	<i>Geol.</i>	थादिनेम्मी, ऑर्थोमैग्मी
orthopositronium		ऑर्थो पॉजिट्रोनियम	orthotectic deposit		आर्थोमैग्मी निक्षेप
orthoprism	<i>Geol., Phy.</i>	लम्ब अस प्रिस्म	orthotomic system	<i>Phy</i>	समकोणघनी तन्त्र
Orthoptera	<i>Zool.</i>	ऑर्थोप्टेरा	orthotomous	<i>Geol.</i>	अनुलम्ब विदनी
orthopteran	<i>Zool.</i>	ऋजुपक्षी	orthotrachyte	<i>Geol</i>	ऑर्थोट्राइट
orthopteroid (insect)	<i>Zool.</i>	ऑर्थोप्टेराभ (कीट), ऋजुपक्षी (कीट)	orthotriaene	<i>Zool. Geol.</i>	ऑर्थोट्राईन, ऋजुत्रि- कटिका
orthopyramid	<i>Geol</i>	लम्ब अक्ष प्रिस्मिड	orthotropic	<i>Bot</i>	ऋजु
			orthotropic medium	<i>Math.</i>	सर्वदित्र माध्यम
			orthotropic seed	<i>Bot.</i>	ऋजु बीज

orthotropous		ऋजु	oscillating current	दोलायमान धारा, दोलनी धारा
ortigao	<i>H.Sc.</i>	ऑर्टीगाओ	oscillating desiccation	दोलायमान शुष्कन
ortlerite	<i>Geog., Geol.</i>	ऑर्ट्लेराइट	oscillating disc method	दोलायमान चक्रिका पद्धति, दोलायमान डिस्क पद्धति
orton cone	<i>Chem. (Met.)</i>	ऑर्टन शंकु	oscillating ion	दोलायमान आयन
orton rearrangement		ऑर्टन पुनर्विन्यास	oscillating model	दोलायमान निदर्श
ortstein	<i>Geol.</i>	ऑर्टस्टाइन	oscillating stream	दोलायमान धारा
orval	<i>H.Sc.</i>	ऑर्वल	oscillating universe	दोलायमान विश्व
orvieto	<i>H.Sc.</i>	ऑर्व्येटो	oscillation	<i>Phy., Geol., Geog.</i> दोलन
orvillite	<i>Geol.</i>	ओर्विलाइट	oscillation magneto- meter	दोलनी चुंबकत्वमापी
Orvus	<i>Chem.</i>	ऑर्वस	oscillation of a function	फलन का दोलन
Orycteropodidae	<i>Zool.</i>	ऑरिक्टेटोरोपोडिडी	oscillation of a mapping	प्रतिचित्रण-दोलन
Orycteropus	<i>Zool.</i>	ऑरिक्टेटोरोपस	oscillation of basin	बेसिन-दोलन
<i>Oryctes rhinoceros</i>	<i>Zool.</i>	ऑरिक्टोस राइनोसेरोस	oscillation of pendulum	सोलक-दोलन
oryctocoenose	<i>Geol.</i>	ऑरिक्टोसीनोज	oscillation ripple	दोलन-उर्मिका
oryctogeology	<i>Geol.</i>	खातभूविज्ञान	oscillation skip	दोलन उल्लंघन
oryctognostic	<i>Geol.</i>	खनिजिकीय	oscillation theory	दोलन सिद्धान्त, दोलन वाद
oryctognosy	<i>Geol.</i>	खनिजिकी	oscillation volume	दोलन आयतन
oryctology	<i>Geol.</i>	ऑरिक्टोलोजी	oscillator	<i>Phy.</i> दोलित्र
oryx	<i>Geog.</i>	ऑरिक्स	oscillator drift	<i>Phy.</i> आवृत्ति बहन
<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	<i>Zool.</i>	ऑरिज़ीफिलस सूरिनामैन्सिस	<i>Oscillatoria princeps</i>	<i>Bot.</i> ऑसिलैटोरिया प्रिसेप्स
<i>Oryza sativa</i>	<i>Bot.</i>	ओराइजा सैटाइवा	oscillator strength	दोलित्र-सामर्थ्य
Oryzenin	<i>Bot.</i>	ओरीजेनिन	oscillatory	दोलनी, दोलन, दोलक
Oryzime	<i>Bot.</i>	ओरोजाइम	oscillatory behaviour	दोलनी व्यवहार
Osage orange	<i>Chem.</i>	ओसेज नारंग	oscillatory combi- nation	दोलनी संयोग
osar	<i>Geog.</i>	ऑसर	oscillatory discharge	दोलनी विसर्जन
osazone	<i>Chem.</i>	ओसाजोन	oscillatory disconti- nuity	दोलायमान अन्ततत्त्व
Oscarella	<i>Zool.</i>	ऑस्कैरेला		
Oscaria	<i>Zool.</i>	ऑस्कैरिया		
os centrale	<i>Zool.</i>	केन्द्र मणिवंधिकास्थि		
oscillate	<i>Math., Phy.</i>	दोलन करना		
oscillating body	<i>Phy.</i>	दोलायमान पिंड		
oscillating charge		दोलनी आवेश		
oscillating circuit		दोलनी परिपथ		
oscillating crystal method		दोलायमान क्रिस्टल पद्धति		

oscillatory function		दोलनी फलन	osculum	<i>Geol., Zool.</i>	ऑस्कुलम, प्रास्य
oscillatory motion		दोलन-गति	ose	<i>Geog.</i>	ओड
oscillatory movement		दोलनी गति	os-entoglossum	<i>Zool.</i>	ऑस-एन्टोग्लोसम, अन्तर्जिह्विकास्थि
oscillatory nature of wave motion		तरंग गतिकी दोलनी प्रकृति	oshana	<i>Geog.</i>	ओशाना (मौसमी नदी)
oscillatory twinning		दोलनी घमलन	os humeroscapulare		आस ह्यूमेरोस्केप्युलेर, प्रगड-असफलक अस्थि
oscillatory wave	<i>Geog.</i>	दोलनी तरंग	os incisivum (premaxilla)		ऑस इन्सोसिवम, वृन्तक अस्थि (जमिकापूर्व)
oscillaxanthin	<i>Bot.</i>	ऑसिलैजेन्थिन	os marsupium	<i>Zool.</i>	शिशुघ्रानो <sup>१</sup> अस्थि, ऑस मार्सूपियम
oscillogram	<i>Geol., Phy</i>	दोलन-लेख, ऑसिलोग्राम	Osmate	<i>Chem.</i>	ओस्मेट
oscillograph	<i>Geol.</i>	दोलनलेखी, ऑसिलोग्राफ	Osmazone	<i>H. Sc.</i>	ओसमैजोन
oscillograph record		दोलनलेखी अभिलेख	Osmeterium	<i>Chem.</i>	ओस्मेटोरियम
oscillography	<i>Phy.</i>	दोलन चित्रण, ऑसिलोग्राफी	Osmianate	<i>Chem.</i>	ओस्मिएनेट
oscillometer		दोलनमापी	Osmianic acid	<i>Chem.</i>	ओस्मिएनिक अम्ल
oscillometric analysis		दोलनमिति विश्लेषण	Osmic acid	<i>Chem., Zool</i>	ओस्मिक अम्ल
oscilloscope	<i>Phy.</i>	दोलनदर्शी, ऑमिनोस्कोप	Osmiophil	<i>Zool.</i>	ओस्मियमरागी
oscine	<i>Chem</i>	ऑसीन	Osmiophilic		ओस्मियमरागी
os cloacae	<i>Zool.</i>	अवस्करास्थि	Osmiophilic granule		ओस्मियमरागी कणिका
os coccygis (urostyle)	<i>Zool.</i>	अनुत्रिवास्थि (पुच्छदंड)	Osmiridium		ओस्मिरीडियम
os cordis	<i>Zool.</i>	ऑस कॉर्डम, हृदस्थि	Osmite	<i>Chem.</i>	ओस्माइट
oscular	<i>Zool</i>	ऑस्कुलमी, प्रास्य	Osmium	<i>Chem.</i>	ओस्मियम
oscular fringe		ऑस्कुलमी झल्लरी, प्रास्य झल्लरी	Osmium tetroxide	<i>Bot.</i>	ओस्मियम टेट्राक्साइड
oscular sphincter		ऑस्कुलन-रोधनी, प्रास्य-रोधनी	Osmocene	<i>Chem.</i>	ओस्मोसीन
osculating	<i>Math</i>	आश्लेपी	Osmolar solution	<i>Zool</i>	ओसमोलर विलयन, समसांद्रता विलयन
osculating circle		आश्लेपी वृत्त	Osmometer	<i>Phy.</i>	परासरणमापी
osculating develop-able		आश्लेपी विकसनीय	Osmondite	<i>Chem. (Met)</i>	ओडमन्डाइट
osculating interpolation		आश्लेपी अन्तर्वेशन	Osmophilic	<i>Bot.</i>	उच्चसांद्रतारागी
osculating orbit		आश्लेपी कक्षा	Osmoreceptor	<i>Zool.</i>	परासरणप्राही
osculating parabola		आश्लेपी परवलय	Osmoregulation	<i>H. Sc., Biol.</i>	परासरणनियमन
osculating plane		आश्लेपी समतल	Osmoregulatory mechanism		परासरणनियमन क्रियाविधि
osculating quadric		आश्लेपी द्विघात	Osmoregulatory process	<i>Zool.</i>	परासरणनियमन क्रिया
osculation sphere		आश्लेपी गोला	Osmoscope	<i>Chem., Phy.</i>	परासरणदर्शी
osculatory interpolation	<i>Math.</i>	स्पर्शी अन्तर्वेशन	Osmosis		परासरण
oscul-Inflexion		उन्वति-परिवर्तन			



osmotaxis	Zool.	परासरणानुचलन	osseous labyrinth	अस्थि गहन, अस्थि लैविरिन्थ
osmotic		परासरणी	osseous system	अस्थि-तन्त्र
osmotic balance		परासरणी तुला	osseous theory	अस्थि वाद
osmotic character		परासरणी लक्षण	osseous tissue	अस्थिल-ऊतक
osmotic coefficient		परासरणी गुणांक	ossicle	Zool., H.Sc. अस्थिका
osmotic concentration		परासरणी सांद्रता	ossiferous	Geol., Geog. अस्थिघर
osmotic equilibrium		परासरणी साम्य	ossiferous cavern	अस्थिघर कन्दरा
osmotic equivalent		परासरणी तुल्यांक	ossification	Zool. अस्थीभवन
osmotic force		परासरणी बल	ossipyte	Geol. ऑसीपाइट
osmotic gradient		परासरणी प्रवणता	os squamosum	Zool. ऑस स्वैमोसम, शलकास्थि
osmotic inflow		परासरणी अन्तर्वाह	Osteichthyes	Zool. ऑस्टिकथीस
osmotic pressure		परासरण दाब	ostentation	Geog. आडम्बर
osmotic regulation		परासरणी नियमन	osteoblast	H.Sc., Chem., Zool. अस्थिकोरक, ऑस्टि- योब्लास्ट,
osmotic shock		परासरणी प्रघात	osteoclast	Zool. अस्थिशोपक
osmotic value		परासरण मान	osteocranium	Zool. अस्थिकपाल
osmundaceous	Bot.	ओसमंडेसीय	osteocyte	Zool. अस्थ्यणु
osmundaceous stem		ओसमंडेसीय स्तम्भ	osteodentine	Zool. अस्थिदन्तीन
osmyloxy salt	Chem.	ऑस्मिलॉक्सी लवण	osteoderm	Zool. अस्थिदन्तीन
osnaburg	H.Sc.	ऑनबर्ग	osteogen	Zool. अस्थिजन
osone	Chem.	ओसोन	osteogenesis	H.Sc. अस्थिजनन
osotriazole	Chem.	ओसोट्राइऐजोल	Osteolepidae	Zool. ऑस्टिओलेपीडी
os penis	Zool.	शिश्नास्थि	Osteolepidoti	Zool. ऑस्टिओलेपिडोटी
osphradial ganglion	Zool.	जलेझिका-गुच्छिका	Osteolepis macro- lepidotus	Zool. ऑस्टिओलेपिस मैक्रोलेपिडोटस
osphradium	Zool.	जलेझिका	osteolite	Geol. ऑस्टियोलाइट
os planum (ethmoid)	Zool.	ऑस प्लेनम (संज्ञारिका)	osteolith	Geol. अस्थि-अश्न
ospolot	Chem.	ऑस्पोलॉट	osteology	Zool. अस्थिविज्ञान
osprey	Zool.	मत्स्यकुररी, कुरर, आस्प्रे	osteolysis	Zool. अस्थिलयन
os priapi (os penis)		ऑस प्राएपी (शिश्नास्थि)	osteolytic virus	अस्थिलयनी विषाणु
ossa innominata	Zool.	ओसा इन्नोमिनेटा, अनामास्थि	osteomalacia	H.Sc. अस्थिमृदुता
ossein	Chem., Zool.	ओसीन, ऑसाइन	osteomere	Zool. अस्थिखंड
ossein filamant	H.Sc.	ऑसीन तन्तु	osteopath	H.Sc. ऑस्टिओपैथ
osseo-albuminoid	Chem.	ऑसिओऐल्ब्यूमिनाइड	osteoporosis	Chem., H.Sc. अस्थिनुपिरता
osseo-mucoid	Chem.	ऑसिओ-म्यूकोइड	osteosarcoma	Zool. अस्थिसार्कोमा
osseous	Zool., Geol.	अस्थिमय, अस्थिल		
osseous breccia		अस्थि-संकीर्णशय		

osteoscute	Zool.	अस्थिप्रशल्क	Oswald's efficiency factor	Math.	ओस्वाल्ड दक्षता गुणक
osteostapes	Zool	ऑस्टिओस्टेपीज, अन्धस्तम्भिका	Oswald's law of stages		ओस्टवाल्ड पदीय नियम
Osteostraci	Zool	ऑस्टियोस्ट्रेसाइ	os uteri		ऑम यूटेराई, गर्भाशयास्थि
Osteridae	Zool.	ऑस्टेरिडी	oswego	H Sc.	ऑस्वीगो
os thyreoideum	Zool	ऑम थायरॉयडियम	Otaridae	Zool.	ओटारिडी
ostiolate	Bot	आम्यस्की	otavite	Chem	ओटावाइट
ostiole	Bot	आस्यक, ऑस्टियोले	otbornoi	H Sc.	ऑटबोरनॉय
ostium	H Sc ,Zool	आस्य, ऑस्टियम	Othmer process	Chem.	ऑथमर प्रक्रम
ostium tubae		आस्य नली	Othmer process	Chem	ऑथमर प्रक्रम
ostraciform movement	Zool.	ऑस्ट्रेशियन गति	otic capsule	Zool	कर्ण सम्पुट
ostraciform propulsion	Zool	ऑस्ट्रेशियन नोदन	otic placode		कर्ण स्थाली
Ostracion	Zool	ऑस्ट्रिशॉन	otic process		कर्ण प्रवर्ध
ostracod	Zool.	ऑस्ट्रैकोड प्राणी	otic region		कर्ण क्षेत्र
Ostracoda	Zool ,Geol.	ऑस्ट्रैकोडा	otic vesicle		कर्ण वाशय
ostracoderm	Geol ,Geog.	ऑस्ट्रैकोडर्म	Otidae	Zool.	ओटाइडी
Ostrea	Zool.	ऑस्ट्रिया	otidium	Zool.	कणिका
<i>Ostrea arakanensis</i>		ऑस्ट्रिया अराकानेन्सिस	otocone (statocone)	Geol.	कर्णकणिका, धाँटोकोन
<i>Ostrea cucullata</i>		ऑस्ट्रिया कुकुलेटा	otocoonite	Zool.	कर्णचिन्ता
<i>Ostrea lurida</i>		ऑस्ट्रिया लुरिडा	otocyst (statocyst)	Zool.	1 कर्णपुटी 2. सन्तुन पुटी
<i>Ostrea madrasensis</i>		ऑस्ट्रिया मैद्रासेन्सिस	otolith	Geol.,Zool	कर्णपथ
ostrich	Zool.	शुतुरमुगं, ऑस्ट्रिच, शहामूग	Otolithus	Geol	ओटोलिथस
ostrich dinosaur		ऑस्ट्रिच डाइनोसॉर	otomyiasis	Zool.	कर्णमश्रकता
Ostromyslenskii butadiene synthesis	Chem	ऑस्ट्रोमिस्लेन्सकाई ब्यूटाडाईन संश्लेषण	otomycosis	Bot.	कर्ण कवक-रोग
Ostromaski's theorem	Math	ओस्ट्रोवस्की-प्रमेय	oto-occipital	Zool.	कर्णानुक्पाल
Oswald calibration method	Chem.	ओस्टवाल्ड अज्ञशोधन पद्धति	otoporpa	Zool.	ओटोरोपा, दशपट्टक
Oswald color system		ओस्टवाल्ड वर्ण पद्धति	otostapes	Zool.	ऑटोस्टेपीज, कर्णस्तम्भिका
Oswald's adsorption Isotherm		ओस्टवाल्ड अधिशोषण समतान चक्र	otosteon	Zool.	कर्णास्थिका
Oswald's dilution law		ओस्टवाल्ड तनुता नियम	Otozamites	Bot	ओटोजैमाइटीज
			otter	Geog ,Zool.	उद, ऊदकितान
			otter-board		उद पट
			otter trawl		उद-आनायक
			otter-trawling		उद-आनायन
			Otto-cycle	Phy.	ऑटो-चक्र
			Otto engine		ऑटो इंजन

ottoman	<i>H.Sc.</i>	ओटोमन	outdoor cookery	<i>H.Sc.</i>	बाह्य पाकक्रिया
ottoman cord (ottoman tib)		ऑटोमन कॉर्ड (वस्त्र)	outdoor patient	<i>H.Sc.</i>	बहिरंग रोगी, बहिर्कक्ष रोगी
ottoman satin	<i>H.Sc.</i>	ऑटोमन साटन	outer automorphism	<i>Math., Geog.</i>	बाह्य स्वाकारिता
ottoman velvet	<i>H.Sc.</i>	ऑटोमन मखमल	outer bar		बाह्य रोधिका
Otto oven	<i>Chem.</i>	ऑटो कन्दुक	outer boundary		बाह्य सीमा, बाहरी सीमा
ottrelite	<i>Geol.</i>	ऑट्रिलाइट	outer, circle		बाह्य वृत्त
ottrelite schist		ऑट्रिलाइट-शिस्ट	outer conductor		बाह्य चालक
<i>Otus bakkamoena</i>	<i>Zool.</i>	ओटस बकामीना (यरकावी चुगद)	outer differentiation (=exterior differentiation =Cartan differentiation)	<i>Math.</i>	बच्च अवकलन
ouabagenin	<i>Chem.</i>	ऑबाजेनिन	outer ear	<i>H.Sc.,Phy.</i>	बाह्य कर्ण, बहिःकर्ण
ouabain	<i>Chem.</i>	ऑबैइन	outer flow		बाह्य प्रवाह
ouachitite	<i>Geol.</i>	आउएशिटाइट	outer Himalayas	<i>Geol.</i>	बाह्य हिमालय
ouklip	<i>Geog.</i>	ऑक्लिप, पुरातन शैल	outer lacuna		बाह्य रिक्तिका
oule	<i>Geog.</i>	ओले (हिमज-गह्वर)	outer lamella		बाह्य पटलिका
oulopholite	<i>Geol.</i>	ओउलोफोलाइट	outer lateral flexor	<i>Zool.</i>	बाह्यपार्श्वीय आकोचनी
ounce	<i>H.Sc., Math.</i>	आउन्स	outer limiting set		बाह्य सीमांत समुच्चय
ounce (snow leopard)	<i>Zool.</i>	आउंस (हिमचीता)	outer lip	<i>Geol.</i>	बाह्य ओष्ठ
oursine	<i>H.Sc.</i>	ऑर्सिन	outer lowland	<i>Geog.</i>	बाह्य निम्नभूमि
oushak rug	<i>H.Sc.</i>	ऑसक रग	outer marker	<i>Phy.</i>	दूर सूचक
outage	<i>Phy.</i>	बहिरंश	outer measure		बाह्य माप
outblowing wind	<i>Geog.</i>	बहिर्गामी पवन	outermost electron shell	<i>Phy.</i>	बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कोश
outborn population	<i>Math.</i>	बहिर्जात जनसंख्या	outer multiplication		बाह्य गुणन
outbreak	<i>H.Sc.</i>	उद्भेद	outer olfactory pit		बाह्य घ्राण-गर्त
outbreak lahar	<i>Geol.</i>	प्रस्फोट लाहार	outer orbital complex		बाह्य कक्षक संकुल
outbreeding	<i>Biol.</i>	बहिःप्रजनन	outer precession		बाह्य पुरःसरण
outbuilding	<i>Geog.</i>	उपभवन	outer product		बाह्य गुणनफल
outburst	<i>H.Sc.</i>	सहस्रोद्भेद	outer regular set		बाह्य नियमित समुच्चय
outcome	<i>Math.</i>	परिणाम	outer secondaries	<i>Zool.</i>	बाह्य द्वितीयपिच्छ
outcrop	<i>Geol.</i>	(n.) दृश्यांश (v.) अंशदशन	outer section		बाह्य खण्ड
outcrop bending		दृश्यांश व्युत्क्रमण	outer shell electron (= conduction electron = valence electron = peripheral electron)	<i>Phy.</i>	संयोजकता इलेक्ट्रॉन
outcrop map		दृश्यांश मानचित्र			
outcrop of rock		शैल दृश्यांश			
outcross	<i>Biol.</i>	बहिःसंकर			
outcrossing		बहिःसंकरण			
outdoor antenna	<i>Chem.,Phy.</i>	बाहरी ऐन्टेना			

outer solution		बाह्य हल	out of round	<i>Chem (Gl)</i>	अगोलता (दोष)
outer sphere complex		बाह्य मण्डलीय संकुल	out of turn	<i>Chem</i>	पर्याय बाह्य
outer suburban zone		बाह्य नगरोपान्त कटिवन्ध	outport	<i>Phy</i>	1. निर्गम प्रद्दार,
outer tidal delta		बाह्य ज्वारीय डेल्टा		<i>Geog</i>	2. बाह्य बन्दरगाह
outer work function		बाह्य कार्य फलन	outpost	<i>Geol.</i>	सीमा चौकी
outfall	<i>Geog</i>	दहना	outpouching	<i>Zool</i>	बहिर्बलन
outfield	<i>Geog</i>	सीवान	output	<i>Phy, Geog, H Sc</i>	निर्गत, निर्गम, उत्पादन, बहिर्बल
outfit	<i>Geog, Chem</i>	1 उपकरण 2. सभार	output gate		निर्गम द्वार
outflow	<i>Geog.</i>	बहिर्बाह, नि लाव	output impedance		निर्गम प्रतिबाधा
outgassing	<i>Chem., Phy</i>	1 अणुगसन 2 गैस निष्क्रमण	output meter		निर्गम मापी
outgoing of lode	<i>Geol</i>	लोट दृश्याशन	output monitor		निर्गम मानीटर
outgoing signal	<i>Phy</i>	निर्गमनी संकेत	output regulation		निर्गम नियमन
outgrown area	<i>Geog</i>	बहिर्बद्ध क्षेत्र	output terminal		निर्गम टर्मिनल
outgrowth	<i>Zool</i>	उद्बर्ध	output transformer		निर्गम परिणामित्र, निर्गम ट्रान्स्फार्मर
outiclam	<i>Chem (Met)</i>	आउटीक्लेम	outrider	<i>Geol</i>	सहचरपिंड
outlander	<i>Geog</i>	विदेशी	out-rigger	<i>Geog</i>	1. पारख-वर्ध 2 रोक-द्विचरी
outlandish language		विदेशी भाषा	outrun	<i>Geog</i>	कार्य उत्पादन
outlay	<i>Geog.</i>	लागत	outside broadcast	<i>Phy.</i>	बाहरी प्रसारण, (स्टूडियो) बाह्य प्रसारण
outlet	<i>H.Sc, Geog, Geol</i>	निर्गम, विकास	outsirt	<i>Geog.</i>	बहिर्भाग, सोमान्त
outlet glacier		निर्गम हिमानी	outsirts of village	<i>Geog.</i>	ग्रामोपान्त
outlet stream		निर्गम सरिता	outstanding feature	<i>Geog</i>	विशिष्ट लक्षण
outlier	<i>Geol</i>	पुरान्त शायी	outward drawn normal	<i>Math</i>	बहिर्मुखी अभिलव
outline	<i>Geog.</i>	रूपरेखा	outward line		बहिर्मुखी लाइन
outline original		रूपरेखा प्रारम्भिक	outward sloping	<i>Geog, Geol.</i>	बाह्य ढलान
outliner guide		रूपरेखा गाइड	outwash	<i>Geol, Geog.</i>	हिमानीघात
outline sheet		रूपरेखा शीट	outwash apron		हिमानीघात एप्रन
outlook	<i>Geog.</i>	प्रत्याशा, दृष्टिकोण	outwash detrital slope		हिमानीघात अपरदी ढाल
outlying business centre	<i>Geog</i>	उपान्तीय वाणिज्य केन्द्र	outwash drift		हिमानीघात अपवृ
outlying sheet	<i>Geog.</i>	बहिर्बर्ती शीट	outwash fan		हिमानीघात पधा
out of control points	<i>Math.</i>	नियंत्रण बाह्य बिन्दु	outwash gravel		हिमानीघात बजरी
out of frame	<i>Phy</i>	फ्रेम अगम्य	outwash gravel plain		हिमानीघात बजरी मैदान
out of plane bend	<i>Chem</i>	तन-बाह्य बक	outwash plain		हिमानीघात मैदान
out of plane deformation	<i>Chem</i>	तन बाह्य विरूपण	ouvre	<i>H.Sc.</i>	आवे

ourees	<i>H.Sc.</i>	ऑरीज़	over-ageing	<i>Phy.</i>	वतिकाल प्रभावन, अधिकाल प्रभावन
ova	<i>Geog.</i> <i>Zool.</i>	ओवा अंडाणु	overall	<i>H.Sc.</i>	ओवरऑल
oval		(adj.) अंडाकृति, अंडाकार (n.) अंडवक्र	overall application	<i>Bot.</i>	सार्व अनुप्रयोग
ovalbumin	<i>H.Sc., Zool.</i>	अंडएल्बुमिन, ओवैल्बुमिन	overall attenuation	<i>Phy.</i>	समग्र क्षीणन
ovale malaria	<i>Zool.</i>	ओवेल मलेरिया	overall brightness		समग्र द्युति अन्योन्य अभिलक्षण
ovale tertian		ओवेल तृतीयक	transfer- characteristic (=overall brilliance		
oval funnel	<i>Geog.</i>	अंडाकार फनेल	transfer- characteristic)		
oval hill		अंडाकार पहाड़ी	overall contrast ratio		समग्रविपर्यास अनुपात
ovalifolius		अंडाकार पर्णी	over-all dimensional change	<i>Geog.</i>	व्यापक विस्तार-परिवर्तन
ovality		अण्डाकारता	overall efficiency		समग्र दक्षता
ovaloid	<i>Math.</i>	अंडवक्राभ	overall equation		समग्र समीकरण
ovar	<i>H.Sc.</i>	ओवार	over-all formation constant		समग्र संभवन स्थिरांक
ovarian	<i>Zool.</i>	अंडाशय, अंडाशयी	overall loss		समग्र हानि
ovarian artery		अंडाशय धमनी	overall method	<i>H.Sc.</i>	सामान्य विधि
ovarian follicle		अंडाशयी पुटक	overall oxidation		समग्र उपचयन, समग्र ऑक्सीकरण
ovarian funnel		अंडाशयी कीप	overall raising factor		समग्र वर्धक गुणक
ovarian lamella	<i>Zool.</i>	अंड-पटलिका	overall reaction		समग्र अभिक्रिया
ovarian stroma		अंडाशय पीठिका	overall sampling fraction	<i>Phy.</i>	सर्वांगी प्रतिचयनानुपात
ovarian vein		अंडाशय शिरा	overall specific impulse		समग्र विशिष्ट आवेग
ovaricolous	<i>Bot.</i>	अंडाशयवासी	overall system		समग्र तंत्र
ovariole	<i>Zool.</i>	अंडाशयक	overall system delay time		समग्र तंत्र-विलंबकाल
ovarium	<i>Zool.</i>	अंडाशय	overall use	<i>Math.</i>	सर्वांगीण उपयोग
ovary	<i>H.Sc., Zool.</i>	अंडाशय	Overbeek's result	<i>Chem.</i>	ओवरबीक परिणाम
ovary-yolk gland complex	<i>Zool.</i>	अंड-पीतक-ग्रंथि सम्मिश्र	overblowing	<i>Phy.</i>	अतिघमन
ovate	<i>Biol.</i>	अण्डाकार	over-bunching	<i>Phy.</i>	अधिगुच्छन
Ova-zorofu	<i>Geog.</i>	ओवा-ओरोफू	overburden	<i>Geol.</i>	उपरिभाषि, उपरिभार
ovejector	<i>Zool.</i>	अंडक्षेपक	overburdened stream	<i>Geog.</i>	अतिभारित सरिता
oven	<i>Phy., H.Sc., Geog.</i>	अवन, बन्दचूल्हा, आवा	overbuying	<i>H.Sc.</i>	अधिक्रय
oven glass		आवा कांच	over car antenna (=over-car aerial)	<i>Phy.</i>	कारछत ऐन्टेना
oven lining		बन्द चूल्हा अस्तर, अवन अस्तर	overcast	<i>Phy., Geog.</i>	मेघाच्छादन, मेघाछन्न
oven peel		अवन पील			
oven utensil		बंद चूल्हा पात्र, अवन पात्र			

overcast day		मेघाच्छन्न-दिवस	over-estimation	Phy.	अधिप्राक्कलन, अत्यनुमान
overcast sky		मेघाच्छन्न आकाश	over excitation	Phy	अति उत्तेजन
overcast with cloud		मेघाच्छन्न	overexposed nozzle	Phy.	अधिप्रसरित नोजल
overcheck	H Sc.	ओवरचेक	overexposure	H Sc	अतिप्रभावाघीन
overcoating	H Sc	ओवर कोटिंग, ओवरकोट का वस्त्र	overfall	Geog	विक्षुब्ध जल
over compression	Phy	अतिसंपीडन	over feeding	H Sc.	अत्याहार, अतिमम्भरण
over-concentration	Geog.	अति-सकेन्द्रण	overfine wool	H Sc.	अतिउत्तम ऊन
over-congested	Geog	अतिघना	overfishing	Geog., Zool	अतिमत्स्यग्रहण, अतिमत्स्यन
over consumption	H Sc.	उपभोग आधिक्य	overfit river	Geog	अत्युपपन्न नदी
overconvergence	Phy.	अत्यभिसरण	overfit stream		अत्युपपन्न सरिता
overcooled	Chem	अतिशीतित	overflow	Phy Geol.,	अधिप्रवाह आप्लाव, अनिवाह
over-cooling	Phy	अतिशीतन	overflow channel		आप्लाव जलमार्ग
over-corrected	Phy, Math	अतिसशोधित	overflow level		आप्लाव तल
over coupling	Phy	अति युग्मन	overflow meter		आप्लाव मापी
overcrowd	Geog	अति सकुल	overflow switch		अनिवाह स्विच
overcrowded land		अतिमकुलित प्रदेश, बहुजनकोण प्रदेश	overflow toggle		अनिवाह संयुक्ति
overcrowding	Geog	अतिसकुलता	over flush	Chem (Gl)	अतिकाच
overcure	Chem (Plastics)	अतिमसाधित	overfold	Geol	प्रतिबन्धन
overcured		अतिमसाधित	over granulation	Chem (Fert)	अधिकणिकायन
overdamped	Chem, Geol., Phy.	अति अवमरित	overgrazed slope	Geog.	अनिवारित ढान
overdamped galvanometer seismograph		अतिअवमरित धारामापी भूकंपनेत्री	overgrazing	Zool	अतिचारण
overdamping		अतिअवमरन	overgrown city	Geog.	अधिवृद्ध शहर
overdeepening	Geol	अतिगभीरन	overgrown wool	H Sc	अधिवृद्ध ऊन
overdetermined system	Math	अतिनिर्धारित निकाय	overgrowth	Geol.	अनिवृद्धि, अधिवृद्धि
overdominance	Zool	अतिप्रभाविता	overgrowth crystal		अधिवृद्धि क्रिस्टल
overdominant		अतिप्रभावी	overhand	Chem. (Text)	अधिहस्त
overdose	H Sc, Phy.	अतिमात्रा	overhand stoping	Geol.	अधि-ऊर्ध्वनिखनन
overdrying	Chem.	अतिशुष्कन	overhang	Geol.	प्रलंबन
overestimate	H Sc.	अधिप्राक्कलन	overhanging beam		प्रलम्बी दंड
overestimated temperature correction	Phy.	अत्यनुमानित ताप सम्युद्धि	overhanging crest		प्रलंबी शिखर
			overhanging rock		प्रलंबी शैल
			overhaul	Geog.	ओवरहॉल, कायापनः
			overhead charges	Chem	उपरि व्यय, उपरी खर्च
			overhead line	Geog.	उपरमी सारन

overhead stoping	<i>Geol.</i>	अधि-ऊर्ध्व निखनन	overload release		अतिभार विसंपर्की
over heating	<i>H.Sc.</i>	अतितापन	overluminous star	<i>Math.</i>	अतिदीप्त तारा
over hydration	<i>H.Sc.</i>	अतिजलयुक्तता	overlying	<i>Geol.</i>	उपरिशायी
over-identification	<i>Math.</i>	अत्यभिज्ञान	overlying rock		उपरिशायी शैल
over-identified equation		अत्यभिज्ञात समीकरण	over modulation	<i>Phy.</i>	अधिमांडुलन
overinvestment	<i>H.Sc.</i>	अतिनिवेश	over nutrition	<i>H.Sc.</i>	अतिपोषण
over-irradiation	<i>Chem.</i> ( <i>Photo.</i> )	अतिकिरणन	overpickled	<i>Chem.</i>	अधिअम्लोपचारित
overland route	<i>Geog.</i>	स्थल मार्ग	overpoint	<i>Chem.</i>	प्रविन्दु
overland trade	<i>Geog.</i>	स्थल व्यापार	overpoled	<i>Geol.</i>	काष्ठगुंठित
overlap		1. अतिव्याप्ति 2. अतिव्यापन	over-populated	<i>Geog.</i>	अत्यधिक आवाद
overlap energy		अतिव्याप्ति ऊर्जा	over-population		अत्यधिक आवादी
overlap forbidden		अतिव्यापन- वजित	over potential	<i>Phy.</i>	अधिविभव
overlap integral		अतिव्याप्त समाकल	overpress	<i>Chem.(Gl.)</i>	अतिपीड (दोष)
overlapping		अतिव्यापन	overprint	<i>Geol.,H.Sc.</i>	उध्वारोपण, ओवरप्रिंट
overlapping code		अतिव्यापी कूट	overprinting	<i>Chem.</i>	उन्मुद्रण
overlapping distribution		अतिव्यापी वितरण	overprocessing	<i>H.Sc.</i>	अतिसंसाधन
overlapping frequency distribution		अतिव्यापी वारंवारता- बंटन	over production		अति उत्पादन
overlapping involution		अतिव्यापी अंतर्बलन	over-proof spirit	<i>Chem.</i>	ओवर-प्रूफ स्पिरिट
overlapping nappe		अतिव्यापी नापे	over-relaxation	<i>Math.</i>	अतिविश्रान्ति
overlapping of images		प्रतिबिम्बों का अतिव्यापन	override	<i>Geol.</i>	अध्या रोहण
overlapping part		अतिव्यापी अंश, अतिव्यापी भाग	over ring	<i>Math.</i>	अधिवलय
overlapping sampling unit		अतिव्यापी प्रतिचयन- एकक	over saturated rock	<i>Geol.</i>	अतिसंतृप्त शैल
overlapping spur	<i>Geog.</i>	अतिव्यापी पर्वत-स्कंध	over scanning	<i>Phy.</i>	अधिक्रमवीक्षण
overlay	<i>Geol.,</i> <i>Geog.</i>	1. उपरिशायी 2. अधिचित्र	overseas	<i>Geog.</i>	समुद्र पार
overlayered	<i>Bot.</i>	उपरिस्तरित	overseason	<i>Bot.</i>	अतिऋतुजीवन
overload	<i>Phy.</i>	अतिभार	oversecretion	<i>H.Sc.</i>	अतिश्रवण
overloaded		अतिभारित	overseeding	<i>Geol.</i>	अधिबीजन
over load forward current		अतिभार अग्र धारा	over shoot	<i>Phy.</i>	अतिक्रमण
overloading impulse		अतिभारक आवेग	overshoot cast	<i>Chem.</i> ( <i>Plastics</i> )	अतिकृत संचक
			overshoot factor		अतिक्रमण गुणक
			overshooting	<i>Chem.</i>	अतिलंघन
			overshoot ratio		अतिक्रमण अनुपात
			overshot	<i>H.Sc.</i>	ओवरशॉट
			overshot weave	<i>Chem.</i>	अधिस्तृत वुनती
			oversimplification	<i>Math.</i>	अतिसरलीकरण
			oversliding ice	<i>Geog.</i>	अधिसर्पण बर्फ
			overspill	<i>Geog.</i>	अतिरिक्त (जन)

overspill population		अतिरिक्त जनसङ्ख्या	overturned fold	<i>Geol.</i>	प्रतिवर्तन
overstability	<i>Math.</i>	अतिस्थायित्व	overturned syncline	<i>Geog.</i>	प्रतिवर्तित अभिनति
overstaining	<i>Bot.</i>	अतिरञ्जन	over voltage	<i>Phy</i>	अधिवोल्टता
oversteepening	<i>Geol.</i>	अति प्रवणन	overwash	<i>Geol.</i>	जलघोत
overstep	<i>Geol., Geog</i>	ऊर्ध्वव्यापन	overwash apron		जनघोत ऐप्रन
overstocked	<i>Bot.</i>	अतिसघन	overwash drift		जलघोत अपोद
overstocking	<i>Zool.</i>	अतिसप्रहूण	overway bridge	<i>Geog.</i>	मार्गोपरि पुल
overstorey	<i>Bot.</i>	उपरिस्तर	over weight	<i>H. Sc.</i>	अतिभार
overstress	<i>Math</i>	अतिप्रतिबल	overwinter	<i>Zool.</i>	शिशिरालघन, शिशिराति- जीवन
oversummering	<i>Biol.</i>	1. (adj) ग्रीष्मातिजीवी 2 (n) ग्रीष्मातिजीवन	overwintering	<i>Biol., Geog</i>	1 (n) शिशिरातिजीवन 2. (adj) शिशिराति- जीवी
over-systematised scheme	<i>Phy</i>	अति श्ववस्थित योजना	overwintering bird		शिशिरातिजीवी पक्षी
overthrow fold	<i>Geol</i>	प्रतिवर्तन	overwintering egg		शिशिरातिजीवी अण्ड
overthrust	<i>Geol.</i>	अधिशेप	overwintering population		शिशिरातिजीवी समष्टि
overthrust block		अधिशेप छद्	ovicapsule	<i>Zool.</i>	अण्डसुपुट
overthrust fault		अधिशेप भ्रम	ovicapt	<i>Zool.</i>	अण्डकवचा
overthrust fold		अधिशिष्ट बलन, अधिशेप बलन	ovicell	<i>Geol.</i>	अण्डकोशिका
overthrusting		अधिशेपण	ovic embryo	<i>Zool.</i>	अण्ड
overthrust nappe		अधिशेप नापे	ovic larra	<i>Zool.</i>	अण्ड डिम्बक
overthrust plane		अधिशेप तल	oviducal aperture	<i>Zool.</i>	अण्डवाहिनी रद्य
overthrust sheet		अधिशेप आस्तर	oviducal funnel		अण्डवाहिनी कीप
overtide	<i>Geog</i>	अधिग्वार	oviducal gland (shell gland)		अण्डवाहिनी ग्रन्थि (कवच-ग्रन्थि)
overtime production	<i>Math.</i>	अतिरिक्त कालीन उत्पादन, समयोपरि उत्पादन	oviducal wall		अण्डवाहिनी भित्ति
overtone	<i>Chem., Phy.</i>	1 अधिस्वरक 2 अतिष्ठवि	oviduct	<i>Zool., H.Sc.</i>	अण्डवाहिनी
overtone band	<i>Chem.</i>	अधिस्वरक बैंड, अधिस्वरक पट्ट	oviductule		अण्डवाहिनिका
Overton's lipoid theory	<i>Chem.</i>	ओवरटन लिपोइड थार	oviductus communis	<i>Zool.</i>	युक्त अण्डवाहिनी
overtopping	<i>Bot.</i>	उच्चवृत्तिक्रमो, ओवरटॉपिंग	oviferous	<i>Zool.</i>	अण्डधर
overt resource	<i>H. Sc.</i>	विवृत्त साधन	oviform	<i>Geol., Zool.</i>	अण्डाकार, अण्डरूप
overt symptom	<i>Dot.</i>	प्रकट लक्षण	ovigerous	<i>Zool.</i>	अण्डनाही
overturn	<i>Zool</i>	पर्याप्त	ovigerous cord		अण्डवाही रज्जु
overturned	<i>Geol., Geog.</i>	प्रतिवर्तित	ovigerous frenum		अण्डवाही प्रबद्ध
overturned anticline		प्रतिवर्तित अपनति	ovijector	<i>Zool.</i>	अण्डशेपक
			ovijer	<i>Zool.</i>	अण्डवाहक
			oviparity	<i>Zool.</i>	अण्डरजता, अण्डप्रवृत्तता



oviparous		अण्डप्रजक, अण्डज	ovum	<i>H.Sc., Zool.</i>	अण्डाणु
oviposition	<i>Zool.</i>	अण्डनिक्षेपण	Owen bridge	<i>Phy.</i>	ओवन सेतु
oviposition attractant	<i>Zool.</i>	अण्डनिक्षेपण-आकर्षी	Owens process	<i>Chem.(Gl.)</i>	ओवेन्स प्रक्रम
ovipositor		अण्डनिक्षेपक	owl	<i>Zool.</i>	उलूक, उल्लू
ovisac	<i>Zool.</i>	अण्डकोष	owllet	<i>Zool., Geog.</i>	उलूकक
ovis-poli	<i>Geog.</i>	ऑक्सि-पोली	owner	<i>H.Sc., Geog.</i>	स्वामी
oviviparous	<i>Zool.</i>	अण्डजरायुज	ownership	<i>H.Sc.</i>	स्वामित्व
ovocyte (oocyte)	<i>Biol.</i>	ओवोसाइट, अण्डजनानु	owyheeite	<i>Geol.</i>	ओईहीवाइट
ovoflavin	<i>H.Sc.</i>	ओवोफ्लैविन	ox	<i>Zool.</i>	वृषभ, बैल
ovogonium	<i>Zool.</i>	अण्डजननी	oxadiazole	<i>Chem.</i>	ऑक्सिडाइजोल
ovoid	<i>Biol., H.Sc.</i>	अण्डाम, अण्डाकार	oxalate	<i>Chem., H.Sc.</i>	ऑक्सैलेट
ovoid mass		अण्डाम पिंड	oxalato	<i>Chem.</i>	ऑक्सैलेटो
ovoidovoidal	<i>Biol.</i>	अण्डाकार, अण्डरूप	oxalato pentammine		ऑक्सैलेटो पेन्टेममिन
ovomucin	<i>Zool.</i>	अण्डम्यूसिन, ओवोम्यूसिन	oxalic acid	<i>Chem.</i>	ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक ऐसिड
ovomuroid	<i>Chem.</i>	ओवोम्यूकाईड, अण्डम्यूकाईड	Oxalidaceae	<i>Bot.</i>	ऑक्सैलिडेसी
ovotestis	<i>Zool.</i>	अण्डवृषण	<i>Oxalis latifolia</i>	<i>Bot.</i>	ऑक्सैलिस लेटीफोलिवा
ovovitellin	<i>Chem., Zool.</i>	ओवोविटेलिन, अण्डपीतकिन	<i>Oxalis martiana</i>		ऑक्सैलिस मारटिएना
ovovitelline duct		अण्डपीतक वाहिनी	<i>Oxalis montana</i>		ऑक्सैलिस मॉन्टेना
ovoviviparity	<i>Zool.</i>	अण्डजरायुजता	<i>Oxalis perpurata</i>		ऑक्सैलिस परप्युराटा
ovoviviparous		अण्डजरायुज	<i>Oxalis pes-caprae</i>		ऑक्सैलिस पेस-कैप्रे
ovulary (=ovary)	<i>Biol.</i>	अण्डाशय	oxalite	<i>Chem.</i>	ऑक्सैलाइट
ovulate	<i>Bot.</i>	बीजांडी	oxalyi	<i>Chem.</i>	ऑक्सैलिल
ovulate sporophyll		बीजाण्डी बीजाणुपर्ण	oxamic acid	<i>Chem.</i>	ऑक्सैमिक अम्ल, ऑक्सैमिक ऐसिड
ovulate strobiliferous branch		बीजांडी शंकुधर शाखा	oxamide	<i>Chem.</i>	ऑक्सैमाइड
ovulate strobilus		बीजाण्डी शंकु	oxamycin	<i>Chem.</i>	ऑक्सैमाइसिन
ovulation	<i>Zool.</i>	अण्डोत्सर्ग	oxazine colouring matter	<i>Chem.</i>	ऑक्सैजाइन रंजक द्रव्य
ovulation fossa		अण्डोत्सर्ग खात, हिम्नक्षरण खात	oxazirane	<i>Chem.</i>	ऑक्सैजिरेन
ovule	<i>Bot.</i>	बीजांड	oxazole	<i>Chem.</i>	ऑक्सैजोल
ovule bearing		बीजांडधारी	oxazolone		ऑक्सैजोलोन
ovuliferous cone		बीजांड धर शंकु	ox-bow cut-off	<i>Geog.</i>	छाड़, छाड़न
ovuliferous scale		बीजांडधर शल्क	ox-bow lake	<i>Geol.</i>	छाड़, छाड़न, चापसील
ovuliferous structure		बीजांडधर संरचना	oxea	<i>Zool.</i>	तीक्ष्णकण्टिका, ऑक्सैना
ovulite	<i>Geol.</i>	अण्डकाम, ओवूलाइट	oxeote spicule	<i>Zool.</i>	तीक्ष्णान्त कण्टिका

oxetane	<i>Chem.</i>	आक्सोटेन
oxford	<i>H Sc.</i>	ऑक्सफोर्ड
oxford chambray		ऑक्सफोर्ड चैम्ब्रे
oxford gray	-	ऑक्सफोर्ड ग्रे
oxford sauce		ऑक्सफोर्ड सॉस
oxibasiophilic	<i>Geol.</i>	मध्यसिलिकऑक्साइडी, ऑक्सीबेसीऑफिलिक
oxidant	<i>Chem., H. Sc.</i>	उपचायक, ऑक्सीकारक
oxidase	<i>Chem., H. Sc.</i>	ऑक्सीडेस
oxidase xanthine		ऑक्सीडेस जैन्थीन
oxidate	<i>Geol.</i>	उपचयज
oxidation	<i>Chem. H Sc, Geog., Biol</i>	ऑक्सीकरण, उपचयन ऑक्सीकरण
oxidation cell		ऑक्सीकरण सेल
oxidation fusion		ऑक्सीकारी सफल
oxidation number		ऑक्सीकरण अंक, उपचयनांक
oxidation potential		उपचयन विभव
oxidation reduction	<i>Chem.</i>	उपापचयन
oxidation-reduction couple		उपापचयन-युग्म
oxidation reduction curve		उपापचयन वक्र
oxidation reduction indicate		उपापचयन सूचक
oxidation-reduction number		उपापचयन संख्या
oxidation-reduction-potential		उपापचयन विभव
oxidation reduction process		ऑक्सीकरण रिडक्शन प्रक्रम, उपापचयन प्रक्रम
oxidation reduction titration		उपापचयन अनुमापन
oxidation state		ऑक्सीकरण अवस्था, उपचयन अवस्था
oxidative fission		ऑक्सीकारी विच्छेदन, उपचयी विच्छेदन
oxidative metabolism	<i>Zool.</i>	ऑक्सीकारी उपापचय
oxidative phosphorylation		ऑक्सीकरणो कारकोटीकरण

oxidative rancidity		उपचायी गंधिता
oxidative stability		उपचायी स्थिरता
oxide	<i>Chem</i>	ऑक्साइड
oxide coated cathode		ऑक्साइड कोटिंग कैथोड
oxide electrode		ऑक्साइड इलेक्ट्रोड
oxide skin theory		ऑक्साइड त्वक्वाद
oxidic ore		ऑक्सीकारी अयस्क
oxidimetric titration		ऑक्सीमिति अनुमापन
oxidimetry		ऑक्सीमिति
oxidisable		उपचयनीय, ऑक्सीकरणीय
oxidisation		ऑक्सीकरण
oxidise		उपचयन करना, ऑक्सीकरण करना
oxidised		उपचित, ऑक्सीकृत
oxidised hexosan		उपचिन हैक्सोजन
oxidised zone		ऑक्सीभूत क्षेत्र
oxidiser		उपचायक
oxidising		उपचायक, ऑक्सीकारक
oxidising action		उपचायक क्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया
oxidising agent		उपचायक, ऑक्सीकारक
oxidising ferment		ऑक्सीकारी किण्व
oxidising flame		ऑक्सीकारी ज्वाला
oxidising zone		ऑक्सीकारी ज़ोन
oximate	<i>Chem</i>	ऑक्सीमेट
oximation	<i>Chem.</i>	ऑक्सीमीकरण, ऑक्सीमन
oxime	<i>Chem.</i>	ऑक्सीम
oximido	<i>Chem.</i>	ऑक्सीमिडो
oximino-nitrono diad system	<i>Chem</i>	ऑक्सीमिनो-नाइट्रो डिड सिस्टम
oxinate	<i>Chem.</i>	ऑक्सीनेट
oxladole	<i>Chem</i>	ऑक्सीलडोल
oxine	<i>Chem</i>	ऑक्सीन
oxine test		ऑक्सीन निरवय
oxiran ring	<i>Chem</i>	ऑक्सीरेन रिंग
Oxland and Hocking's calciner	<i>Chem.</i>	ऑक्सीनेड और हॉकिंग निरत्रापक

ox louse	Zool.	वृष यूका, वेल जूं	oxy-chromatin	Chem.	ऑक्सी-क्रोमैटिन
oxo-complex	Chem.	ऑक्सो-संकुल	oxyclad	Zool.	ऑक्सीक्लैड, तीक्ष्णार
oxocuprate	Chem.	ऑक्सोक्यूप्रेट	oxycoal gas	Geol.	ऑक्सीकोल गैस
oxoethanoic acid	Chem.	ऑक्सो-एथेनॉइक अम्ल	Oxycoccus macrocarpus	Bot.	ऑक्सीकाँकस मैकोकार्पस
oxoferrite	Geol.	ऑक्सोफेराइट	oxycyanide	Chem.	ऑक्सी-सायनाइड
oxo-hydroxo-salt	Chem.	ऑक्सो हाइड्रॉक्सी लवण	oxydactyl	Zool.	शिंतांगुलि
oxone	Chem.	ऑक्सीन	oxydase	Chem.	ऑक्सीडेज
oxonine	Chem.	ऑक्सोनीन	oxydiact	Zool.	शितार
oxonium compound	Chem.	ऑक्सोनियम यौगिक	oxyechinochrome	Zool.	ऑक्सीएकाइनोक्रोम, ऑक्सीशूलवर्णक
oxonium salt		ऑक्सोनियम लवण	oxy-fluoride	Chem.	ऑक्सी फ्लोराइड
oxo process	Chem.	ऑक्सो प्रक्रम	oxygen	Chem.	ऑक्सीजन
oxo-reaction		ऑक्सो अभिक्रिया	oxygenase	Chem.	ऑक्सीजनेस
oxo synthesis		ऑक्सो-संश्लेषण	oxygenate	Chem.	ऑक्सीजनीकरण
oxotropy	Chem.	ऑक्सोमोची	oxygenated anion	Chem.	ऑक्सीजनित ऋणायन
ox-o-wool	H.Sc.	ऑक्स-ओ-वूल	oxygenated blood	Zool.	ऑक्सीजनित रुधिर
oxoxide	Chem.	ऑक्सोक्साइड	oxygenated water		ऑक्सीजनित जल
oxyacanthous	Bot.	कंटकमय	oxygen bridge		ऑक्सीजन सेतु
oxy-acetylene	Chem.	ऑक्सी-ऐसेटिलीन	oxygen carrier		ऑक्सीजन वाहक
oxy-acetylene blow pipe	Chem.	ऑक्सी ऐसेटिलीन धमनाड	oxygen consumption		ऑक्सीजन उपभोग
oxy acid	Chem.	ऑक्सी अम्ल, ऑक्सीऐसिड	oxygen dissociation curve		ऑक्सीजन वियोजन वक्र
Oxyaena	Zool.	ऑक्सीएना	oxygen effect		ऑक्सीजन प्रभाव
Oxyaenidae	Zool.	ऑक्सीनिडी	oxygen electrode		ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड
oxy-anion	Chem. (Nucl.)	ऑक्सी-ऋणायन	oxygen-hardening		ऑक्सीजन कठोरण
oxyaster	Zool.	तारकाक्ष कटिका	oxygen inhalation		ऑक्सीजन अभिस्वसन
oxybiont	Bot.	ऑक्सीजीव	oxygen lancing		ऑक्सीजन शूलन
oxybiotic	Bot.,Zool.	ऑक्सीजीवी	oxygen minimum layer		न्यूनतम ऑक्सीजन स्तर
oxybiotin	Chem.	ऑक्सीबायोटिन	oxygen parameter		ऑक्सीजन प्राचल
oxy-bromide	Chem.	ऑक्सोब्रोमाइड	oxygen point		ऑक्सीजन तापंक
oxycalorimeter	H.S.c.,Bot.	ऑक्सीकैलोरीमीटर, ऑक्सोउष्मामापी	oxygen salt		ऑक्सीजन लवण
Oxycalthrop	Geol.	ऑक्सीकैलथ्रॉप	oxygen scale		ऑक्सीजन पैमाना
Oxycaroenus loetus	Zool.	ऑक्सीकैरोरिनस लीटस	oxygen standard		ऑक्सीजन मानक
oxycellulose	Chem.	ऑक्सीसेलुलोज	oxygen tension		ऑक्सीजन-तनाव, ऑक्सीजन सान्द्रण
Oxychelothrop	Geol.	ऑक्सीकेलोथ्रॉप	oxygnathous	Zool.	तीक्ष्णहनु
oxy-chloride	Chem.	ऑक्सी-क्लोराइड			

oxyhaemocyanin	Zool	ऑक्सीहीमोसाएनिन	oxythiamine	Bot.	ऑक्सीथाएमिन
oxyhaemoglobin	H Sc., Zool.	ऑक्सीहीमोग्लोबिन	oxytotic	H Sc	ऑक्सीटासिक, गर्भाशय सकोच
oxy halide	Chem.	ऑक्सी हैलाइड	oxytocin	Chem.	ऑक्सीटॉसिन
oxyhexact	Zool.	सीक्षणषडर	oxytrilcene	Geol.	ऑक्सीट्रायेन
oxyhexaster	Zool.	सीक्षण-षट्कारिका	Oxytricha	Zool	ऑक्सीट्राइका
oxyhydrates	Chem.	ऑक्सीहाइड्रेट्स	oxytropism	Zool.	ऑक्सी प्रानातुवर्तन
oxyhydrogen flame	Chem.	ऑक्सीहाइड्रोजन ज्वाला	oxytylote	Zool	ऑक्सिटाइलोट, सीक्षणात्ममूढिका
oxyfodide	Chem	ऑक्सीफायोडाइड	Oxyuris	Zool.	ऑक्सियूरिस
oxylignite	Chem.	ऑक्सीलिनवाइट	oyah lace	H Sc	ओयालेस
oxylrophyte	Bot	अम्नोडिभिद्	oyo tribe	Geog.	ओयो जनजाति
oxyluciferin	Zool.	ऑक्सील्युमिफेरीन	oyster	H Sc, Geol., Zool	शुनिन, सीप
oxymagnite	Geol.	ऑक्सीमग्नाइट	oyster bank		शुनित बैंक
oxymel	H Sc.	ऑक्सिमेल	oyster bed		शुनित सस्तर
oxymesostasis	Geol.	फेल्सपारीमेसोस्टेसिस, ऑक्सिमसोस्टेसिस	oyster catcher		शुनितप्राही
Oxymitra	Bot	ऑक्सीमिट्रा	oyster crab		शुनित कर्बट
oxymuriate of potash	Chem.	पोटाश ऑक्सीम्यूरिएट (पोटेनियम क्लोरेट)	oyster dredge		शुनित निचंपित्र
oxymuriatic acid	Chem.	ऑक्सीम्यूरिएटिक अम्ल, ऑक्सीम्यूरिएटिक ऐमिड	oyster drill		शुनित ड्रिल
oxymyoglobin	Chem.	ऑक्सिमाओग्मोबिन	oyster fishing		शुनितमत्स्यन
oxynitration	Chem.	ऑक्सीनाइट्रीकरण	oyster fork		शुनित बांटा
oxyntic	Zool	अम्लजन	oyster leech		शुनित जोंक
oxypetrite	Bot.	अम्लशैल-समुदाय	oyster sauce		शुनित सॉस
oxyphile	Chem. (Nucl)	ऑक्सीस्नेही	oyster spat		शुनित स्पेट
oxyphilic	Bot.	अम्लरागी	ozalid paper	Geog	ओजालिड कागज
oxyphilous		अम्लरागी	ozalid print		ओजालिड प्रिन्ट
oxyophitic	Geol.	अधिसिलिक ऑफाइटो, ऑक्सीऑर्फिटिक	ozalid process		ओजालिड प्रक्रम
oxyphobous	Bot.	अम्लभीष	Ozobranchus	Zool.	ओजोब्रान्कस
oxyproline	Chem.	ऑक्सीप्रोलीन	ozocerite	Chem.	ओजोसेराइट
Oxyrrhis marina	Zool.	ऑक्सीरिस मॉरिना	ozokerite	Geol.	ओजोकेराइट, खनिज मोम
oxysalt	Chem.	ऑक्सी-स्त्रण	ozokerite wax	Chem. (Paint)	ओजोकेराइट मोम
oxysere	Bot.	अम्ल क्रमक	ozonalr apparatus	Chem.	ओजोनेर उपकरण
oxystrongyle	Zool.	ऑक्सीस्ट्रॉन्गिल, सीक्षणदृष्टिनात	ozone	Chem	ओजोन
oxysulphate	Chem.	ऑक्सीसल्फेट	ozone absorption coefficient		ओजोन अवशोषण गुणांक
			ozone concentration		ओजोन मांदिग

ozone history		ओजोन इतिहास
ozone magnetism		ओजोन चुंबकत्व
ozone region		ओजोन क्षेत्र
ozonic acid	Chem.	ओजोनिक अम्ल, ओजोनिक एसिड
ozonide	Chem.	ओजोनाइड
ozonised	Chem.	ओजोनीकृत, ओजोनित

ozonised air	Chem.	ओजोनित वायु
ozonium		ओजोनियम
ozonation	Chem.	ओजोनीकरण
ozonizer	Chem.	ओजोनित
ozonopause	Phy.	ओजोन मंडल सीमा
ozonosphere	Phy.	ओजोन मंडल
ozu-aya	H.Sc.	ओजू या

## P

Paal-Knorr synthesis	Chem.	पाल-नॉर संश्लेषण
Paashe index	Math.	पाशे-सूचकांक
pabstett	H.Sc.	पैक्सटेट
pabulum	Zool.	प्राशन
pace	Geog.	प्रगति
pace-maker	Zool.,H.Sc.	गति प्रेरक, गति चालक
pace scale		पद मापक्रम
pachas	H.Sc.	पंचस
Pachiney process	Chem.	पैचिनी प्रक्रम
Pachuca tank	Chem.	पचुका टंकी
pachy	Bot.	स्थूल, सघन
pachycarpus		स्थूल फलभित्तिक
Pachycerianthus	Zool.	पैकीसेरिएन्थस
Pachycerianthus multiplicatus		पैकीसेरिएन्थस मल्टीप्लिकेटस
Pachychalina	Zool.	पैकीकैलाइना
pachycladous	Bot.	सघनशाखी
pachyderm		पैकीडर्म (दृढ़त्वचीय प्राणी)
Pachydiplosis oryzae	Zool.	पैकिडिप्लोसिस ओरिजा

Pachygone orata	Bot.	पैकीगोन ओरेटा
Pachyma cocos	Bot.	पैकीमा कॉकास
pachymeter	Phy.	मोटाई मापी
pachynema	Zool.	स्थूलसूत्र
pachyostosis	Zool.	घनास्थिभवन
pachyphyllous	Bot.	स्थूलपर्णी
pachypleurous	Bot.	स्थूलभित्तिक
pachypycnidium	Bot.	पैकीपिचिनीडियम
Pachyrisma	Geol.	पैकीरिज्मा
pachystichous cell	Bot.	स्थूलभित्तिक कोशिका
pachytene	Zool.	स्थूलपट्ट
Pacific coast	Geog.	प्रशान्त महासागरीय तट, पैसिफिक तट
Pacific coastline		प्रशान्त महासागरीय तटरेखा, पैसिफिक तटरेखा
Pacific forest	Geog.	पैसिफिक वन
pacificite	Geol.	पैसिफिमाइट
Pacific suite	Geog.,Geol.	पैसिफिक शैल संज्ञाति, प्रशान्त शैल संज्ञाति,
pacing	Geog.	पदमापन

Paciniian corpuscle	Zool.	पैसीनियन कणिका	packing energy	सकुलन ऊर्जा
pacite	Geol	पैसाइट	packing fraction	सकुलन गुणांक
pack		1 (pack ice) समुद्री- बर्फपुज 2 (animals) भारवाही, लददू 3 (cards) गड्डी 4 सकुल, निचय 5 (H Sc) पैक	packing index	Geol सकुलनांक
package	H.Sc	1. सवेष्टन 2. पैकेज	packing stock	Chem. पैकिंग स्टॉक (मकखन)
packaged magnetron	Phy.	कोष्ठित मेग्नेट्रान	pack rolling (ply rolling)	Chem (Met) स्तर बेल्सन, प्लाड बेल्सन
package dyeing	Chem (Text),H.Sc	निचय रजन, पैकेज रजन	packsheet	H Sc पैकशीट
package mill	H.Sc	निचय मिल, पैकेज मिल	pack track	Geog पगु-मार्ग
package reactor	Phy.	सुवास्य रिऐक्टर	pack train	Geog. भारवाही कारवां, भारवाही पक्ति, सडदू पक्ति
packaging	Math	सवेष्टन	pacor	Phy पैकॉर
pack animal	Geog.	भारवाही पशु -	pacos	पैकाम
pack annealing (box annealing)		निचय अनीलन, (बॉक्स अनीलन)	pad	H Sc. 1 गद्दी 2. पैड
pack dyeing		निचय रजन	pad (= fixed attenuator)	Phy नियनमान क्षीणकारी
packed cell process		निचित सेल प्रक्रम	padang	Geog पैडंग
packed-column		निचित स्तम्भ	padar	Phy. पैडार
packed tower		निचित मीनार, निचित स्तम्भ	pad-bake	Chem. पैड भर्जन, प्रमेक भर्जन
packer bone (green bone)	Chem.	कच्ची अस्थि, आम अस्थि	padder	Phy पैडर, स्थूल समजक
packet	Chem	पैकेट, वेष्टक	padding	Chem., H Sc. 1 प्रमेचन, गद्दी भरना 2 पैडिंग
packet boat		डाक नाव	padding condenser	Phy. स्थूल ममजन सघारित
packet cheese	H.Sc.	पैकेट पनीर, समाधित पनीर	paddle	Zool.,Chem. (Met) शेपणी
packet port		डाक पत्तन	paddle jig	Geol. पैडल जिग
packet station	Geog	पैकेट स्टेशन (फेरी पोर्ट)	paddle mill	पैडल मिल
pack ice	Geog.	बर्फ पुज (प्लावी)	paddle mixer	पैडल मिश्रित, शेपणी मिश्रित
packing	Phy. (T.V.) Geol.,Phy. H Sc. Chem.	चिवांश सकुलन सकुलन मणुटन निचयन	paddle shaped electrode	Chem. पैडनाकार इलेक्ट्रोड, नोडपडाकार इलेक्ट्रोड
packing coefficient	Phy.	सकुलन गुणांक	paddle shaped vane	शेपणी पद्य
packing density		सकुलन सघनताक	paddle stirrer	शेपणी बिलोडक, पैडल बिलोडक
packing effect		सकुलन प्रभाव	paddlewheel	Geog. पैडल व्हील
			paddlung	Chem (Gl) पैडलन
			paddock	Zool., H.Sc. 1. बाहा 2. पैडक
			paddy	धान
			paddy bird	धान पक्षी

paddy blue beetle		धान नील भुंग	paha hill	Geog.	लोएस टिब्बा
paddy-cum-fish culture		धान-मीन संयुक्त संबर्धन	pahoehoe	Geol.	रज्जुलावा, पाहोइहोइ
paddy gall fly		धान पिटिका मक्खी	pahpoon	H.Sc.	पापून
paddy grasshopper		धान टिड्डा	paillet vin	H.Sc.	पेलेट विन
paddy stem borer		धान तना वेधक	pain	H.Sc.	वेदना, दर्द
paddy terracing		धान-वेदिकाकरण	painful process	Geog.	दुःखद प्रक्रम
pa-deng	Geog.	पाहेंग	paint	Chem.,H.Sc.	पेन्ट, प्रलेप
Paderson process	Chem. (Met.)	पैडसन प्रक्रम	paint deodorant		पेन्ट गंधहारक, प्रलेप गंधहारक
<i>Padina paronla</i>	Bot.	पैडाइना पैरोनिया	paint drier		पेन्ट शोपी
pading	Geog.	पैडाइनी	painted bug	Zool.	चित्रित मत्सुण
pad of cotton	Geog.	रूई-पैड	painted fabric	H.Sc.	चित्रित वस्त्र
padou	H.Sc.	पैदू	painted frieze	Geog.	रंजित चित्रवल्सरी
pad-steam process	Chem.	तल्प-माप प्रक्रम, तल्प प्रवाष्प प्रक्रम	painted lady		पेन्टेड लेडी, चित्रित तितली
paedogamous autogamy	Zool.	शावकयुग्मकी स्वकयुग्मन	painted sandgrouse	Zool.	चित्रित भटतीतर
paedogamy	Geol.	शावकीयुग्मन, पीडोगैमी	painted snipe	Zool.	चित्रित चहा
paedogenesis	Zool.	शावकीजनन	painter canvas	H.Sc.	पेन्टर कैनवास
paedogenetic		शावकीजननिक	paint pot	Geog.	पेन्ट पाँट
paedogenetic larva		शावकीजननिक डिम्बक	paint remover	Chem.	पेन्टहर, प्रलेपहर
paedomorphic change	Zool.	शावकीय परिवर्तन	paint rock	Geol.	गैरिक शैल
paedomorphic form		शावकीय रूप	"painty" flavour	Chem. (Fats)	पेन्टी सुरचिक
paedomorphic structure	Geol.	शावकरूपी संरचना	pair		युग्म, युगल
paedomorphosis	Zool.	पीडोमॉर्फोसिस, शावकांतरण	pair annihilation		युगल विलोपन, युगल विनाश
<i>Paenungulata</i> (Subungulata)	Zool.	पिनन्गुलेटा (सबअंगुलेटा)	paired		युग्मित, युगलित
pagel	H.Sc.	पैजेल	paired appendages		युग्मित उपांग, युग्मित अनुबंध
page proof	Geog.	पृष्ठ प्रूफ	paired comparison		युगलित तुलना
page test	Geol.	पेज परीक्षण	paired dorsal aorta		युग्मित पृष्ठ महाधमनी
pagoda	Geog.	पैगोडा	paired echo		युगलित प्रतिध्वनि
pagophilous	Bot.	तराइरागी, गिरिपादरागी	paired electron		युग्मित इलेक्ट्रॉन
pagophytia	Bot.	तराई समुदाय, गिरिपाद समुदाय	paired fin		युग्म पख, युग्मित पख
Pagurus	Zool.	पैगुरस	paired fin fold		युग्मित पख फुट
			paired spaces		युग्मित समष्टियां
			pair emission		युग्म उत्सर्जन
			pair formation		युग्म निर्माण

pair formation effect		युग्म निर्माण प्रभाव	<i>Palaemon idae</i>		पैलीमॉन आइडी
pairing		युगलन, युग्मन	palaeobathymetry	Geol.	पुराअनुगभीर
pairing behaviour		युग्मन व्यवहार	palaeobiogeographical map	Geog.	पुराजैवभौगोलिक मानचित्र
pairing energy		युगलन ऊर्जा	palaeobiogeography		पुराजैव भूगोल
pairing segment		युग्मन खंड	palaeobiological		पुराजैव, पुराजैविक
pair of aerials (= twin aerials = twin antenna)	Phy.	यमल ऐन्टेना	palaeobiology	Zool., Geol.	पुराजीव विज्ञान
pair of scales		तराजू	palaeobotanical	Bot	पुरावनस्पतीय, पादपात्रभूय
pair production		युगल उत्पादन	palaeobotanic evidence		पुरावनस्पतिक प्रमाण
pair spectrometer		युग्मीय स्पेक्ट्रममापी, युग्म उत्पादनी स्पेक्ट्रममापी	palaeobotanic work		पुरावनस्पतिक कार्य
pairwise comaximal ideals		युगलत. सह-अधिकतम गुणभावली	palaeobotanist		पुरावनस्पतिकज्ञ
pairwise compatible congruence		युगलत. संगत समतुल्यता	palaeobotany		पुरावनस्पति विज्ञान, पादपात्र विज्ञान
pairwise disjoint		युगलत असयुक्त	Palaeocene	Geol., Zool	पुराबूनन, पैलियोसीन
pairwise independent		युगलत. स्वतन्त्र	Palaeochiropteryx	Geol., Zool.	पैलिओकोइरोप्टेरिक्स
paisanite	Geol.	पाइसानाइट	palaeoclimate	Geog., Geol	पुरावनवायु
paisbergite	Geol.	पाइसबर्गशिट	palaeoclimatic girdle		पुराजलवायवी मेखला
Palute	Geog.	पाइयूत	paleoclimatic investigation		पुराजलवायवी अन्वेषण
Palute society		पाइयूत समाज	palaeoclimatic key		पुराजलवायवी कुञ्जी
paksol	H.Sc.	पकसोई	palaeoclimatological analysis		पुराजलवायविक विश्लेषण
paktong (from cantonese, white copper)	Chem	पैक् टॉन	palaeoclimatological data		पुराजलवायु सम्बन्धी आंकडा
palabora rock	Geog.	पैलाबोरा शैल	palaeoclimatological history		पुराजलवायु सम्बन्धी इतिहास
palace fresco	Geog.	भवन भित्तिचित्र	palaeoclimatologist		पुराजलवायुविज्ञ
Palaeartic	Geog., Zool.	पैलिआर्कटिक	palaeoclimatology		पुराजलवायु विज्ञान
Palaeartic realm		पैलिआर्कटिक परिमंडल	Palaeocordilleran mountain	Geog.	पैल्योकोर्डिलेरियाई पर्वत
Palaeartic region		पैलिआर्कटिक प्रदेश	palcocortex	Zool	पुरावन्मुट
Palaeartic sub-region		पैलिआर्कटिक उपभेद	plaeocurrent system	Geol	पुराप्राय वक्र
Palaemon	Zool.	पैलीमॉन	palaeocystocyte	Zool.	पुरापुटीअणु
<i>Palaemon carcinus</i>		पैलीमॉन कार्सिनस	Palaeodonta	Zool.	पैलिओडॉन्टा
<i>Palaemonetes</i>	Zool.	पैलीमोनेटीस	palaeoecological	Geol., Biol	युगपारिस्थितिक
<i>Palaemon fluminicola</i>	Zool.	पैलीमॉन फ्लुमिनीकोला			



palaeoecological analysis		पुरापरिस्थितिक विश्लेषण	palaeontologist		जीवाश्मविज्ञानी
palaeoecologist		पुरापरिस्थितिविज्ञ	palaeontology		जीवाश्मविज्ञान, जीवाश्मकी
palaeoecology		पुरापरिस्थितिकी	Palaeopalaemon	Geol.	पैलियोपैलीमॉन
palaeoentomology	Zool.	पुराकीटविज्ञान	palaeopallium	Zool.	पुराप्रावार
palaeogene	Geol.	पैलियोजीन	palaeopathologist	Zool.	पुरारोगविज्ञानी
palaeogeographical atlas		पुराभौगोलिक एटलस	palaeopathology		पुराविकृतिविज्ञान
palaeogeographic map		पुराभौगोलिक मानचित्र	palaeopedology	Geol.	पुरामृदाविज्ञान
palaeogeographic sea	Geog.	पुराभौगोलिक सागर	palaeophyre	Geol.	पैलियोफायर
palaeogeography		पुरामूगोल	palaeophyrite	Geol.	पैलियोफिराइट
palaeogeomorphology	Geog., Geol.	पुरामूलाकृतिकी	palaeophysiology	Geol.	पुरामूलाकृतिकी
Palaeognathae	Zool.	पैलियोगनेथी	palaeopicrite	Geol.	पैलियोपिक्राइट
palaeognathous	Zool.	आद्यहन्त्री, पैलियोगनेथस	palaeoplain	Geol.	पुरामैदान
Palaeogyrinus	Zool.	पैलियोगाइरीनस	Palaeopterygii	Zool.	पैलियोप्टेरीजाई
palaeolatitute	Geol.	पुराजशांश	palaeosalinity	Geol.	पुरालवणता
palaeoleucite	Geol.	पैलियोल्यूसाइट	palaeosols		पुरानिखात
palaeolithic	Geol.	पुरापाषाणी	palaeospecies	Zool.	पुराजाति
palaeomagnetic	Geol., Geog.	पुराचुंबकीय	Palaeospondylia		पैलियोस्पॉन्डाइलिया
palaeomagnetic data		पुराचुंबकीय डांकड़े	Palaeospondylus	Zool.	पैलियोस्पॉन्डाइलस
palaeomagnetic equator		पुराचुंबकीय त्रिपुवत वृत्त	Palaeospondylus gunni		पैलियोस्पॉन्डाइलस गनी
palaeomagnetism		पुराचुंबकत्व	palaeospongiologie	Geol.	पुरास्पंज-विज्ञान
Palaeomastodon	Zool.	पैलियोमैस्टोडॉन	palaeostriatum	Zool.	मूलरेखितपिण्ड
Palaeonectris		पैलियोनेक्ट्रिस	palaeostructure	Geol.	पुरासंरचना
Palaeonemertini	Zool.	पैलियोनेमर्टिनाइ	palaeotechnic city	Geog.	पुरातकनीकी शहर
Palaeoniscidae	Zool.	पैलियोनिस्सिडी]	palaeotechnic era		पुरातकनीकी काल
Palaeoniscoidea	Zool.	पैलियोनिस्काइडिया	palaeotechnic society		पुरातकनीकी समाज
palaeoniscoid scale		पैलियोनिस्काइड शल्क	palaeotemperature	Geog., Geol.	पुराताप, पुरातापमान
Palaeoniscus	Zool.	पैलियोनिस्कस	palaeotemperature curve		पुरातापीय वक्र
palaeontographical	Geol.	जीवाश्मवर्णनात्मक	palaeothalamus	Zool.	पुराचेतक
palaeontological	Geol., Zool.	जीवाश्मीय, जीवाश्म-	Palaeotheriidae	Zool.	पैलियोथेराइटी
palaeontological facies		जीवाश्म-संलक्षण	palaeothermometry	Geol.	पुरातापमिति
palaeontological method		जीवाश्मकीय विधि	palaeotypal	Geol.	पुराप्ररूपी
palaeontological record		जीवाश्म-अभिलेख	palaeovolcanic	Geol.	पुराज्वालामुखीय
			palaeovulkanisch	Geol.	पैलियोवल्कानिय
			palaeowind direction	Geog.	पुरावातदिशा

Palaeozoic Era	<i>Geol., Biol.</i>	पुराजीवी महान्त्य, पैलियोजोइक महाकल्प	palatine tooth		तालव दंत
Palaeozoic floor		पुराजीवी सतह, पैलियोजोइक सतह	palato-basal articulation	<i>Zool.</i>	तालु, आघार मधि
Palaeozoic period		पुराजीवी काल, पैलिजोइक काल	palato-basal process		तालु-आघार प्रवर्ध
Palaeozoic stem		पुराजीवी तना	palatopterygoid	<i>Zool.</i>	तालवप्लगिका
Palaeozoic temperature	<i>Geog.</i>	पुराजीवी ताप, पुराजीवी तापमान	palato-pterygo quadrate bar		तालु-प्लगिक-प्रलव दंड
palaeozoogeographic data	<i>Geog.</i>	पुराप्राणिभौगोलिक आकडे	palato-quadrate	<i>Zool.</i>	तालव-प्रलव, पैनेटोक्वाड्रेट
palaeozoological evidence	<i>Geog.</i>	जीवाश्म प्राणिविज्ञानी प्रमाण	pale (=palea)	<i>Bot.</i>	पैल, शक्तिका
palaeozoology	<i>Geol., Zool.</i>	क्रॉनिल-प्राणिविज्ञान, प्राणिअश्मविज्ञान	pale (colour)	<i>Chem.</i>	श्रीका
palagonite	<i>Geol.</i>	पैलैगोनाइट	palea	<i>Bot.</i>	पैलिया, शक्तिका
palagonite breccia		पैलैगोनाइट सकोणाश्म	paleobiochemistry		पुराजीवरासायन
palagonite-tuff		पैलैगोनाइट-टुफ	paleobotanical criteria	<i>Bot.</i>	पुराजनस्पति निकष
palagonitization		पैलैगोनाइटमीभवन	paleoclimatological	<i>Bot.</i>	पुराजलवायव
palalo worm	<i>Zool.</i>	पैलेलो कृमि	paleoclimatology		पुराजलवायु विज्ञान
palanthropic	<i>Geol.</i>	पूर्वमानव युगीन	paleoecology	<i>Bot., Zool.</i>	पुरापारिस्थितिकी
<i>Palaquum ellipticum</i>	<i>Bot.</i>	पैलेक्विब्रम इलिप्टिकम	paleoenvironmental factor	<i>Bot.</i>	पुरावातावरणी कारक
palasome	<i>Geol.</i>	पैलासोम	paleogeographic distribution	<i>Geol.</i>	पुराभूगोलिक वितरण
palatability	<i>Zool.</i>	खाद्यता	paleogeography		पुराभूगोल
palatable	<i>H. Sc.</i>	स्वादु, स्वादु	paleogeologic maps	<i>Geol.</i>	पुराभूवैज्ञानिक मानचित्र, पुराभूवैज्ञानिक नक्शा
palatable fish	<i>Zool.</i>	खाद्य मीन	paleogeology		पुराभूविज्ञान
palatal	<i>Phy., Zool.</i>	तालव्य, तालु	paleomagnetic	<i>Bot.</i>	पुराचुंबकीय
palatal consonant		तालव्य व्यंजन	paleomorphous	<i>Geol.</i>	पुरारूपी, आदिमरूपी
palatal region		तालु-क्षेत्र	paleo-temperature scale	<i>Chem. (Nucl.)</i>	पुरा-तापक्रम
palatal ruga		तालु बनि	paleotypal	<i>Geol.</i>	पुरारूपी
palatal vacuity		तालु कुहर	paleovolcanic rock	<i>Geol.</i>	पुराश्वालामुखीय शैल
palate	<i>Bot. H. Sc., Zool.</i>	अधरिका तालु, पैनेट	paleovolcanism		पुराश्वालामुखी क्रिया
palatine	<i>Zool.</i>	तालव, पैलेटाइन	Paleozoic group	<i>Bot., Zool.</i>	पुराजीवी वर्ग
Palatine fast		पैनेटाइन फास्ट	pale skinned	<i>Geog.</i>	पाइकण
palatine nerve		तालु तंत्रिका	palet	<i>H. Sc.</i>	पैनेट
palatine process		तालव प्रवर्ध	palethaologist	<i>Geog.</i>	पुरामानवजाति विज्ञानी
palatine tonsil (faucial tonsil)		तालु-मलनुडिका तालु-टॉन्सिल	palette	<i>Geol.</i>	पैनेट
			paletteknife	<i>H. Sc., Geog.</i>	बेघार चाकू
			Palgrave's index	<i>Math.</i>	पानप्रेव-सूचकांक

pali	Zool., Geol.	तनुकटक	pallet	Zool.	प्रपट्टिका
palid	Chem. (Met.)	पैलिड	pallcus	Bot.	पीताम्भ, पीतवर्णी
palimpsest structure	Geol.	मूलावशेषी संरचना	pallial	Zool., Geol.	प्रावार
paling	Geog.	घेरा, घेरावन्दी	pallial cavity		प्रावार गुहा
palingenesis	Geol., Zool.	पुनर्भवन, पैलिनजेनेसिस	pallial circulation		प्रावार परिसंचरण
palingenetic character		पुनर्भूत लक्षण	pallial complex		प्रावार अंगसमूह
paligenetic traits		पुनर्भूत विशेषक	pallial cortex		प्रावार-बल्कुट
palingenic magma		पुनर्भूत मैग्मा	pallial ganglion		प्रावार गुच्छिका
Palingeniidae	Zool.	पैलिनजेनाइडी	pallial groove		प्रावार खांच
palinspastic	Geol.	पुराकृष्ट	pallial line		प्रावार रेखा
Palinurus	Zool.	पैलीन्यूरस	pallial mucous-gland		प्रावार श्लेष्म-ग्रन्थि
palisade	Geog.	घेरा	pallial muscle		प्रावार पेशी
palisade tissue	Biol.	खंभ ऊतक	pallial nerve		प्रावार तंत्रिका
palisade trachea	Zool.	खंभ श्वासनली, खंभ वातक	pallial sinus		प्रावार कोटर
palisadotrichoderm		खंभ रोमत्वक	pallial siphon		प्रावार साइफ़न, प्रावार विनाल
palitentin	Chem.	पैलिटैन्टिन	palliative	Geog.	उपशामक
pall	H.Sc.	पाल	pallid		पांढू
palladate	Chem.	पैलेडेट	palliovisceral	Zool.	प्रावारांतरंग (प्रावार- अंतरंग)
palladimised asbestos	Chem.	पैलेडियमित ऐस्बेस्टॉस	palliovisceral commissure		प्रावारांतरंग संघायी
palladised charcoal		पैलेडियमित कोयला	palliovisceral lobe		प्रावारांतरंग पालि
palladite	Chem.	पैलेडाइट	pallium	Zool.	प्रावार, पैलियम
palladium	Chem., Geol.	पैलेडियम	Pallman effect	Chem.	पाल्मन प्रभाव
palladium-amalgam		पैलेडियम अमलगम	pallor	Bot.	पीतामता
palladium black		पैलेडियम ब्लैक, पैलेडियम कज्जल	palm	Geog., Bot. H.Sc., Zool.	ताल, ताड़ हथेली, करतल
palladium gold		पैलेडियम स्वर्ण	palma	H.Sc.	पाल्मा
palladous	Chem.	पैलेडस	Palmae	Bot.	पामी
palladous oxide		पैलेडस ऑक्साइड	palman	Bot.	करतल
pallaplat thermocouple	Chem.	पैलेप्लैट तापीययुग्म	palmar	Zool., Geol.	करतलोय
pallas	H.Sc.	पैलास	palmarosa oil	Chem.	पामरोजा तेल
Pallas fishing eagle	Zool.	पैलास मत्स्य उकाव	palmate	Bot.	हस्ताकार
pallas iron (=pallasite)	Geol.	पैलासाइट	palmate nucleus	Zool.	हस्ताकार केन्द्रक
pallasite		पैलासाइट	palmatiffid	Bot.	दीर्घ हस्ताकार
Pallavicinia	Bot.	पैलावीसीनिया	palmatiffidus		दीर्घ हस्ताकार
			palmatiform	Bot.	हस्ताकार
			palmatipartite		दीर्घतर हस्ताकार

palmatisect		दीर्घतमहस्ताकार	palparium	Zool.	स्पर्शबाधार
palm beach	H.Sc.	पाम बीच	palpation	H.Sc.	परिस्पर्शन
palm civet	Zool.	ताइ-गघमाजार्	palpicorn	Zool.	धृगस्पर्शक
palmella stage	Bot Zool.	श्लेष्मत्प्लता पाल्मेला अवस्था	palpifer	H.Sc., Zool.	पैल्पिफर
palmelloid	Bot	श्लेष्मस्यताम, पैल्मेलाभ	palpiform	Zool.	स्पर्शरूप
Palmen's organ	Zool.	पाल्मेन अंग, पामेन अंग	palpiger	Zool.	पैल्पिग्र
palmerite	Geol	पामेराइट	Palpigradi	Zool.	पैल्पिग्रेडी
palmer scan	Phy	पामर क्रमवीक्षण	palp lamella	Zool.	स्पर्शक पटल
palmette	H Sc.	पैल्मेट	palpocil	Zool.	स्पर्शप्रवर्ध
palmetto	Geog, H Sc.	1 लघुताइ 2 पैल्मटो	palpognath	Zool.	स्पर्शकहनु
palmetto barren		लघुनाडु बजर	palpon	Zool.	स्पर्शजीवक
palm fiber	H Sc.	ताइ रेशा	palp proboscis		स्पर्शक शूडिका
palm grove	Geog.	ताइ उपवन	palpus	Zool.	स्पर्शक
palmiferous	Bot	ताइघर	Palsa		पाल्सा
palmilla	H Sc.	पैल्मिना	palsen		पाल्सेन
<i>Palmipes sarasini</i>	Zool.	पैल्मिपेस सैरासिनी	palsy	H Sc.	अंगघात
palmitate	Chem.	पामिटेट	paludal	Bot., Geol.	कच्छीय
palmitic acid		पामिटिक अम्ल, पामिटिक ऐसिड	paludal environment		कच्छीय वातावरण
palmitin	Chem., H Sc.	पामिटिन	paludicole	Zool.	कच्छचर
palmitoleic acid	Chem.	पामिटोनिडक ऐसिड, पामिटोनिडक अम्ल	paludicolous		कच्छवासी
palmskerneloil	Chem.	ताइ गरी-तैल	Paludina	Zool.	पैलूडिना
palm oil	H.Sc.	ताइ तेल	paludose	Bot.	कच्छीय
palm rib arrow	Geog	धमड शिरा बाण	paludrine	Chem	पैलूड्रीन
palm swift	Zool	ताल बनासी	palus		पैलस
palm weevil	Zool.	ताल धुन	palustris	Bot.	कच्छीय
palm wine	H Sc.	ताइ मदिरा	palygorskite	Geol., Geog.	पैलिगोर्स्कॉइट
palmyra	Geog., H.Sc.	पश्चिमा ताइ	palyrogram		परामाणु आरेख
palmyrene	H.Sc.	पैल्मरीन	palyrnology	Geog., Geol, Bot.	परामाणु विज्ञान
palomino breed	Zool.	पालोमिनो नस्ल	Palythoa	Zool.	पैलीथोजा
Palo-Tarvis analyser	Chem.	पालो-टार्विस विश्लेषित्र	P.A.M. (pulse amplitude modulation)	Phy.	स्पड आयाय मोड्यूलन
palp	Geol, H Sc, Zool.	स्पर्शक	pamaquin (plasmochin)	Chem.	पैमाक्विन
palpable	Geol.	स्पर्शयं	paradalus	Chem.	पम्बालस
palp appendage	Zool	स्पर्शक उपांग	pamir	Bot.	पामीर
			pampa	H.Sc.	पाम्पा
			pampas	Bot.	पैम्पस

Pampa track	Geog.	पैम्पा मार्ग	panchrom	Phy., Chem.	पैनक्रोम, सर्ववर्णीय, सार्ववर्ण
pampero	Geog.	पैम्पेरो	panchromatic (=photographic film)		सार्ववर्णी, पैनक्रोमैटिक
pamphlet	Geog.	पैम्पलेट, पुस्तिका, चौपन्ना	panchromatic emulsion		पैनक्रोमैटिक इमल्शन
pampiniform	Bot.	प्रतानरूप	panchromatic plate	Geog.	पैनक्रोमैटिक प्लेट
pampinus		प्रतान	panclimax	Bot.	सार्व चरम
pamproctyle	Zool.	अग्रांगुलिका	pan conveyors	Geol.	पात्र संवाहक
Pampus	Zool.	पैम्पस	pan cooler	Geol.	पैन कूलर
<i>Pampus argenteus</i>		पैम्पस अर्जेन्टियस (सरंग)	Pancreatium		पैनक्रेशियम
<i>Pampus chinensis</i>		पैम्पस चाइनेन्सिस (श्वेत पॉम्फ्रेट)	pancreas	Zool., H.Sc.	अग्न्याशय
pamut	H.Sc.	पैमट	pancreatic		अग्न्याशयी
Pan	Zool.	पैन	pancreatic appendage		अग्न्याशयी उपांग
pan	Phy.	पलड़ा	pancreatic duct		अग्न्याशय वाहिनी
	Chem.	कटाह, कड़ाह, तसला	pancreatic fibrosis		अग्न्याशयी तन्तुमयता
	Geol.	दृढ़पटल	pancreatic secretion		अग्न्याशय स्राव
	H.Sc., Geog.	पात्र	pancreatin	Chem.	पैनक्रियाटिन
pana	H.Sc.	पाना	pancreatitis		अग्न्याशयशोथ
panada	H.Sc.	पनाडा	pancreatropic	Chem.	अग्न्याशयवर्ती
panama	H.Sc.	पानामा		Zool.	अग्न्याशयप्रेरक
panama canvas		पानामा कैनवस	pancreozyme	Chem.	पैनक्रियोजाइम
Panama disease		पानामा रोग	pancreozymin		पैनक्रियोजाइमिन
Panamanian national policy	Geog.	पानामाई राष्ट्रीय नीति	panda (cat bear)	Zool.	पंडा
panama weave		पानामा बयन	Pandanaceae	Bot.	पेन्डेनेसी
Pan American Airways	Geog.	पैन अमेरिकन एयरवेज	Pandanales		पेन्डेनेलीज
Pan Americanism	Geog.	पैन अमेरिकीवाद	Pandanus		पेन्डेनस (केवडा, केतकी)
<i>Panara mathias</i>	Zool.	पानारा माथियास	<i>Pandanus fascicularis</i>		पेन्डेनस फासीकुलेरिस (केवडा, केतकी)
pan arrest	Chem.	पैन अवरोध	<i>Pandanus utilis</i>		पेन्डेनस युटिलिस
panautomorphic	Geol.	पूर्णस्वरूपी	panemic	Zool., Bot., Geog.	सर्वव्यापी
panautomorphic-granular		पूर्णस्वरूपी कणिकामय	pandermite		पेन्डर्माइट
pan-brake	Chem.	पैन ब्रेक	Pandorina	Zool.	पेन्डोरिना
pancake	H.Sc.	पैनकेक	pandurate	Bot.	वायलिनरूपी
pancake coil	Phy.	दोसाकृति कुंडली	panduriform	Zool.	वायलिनरूपी
pancake ice	Geog.	पैनकेक बर्फ	pandy	Geog.	पंडी
pancake shaped	Phy.	दोसाकृति, सपाट चक्री	panecia	H.Sc.	पैनसिया

panel	<i>Geog., Phy. H Sc.</i>	पैनल, प्रपट्ट, कस्ती (clothing)	panne	<i>Bot., H Sc.</i>	पैन
panel test		पैनल परीक्षण, प्रपट्ट परीक्षण	panne satin	<i>H Sc.</i>	पैन साटन
panel vibration		पैनल कंपन, पट्ट कंपन	panneveld	<i>Geog.</i>	पैनवेल्ड
Paneth adsorption rule	<i>Chem.</i>	पैनैथ अवशोषण नियम	pannevelvet	<i>H Sc.</i>	पैन मखमल
Paneth cell	<i>Zool.</i>	पैनैथ कोशिका	pannikin	<i>H Sc.</i>	फटोरी
Paneth-Fajans-Hahn adsorption rule		पैनैथ-फायान्स-हान अवशोषण नियम	panning	<i>Geol.</i>	1 पछोरना 2 अमिनमन
Paneth-Rice mirror technique	<i>Chem.</i>	पैनैथ-राइस दर्पण तकनीक	pannosus	<i>Bot.</i>	नमदासम
Paneth technique		पैनैथ तकनीक	panoistic ovariole	<i>Zool.</i>	अपोपी अण्डाणुक
pang	<i>H Sc.</i>	पैंग	panoistic type		अपोपी प्रकार
pangalo	<i>H Sc.</i>	पैंगालो	Panopeus	<i>Zool.</i>	पैनोपियस
pangamy	<i>Biol.</i>	यद्गुच्छा संगमन	panorama	<i>Geog.</i>	विशाल दृश्य, विराट दृश्य
pangas	<i>Zool.</i>	पगास	panoramic	<i>Phy.</i>	परिदृश्य
Pangasius pangasius	<i>Zool.</i>	पैंगोसिअस पैंगोसिअस (पगास)	panoramic camera	<i>Geog.</i>	विशालदर्शी कैमरा
pangene	<i>Zool.</i>	पैन्जीन	panoramic effect		विशालदर्शी प्रभाव
pangensis	<i>Zool.</i>	पैन्जीनवाद	panoramic receiver		परिदृश्य अमिग्राही
Pan Germanism	<i>Geog.</i>	पैन जर्मनीवाद	panoramic section		विशालदर्शी सेक्शन, विशालदर्शी काट
pangli	<i>H Sc.</i>	पैंगलिन	Panorpa	<i>Zool.</i>	पैनोर्पा
pangolin	<i>Zool.</i>	बज्रशल्क, पैंगोलिन	Panorpidae	<i>Zool.</i>	पैनोर्पिदी
Panicaceae	<i>Bot.</i>	पैनिमी	pan pipe	<i>Phy.</i>	पैनपाइप
panicle	<i>Bot.</i>	1. पुष्पगुच्छ 2. यौगिक अमीमाक्ष	panplation	<i>Geog.</i>	नदी-समतलन
paniculate		1. पुष्पगुच्छी 2. यौगिक अमीमाक्षी	pan plane		पैन-प्लेन
paniculiform		पुष्पगुच्छरूपी	panporate	<i>Bot.</i>	सर्वमुखकी
panidiomorphie	<i>Geol.</i>	पूर्णस्वरूपी, सर्वस्वरूपी	pan-proofing	<i>Chem. (Food)</i>	कटाह-सहन
panleucopenia	<i>Zool.</i>	पूर्णरक्ताणुहीनता	panqueque	<i>Geol.</i>	पैक्वेक
panmictic	<i>Zool.</i>	परामिश्रित, सार्वमिश्रित	pansporoblast	<i>Zool.</i>	सर्वबीजाणुकोरक
pan mill	<i>Geol.</i>	पैन मिल	panstop	<i>Chem.</i>	पैन रोध
panmixia	<i>Biol.</i>	यद्गुच्छा संगमन	Pansylvanian oil	<i>Chem.</i>	पैनसिल्वानियन तैल
panmixis	<i>Zool.</i>	सार्वमिश्रण, परामिश्रण	pantachromism	<i>Chem.</i>	मानवर्णन, पैंटाक्रोमिज्म
pannage	<i>Geog.</i>	पैन्निज, शूकर चारण	pantacronematic flagellum	<i>Zool.</i>	पैंटाक्रोनिमैटिक कशाप
Pannariaceae	<i>Bot.</i>	पैन्नेरिएसी	pantal	<i>Chem. (Met)</i>	पैंटल
			pantanal	<i>Geog.</i>	पैंटानल
			pantano	<i>Bot.</i>	पैंटानो

pantellerite	Geol.	पैन्टेलैराइट	Papaverales	Bot.	पैपैवरेलीज
pantethein	Chem.	पैन्टिथीन	papaverine	Chem.	पैपैवीरोन
pantheon	Geog.	देवकुल	papaverinic acid		पैपैवरिनिक अम्ल
Panthera	Zool.	पैन्थेरा	papaverinol	Chem.	पैपैवरिनॉल
<i>Panthera leo-persica</i>		पैन्थेरा लिओपर्सिका (शेर, सिंह)	papaveroline	Chem.	पैपैवीरोलीन
<i>Panthera pardus</i>		पैन्थेरा पार्डस (तेंदुआ, चीता)	<i>Papaver somniferum</i>	Bot.	पैपैवर सोम्नीफेरम (पोस्ता)
<i>Panthera tigris</i>		पैन्थेरा टाइग्रिस (बाघ)	papaya	H.Sc.	पपीता
Pantodonta	Zool.	पैन्टोडॉन्टा	papayacin	Bot.	पैपायासिन
pantograph	Chem., Phy.	पैन्टोग्राफ	papaya juice	Chem., H.Sc.	पपीता रस
pantoic acid	Chem.	पैन्टोइक अम्ल	papayotin	Bot.	पैपेयोटिन
pantonematic flagellum	Zool.	पैन्टोनिमैटिक कशाभ, सर्वसूत्री कशाभ	paper chromatography	Chem.	कागज वर्णलेखी विज्ञान, कागज वर्ण लेखन
pantophagous	Zool.	सर्वभक्षी	paper coal	Geol.	पत्रक कोयला
pantopod	Zool.	पैन्टोपॉड	paper condenser		कागजी संघारित्र
Pantopoda	Zool.	पैन्टोपोडा	paper disc method		कागज चक्रिका विधि
pantothenic acid	Chem., Zool.	पैन्टोथेनिक अम्ल	paper fabric	H.Sc.	कागज-वस्त्र
Pantotheria	Zool.	पैन्टोथीरिया	paper hanger		कागज हूंगर
pantoyltaurine	Chem.	पैन्टॉइल टॉरीन	paperlined box car		कागज स्तरित पेटिका यान
pantropic	Zool.	सर्वानुवर्ती (विषाणु)	paper mosaic	Geog.	पेपर मोजेक
pantropical	Bot.	सर्वारूपण कटिवंधी	paper muslin	H.Sc.	पेपर मञ्जलिन
pantropic region	Geog.	पैन्ट्रॉपिक प्रदेश	paper nautilus	Zool., Geol.	पत्र नाँटिलस
pantropic virus	Zool.	सर्वानुवर्ती विषाणु	paper pattern	H.Sc.	कागज नमूना
pantropism	Zool.	सर्वानुवर्तन	paper pulp		पत्र लुगदी, कागज लुगदी
pantry	H.Sc.	घाद्य कक्ष	paper shale	Geol.	पत्रक शैल
<i>Panulirus dasyopus</i>	Zool.	पैन्युलिरस डैसीपस	paper spar	Geol.	पेपर स्पार
<i>Panulirus ornatus</i>		पैन्युलिरस ऑर्नेटस	paper taffeta	H.Sc.	कागजी टैफेटा
<i>Panulirus versicolor</i>		पैन्युलिरस वर्सिकलर	paper tape		कागज फीता
panung	H.Sc.	पानुंग	papertape reader	Phy.	कागजी-टैप पठित्र
papagayo	Geog.	पापागावो (तीव्र शीतल पवन)	paper technology		कागज शिल्प
papain	Chem.	पपैन	papery	Geol.	1. (adj.) पत्रित 2. पत्रविदली (scale of fissility)
papainase	Chem.	पपेनेस	paper yarn	H.Sc.	कागज मूत्र
Papaveraceae	Bot.	पैपैवरेसी	<i>Paphia malabarica</i>	Zool.	पैफिआ मालाबारिका
papaveraldine	Chem.	पैपैवरेलडीन	<i>Paphia marmorata</i>		पैफिआ मरमोरेटा
			papier mache	Chem.	पैपियर माशे, पत्रपत्र

Papilio	Zool	पैपिलिओ	<i>Papulospora mytilina</i>	Bot	पैपुलोस्पोरा मिटिलाइना
<i>Papilio buddha</i>		पैपिलिओ बुद्धा	papulo-vesicular	Zool	विण्पलाशयी
papilioform	Zool	त्रितलीरूप	papyraceous	Geol	पत्रकी
<i>Papilio krishna</i>		पैपिलिओ कृष्णा	papyrus	H Sc.	पपाइरम
papilionaceous	Bot.	मटरकुलीय, पैपिलियोनेटीय	papyrus reed	Geog.	पपाइरस रीड
Papilionatae		पैपिलियोनेटी	para aldehyde	Chem	पैराएल्डिहाइड
Papilionidae	Zool	पैपिलिओनिडी	parabanic acid	Chem.	पैराबैनिक अम्ल
<i>Papilio tamulana</i>	Zool	पैपिलिओ तमिलाना	parabasal	Zool	पैराबेसल, परावार
<i>Papilio varuna</i>		पैपिलिओ वरुणा	parabasal apparatus		पराधार उपकरण
papilla	Geog, Zool	विण्पल, अकुरक, पैपिला	parabasal body		पराधार काय
papilla basilaris	Zool.	बाधादीय पैपिला	parabasal fiber		पराधार तन्तु
papillae of dermis	H Sc	त्वचा अकुरक	parabiosis	Zool	सयुक्तजीवन
papillar		पैपिली	parabiotic		सयुक्तजीवी
papillary muscle	Zool.	पैपिली पेशी	parabiotic twins		सयुक्तजीवी यमज
papillary nerve		पैपिली तंत्रिका	parabola	Math, Phy	परवलय, पैराबोला
papillary ridge	Zool	पैपिलरी कटक	parabola method		परवलय विधि
papillate	Bot, Zool	पैपिलामय, विण्पलमय	parabolic		परवलयिक, पैराबोलीय
papillate podium	Zool	शिपनी पद	parabolic arch		परवलयिक तोरण
papilliferous	Bot	पैपिलधर	parabolic convexity		परवलयिक अवमुखता
papilliform	Bot, Zool	पैपिलरूपी, शिपलरूप	parabolic coordinates		पैराबोलिक निर्देशांक, परवलयी निर्देशांक
papilloid	Bot, Zool	पैपिलाम, शिपलाम	parabolic cylinder function		परवलयिक बेलन फलन
papilloma	Zool.	विण्पलाबुंद, पैपिलोमा	parabolic cylindrical coordinates		परवलयिक बेलनी निर्देशांक
papilloma virus		शिपलाबुंद विषाणु	parabolic differential equation		परवलयिक अवकल समीकरण
papillose	Bot	पैपिलामय	parabolic drag polar		परवलयिक कर्षण ध्रुवी
Papin's digester	Chem.	पैपिन सहाचित्र	parabolic dune		परवलयिक टिम्ब्रा
Papio	Zool.	पैपिओ	parabolic element		परवलयिक अवयव
Papkovich Neuber solution	Math.	पैकोविच नायबर हल	parabolic funicular		परवलयिक रज्जु बद्धमुख
papova virus	Zool.	पैपोवा वाइरस, पिक्वा- विषाणु	parabolic geometry		परवलयिक ज्यामिति
pappus	Bot	रोम-गुच्छ	parabolic interpolation		परवलयिक अन्तर्वेशन
paprika	H.Sc.	पैपिक्का	parabolic mirror		परवलयिक दर्पण
Papuan	Geog	पैपुअन	parabolic motion		परवलयिक गति
papularium	Zool	त्वचाकन्वोमरुपल	parabolic path		परवलयिक पथ
papule	Zool.	पिष्टिक			
Papulospora	Bot	पैपुलोस्पोरा			



parabolic point		परवलयिक बिन्दु	paracil	Chem.	पैरासिल
parabolic projector		पैराबोलीय प्रोजेक्टर, परवलयिक प्रक्षेपक	paracineta stage	Zool.	पैरासिनेटा अवस्था
parabolic rule		परवलयिक नियम	paraclase	Geol.	भ्रंश
parabolic spiral		परवलयिक सर्पिल	Paraclepsis	Zool.	पैराक्लेप्सिस
parabolic traces		परवलयिक आरेख	paraclypeus	Zool.	परामुखपालि, पराक्लिपियस
parabolic trend		परवलयिक उपनति	paracme	Geol.	पराकाप्सोत्तर
parabolic velocity		परवलयिक वेग	paracoele	Zool.	पैरासील, पाश्वर्गुहा
paraboloid		परवलयज, पैराबोलॉइड	<i>Paracolobactrum arizonae</i>	Bot.	पैराकोलोबैक्ट्रम ऐरिजोनी
paraboloidal mirror	Phy.	परवलयिक दर्पण, पैराबोलाइडी दर्पण	paracompactness	Math.	अनुसंहतता
paraboloid of revolution	Math.	परिक्रमण-परवलयज	paracompact space		अनुसंहत समष्टि
parabrake (=brake- parachute)	Phy.	ब्रेक पैराशूट	paracone		अग्रशंकु
parabranchia	Zool.	पराब्रंचोम	paraconformity	Geol.	परिविन्यास
parabronchus	Zool.	पाश्वर्श्वसनी	paraconglomerate	Geol.	पैरासंगुटिकाग्रम
paracardo	Zool.	पैराकार्डो, पाश्वर्वाधार कठक	paraconic acid	Chem.	पैराकॉनिक अम्ल
paracarpium	Bot.	परांडप	paracorolla	Bot.	दलपुजोपांग
paracarpous	Bot.	समेक कोष्ठकी	paracortex	Bot.	पैराकॉर्टेक्स, पराबल्कुट
paracentric inversion	Zool.	पराकेन्द्री प्रतिलोमन	paracotton	H.Sc.	पैराकपास
Paracentrotus	Zool.	पैरासेन्ट्रोटस	paracrystal	Chem.	पैराक्रिस्टल
parachaetial bract	Bot.	स्त्रीसहपत्र	paracrystalline	Geol.	सहक्रिस्टलीय
parachomata	Geol.	पैराकोमैटा	paracrystalline deformation		सहक्रिस्टलन विरूपण
parachor	Chem.	पैराकोर	paracyanogen	Chem.	पैरासायनोजन
parachor anomalies		पैराकोर असंगति	Paracyclotossaurus	Zool.	पैरासाइक्लोटोसॉरस
parachorda	Zool.	पाश्वरञ्जु	paracytic type	Bot.	पराकोशिक प्ररूप
parachordal		पाश्वरञ्जु	paradelta	Geog.	पैराडेल्टा
parachordal cartilage		पाश्वरञ्जु उपास्त्रि	paradichlorobenzene	Zool.	पैराडाइक्लोरोबेंजीन
parachromophorous	Bot.	भित्तिकवर्णकधारी	paradidymis	Zool.	पराद्विपण
parachrosis	Geol.	विरंजन	Paradiscidae	Zool.	पैराडिस्सीडी
parachute	Phy.	अवतरण छत्र, पैराशूट	paradise fly catcher	Zool.	पैराडाइज फ्लाईकैचर, रञ्जुनाल मक्षिकाश
parachute fabric		पैराशूट वस्त्र	paradorsal muscle	Zool.	परापृष्ठ पेशी
parachute flight (passive flight)		पैराशूट उड़ान (निष्क्रिय उड़ान)	<i>Paradoseurus hermaphroditus</i>	Zool.	पैराडोस्यूरस हर्मफ्रोडाइटस
parachute mechanism		पैराशूट विधि	paradox	Math.	विरोधाभास
parachute movement		अवतरण-छत्र गति, पैराशूट गति	paradoxial feature	Geog.	विरोधाभासी लक्षण
			paradoxial race		विरोधाभासी प्रजाति
			paradoxial situation		विरोधाभासी स्थिति

paraelectric cooling	Phy.	अनुवैद्युत शीतलन, परवैद्युत शीतलन	Paragonimus	Zool.	पैरागोनिसस
paraffin	H Sc., Geol., Chem	पैराफिन	paragonite	Geol	पैरागोनाइट
paraffin-base crude	.	पैराफिन आधारित कच्चा तेल, पैराफिन आधारित कूड	paragonite-schist		पैरागोनाइट शिस्ट
paraffin-base petroleum		पैराफिन आधारित पेट्रोलियम	paragynous	Bot	परिजायायी
paraffin butter		पैराफिन बटर	parahemizonid	Bot	पराहेमिजोनि
paraffin chain salt		पैराफिन श्रृंखला लवण	Parahippus	Zool	पैराहिप्पम
paraffin coal		पैराफिन कोयला	parahormone	Zool	पैराहार्मोन
paraffin duck		पैराफिन ढक	parahydrogen	Chem	पैराहाइड्रोजन
paraffin fluxes		पैराफिन फ्लक्स	Parajapyx	Zool	पैराजैपिक्स
paraffinic		पैराफिनिक, पैराफिनो	parakeet	Zool	पैराकीट, तोता
paraffin infiltration		पैराफिन अंतःस्पर्दन	paralectotype	Zool	परानुप्ररूप
paraffin scale		पैराफिन शल्क	paraliageosyncline	Geol	तटस्थि भूअभिनति
paraffin slack wax		पैराफिन कच्चा मोम	paralic	Geol	तटाचली
paraffin wash		पैराफिन धावन, पैराफिन धुलाई	paralic sedimenta- tion		तटाचली अवसादन
paraffin wax	Geol.	पैराफिन मोम	paralique	Geol	तटाचली
para fiber	H Sc	पैरा रेशा	parallactic	Math, Geog	सन्निक
parafibula	Zool	पराबहिर्जंघिका, पैराफिबुला	parallactic angle		दिग्भेद कोण
paraflagellar body	Zool.	पराकशाभी दिंड	parallactic displacement		सन्निक विस्थापन
parafflux	Chem (Rub)	पैराफ्लक्स	parallactic equation		सन्निक समीकरण
paraform		पैराफॉर्म	parallactic inequality		सन्निक असमता
paragaster	Zool.	पराजठर	parallactic inequality of moon		चंद्रमा की सन्निक असमता
paragastric cavity	Zool.	अठरात्र गुहा	parallactic motion		सन्निक गति
parageneon	Bot.	पराजनित्रांन	parallax	Phy.	सन्न, पैरेलैक्स
paragenesis	Bot., Geol., Zool.	1. क्रमिक महजनन 2. पराजनन	parallax factor		सन्न उपादान
parageosyncline	Geog, Geol	गोण भूअभिनति	parallax-measurement	Phy.	सन्न माप
paraglossa	Zool, H.Sc	पारवैजिह्विका, पैराग्लोसा	parallel	Math, Phy.	समान्तर
paraglycogen	Zool.	पैराग्लाइकोजेन	parallel access	Phy, Math.	सुगुण् अभियाम
paragnath	Zool, Geol.	पराहनु	parallel-access media		सुगुण् अभियाम माध्यम
paragnathous	Zool.	समहन्वी	parallel adder		समान्तरी मफलक
paragnaths		पराहनु	parallel axis theorem		समान्तर अक्ष प्रमेय
paragneiss	Geol.	अवसादी नाइस, पैरागनाइस	parallel banded		समान्तर पट्टित
			parallel beam		समान्तर किरणपुंज
			parallel circuit	Phy.	पार्व परिपथ
			parallel cleavage		समान्तर विरचन

parallel connection		पार्श्व संबंधन	parallel of latitude	<i>Geog., Math.</i>	अक्षांश समान्तर, अक्षांश वृत्त
parallel contouring		समान्तर समोच्चन	parallelogram	<i>Math.</i>	समांतर चतुर्भुज
parallel curves		समांतर वक्र	parallelogramical		समान्तरचतुर्भुजीय
parallel determination	<i>Chem.</i>	समान निर्धारण	parallelogram of acceleration		त्वरण समांतरचतुर्भुज
parallel displacement		समान्तर विस्थापन	parallelogram of forces		बल-समांतरचतुर्भुज
parallelepiped		समांतर पट्टफलक	parallelogram of velocities		वेग-समांतरचतुर्भुज
parallelepiped of acceleration	<i>Math.</i>	त्वरणसमांतर पट्टफलक	parallel operation		पार्श्व प्रचालन
parallelepiped of forces		बल समांतरपट्टफलक	paralleloiped		समांतर पट्टफलक
parallel evolution		समांतर विकास	parallelotope		अर्धगुणोत्तर समांतरफलक
parallel excitation		समांतर उत्तेजन	parallel pattern		समांतर प्रतिमान
parallel extinction		समांतर विलोप	parallel phenomenon		समांतर परिघटना, समांतर तथ्य
parallel fault		समांतर भ्रंश	parallel plane tube		समांतर तल नलिका
parallel feed amplifier		पार्श्व निवेशी प्रवर्धक	parallel plate		समांतर पट्टिका
parallel flow		समांतर प्रवाह	parallel plate chamber		समांतर पट्टिका कोष्ठ
parallel flow drier		समान्तर प्रवाह शुष्कित्र	parallel plate wave guide		समांतर पट्टिका तरंग पथक
parallel flow drying		समान्तर प्रवाह शुष्कन	parallel polymorphism	<i>Chem.</i>	सम-बहु रूपता
parallel fold		समांतर बलन	parallel rectilinear vortices		समांतर ऋजुरेखीय घ्रमिल
parallel folding		समान्तर बलन	parallel resonant circuit		पार्श्व अनुनादी परिपथ
parallel forces		समान्तर बल	parallel retreat of slope		समांतर ढाल निवर्तन
parallel growth		समांतर वृद्धि	parallel rule		समान्तर रेखक
parallel hemihedron		समांतर अर्धफलक	parallels		समान्तरक
parallelism	<i>Math.</i> <i>Bot.</i>	समांतरता अनुरूपता	parallel screw dislocation		समान्तर स्क्रू प्रभंश
parallelizable manifold		समांतरणीय प्रसमष्टि	parallel side		समान्तर किनारा
parallel light		समांतर प्रकाश	parallel spin	<i>Phy.</i>	समदिश प्रचक्रण
parallel line assay		समांतर रेखीय आमापन	parallel stations		समांतर केन्द्र
parallel mean flow		समांतर माध्य प्रवाह	parallel tabular		समांतर सपाट
parallel meridian system		समान्तर याम्योत्तर पद्धति	parallel unconformity		समानांतर विपमविन्यास
parallel movement		समांतर गति	parallel venation		समांतर शिरा विन्यास
parallel nicols		समांतर निकल	paralyser	<i>Bot.</i>	निरोधकर
parallelodromous venation		समांतर शिराविन्यास			
parallel of declination	<i>Geog., Math.</i>	क्रांति समान्तर, समक्रांतिक वृत्त			

paralysis (= blocking)	<i>Phy</i> <i>H Sc</i>	1. पक्षाघात 2. अग्न्यात, लकवा	<i>parameter value</i>		प्राचल मान
paralysis circuit	<i>Phy.</i>	पक्षाघात परिपथ	<i>paramethadione</i>	<i>Chem.</i>	पैरामैथेडाइयोन
paralysis time		पक्षाघात काल	<i>parametral plane</i>	<i>Phy.</i>	प्राचलिक तल
paramagnetic	<i>Phy.</i>	1. अनुचुंबकीय 2. अनुचुंबकीय पदार्थ	<i>parametral ratio</i>	<i>Chem</i>	अतःखंडी अनुपात, पैरामीटर अनुपात
paramagnetic carriers		अनुचुंबकी वाहक	<i>parametric</i>		प्राचलिक
paramagnetic cooling		अनुचुंबकीय शीतलन	<i>parametric assumption</i>		प्राचलिक कल्पना
paramagnetic fluid		अनुचुंबकीय तरल	<i>parametric coordmate</i>		प्राचलिक निर्देशांक
paramagnetic ion		अनुचुंबकीय आयन	<i>parametric curve</i>		प्राचलिक वक्र
paramagnetic moment		अनुचुंबकीय आघूर्ण	<i>parametric equation</i>		प्राचलिक समीकरण
paramagnetic oxygen analyzer		अनुचुंबकीय आक्सीजन विश्लेषित्र	<i>parametric linear programming</i>		प्राचलिक रैखिक प्रोग्रामन
paramagnetic resonance		अनुचुंबकीय अनुनाद	<i>parametric method</i>		प्राचल विधि
paramagnetics	<i>Phy</i>	1. अनुचुंबकीय पदार्थ 2. अनुचुंबकत्व विज्ञान	<i>parametric objective function</i>		प्राचलिक उद्देश्य फलन
paramagnetic state		अनुचुंबकीय अवस्था	<i>parametric programming</i>		प्राचलिक प्रोग्रामन
paramagnetic susceptibility		अनुचुंबकीय प्रवृत्ति	<i>parametric representation</i>		प्राचलिक निरूपण
paramagnetism	<i>Phy.</i>	अनुचुंबकत्व	<i>parametric semigroup</i>		प्राचलिक सामिसमूह
paramatta	<i>H.Sc.</i>	पैरामैटा	<i>parametric structure</i>		प्राचलिक संरचना
paramecia	<i>Zool</i>	पैरामेसिन	<i>parametric transformation semi-group</i>		प्राचलिक रूपांतरण सामिसमूह
Paramecium (= Paramoecium)	<i>Zool.</i>	पैरामीशियम	<i>parametrix</i>	<i>Math.</i>	प्राचलक
paramedian	<i>Zool.</i>	परामध्यक	<i>parametrization</i>		प्राचलीकरण
paramedian sulci		परामध्यक परिखा	<i>parametron</i>	<i>Math.,Phy</i>	पैरामेट्रॉन
paramera (paramere)	<i>Zool</i>	पैरामेरा	<i>paramitosis</i>	<i>Zool.</i>	पैरामाइटोसिस, परामूत्रण
parameter	<i>Geog, Math</i> <i>Geol.</i>	1 प्राचल 2 (cryst) अतः खंडी अनुपात, पैरामीटर	<i>paramo</i>	<i>Geog.</i>	परामो, उच्च पठार
parameter free (= non-parametric)	<i>Math.</i>	अप्राचलिक	<i>para modification</i>	<i>Phy.</i>	पैरा रूप
parameter of connection		संबंधन प्राचल	<i>Paramoecium</i>	<i>Zool.</i>	पैरामोशियम
parameter of distribution		वटन-प्राचल	<i>Paramoecium aurelia</i>		पैरामोशियम ओरेलिया
parameter of encounter		समागम प्राचल	<i>Paramoecium bursaria</i>		पैरामोशियम बर्सरिया
parameter point		प्राचल बिन्दु	<i>Paramoecium caudatum</i>		पैरामोशियम कांडैटम
parameter space		प्राचलीय समष्टि	<i>paramolecule</i>	<i>Phy.</i>	पैरा अणु
			<i>paramolybdate</i>	<i>Chem.</i>	पैरामोलिब्डेट
			<i>paramorph</i>	<i>Chem., Zool.</i>	परारूप

paramorphism	Geol.	पैराक्रायांतरण	Paraperipatus	Zool.	पैरापैरीपेटस
paramount		सर्वोपरि	parapet (collar)	Zool.	पैरापेट (कालर),
paramphigastrium	Bot.	पैरेम्फीनेस्ट्रियम	parapetalous	Bot.	दलोपांगी
paramutagenic	Zool.	पराउत्परिवर्तजनिक	parapetalum		दलोपांग
paramutation	Zool.	पराउत्परिवर्तन	parapharynx	Zool.	पराप्रसनी
paramylon	Bot.	पैरामाइलोन	paraphase	Phy.	पराकला
paramylum		उपमंड, पैरामाइलम उपमंड काय	paraphase amplifier		पराकलीय प्रवर्धक
paramylum body		पैरामाइलम काय	paraphragma (paraphragm)	Zool.	परावृत्ति
Paramyxine	Zool.	पैरामिक्सीन	paraphyllia	Bot.	सूदमोपांग
Parana basalt	Geol.	पराना बेसाल्ट	paraphysial hairs	Bot.	सहस्रसूत्री रोम
paranal	Zool.	परागुद	paraphysis		सहस्रसूत्र
Paranaspides	Zool.	पैरानैस्पिडीज	paraphysogonium	Bot.	सहस्रसूत्रजननी
paranephrocyte	Zool.	परावृक्ककाणु	paraphysoides	Bot.	सहस्रसूत्राभ
Paranephrops	Zool.	पैरानेफ्रॉप्स	parapineal body	Zool.	पैरापिनियल काय
parang	Bot.	पैरंग	paraplasis	Geol.	पैराप्लैसिस
parangon	H.Sc.	पैरंगॉन	paraplasma	Zool.	पराद्रव्य
para-nitrogen	Phy.	पैरा नाइट्रोजन	paraplectenchyma	Bot.	आभासीसमृद्धक
parano	Bot.	पैरानो	paraplegia	Zool.	अधरांगघात
paranotal lobe	Zool.	परावक्षपृष्ठक पालि	parapodial movement	Zool.	पाश्र्वपाद गति
paranotal theory		परावक्षपृष्ठक सिद्धान्त	parapodial muscle		पाश्र्वपाद पेशी
paranotum	Zool.	परावक्षपृष्ठक	parapodium	Zool., Geol.	पाश्र्वपाद, पैरापोडियम
paranthelion	Geog.	पैरैथीलियन, प्रतिसूर्याभास	parapolar	Zool.	पराध्रुवीय
paranthine	Geol.	पैरान्थाइन, स्कैपोलाइट	parapophysis	Zool.	पाश्र्ववर्ध
paranuchal plate	Zool.	पैरान्यूकल पट्टिका, पराकंधरा पट्टिका	para positronium	Phy.	पैरापॉजिट्रोनियम
paranuclear	Zool.	पराकेन्द्रकीय	paraprint process	Chem.	पैराप्रिन्ट प्रक्रम
paranuclein	Zool.	पैरान्यूक्लीन, पराकेन्द्रिन	paraproct	Zool.	परागुदक
paranucleus	Zool.	पराकेन्द्रक	paraprosenchyma	Bot.	परादीर्घऊतक
paraoccipital process	Zool.	परानुकपाल प्रवर्ध	Parapsidan skull	Zool.	पराप्सिडी करोटि
paraoesophageal connective	Zool.	पराग्रसिका संयोजी	parapsis (parapsides)	Zool.	पराचाप
paraoesophageal fibril		पराग्रसिका तंतुक	parapteron	Zool.	परापक्षकठक
Parapenacopsis maxillipedo	Zool.	पैरापैनिऑप्सिस मैक्सिलिपीडो	parapulvillus	Zool.	परापादतल्प
Parapenacopsis stylifera		पैरापैनिऑप्सिस स्टाइलिफेरा	paraquat	Chem.	पैराक्वेट
para-periodic acid	Chem.	पैरा-परजायोडिक अम्ल	para-red	Chem.	पैरा-रक्त, पैरा रैड
			para-ripples	Geol.	पैरा कर्मिका
			para-rock	Geol.	अवसादांतरी शैल, पैरा शैल

pararosaniilia	Bot.	पैरासैनिथिन	parasitic worm		परजीवी कृमि
paras	H.Sc.	पैरस	parasitism	Biol	परजीविता
parasaleniidae	Zool	पैरासैलिनियाइदी	parasitization	Biol	परजीवीकरण
paraschist	Geol.	अवसादी शिस्ट, पैरा शिस्ट	parasitized	Zool.	परजीवीकृत
parascutellum	Zool.	पैरास्कूटेलम	parasitoid	Zool.	परजीव्याम
parasefene	Geog.	चन्द्राभाम	parasitoid species		परजीव्याम जाति
parasexual	Zool	परलैंगिक	parasitologist	Zool	परजीवविज्ञानी
parasexual cycle		परलैंगिक चक्र	parasitology	Zool.	परजीवीविज्ञान
parasite	Biol., H.Sc., Geog	परजीव, परजीवी	parasitosis	Zool	परजीवज्वर
parasite drag	Phy.	परकोय कर्षण	parasitotropic	Chem	परजीवस्नेही
parasitemia	Zool	परजीवीरक्तता	Parasitus	Zool	पैरामाइटस
parasite virulence		परजीवी उग्रता	parasol mushroom	Bot	पैरासोल छत्रक
parasitic	Biol., Geog.	परजीवी	parasol spine	Zool	पैरासोल शूल, छत्रशूल
parasitic activity		परजीवी कार्य	parasphenoid	Zool.	पारसफेनुक, पैरामफीनॉइड
parasitic adaptation		परजीवी अनुकूलन	parasporangium	Bot	पैरासोरोन्गियम, पैरासोरोन्गियम
parasitical plant		परजीवी पौधा	parastamen	Bot	बन्ध्यपुकेसर
parasitic antenna	Phy.	पर्येरित ऐन्टेना	parasternum	Zool	उदरपर्णिका
parasitic antenna element		पर्येरित ऐन्टेना अंग	parasitichy	Bot.	इतरपक्ति
parasitic array		पर्येरित ब्यूड	parastigma	Zool.	पराबिन्दु
parasitic capture	Phy	पराग्रथी प्रग्रहण	parastipes	Zool.	पैरास्टीप
parasitic castration	Zool.	परजीवी जननाशन	Parastromateus niger	Zool.	पैरास्ट्रोमैटियस नाइगर (हलका)
parasitic cone	Geol.	गोण शंकु	parastyle	Zool Bot.	पराशंकु बन्ध्यशक्ति
parasitic current	Phy	अवाहित धारा	parasymbiosis	Zool.	परासम्बिध
parasitic e.m.f.		अवाहित वि० दा० ब०	parasymphathetic	Zool.	परानुसम्पी शाखा
parasitic factor		परजीवी कारक	branch		
parasitocidal activity		परजीवीनाशी सक्रियता	parasymphathetic drug		परानुसम्पी औषध
parasiticide	Zool, H.Sc.	परजीवनाशी	parasymphathetic impulse		परानुसम्पी आवेग
parasitic industry	Geog.	परजीवी उद्योग	parasymphathetic system		परानुसम्पी तन्त्र
parasitic lava flow	Geol.	गोण लावा प्रवाह	parasymphathomimetic	Zool.	परानुसम्पीसम
parasitic lobe	Phy.	ऊर्जाह्रासी पानि	parasynapsis	Zool	परानुसम्पीगमन
parasitic oscillations (= parasitics)		अवाहित दोन, ऊर्जाह्रासी दोन	parataxon	Geol.	पैराटैक्सॉन
parasitics	Phy.	ऊर्जाह्रासी दोन	paratectonic recrystallization	Geol	पैराटेक्टोनिक पुन- क्रिस्टलन
parasitic solution		पराग्रथी माघन			
parasitic speciali- zation		परजीवी रिशक्तिता			

Paratelphusa	Zool.	पैराटेलफूसा	paravertebral ganglion	Zool.	पराकशेरुक गुच्छिका
Paratelphusa hydrodromus		पैराटेलफूसा हाइड्रो-ड्रोमस	paraxial	Phy.	उपाक्षीय
Paratelphusa spinigera		पैराटेलफूसा स्पाइनीजेरा	paraxial rays		उपाक्षीय किरण
paratelum	Zool.	उपान्त्यक	Paraxonia	Zool.	पैरेक्सोनिया
paratenic transmission		पारवाही संचरण	paraxonic		पार्श्वसि
paratergite	Zool.	परापृष्ठकांश	paraxonic foot	Zool.	पराक्ष पाद
parathecium	Bot.	पैराथीसियम	parazanthine	Chem.	पैराजेन्वीन
parathion	Chem.,H.Sc.	पैराथॉयान	parazoan	Zool.	पराजन्तु
parathormone	Chem.	पैराथॉर्मोन	parboil	Chem.,H.Sc.	अंश द्रवयन
parathyrin	Zool.	पैराथाइरिन	parboiled rice	H.Sc.	उसना चावल
parathyroid	Zool.,H.Sc.	पैराथाइरॉइड, परावट्ट	parch	H.Sc.	भूनना
parathyroid gland		परावट्ट ग्रन्थि, पैराथाइरॉइड ग्रंथि	parched	Geog.	तप्त, भूना हुआ, भजित
parathyroid hormone	H.Sc.	परावट्ट हार्मोन, पैराथाइरॉइड हार्मोन	parched ground	Geog.	तप्त भूमि
parathyrotropic	Zool.	परावट्टप्रभावी	parchment	Chem.,Bot., Geog.	चर्मपत्र, पार्चमेंट
paratoid gland		पैराटॉइड ग्रंथि	parchmentising		चर्म पत्रण
paratomous	Geol.	अक्षनतविदली	parchment membrane		चर्म पत्र झिल्ली, पार्चमेंट झिल्ली
paratonic movement	Bot.	अनुप्रेरित गति	parchment paper		चर्म पत्र, पार्चमेंट पत्र
paratorma	Zool.	पैराटॉर्मा	parchment worm	Zool.	चर्मपत्र कृमि
paratotype (isotype)	Zool.	समप्ररूप	parcidentate	Zool.	अल्पदन्ती
paratracheal parenchyma	Bot.	परावाहिकी मृदूतक	pare	H.Sc.	छीलना
paratrimorphic cycle	Zool.	परात्रिरूपी चक्र	parembryum	Bot.	परिभ्रूणक
paratroph	Bot.	परापोष्य	parempodia	Zool.	शूकान्तरापादक
paratrophic	Zool., Bot.	परापोषी परापोषित	parenchyma	Biol.	मृदूतक, पैरेन्काइमा
paratropic plane	Chem.	सम-अक्ष तल, पैराट्रोपिक तल	parenchyma disease		मृदूतक रोग
paratype	Bot.,Geol., Zool.	अपरप्ररूप	parenchymalia	Geol.,Zool.	पैरेन्कीमेलिया, मृदूतिका
parauterine organ	Zool.	परागर्भाशय अंग	parenchymal muscle	Zool.	मृदूतक पेशी
parautochthonous	Geol.,Geog.	अपस्वस्थानिक	parenchymula	Zool.	पैरेन्काइमुला
parautochthonous granite	Geol.	अपस्वस्थानिक ग्रेनाइट	parent	Bot.	1. जनक 2. मूल
			parental	Biol.,H.Sc.	जनकीय, पैतृक
			parental bed rock		जनक आधार शैल
			parental care		पैतृक रक्षण
			parental generation		जनकीय पीढ़ी, पैतृक पीढ़ी
			parental instinct		पैतृक वृत्ति
			parental strain		पैतृक विभेद
			parental strand		पैतृक रज्जुक

parent atom		जनक परमाणु	parichnos	Bot., Geol.	पेरिक्नोस
parent basaltic magma	Geol.	मूल बैसाइटी मैग्मा	parichnos strand		पेरिक्नोस खूब
parent distribution	Math.	मूल-व्युत्पन्न	parichnos tissue		पेरिक्नोस ऊतक
parent element		जनक तत्व	Paridae	Zool.	पेरिडो
parenteral	Bot., H. Sc.	आन्तेतर	Pariasauros	Zool.	पेरिस्कोरस
parenteral feeding		आन्तेतर अशन	parietal	Bot., Geol.	1 भित्तीय 2. भित्तिस्थ, भित्तिकास्थि
parent frequency		जनक आवृत्ति		Zool.	
parenthesis	Math.	कोष्ठक, बधनी	parietal cavity		भित्तीय गुहिका
parenthesis notation		कोष्ठक चिह्न	Parietales		पैराइटेलीज
parent line	Phy	मूल रेखा	parietal eye	Zool.	मध्यनेत्र
parent magma	Geol.	मूल-मैग्मा	parietal foramen		भित्तीय रंध्र
parent material		जनक सामग्री	parietal lobe		भित्तीय पालि
parent particles		मूल कण	parietal inductura		भित्तीय इन्डरट्यूरा
parent population		मूल समष्टि	parietal lip		भित्तीय ओष्ठ
parent river	Geog.	मूल नदी	parietal muscle	Zool.	पार्श्वक पेशी
parent rock		जनक शैल	parietal organ	Zool.	मध्य नेत्र
parent state	Geog.	मूल राज्य	parietal placentation	Bot.	भित्तीय बीजांडन्यास
parent-symmetry invariance		जनक सममिति निश्चरता	parietal pleura	H. Sc.	भित्तिक प्लूरा
parent universe		मूल समष्टि	parietal region		भित्तीय क्षेत्र
Pareto coefficient	Math.	पैरेटो-गुणांक	parietal segment		भित्तीय खंड
Pareto curve		पैरेटो-वक्र	parietal vein		भित्तीय धिरा
Pareto distribution		पैरेटो वंश	parietal vessel		भित्तीय वाहिका
Pareto-Lery law		पैरेटो लेवी नियम	Parietaria	Bot.	पैराइटेरिया
pareu		पारेऊ	parieto-squamosal arcade	Zool.	पैराइटो स्क्वैमोसल आर्केड, पार्श्व-शल्कास्थि कमान
parfait	H. Sc.	पार्फै	parieto-vaginal muscle		भित्तीय योनी पेशी
parfleche	Geog.	पारफ्लेश (धर्म)	parinaric acid	Chem.	पैरिनैरिक अम्ल
par focal	Phy.	समफोकस तली	paring and burning method	Geog.	कत्तन इहन विधि
pargasite	Geol.	पार्गसाइट	paring knife	H. Sc.	छीलने की छुरी, छीलने का चाकू
parhelic circle	Geog.	सूर्यभासी वृत्त, पारहैलियार्ड वृत्त	par-interstitial particle	Geol.	समग्रतराकाशी कण
parheliion	Geog.	सूर्यभासा, पारहैलियन	pari passu	Geol.	पैरो पामु
parhelium level	Phy., Chem.	पारहैलियम तल	paripinnate	Bot.	समपिच्छकी
parhelium term		पारहैलियम पद	Paris basin	Geog.	पैरिस बेसिन
parhop	Phy.	पैरहोप	Paris blue		पैरिस नील, पैरिस ब्लू
Pariah kite	Zool.	पराइजा चील			
parian marble	Geol.	पैरिअस-सपमरमर			



Paris cord	<i>H.Sc.</i>	पैरिस कार्ड	Parlin-Du Pont impact tester	<i>Chem.</i>	पार्लिन डूपान्ट प्रतिघात निकपित्र
Pariser-Parr approximation	<i>Chem.</i>	पैरिज़र-पार सन्निकटन	parlour	<i>H.Sc.</i>	बैठने की जगह
Pariser-Parr method		पैरिसर-पार विधि	parlour maid	<i>H.Sc.</i>	प्रतिहारिणी
Paris green		पैरिस हरित, पेरिस ग्रीन	<i>Parmelia caperata</i>	<i>Bot.</i>	पारमेलिया केपरेटा
parish	<i>Geog.</i>	पैरिश	parna	<i>Geog., H.Sc.</i>	1. पारना 2. बलुई स्थल
parish council		पैरिश परिषद्	parna aspect	<i>Geog.</i>	पारनाकृति
parisac	<i>Chem. (Met.)</i>	पैरिसाइट	parna sheet	<i>Geog.</i>	पारना चादर, पारना परत
parison (blank)	<i>Chem.</i>	पैरिसन, प्रथमरूप	<i>Paradiopsis stevensi</i>	<i>Bot.</i>	पैरोडिआप्सिस स्टीवेन्साई
parison mould		पैरिसन संच, प्रथम रूप संच	paroicous	<i>Bot.</i>	बधोपुंवानीय
parity	<i>Phy.</i>	समता, सादृश्य, पैरिटी	paromomycin sulphate	<i>Chem.</i>	पैरोमोमाइसिन सल्फेट
parity bit	<i>Math., Phy.</i>	समता बिट, समता द्व्यंक	paronychium	<i>Zool.</i>	पारानखतल्प
parity change		समता परिवर्तन	paroopteron	<i>Zool.</i>	पारांडधर
parity change-Yes		समता परिवर्तन-हां	paroptosis	<i>Geol.</i>	पैरोप्टिसिस
parity check		समता जांच	paroral membrane	<i>Zool.</i>	पारामुखीय कला
parity forbidden		समता वर्जित	parotic crest	<i>Zool.</i>	कर्णासन शिखर
parity operator		पैरिटी संकारक	parotid gland	<i>H.Sc., Zool.</i>	कर्णपूर्व ग्रंथि
park	<i>Geog.</i>	पार्क	parovarium	<i>Zool.</i>	पारांडाशय
Parker actinometer	<i>Chem.</i>	पार्कर रसोक्रियतामापी	paroxysm	<i>Zool. Geol.</i>	प्रवेग उग्रतम विस्फोटन
parkerised steel		पार्करित इस्पात	parr	<i>Zool.</i>	पार
Parkerizing process		पार्करीकरण प्रक्रम	Parr bomb	<i>Chem.</i>	पार बम
Parker's alloy		पार्कर मिश्रण	Parr metal		पार धातु
Parkes desilverisation process		पार्कस विरजतीकरण प्रक्रम	Parr method		पार विधि
parkin	<i>H.Sc.</i>	पार्किन	parrot	<i>Zool.</i>	शुक
parking area	<i>Geog.</i>	पार्किंग क्षेत्र	parrot coal	<i>Geol.</i>	पैरट कोयला
parking bay		पार्किंग स्थल	parrot fish	<i>Zool.</i>	शुक मीन
Parkinsonia	<i>Bot.</i>	पार्किन्सोनिया	pars anterior	<i>Zool.</i>	पार्स एंटीरियर, अग्रार्श
<i>Parkinsonia aculeata</i>		पार्किन्सोनिया ऐक्यूलिएटा	pars caeca retinae	<i>Zool.</i>	दृष्टिपटल बन्ध भाग
<i>Parkinsonia parkinsoni</i>		पार्किन्सोनिया पार्किन्सोनाइ	pars distalis	<i>Zool.</i>	पार्स डिस्टैलिस, दूरस्थार्श
park land		पार्क भूमि, पार्कस्थल	parsec	<i>Astron.</i>	पारसेक
Parks dryograph	<i>Chem.</i>	पार्कस शुष्कन कामलेखी, पार्कस ड्रायोग्राफ	Parseval equation	<i>Math.</i>	पार्सिवल-समीकरण
			Parseval identity		पार्सिवल-सर्वसमिका

pars intercerebralis	Zool	अन्तरामस्तिष्क अण	partial difference		आंशिक अन्तर
pars intermedia	Zool	पार्श्व इंटरमीडिया, मध्यांश	partial difference derivative		आंशिक अन्तर अवकलज
parsley	Bot, H Sc	पार्सलै	partial differential equation		आंशिक अवकल समीकरण
parsonip	Bot, H Sc	पार्सेनिप	partial differential expression		आंशिक अवकल व्यंजक
Parson's alloy	Chem	पार्सेन मिश्रालु	partial differentiation		आंशिक अवकलन
Parson's black		पार्सेन काल	partial disintegration constant		आंशिक विघटन स्थिरांक
pars optica retinae	Zool	दृष्टिपटल दृक् भाग	partial dislocation		आंशिक भ्रम
pars stridulans	Zool	घर्षणांश	partial double precision		आंशिक द्विक परिशुद्धता
pars tuberalis	Zool	पार्श्व द्यूबेरेनिम, ननिकांश	partial drought		आंशिक शुष्कता
partial line	Geog	एकनाल रेखा	partial eclipse	Math.	खंड ग्रहण
parthenitae	Zool.	पार्थेनिटी	partial enrichment		आंशिक समृद्धि
parthenocarp	Bot.	अनिपेकफलन	partial entry		आंशिक प्रवेश
parthenogenesis	Bot, Zool	अनिपेकजनन	partial equilibrium		आंशिक सन्तुलन
parthenogenetic		अनिपेकजननीय	partial exhaustion		आंशिक समापन
parthenogenetic egg	Zool	अनिपेचित अण्डा	partial exposure		आंशिक उन्मोचन, आंशिक अनावरण
parthenogenic species		अनिपेकजननिक जाति	partial Fourier synthesis	Phy.	अवकलन परिये संश्लेषण
parthenogonidium	Zool	अनिपेकजीवक	partial fraction		आंशिक भिन्न
parthenos	H Sc.	पार्थेनॉस	partial integration		आंशिक समाकलन
parthenospore	Bot.	अनिपेक बीजाणु	partial intermingling		आंशिक परस्परमिश्रण, आंशिक अन्तर्मिश्रण
partial	Math. Phy	आंशिक, खंड अंशस्वर	partial ionic equation		आंशिक आयनिक समीकरण
partial association		आंशिक साहचर्य	partial isometry		आंशिक समदूरीकता
partial band		आंशिक बैंड	partial loading		आंशिक उद्धारण
partial carry	Phy.	अशक्तिमन्त्र हामिल	partially balanced confounded design		अंशतः सन्तुलित संचरित अभिव्यक्तता
partial cleavage	Zool	आंशिक विदलन	partially coupled constitutive equation		अंशतः युगलित संरचक समीकरण
partial collision		आंशिक संघट्ट, आंशिक टक्कर	partially coupled wave		अंशतः युगलित तरंग
partial condenser	Chem	आंशिक संघनित	partially ionised gas		अंशतः आयनित गैस
partial confounding	Math.	आंशिक संकरण	partially ordered		अंशतः क्रमित
partial correlation		आंशिक सहसम्बन्ध	partially ordered set		अंशतः क्रमित समुच्चय
partial cross section		आंशिक परिच्छेद			
partial density		आंशिक घनत्व			
partial derivative		आंशिक अवकलज			
partial diagram		आंशिक आरेख			

partially polarized light		अंशध्रुवित प्रकाश	particle mechanics		कण-यांत्रिकी
partially turbulent layer		आंशिक प्रदुब्ध स्तर	particle number		कण संख्या
partial molar quantity		अंशाणुक राशि, आंशिक मोलर राशि	particle of rest-mass		विरामस्थ द्रव्यमान का कण
partial neutral loading		आंशिक उदासीन उद्धारण	particle oriented		कण मूलक
partial order		आंशिक क्रम	particle radiation	<i>Chem.</i>	लव विकिरण
partial ordering of channels		प्रणालों का आंशिक क्रमीकरण	particle shape		लवाकार
partial-page map		आंशिक पृष्ठ मानचित्र	particle shape factor	<i>Geol.</i>	कणाकृति गुणांक
partial paralysis		आंशिक अंगघात	particle size		कण-परिमाण
partial pressure		आंशिक दाब	particle-size broadening		कण साइज विस्तरण
partial product		आंशिक गुणनफल	particle theory		कण वाद
partial racemates		आंशिक रेसिमेट	particle velocity		कण वेग
partial random		आंशिक यादृच्छिक	particle width (=radiation width)		कणीय प्रसर (विकिरण प्रसर)
partial reaction		आंशिक अभिक्रिया	particular	<i>Math.</i>	विशेष, विशिष्ट
partial regeneration		आंशिक पुनरुद्भवन	particular case		विशिष्ट स्थिति
partial regression coefficient		आंशिक समाश्रयण गुणांक	particular enunciation		विशेष प्रतिज्ञा
partial remainder		आंशिक शेष	particular integral		विशेष समाकल
partial resolution		आंशिक त्रिभेदन	particular solution		विशेष हल
partial specific volume		आंशिक विशिष्ट आयतन	particulate heredity	<i>Biol.</i>	विविक्त आनुवंशिकता
partial sterilization		आंशिक बंध्यीकरण	particulate inheritance		विविक्त वंशागति
partial strae		आंशिक रेखा	particulate preparation		कणिकीय कृति
partial sum		आंशिक योगफल	particulate theory	<i>Zool.</i>	विविक्त सिद्धान्त, कणिका सिद्धान्त
partial tide		आंशिक ज्वार.	partim	<i>Bot.</i>	अंशतः
partial tone		आंशिक स्वरक	parting		1. विसंघि, विभाजन
partial valency		आंशिक संयोजकता		<i>Geo., (Met.)</i>	2. अवांतरस्तर
partial width		आंशिक प्रसर	parting agent	<i>Chem.</i>	3. अपरजतन
partible	<i>Bot.</i>	विभजनशील	parting compound	<i>Chem.</i>	पृथक्कारक
particle	<i>Phy., Geol.</i>	कण	parting limit		पृथकन सीमा
particle accelerator		कण त्वरित्र	parting line		पृथकन रेखा
particle density		कण घनत्व	parting of gold		स्वर्ण-पृथक्करण
particle disintegration		कण-विघटन	parting plane		पृथकन तल
particle drift velocity		कण-अपवाह-वेग	Partington's apparatus	<i>Chem.</i>	पार्टिंगटन उपकरण
particle effect		कण प्रभाव			

partinium	Chem.	पादिनिघम	parviflorus	Bot.	लघुतर पुष्पी
partite	Bot.	विभक्त	parvo-cariceta	Bot	सघुकरकसादि
partition	Phy	विभाजन, वितरण	pasac	H Sc.	पैसेक
partition blade		विभाजक पटल	Pascal pyramid	Math.	पास्कल पिरैमिड
partition chroma- tography		विभाजन वर्णलेखिकी, विभाजन क्रोमेटोग्राफी	Pascal triangle	Math	पास्कल त्रिभुज
partition coefficient		वितरण गुणांक	pascerere	Geog.	चारण
partitioned represen- tation		विभाजित निरूपण	Paschen Back effect	Chem., Phy	पाशन बैक निरूपण, पाशन बैक प्रभाव
partition function		सवितरण फलन, विभाजन फलन	Paschen series		पाशन श्रेणी
partitioning of matrices		आव्यूहों का विभाजन	pascual	Bot	शाइली
partition noise		विभाजन रव	pasha	Geog.	पाशा
partition of unity		एकांक विभाजन	pashm	H Sc.	पशम्
partition symbol		विभाजन प्रतीक	pashmina	H Sc.	पशमीना
partition theorem		विभाजन प्रमेय	paso	H Sc.	पैसो
partition value	Math.	विभाजकादि मान	pass	Geog. Geol	1 टोर, चारण, पाम 2. दर्रा 3 छति शूट
partiversal	Geol	भिन्नदिक् नत	passage	Math	सक्रमण
partiversal dip	Geol.	भिन्नदिक् नति	passage bed		सक्रमण स्तर
partly clouded	Geog	अध मेघी	passage cell	Bot	पथ कोशिका
partly filled band	Phy.	अध पूरित बैंड	passage distance	Math.	सक्रमण दूरी
partly to mostly clouded	Geog.	अल्पाध अधिकाश मेघी	passage facies		सक्रमण सलक्षण
partner	Math	सहभागी, साझेदार	passage strain	Zool	मारण विभेद, मूल विभेद
partnership		सहभागिता, साझा	passageway	Geog., H.Sc	मारण, रातियारा
partridge	Zool.	तीतर	passee	H Sc.	पासी
partspore	Bot.	अश बीजाणु	passenger ferry	Geog.	यात्री नौका घाट, पैसिजर फेरी
parttime acreage	Geog.	अशकालिक क्षेत्रफल	passenger port		यात्री पत्तन
parttime farmer		अशकालिक किसान	passepoul	H Sc.	पासीपोइल
parturition	Zool.	प्रसव	Passer	Zool.	पैसर
party	Geog.	पार्टी	Passer domesticus		पैसर डोमेस्टिकस (गौरैया)
party line	Phy.	पार्टी लाइन	Passeriformes	Zool.	पैसिफोर्मीस
party year	Geog.	पार्टी-वर्ष	passettle		पैसैट, पट्टिका
parum affinis (= little affinity)	Chem.	न्यून बधुना, न्यूनसुधुषा	Passifloraceae	Bot.	पैसोफ्लोरेसी
parumbilical	Zool.	परामांसिक	Passiflora edulis		पैसोफ्लोरा एडुलिस
paruterine organ	Zool.	परामांसिक अंग	Passiflora foetida		पैसोफ्लोरा फोेटिडा
par value	Math.	सममूल्य	Passiflora incarnata		पैसोफ्लोरा इनकार्नाटा

<i>Passiflora laurifolia</i>		पैसीफ्लोरा लॉरीफोलिया	pass pore	Bot.	रंध्रमार्ग
Passiflorales	Bot.	पैसीफ्लोरेलेज	pasta	Geol.,H.Sc.	पैस्टा
Passiflora type		पैसीफ्लोरा प्ररूप	pastagram	Geol.	पैस्टाग्राम
passing	H.Sc.	पासिंग (मूल)	paste	Chem.,H.Sc.	1. लैपी, पैस्ट 2. पिट्टी 3. लेई
passing key	Phy.	पारक कुंजी	pastel	Chem.	पैस्टल
passivated	Chem.	निष्क्रियित	paste mould	Chem.,H.Sc.	लेपी संच
passivated transistor	Phy.	अक्रियकृत ट्रांजिस्टर	paste porcelain	Chem.	लेपी पोर्सलैन
passivation	Chem.	निश्चेष्टकरण	Pasteur effect	Bot.	पास्तेर प्रभाव
passivator		निश्चेष्टक	Pasteurella tularensis	Chem.	पास्चुरेला टुलैरेन्सिस
passive		निश्चेष्ट, निष्क्रिय, अक्रिय	pasteurisation	Bot.,H.Sc.	पास्तेरीकरण
passive absorption	Chem.	निष्क्रिय अवशोषण	pasteurizer		पास्तेरीकारक
passive detection		निष्क्रिय संसूचन	past field season	Geog.	पिछला फील्ड सीजन
passive device		निष्क्रिय युक्ति	pastille	H.Sc.	पैस्टील
passive dissemination		निष्क्रिय प्रकीर्णन	pastoral	Geog.	पशुचारणिक, पशुचारण संबंधी
passive flight		निष्क्रिय उड़ान	pastourelle	H.Sc.	पास्टूरेल
passive homing		निष्क्रिय अभिलक्ष्यन	pastreite	Geol.	पैस्ट्रेआइट
passive immunity		निष्क्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय रोगक्षमता	past-relation of landmass	Geog.	भू-संहति अतीत संसर्ग
passive immunization	Zool.	निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण	paste up slip	Geog.	चिपकवा स्लिप, चिपकवा पर्ची
passive injection		निष्क्रिय अंतःक्षेपण	pasting	Geog.	चिपकाना
passive iron		निष्क्रिय लौह	pasting medium	Geog.	चिपकन माध्यम
passive jamming		निष्क्रिय संवाधन	pastoral economy	Geog.	पशुचारणिक अर्थव्यवस्था
passive load		निष्क्रिय लोड	pastoral farming	Geog.	पशुपाल्य खेती
passive network		न्योतहीन जाल	pastoralism	Geog.	पशुचारणता, ग्राम्यता
passive parachute	Zool.	निष्क्रिय अवतरण	pastoralist	Geog.	पशुचारक
passive pupa		निष्क्रिय प्यूपा	pastoral nomadism		पशुचारणिक यायावरता
passive quadripole	Phy.	न्योतहीन चतुष्टमिनली	pastoral people		पशुचारणिक जन
passive radar		निष्क्रिय रडार	pastoral population		पशुचारणिक जन
passive reabsorption	Zool.	निष्क्रिय पुनरवशोषण	pastoral pursuit		पशुचारणिक उद्यम
passive region		निष्क्रिय प्रदेश	pastoral right		पशुचारण अधिकार
passive resistance		निष्क्रिय प्रतिरोध	pastoral tenant		पशुचारणिक किसान
passive satellite		निष्क्रिय उपग्रह	pastoral tribe		पशुचारणिक जनजाति
passive transducer		निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर	pastry	H.Sc.	पैस्ट्री
passive transport		निष्क्रिय अभिगमन			
passivity	Chem.	निश्चेष्टता			
passometer	Geog.	पैसोमीटर			

pastry bag		पेस्ट्री बैग
pastry cutter		पेस्ट्री कर्तक
pastry tube		पेस्ट्री ट्यूब
pasture	<i>Bot, Geog</i>	चरागाह
pasturegate	<i>Geog.</i>	चारण अधिकार
pastureland	<i>Geog.</i>	चरागाह
pat	<i>H Sc</i>	पैट
patabiont	<i>Zool</i>	मलजीवी
patagium	<i>Zool</i>	चर्मप्रसर, पैटेन्त्रियम
patagon	<i>Geog.</i>	बृहत् पशुपाद
patagonian wool	<i>H Sc.</i>	पैटागोनियाई ऊन
<i>Patanga succincta</i>	<i>Zool.</i>	पटंगा सविमंजटा
patch	<i>H Sc.,Phy. Geog,Math</i>	पैच 1 इलत्रक 2 पैच (बर्फ) 3 धब्बा
patch cord	<i>Phy</i>	घोत्रक रज्जु
patch farming		चापा कृषि
patch graft	<i>Bot</i>	चल्कीश कलम
patching	<i>Phy Geol</i>	1 पैचन्द लगाना 2 दृश्याश खनन
patch of cultivation	<i>Geog.</i>	कृषि चापा
patch of grass		घास चापा
patch of ground	<i>Geog</i>	खत-खड, भूमि चापा
patchoulene	<i>Chem.</i>	पेचुलीन
patchy	<i>Geol</i>	खडमय
patchy distribution	<i>Zool</i>	खड वितरण
patella	<i>Zool H Sc.</i>	जान्विका, जनुफलक, जानुका, पटेल्ला
Patella	<i>Geol.</i>	पटेल्ला
<i>Patella ulnaris</i>		पटेल्ला अल्नैरिस
<i>Patella vulgata</i>		पटेल्ला वल्गेटा
patelliform	<i>Zool</i>	जान्विकारूपी
Patellina		पेटेल्लाइन
patens	<i>Bot.</i>	विस्तारी
patent	<i>Geog.</i>	पेटेन्ट, एकम्ब
patent beaver	<i>H Sc.</i>	पेटेन्ट बीवर
patent cordage		पेटेन्ट कॉर्डेज
patent flannel		पेटेन्ट फ्लानेल

patenting	<i>Chem</i>	पेटेन्टिंग, एकम्बन
patent leather	<i>H Sc</i>	पेटेन्ट चमड़ा
patent period	<i>Zool.</i>	व्यक्त काल
patent velvet	<i>H.Sc.</i>	पेटेन्ट मधुमत्त
pateraite	<i>Chem</i>	पेटेराइट
Patera process	<i>Chem, Geol</i>	पेटेरा प्रक्रम
patericrite	<i>Chem.</i>	पेटेरिकाइट
pateriform	<i>Zool</i>	शरावरूप
paternal	<i>Zool</i>	पैतृक
paternal chromosomes		पैतृक गुणसूत्र
paternoster lakes	<i>Geog.</i>	झीलमाला, सरोवरमाला
patesi	<i>Geog.</i>	पैटेसी, पुरोहित राजा
path	<i>Phy</i>	पथ
path difference		पथांतर
pathfinder		पथान्वेषी
path line		पथ रेखा
pathogen	<i>Bot Zool</i>	रोगजनक रोगाणु
pathogenesis	<i>Geog</i>	रोगजनन
pathogenetic		रोगजनक
pathogenic	<i>H.Sc</i>	रोगजनक, विहृति जनक, विकारी
pathogenic bacteria		रोगजनक जीवाणु
pathogenicity		रोगजनकता
pathogenic organism	<i>Zool</i>	रोगजनक जीव
pathogenous		रोगजनक
pathogeny		रोगजनन
pathological	<i>H.Sc</i>	वैकृत, विहृतिजन्य
pathological anatomy		विहृति शारीर
pathological histology		विहृति औतिकी
pathologist	<i>H.Sc.</i>	रोगविज्ञानी, विहृतिविज्ञानी
pathology	<i>Biol, H Sc.</i>	रोगविज्ञान, विहृति- विज्ञान
path parallel distribution (=geodesic distribution)	<i>Math</i>	समानांगरी वटन

patient	<i>H.Sc.</i>	रोगी	pattern problem		प्रतिरूप समस्या
patina (= desert crust, <i>Geog.</i> desert-varnish)	<i>Chem.</i>	1. छदिमा, मरुस्थली 2. पैटिना	Patterson-Harker method	<i>Chem.</i>	पैटर्सन हार्कर पद्धति
patio process	<i>Chem.</i>	पारदर्शन प्रक्रम, पैटिजी प्रक्रम	Patterson-Harker synthesis		पैटर्सन हार्कर संश्लेषण
patis	<i>H.Sc.</i>	पैटिस	Patterson map	<i>Phy.</i>	पैटर्सन मानचित्र
patocole	<i>Zool.</i>	वनस्तरवासी	patterson projection		पैटर्सन प्रक्षेपण
patola	<i>H.Sc.</i>	पटोला	Patterson series		पैटर्सन श्रेणी
patoxene	<i>Zool.</i>	वनागंतु, वनस्तरी	Patterson synthesis		पैटर्सन संश्लेषण
patriarchal	<i>Geog., H.Sc.</i>	पितृवंशवादी	Patterson Tunell mask	<i>Phy.</i>	पैटर्सन टनेल प्रच्छादन
patrilineal	<i>Geog.</i>	पितृवंशीय, पितृवंशिक, पैतृक	Patterson Tunell method		पैटर्सन टनेल विधि
patrilineal culture		पैतृक संस्कृति	Patterson Tunell strip		पैटर्सन टनेल पट्टिका
patrilineal exogamy		पितृवंशीय बहिर्विवाह	Pattinson process	<i>Chem.</i>	पैटिन्सन प्रक्रम
patrilocal marriage	<i>Geog.</i>	पतिस्थानिक विवाह	Pattinson's white lead		पैटिन्सन श्वेतिका, पैटिन्सन व्हाइट लीड
patrimony		पैतृक धन, पैतृक संपत्ति	patty	<i>H.Sc.</i>	पैटी
patriot	<i>Geog.</i>	देशभक्त	patulin	<i>Chem.</i>	पैचलिन
patronite	<i>Geol.</i>	पैट्रोनाइट	patulous	<i>Geol.</i>	प्रसारी
patronymic	<i>Geog.</i>	पितृनामिक, पितृनामी	paucidisperse system	<i>Chem.</i>	अल्पपरिक्षेप तंत्र
Patten and Reader's indicator	<i>Chem.</i>	पैटन-रीडर सूचक	pauci spiral		अल्पसर्पिल
pattern		चित्राम, प्रतिमान, प्रतिरूप, पैटर्न	Pauli exclusion principle	<i>Phy.</i>	पाउली अपवर्जन सिद्धान्त
pattern baldness	<i>Zool.</i>	प्रतिरूप गंजापन	paulin	<i>H.Sc.</i>	पॉलिन
patterned ground	<i>Geog., Geol.</i>	चित्रामी भूमि	Paulin altimeter	<i>Geol.</i>	पॉलिन तुंगतामापी
patterned sampling (=systematic sampling)	<i>Math.</i>	व्यवस्थित प्रतिचयन	Pauling concentrator	<i>Chem.</i>	पॉलिंग सांद्रित्र
patterned till-sheet	<i>Geog.</i>	आकृतिक गोलाश्म, मृत्तिका-चादर	Pauling's adjacent charge rule		पॉलिंग निकटवर्ती आवेश नियम
pattern function		प्रतिरूप फलन	Pauling scale		पॉलिंग मापक्रम
pattern generator		चित्राम जनित्र	Pauli principle	<i>Chem., Phy.</i>	पाउली सिद्धान्त
pattern-in-space		संमष्टि-पैटर्न	Pauli's exclusion principle		पाउली अपवर्जन सिद्धान्त
pattern matching		चित्राम सुमेलन, पैटर्न सुमेलन	Pauli spin operator		पाउली प्रचक्रण संकारक
pattern metal		पैटर्न धातु	Pauli spin suscepti- bility		पाउली प्रचक्रण चुंबकीय प्रवृत्ति
pattern of human life		मानव जीवन प्रतिरूप	Paulocaris		पोलोकारिस
pattern of regularity		नियमितता प्रतिरूप	paulopost		सद्यअर्न्तर
pattern paper	<i>H.Sc.</i>	नमूना कागज, पैटर्न पेपर	paunch (rumen)	<i>Zool.</i>	प्रजठर (प्रथम आमाशय)
pattern playback		पैटर्नपुनःचालन, चित्राम पुनःचालन			

Paurodon	Zool	पौरोडॉन	pays	Geog.	पेय, प्रदेश, लघुप्रान्त
Paurometabola		पौरोमेटाबोला	paysage	Geog.	प्राकृतिक दृश्य
pauropod	Zool	लघुपाद, पौरोपोड	pay shoot	Geol	आद्य अयस्क पिंड
Pauropoda	Zool.	पौरोपोडा	pay streak	Geol	लाभकर रेखा, आद्य रेखा
Pauropodidae		पौरोपोडाइडी	Payzant pen	Geog.	पैजेंट पैन, पैजेंट लेखनी
Pauropus	Zool	पौरोपस	p-basis	Math.	p-आधार
paved crossing	Geog.	आचित पारणस्थान	p-benzoquinone-di-imine	Chem.	p-बेन्जोक्विनोन-डाई-इमीन
paved surface	Geog	आचित पृष्ठ	P-branch	Phy.	P-शाखा, ऋणात्मक शाखा
pavement	Geol, Geog	1 कूट्टिम 2. खलिकुट्टिम	p-chart	Math.	p-संचित्र
pavement tissue	Bot	कूट्टिम ऊतक	P.C.M. (pulse code modulation)	Phy.	स्पदकोड मांडुलन
Pavetta indica	Bot	पावेटा इन्डिका	p-discriminant relation	Math.	p-विविक्तकर सम्बन्ध
pavilion	Geog.	मंडप	P.D.M. (pulse duration modulation)	Phy	स्पदअवधि मांडुलन
paving brick clay	Geol,	फर्शी ईट की मिट्टी	pea agar medium	Bot	मटर ऐगार माध्यम
paving stone	Geol	फर्शी पत्थर	peace-loving state	Geog	शांतिप्रिय राज्य
Pavlotso	Geog	पाव्लोत्सो	peach	H.Sc	आड़ू, सनातु
pavlova	H Sc.	पैवलोवा	peach blossom	Bot	पीच ब्लॉसम, आड़ू पुष्प पुञ्ज
Pavo	Zool	पैवो (मयूर)	peachblossom red		आड़ूपुष्पी लाल
Pavo cristatus		पैवो क्रिस्टेटस (मौर)	peach borer	Zool	आड़ू छेदक
Pavonina	Zool	पैवाँनाइना	peach dieback	Bot	आड़ू का शीर्षारभी शय, आड़ू का पश्चशय
pavot	H Sc.	पैवट	peach powdery mildew		आड़ू की चूर्णिल आमिता
Pavy's method	Chem	पैवि विधि	peach rosette		आड़ू रसबकानि
Pawlowsky's gland	Zool.	पाव्लोस्की ग्रंथि	Peach's table		पीच मारणी
paxillae	Geol.	पैक्सिली, प्रकील	peach stone		पीच स्टोन
paxillus (paxilla)	Zool	प्रकील	peach yellows		आड़ू पीनर्गि
pay dirt	Geol.	आद्य मुदा	peacock	Zool	मौर, मयूर
pay gravel		आद्य ग्रेवेल	peacock (butterfly)	Zool.	मयूर नितनी
pay load	Geog.	1. पैलोड, सारयोग 2 आयभार	peacock copper	Geol	मयूरताम्र, सोनईट
payload mass	Math.	नीतभार इव्यमान	peacock ore		मयूर अयस्क
payload ratio		नीतभार अनुपात	pea comb	Zool.	मटर ककत
payload velocity		नीतभार वेग	pea crab		मटर-बेकड़ा
payment	Math.	भुगतान	pea decoction		मटर क्वाथ
payoff function		भुगतान फलन			
payoff matrix		भुगतान आव्यूह			
pay ore	Geol.	आद्य अयस्क			
payote (peyote etc)	Chem.	पैयोटी			



pea downy mildew	<i>Bot.</i>	मटर की मृदुरोमिल आसिता	peak-to-peak value	<i>Phy.</i>	शिखर-शिखर मान
pea fowl (peacock)	<i>Zool.</i>	मयूर, मोर	peak-to-valley ratio	<i>Chem., Phy.</i>	शिखर-घाटी अनुपात, शिखर-गर्त अनुपात
pea hen	<i>Zool.</i>	मयूरी, मोरनी	peak trough		शिखर द्रोणी
pea iron ore	<i>Geol.</i>	मटर लोह अयस्क	peak value		शिखरमान
peak	<i>Geog., Geol.</i>	शिखर	peak voltmeter		शिखर वोल्टमापी
peak-a-boo system	<i>Phy.</i>	पीक-ए-बू प्रणाली	peak white (=white peak)		श्वेत शिखर
peak black		कृष्ण शिखर	peak width		शिखर चौड़ाई
peak clipper		शिखर कर्तक	peak working reverse voltage	<i>Phy.</i>	कार्यकारी शिखर प्रतिवोल्टता
peak clipping		शिखर कर्तन	pea mosaic		मटर किर्मीर
peak concentration	<i>Math.</i>	चरम संकेन्द्रण	Peano curve	<i>Math.</i>	पियानो-वक्र
peak dose		चरम डोज, चरम मात्रा	Peano space		पियानो-समष्टि
peak drag	<i>Math.</i>	उच्चतम कर्षण	peanut	<i>H.Sc., Geog.</i>	मूंगफली
peak drag coefficient		उच्चतम कर्षण गुणांक	peanut brittle		मूंगफली पट्टी
peakedness		शिखरता	peanut butter		मूंगफली मक्खन
peaker		शिखरक	peanut fiber		मूंगफली रेशा
peak forward anode voltage		शिखर अग्र ऐनोड वोल्टता	peanut flour		मूंगफली आटा
peak function		शिखर फलन	peanut oil		मूंगफली तेल
peak-hour travel	<i>Geog.</i>	व्यस्ततम काल यात्रा, शिखर काल यात्रा	peanut worm	<i>Zool.</i>	मूंगफली कृमि
peaking coil (=correcting coil)	<i>Phy.</i>	शिखरन कुंडली	pear	<i>Bot.</i>	नाशपाती, नाख
peaking inductance		शिखरन प्रेरकत्व	pear bitter rot		नाशपाती का तीव्र विगलन
peaking network		शिखरक जाल	pear black rot		नाशपाती का कृष्ण विगलन
peaking transformer		शिखर ट्रांसफार्मर	pear blight		नाशपाती क्षीर्णता, नाशपाती अंगमापी
peak intensity		शिखर तीव्रता	pear cancer		नाशपाती का प्रव्रण
peak intensity method		शिखर तीव्रता विधि	pearceite		पियरसाइट
peak inverse voltage		प्रतीप शिखर वोल्टता	pear fruit rot		नाशपाती का फल विलगन
peakless function	<i>Math.</i>	शिखररहित फलन	pearl	<i>Geol. H.Sc.</i>	मुक्ता, मोती पल
peak limiter		शिखर सीमक	pearl ash	<i>Chem.</i>	मुक्ता भस्म
peak load		शिखर लोड, शिखर भार	pearl bank	<i>Zool.</i>	मुक्तागार, मुक्ता तट
peak period	<i>Chem., Geog.</i>	शृंग काल, व्यस्ततम काल	pearl braid	<i>H.Sc.</i>	पलं ब्रेड
peak plain		शिखर मैदान	pearl cotton	<i>H.Sc.</i>	पलं सूत्र
peak production	<i>Geog.</i>	चरम उत्पादन	pearl diabase	<i>Geol.</i>	पलं हायावेस
peak pulse power		स्पंद की शिखर शक्ति			
peak to peak amplitude		शिखर-शिखर आयाम			

pear leaf blight		नाशपाती की पर्णशीर्षता, नाशपाती की पर्ण अयमारी	peasant agriculture	Geog.	कृषक खेतीबारी
pear leaf blister		नाशपाती का पर्ण फफोला	peastone	Geog., Geol.	पीस्टोन, पिसोलाइट
pear leaf spot		नाशपाती का पर्ण लक्ष्म	peat	Chem., Geol., Geog.	पीट
pearlescent pigment	Chem.	मुक्ताम वर्णक	peat bed		पीट सस्तर
pearl filler		मुक्ताम भरक	peat bog		पीट दलदल
pearl fisheries	Zool.	मुक्ता मात्स्यकी	peat charcoal		पीट-चारकोल
pearl fishery	Geog.	मुक्ता मात्स्यकी	peat coal		पीट कोयला
pearl grey		मुक्ता घूसर	peat coke		पीट कोक
pearl hardening		मुक्ता कठोरीकरण	peat hag (= peat hagg = hagg)		पीट हैग
pearling	Chem	परिण	peat land		पीट-भूमि
pearlite	Geol	पर्लाइट	peat moor		पीट मूर
pearlitic malleable iron		पर्लाइटी आघातवर्ध (लोहा)	peat moss		पीट मॉस
pearlitic manganese steel		पर्लाइटी मैंगनीज इस्पात	peat soil		पीट मृदा
pearl mica	Geol	मार्गेराइट	peaty	Geol	पीटमय
pearl millet	Bot.	बाजरा	peaty matter		पीटमय पदार्थ
pearl moss	Bot	पर्लमॉस	peaty soil		पीटमय मृदा
pearl mussel	Geol. Zool	मुक्ता भसल मुक्ता शम्बु	pea weevil	Geog., Zool	मटर घुन
pearl-necklace lightning	Geog.	मुक्ताकडी तडिन्	pebble	Geol H. Sc.	1 गुटिका 2 पेरिल
pearl oyster	Zool, Geol.	मुक्ता शुकित	pebble bar		गुटिका रोधिका
pearl-oyster bed	Zool.	मुक्ता शुकित सस्तर	pebble bed		गुटिका सस्तर
Pearl-Reed curve		पर्ल-रीड वक्र	pebble crystal		गुटिका-क्रिस्टल
pearl sinter	Geol.	पर्ल सिन्टर	pebble finish		गुटिकीय परिष्कृति
pearl spar	Geol.	पर्ल स्फार	pebble mill		गुटिका पेषणी
pearl spot		करीमीन	pebble powder	Geol.	पेरिल पाउडर
pearl white	Geol.	मुक्ता श्वेत	pebble weave	H.Sc.	पेरिल वयन
pearly	Geol.	मौक्तिक, मोतिया	pebbling	Geol.	1. गुटिका चित्रण 2 गुटिकायन
pearly layer		मुक्ता स्तर	pebbly sand	Geol.	गुटिकामय बालू
pearly lustre		मुक्ता छत्रि, मोतिया धमक	pebrine disease	Zool	पेब्रिन रोग, कौशेय रोग
pearly nautilus	Zool.	मौक्तिक नाटिलस	pe-ee	H.Sc.	पी-सी
pear scab		नाशपाती का कच्छु	Pechiney process	Chem	पेचिने प्रक्रम
pear-shaped galaxy	Math	नाशपातीनुमा महाबिनी	pecked line	Geog.	प्रक्षुब्ध रेखा
pear sucker	Zool.	नाशचूसक	Peclet number	Math.	पेक्लेट-संख्या
pear thrips	Zool.	नाश रमाद	pecopterid frond	Bot.	पीकोप्टेरिड पर्णावयव
			Pecopteris	Bot	पीकोप्टेरिड

<i>Pecopteris pulkenetii</i>		पीकोप्टेरिस पल्कोनेटीआइ	<i>Pectinura conspicua</i>	Zool.	पेक्टिन्युरा कॉन्स्पिकुआ
pecopteroid foliage		पीकोप्टेरिससम पत्र	pectocaulus	Zool.	पेक्टोकॉलस
Pecora	Zool.	पेकोरा	pectocellulose	Bot.	पेक्टोसेल्यूलोस
pectase	H.Sc.	पेक्टैस	pectolite	Geol.	पेक्टोलाइट
pectate	H.Sc., Chem.	पेक्टेट	pectolytic bacteria	Chem.	पेक्टिन अपघटनी जीवाणु, पेक्टिनांशी जीवाणु
pecten	Zool.	कंकतांग, पेक्टैन	pectoral	Zool.	अंसीय
Pecten		पेक्टैन	pectoral amplexus		अंसीय आलिगन
<i>Pecten asper</i>		पेक्टैन ऐस्पेर	pectoral appendage		अंस अनुबंध
<i>Pecten lens</i>		पेक्टैन लेन्स	pectoral arch		अंस चाप
pectic acid	Chem.	पेक्टिक अम्ल	pectoral fin		अंस पख
pectic compound		पेक्टिनी यौगिक	pectoral girdle	H.Sc. Zool.	बल्लोमेखला अंस मेखला
pectic layer		पेक्टिनी स्तर	pectoralis	Zool.	अंसपेशी, पेक्टोरेलिस
pectin	H.Sc., Chem.	पेक्टिन	pectoralis major		वृहत् अंसपेशी, पेक्टोरेलिस मेजर
pectina	Zool.	कंकतपट्ट	pectoralis minor		लघुअंस पेशी, पेक्टोरेलिस माइनर
Pectinaria	Zool.	पेक्टिनेरिया	pectoral plate		अंस पट्ट
pectinase	Chem.,Zool.	पेक्टिनेस	pectoral sinus		अंस कोटर
pectinate		1. (n.) पेक्टिनेट 2. (adj.) कंकताकार	pectoral spine		अंस कंटक
pectinate antenna		कंकताकार शृंगिका	pectoral vein		अंस शिरा
pectinated mineral	Geol.	कंकतित खनिज	pectose	H.Sc., Chem.	पेक्टोस
pectinate hyphae		कंकताकार तंतु	pectunculate	Zool.	कंकती
pectinate osphradium		कंकताकार जलेदिका	pectus	Zool.	निवक्ष
pectinate rhomb		कंकताकार समचतुर्भुज	peculiar motion	Math.	विशिष्ट गति
pectineal tubercle		ध्रोपि गूलिका	peculiar star		विशिष्ट तारा
pectinellae	Zool.	कंकताभकला	pedagogical mode	Math.	शिक्षाशास्त्रीय निदर्भ
pectinesterase	Chem.	पेक्टिनेस्टरेस	pedal	Math.,Zool., H.Sc.	पदिक; पाद
pectineus	Zool.	पेक्टोनियस, अग्रोरुपेशी	pedal aperture		पदिक छिद्र
pectinibranch	Zool.	कंकतबलोमी	pedal commissure		पाद संघायिनी
Pectinibranchia	Zool.	पेक्टिनीब्रैकिया	pedal curve		पदिक वक्र
pectinic acid	Chem.	पेक्टिनिक अम्ल	pedal disc		पाद चिम्ब
pectiniform antenna	Zool.	कंकतरूप शृंगिका	pedal effort		पदिक प्रयास
pectinirhomb	Zool.,Geol.	कंकतसमचतुर्भुज	pedal equation		पदिक समीकरण
pectinogen		पेक्टिनजनक			

pedalfer	Bot, Geog, Geol	पेडलफर	Pediculati	Zool.	पेडिक्युलेटी
pedalfer soil		पेडलफर-मृदा	Pediculidae	Zool	पेडिकुलिडी
pedal ganglion	Zool.	पाद गुच्छिका	pediculosis	Zool	यूकता
pedal gland		पाद ग्रंथि	Pediculus	Zool.	पेडिकुलस
Pedaliaceae	Bot.	पिडैलिऐसी	<i>Pediculus humanus capitis</i>		पेडिकुलस ह्युमैनुस कैपिटिस
pedaline	H Sc.	पेडालीन	<i>Pediculus humanus corporis</i>		पेडिकुलस ह्युमैनुस कॉरपोरिस
pedalis	Bot	फुटसर	pediferous	Zool	पदधर
pedalium	Zool.	पदाशक	pediform	Zool	पदरूप
<i>Pedalium murex</i>	Bot.	पेडैलिअम मूरेक्स	pedigerous	Zool.	पदधर
pedal line	Zool.	पदिक रेखा	pedigree	Biol	वशावली
pedal lobe		पदीय पालि	pedigree herd	Geog	अभिजात यूथ
pedal nerve cord		पाद तंत्रिका रज्जु	pediment	Geol, Geog, H Sc	पेडिमेट
pedal tentacle		पदिक स्पर्शक	pedimentation	Geol	पेडिमेन्टीकरण, पेडिमेन्टन
pedal triangle		पदिक त्रिभुज	pediment pass		पेडिमेन्ट दर्रा
pedate	Biol	1. (leaf) पत्राकार 2. (animal) पदी	Pedinidae	Zool	पेडिनिडी
pedatinervous venation	Bot	त्रिशूलमम शिराविन्यास	<i>Pediococcus pelargonii</i>	Bot	पीडिओकोकोस पेलारगोनिआइ
pedes natatorii	Zool	तरण पद	pediocratic period	Geog.	पेडियोक्रैटीय काल
pedes raptorii	Zool	प्रसह पद	pedion	Geol	पेडियन
pedestal	Phy. H Sc. Geog, Geol.	पेडेस्टल, पीठिका लोपन स्तर पीठिका	Pedionomidae	Zool	पेडियोनोमिडी
pedestal block		पीठिका घट	pediophilus	Bot	अधिप्यकारापी, उच्चभूमिरापी
pedestal pulse	Phy.	समलम्ब स्पंद	pedipalp (=pedipalpus)	Geol Zool.	पदक स्पर्शक, पेडिपैल्प पदस्पर्शक
pedestal rock		पीठिका शैल	Pedipalps	Zool.	पेडिपैलिपा
pedestrian traffic	Geog.	पंदल यातायात	pediplain	Geog.	पदस्थनी
pedal class	Geol.	पीडियनी वर्ग	pediplanation		पदस्थनीभवन
<i>Pediastrum simplex</i>	Bot.	पैडिगस्ट्रम सिम्प्लेक्स	pedisulcus	Zool.	पादपरिखा
pediatrician	H Sc.	बाल-रोग वैज्ञानिक, शिशु चिकित्सक	pedocal	Geog, Geol	पेडोकल
pedicel	H Sc., Biol.	वृत्, पुष्पवृत्	pedocal soil		पेडोकल मृदा
pediceled sucker	Zool.	सवृत् चूषक	pedochemical weathering	Geog.	पेडोकेमिकल अपक्षय
pedicellaria	Zool, Geol.	वृत्पद	pedogenesis	Geol, Geog.	मृदाजनन
pedicellate megasporangia		सवृत् गुदबीजाणुघाती	pedogenic	Geol.	मृदाजनिक
pedicle	Geol, Zool	वृत्क			
pedicle opening		वृत्क-मुख			

pedogenic process		मृदाजनिक प्रक्रम	pegmatite	Geol.	पेग्माटाइट
pedogeography	Geog.	मृदा-भूगोल	pegmatitic stage		पेग्माटाइट की अवस्था
pedologist	Geol., Geog.	मृदाविज्ञ, मृदावैज्ञानिक	pegmatoid	Geol.	पेग्मेटाइट
pedology	Bot., Geol.	मृदा-विज्ञान	pegmatophyre	Geol.	पेग्मेटोफायर, पेग्मेटोफॉफरी
pedometer		पद गणित	pegmatophyric	Geol.	पेग्मेटोफॉफरीय
pedomorphism	Geol.	चिरडिम्भता	pegostylite	Geol.	पेगोस्टाइलाइट
pedon	Bot.	पेडान	pegplan	Chem.	पेग योजना
pedosphere	Geol., Geog.	मृदामंडल	peg-printing	Chem.	वेल्ल मुद्रण, पेग मुद्रण
pedozol	Geol., Geog.	पेडोजोल	peg rammer	Chem.	कीलक, मुग्दर
pedozolization	Geol.	पेडोजोलीभवन	peignoir	H.Sc.	पेनबॉर
peduncle	Bot.	1. पुष्पावलि-वृंत 2. वृंतक	Peirce amalgamator	Chem.	पियर्स पारदक
peduncle region		वृंतक क्षेत्र	Peirce-Smith converter	Chem.	पियर्स-स्मिथ परिवर्तक
pedunculate	Zool.	वृंतकी	Pekar colour test	Chem. (Food)	पेकर वर्ण निकष, पेकर वर्ण संपरीक्षण
pedunculate fin		वृंतक पख	pekin	H.Sc.	पीकिन
pedunculate papilla	Bot., Zool.	संवृत पैपिला, वृंतकी पिप्पल	pekin crepe		पीकिन क्रेप
peduru	H.Sc.	पेडुरु	pekin gauze		पीकिन गाज
peel	Bot., Chem., Zool., H.Sc.	1. (n.) छिलका, छीलन 2. (v.) विशल्कन, छीलना, निशल्कन	pekin satin		पीकिन साटन
peeled carcass	Chem.	निस्त्वक् शव	pekoe tea	H.Sc.	पीको चाय
peeling	Chem., Biol.	1. विशल्कन 2. त्वक्छेदन	pelade	H.Sc.	पेलेड
peel method		विशल्कन-विधि	Pelagia	Zool.	पेलैजिया
peel test		विशल्कन निकष, विशल्कन परीक्षण	<i>Pelagia noctiluca</i>		पेलैजिया नॉक्टिल्यूका
peening	Chem.	पीनिंग, घनताड़न	pelagic	Geog., Geol., Zool.	अंबुधी, वेलापवर्ती, पेलैजिक
peening shot	Chem.	गुलिका घनताड़न	pelagic algae		वेलापवर्ती शैवाल
peep hole	Chem., Geog.	अवलोकन छिद्र, वीक्षण छिद्र	pelagic deposit		अंबुधी निक्षेप
peep-sight alidade	Geog.	द्विवीक्षी ऐलिडेड, द्विवीक्षी दशरेखक	pelagic division		वेलापवर्ती प्रभाग
Peet-Grady knockdown test]	Chem.	पीट-ग्रेडी अघ्नःपात निकष, पीट-ग्रेडी अघ्नःपात संपरीक्षण	pelagic egg		वेलापवर्ती अंड
peg	Geog., Bot.	कीलक, खूंटी	pelagic fauna		अंबुधी प्राणिजात, वेलापवर्ती प्राणिजात
<i>Peganum harmala</i>	Bot.	पेगैनम हरमाला	pelagic fish		पेलैजिक मछली, वेलापवर्ती मछली
*Pegasus	Astron.	पेगासस	pelagic fishery		वेलापवर्ती मात्स्यकी
pegging	H.Sc.	पेगिंग	pelagic fishing		पेलैजिक मत्स्यन, वेलापवर्ती मत्स्यन
pegmatitised	Geol.	पेग्माटाइटित	pelagic ooze		वेलापवर्ती निपक
			pelagic organism		वेलापवर्ती जीव

pelagic sealer		पेलैजिक सीलाखेटक	pelisse	H.Sc. *	पेलीस
pelagic sealing		पेलैजिक सीलाखेटन	pelite	Geol	मुदाशम, पेलाइट
pelagic sediment		पेलैजिक तलछट	pelitic	Geol, Geog	मूदाशमिक, पेलाइट
pelagic zone		अम्बुष्ठी क्षेत्र	pelitic gneiss		मूदाशमिक नाइस
pelago	Geog.	पेलागो, समुद्र	pelitic schist		मूदाशमिक शिस्ट
Pelagohydra	Zool.	पेलैगोहाइड्रा	pelitic sediment		मूदाशमिक अवसाद
pelang	H.Sc	पेलैंग	pelitic tuff		मूदाशमिक टफ
Pelagornithidae	Zool	पेलैगोनिथिडी	pelitomorphic	Geol	मूलाकारूपी
Pelagotheria	Zool	पेलैगोथेरिया	pellagra	H.Sc., Zool	पेलाग्रा
Pelagotherida	Zool.	पेलैगोथेरिडा	pellet	Chem.	गोलो, गुटिका, टिककी, पेलेट
pelargonic acid	Chem.	पेलागोनिक अम्ल	pellet classifier		पेलेट वर्गीकर
<i>Pelargonium capitatum</i>	Bot	पेलागोनियम कपिटेटम	pellet deposit		गुटिका निक्षेप
<i>Pelargonium graveolens</i>		पेलागोनियम ग्रेवीओलेन्स	pelletierine	Chem	पेलीटीरीन
<i>Pelargonium ring spot</i>	Bot	पेलागोनियम वलय-बिन्दु	pelletized load		गुटिकायित्त उद्गार
<i>Pelargopsis capensis</i>	Zool.	पेलैगोप्सिस कपेन्सिस (गुरियान, वादामो कुरिल्ला)	pelletizing		गुटिकापन
pelean	Geog., Geol.	पिलीई	pelleton	H.Sc.	पेलेटॉन
pelean activity		पिलीई सक्रियता	pellet powder		गुटिका चूर्ण, टिककी चूर्ण
pelean cloud		पिलीई मेघ	Pellia	Bot	पेलिया
Pelecanidae	Zool	पेलिकैनिडी	<i>Pellia columbiana</i>		पेलिया कोलम्बियाना
Pelecaniformes	Zool	पेलिकैनिफॉर्मोइड	<i>Pellia epiphylla</i>		पेलिया एपिफिला
Pelecanoididae	Zool	पेलिकैनॉइडिडी	pellicle	Zool, H.Sc., Geog	तनुत्वक्
Pelecanus	Zool	पेलिकैनस	pellicular		तनुत्वक्, तनुत्वकीय
<i>Pelecanus philippensis</i>		पेलिकैनस फिलीपेन्सिस (हवातिल)	<i>Pellicularia filamentosa</i>	Bot.	पेलिकुलेरिया फिलामेन्टोसा
p-electron	Phy	p-इलेक्ट्रॉन	pellicular ridge	Zool	तनुत्वक् बटक
pelecypod	Zool.	पेलिपुड, पेलेसिपोड	pellicular water	Geol	त्रिली जन, तनुत्वक् जल
Pelecypoda	Zool.	पेलिपुडा	pellitoriae	Chem.	पेलिटोरीन
pelerrine work	H.Sc.	पेलरीन कारी	pell mell structure	Geol.	सुनु संरचना
pelican	Zool.	ह्वारामिन, गमनवड, पेलिकन	pellodite	Geol.	पेलोडाइट
Peliger's salt	Chem	पेलिगो लवण	pellon	H.Sc.	पेलॉन
pelises	H.Sc.	पेलिगो शोणि, शोणिवा	pellot	Chem	पेलॉट
			pellotine	Chem.	पेलोट्रीन
			Pell's equation	Math	पेल समीकरण
			pellucid	Chem, Geol., Phy.	पेलुसिड
			pellucid zone		विमान पेलुसिड

<i>Pelmatohydra oligactis</i>	Zool.	पेलमेटोहाइड्रा ऑलिगैक्टिस	<i>Peltolepis grandis</i>	पेल्टोलेपिस ग्रंडिस
Pelmatozoa	Zool.	पेलमेटोझोआ	Peltura	Geol. पेल्टूरा
pelmatozoan	Zool.	तलजन्तु	pelure	H.Sc. पलूर
pelo	H.Sc.	पेलो	<i>Pelvetia canaliculata</i>	Bot., Geog. पेल्वीशिया केनालीकुलेटा
Pelobates	Zool.	पेलोबेटेज	pelvic	Zool., H.Sc. श्रोणीय, श्रोणि
pelobatid toad	Zool.	पेलोबेटिड भेक	pelvic arch	श्रोणि चाप
<i>Pelodictyon aggregatum</i>	Bot.	पेलोडेक्टिऑन एग्रीगेटम	pelvic embrace	श्रोणीय आलिंगन
Pelodytes	Zool.	पेलोडाइटीज	pelvic fin	श्रोणि पक्ष
Pelomyxa	Zool.	पेलोमिक्सा	pelvic girdle	श्रोणि मेखला
pelone	H.Sc.	पेलोन	pelvic muscle	श्रोणि पेशी
<i>Pelonema hyalina</i>	Bot.	पेलोनिया हाएलिना	pelvic nerve	श्रोणि तंत्रिका
pelophile	Bot.	मृत्तिकारागी	pelvic plexus	श्रोणि जालक
<i>Peloploca undulata</i>	Bot.	पेलोप्लोका अन्दुलेटा	pelvic spine	श्रोणि कंटक
peloria	Bot.	पिलोरिया	pelvic vein	श्रोणि शिरा
pelory	Bot.	पेलोरी	pelviform	Bot. कुण्डरूप
pelotage	H.Sc.	पेलोटैज	pelvis	Zool. श्रोणि प्रदेश, श्रोणि, वस्ति
Pelouze nitrile synthesis	Chem.	प्लूज नाइट्राइल संश्लेषण	pelvis (kidney)	Zool. वृषकद्रोणि
pel silk	H.Sc.	पेल रेशम	pelvisternum	Zool. श्रोणि-उरोस्थि
pelt	Geog., H.Sc.	समूर खाल, रुएंदार खाल, लोमश चर्म.	pelvoux	H.Sc. पेलवॉक्स
pelta	Zool.	पेल्टा	Pembroke table	H.Sc. पेम्ब्रुक टेबुल
peltate	Zool.	छन्निकाकार	pen	Geog. 1. बाढ़ा 2. लेखनी, पेन
peltate sporophylls		छन्निकाकार बीजाणु पर्ण	Penaeidae	Zool. पेनीआइडी
peltate tentacle		छन्निकाकार स्पर्शक	Penaeus	Zool. पेनिअस
Peltephilidae	Zool.	पेल्टिफिलिडी	<i>Penaeus carinatus</i>	पेनिअस कैरीनेटस
Peltier coefficient	Phy.	पेल्टियर गुणांक	<i>Penaeus indicus</i>	पेनिअस इन्डिकस
Peltier effect		पेल्टियर-प्रभाव	<i>Penaeus monodon</i>	पेनिअस मोनोडॉन
<i>Peltigera aphthosa</i>	Bot.	पेल्टीजेरा एफ्थोसा	penaldic acid	Chem. पेनाल्डिक अम्ल
<i>Peltigera canina</i>		पेल्टीजेरा कैनाइना	pen and ink sketch	Geog. लेखनी-मसीरेखाचित्र
<i>Peltigeraceae</i>		पेल्टीजेरेसी	pen and ink test	लेखनी-मसी निकप
peltinerved venation	Bot.	छन्नसम शिराविन्यास	penang	H.Sc. पिनंग
Peltogaster	Zool.	पेल्टोगैस्टर	pen-arm	Chem. लेखनी बाहु
Peltolepis	Bot.	पेल्टोलेपिस	'penbritin' (ampicillin)	Chem. पेन्ब्रिटिन
			pencatite	Geol. पेन्केटाइट
			pencil (of light)	Phy. किरण कूचिका

pencil-beam aerial (=pencil-beam antenna)	<i>Phy.</i>	कूचिका किरणपुञ्ज ऐन्टेना, पेंसिल किरणपुञ्ज ऐन्टेना	Penea	पीनिया
pencil glide	<i>Phy.</i>	पेंसिल सर्पण, कूचिका सर्पण	penecillus	कूर्चक
pencil marking (=reference mark)	<i>Phy.</i>	निर्देश चिह्न	penecontemporaneous <i>Geol.</i>	समकालीनप्राय
pencil of circle		वृत्त-कूचिका	penecontemporaneous concretion	समकालीनप्राय सघन
pencil of conics		शाकव कूचिका	penecontemporaneous folding	समकालीनप्राय बलन
pencil of lines		रेखा कूचिका	pen engraver <i>Geog.</i>	उत्कीर्णक लेखनी
pencil of planes		समानत-कूचिका	penexclave <i>Geog.</i>	सुगम्य बहि क्षेत्र
pencil of quadratic forms		द्विघाती समघात-कूचिका	Penelope canvas <i>H Sc.</i>	पिनिलोप कैनवास
pencil of rays		किरण कूचिका	penep lain <i>Geol., Geog. Zool.</i>	समप्राय भूमि समप्राय
pencil point		पेंसिल नोक	penep lain surface	समप्राय वृष्ट
pencil shaped particle		पेंसिलकाकार कण	penep lain remanant	समप्राय भूमि अवशेष
pencil sharpner		पेंसिल तराश	penep lain torso	समप्राय भूमि अवशेष
pencil stone		पेंसिल प्रस्तर	penep laination <i>Zool., Geol., Geog.</i>	समप्राय भूमिर्माण, समप्रायकरण
pencil valve		पेंसिल वाल्व	penesaline water <i>Geol.</i>	अतिलवणप्राय जल
pendant	<i>Zool., Geog.</i>	निलम्बन, प्रालम्बन, पेन्डेन्ट	penescope test <i>Chem. (Paper)</i>	पेनिस्कोप निर्यय
pendant nest		निलम्बी नीड	penesismic region <i>Geol.</i>	भूकम्पप्राय प्रदेश
pendant series	<i>Geog.</i>	समम्बद्ध सीरीज	penetrability <i>Bot.</i>	वेधिता
pendent	<i>Biol., Geol.</i>	1. निलम्बी, आलव 2. पेन्डेन्ट	penetrable <i>Phy.</i>	अतवेध्य
'pendent' drop method		पेन्डेंट बिन्दु पद्धति, प्रालम्ब बिन्दु पद्धति	penetrameter <i>Chem.</i>	पेनिट्रामीटर
pendent formation		प्रालम्ब शैलमूह	penetrance <i>Zool.</i>	वेध्यता
pendent sporangium		निलम्बी बीजाणुधानी	penetrant <i>Zool., Geol., Chem.</i>	(n) वेधीदगिता (adj) वेधी, प्रवेशी
pendoscope	<i>Chem.</i>	पेन्डोस्कोप	penetrascope <i>Chem.</i>	पेनिट्रास्कोप
pendular movement	<i>Zool.</i>	सोलक गति	penetrate <i>Phy., Geog.</i>	वेघन
pendulous type	<i>Bot.</i>	निलवी	penetrating <i>Chem.</i>	प्रवेशी
pendulum	<i>Phy., Geog., Geol.</i>	सोलक	penetrating agents <i>Chem.</i>	अतवेघक
pendulum crusher		सोलक दलित	penetrating orbit <i>Phy.</i>	अतवेधी कक्षा
pendulum day		सोलक दिन	penetrating power	वेघन सामता
pendulum gyroscope	<i>Phy.</i>	सोलकीय घूर्णाक्षरूपी	penetrating ray	वेधी किरण
pendulum method		सोलक विधि	penetrating shower	वेधी वर्षण
pendulum observation		सोलक प्रेक्षण, पेन्डुलम प्रेक्षण	penetration	वेघन, प्रवेण
			penetration complex	वेघन सतुल
			penetration compound	वेघन दीर्घक



penetration depth		वेधन गहराई	peninsular India		प्रायद्वीपीय भारत
penetration factor		वेधन गुणक	peninsula site		प्रायद्वीप स्थल
penetration fracture test		अंतर्वेधन भंग निकष	Peniophora	Bot.	पेनिओफोरा
penetration number		अंतर्वेधन संख्या	penis	Zool.	शिश्न
penetration period		वेधनावधि	penis bulb		शिश्न कन्द
penetration probability		वेधन की प्रायिकता	penis filum		शिश्न सूत्र
penetration resistance		वेधन प्रतिरोध	penis papilla		शिश्न पिप्पल
penetration shower		वेधन वीछार	penis sac		शिश्न कोष
penetration twin	Geol.	अन्योन्यवेणी यमल	penis vesicle		शिश्नाशय
penetrometer	Chem., Geog.	वेधनमापी	penitent	Geog., Geol.	पेनिटेन्ट
penetron	Chem.	पेनिट्रॉन	penitent snow		पेनिटेन्ट हिम
penguin	Zool., Geog.	पेंग्विन	penna (contour feather)	Zool.	देहपिच्छ (आकृति पिच्छ)
penial setae	Zool.	मैथुन-शूक	pennaceous	Zool.	दृढपिच्छक, संहतपिच्छक
penial tube		मैथुन नली, शिश्न नली	pennate diatom	Bot.	अचक्रिक डायटम
penicillamine	Chem.	पेनिसिलैमीन	Pennatula	Zool.	पेनेटुला
penicillate	Bot., Zool.	कूर्चाकार	Pennatulacea	Geog., Zool.	पेनेटुलेशिया
penicillic acid	Chem.	पेनिसिलिक अम्ल	pennatularian	Zool.	पेनेटुलेरियन
penicillin	Chem., H.Sc.	पेनिसिलिन	Pennatula sulcata	Zool.	पेनेटुला सल्केटा
penicillinase	Zool.	पेनिसिलीनेस	penniculus	Zool.	पेनिन्युलस, पक्षमाभपट्टी
Penicillium chrysogenum		पेनिसिलियम क्रिसोजेनम	penniform	Zool.	पिच्छरूप
Penicillium glaucum		पेनिसिलियम ग्लॉकम	penniform venation	Bot.	अवकोर शिराविन्यास
Penicillium notatum		पेनिसिलियम नोटेटम	penninerved	Bot.	पिच्छशिरीय
penicillium oxalicum		पेनिसिलियम आक्सैलिकम	penninite	Geol.	पेनीनाइट
Penicillium spinulosum		पेनिसिलियम स्पिन्यूलोसम	penniveined		पिच्छशिरीय
penicilloic acid	Chem.	पेनिसिलोइक अम्ल	Pennulata	Zool.	पेन्युलेटा
penicillus	Bot.	कूर्चिका	pennyroyal oil	Chem.	पेनिरॉयल तेल
penide	H.Sc.	पेनिड	Penny's method	Chem.	पेनी-विधि
penilloic acid	Chem.	पेनिलोइक अम्ल,	Penokean revolution	Geol.	पेनोकी भूक्रांति
peninsula	Geog., Geol.	प्रायद्वीप	pen recorder	Phy.	कलम अभिलेखित्र
peninsular area		प्रायद्वीपीय क्षेत्र	pension	H.Sc.	पेंशन
peninsular character		प्रायद्वीपीय स्वरूप	Pensky-Martens apparatus	Chem.	पेन्स्की मार्टेन्स उपकरण
			Pensky-Martens closed tester	Chem.	पेन्स्की मार्टेन्स संवृत निकषपित्र
			penstock	Geol.	पेनस्टॉक
			pentacamarus	Bot.	पंचकोष्ठकी
			pentacene	Chem.	पेन्टासीन

Pentaceros	Zool	पेन्टामेरोस	pentagrid mixer	Phy.	पचग्रिड मिश्रक
<i>Pentaceros hedemanni</i>	Zool.	पेन्टासेराँस हेडेर्मनाई	pentagynous	Bot.	पचत्रात्रागी
pentachloride	Chem	पेन्टा-क्लोराइड	pentahydrocalcite	Geol.	पेन्टाहाइड्रोकैल्साइट
pentacotane	Chem	पेन्टाकॉटेन	pentahydroxy acid	Chem	पेन्टा हाइड्रॉक्सी अम्ल, पेन्टा हाइड्रॉक्सी ऐमिट
pentacrinoïd	Zool	पेन्टाक्रिनॉइड	pentakis	Chem	पचन, पेन्टाक्रिस
Pentacrinus	Geol	पेन्टाक्रिनस	pentalenyl dianion	Chem	पेन्टालिनिलन द्विष्ट्रणाशन
pentact	Zool	पचदशिका	pentamer	Chem	पचलक
pentactine	Geol	पचअरीय	Pentameracea		पेन्टामिरॅगिया
pentactinic	Zool	पचारिक	pentamerism		पचतयिता
pentactula	Zool	पेन्टेक्टुला, पचम्पञ्जक	pentameros	Bot	पचतयी, पचभागी
pentacyclic	Bot	पचचक्री	pentamethoxy red	Chem	पेन्टामेथॉक्सी रेड, पेन्टामेथॉक्सी लाल
pentad	Chem, Phy, Geog.	1 पचतय 2 पचदिवसावधि 3 पचसयोजक	pentamethylene	Chem	पेन्टामेथिलीन
pentadactyl	Zool	पचागुनि	pentamidine	Chem	पेन्टेमिडीन
pentadactyl animal		पचागुलि प्राणी	pentammine	Chem	पेन्टाम्मीन, पचएम्मीन
pentadactyl limb		पचागुलि पाद	pentandrous	Bot.	1 पचपुत्रेयरी 2 पचपुमगी
pentadactylus (=five fingered)		पचागुनि, पचागुलीय	pentandrus		पचपुत्रेयरी
pentadactyl tetrapod		पचागुलि चतुष्पाद	pentane	Chem.	पेन्टेन
pentad criterion	Math	पचतयी निवच	pentane candle		पेन्टेन केन्डिल
penta-decane	Chem.	पेन्टाडेकेन	pentane lamp		पेन्टेन लैम्प
pentadecylic acid	Chem.	पेन्टाडेसिलिक अम्ल पेन्टाडेसिलिक ऐमिट	pentane standard		पेन्टेनो दीप स्तौन
pentadelphous	Bot	पचसघी	pentangular		पचकोणी
pentad-enol	Chem.	पेन्टेड-ईनॉल	pentanol		पेन्टेनॉल
pentadiene	Chem	पेन्टाडाइईन	pentapetalous	Bot	पचदली
pentadienyl	Chem	पेन्टाडाइ-ईनिल	pentaphyllous		पचपर्णी
pentanoic acid	Chem	पेन्टाईनोइक अम्ल	pentaploid		पचपुणित
pentagon	Math.	पचभुज	pentapositive	Chem	पचधन
pentagonal		पचभुजीय	penta prism	Geog, Phy.	पच-पार्व प्रिस्म
pentagonal coxal plate		पचभुजीय वक्षग पट्ट	pentapterous	Bot.	पचपरा
pentagonal dodecahedron		पचभुजीय द्वादशफलक	pentasquin	Chem.	पेन्टाक्विन
pentagonal pyramidal arrangement	Chem	पचकोणीय विरैषिडी विन्यास	pentaradial	Zool	पचारीय
Pentagonaster		पेन्टागोनैस्टर	pentaradial symmetry		पचारीय सममिति
pentagrid converter	Phy	पचग्रिड परिवर्तक	pentaric acid	Chem	पेन्टेरिक अम्ल
			pentasalt	Chem	पेन्टानत्रण, पेन्टामॉन्ट
			pentasepalous	Bot.	पचबाह्यदली

pentasepalus		पंचबाह्यदली	pentoxide		पेंटऑक्साइड
pentasol	Chem., Geol.	पेन्टासॉल	Pentoxylae	Bot.	पेन्टॉक्साइली
pentasomic	Zool.	त्रिबधिसूत्री (ब्यधिसूत्री)	<i>Pentoxylon sahnii</i>	Bot.	पेन्टोक्सिलॉन साहनिआई
pentaspermous	Bot.	पंचबीजी	pentref	Geog.	ग्राम, वासभूमि
pentaspherical coordinates	Math.	पंचगोलीय निर्देशांक	Pentremites	Zool.	पेन्ट्रीमाइटीज
Pentastomida	Zool.	पेन्टास्टोमिडा	pentrone	Chem.	पेन्ट्रोन
Pentastomum	Zool.	पेन्टास्टोमम	pent-roof	Geog.	एकपाश्र्वनत छत, एकपाश्र्वनत छज्जा
<i>Pentastomum taenioides</i>		पेन्टास्टोमम टीनिऑइडीस	Pentstemon	Bot.	पेन्टस्टेमन
pentathionic acid	Chem.	पेन्टाथायोनिक अम्ल	pent-up water	Geog.	अवरुद्ध जल
Pentatomidae	Zool.	पेन्टाटोमिडी	pentyl alcohol	Chem.	पेन्टिल ऐल्कोहॉल
Pentatrachomonas	Zool.	पेन्टाट्राइकोमोनास	pentyne	Chem.	पेन्टाइन
pentatron	Phy.	पेन्टाट्रॉन	pen-type graver	Geog.	पेनटाइप ग्रेवर, कलम सदृश ग्रेवर
pentavalent	Zool.	पंचसंयोजक	penult	Geol.	उपांत्य
pentele cheese	H.Sc.	पेन्टेल पनीर	penultimate	Chem., Geog.	उपान्त्य, उपान्तिम
pentelic marble	Geol.	पेन्टेलिकसी संगमरमर	penultimate chamber		उपान्तिम कोष्ठ
pentene		पेन्टीन	penultimate stage		उपान्तिम अवस्था
penthouse	Geol., Geog.	1. (Mining) रसागृह, पेन्ट हाउस 2. बॉसारा	penultimate surface		उपान्तिम पृष्ठ
pentine		पेन्टाइन	penumbra	Phy., Geog.	उपच्छाया
pentinormal	Chem.	पंचाश नॉर्मल, पेन्टीनॉर्मल	penumbra of suburbia		नगरोपान्त-उपच्छाया
pentitol	Chem.	पेन्टिटॉल	pen wiper	Phy.	पेन वाइपर
Pentlandia	Zool.	पेन्टलैंडिया	peonidin	Chem.	पिऑनिडिन
pentlandite	Geol.	पेन्टलैंडाइट	peonin	Bot.	पिऑनिन
pentobarbital	Chem.	पेन्टोबारबिटल	people's hemisphere	Geog.	जन गोलाद्वै
pentode	Phy.	पेन्टोड	peperite	Geog.	पेपिराइट (लावावसाद मिश्रण)
pentode valve		पेन्टोड वाल्व	Peperomia		पेपेरोमिया
pentolite	Chem.	पेन्टोलाइट	pepino hill	Geog.	पेपीनो पहाड़ी
pentosan	Bot., Chem.	पेन्टोसन	peplolite	Geol.	पेप्लोलाइट
pentose	Chem.	पेन्टोस	pepo	Bot.	पीपो
pentose phosphate	Chem.	पेन्टोसफॉस्फेट	pepper	Chem., H.Sc., Geog.	मरिच, काली मिर्च
pentosuria	Chem.; H.Sc.	पेन्टोसमेहु	pepper and salt texture	Geol.	सितासित गठन
pentothal	Chem.	पेन्टोथल	pepperbox	H.Sc.	पेपरबॉक्स
pentothenic acid	Chem.	पेन्टोथेनिक अम्ल	peppercake	H.Sc.	पेपरकेक

peppercorn	<i>H Sc.</i>	पेपरकॉर्न	peptonized food	<i>H.Sc.</i>	पेप्टोनिक खाद्य
peppercorn tuft	<i>Geog</i>	पेपरकॉर्न गुच्छ	Peracarida	<i>Zool</i>	पेराकारिडा
pepperell drills	<i>H Sc.</i>	पेपरेल ड्रिल	peracetic acid	<i>Chem</i>	परऐसीटिक अम्ल
pepper infectious chlorosis	<i>Bot</i>	मिर्च सत्रामक हरिमाहीनता	per acid	<i>Chem</i>	पर अम्ल
peppermint	<i>H Sc.</i>	पिपरमिन्ट	peraeopod		पेरियोपोड
peppermint glacial	<i>H Sc.</i>	पिपरमिन्ट भ्लेशियल	peragonic acid	<i>Chem</i>	पेरागॉनिक अम्ल
pepper mosaic	<i>Bot</i>	मिर्च किर्मीर	perakine	<i>Chem</i>	पैराकाइन
pepper pickle	<i>H Sc.</i>	मिर्च अचार	peral	<i>H Sc</i>	पेरल
pepsidin	<i>Chem.</i>	पेप्सिडिन	Peralestes	<i>Zool</i>	पेरालेस्टीज
pepsin	<i>H Sc , Chem , Zool</i>	पेप्सिन	peraluman	<i>Chem</i>	पेराल्यूमैन
pepsinogen	<i>H Sc , Chem , Zool</i>	पेप्सिनोजन	perambulator	<i>Geog.</i>	परैम्बुलेटर
peptase	<i>Chem , Zool.</i>	पेप्टेस	Perameles	<i>Zool.</i>	पेरामेलीज
peptic ulcer	<i>H Sc.</i>	पेप्टिक व्रण	Peramelidae	<i>Zool</i>	पेरामेनिडी
peptidase	<i>Chem.</i>	पेप्टिडेस	Perameloidea	<i>Zool.</i>	पेरामेनॉइडिया
peptide	<i>H.Sc , Chem</i>	पेप्टाइड	Peramys	<i>Zool.</i>	पेरामिस
peptide chain		पेप्टाइड शृंखला	Peranema	<i>Zool</i>	पेरानीमा
peptide link		पेप्टाइड बन्ध	perapetalum	<i>Bot.</i>	दनोपाग
peptused	<i>Chem.,H Sc.</i>	पेप्टीकृत	peraphyllum	<i>Bot.</i>	पर्षोपांग
peptiser		पेप्टीकारक	Peratherium	<i>Zool.</i>	पेराथैरियम
peptising medium		पेप्टीकरण माध्यम	perbenzoic acid	<i>Chem.</i>	परबेन्जोइक अम्ल
peptization	<i>Geol.</i>	पेप्टीकरण, पेप्टाइडेशन, पेप्टीभवन	perborate	<i>Chem.</i>	परबोरेट
peptize		पेप्टीभवन	perborax	<i>Chem.</i>	परबोरेक्स
peptizing agent		पेप्टीकारक	perbunan	<i>Chem</i>	परबुनन
<i>Peptococcus activus</i>	<i>Bot</i>	पेप्टोकोकस एक्टाइवस	perca	<i>Zool.</i>	पर्का
peptolytic ferment	<i>Zool</i>	पेप्टोननशी क्षिप्त	percale	<i>H.Sc.</i>	पर्केल
peptone	<i>H Sc., Chem ,Zool.</i>	पेप्टोन	percale bed sheeting		पर्केल पलंगचादर
peptone medium		पेप्टोन माध्यम	percale stripes		पर्केल धारी (बस्त्र)
peptonephridium	<i>Zool.</i>	पाचनवृषक	percaline		पर्केली
peptonization	<i>Bot.</i>	पेप्टोनीकरण, पेप्टोन प्रभाव	per-capita trade	<i>Geog</i>	प्रतिव्यक्ति व्यापार
			percarbonic acid	<i>Chem.</i>	परकार्बोनिक अम्ल
			perce	<i>H.Sc.</i>	पेर्स
			perceived noise level	<i>Phy.</i>	अवश्रव्य स्तर स्तर
			percent	<i>Phy ,Math.</i>	प्रतिशत
			percentage		प्रतिशतता
			percentage depth dose		प्रतिशत गहराई खोज, प्रतिशत गहराई मात्रा
			percentage error		प्रतिशत त्रुटि
			percentage frequency		प्रतिशत बारबारता

percentage graph		प्रतिशतता ग्राफ	perching		पचिग
percentage increase		प्रतिशत वृद्धि	perching mechanism	Zool.	पक्षिसाद साधन
percentage modulation		प्रतिशतता माड्युलन	perchlorate	Chem.	परक्लोरेट
percentage of elongation		दैर्घ्यवृद्धि प्रतिशतता, लंबाई वृद्धि प्रतिशतता	perchloric acid	Chem.	परक्लोरिक अम्ल, परक्लोरिक ऐसिड
percentage of error		अशुद्धि-प्रतिशतता	perchloro-	Chem.	परक्लोरो-
percentage omission		प्रतिशत छूट	perchlorol	Chem.	परक्लोरॉल
percentage position		प्रतिशत स्थिति	perchloryl	Chem.	परक्लोरिल
percentage synchroni- zation		प्रतिशत तुल्यकालन	perchromic	Chem.	परक्रोमिक
percent decrease		प्रतिशत ह्रास	perch trout	H.Sc.	पर्च ट्राउट
percent defective		प्रतिशत दूषितानुपात	percolate	Chem., Geol.	रिसना, स्रवण
percent difference		प्रतिशत अंतर	percolating	Chem., Geol.	अंतःस्रावी
percentile	Math.	शततमक	percolating water		अंतःस्रावी जल
percentile norms		शततमक मानक	percolation	Geol., Geog.	अंतःस्रवण
percentile rank		शततमक कोटि	percolation capacity		अंतःस्रवण क्षमता
percentile scale		शततमक मापक्रम	percolation rate		अंतःस्रवण दर
perceptibility	Geog.	अवगम्यता	percolation water		अंतःस्रवण जल
perceptible pressure		अवगम्य दाब	percolator	Chem., H.Sc.	स्रावित्र
perceptible symptom		अवगम्य लक्षण	Percomorphi	Zool.	पर्कोमोर्फाई
perceptible velocity		अवगम्य वेग	Percopsis	Zool.	पर्कोप्सिस
perception		अवगम	percrystalline	Geol.	परमक्रिस्टली
perception of depth	Geog.	गहनता-अवगम	percuprate	Chem.	परक्यूप्रेट
perceptron	Math.	पर्सेप्ट्रॉन	percurent	Bot.	आदैर्घ्यवर्धी, आपादशिखवर्धी
perch	Zool.	1. (Bird) पक्षिसाद 2. (Fish) पर्च	percussion	Phy. H.Sc.	आघात परित्ताडन
	H.Sc.	अड्डा, बत्तेरा	percussion cap		आघात-टोपी
	Chem.	(Text.) यष्टि	percussion figure		आघाती आकृति
perched aquifer	Geol.	दुःस्थित जलभृत	percussion instrument		आघात-वाद्य, पट-वाद्य
perched beach ridge		दुःस्थित पुलिन कटक	percussion method of drilling		वेद्य-आघात विधि
perched block		दुःस्थित शैलखंड	percussion mortar		आघात खल्ल
perched cirque		दुःस्थित झरक	percutaneous	Zool.	त्वचापेशी
perched ground water		दुःस्थित भौमजल	Percy and Plattner's process	Chem.	पर्सी-प्लैटनर प्रक्रम
perched rock		दुःस्थित शैलखंड	Perdicula asiatica	Zool.	पर्दिक्युला एशियाटिका
perched stream		दुःस्थित सरिता			
perched water		दुःस्थित जल			
perched water table		दुःस्थित भौमजलस्तर			
perches	H.Sc.	पर्चस			

perdisulphuric acid	<i>Chem</i>	परडाइसल्फ्यूरिक अम्ल, परडाइसल्फ्यूरिक ऐसिड	perfect closure	<i>Math</i>	1. परिपूर्ण निमीषण 2 परिपूर्ण सवरक्त
perduren	<i>Chem</i>	परद्यूरेन	perfect conductor		पूर्ण चालक
pereduin	<i>Bot.</i>	पेरिडिनिन	perfect crystal		पूर्ण क्रिस्टल
peregrination	<i>Geog.</i>	पर्यटन, परिभ्रमण	perfect cube		पूर्ण घन
peregrine	<i>Zool.</i>	प्रघ्नमी	perfect cubic expression		परिपूर्ण त्रिघाती व्यंजक
peremeter	<i>Chem</i>	परमाप	perfect differential	<i>Math.</i>	दयातथ अवकल
perennans	<i>Bot.</i>	* चिरस्थायी, बहुवर्षीय	perfect dislocation		पूर्ण प्रघ्नश
perennate	<i>Bot.</i>	चिरकालिकता	perfect field		परिपूर्ण क्षेत्र
perennation	<i>Zool</i>	चिरकालिकता	perfect fifth	<i>Phy</i>	शुद्ध पचम
perennial	<i>Biol, Geol., Geog.</i>	1 बहुवर्षी, चिरस्थायी 2. बारहमासी, सदानौर	perfect flower		पूर्ण पुष्प
perennial canal		बारहमासी नहर	perfect fluid		आदर्श तरल
perennial channel		सदानौर बाहिका, बारहमासी बाहिका	perfect fluid solution		आदर्श तरल हल
perennial colony		बहुवर्षी निवह	perfect gas		आदर्श गैस
perennial drainage		चिरस्थायी अपवाह	perfect group		परिपूर्ण समूह
perennial estuarine waters		चिरस्थायी ज्वारनदमुखी जल	perfect interval		शुद्ध अंतराल
perennial inland waters		चिरस्थायी अंत स्थलीय जल	perfection		पूर्णता
perennial irrigation		चिरस्थायी सिंचाई	perfectionist	<i>H Sc</i>	परिपूर्णतावादी
perennial pond		चिरस्थायी ताल, बारहमासी ताल	perfectly elastic		पूर्ण प्रत्यास्थ
perennial stream		बारहमासी तरिता, सदानौरा	perfectly elastic body		पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड
perennial trans- humance	<i>Geog</i>	सतत यात्राचरता	perfectly empty space		पूर्णतया रिक्त आनाश
perennial water		बारहमासी जल, बारहमासी अलासय	perfectly flexible		पूर्णत नम्य
perennibranchiate	<i>Zool.</i>	अपानिकलीम	perfectly normal		परिपूर्णतया प्रनामान्य
perennials	<i>Bot.</i>	बहुवर्षी	perfectly plastic solid		पूर्णत सुषट्क पिंड
pereopod	<i>Zool</i>	चलपद	perfectly separable space		परिपूर्णत पूषकरणीय समष्टि
perezone	<i>Chem.</i>	पेरेडोन	perfectly white body		आदर्श श्वेत वस्तु
perfect		1 (exact) दयातथ 2. (ideal) आदर्श 3. (complete) पूर्ण, परिपूर्ण	perfect nonconductor		आदर्श अवातक
perfect black body		आदर्श कृष्णता	perfect number		परिपूर्ण संख्या
perfect cleavage		परिपूर्ण विद्वन	perfect order		पूर्ण व्यवस्था
			perfect radiator		आदर्श विकिरक
			perfect septum	<i>Zool.</i>	पूर्ण पट
			perfect set		परिपूर्ण समुच्चय
			perfect solution		पूर्ण विलयन
			perfect space		परिपूर्ण समष्टि
			perfect square		पूर्ण वर्ग
			perfect square expression		पूर्ण वर्ग व्यंजक

perfect stage		पूर्णविस्था	perhydrol	Chem.	परहाइड्रोल
perflow nickel	Chem.	परफ्लो निकल (प्रक्रम)	perhydroxo	Chem.	परहाइड्रॉक्सो
perfluorinated carbon	Chem.	परफ्लुओरीनित कार्बन	peri acid	Chem.	पेरी अम्ल
perfluorination		परफ्लुओरीनीकरण	perianal	Zool.	परिगुदीय
perfluoro compound		परफ्लुओरो यौगिक	perianal circlet		परिगुद वृत्तक
perfoliate		स्तंभवेष्टी	perianal region		परिगुद क्षेत्र
perforate	Chem.	छिद्री	perianal skin		परिगुद त्वचा
perforate coral	Geol., Zool.	सछिद्र प्रवाल	perianth	Bot.	1. परिदलपुंज 2. (Bryophyta) सहज-पत्र पुंज
perforated		सछिद्र, छिद्रित, छिद्रिल	perianth flower		परिदली पुष्प
perforated cathode		सछिद्र कैथोड	perianthomania	Bot.	परिदलपुंजाधिक्य
perforated disc		छिद्रिल चक्रिका	periastron		तारानीच, उपतारक
perforated fabric		छिद्रित वस्त्र	periaxial	Zool.	परिअक्षीय
perforated tapes		छिद्रित फीता, छिद्रित टेप	periblast	Zool.	परिकोरक
perforate shell		सछिद्र कवच, छिद्री कवच	periblem		बल्कुटजन
perforation	H.Sc., Geog., Biol.	छिद्र, छिद्रण	peribranchial	Zool.	परिक्लोम
perforation deposit		छिद्र निक्षेप	peribranchial cavity		परिक्लोम गुहा
perforation plate		छिद्रण तल	peribranchial chamber		परिक्लोमी कोष्ठ
perforation rim		छिद्रण कोर	peribronchiolar	Zool.	परिश्वसनिकीय
perforatorium	Zool.	छिद्रकांगक, प्रवेद्यक	peribuccal	Zool.	परिमुखीय
performance	Phy., Chem.	निष्पादन	peribuccal sinus		परिमुखीय कोटर
performance chart		निष्पादन चार्ट	pericambium	Bot.	परिकैम्बियम, परिएधा
performance index		निष्पादन सूचकांक	pericapsular protoplasm	Geol.	परिसंपुटी जीवद्रव्य
performance monitor		निष्पादन मानीटर	pericardiac	Zool.	हृदयावरणी
performance number		निष्पादन संख्या	pericardiac vein		हृदयावरणी शिरा
performance test		निष्पादन परीक्षण	pericardial branch		हृदयावरणी शाखा
performer	Phy.	प्रतिध्वनि प्रवर्तक	pericardial cartilage		हृदयावरणी उपास्थि
(=echo box actuator)			pericardial cavity		हृदयावरणी गुहा
perfume	Chem.	परिमल, सुगन्ध	pericardial cell		हृदयावरणी कोशिका
perfumery	Chem.	सुगन्धशाला, परिमलशाला	pericardial diaphragm		हृदयावरणी मध्यपट
pergamentaceous	Bot.	पाचंमेन्दसम	pericardial fluid		हृदयावरणी तरल
pergelation	Geol.	चिरतुपारभूमि रचना, चिरजैलिसॉलमवन	pericardial glands		हृदयावरणी ग्रंथि
pergelisol	Geog., Geol.	चिरतुपारभूमि, चिरजैलिसॉल	pericardial membrane		हृदयावरणी कला
<i>Pergularia pallida</i>		पर्गूलेरिया पैलिडा	pericardial nephrocyte		हृदयावरणी वृक्काणु
perhumid	Geog.	अतिआर्द्र	pericardial organ		हृदयावरणी अंग

pericardial sac		हृदयावरणी कोष	Pericolpa	Zool	पेरिकॉल्पा
pericardial sinus		हृदयावरणी कोटर	<i>Pericolpa quadrigata</i>		पेरिकॉल्पा ब्रवाड्रीगेटा
pericardio-peritoneal canal		हृदयावरणी-पर्युदर्या नाल	pericolpate	Bot	परिकल्पिका
pericardium	Zool, H Sc	हृदयावरण, परिहृद	pericolporate	Bot	परिमृत्तविकरकी
pericarp	Bot	फलभित्ति	pericycle		परिचक्र
pericarpic region	Bot.	परिफल क्षेत्र	pericyst	Bot	परिपुटी, पेरिसिस्ट
pericaulome	Bot.	परिकालोम	periderm	Zool, Geol	परित्वक्, परिचर्म
pericentral	Bot.	परिकेन्द्र	peridermium	Bot	परिकन्ना
pericentric inversion	Zool.	परिकेन्द्री प्रतिलोमन	peridinian	Geog	पेरिडिनियन
perichaetine	Zool	परिचक	Peridinium	Zool.	पेरिडीनियम
perichaetium	Bot	परिचिगघ्नानी	<i>Peridinium inconspicuum</i>	Bot	पेरिडिनियम इनकॉस्पिकुअम
perichalaza	Bot	परिकैलाजा	peridium	Bot	कवक फलभित्ति
perichlor	Chem. (Mfct)	पेरीक्लोर	peridot	Geol.	अवरजद, पेरिडॉट
perichondral	Zool, Geol	पर्युपास्थिक	peridotite	Geol	पेरिडोटाइट
perichondral ossification		पर्युपास्थिक अस्थीभवन	peri-embryonic chamber	Geol.	परिभ्रूणीय कक्ष
perichondral sheath		पर्युपास्थिक आच्छद	peridendosomal	Zool	परिअन कायी
perichondrium	Zool, H Sc.	पर्युपास्थि	peridendosomal granule		परिअन कायी कणिका
perichordal	Zool.	परिपृष्ठरज्जुक, परिरज्जुक	perienteric fluid	Zool	परिआत्र तरल
perichordal arrangement		परिपृष्ठरज्जु विन्यास	perigalacticum	Math	आकाशमणानीच
perichordal centrum		परिपृष्ठरज्जुक कशोदककाय	periganglionic sinus	Zool	परिगुच्छिक कोटर
perichordal sheath		परिरज्जुक आच्छद	perigean tide	Geog	भूमिनीच ज्वार
perichordal tube		परिपृष्ठरज्जुक नली	perigee	Geog	भूमिनीच, उपमू
perichylous	Bot.	परिचलोनकी	perigee distance		उपमू दूरी
pericladium	Bot	परिशाश्रीय	perigenous	Geol	परिजन
periclyase	Geol	परिक्लेस	periglacial	Geol, Geog	परिहिमनद, परिहिमानी, परिहिमनदीय
periclyase-marble		परिक्लेस सगमरमर	periglacial climate		परिहिमनदीय जनवायु
periclinal	Geol	परिक्लिनिक, परिजन	periglacial region		परिहिमनदीय प्रदेश
periclinal chimaera		परिक्लिनिक त्रिवित्रीतातकी	periglacial zone		परिहिमनदीय क्षेत्र
periclyal division		परिक्लिनिक विभाजन, अमिनत विभाजन	perignathic	Zool, Geol.	परिहनु
periclyne	Chem, Geol.	पेरीक्लाइन	perignathic girdle		परिहनु मेघना
periclyne law		पेरीक्लाइन-नियम	<i>Perigoea capensis</i>	Zool.	पेरीजीया कैपेन्सिस
periclyne twin		पेरीक्लाइन-यमन	perigone	Bot	परिदण्ड
			perigonial bract	Bot	पुमहपत्र
			perigonium		पेरिगोनियम



perigynium	<i>Bot.</i>	परिस्त्रीधानी
perigynous	<i>Bot.</i>	परिजायांगी
perigynous flower		परिजायांगी पुष्प
perigyny		परिजायांगिता
perihaemal channel	<i>Zool.</i>	परिरुधिर नाल
perihaemal membrane		परिरुधिर कला
perihaemal system		परिरुधिर तंत्र
perihelion	<i>Math.,Phy., Geog.</i>	उपसौर, रविनीच
perihelion advance		रविनीच की प्रगति
perihelion displacement		रविनीच विस्थापन
perihelion fall		उपसौर पतन, उपसौर पात
periknetic flocculation	<i>Chem.</i>	पेरिकाइनेटिक ऊर्णन
peri-intestinal sinus	<i>Zool.</i>	परिबंध कोटर
perilith	<i>Geol.</i>	परिलावाश्म, पेरिलिथ
perilla	<i>H.Sc.</i>	पेरोला
perilla oil		पेरोला तैल
perilymph	<i>H.Sc.,Zool.</i>	परिलसीका
perilymphatic fluid		परिलसीका-तरल
perilymphatic space		परिलसीका अवकाश
perilymph duct		परिलसीका बाहिनी
perimagnetic deposit	<i>Geol.</i>	परिमैग्मी निक्षेप
perimedullary	<i>Bot.</i>	परिमज्ज, परिमध्यांशी
perimedullary stele		परिमध्यांशी रंभ
perimedullary thread		परिमध्यांशी सूत्र
perimeter	<i>Math.,Phy.</i>	परिमाप
perimeter wiring	<i>H.Sc.</i>	परिमाप तार स्थापन, अरीय तार स्थापन
perimorph	<i>Geol.</i>	परिरूप
perimysium	<i>Zool.</i>	पेरोमाइसियम, परिपेशिका
perinaeal gland	<i>Zool.</i>	मूलाधार ग्रंथि
perinaeum		मूलाधार
perine	<i>Bot.</i>	पेराइन, परिचोल
perinectarial	<i>Bot.</i>	परिमकरंदकोशी
perinephridiostomial ampulla	<i>Zool.</i>	परिवृक्ककामुन्ध तुंडिका

perineural sheath	<i>Zool.</i>	परितंत्रिका छद
perineural sinus		परितंत्रिका कोटर
perini fiber	<i>H.Sc.</i>	परिनि रेशा
perineurium		परितंत्रिका
perinium	<i>Bot.</i>	बीजाणुपरिमित्त
perinuclear	<i>Biol.</i>	परिकेन्द्रकी
perinuclear granule		परिकेन्द्रक कणिका
period		1. (periodic time) आवर्तकाल 2. (duration) अवधि, काल 3. (of periodic table) आवर्तक 4. (Trigonometry) आवर्तनांक 5. (Geol.) कल्प 6. (time constant) कालांक
periodato	<i>Chem.</i>	परब्रायोडेडो
periodic	<i>Chem.</i>	आवर्ती
per-iodic acid	<i>Chem.</i>	परब्रायोडिक अम्ल, परब्रायोडिक एसिड
periodic activity	<i>Zool.</i>	आवर्ती सक्रियता
periodical		आवर्ती
periodical drainage		आवर्ती अपवाह
periodical growth	<i>Phy.</i>	आवर्धिक वृद्धि
periodically recurring	<i>Chem.</i>	सावधि आवर्ती
periodic behaviour		आवर्ती व्यवहार
periodic boundary condition		आवर्ती परिसीमा प्रतिबंध
periodic classification		आवर्ती वर्गीकरण
periodic comet		आवर्ती धूमकेतु
periodic curve		आवर्ती वक्र
periodic disturbances		आवर्ती विक्षोभ
periodic disturbing force		आवर्ती विक्षोभी बल
periodic field		आवर्ती क्षेत्र
periodic fluctuation		आवर्ती उच्चावचन
periodic force		आवर्त बल
periodic form		आवर्ती रूप

periodic fraction		आवर्ती भिन्न
periodic function		आवर्ती फलन, आवर्ती प्रकशन
periodic group		आवर्ती वर्ग
periodicity	<i>Phy., Biol</i>	आवर्तित्वा
periodicity modulus		आवर्तित्वा मापांक
periodic laminar motion	<i>Math</i>	आवर्ती अप्रक्षुब्ध गति
periodic law		आवर्त-नियम
periodic motion	<i>Phy.</i>	आवर्ती गति
periodic movement	<i>Zool</i>	आवर्ती गति
periodic object		आवर्ती वस्तु
periodic orbit		आवर्ती कक्षा
periodic pincer		आवर्ती पिसर
periodic precipitation		आवर्ती अवक्षेपण
periodic quantity		आवर्ती राशि
periodic recurrent event		आवर्ती पीन-मुनिक घटना
periodic relaxation		आवर्ती विश्रान्ति
periodic season		आवर्ती काल
periodic spring	<i>Geol</i>	आंतराधिक झरना
periodic star		आवर्ती तारा
periodic system		आवर्त प्रणाली
periodic table		आवर्त सारणी
periodic term		आवर्ती पद
periodic time (of a heavenly body)		आवर्त काल
periodic wall structure		आवर्ती दीवार संरचना
periodic wave		आवर्ती तरंग
period meter	<i>Phy.</i>	कालांक मापी, पिरियडमीटर
period of convalescence	<i>Zool, H.Sc</i>	उत्थाप काल
period of cyclotonic equation	<i>Math.</i>	वृत्तमात्रिक समीकरण का आवर्तकाल
period of induction		प्रेरण प्रवचन काल
period of gestation	<i>H.Sc</i>	गर्भावधि
period of latency		अप्यक्त काल

period of oscillation		दोलन-काल, दोलन-अवधि
period of pregnancy		सगर्भता अवधि
period of revolution		परिक्रमण काल
period of rotation		धूर्णन काल
periodogram	<i>Math, Phy.</i>	आवर्तित्वा वक्र
periodogram analysis		आवर्तित्वा वक्र विश्लेषण
periodontal membrane	<i>Zool</i>	परिदन्तिका कला
period parallelogram	<i>Math, Phy</i>	कालांक समांतरचतुर्भुज
period range (=instrument range)		कालांक परिमर
period region		आवर्तक प्रदेश
periodyl fluoride	<i>Chem</i>	परआयोडिल फ्लुओराइड
perioesophageal plexus	<i>Zool</i>	परिप्रसिक्तीय आलक
<i>Perionyx excavatus</i>	<i>Zool</i>	पेरियोनिकस एचमर्कवेटस
Periophthalmus	<i>Zool</i>	पेरिओप्यैल्मस
periopod	<i>Zool.</i>	चलनपाद, पेरिओपोड
periopticon	<i>Zool.</i>	परिऑप्टिक
perioral	<i>Zool</i>	परिमुख
perioral band		परिमुख पट्ट
periosteal tissue	<i>Zool.</i>	परिस्थितिक ऊतक
periosteum	<i>Zool</i>	परिस्थिकला
periostracum	<i>Zool, Geol.</i>	परिकवच
periotic	<i>Zool.</i>	परिकर्णिक
periotic bone		परिकर्णिक अस्थि
Peripatidae	<i>Zool.</i>	पेरिपेटिडी
Peripatoides	<i>Zool.</i>	पेरिपेटॉइडी
Peripatopsidae	<i>Zool</i>	पेरिपेटॉप्सिडी
Peripatopsis	<i>Zool.</i>	पेरिपेटॉप्सिस
Peripatus	<i>Zool</i>	पेरिपेटम
<i>Peripatus capensis</i>		पेरिपेटम कैपेन्सिस
peripeditment	<i>Geog.</i>	पेरिपेडीमेंट
peripetalous	<i>Bot.</i>	दन्धपरिमण्ड
peripetalous fasciole	<i>Zool</i>	परिदन्ध पदमापट्टक

periphalllic organs	<i>Zool., Geol.</i>	परिजिघ्न अंग	peripheral site	परिधीय स्थल, उपान्तीय स्थल
peripharyngeal	<i>Zool.</i>	परिग्रसनी	peripheral spectrum	परिरेखीय मानावली
peripharyngeal cavity		परिग्रसनी गुहा	peripheral vessel	परिरेखीय वाहिका
peripharyngeal commissure		परिग्रसनी संघायी	periphery	1. परिरेखा 2. परिधि, उपांत
peripharyngeal groove		परिग्रसनी खांच	periphractic motion	परिरेखिक गति
peripharyngeal band		परिग्रसनी पट्टी	Periphylla	<i>Zool., Geog.</i> पेरिकाइला
peripharyngeal ridge		परिग्रसनी कटक	periphysis	पेरिफिसिस
peripharyngeal sinus		परिग्रसनी कोटर	periphytic	<i>Zool.</i> परिपादपी
peripheral		1. परिधीय, उपान्तीय 2. परिरेखीय	periphytic organism	परिपादपी जीव
peripheral area		परिधीय क्षेत्र, उपान्तीय क्षेत्र	periphyton	<i>Biol.</i> 1. परिजीव (परिपादप-जीव) 2. परिपादप
peripheral centre		परिधीय केन्द्र	<i>Periplaneta americana</i>	<i>Zool.</i> पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना
peripheral counter		परिधीय गणित	periplankton	<i>Zool.</i> परिप्लवक
peripheral electron (= conduction electron = valence electron = outer shell electron)	<i>Phy., Chem.</i>	चालन इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन	periplasm	<i>Zool.</i> परिद्रव्य
peripheral equipment		उपान्त उपस्कर	periplasmodium	<i>Bot.</i> परिप्लैज्मोडियम
peripheral expansion		परिधीय प्रसार, उपान्तीय प्रसार	periplast	<i>Bot.</i> परिद्रव्यक
peripheral fault		परिधीय भ्रंश	peripleumatic motion	<i>Math.</i> परित्राधित गति
peripheral group		परिधीय समूह	Periplocaceae	<i>Bot.</i> पेरिप्लोकेसी
peripheral inversion		परिधीय प्रतीपन	periplogenin	<i>Chem.</i> पेरिप्लोजेनिन
peripheral location		परिधीय अवस्थिति	peripneustic respiratory system	<i>Zool.</i> परिप्रेष्ठ श्वसन तंत्र
peripheral loop		परिधीय लूप	peripodial cavity	<i>Zool.</i> परिपाद गुहा
peripheral moraine		परिधीय हिमोढ	peripodial membrane	परिपाद कला, परिपाद सिल्ली
peripheral nerve		परिधीय तंत्रिका	peripodium	<i>Geol., Zool.</i> पेरिपोडियम, परिपाद
peripheral nervous system		परिधीय तंत्रिका तंत्र	periporate	<i>Bot.</i> परिपुत्रकी
peripheral point spectrum		परिरेखीय बिन्दु मानावली	peripore	<i>Zool., Geol.</i> परिप्रेष्ठ
peripheral power		परिधीय शक्ति	periproct	<i>Zool., Geol.</i> परिगुदक, पेरिप्रॉक्ट
peripheral retinal cells		परिधीय दृष्टिपटली कोशिका	periproctal sinus	परिगुदकीय कोटर
peripheral reflex		परिधीय प्रतिवर्त	peripterous	<i>Bot.</i> पक्षपरिगत
			Periptychidae	<i>Zool.</i> पेरिप्टिकाइटी
			Periptychus	<i>Zool.</i> पेरिप्टिकस
			perirectal abscess	<i>Zool.</i> परिमलागयी विद्रधि
			perisarc	<i>Zool., Geol.</i> पेरिसार्क, परिकला
			periscope	<i>Phy.</i> परिदर्शी, पेरिस्कोप

perishable	<i>Geog., H.Sc.</i>	विकारीय पदार्थ	peritectic trans-formation		परिक्रातिक रूपांतरण, पेरिटेक्टिक रूपांतरण
perishable foods		विकारीय भोज्यपदार्थ	peritectoid reaction		परिक्रातिकरूप अतिक्रिया
perishable product		विकारीय उत्पाद	perithallium	<i>Bot.</i>	परिथैलियम
perisomatic	<i>Zool.</i>	परिकायिक	perithecium		पेरोथोनियम
perisomatic plate		परिकायिक पट्टिका	peritoneal canal	<i>Zool.</i>	पेरिटोनियमी नाल, पर्युदर्या नाल
perisperm	<i>Bot.</i>	परिध्रूण पोष	peritoneal cavity		पेरिटोनियमी गुहा, पर्युदर्या गुहा
perisphere	<i>Phy.</i>	परिमंडल	peritoneal epithelium		पर्युदर्या उपकला
Perisphintes	<i>Geol.</i>	पेरिस्फिंटीज	peritoneal funnel		पेरिटोनियमी क्रीप, पर्युदर्या क्रीप
<i>Perisphintes bplex</i>		पेरिस्फिंटीज बाइप्लेक्स	peritoneal membrane		पर्युदर्या कला
perispore	<i>Bot.</i>	बीजाणुचोत	peritoneo-pericardial membrane		पर्युदर्या-हृदयावरण कला
Perisporiaceae	<i>Bot.</i>	पेरिस्पोरिएसी	peritoneum		पेरिटोनियम, पर्युदर्या
perisporoid	<i>Bot.</i>	पेरिस्पोरियमरूप	peritoneum cell		पर्युदर्या कोशिका
Perissodactyla	<i>Zool.</i>	पेरिसोडैक्टाइला	peritreme	<i>Zool.</i>	परिरक्षणपट्ट
perissodactyle	<i>Zool.</i>	पेरिसोडैक्टाइल, विषमखुरी	peritrich	<i>Zool.</i>	पेरिट्राइक, परिपश्माभी
peristalsis	<i>Zool., H.Sc.</i>	क्रमाकुचन	Peritricha		पेरिट्राइका
peristaltic		क्रमाकुचक	peritrichiate	<i>Bot.</i>	परिरोमी
peristerite	<i>Geol.</i>	पेरिस्टेराइट	peritrichous	<i>Zool.</i> <i>Bot.</i>	परिपश्माभ परिरोमी
peristigmatic gland	<i>Zool.</i>	परिपश्माभ्रघ्नी ग्रंथि	peritrichous ciliate		परिपश्माभ परेशाभी
peristomal groove	<i>Zool.</i>	परिमूखी खात	peritrophic	<i>Zool.</i>	परिशोष
peristomal mesoderm		परिमूखीय मध्यजनस्तर	peritrophic membrane		परिशोष कला
peristome	<i>Geol., Zool.</i>	परिमूख, पेरिस्टोम	peri-urban metamorphism	<i>Geog.</i>	परिजनरीय कायान्तरण
peristomial area		परिमूखीय क्षेत्र	perivascular	<i>Zool.</i>	परिमवहृती
peristomial circlet		परिमूखीय वृत्तक	perivascular fibre		परिमवहृतीय रेशा
peristomial fibril		परिमूखीय तंतुक	perivisceral	<i>Zool.</i>	पर्यंतरण (परिव्यंतरण)
peristomial membrane		परिमूखीय कला	perivisceral cavity		पर्यंतरण गुटिका
peristomial tentacle		परिमूखीय स्पर्शक	perivisceral coelom		पर्यंतरण गुहा
peristomium	<i>Zool., H.Sc.</i>	परिस्तुंड, पेरिस्टोमियम	perivisceral fluid		पर्यंतरण तरल
periston	<i>Chem.</i>	पेरिस्टॉन	perivisceral haemocoel		पर्यंतरण रक्षिरगुहा
peritectic	<i>Chem., Geol.</i>	परिक्रातिक, पेरिटेक्टिक	periviscera) sinus		पर्यंतरण कोंटर
peritectic point		परिक्रातिक बिन्दु	perivitelline space	<i>Zool.</i>	परिपीनक अवकाश
peritectic reaction		पेरिटेक्टिक अतिक्रिया, परिक्रातिक अतिक्रिया	periwinkle	<i>Zool., Geog.</i>	पेरिक्विलन
peritectic system		परिक्रातिक तंत्र, पेरिटेक्टिक तंत्र	perizonium	<i>Bot.</i>	परिजला
peritectic temperature		परिक्रातिक ताप, पेरिटेक्टिक ताप			

Perkin-Elmer longpath infra red spectrometer	Chem. (Photochem.)	पर्किन-एल्मर दीर्घपथ अवरक्त स्पेक्ट्रम- दर्शी
Perkin reaction	Chem.	पर्किन अभिक्रिया
Perkins Southwick bond tester	Chem.	पर्किन साउथविक बाध निकषित्र
Perla cephalotes	Zool.	पर्ला सेफेलोटोस
Perlaria (Plecoptera)	Zool.	पर्लरिया (प्लेकोप्टेरा)
perle	H.Sc.	पर्ल
Perleididae	Zool.	पर्लीडिडी
Perleidus	Zool.	पर्लीडस
Perlidae	Zool.	पर्लिडी
perlin	H.Sc.	पर्लिन
perlite	Geol.	पर्लाइट
perlitic	Geol.	मुक्ताभ दरारी, परलिटिक
perlitic crack		परलिटिक विदर
perlitic structure		परलिटिक संरचना
perlon	Chem.,H.Sc.	पर्लान
permaclade	Chem.	परमाक्लेड
permadur	Phy.	परमेडूर
permafrost	Geol.	स्थायी तुपार भूमि
permafry	Chem.	परमाफी
permalloy	Phy.	परमेलॉय
permalon	H.Sc.	परमेलॉन
permanence	Geol.,Math.	स्थायित्व
permanence of irrotational motion		अघूर्णनी गति का स्थायित्व
permanence of vortex rings		अमिल बलयों का स्थायित्व
permanent		चिरस्थायी, स्थायी
permanent auxiliary centre		स्थायी सहायक केन्द्र
permanent benchmark		स्थायी तल-चिह्न
permanent Carmine F.B. extra powder		चिरस्थायी कार्मिन F. B. अतिरिक्त चूर्ण
permanent cartilage		स्थायी उपास्थि
permanent cell line		स्थायी कोशिका-क्रम
permanent cell strain		स्थायी कोशिका-विभेद

permanent centre		स्थायी केन्द्र
permanent cerulean blue powder new		चिरस्थायी सिरूलोन नील चूर्ण नवीन, परमनेन्ट सिरूलोन ब्लू पाउडर न्यू
permanent community		स्थायी समुदाय
permanent deformation		स्थायी विरूपण
permanent finish		स्थायी परिष्कृति
permanent frame-work		स्थायी ढांचा
permanent gas		चिरस्थायी गस
permanent grass		स्थायी घास
permanent green	Chem.	परमनेन्ट ग्रीन, परमनेन्ट हरित
permanent hardness		स्थायी कठोरता
permanent heterosis		स्थायी संकरशक्ति
permanent magnet		स्थायी चुंबक
permanent parasite		स्थायी परजीवी
permanent plankton		स्थायी प्लवक
permanent preparation		स्थायी योग
permanent resident		स्थायी वासी
permanent rule		चिरस्थायित्व नियम
permanent set		स्थायी विरूपण
permanent settlement		स्थायी वस्ती
permanent solfatara		स्थायी गैसमोची ज्वाल- मुखी
permanent snow		स्थायी हिम
permanent snow-cover		स्थायी हिमावरण
permanent strain		स्थायी विकृति
permanent stream		सदावाही सरिता
permanent teeth		स्थायी दंत
permanent translation		स्थायी स्थानांतरण
permanent village		स्थायी ग्राम
permanent water table		स्थायी भूमजलस्तर
permanent white		परमनेन्ट व्हाइट, स्थिर श्वेत
permanent wilt		स्थायी म्रानि
permanent wilting coefficient		स्थायी म्रानिगुणांक

permanent wind	<i>Geog.</i>	सदावाही पवन	permissible bias		अनुमेय अभिनति
permanganate	<i>Chem.</i>	परमैंगनेट	permissible discordance		अनुमेय असंगति
permanganate test		परमैंगनेट विषय	permissible dose		अनुमेय मात्रा
permanganic acid	<i>Chem.</i>	परमैंगनिक अम्ल, परमैंगनिक एसिड	permissible limit of error		अनुद्धि की अनुमेय सीमा
permanganic anhydride		परमैंगनिक ऐनहाइड्राइड	permitted orbit	<i>Phy.</i>	अनुमन वक्रा
permanganyl sulphate	<i>Chem</i>	परमैंगनिल सल्फेट	permittivity	<i>Phy</i>	विद्युत्शीलता, परावैद्युतांक
permanite	<i>Chem.</i>	परमानाइट	permirac	<i>Phy</i>	परमीत्रक
permascale	<i>Geog</i>	परमास्केल	permo	<i>H Sc.</i>	परमो
permatang	<i>Geog.</i>	परमांटय, प्रौढ बनई पुलिन	permocarboniferous flora	<i>Bot.</i>	परमोकार्बनी वनस्पति समूह
permatron	<i>Phy.</i>	परमेट्रॉन	permocarboniferous ice-cap	<i>Geog</i>	परमोकार्बनी हिमछत्रक
permeability	<i>Chem ,Bot , Geol. Zool ,Phy.</i>	पारगम्यता चुंबकशीलता	permolybdic acid	<i>Chem.</i>	परमोलिब्डिक अम्ल
permeability bridge		चुंबकशीलता सेतु	permonosulphuric acid	<i>Chem</i>	परमानो सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड
permeability coefficient		पारगम्यता गुणांक	permutation	<i>Math.</i>	क्रमचय
permeability constant		पारगम्यता निर्यतांक	permutation group		क्रमचय समूह
permeability curve		पारगम्यता वक्र	permutation matrix		क्रमचय-आव्यूह
permeability tuning		चुंबकशीलता समस्वरण	permutation method		क्रमचय विधि
permeable		पारगम्य	permutation synthesis		क्रमचय संश्लेषण
permeable bed		पारगम्य सस्तर	permutation vector		क्रमचय-सदिश
permeable membrane		पारगम्य झिल्ली	permute		क्रमचय करना
permeable rock		पारगम्य शैल	permutit	<i>Chem.</i>	परम्यूटिट
permeameter		चुंबकशीलतामापी	pernam cotton	<i>H Sc.</i>	पर्नेम बपाय
permease	<i>Zool</i>	परमीएस	permax	<i>Chem.</i>	पर्नेक्स
permeate	<i>Chem.</i>	पारगमन करना	pernicious	<i>Zool.</i>	प्रणाकी
permeating power		पारगमन शक्ति	pernicious anemia		प्रणाकी रक्तान्यता
permeation		पारगमन	pernicious malaria		प्रणाकी मलेरिया
permeation gneiss	<i>Geol</i>	व्यापन नाइस	pernitric acid	<i>Chem.</i>	परनाइट्रिक अम्ल
permeation rate		पारगमन दर	pernitride	<i>Chem.</i>	परनाइट्राइड
permeometer		पारगम्यतामापी	pernitrous acid	<i>Chem.</i>	परनाइट्रस अम्ल
permet	<i>Chem.</i>	परमेट	pernyl	<i>H.Sc.</i>	पर्नि
Permian	<i>Geol ,Zool</i>	परमियन	peroblate	<i>Bot.</i>	अधिषण्टा
Permian age		परमियन युग	Perodicticus	<i>Zool.</i>	पेरोडिक्टिकस
Permian period		परमियन काल	perofskite	<i>Chem</i>	पेराफ्सकाइट (perovskite)
perminvar	<i>Phy.</i>	परमिन्वार			
permissible	<i>Chem ,Math</i>	अनुमेय, अनुज्ञेय			

peroikic	<i>Geol.</i>	चरमग्राही क्रिस्टल	perpendicular separation	<i>Math.</i>	लंब पृथक्करण
Peromedusae	<i>Zool.</i>	पेरोमैड्यूसी	perpendicular slip		लंब सर्पण
<i>Peronella lesueurii</i>	<i>Zool.</i>	पेरोनेला लेस्युराई	perpendicular stroke		लम्ब चिह्न
peroneus	<i>Zool.</i>	पेरोनियस, पांदाविवर्तनी	perpendicular throw		लंब-पात
peroneus medius		मध्य पादाविवर्तनी, पेरोनियस मीडियस	perpendicular wall		लम्ब भित्ति
peronium	<i>Zool.</i>	पेरोनियम, दृढ़पद	perpetual	<i>Math.</i>	शाश्वत, सतत
<i>Peronospora ficariae</i>	<i>Bot.</i>	पेरोनोस्पोरा फाइकेरिई	perpetual day		सतत दिन
Perophoridae	<i>Zool.</i>	पेरोफोरिडी	perpetual motion		शाश्वत गति
peropus	<i>H.Sc.</i>	पेरोपस	perpetual motion of first kind		प्रथम प्रकार की शाश्वत गति
peros	<i>Bot.</i>	मुखद्वार	perpetual motion of second kind		द्वितीय प्रकार की शाश्वत गति
perosis	<i>Geol.</i>	परासिस, अस्थ्याकुंचिता	perpetual night		सतत रात
perovskite	<i>Chem., Geol.</i>	पेरोवस्काइट	perp-perp conformation	<i>Chem.</i>	लंब-लंब संहपण
perovskite structure		पेरोवस्काइट संरचना	perprolate	<i>Bot.</i>	अधिप्रोलेट
peroxidase	<i>Chem.</i>	परऑक्सीडेस	perpusillus	<i>Bot.</i>	अतिलघु
peroxidation	<i>Chem.</i>	परऑक्सीकरण	perradial canal	<i>Zool.</i>	प्रातीय नाल
peroxide	<i>Chem.</i>	परऑक्साइड	perradial pocket		प्रातीय कोपक
peroxide effect		परऑक्साइड प्रभाव	perradial tentacle		प्रातीय स्पर्शक
peroxide value		परऑक्साइड मान	perradius	<i>Zool.</i>	प्रार (प्रअर)
peroxidising		परऑक्सीकरण	per-rhenate	<i>Chem.</i>	पर-रीनेट
peroxo	<i>Chem.</i>	पराँक्सो	perrhenic acid	<i>Chem.</i>	पर-रीनिक अम्ल
peroxodiphosphoric acid	<i>Chem.</i>	पर-ऑक्सोडाइफॉस्फोरिक अम्ल	perrhenite	<i>Chem.</i>	पर-रीनाइट
peroxo-disulphato- titanic acid	<i>Chem.</i>	पर-ऑक्सोडाइ सल्फेटो- टाइटैनिक अम्ल	Perrin process	<i>Chem.</i>	पैरॉ-प्रक्रम
peroxonitrous acid	<i>Chem.</i>	पर-ऑक्सोनाइट्रस अम्ल	Perrin's condenser layer		पैरॉ संघनन स्तर
peroxy	<i>Chem.</i>	पराँक्स	Perrins equation		पैरॉ-समीकरण
peroxy-salt		पराँक्स-लवण	Perrin's experiment		पैरॉ प्रयोग
perpatic	<i>Geol.</i>	परमाघातिकाय	Perron Denjoy integration	<i>Math.</i>	पैरॉ-द्वैज्वा-समाकलन
perpendicular	<i>Math.</i>	लंब	perroquet	<i>H.Sc.</i>	पेरोक्वेट
perpendicular attack		लम्ब आक्रमण	Perrot's gas furnace	<i>Chem.</i>	पैरो गैस ब्राउट्ट, पैरो गैस भट्टी
perpendicular band	<i>Phy.</i>	अभिलम्ब बैंड	perry	<i>Geog., H.Sc.</i>	पैरी, नागपाती मदिरा
perpendicularity		लम्बता	persalt	<i>Chem.</i>	परलवण
perpendicularly		लंबतः, अनुलंब	persaltum	<i>Geol.</i>	परसाल्टम
perpendicular plane		लंब समतल	<i>Persea americana</i>	<i>Bot.</i>	परसिया अमेरिकाना
perpendicular section		लंब परिच्छेद	perseid	<i>Geol.</i>	परसीड, उच्चवेगी उल्ला

perseite (perseitol)	<i>Chem</i>	परमिआइट (परमिअटॉल)	personal error		व्यक्तिगत त्रुटि
persemic	<i>Geol.</i>	परमफेनोक्रिस्टी, परमनक्षयक्रिस्टली	personality	<i>H Sc.</i>	व्यक्तित्व
persening	<i>H Sc.</i>	पर्सैनिंग	personal monitoring		वैयक्तिक मानीटरिंग
perseulose	<i>Chem</i>	पर्सियुलोस	personal resource		व्यक्तिगत साधन
Perseus	<i>Astron.</i>	पर्सियस	personate flower	<i>Bot</i>	मृदुबद फूल
Persian	<i>H.Sc.</i>	पर्सियन	Person Kirchhoff equation	<i>Chem</i>	पर्सन किर्चहॉफ समीकरण
Persian Gate	<i>Geog</i>	पर्सियन गेट, पारसी द्वार	personnel-assignment problem	<i>Math</i>	वर्गचारी नियतन समस्या
Persian rug		पर्सियन रग	person to person method	<i>H Sc</i>	व्यक्तिगत विधि
Persian shawl		पर्सियन शाल	persorption	<i>Chem</i>	आचूषण, आशोषण
Persian sheep		पर्सियन भेड़	perspective	<i>Chem , Geog ,Geol</i>	सदृश
Persian wheel	<i>Geog</i>	रहट	perspective block		सदृश ब्लॉक
persicolor	<i>Bot.</i>	आइवर्णी	perspective diagram		सदृश आरेख
persico	<i>H Sc.</i>	पर्सिको	perspective displace- ment		सदृश विस्थापन
persidon (persedon)	<i>Chem</i>	पर्सिडॉन	perspective geometry		सदृश ज्यामिति
persilicic rock	<i>Geol</i>	अधिमिनिक शैल	perspective projection		सदृश प्रक्षेप
persillade	<i>H Sc.</i>	पर्सोएड	perspective representation		सदृश चित्रण
persimmon	<i>Geog</i>	सेडू	perspective scale		सदृश मापनी
persistence (=after glow)	<i>Phy</i>	पश्चदीनित	perspective triangle		सदृश त्रिभुज
persistence characteristic (=decay characteristic)	<i>Phy.</i>	क्षय अभिलक्षण	perspectivity		सदृशता
persistence of sign	<i>Geog</i>	चिह्न-सातत्य	perspex	<i>Chem ,H Sc</i>	पर्सपेक्स
persistence of vision	<i>Phy.</i>	दृष्टि निर्वन्ध	perspicacity (of music)	<i>Phy.</i>	तीक्ष्ण प्राहिता
persistence of vortices	<i>Math.</i>	घूमिलो का प्रस्थायित्व	perspiration	<i>H Sc.</i>	स्वेद, स्वेदन
persistence screen	<i>Phy.</i>	दीर्घस्थायित्व पर्दा	persulphate	<i>Chem.</i>	परसल्फेट
persistence time	<i>Phy.</i>	दृष्टि-काल	per-sulphuric acid	<i>Chem.</i>	परसल्फ्यूरिक अम्ल, परमसल्फ्यूरिक एसिड
persistencecy	<i>Math.</i>	सततदृष्टि	PERT (program evaluation review technique)	<i>Math</i>	पर्टे
persistent	<i>Chem ,Phy. Bot</i>	दीर्घस्थायी अपारती	pert analysis	<i>Math.</i>	पर्टे विश्लेषण
persistent current		दीर्घस्थायी धारा	pertechnetate ion	<i>Chem</i>	परटेक्नेटेट आयन
persistent line	<i>Phy.,Chem.</i>	दुर्लभ रेखा	pertechnetic acid	<i>Chem.</i>	परटेक्नेटिक अम्ल
persistent rainfall	<i>Geog.</i>	निरन्तर वर्षा	pertechnic acid	<i>Chem.</i>	परटेक्निक अम्ल
persistent virus		स्थायी वाइरस	perthane	<i>Chem.</i>	पर्थेन
personal		व्यक्तिगत, वैयक्तिक			
personal equation		व्यक्तिगत त्रुटि			



perthite		पर्याइट	Peruvian cloth	Phy.	पेरू वस्त्र
per titan acid	Chem.	परटाइटैनिक अम्ल	pervalvar axis	Bot.	परापाटीय अक्ष
per tungstate	Chem.	परटंगस्टेट	perveance	Phy.	परविणुस
perturbation	Math., Chem.	क्षोभ	pervious	Chem., Geog., Geol.	प्रवेश्य
perturbation density		क्षोभ-घनत्व	pervious bed		प्रवेश्य संस्तर
perturbation equation		क्षोभ-समीकरण	perviousness	Geol., Geog.	प्रवेश्यता
perturbation expansion		क्षोभ-प्रसार	pervious rock		प्रवेश्य शैल
perturbation field		क्षोभ-क्षेत्र	pervious stratum		प्रवेश्य स्तर
perturbation method		क्षोभ विधि	perxenic	Geol.	परमप्रहीत क्रिस्टली
perturbation pressure		क्षोभ-दाब	perylene	Chem.	पेरिलीन
perturbation problem		क्षोभ-समस्या	pes	Zool.	पाद, पैर
perturbation procedure		क्षोभ-क्रियाविधि	pessimium	Bot.	इष्टतमेतरता
perturbation temperature		क्षोभ-तापमान	pessulus	Zool.	पेसुलस, शब्दिनीदण्ड
perturbation term		क्षोभ पद	pest	Bot., Zool., H.Sc.	नाशक जीव, नाशक रोग, पीड़क, वाधा
perturbation variable		क्षोभ-चर	Pestalotia	Bot.	पेस्टेलोगिया
perturbation velocity		क्षोभ-वेग	pest control		नाशक जीव नियंत्रण
perturbed motion		क्षुब्ध गति	pest control chemical		पीड़क नियंत्रक रसायन
perturbed problem		क्षुब्ध समस्या	pesticidal	Zool.	पीड़कनाशीय
perturbed velocity potential		क्षुब्ध वेग विभव	pesticide		पीड़कनाशी, नाशक.मार
perturbing effect		क्षोभकारी प्रभाव	pestiferous	Zool.	पीड़कघर
perturbing field		क्षोभकारी क्षेत्र	pestilential vapour	Geog.	घातक वाष्प, मारक वाष्प
perturbing force		क्षोभकारी बल	pestle	Chem.	1. मूसली, मूसल 2. पेसिल
perturbing level		क्षोभकारी स्तर	pestox	Zool.	पेस्टोक्स
perturbing operator		क्षोभकारी संकारक	petal	Bot.	दल, पंचुड़ी
Perturariaceae	Bot.	पटुसैरिएसी	Petalichthyida	Zool.	पेटलिक्थियाइडा
Pertusaria pertusa	Bot.	पटुसैरिया पटुसा	petaliferous	Bot.	दलघर
pertusate	Bot.	विदरयुक्त	petaliferous families		दलघर कुल
pertussis	Chem.	कूकर खांसी, काली खांसी	petalite	Geol.	पेटेलाइट
perula	Bot.	शल्क	petalling	Math.	स्थालीकरण
perulate		संशल्क	petalody	Bot.	दलरूपण
per unit mass	Phy.	प्रति एकक द्रव्यमान	petaloid	Biol., Geol.	दलाभ
per-uranic acid	Chem.	परयूरेनिक अम्ल	petaloid ambulacrum		दलाभ बीची
Peruvian balsam	Chem.	पेरू-बाल्जम	petalomania	Bot.	दलाधिक्थ, अतिदलता
			petalophyllum	Bot.	पेटलोफिलम
			petalosomania		दलाधिक्थ, अतिदलता

petaly	Bot.	सदलत्व, दलयुक्तता	petrified moss		अश्मीभूत भोंस
Petasis	Zool.	पेटेमस	petrified roses		अश्मीभूत गुच्छ
petate	H Sc.	पेटेट	petrified wood	Geol.	काष्ठाश्म
Petaurus	Zool.	पेटौरम	Petrobius maritimus	Zool.	पेट्रोबियस मैरीटिमस
petechia	Zool.	रुधिराक	petrocene	Geol.	पेट्रोसीन
Peter's method	Math	पीटर की विधि	petrochemical	Chem.	शैल रसायनिक
Peterson concentrator	Chem	पीटरसन सांद्रित्र	petrochemistry	Geol.	शैल-रसायन
Peterson sampler	Zool.	पीटरसन प्रतिदर्शक	petrofabric	Geol.	शैल सविन्याम
Peterson type grab	Zool.	पीटरसनी ग्राह	petrofabric analysis		शैल सविन्यामी विश्लेषण
pethidine	Chem.	पेथिडीन	Petrogale xanthopus	Zool.	पेट्रोगेली जैथोपस
petin	H Sc.	पेटिन	petrogenesis	Geol.	शैलजनन, शैलोत्पत्ति
petiolar	Zool, Bot	1. वृन्तीय 2. पर्णवृत्तीय	petrogenic element	Geol.	शैल दत्व
petiole	Biol.	वृत्, पर्णवृत्	petrogeny	Geol.	शैलजननिकी
petiole graft		वृत् कलम	petroglyphs	Geol.	शैलोत्कीर्ण
petiohule	Zool. Bot.	वृन्तिका पर्णवृत्	petrographer	Geol.	शैलवेत्ता
petiolus (petioley)	Zool. Bot.	वृन्त पर्णवृन्त	petrographic microscope	Geol.	द्रुवण-सूक्ष्मदर्शी
PEIN (penta-erythri- tol tetranitrate)	Chem.	पी० ई० टी० एन० (पेन्ट-एरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट)	petrographic period	Geol.	सजातीय शैल काल
petraeus	Bot.	शैलवामी	petrographic province		सजातीय शैल क्षेत्र
Petrarca	Zool.	पेटार्का	petrography	Geol.	शैलवर्णना
Petrea robustis	Bot.	पेट्रिया बॉलुविलिस	petrohyoid		पेट्रोहाइड
petre dirt	Geol.	पीटर धूलि	petrol	Chem, H Sc.	पेट्रोल
petrel	Zool.	समुद्रकाक	Petrolatum	Bot.	पेट्रोलैटम
petrescence	Geol.	अश्मीभवन	petroleum	Chem., Geol. Geog.	पेट्रोलियम
petrical	Geol.	आग्निमक	Petroleum Baume		पेट्रोलियम घामे
petridish	Bot, Zool, Chem.	पेट्रीडिश	petroleum benzene		पेट्रोलियम बेन्डीन
petridish cover		पेट्रीडिश विधान, पेट्रीडिश ढक्कन	petroleum coke		पेट्रोलियम कोक
petrifaction	Geol.	अश्मन, अश्मीभवन	petroleum ether		पेट्रोलियम ईथर
petrifaction fossil	Bot.	अश्मीभूनाश्म	petroleum geology		पेट्रोलियम भूविज्ञान
pepification		अश्मन, अश्मीभवन	petroleum jelly		पेट्रोलियम जैली
petrified	Biol, Geol., Geog.	अश्मीभूत	petroleum naphtha		पेट्रोलियम नेफथा
petrified dam		अश्मीभूत बाध	petroleum oxygen blowpipe		पेट्रोलियम ऑक्सीजन धमनाइ
petrified forest		अश्मीभूत वन	petroleum pitch		पेट्रोलियम-पिच, पेट्रोलियम टार
			petroleum product		पेट्रोलियम उत्पाद
			petroleum spring		पेट्रोलियम स्प्रिंग

petroliferous	<i>Geog., Geol.</i>	पेट्रोलियमधारी, पेट्रोलियममय	PFU (Plaque forming unit)	<i>Bot.</i>	प्लानिमा, पी० एफ० यू० (प्लाक निर्माण मात्रक)
petroliferous region		पेट्रोलियमधारी प्रदेश	pewter	<i>H.Sc.</i>	प्यूटर, अधिद्रुपु
petroline	<i>Geol.</i>	पेट्रोलिन	pewter ware		प्यूटर भांड
petrolize	<i>Geol.</i>	पेट्रोल संसेचन	peyia	<i>H.Sc.</i>	पेइया
petrological	<i>Geol., Geog.</i>	शैलविज्ञान संबंधी, शैलवैज्ञानिक	Peyrones' chloride	<i>Chem.</i>	पेरोन-क्लोराइड
petrologist		शैलवेत्ता, शैलविज्ञानी	Peyer's gland	<i>Zool.</i>	पेयर ग्रंथि
petrology		शैलविज्ञान, शैलिकी	Peyer's patch	<i>H.Sc.</i>	पेयर पैच
petromict	<i>Geol.</i>	द्विविधाश्म	peyotl (pellot)	<i>Chem.</i>	पेयोटल (पेलाट)
petromorph	<i>Geol.</i>	शैलरूप	pez de limon	<i>H.Sc.</i>	पेज डि लिमान
Petromyzon	<i>Zool.</i>	पेट्रोमाइज़ॉन	<i>Peziza cacabus</i>	<i>Bot.</i>	पेज़ाइज़ा कैंकेवस
Petromyzonidae		पेट्रोमाइज़ॉनिडी	pfannkuchen	<i>H.Sc.</i>	फॅनकुशेन
<i>Petromyzon marinus</i>	<i>Bot.</i>	पेट्रोमाइज़ॉन मैरीनस	Pfeffer's solution	<i>Chem.</i>	फेफर विलयन
Petromyzontia	<i>Zool.</i>	पेट्रोमाइज़ॉन्शिया	pfelle	<i>H.Sc.</i>	फेले
<i>Petronia xanthocollis</i>	<i>Zool.</i>	पेट्रोनिआ जैन्थोकोलिस	Pfitzinger reaction	<i>Chem.</i>	पुफिट्ज़िंजर अभिक्रिया
petrophysics	<i>Geol.</i>	शैलभौतिकी	Pflugk's method	<i>Chem.</i>	प्लूंगर पद्धति
Petropsiella	<i>Bot.</i>	पेट्रोप्सिएला	Pfund colour grader	<i>Chem.</i>	फुंड वर्ण श्रेणित्त
petrosal bone	<i>Zool.</i>	अश्मस्थि	phacella	<i>Zool.</i>	फॅक्तेला
petrosal bulla		अश्म गोलक	Phacidiales	<i>Bot.</i>	फेसिडिएलीज़
petrosal ganglion		अश्मीय गुच्छिका	phacoidal	<i>Geol.</i>	लेन्साकार
petroselinic acid		पेट्रोसेलिनिक अम्ल	phacoidal structure		लेन्साकार संरचना
<i>Petroselinum crispum</i>	<i>Bot.</i>	पेट्रोसेलिनम क्रिप्सम	phacolite	<i>Geol.</i>	फॅकोलाइट
protectonics	<i>Geol.</i>	शैलविवर्तनिकी	phacolite	<i>Geol.</i>	फॅकोलिय
petrous	<i>Geol.</i>	अश्मभ, अश्मवत्	Phacops	<i>Zool.</i>	फेकॉप्स
Pettenkofer's method	<i>Chem.</i>	पेटेनस्कोफ़र विधि	<i>Phacops stokesi</i>	<i>Geol.</i>	फेकॉप्स स्टोक्स
Pettenkofer's test		पेटेनस्कोफ़र निकष	Phacus	<i>Zool.</i>	फेकस
petty detail	<i>Geog.</i>	सूक्ष्म व्योरा, अनावश्यक दिलेल	<i>Phacus pyrum</i>	<i>Zool.</i>	फेकस पाइरम
petty society	<i>Geog.</i>	लघु समाज	*Phad (=γ Ursae Majoris)	<i>Astron.</i>	पुलस्त्य, फ़ैड (=γ ऋषि, γ बर्सी मॅजोरिस)
Petunia	<i>Bot.</i>	पिटूनिया	phaecodium	<i>Zool.</i>	फेओडियम, वर्णोष
Petunia mosaic		पिटूनिया किर्मीर, पिटूनिया मोज़ेक	<i>Phaeophyceae</i>	<i>Bot.</i>	फ़ियोफाइसी (ब्रून्नावाल वर्ग)
Petunia ring spot		पिटूनिया वलय चित्ती	phaeophytin	<i>Chem.</i>	फेओफ़ीटिन
<i>Petunia violacea</i>		पिटूनिया वायोलैसिया	phaeoplast	<i>Bot.</i>	ब्रून्नावालक
peutinger table		प्यूटिन्गर मानचित्र	phaephyll	<i>Bot.</i>	वधूक, फ़ियोफ़िल
			Phaet (=α Columbae)	<i>Astron.</i>	फ़ाएट (=αकोलम्बो)

Phaethon	Zool	फीथोन	phalan silk	H.Sc.	फैलियन रेशम
Phaethontidae		फीथोनटिडी	Phallales	Bot	फैलेलीज
phage (=bacterio-phage)	Zool, Bot.	विभोजी (जीवाणुभोजी) षात्र	phallic	Zool	शिषनीय
phage lysozyme		विभोजी लाइसोजाइम	phallobase	Zool.	शिषनाधार
phage phenotype		विभोजी लक्षणप्ररूप	phallocrypt	Zool	शिशनगुहिका
phage resistant mutant		विभोजी रोध उत्परिवर्ती	phallogaster	Bot	फैनोयेस्टर
phagocyte	Zool, H Sc	भक्षकाणु, फेगोसाइट	phallomere		शिशनखंड
phagocytic	Zool.	भक्षकाणविक, भक्षकाणुक	phallosome (mesosome)	Zool	शिशनकाय (मध्यकाय)
phagocytic activity		भक्षकाणु-क्रिया	phalotheca		शिशनप्रावरक
phagocytic blood-cell		भक्षकाणुक हृदिर कोशिका	phalotreme		शिशनरन्ध्र
phagocytic ingestion		भक्षकाणविक अंतर्ग्रहण	phallus	Zool.	शिशन
phagocytic organ		भक्षकाणविक अंग	Phallusia mamillata	Chem.	फल्यूजिजा मैमिलेटा
phagocytosis	Biol	भक्षकाणुक्रिया, कोशिकाशन	phanastron	Phy	फैनेस्ट्रान
phagosome	Bot	फेगोसोम	phaneric	Geol	दृश्यकिस्टली
phagotactic stimulus	Zool.	भक्षानुचलित उद्दीपन	phaneritic	Geol	दृश्यकिस्टली
phagotroph	Zool	भक्षपोषी	phanerocryst	Geol.	दृश्यकिस्टल, फैनेरो क्रिस्ट
phagotrophic		भक्षपोषिन	phanerocrystalline		दृश्यकिस्टली
phagotrophy		भक्षपोषिता	phanerocrystalline adiagnostic		दृश्यकिस्टली अनिदानी
Phalacrocoracidae	Zool.	फैलेकोकोरेसिडी	phanerogam	Geog	पुष्पोद्भिद्, फैनेरोगम
Phalacrocorax	Zool.	फैलेकोकोरेक्स	Phanerogamia	Bot.	फैनेरोगमिया
Phalacrocorax carbo	Zool.	फैलेकोकोरेक्स कार्बो	Phanerophyte	Bot, Geog	व्यक्तोद्भिद्, उन्मूढोद्भिद्
Phalacrocorax fuscicollis		फैलेकोकोरेक्स फ्यूसीकोलिस	Phaneroplasm	Bot	फैनेरोप्लाज्म, लक्ष्यप्रदन्व
Phalacrocorax niger		फैलेकोकोरेक्स नाइजर (पनकौशा)	phaneroplasmodium	Bot.	स्पष्ट प्लैग्मोडियम
phalangeal	H Sc., Zool.	अगुल्यस्थि, अगुलास्थि	Phaneropleuron	Zool	फैनेरोप्लुरॉन
phalangeal formula		अगुलास्थि सूत्र	Phanerozoic con	Geol.	दृश्यजीवी महाकाल
phalangeal pad		अगुलि त्वन्प	phanerozoite	Zool	फैनेरोज्वाइट, व्यवनाणु
Phalanger	Zool.	फैलेन्जर	Phanerozonia	Zool.	फैनेरोजोनिया
Phalangeridae		फैलेन्जरादडी	phanotron	Phy.	फैनोट्रॉन
Phalangeroidea		फैलेन्जराइडिया	phantastron	Phy.	फैन्टेस्ट्रॉन
Phalangida	Zool.	फैलेन्जिडा	phantom	Phy	फैन्टम, उतकानुहारी
Phalangium	Zool.	फैलेन्जियम	phantom acceleration		अपर त्वरण
phalanx	Zool.	अगुलास्थि	phantom circuit		अपर परिपथ
Phalaropodidae	Zool.	फैनेरोपोडिडी	phantom connection		अपर सम्बन्धन
			phantom crystal	Geol	आभासी क्रिस्टल
			phantom horizon		कल्पित क्षितिज

phantom larva	Zool.	वाभासी डिम्बक	pharyngeal pouch	ग्रसनी कोष्ठ
phantom letter	Geog.	छायाभासी बक्षर	pharyngeal-rod apparatus	ग्रसनीदण्ड उपकरण
phantom loading		वाभासी लोडन	pharyngeal sclerite	ग्रसनी कठक
phantom material	Phy.	फैंटम पदार्थ, ऊत्कानुकारी पदार्थ	pharyngeal skeleton	ग्रसनी कंकाल
phantom triplet		फैंटम त्रिक	pharyngeal teeth	ग्रसनी दन्त
phaoplankton	Bot.,Zool.	भाप्लवक	pharyngeal tube	ग्रसनी नलिका
Pharaoh	Geog.	फैरो	pharyngeal velum	ग्रसनी विच्छद
Pharaoh's serpent	Chem.	फैरो-सर्प	pharyngitis	H.Sc. ग्रसनीशोथ
pharate adult	Zool.	मुक्तप्रावार प्रौढ़	pharyngo-branchial cartilage	Zool. ग्रसनी-श्लोम उपास्थि
pharate instar		मुक्तप्रावार इन्स्टार	pharyngocutaneous duct	ग्रसनीत्वक् वाहिनी
pharmaceutical	Chem., H.Sc.	औषध, औषधि, भैषजिक	pharyngohyal	Zool. ग्रसनीकठिका
pharmaceutical charcoal		औषधीय कोयला	pharyngo-intestinal valve	ग्रसनी-आंत कपाट
pharmaceutical chemist		औषध रसायनज्ञ	pharyngotympanic tube (=Eustachian tube)	Zool. ग्रसनीमध्यकर्ण नलिका (यूस्टेकिया नलिका)
pharmaceutical chemistry		औषध रसायन	pharynx	Zool.,H.Sc. फेरिक्स, ग्रसनी
pharmacolite	Chem.	फार्माकोलाइट	pharynx suspensor	ग्रसनी-निलंबक
pharmacological	Zool.	भैषजगुणविज्ञानीय	phasa	Zool. फ़ासा
pharmacopocia	Chem.	भैषजकोश, औषधकोश	Phascogale	Zool. फ़ैस्कोगैली
pharmacosiderite	Chem.	फार्माकोसिडराइट	Phascolestes	Zool. फ़ैस्कोलेस्टीज
pharmacy	Chem.	1. औषधशाला, फार्मसी 2. औषधनिर्माण विज्ञान	Phascolomyidae	Zool. फ़ैस्कोलामाइडी
pharyngate	Zool.	ग्रसनीयुक्त	Phascolomys	Zool. फ़ैस्कोलोमिस
pharyngeal	Zool.	ग्रसनी-, ग्रसनीय	Phascolotherium	Zool. फ़ैस्कोलोथेरियम
pharyngeal apparatus		ग्रसनी उपकरण	Phascum	Bot. फ़ैस्कम
pharyngeal artery		ग्रसनी धमनी	phase	1. प्रावस्था 2. कला 3. (of a function) कोणांक
pharyngeal basket		ग्रसनी करंड	phase additive	Zool. पंकावसादन प्रावस्था
pharyngeal bulb		ग्रसनी कंद	phase angle	कला कोण
pharyngeal caecum		ग्रसनी अन्धनाल	phase angle error	कला कोण त्रुटि
pharyngeal cavity		ग्रसनी गुहा	phase boundary	प्रावस्था सीमा
pharyngeal ganglion		ग्रसनी गुच्छिका	phase boundary phenomena	प्रावस्था-सीमा घूत्
pharyngeal gland		ग्रसनी ग्रंथि	phase cancellation	कला रद्द
pharyngeal nephridia		ग्रसनी वृक्कक	phase cell	कला कोणिका
pharyngeal nerve ring		ग्रसनी तंत्रिका वलय		
pharyngeal plug		ग्रसनी रोध		
pharyngeal pore		ग्रसनी छिद्र		

phase change coefficient		कालान्तर गुणांक	phase microscopy		फेज माइक्रोस्कोपी, प्रावस्था सूक्ष्मदर्शिकी
phase coincidence		कला संपात	phase modulation		कला माड्युलन
phase constant		कला नियतांक	phase of curve		वक्र-प्रावस्था
phase contrast		कला विपर्याप्त	phase of death		मृत्यु प्रावस्था
phase contrast microscope	Phy.	कला विपर्याप्ती सूक्ष्मदर्शी	phase of logarithmic growth		लघुगुणकीय वृद्धि प्रावस्था
	Bot.	प्रावस्था विपर्याप्ती सूक्ष्मदर्शी	phase of moon		चन्द्रमा की कला
phase converter		कला परिवर्तित्त	phase of negative growth acceleration		ऋणात्मक वृद्धित्वरण प्रावस्था
phase curve		प्रावस्था वक्र	phase of ordering		व्यवस्थापन-प्रावस्था
phase data		प्रावस्थान्यास	phase of structure factor		सरचना गुणक की कला
phase delay		कला विलंब	Phaseolin	Bot, H Sc.	फेसियोलिन
phase density		कला घनत्व	Phaseolus	Bot.	फ्रेसियोलन
phase detector		कला समुच्चक	Phaseolus acontifolius		फेसियोलस एकोनिटो फ्रोलियस
phase diagram		प्रावस्था आरेख	Phaseolus lunatus		फेसियोलस लूनेटस
phase difference		कलान्तर	Phaseolus sublobatus		फेसियोलस सबलोबेटस
phase differential		कलांतर	Phaseolus trinervinus		फेसियोलस ट्राइनवाइनस
phase displacement		कला विस्थापन	Phaseolus vulgaris		फ्रेसियोलस वल्गेरिस
phase distortion		कला विरूपण	phase operation		प्रावस्था सञ्चया
phase division multiplexing		कला विभाग बहुसंकेतन	phase operator		कला सकारक
phase equaliser		कला सतोलक	phase pattern		कला चित्रांग, कला पैटर्न
phase equilibrium		प्रावस्था साम्य	phase plane method		कला पृष्ठ विधि
phase erosive	Geol	पवापरदन प्रावस्था	phase plate		कला-पट्टिका
phase factor		प्रावस्था गुणक	phase point		कला-बिन्दु
phase focussing		कला फोकसन	phase problem		कला समस्या
phase function		प्रावस्था फलन	phaser		कला विस्थापक, कलासमजक
phase integral		कला समाकल	phase range		प्रावस्था परिमर
phase inverter		कला प्रतीपक	phase regulation		कला नियंत्रण
phase inverter amplifier		कला प्रतीपक प्रवर्धक	phase resonance (= velocity resonance)		कला अनुनाद
phase lag		प्रावस्था-पश्चता	phase reversal		कला व्युत्क्रमण
phaselet	Bot	फेजोलेट			
phase localizer		कला स्थान निर्धारक			
phase lock detection		कला अभिबन्ध मसूचन			
phase margin		कला परिमर			
phase marker		कला चिह्नक			
phase matrix		कला मैट्रिक्स			

phase rule	Chem.	प्रावस्था नियम	*Phecda (=γ Ursae Majoris)	Astron.	पुलस्त्य, फ़ेकडा (=γ ऋषि, γ अर्षी मैजोरिस)
phase rule compound		प्रावस्था नियम यौगिक	α-phellandrene	Chem.	α-फेलेन्ड्रीन
phase sensitive detector		कला सुग्राही संसूचक	phellem		काग
phase shift		कला विस्थापन	Phellinus igniarius	Bot.	फेलाइनस इग्निएरिएस
phase shift analysis		कला विस्थापन विश्लेषण	phelloid (s)	Bot.	फेलाइड
phase shift discriminator		कला विस्थापी विवेचक	phellogen		कागजन
phase shifter		कला विस्थापक	phellic acid	Bot.	फेलोनिक अम्ल
phase shift oscillator		कला विस्थापी दोलक	phenacemide	Chem.	फेनैसीमाइड
phase slowness		कला मंदता	phenacetin	Chem.	फेनैसिटीन
phase space		प्रावस्था-समष्टि	phenaceturic acid	Chem.	फेनैसीट्यूरिक अम्ल
phase-space cell lattice		प्रावस्था समष्टि कोष्टिका जाल	phenacite	Chem., Geol.	फेनेसाइट
phase stability		प्रावस्था-स्थायित्व	Phenacodontidae	Zool.	फेनैकोडोन्टिडी
phase stable orbit		स्थायी कला कक्षा	Phenacodus	Zool.	फेनैकोडस
phase synchronised		कला तुल्यकालित	phenaglycodol	Chem.	फेनैग्लाइकोडॉल
phase table method		कला सारणी विधि	phenanthrene	Chem.	फेनैथ्रीन
phase theory		प्रावस्था सिद्धान्त	phenanthridinium chloride rearrangement	Chem.	फेनेन्थ्रीडिनियम क्लोराइड पुनर्व्यवस्था
phase transformation		प्रावस्था रूपांतरण	phenanthridone	Chem.	फेनेन्थ्रीडोन
phase transition		प्रावस्था संक्रमण	phenanthroline	Chem.	फेनेन्थ्रोलीन
phase variable		प्रावस्था चर	phenarsazine chloride	Chem., Bot.	फेनासैज़ीन क्लोराइड
phase velocity		प्रावस्था वेग	phenazine	Chem.	फेनेज़ीन
phase volume		प्रावस्था आयतन	phenazocine	Chem.	फेनेज़ोसीन
Phasianidae	Zool.	फैसिएनिडी	phenazone	Chem.	फेनेज़ोन
phasic castration	Zool.	प्रावस्था-जनदनाशन	phenazonium chloride	Chem.	फेनेज़ोनियम क्लोराइड
phasic reflex		प्रावस्था-प्रतिवर्त	'phenegan'	Chem.	फेनेगन
phasing	Phy.	1. चित्रसंमजन 2. कला समंजन	(promethazine)		
phasing line		कला समंजन लाइन	phenethyl alcohol	Chem.	फेनेथिल ऐल्कोहॉल
phasing system		कला समंजन तन्त्र	phenetidine	Chem.	फेनेटिडीन
phasitron	Phy.	फैजिट्रान	phenetidine test	Chem.	फेनेटिडीन निकप
phasmid	Bot., Zool.	पशुचक्र, पर्णाभक, फैस्मिड	phenetole	Chem.	फेनीटॉल
Phasmidae	Zool.	फैस्मिडी	phengite	Geol.	फेन्गाइट
phasmidial gland		पशुचक्र ग्रंथि, फैस्मिडीय ग्रंथि	phengitic composition		फेन्गाइटो संघटन
phasor	Phy.	फेज़र	Phengodes	Zool.	फेन्गोडीज
pheasant	Geog.	फेसैंट	pheniprazine	Chem.	फेनिप्राज़ीन
			phenix-stone	Geol.	फेनिक्स प्रस्तर

phenochin	Chem.	फेनोचिन	phenoplast	Chem. (Plast)	फीनॉन-प्लैस्टिक फीनोप्लास्ट
phenoclast	Geol.	फेनोक्लास्ट	phenoquinone	Chem.	फीनोक्वीनोन
phenocopy	Zool	लक्षणकृति	phenosafranine	Chem	फेनोसैफ्रैनीन
phenocryst	Geol	लव्यक्रिस्टल	phenotype	Bot, Zool	1. समलक्षणी 2 लक्षणसमष्टि 3 लक्षणप्ररूप
phenogen	Bot.	फिनोजेन	phenotypic		लक्षणप्ररूपी, समलक्षणीय
phenol	Chem	फीनोल	phenotypic adaptation		समलक्षणानुकूलन
phenol analysis		फीनॉल विश्लेषण	phenotypic characteristic		समलक्षणी विशेषता
phenolase	Chem	फीनॉलेस	phenotypic expression		लक्षणप्ररूपी अभिव्यक्ति
phenolate	Chem	फीनॉलेट	phenotypic mixing		लक्षणप्ररूपी मिश्रण, समलक्षणी मिश्रण
phenol coefficient test		फीनॉल गुणांक निकष	phenotypic modification		समलक्षण-रूपांतरण
phenol extraction		फीनॉल निष्कर्षण	phenotypic variation		लक्षणप्ररूपी विभिन्नता, समलक्षणी विभिन्नता
phenolic	Chem.	फीनॉलिक, फीनॉलीय	phenoxthia	Chem.	फेनाक्थिन
phenolic plastic		फिनॉलिक प्लास्टिक	phenoxy	Chem.	फीनॉक्सी
phenolic resin		फिनॉलिक रेजिन	phenoxyacetic acid	Bot.	फेनोक्सीऐसीटिक अम्ल
phenological map	Geog.	घटनाविज्ञानी मानचित्र	phenoxypropazine	Chem	फीनॉक्सी प्रोपेडीन
phenology		घटनाविज्ञान	phenyl	Chem.	फेनिल
phenoloid substance	Chem.	फीनॉलसम पदार्थ	phenylacetic acid	Chem	फेनिल ऐसीटिक अम्ल
Phenol oxidase		फीनॉल आक्सीडेस	phenyl acrolein		फेनिल ऐक्रोलिन
phenolphthalein	Chem	फीनॉलपथैलिन	phenylacrylic acid		फेनिल ऐक्रिलिक अम्ल
phenolpropionic acid		फीनॉल प्रोपिऑनिक अम्ल	phenylalanine	H.Sc	फेनिल-ऐलानिन
phenol red		फीनॉल रेड फीनॉल रक्त	phenylation	Chem.	फेनिलन, फेनिलवेशन
phenol-resin lacquer	H Sc	फीनॉल रेजिन लाकानेष	phenylazomeleinanil	Chem.	फेनिल-ऐज़ो-मैलेदन-ऐनिल
phenol-rich		फीनॉल समृद्ध	phenyl chloroform	Chem.	फेनिल क्लोरोफॉर्म
phenomenological	Phy, Chem.	परिघटनात्मक, वृत्तिकीय	phenyl hydrazine		फेनिल हाइड्रेज़ीन
phenomenological electrodynamics		परिघटनात्मक विद्युत्गतिकी	phenyl ethyl propionate		फेनिल ऐथिल प्रोपिऑनेट
phenomenological equation		परिघटनात्मक समीकरण	phenylenebisdimethylarsine	Chem	फेनिलीन-बिस हाइमैथिल आर्मीन (हाइड्रास)
phenomenology		वृत्तिकी, परिघटना- विज्ञान	phenylene diamine	Chem	फेनिलीन डाइऐमीन
phenomenon		परिघटना, वृत्त	phenyl-hydroxylamine		फेनिल हाइड्रॉक्सिलैमीन
phenomenon of electrostriction		बैद्युत विरूपण परिघटना	phenyl hydrazone		फेनिल हाइड्रेज़ोन
phenomenon of scattering		प्रकीर्णन परिघटना	phenylic	Chem.	फेनिलिक, फेनिलीय
phenon	Bot.	फेनॉन			
phenonium ion	Chem.	फिनोनियम आयन			



phenyl isocyanate		फेनिल आइसोसायनेट	<i>Phlebolepis</i>	<i>Zool.</i>	पलंबोलेपिस
phenylketonuria	<i>Zool., H.Sc.</i>	फेनिलकीटोनमेह	<i>Phlebotomus</i>	<i>Zool.</i>	पलेवोटोमस
phenylketonurac		फेनिलकीटोनमेही	phlebotomy	<i>Zool.</i>	फ्लिबोटॉमी
phenyl methyl ketone		फेनिल मेथिल कीटोन	phlegmaria-type	<i>Bot.</i>	पलंगमेरिया-प्रकार
phenyl osazone		फेनिल ओसाजोन	phlobaphene	<i>Chem.</i>	पलावफिन
phenylpyruvic acid	<i>Zool.</i>	फेनिलपाइरुविक अम्ल	phobia	<i>H.Sc.</i>	भीति
phenylpyruvic idiot		फेनिलपाइरुविक जड़बुद्धि	phloem	<i>Bot.</i>	पोपवाह, फ्लोएम
phenyl-thio-carbamide (P.T.C.)		फेनिल-थायो-कार्बमाइड (पी० टी० सी०)	phloem feeder		पोपवाह भक्षी
phenyltoloxamine	<i>Chem.</i>	फेनिलटोलाक्सैमीन	phloem necrosis		पोपवाह ऊतकक्षय
phenyltroponimineate	<i>Chem.</i>	फेनिलट्रोपोनिइमीनिएट	phloem parenchyma necrosis		पोपवाह मृदूतक क्षय
phenytoin	<i>Chem.</i>	फेनीटॉइन	phlogisticated air	<i>Chem., Geol.</i>	फ्लोजिस्टीकृत वायु
pheophorbide	<i>Chem.</i>	फेओफॉर्बिड	phlogiston theory		फ्लोजिस्टन-सिद्धान्त
Pheretima	<i>Zool.</i>	फेरेटिमा	phlogopite	<i>Geol.</i>	फ्लोगोपाइट
<i>Pheretima posthuma</i>		फेरेटिमा पोस्थुमा	phloroglucinol	<i>Chem.</i>	फ्लोरोग्लूसिनॉल
*Pherkad (= $\gamma$ Ursae Minoris)	<i>Astron.</i>	फेरकंड (= $\gamma$ अर्सी माइनोरिस)	phloridzin	<i>Bot.</i>	फ्लोरिड्जिन
pheromone	<i>Zool.</i>	फेरोमोन	phlorizin	<i>Chem.</i>	फ्लोरोजिन
Pheronema	<i>Zool.</i>	फेरोनेमा	<i>Phlox drummondii</i>	<i>Bot.</i>	फ्लोक्स ड्रमंडीआई
<i>Pheronema carpenteri</i>		फेरोनेमा कारपेन्टेराइ	<i>Phlyctochytrium helii</i>	<i>Bot.</i>	फिलक्टोकिट्रियम हेलियाइ
phialide	<i>Bot.</i>	तुंविका	phobic response	<i>Zool.</i>	भयानुक्रिया
phialophora	<i>Bot.</i>	फियालोफोरा	phobotactic	<i>Zool.</i>	भयानुचलन
phialopore	<i>Zool.</i>	तुंबिकारंध्र	phobotactic reaction		भयानुचलनो प्रतिक्रिया
phi-coefficient	<i>Math.</i>	फाइ-गुणांक	phobotaxis		भयानुचलन
phi-conic (= $\phi$ conic)		$\phi$ -शांकव, फाइ शांकव	<i>Phoca vitulina</i>	<i>Zool.</i>	फोका विटुलाइना
Philadelphia rod (target staff)	<i>Geog.</i>	फिल्डेल्फिया दंड	Phocidae	<i>Zool.</i>	फोसिडी
Phillips catalytic isomerisation	<i>Chem. (Pet.)</i>	फिलिप्स उत्प्रेरक समावयवीकरण	phocomelia	<i>Zool.</i>	फोकोमीलिया
phillipsite	<i>Geol.</i>	फिलिप्साइट	phoeniceous	<i>Bot.</i>	सिंदूरवर्णी
philosopher's stone	<i>Geol.</i>	पारस पत्थर, पारसमणि	Phoenician	<i>Geog.</i>	फिनिशान
philosopher's wool	<i>Geol.</i>	यशद पुष्प	Phoenician city		फिनिशान शहर
philosophy of home science	<i>H.Sc.</i>	गृहविज्ञान दर्शन	phoenicin	<i>Chem.</i>	फोनिसिन
philosophy of science		विज्ञान दर्शन	phoenicite	<i>Chem.</i>	फोनिसाइट
Philpot Svensson method	<i>Chem.</i>	फिलपोट स्वेन्सन पद्धति	Phoenicopteridae	<i>Zool.</i>	फोनिकोप्टेरिडी
philsim	<i>Chem.</i>	फिलसिम	<i>Phoenicopterus roseus</i>	<i>Zool.</i>	फोनिकोप्टेरस रोजियस (बोगाहंस, राजहंस)
Phlebobranchiata	<i>Zool.</i>	पलेवोब्रैन्किएटा	Phoeniculidae	<i>Zool.</i>	फोनिक्वुलिडी
			Phoenix	<i>Bot.</i>	फोनिक्स

<i>Phoenix acaulis</i>		फ़ोनिकस एकौलिस	<i>phony disease</i>	<i>Bot</i>	धूम रोग
<i>Phoenix dactylifera</i>		फ़ोनिकस डैक्टाइली- फ़ेरा (छहारा)	<i>phoras</i>	<i>H.Sc.</i>	फ़ोरस
<i>Phoenix humilis</i>		फ़ोनिकस हूमिलिस	<i>phorbia</i>	<i>Chem.</i>	फ़ोर्बिन
<i>Phoenix sylvestris</i>		फ़ोनिकस सिल्वेस्ट्रिस (खजूर)	<i>Phoridae</i>	<i>Zool.</i>	फ़ोरिडी
<i>pholadophyte</i>	<i>Bot.</i>	फ़ोटरोड्भिड	<i>phormium</i>	<i>H Sc</i>	फ़ोरमियम
<i>Pholas</i>	<i>Zool</i>	फ़ोलैस	<i>Phormosella</i>		फ़ॉर्मसिला
<i>Pholas dactylus</i>		फ़ोलैस डैक्टाइलस	<i>Phormosoma indicum</i>	<i>Zool</i>	फ़ोरमोसोमा इंडिकम
<i>Pholidota</i>	<i>Zool.</i>	फ़ोलिडोटा	<i>Phormosoma verticillatum</i>		फ़ोरमोसोमा वर्टिसिलेटम
<i>Pholidota</i>		फ़ोलिडोटोटा	<i>phorocyte</i>	<i>Zool</i>	फ़ोरोसायट
<i>phomazarin</i>	<i>Chem.</i>	फ़ोमेज़रॉन	<i>phoron</i>	<i>Chem</i>	फ़ोरॉन
<i>phon</i>	<i>Phy.</i>	फ़ॉन	<i>phorone</i>	<i>Chem.</i>	फ़ोरॉन
<i>phonation</i>	<i>Phy,Zool.</i>	1. उच्चारण 2. स्वनन	<i>phoroid</i>	<i>Zool</i>	फ़ोरॉनिड, बहूनट्टमि
<i>phonautograph</i>	<i>Phy.</i>	फ़ोनोटोग्राफ	<i>Phoronida</i>	<i>Zool.</i>	फ़ोरॉनिडा
<i>phone</i>	<i>Phy.</i>	फ़ोन, टेलीफ़ोन	<i>Phoronidea</i>	<i>Zool</i>	फ़ोरॉनिडिया
<i>phoneme boundary</i>	<i>Phy.</i>	स्वनिम सीमा	<i>Phoronis</i>	<i>Zool.</i>	फ़ोरॉनिस
<i>phonestis</i>	<i>Geog.</i>	ध्वनि	<i>Phororhacus</i>	<i>Zool.</i>	फ़ोरोरहस
<i>phonetic pattern</i>	<i>Phy.</i>	स्वर-चिह्नम	<i>phorozoid</i>	<i>Zool.</i>	फ़ोरॉज़ोइड
<i>phonetic value</i>		ध्वनि मान	<i>Phorus</i>	<i>Geol.</i>	फ़ोरस
<i>Phonicopterus</i>		फ़ोनिकोप्टेरिस	<i>phosgene</i>		फ़ॉसजीन
<i>phonic wheel</i>		ध्वनिक पहिया, ध्वनिक चक्र	<i>phosgenite</i>	<i>Geol.</i>	फ़ॉसजेनाइट
<i>phonochemistry</i>		ध्वनि रसायन	<i>Phosidae</i>		फ़ोसाइडी
<i>phonodeik</i>	<i>Phy.</i>	फ़ोनोडाइक	<i>phoson</i>	<i>H Sc.</i>	फ़ॉसॉन
<i>phonoglyph</i>	<i>Geog.</i>	स्वरोत्कीर्ण चित्र	<i>phosphagen</i>	<i>Zool.</i>	फ़ॉस्फ़ाजेन
<i>phonogram</i>	<i>Geog.,Phy.</i>	फ़ोनोग्राम	<i>phospham</i>	<i>Chem.</i>	फ़ॉस्फ़ैम
<i>phonograph</i>	<i>Phy.</i>	फ़ोनोग्राफ	<i>phosphamide</i>	<i>Chem.</i>	फ़ॉस्फ़-ऐमाइड
<i>phonograph amplifier</i>		फ़ोनोग्राफ़ प्रवर्धक	<i>phosphanous</i>	<i>Chem.</i>	फ़ॉस्फ़ेनम
<i>phonograph needle</i>		फ़ोनोग्राफ़ सुई	<i>phosphatase</i>	<i>Chem.</i>	फ़ॉस्फ़ेटेज
<i>phonolite</i>	<i>Geol.</i>	फ़ोनोलाइट	<i>phosphate</i>	<i>Chem., H.Sc.</i>	फ़ॉस्फ़ेट
<i>phonolithic trachyte</i>		फ़ोनोलाइट्री ट्रेसाइट	<i>phosphate crown glass</i>		फ़ॉस्फ़ेट क्राउन ग्लास
<i>phonometer</i>	<i>Phy.</i>	ध्वनिमापी	<i>phosphate desulphur- sation</i>		फ़ॉस्फ़ेट विषयकीकरण
<i>phonometry</i>		ध्वनिमिति	<i>phosphate fertilizer</i>		फ़ॉस्फ़ेट उर्वरक
<i>phonon</i>	<i>Phy.</i>	फ़ोनॉन, ध्वनि क्वान्टम	<i>phosphate glass</i>		फ़ॉस्फ़ेट ग्लास
<i>phono-receptor</i>	<i>Zool.</i>	ध्वनि ग्रही	<i>phosphate of lime</i>		फ़ॉस-फ़ॉस्फ़ेट
			<i>phosphate rock</i>		फ़ॉस्फ़ेट- रॉक

phosphatic	<i>Geol.</i>	फॉस्फेटि	phosphomolybdic	<i>Geol.</i>	फॉस्फोमॉलिब्डिक
phosphatic acid	<i>Chem.</i>	फॉस्फैटिक अम्ल	phosphomolybdic acid		फॉस्फो-मॉलिब्डिक अम्ल
phosphatic deposit		फॉस्फेटि निक्षेप	phosphonate	<i>Chem.</i>	फॉस्फोनेट
phosphatic slag		फॉस्फेटि धातुमल	phosphonic acid	<i>Chem.</i>	फॉस्फोनिक अम्ल
phosphatid	<i>Zool.</i>	फॉस्फेटिड	phosphonitrilic	<i>Chem.</i>	फॉस्फोनाइट्रिलिक
phosphatidase	<i>Chem.</i>	फॉस्फेटिडेज	phosphonium	<i>Chem.</i>	फॉस्फोनियम
phosphatide		फॉस्फेटाइड	phosphonium iodide		फॉस्फोनियम आयोडाइड
phosphatidic acid		फॉस्फेटाइडी अम्ल	phosphophingosi	<i>Chem.</i>	फॉस्फोफिंगोसी
phosphatidyl choline	<i>Chem.</i>	फॉस्फेटाइडिल कोलीन	phospho-phyllite	<i>Chem.</i>	फॉस्फोफिल्लिट
phosphatidyl ethanolamine		फॉस्फेटाइडिल एथेनॉल- ऐमीन	phospho-protein	<i>H.Sc., Chem.</i>	फॉस्फो-प्रोटीन
phosphatidyl serine		फॉस्फेटाइडिल सेरीन	phosphor	<i>Phy.</i>	संदीपक
phosphatize	<i>Chem.</i>	फॉस्फेटिकरण	phosphoramidate	<i>Chem.</i>	फॉस्फर ऐमीडेट
phosphatized	<i>Geol.</i>	फॉस्फेटित	phosphoramidate	<i>Chem.</i>	फॉस्फर-ऐमाइड
phosphazote	<i>Chem.</i>	फॉस्फेजोट	phosphor bronze		फॉस्फर कांसा
phosphier tin		फॉस्फर टिन	phosphor copper		फॉस्फर ताम्र
phosphide	<i>Chem.</i>	फॉस्फाइड	phosphoresce	<i>Phy., Geol.</i>	स्फुरदीप्त होना
phosphinate	<i>Chem.</i>	फॉस्फिनेट	phosphorescence	<i>Zool.</i>	स्फुरदीप्ति
phosphine	<i>Chem.</i>	फॉस्फीन	phosphorescent		स्फुरदीप्त
phosphinic acid	<i>Chem.</i>	फॉस्फिनिक अम्ल	phosphorescent memory screen		स्फुरदीप्त मेमोरी स्क्रीन
phosphoamidase	<i>Chem.</i>	फॉस्फोऐमीडेस	phosphorescent organ	<i>Zool.</i>	स्फुरदीप्ति अंग
phosphoarginine	<i>Zool.</i>	फॉस्फोआर्जिनीन	phosphorescent pigment		स्फुरदीप्त वर्णक
phosphocreatine	<i>Zool.</i>	फॉस्फोक्रीएटिन	phosphoretted	<i>Chem.</i>	फॉस्फोरित
phospho-ferrite	<i>Geol.</i>	फॉस्फोकैराइट	phosphoretted hydrogen		फॉस्फोरित हाइड्रोजन
phosphofructomutase	<i>Bot.</i>	फॉस्फोफ्रक्टोम्यूटेस	phosphoria	<i>Chem.</i>	फॉस्फोरिया
phosphoglucumutase	<i>Chem.</i>	फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस	phosphoric	<i>Chem.</i>	फॉस्फोरिक
phosphoglyceraldehyde dehydrogenase		फॉस्फोग्लिसरेल्डीहाइड डीहाइड्रोजेनेस	phosphoric acid		फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक एसिड
phosphoglyceric acid	<i>Zool.</i>	फॉस्फोग्लिसरेरिक अम्ल	phosphorimetry		स्फुरदीप्ति मिति
phosphohexo- isomerase		फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेस	phosphorite	<i>Geol.</i>	फॉस्फोराइट
phosphoinositide	<i>Chem.</i>	फॉस्फोइनोसिटाइड	phosphorogen	<i>Chem. (Met.)</i>	स्फुरदीप्तिजनक
phosphohexokinase		फॉस्फोहेक्सोकाइनेस	phosphograph	<i>Chem.</i>	स्फुरदीप्तिरेखी
phospholipase	<i>Chem.</i>	फॉस्फोलिपेस	phosphorolysis	<i>Biol.</i>	फॉस्फोरोलीसिस, फॉस्फोरिक अपघटन
phospholipide	<i>Chem., H.Sc.</i>	फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपाइड	phosphoronitridic acid	<i>Chem.</i>	फॉस्फोरोनाइट्रिडिक अम्ल
phospholipin	<i>Bot.</i>	फॉस्फोलिपिन			
phospho-molybdate	<i>Geol., Chem.</i>	फॉस्फो-मॉलिब्डेट			

phosphoroscope	<i>Chem</i>	स्फुटबीजितदर्शी
phosphorus	<i>Chem.</i>	फॉस्फोरस
phosphorous acid		फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरस ऐसिड
phosphorous deficiency disease		फॉस्फोरस न्यूनता रोग
phosphorus insecticide		फॉस्फोरस-कीटनाशी
phosphorous penta- chloride		फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड
phosphorus	<i>Geol</i>	फॉस्फोरस
phosphorus cycle		फॉस्फोरस चक्र
phosphorus steel		फॉस्फोरस-इस्पात
phosphoryl	<i>Chem.</i>	फॉस्फोरिल
phosphorylase	<i>Chem., Zool</i>	फॉस्फोरिलेस
phosphorylation	<i>Bot.</i>	फॉस्फोटीकरण, फॉस्फोस्टीमवन
phosphorylating agent	<i>Chem.</i>	फॉस्फोरीकर कारक
phosphorylating mechanism	<i>Zool</i>	फॉस्फोरीकर क्रियाविधि
phosphorylation		फॉस्फोरिलीकरण
phospho-silicate	<i>Chem.</i>	फॉस्फोसिलिकेट
phosphosphingoside	<i>Chem.</i>	फॉस्फोसिफिंगोसाइड
phospho-tartaric acid	<i>Chem.</i>	फॉस्फोटार्टरिक अम्ल, फॉस्फोटार्टरिक ऐसिड
phosphotrioses	<i>Bot.</i>	फॉस्फोट्राइओजेस
phosphotungstic acid	<i>Bot.</i>	फॉस्फोटंगस्टिक अम्ल
phospho-tungstate		फॉस्फोटंगस्टेट
phosphotungstic acid		फॉस्फोटंगस्टिक अम्ल
phospho-tungstic green		फॉस्फोटंगस्टिक हरित
phosphurected (phosphoretted)	<i>Chem.</i>	फॉस्फुरित
phossy jaw	<i>Chem.</i>	फॉस्फरी हनु, फॉनी जॉ
phot	<i>Phy.</i>	फोट
photee	<i>H Sc.</i>	फोटो
photeolic	<i>Bot.</i>	अहनिशि गतिक
photelometer	<i>Chem.</i>	फोटेलोमीटर
photic	<i>Zool, Geog</i>	प्रकाशी
photic region (= photic zone)		प्रकाशी क्षेत्र (समुद्री)

photic taxis		प्रकाशीय अनुचलन
Photinus	<i>Zool.</i>	फोटिनस
phthiocol	<i>Chem.</i>	थायाकॉल
photism	<i>Zool</i>	प्रकाशन
photister (= photo transistor)	<i>Phy.</i>	फोटिस्टर, प्रकाश ट्रांजिस्टर
photo	<i>Chem, Geol, Geog.</i>	फोटो-, भा-, प्रकाश
photo-actinic ray		प्रकाश क्रियाशील किरण, प्रकाश रसोक्रियकिरण
photo activate molecule		प्रकाश सक्रियित अणु
photo active		प्रकाश सक्रिय
photo-active boundary		प्रकाश सक्रिय सीमा
photo-active mineral		प्रकाश सक्रिय खनिज
photo-alidade		फोटो-ऐलिडेड
photoamplifier (= photomultiplier)		प्रकाश इलेक्ट्रॉन सवर्धक
photo-anisotropy		प्रकाशिक विषम दृशिकता
photoautotroph	<i>Biol.</i>	प्रकाशस्वपोषी
photoautotrophic		प्रकाशस्वपोषी
photoautotrophy (holophytism)	<i>Zool.</i>	प्रकाशस्वपोषिता (पादपममभोजिता)
<i>Photobacterium harveyi</i>	<i>Bot.</i>	फोटोबैक्टीरियम हार्वेआई
photobehaviour	<i>Zool</i>	प्रकाशानुव्यवहार
photobiology		भा-जैविकी, प्रकाश जैविकी
photo-bromination		भा-ब्रोमीनन, प्रकाश ब्रोमीनन
photocatalase	<i>Bot.</i>	फोटोकैटालेस
photocatalysed	<i>Bot.</i>	प्रकाशोत्प्रेरित
photo-catalysis		प्रकाशिक उत्प्रेरण
photo-catalyst		प्रकाशिक उत्प्रेरक
photocatalytic synthesis	<i>Zool.</i>	प्रकाश उत्प्रेरक संश्लेषण
photocathode	<i>Phy.</i>	प्रकाशिक कैथोड
photo cell		फोटो सेल, प्रकाश सेल
photocell copying		प्रकाश-सेल प्रतिनिपीदन
photochemical	<i>Chem, Phy., Geol.</i>	प्रकाश रसायनिक

photochemical apparatus	प्रकाश रसायनी उपकरण	photocurrent coefficient	प्रकाश विद्युत् धारा, गुणांक, फोटोनज धारा गुणांक
photochemical coloration	प्रकाश रसायनिक रंजन	photo cyclodimerisation	<i>Chem.</i> प्रकाशचक्री द्विलकन, भाचक्री द्वितीयन
photochemical effect	प्रकाश रसायनिक प्रभाव	photodecarboxylation	<i>Chem.</i> भा-विकावाक्सिलीकरण
photochemical equilibrium	प्रकाश रसायनिक साम्य	photodecomposition	<i>Chem.</i> प्रकाशिक अपघटन
photo-chemical equivalence	प्रकाश रसायनिक तुल्यता	photodeflectoscope	<i>Chem.</i> भादोपदर्शी
photochemical excitation	प्रकाश रसायनिक उत्तेजन	photodegradation	<i>Chem.</i> भानिस्तरीकरण
photochemical induction	प्रकाश-रसायनिक प्रेरण	photodesmotic band	<i>Chem.</i> भाबंध पट्टी
photochemical process	प्रकाश रसायनिक प्रकम	photodetachment	<i>Geol.</i> प्रकाशिक पृथक्करण
photochemical reaction	प्रकाश रसायनिक अभिक्रिया	photodimerization	<i>Chem.</i> भा-द्वितीयन, प्रकाश द्विलकन
photochemical reactor	प्रकाश रसायनिक रिऐक्टर	photodimerization reaction	<i>Chem.</i> भा-द्वितीयन अभिक्रिया, प्रकाश द्विलकन अभिक्रिया
photochemical sensitiser	प्रकाशरसायनिक सुग्राहक, प्रकाश रसायनिक सेन्जिटाइजर	photodiode	<i>Phy.</i> फोटोडायोड, प्रकाश चालकीय डायोड
photochemical sensitivity	प्रकाश रसायनी संवेदनशीलता	photo-disintegration (=photo nuclear reaction)	<i>Phy.</i> फोटोनज विघटन, फोटोनज न्यूक्लीय अभिक्रिया
photochemist	प्रकाश रसायनज्ञ	photo dissociation	प्रकाशिक वियोजन
photochemistry	प्रकाश रसायन	photo dynamic	प्रकाश चल, प्रकाश गतिक
photoeleistogamy	प्रकाश निमीलित परागण	photo effect	<i>Phy.</i> फोटॉन प्रभाव
photoclinometer	<i>Geol.</i> फोटोनतिमापी	photoelasticity	<i>Phy.</i> प्रकाश प्रत्यास्यता
photo conducting cell	प्रकाश चालकीय सेल	photoelectric	<i>Phy., Geog., Geol.</i> प्रकाशवैद्युत, प्रकाश विद्युत्
photo conduction	प्रकाशिक चालन	photoelectric absorption	प्रकाशवैद्युत अवशोषण
photoconduction diode	प्रकाश चालकीय डायोड	photoelectrical response	प्रकाशवैद्युत अनुक्रिया
photo-conductive cell	प्रकाश चालकीय सेल	photoelectric cell	प्रकाशविद्युत् सेल
photoconductive copying	प्रकाश चालकीय प्रतिलिपीयन	photoelectric colorimeter	भा-विद्युत् वर्णमापी, प्रकाश-विद्युत् कलरीमीटर
photoconductive response	प्रकाश चालन अनुक्रिया	photoelectric constant	प्रकाश वैद्युत स्थिरांक
photoconductive switch	प्रकाश चालकीय स्विच	photoelectric cross-section	<i>Phy.</i> फोटॉन इलेक्ट्रॉनीय परिक्षेत्र
photoconductivity	प्रकाशिक चालकता	photoelectric densitometer	<i>Zool.</i> प्रकाशवैद्युत घनत्वमापी
photocopy	फोटो-प्रतिलिपि	photoelectric effect	प्रकाश-विद्युत् प्रभाव
photocopying	फोटो प्रतिलिपीयन		
photocurrent	<i>Phy.</i> प्रकाश विद्युत् धारा		

photo-electric emission		प्रकाश विद्युत् उत्सर्जन	photogen	Zool.	प्रकाशजन
photo-electric exposure meter		प्रकाश विद्युत् उद्भासन मापी, प्रकाश विद्युत् ऐक्सपोजर मापी	photogene	Geol.	फोटोजीन
photoelectric fatigue		प्रकाश विद्युत् श्रान्ति	photogenetic	Zool.	प्रकाशजनक
photo-electric ion		प्रकाश विद्युत् आयन	photogenic	Phy, Zool.	1 छविचित्रणाय 2. प्रकाशजनक
photoelectricity	Phy.	प्रकाश-विद्युत्	photogenic cell		प्रकाशजनक कोशिका
photoelectric method		प्रकाश विद्युत् विधि	photogenic organ		प्रकाशजनक अंग
photoelectric photometer		प्रकाश विद्युत् प्रकाशमापी	photogenic property		भाजनक गुणधर्म, प्रकाशजनक गुणधर्म
photoelectric polarimeter		प्रकाश विद्युत् ध्रुवणमापी	photogenic tissue		प्रकाशजनक ऊतक
photoelectric polarimeter		प्रकाश विद्युत् ध्रुवणमापी	photogen layer		प्रकाशजनक स्तर
photoelectric sensitivity		प्रकाश विद्युत् सुद्राहिता	photogeologist	Geol	फोटोभूवैज्ञानिक
photo-electric threshold		प्रकाश विद्युत् देहली	photogeology		फोटोभूविज्ञान
photoelectric timer		प्रकाश विद्युत् कालद	photogoniometer	Geog., Chem.	फोटोगोनियोमीटर
photo-electric yield		प्रकाश विद्युत् उत्पादन, प्रकाश विद्युत् उत्पादन	photogrammetric bridging	Geog.	फोटोग्राममितीय कडी बध्न
photo electron	Phy.	फोटोनिज इलेक्ट्रॉन, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन	photogrammetric surveying		फोटोग्राममितीय सर्वेक्षण
photo-emission	Phy.	प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन	photogrammetric survey		फोटोग्राममितीय सर्वेक्षण
photoemissive cell		प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक सेल	photogrammetric tool		फोटोग्राममितीय बीजार
photoemissive effect		प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक प्रभाव	photogrammetrist		फोटोग्राममितीय, फोटोग्राममितिज्ञ
photo emitter		प्रकाश विद्युत् उत्सर्जक	photogrammetry	Geol, Phy.	फोटोग्राममिति
photoenolization	Chem.	भा-इनोलीकरण, प्रकाश-इनोलीकरण	photograph	Phy, H Sc., Geog.	फोटोग्राफ
photo-energy	Phy.	प्रकाश ऊर्जा	photographic		फोटोग्राफिक
photoengraving	Geog, Phy.	फोटोउत्कीर्णन	photographic activity		फोटोग्राफिक सक्रियता
photo-excitation	Phy.	प्रकाशिक उत्तेजन	photographic copying	Math.	फोटो-प्रतिलिपीयन
photo fission	Phy., Chem	फोटोनेत्र विखंडन	photographic density		फोटोग्राफिक घनत्व
photo flash bomb	Geog.	फोटो-फ्लैश बम, फोटो दमक बम	photographic developer	Phy.	फोटो डेवेलपर
photo-flash cartridge	Geog.	फोटो-फ्लैश कार्ट्रिज, फोटो-दमक कार्ट्रिज	photographic device	Phy.	फोटो चित्रण युक्ति
photo flood lamp	Chem.	भा-ओषदीप, प्रकाश-ओषदीप	photographic effect		फोटोग्राफिक प्रभाव
photoformer	Phy	फोटोफॉर्मर, प्रकाश फलन यन्त्र	photographic emulsion		फोटोग्राफिक इमल्शन
			photographic enlarging		फोटोग्राफिक-विवर्धन
			photographic exposure		फोटोग्राफिक अपाकरण, फोटोग्राफिक उच्छादन
			photographic exposure meter		फोटोग्राफिक उच्छादनमापी

photographic film		फोटोग्राफिक फ़िल्म	photogrid process	Chem.	भा-प्रजाल प्रक्रम
photographic film leader		फोटोग्राफिक फ़िल्म अग्रग	photo grill	Geog.	फोटो-बर्ग
photographic fixing process		फोटोग्राफीय स्थायीकर प्रक्रम, फोटोग्राफीय फिक्सन प्रक्रम	photohalide		फोटो हैलाइड
photographic flight		फोटोग्राफीय उड़ान	photohalogenation	Chem.	प्रकाशी-हैलोजनीकरण
photographic fog density		फोटोग्राफिक धूमिलता घनत्व	photoheterotroph	Bot.	प्रकाश-परपोषित
photographic gap		फोटो-अन्तराल	photohylography		प्रकाशिक काच लेखन
photographic image		फोटोग्राफीय प्रतिविम्ब	photo index	Geol.	फोटोसूचक
photographic magnitude	Math.	फोटोग्राफीय कांतिमान	photo induced reaction	Phy.	फोटॉन प्रेरित अभिक्रिया
photographic map	Geog.	फोटो-मानचित्र	photo-initiator	Chem.	भा-समारंभन
photographic method		फोटोग्राफीय विधि	photo interpretation	Geog.	फोटो निर्वचन, फोटो-व्याख्या
photographic negative materials		फोटोग्राफिक निगेटिव द्रव्य	photo interpreter	Geog.	फोटो-निर्वचक
photographic operation		फोटोग्राफीय संक्रिया	photoionization	Geol.,Phy.	प्रकाशिक आयनन
photographic paper recorders		फोटोग्राफिक पेपर अभिलेखी]	photoisland grid	Phy.	प्रकाश मोचक पट्टिका
photographic plate	Phy.	फोटो की प्लेट	photo-isomeric change		प्रकाश समावयवी परिवर्तन
photographic print		फोटोग्राफीय प्रिंट	photokinesis	Zool.	फोटोकाइनेसिस, प्रकाशगतित्रम
photographic printing	H.Sc.	फोटोग्राफिक छपाई	photolithography	Chem.	भा-अश्मलेखन
photographic process	H.Sc.,Geog.	फोटोग्राफीय प्रक्रम	photolithotrophy	Bot.	प्रकाश-कार्बनिक पोषिता
photographic projection	Geog.	फोटोग्राफीय प्रक्षेप	photo luminescence	Phy.,Chem.	प्रकाश संदीप्ति
photographic radar record		फोटोग्राफिक रेडार अभिलेख	photolysed nuclei	Phy.,Geol.,Chem.	प्रकाश अपघटित केन्द्रक
photographic reduction	Geog.	फोटो लघुकरण	photolysis		प्रकाश-अपघटन
photographic speed		फोटोग्राफिक क्षिप्रता	photolyte		प्रकाश-अपघटनीय
photographic telescope	Phy.	फोटो चित्रक दूरबीन, फोटो चित्रक दूरदर्शक	photolytic darkening		प्रकाश अपघटनी धूमिलन
photographic traces		फोटोग्राफीय अभिलेख	photolytic deactivation		प्रकाश अपघटनी विक्रियण
photographic zenith tube		फोटोग्राफीय शिरोविन्दु नली	photomacrograph	Chem. (Met.)	भा-स्थूललेख
photograph map		फोटोग्राफ मानचित्र	photomagnetic effect	Phy.	फोटॉन चुंबकीय प्रभाव
photography	Phy.	फोटोचित्रण, फोटोग्राफी	photomap	Geol.	फोटो-मानचित्र
photogravure	Chem.	भा-उत्कीर्णन, प्रकाश उत्कीर्णन, फोटोग्रेव्युअर	photomechanical change	Zool.	प्रकाशयांत्रिक परिवर्तन
photogravure printing process	Geog.	भा-उत्कीर्णनी मुद्रण प्रक्रम	photo-meson	Chem.,Phy.	फोटॉनज मेसान
			photometer	H.Sc.,Phy.	प्रकाशमापी, फोटोमीटर
			photometer bench		प्रकाशमापी वेन्च
			photometer trace method		फोटोमीटर अनुरेख विधि

photometric	<i>Phy., Biol.</i>	प्रकाशमापीय, प्रकाशमितीय	<i>photo organotrophy</i>	<i>Bot.</i>	प्रकाश कार्बनिक पोषिता
photometrically		मापित्यत, प्रकाशमापीय विधि द्वारा	photo-oxidation	<i>Chem., Biol.</i>	प्रकाशोपचयन प्रकाशो भावसीकरण
photometric brightness		प्रकाशमापीय च्युति	photoxide (=anthracene oxide)	<i>Chem</i>	फोटो-अँक्रनाइड (एन्थ्रासीन ऑक्साइड)
photometric standard		प्रकाशमितीय मानक	photo perceptor		प्रकाशावगमक
photometric surface		प्रकाशमापीय पृष्ठ	photoperiod	<i>Bot</i>	दीप्तिकाल
photometric unit		प्रकाशमापीय मात्रक	photoperiodic stimulus		दीप्तिकालिक उद्दीपन
photometry	<i>Phy.</i>	प्रकाशमिति	photoperiodic treatment		दीप्तिकालिक अर्भिन्निया
photomicrograph	<i>Phy, H.Sc.</i>	सूक्ष्मदर्शीय फोटो, सूक्ष्मदर्शीय चित्र	photoperiodism		दीप्तिकालिता
photomicrography		सूक्ष्मदर्शीय फोटोग्राफी	photophil	<i>Zool</i>	प्रकाशरागी
photomorphosis	<i>Zool.</i>	प्रकाशरूपान्तरण	photophilous		प्रकाशरागी
photomosaic	<i>Geol., Geog</i>	फोटोमोसैक	photophobe	<i>Zool, Bot</i>	प्रकाशभीत, प्रकाशभीह
photo mosaic index		फोटो-मोसैक सूचक	photophobia	<i>Biol, H.Sc</i>	प्रकाशभीहता, प्रकाशभीति
photomultiplier	<i>Phy.</i>	प्रकाश-इलेक्ट्रॉन संवर्धक	photophobic		प्रकाशभीत
(=photoamplifier)			photophobicism		प्रकाशभीहता
photomultiplier output	<i>Geol</i>	प्रकाश इलेक्ट्रॉन संवर्धक उत्पाद	photophobicous		प्रकाशभीह
photomultiplier tube	<i>Geol</i>	प्रकाश-इलेक्ट्रॉनी संवर्धन नलिका, भा-इलेक्ट्रॉनी संवर्धन नलिका	photophone	<i>Phy</i>	फोटोफोन
photon	<i>Phy.</i>	फोटॉन	photophore	<i>Zool.</i>	प्रकाशघर, फोटोफोर
photonastic		प्रकाशानुकुचनी	photophoresis	<i>Chem</i>	प्रकाशवणसंचालन, भा-वणसंचलन
photonasty		प्रकाशानुकुचन	Photophorus	<i>Zool.</i>	फोटोफोरस
photonegative	<i>Phy.</i>	प्रकाश ऋणात्मक	photophysical process	<i>Chem.</i>	भा-भौतिक प्रक्रम
photonegative specimen		प्रकाशऋणात्मक प्रतिरूप	photopia	<i>Zool.</i>	प्रकाशानुकूलन
photonutron	<i>Phy., Chem</i>	फोटॉनन न्यूट्रॉन	photopic		प्रकाशानुकूनी
photonic	<i>Phy.</i>	फोटोनी	photopmacolization	<i>Chem</i>	भा-पिनाकोलन, प्रकाश पिनाकोलीकरण
photo nuclear effect	<i>Phy</i>	प्रकाश नाभिकीय विद्युत्-प्रभाव	photopiascolized		प्रकाश पिनाकोलीहृत, भा-पिनाकोलित
photonuclear process		प्रकाश नाभिकीय प्रक्रम	photopolymer	<i>Chem.</i>	भा-बहुलक, प्रकाश बहुलक
photonuclear reaction		प्रकाश नाभिकीय अर्भिन्निया	photo-polymerisation		प्रकाश-बहुनकीकरण
photon wave		फोटॉन तरंग	photopositive	<i>Phy.</i>	प्रकाशधनात्मक
photonymograph	<i>Geog.</i>	फोटोनिमोग्राफ	photopositive specimen		प्रकाशधनात्मक प्रतिरूप
photo offset method	<i>Geog.</i>	फोटो-ऑफसेट विधि	photo potential	<i>Chem</i>	भा-विभव
photo opaque	<i>Geog.</i>	फोटो अपार्य	photoproton	<i>Phy., Chem</i>	फोटॉनन प्रोटॉन



photoptic vision	<i>Phy.</i>	प्रकाशदृक् दृष्टि
photoquenching	<i>Phy.</i>	प्रकाशतः शमन
photo-reaction	<i>Phy.</i>	फोटॉनी-अभिक्रिया, प्रकाश-अभिक्रिया
photoreactivation	<i>Biol.</i>	प्रकाश पुनस्सक्रियण
photorearrangement	<i>Chem.</i>	भा-पुनर्व्यवस्था, प्रकाश पुनर्व्यवस्था
photoreceptor	<i>H.Sc.</i>	प्रकाशग्राही
photoreceptor cell	<i>Zool.</i>	प्रकाशग्राही कोशिका
photoreconnaissance	<i>Phy.</i>	प्रकाशीय गश्त
photorecording	<i>Phy.</i>	प्रकाशतः अभिलेखन
photoreduction	<i>Chem.</i>	प्रकाशापचयन
photo-relief (process)	<i>Geog.</i>	फोटो-उच्चावचन (प्रक्रम)
photo-relief map		फोटो-उच्चावच मानचित्र
photo-response	<i>Zool.</i>	प्रकाशानुक्रिया
photo-screen (process)	<i>Geog.</i>	फोटो-आवरण (प्रक्रम)
photoscribe etching	<i>Geog.</i>	फोटोचित्र निक्षारण
photoscribe process		फोटोचित्रण प्रक्रम
photosensitive	<i>Phy., Biol., Geol.</i>	प्रकाश-सुग्राही, प्रकाश संवेदी
photosensitive cell		प्रकाशसंवेदी कोशिका
photosensitive element		प्रकाशसुग्राही अवयव
photosensitive organ		प्रकाशसंवेदी अंग
photosensitive pigment		प्रकाशसंवेदी वर्णक
photosensitive surface		प्रकाशसुग्राही पृष्ठ
photo-sensitivity		प्रकाश-सुग्राहिता, प्रकाश- संवेदिता
photosensitized decomposition		भा-सुग्राहित अपघटन
photosensitized reaction		भा-सुग्राहित अभिक्रिया
photosensitizer		प्रकाश-सुग्राहीकारक
photosensory cell		प्रकाशसंवेदी कोशिका
photosphere	<i>Phy.</i>	प्रकाश-मंडल
photo sensitization		फोटो-सुग्राहीकरण
photostage		दीप्त अवस्था

photostat	<i>Geog., Phy.</i>	फोटोस्टैट
photostat laboratory		फोटोस्टैट प्रयोगशाला
photo stationery state	<i>Chem.</i>	भा-स्वावर अवस्था
photostimulus	<i>Bot.</i>	प्रकाश उद्दीपन, प्रकाश उद्दीपक
photo strip	<i>Geol.</i>	फोटोपत्ती
photo-supply store	<i>Geog.</i>	फोटो-संभरण संग्रहालय, फोटो संभरण भंडार
photo-survey	<i>Geog.</i>	फोटो सर्वेक्षण
photoswitch	<i>Phy.</i>	फोटोस्विच
photosyntax	<i>Bot.</i>	प्रकाश संश्लेषण
photosynthate		प्रकाश संश्लेषण
photosynthesis	<i>Bot.</i>	प्रकाश संश्लेषण
photosynthesizing cell		प्रकाश संश्लेषी कोशिका
photosynthetic		प्रकाश संश्लेषी
photosynthetic activity		प्रकाश संश्लेषी क्रिया
photosynthetic apparatus		प्रकाश-संश्लेषी उपकरण
photosynthetic branch		प्रकाश संश्लेषी शाखा
photosynthetic cycle		प्रकाश संश्लेषी चक्र
photosynthetic number		प्रकाश संश्लेषी संख्या
photosynthetic organ		प्रकाश संश्लेषी अंग
photosynthetic organism		प्रकाश संश्लेषी जीव
photosynthetic phosphorylation		प्रकाश संश्लेषी फास्फोरिलीकरण
photosynthetic process		प्रकाश संश्लेषी प्रक्रम
photosynthetic quotient		प्रकाश संश्लेषी भागफल
photosynthetic rate		प्रकाश संश्लेषण दर
photosynthetic zone		प्रकाशसंश्लेषी क्षेत्र
photosynthont		प्रकाशसंश्लेषक
phototactic	<i>Bot., Zool.</i>	प्रकाशानुचलित
phototactic irritability		प्रकाशानुचलित उत्तेजनशीलता
phototactic migration		प्रकाशानुचलित प्रवास
phototaxis	<i>Bot., Zool.</i>	प्रकाशानुचलन

phototautomerisation	Chem	भाचलावयवता
phototaxism	Zool	प्रकाशानुचलना
phototaxy		प्रकाशानुचलन
phototelegraphy	Phy.	तारचित्र प्रेषण, रेडियो चित्र प्रेषण, दूर चित्र प्रेषण
phototelephony	Phy.	चित्रटेलिफोनी
phototheodolite	Geog., Phy.	फोटोथियोडोलाइट
phototimer	Phy.	प्रकाशीय कालद
photofonus	Zool	प्रकाशातति
phototransistor	Phy.	प्रकाश ट्रांजिस्टर
phototropic	Phy., Bot., Zool	प्रकाशानुवर्ती
phototropic stimulus		प्रकाशानुवर्ती उद्दीपन
phototropism		प्रकाशानुवर्तन
phototropy		प्रकाशानुवर्तन
photo tube	Chem., Phy.	प्रकाशइलेक्ट्रॉन नलिका, भा-इलेक्ट्रॉन नलिका
photo tube shutter		भा-इलेक्ट्रॉन नलिका शटर, भा-नाल संवारक
phototype	Bot	फोटोप्ररूप, फोटोटाइप
phototype setter		फोटोटाइप सेटर
phototype setting		फोटोटाइप स्थापन
phototype setting machine		फोटोटाइप स्थापन मशीन
phototypography		फोटोटाइपोग्राफी
photovaristor	Phy.	प्रकाश वेरिस्टर
photo-verification	Geog.	फोटो सत्यापन
photovoltaic	Phy	प्रकाश-वोल्टीय
photovoltaic cell		प्रकाश वोल्टीय सेल
photovoltaic effect		प्रकाश वोल्टीय प्रभाव
photovolt brightness meter	Chem.	भा-वोल्ट प्रभापमी
photovolt glossmeter	Chem.	भाविद्युत् कान्तिमापी
photozincographed	Geog.	फोटोजिन्कोग्राफिन
photozinc process		फोटोजिन्को प्रक्रम
photronic - arrangement	Chem	भा-इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था, फोटोनिक व्यवस्था
photronic cell		फोटोनिक सेल

Photuris	Zool	फोटुरिस
phragma	Zool.	फ्रेग्मा, वृत्ति
Phragman Lindeloff function	Math.	फ्रेग्मैन-लिनडलाफ फलन
Phragman-Lindeloff Polya indicator		फ्रेग्मैन-लिनडलाफ- पोल्या सूचक
phragmanotum	Zool	वृत्तिवक्षपृष्ठक, छदवक्षपृष्ठक
Phragmudithrix multiseptata	Bot.	फ्रेग्मिडिथ्रिक्स मल्टीसेप्टेटा
Phragmium rupi	Bot	फ्रेग्मिडियम रूपाइ
Phragmiospore	Bot	फ्रेग्मो बीजाणु
Phragmites communis	Bot	फ्रेग्माइटीज कम्यूनिस
Phragmobasidium	Bot.	फ्रेग्मोबेसिडियम
Phragmoceras	Geol	फ्रेग्मोसिरेस
phragmocone	Geol	आवृतशकु
phragmoplast		फ्रेग्मोप्लास्ट
phragmosis	Zool	वृत्तिकरण
phragmosome	Bot	फ्रेग्मोसोम
phrase name	Bot	वाक्यांश नाम
phraseology	Geog.	पदावली
phratry	Geog.	फ्रेट्री
phreactophyte	Bot	अधोभूमि जलोद्भिद
phreatic (water)	Geol	अधोभूमिजल
phreatic cave system		अधोभूमिजल गुहातंत्र
phreatic cycle		अधोभूमिजल चक्र
phreatic decline		अधोभूमिजल पतन
phreatic eruption		भूमिपक उद्भेदन
phreatic explosion		भूमिपक विस्फोट
phreatic fluctuation		अधोभूमिजल उच्चावचन
phreatic groundwater		अधोभूमिजल
phreatic high		उच्चअधोभूमिजल स्तर
phreatic low		निम्नअधोभूमिजल स्तर
phreatic rise		अधोभूमिजल उत्थान
phreatic solution		अधोभूमिजल विलयन
phreatic surface		अधोभूमिजल पृष्ठ
phreatic wave		अधोभूमिजल तरंग
phreatic zone		अधोभूमिजल मंडल

phreatoicus	Geol.	फ्रीटाइकस
phreatomagmatic eruption	Geol.	अन्तर्भूमि मैग्मी उद्गार
phrenic artery	Zool.	मध्यछद घमनी, मध्यपट घमनी
phrenic nerve		मध्यछद तंत्रिका, मध्यपट तंत्रिका
phrenosin	Chem.	फ्रेनोसिन
phrenotheca	Geol.	पटीय प्रावरक
phrix	H.Sc.	फ्रिक्स
phronima	Geog.	फ्रॉनिमा
Phrynichus	Zool.	फ्राइनिकस
phthalamic acid	Chem.	थैलोमिक अम्ल
phthalamidic acid	Chem.	थैलैमिडिक अम्ल
phthalein	Chem.	थैलीन
phthalein test		थैलीन मिकप
phthalic acid	Chem.	थैलिक अम्ल
phthalide	Chem.	थैलाइड
phthalocyanin (e)	Chem.	थैलैसायनिन
phthalocyanine green		थैलोसायनिन हरित
phthaloyl	Chem.	थैलॉयल
phthanite	Geol.	थेनाइट
phthioic acid	Chem.	थाइयोइक अम्ल
phthiriasis	Zool.	थाइरसता
phulkari	H.Sc.	फूलकारी (वस्त्र)
phulsilk	H.Sc.	फूलरेशम
phulshuta	H.Sc.	फूलशुता
phulwar	H.Sc.	फूलवार
phulwara	H.Sc.	फूलवारा
pH-value	Phy., Chem.	पी० एच० मान, pH मान
phyad	Biol.	पितृज, फाइएड
phycobilin	Bot.	फाइकोविलिन
phycobiont	Bot.	शैवालान्श
phycochrysin	Bot.	फाइकोक्राइसिन
phycocyan	Chem.	फाइकोसायन
phycocerythrin	Chem.	फाइकोइरिथ्रिन
phycolichen	Bot.	फाइकोलाइकेन
phycologist	Bot.	शैवाल विज्ञानी

phycology		शैवाल विज्ञान
phycophacin	Bot.	फाइकोफेसिन
phycophage	Bot.	शैवाल फाज
phycophilous	Bot.	शैवाल सहवासी
phycoporphyrin	Bot.	फाइकोपोरफाइरिन
phycopyrrin	Bot.	फाइकोपाइरिन
phycophile	Zool.	शीतरागी
phylactocarp	Zool.	त्रापांग
phylad	Bot.	फाइलैड
phylembryogenesis	Geol.	जातिभ्रूणजनन
phyletic	Bot., Geol., Zool.	जातिवत्तीय, अनुवंशीय
phyletic line	Geol.	अनुवंशावलि
phyletic relationship		जातिवृत्तीय सम्बन्ध
"phyletic slide"	Bot.	अनुवंशीय अपसरण
phyletic system		जातिवृत्तीय पद्धति
phyletic taxonomy		जातिवृत्तीय वर्गीकी
phyletic tree (geneological tree)	Zool.	प्रजाति वृक्ष (वंशवृक्ष)
Phyllachoraceae	Bot.	फिल्लेकोरेसी
Phyllachora graminis	Bot.	फिल्लेकोरा ग्रैमिनिस्
Phyllactinia guttata	Bot.	फिल्लैक्टिनिया गटेटा
Phyllanthus	Bot.	फाइलैन्थस
Phyllanthus distichus		फाइलेन्थस डिस्टिकस
Phyllanthus emblica		फाइलैन्थस एम्बलिका (अंबला)
Phyllanthus niruri		फाइलैन्थस निरुराई
Phyllanthus reticulatus		फाइलैन्थस रेटीकुलेटस
phyllary	Bot.	फिलेरी, मुंडकी सहपत्र
phyllid	Bot.	पणिका
phyllidium	Zool.	पणिका
phylliform	Zool.	पणंरूप
phyllin	Bot.	फाइलिन
phyllite	Geol.	फाइलाइट
phylloranchia	Zool.	पणंक्लोम
phyllocaline	Bot.	पणंक्लाइन, फिल्लोकैलाइन
Phyllocarida	Zool.	फिल्लोकारिडा

Phylloceras	Geol.	फिलोमिरेस	phyllotactic spiral	पर्णविन्यास सर्पिल, पर्णविन्यासी सर्पिल
phyllochlorea	Chem.	फिलोक्लोरेन	phyllotaxis	पर्ण विन्यास
phylloclade	Bot.	पर्णमि वृत्त	phyllotaxy	पर्ण विन्यास
phyllocladene	Chem	फाइलोक्लैडीन	phyllotrocha	Bot
Phyllocladus	Bot	फाइलोक्लैडम	phyllotriene	Geol, Zool
Phyllocladus rhomboidales		फिलोक्लैडस रोम्बॉइडेलीज	phyllotriode	Geol.
phyllocyst	Zool	पर्णपुटी	phyllotaxanthin	Bot
phylloodium	Bot	पर्णमि वृत्त	phylloxera	Chem.
phyllody	Bot	पर्णमिता	phyllozoid	Zool
phylogenous	Bot	1 पर्णज 2 अधिपर्णी	phyllum	Geol
phyloglossum	Bot.	फिलोग्लॉसम	phyllus	Zool
phylloid	Geol, Bot	पर्णमि, फिलॉयड	phyloembryonic	Geol.
Phyllolepidia	Zool	फिलोलेपिडा	phyloephebic	
Phyllolepis	Zool	फिलोलेपिस	phylogenesis	Zool
phyllomania	Bot.	पर्णाधिभव्य	phylogenetic	
phyllome	Bot	फिलोम, पर्णमि	phylogenetic affinity	
Phyllomedusa	Zool.	फिलोमेड्यूसा	phylogenetical	
phyllonite	Geol.	फाइलोनाइट	phylogenetically	
phyllophagous	Zool	पर्णभक्षी	phylogenetic changes	
phyllophore	Bot	कर्णपत्र, पर्णागि पत्र, पत्रधर	phylogenetic connection	
phyllophyte	Bot.	पर्णाश्रमी कवक	phylogenetic differentiation	
phyllopod	Zool.	पर्णपद	phylogenetic form	
phyllopodium	Zool	पर्णपाद	phylogenetic history	
phyllopodous		पर्णपदीय	phylogenetic hypothesis	
phyllorhize	Bot	फिलोरिझ, पर्णमूल	phylogeneticist	
phyllosphonic	Bot	पर्णांतरान्मालीय	phylogenetic line	
phyllsoma	Geog	फिलॉसोमा, पर्णकाय	phylogenetic link	
phyllsoma larva		फिलॉसोमा सारवा	phylogenetic morphogenesis	
Phyllospondylia	Zool	फिलोस्पॉन्डिलिया	phylogenetic nature	
Phyllosporgia	Zool.	फिलोस्पॉर्जिया	phylogenetic origin	
phyllsporous	Bot	पर्णस्र बीजाणुपर्णी	phylogenetic position	
phyllspory		पर्णस्र बीजाणुपर्णता	phylogenetic relationship	
Phyllostomatidae	Zool.	फाइलोस्टोमैटिडी		
phyllotactic	Bot	पर्ण-विन्यासी		

phylogenetic series		जातिवृत्तीय श्रेणी	Physeter	Zool.	फाइसेटर
phylogenetic system		जातिवृत्तीय तंत्र	Physeteridae	Zool.	फाइसेटेरिडी
phylogenetic taxonomy		जातिवृत्तीय वर्गिकी	Physia	Bot.	फाइसिया
phylogenetic tree		जाति वंशवृक्ष	<i>Physia aepolia</i>		फाइसिया ऐडपोलिया
phylogenist		जातिवृत्तविज्ञानी	physical		भौतिक, प्राकृतिक
phylogeny	Biol.	जातिवृत्त	physical absorption		भौतिक अवशोषण
phylogerontic	Geol.	प्रजातिवृद्ध	physical astronomy		भौतिक खगोलिकी
phytomorphogenetic method	Geol.	जातिसंरचना विकासी विधि	physical atomic weight scale		भौतिक परमाणुभार मापक्रम
phytomorphogenetic series		जाति-संरचना विकासी श्रेणी	physical background		भौतिक पृष्ठभूमि
phytomorphogeny		जाति-संरचना वृत्त	physical balance		भौतिक तुला
phyloneanic	Geol.	प्रजातिकिशोर	physical barrier		प्राकृतिक रोध
phylonepionic	Geol.	प्रजाति शिशु	physical build		भौतिक रचना
phylum	Biol.	संघ, फाइलम	physical change		भौतिक परिवर्तन
<i>Phymetotrichum omnivorum</i>	Bot.	फाइमेटोट्राइकम ओम्निवोरम	physical character		भौतिक लक्षण
Physa	Zool.	फाइसा	physical combination		भौतिक संयोग
physa	Zool.	गोलाघार	physical commodity		भौतिक पण्य
<i>Physalacria</i>	Bot.	फाइसेलक्रिया	physical component of stress		भौतिक प्रतिबल-घटक
Physalia	Zool.	फाइसेलिया	physical condition		प्राकृतिक अवस्था
<i>Physalia pelagica</i>		फाइसेलिया पेलेसिका	physical constant		भौतिक नियतांक
physalis	H.Sc.	फाइसेलिस	physical continuity		भौतिक सांतत्य
<i>Physalis alkekengi</i>	Bot.	फाइसेलिस ऐलेकेकैन्जाइ	physical cue		भौतिक इंगित
<i>Physalis minima</i>		फाइसेलिस मिनिमा	physical deterioration		भौतिक पतन
<i>Physalis peruviana</i>		फाइसेलिस पेरयूवियाना	physical development		भौतिक विकास
<i>Physarella oblonga</i>	Bot.	फाइसेरेला ओब्लॉन्गा	physical distribution	H.Sc.	वस्तु वितरण
<i>Physarium polycephalum</i>	Bot.	फाइजेरम पोलिसिफेलम	physical drought		भौतिक जलाभाव
Physciaceae	Bot.	फाइसिएसी	physical edition		भौतिक संस्करण
<i>Physcia picta</i>	Bot.	फाइसिआ पिक्टा	physical element		भौतिक तत्व
<i>Physcia pulverulenta</i>		फाइसिआ पलवेरुलेन्टा	physical environment		भौतिक वातावरण
<i>Physcia setosa</i>		फाइसिआ सेटोसा	physical exchange	H.Sc.	वास्तवी विनिमय
			physical existence		भौतिक अस्तित्व
			physical factor		भौतिक कारक
			physical feature		भौतिक लक्षण
			physical force		भौतिक बल
			physical geography		प्राकृतिक भूगोल
			physical geology		भौतिक भूविज्ञान

physical globe	भौतिक ग्लोब, प्राकृतिक ग्लोब	physical stock	H Sc.	वास्तवी स्टॉक
physical hydrography	भौतिक अलवर्णना	physical stress resultant		भौतिक प्रतिबल-परिणामी
physical independence	भौतिक निराश्रितता	physical structure		भौतिक संरचना
physical intuition	भौतिक अंत स्फुरण	physical tensor		भौतिक प्रदिश, भौतिक टेन्सर
physical law	भौतिक नियम	physical territorial unit		भौतिक प्रादेशिक एकक
physical layout	भौतिक विन्यास	physical theory		भौतिक वाद
physically infinitesimal	भौतिकत अत्यणु	physical toxicity		भौतिक आविधातुता
physical map	भौतिक मानचित्र	physical uniqueness		भौतिक एकमात्रता
physical mass unit	भौतिक द्रव्यमान मात्रक	physical unity		भौतिक एकता
physical non-homogeneity	भौतिक असमापता	physical variety of environment		वातावरण की भौतिक विरम
physical obstacle	भौतिक बाधा	physical vector		भौतिक सदिश
physical oceanography	भौतिक समुद्रविज्ञान	physical verification	Geog.	वस्तुगत पड़ताल
physical optics	भौतिक प्रकाशिकी	physical weathering		भौतिक अपक्षय
physical parameter	भौतिक प्राचल	physical world		भौतिक जगत्, भौतिक विश्व
physical pendulum	भौतिक लोलक	physician	H Sc.	वाय चिकित्सक, फिजीशियन
physical picture	भौतिक चित्र	physicist		भौतिक विज्ञानी
physical planning	H Sc, Geog 1 प्राकृतिक योजना 2 वस्तुपरक आयोजना	physico-chemical		भौतिक रसायनिक
physical process	भौतिक प्रक्रम	physico-chemical equilibrium		भौतिक रसायनिक साम्यावस्था
physical productivity	वस्तुपरक उत्पादितता	physico-chemical geology		भौतिक रसायनिक भूविज्ञान
physical properties	भौतिक गुण, भौतिक गुणधर्म	physico-chemical method		भौतिक रसायनिक विधि
physical quantity	भौतिक राशि	physico-chemical reaction		भौतिक-रसायनिक अभिक्रिया
physical quenching process	भौतिक शमन प्रक्रम	physics		भौतिकी, भौतिक विज्ञान
physical reconstruction	भौतिक पुन निर्माण	physiogenesis	Zool	वर्गीकीविकास
physical represen- tation	भौतिक निरूपण	physiognomical	Geog.	रूपाकृतिक
physical Roentgen equivalent	भौतिक रून्टगेन तुल्य	physiognomical unit		रूपाकृतिक एकक
physical sampling	भौतिक प्रतिचयन	physiognomic dominance	Bot.	रूपाकृतिक प्रमुखता
physical sciences	भौतिक विज्ञान	physiognomy	Geog.	रूपाकृति विज्ञान
physical setting	भौतिक विन्यास	physiognony		रूप
physical significance	भौतिक साधरता			
physical simulation	: भौतिक अनुकरण, भौतिक अनुकारिता			

physiographer	<i>Bot.</i>	भूआकृतिक	physiological fatigue		शारीरिक थ्रान्ति
physiographic	<i>Geog., Geol., Zool.</i>	भूआकृतिक	physiological mechanism		शरीरक्रियात्मक क्रियाविधि
physiographical evolution		भूआकृतिक विकास	physiological oxidation		शरीरक्रियात्मक आक्सीकरण
physiographic area		भूआकृति क्षेत्र	physiological resistance		शरीरक्रियात्मक सहिष्णुता
physiographic barrier		भूआकृतिक रोध	physiological race		क्रियात्मक प्रभेद
physiographic change		भूआकृतिक परिवर्तन	physiological state		शरीरक्रियात्मक स्थिति
physiographic climax		भूआकृतिक चरम	physiological stress		शरीरक्रियात्मक प्रतिबल
physiographic cycle		भूआकृतिक चक्र	physiologist		शरीरक्रिया विज्ञानी
physiographic diagram		भूआकृतिक आरेख	physiology		शरीरक्रियाविज्ञान, फिजियोलॉजी
physiographic factor		भूआकृतिक कारक	physiotherapy	<i>Phy., H.Sc.</i>	भौतिक चिकित्सा
physiographic map		भूआकृतिक मानचित्र	physique	<i>H.Sc.</i>	शरीर गठन
physiographic maturity		भूआकृतिक प्रौढ़ता	physoclistous	<i>Zool.</i>	अमुखवाताशयी
physiographic old age		भूआकृतिक वार्धक्य	physode	<i>Bot.</i>	फाइसोड, फ्यूकोसन-पुटिका
physiographic process		भूआकृतिक प्रक्रम	physodic acid		फिसोडिक अम्ल
physiographic province		भूआकृतिक प्रान्त	physogastric	<i>Zool.</i>	शूनोदर
physiographic region		भूआकृतिक प्रदेश	Physopoda (Thysanoptera)	<i>Zool.</i>	फाइसोपोडा (थाइसैनोप्टेरा)
physiographic subclimax		भूआकृतिक उपचरम	physostigmine	<i>Chem.</i>	फाइसोस्टिगमीन
physiographic succession		भूआकृतिक अनुक्रम	physostigmol	<i>Chem.</i>	फाइसोस्टिगमॉल
physiographic symbol		भूआकृतिक चिह्न	Physostoma	<i>Bot.</i>	फाइजोस्टोमा
physiographic youth		भूआकृतिक तारुण्य	<i>Physostoma elegans</i>		फाइजोस्टोमा ऐलीगेंस
physiography		भूआकृति विज्ञान	physostomous	<i>Zool.</i>	समुखवाताशयी
physiological	<i>H.Sc., Biol.</i>	शरीरक्रियात्मक, कार्यात्मक	physteric acid	<i>Chem.</i>	फिस्टरिक अम्ल
physiological absorption		शरीरक्रियात्मक अवशोषण	phytal zone	<i>Geog.</i>	फाइटल क्षेत्र
physiological acoustics		शरीरक्रियात्मक ध्वानिकी	phytamin	<i>Bot.</i>	फाइटेमीन, पादप ऐमीन
physiological adjustment		शरीरक्रियात्मक समायोजन	phytase	<i>Chem.</i>	फाइटेस
physiological balance		शरीरक्रियात्मक संतुलन	phyteral	<i>Geol.</i>	फाइटेरल
physiological castration		शरीरक्रियात्मक जनदनाशन	phytic acid	<i>Chem.</i>	फाइटिक अम्ल, फाइटिक एसिड
physiological criteria		शरीरक्रियात्मक निकष	phytic acid salt		फाइटिक-अम्ली लवण
physiological ecology		शरीरक्रियात्मक पारिस्थितिकी	phytin	<i>Chem., H.Sc.</i>	फाइटिन
			phytin phosphorus		फाइटिन फॉस्फोरस

phytobiotic	Zool.	पादपजीवी	<i>Phytomonas davidi</i>	फाइटोमोनास डेविडाई
phytocenology	Bot.	पादपसमूह विज्ञान	<i>phytomorphology</i>	पादप आकृतिविज्ञान
phytochemical	Chem.	पादपरासायनिक	<i>phyton</i>	फाइटॉन
phytochemistry		पादप रसायन	<i>phytonadione</i>	फाइटोनडाइऑन
phytocidal	Bot.	पादपनाशी	<i>phytonematode</i>	पादप सूत्रकृमि
phytocide		पादपनाशी	<i>phytonic acid</i>	फाइटॉनिक अम्ल
phytoclimate	Geog	पादप जलवायु	<i>phytonic theory</i>	फाइटॉनवाद
phytocoenosis	Bot.	पादप समुदाय	<i>phytoparasite</i>	पादपपरजीवी
phytodinad	Bot.	फाइटोडिनेड	<i>phytopathogen</i>	पादपरोगजन
phytoflagellate	Zool	पादपकशाभी	<i>phytopathologist</i>	पादप रोगविज्ञ
phytogenesis		पादपविकास	<i>phytopathology</i>	पादप रोगविज्ञान, पादपविकृति विज्ञान
phytogenetics		पादप-आनुवंशिकी	<i>phytophage</i>	पादपभक्षी, पादपभोजी
phytogenic	Geol.	पादपजन्य, पादपजनित	<i>phytophagous</i>	पादपभक्षी, पादपभोजी
phytogenic dune	Geol	पादपकृत मरुटिब्बा	<i>phytophagous insect</i>	पादपभोजी कीट
phytogeographer	Geog., Bot	पादपभूगोलज्ञ	<i>phytophilous</i>	पादपसगी
phytogeographical		पादप भूगोलीय	<i>Phytophthora cactorum</i>	फाइटोपथोरा कैक्टोरम
phytogeographical region		पादपभौगोलिक प्रदेश	<i>Phytophthora disease</i>	फाइटोपथोरा रोग
phytogeography	Geog	पादप भूगोल	<i>Phytophthora trunk canker</i>	फाइटोपथोरा-स्तम्भ प्रवण
phytoglycolipide	Chem	फाइटोग्लाइकोलिपिड	<i>phytoplankter</i>	पादपप्लवकांश
phytograph	Bot.	पादपारेख	<i>phytoplanktologist</i>	पादपप्लवकविज्ञानी
phytography	Bot	पादप वर्णन	<i>phytoplankton</i>	पादपप्लवक
phytohemagglutinin	Bot	फाइटोहीमाग्लूटिनिन	<i>phytoplankton bloom</i>	पादपप्लवक पुञ्ज
phytohormone	Bot.	पादपहार्मोन	<i>phytoplankton sampling</i>	पादपप्लवक प्रतिदर्शन
phytoid	Bot	पादपक	<i>phytosauridae</i>	फाइटोसॉरिडी
phytol		फाइटोल	<i>phytosociological</i>	पादपसमाजविज्ञान सबधी
Phytolacaceae	Bot	फाइटोलेकेसी	<i>phytosociology</i>	पादप-समाजविज्ञान
<i>Phytolacca acinosa</i>	Bot.	फाइटोलेका ऐसीनोसा	<i>phytosphingosine</i>	फाइटोस्फिन्गोसीन
phytolith	Geol	पादपारम	<i>phytosterol</i>	फाइटोस्टेरॉल
phytolithology		पादपारमिकी	<i>phytosuccivorous</i>	पादपपरमाहारी
phytologist	Bot.	पादपज्ञ	<i>phytoteratology</i>	पादपविकृपता विज्ञान
phytology		पादपविज्ञान	<i>phytotoxic</i>	पादप आविषानु
Phytomastigina	Zool.	फाइटोमैस्टिगाइना	<i>phytotoxicity</i>	पादप आविषानुता
phytometer	Bot.	मापीपादप	<i>phytotoxin</i>	पादप आविष
Phytomanadina	Zool.	फाइटोमैनादिना		
Phytomonas	Zool.	फाइटोमोनास		



phytotron	Bot.	पादपालय, फाइटोट्रोन	pick up spectral		पिक अप स्पेक्ट्रमी
pi ( $\pi$ ) acid	Chem.	पाई ( $\pi$ ) अम्ल	pick up velocity (=scanning speed)	Phy.	क्रमवीक्षण चाल
piamater	H.Sc., Zool.	मृदुतानिका, पाईअमेटर	pico	Chem.	पीको
piano	Phy.	पियानो	picodon	H.Sc.	पिकोडॉन
piara	H.Sc.	पाइएरा	picolinate	Chem.	पिकोलिनेट
piassava	H.Sc.	पीसांवा	picolinic acid	Chem.	पिकोलिनिक अम्ल
pi bond	Chem.	पाई बंध	picolo	Phy.	पिकोलो
picador	Geog.	शूलघारी अश्वारोही	Piconavirus	Zool.	पिकोनाविषाणु
picarde ratine	H.Sc.	पिकर्ड रेटीन	picon test	Chem.	पिकॉन निकप
Picard's big theorem	Math.	पिकार्ड का वृहत् प्रमेय	picot	H.Sc.	पीको
Picard's small theorem		पिकार्ड का लघु प्रमेय	picotite	Geol.	पिकोटाइट
piccalilli	H.Sc.	पिकालिली	picotte	H.Sc.	पीकोटे
Picea	Bot.	पाइसिया	picot yarn		पीको सूत्र
<i>Picea sitchensis</i>		पाइसिया साइचेन्सिस	picramic acid	Chem.	पिक्रैमिक अम्ल
picein	Chem.	पाइसी-इन	picramide	Chem.	पिक्रैमाइड
picene	Chem.	पाइसीन	picramnia tariri	Chem.	पिक्रैमिनिया टरिरि
Picidae	Zool.	पिसिडी	<i>Picrasma javanica</i>	Bot.	पिक्रैस्मा जवैनिका
Piciformes	Zool.	पिसिफॉर्मिज	picric acid	Chem.	पिक्रिक अम्ल
pick	Chem. H.Sc.	वाना पिक	picrite	Geol.	पिक्राइट
pick and pick	H.Sc.	पिक एंड पिक (विधि)	picrocarmin	Bot.	पिक्रोकार्मिन
Pickering series	Math.	पिकरिंग-श्रेणी	picrocrocin	Bot.	पिक्रोक्रोसिन
pick glass	H.Sc.	पिक ग्लास	picrolite	Geol., H.Sc.	पिक्रोलाइट
picking	Geog., H.Sc.	चयन, समाहरण	picrolonic acid	Chem.	पिक्रोलॉनिक अम्ल
picking tray		चयन ट्रे	picromerite	Chem.	पिक्रोमराइट
pickle	H.Sc.	अचार	picromycin (pickromycin)	Chem.	पिक्रोमाइसिन
pickling	Chem.	1. अचार बनाना 2. अम्लोपचार	micro-sulphuric solution	Zool.	पिक्रो-सल्फ्यूरिक विलयन
pickling pond		अम्लोपचार कूंड	picrotoxin	Chem.	पिक्रोटॉक्सिन
picklock	H.Sc.	पिकलॉक	picryl chloride	Chem.	पिक्रिल क्लोराइड
pick resistance	Chem.	समाहरण प्रतिरोध, कुरेदन प्रतिरोध	Pictet apparatus	Chem.	पिकटे उपकरण
pick tester	Chem.	समाहरण निकपित्र, कुरेदन निकपित्र	Pictet Games synthesis	Chem.	पिकटे गाम्स संश्लेषण
pick-up	Phy.	पिक-अप, उद्ग्रही	Pictet Spengaler reaction	Chem.	पिकटे-स्पेन्गलर अभिक्रिया
pick up head		पिक अप शीर्ष	pictograph	Geol., Geog.	चित्रालेख
pick up process		उद्ग्रहण प्रक्रम	pictography	Geog.	चित्रलिपि
pick up reaction		उद्ग्रहण अभिक्रिया	*Pictor	Astron.	पिक्टर

pictorial	<i>Geog.</i>	चित्रमय, चित्रीय	picture transmitter (= video transmitter)	चित्र प्रेषित, वीडियो प्रेषित
pictorial diagram		चित्रीय आरेख, चित्रमय आरेख	picture tube (= kinescope)	<i>Phy</i> चित्र नलिका, किनेस्कोप
pictorial graph		चित्रमय ग्राफ	picture tube brightner	चित्र नलिका प्रद्योतक
pictorial map		चित्रमय मानचित्र	picture velvet	चित्र मच्छमल
pictorial statistical map		चित्रमय सांख्यिकीय मानचित्र	picture white	चित्रश्वेत
pictorial symbol		चित्रमय प्रतीक	pictus	<i>Bot</i> वर्णी
picture	<i>H.Sc., Chem., Phy.</i>	चित्र	Pidgeon vacuum process	<i>Chem</i> पिडजन निर्वात प्रक्रम
picture black		चित्र कृष्ण	pie	पाई
picture brightness		चित्र-शुक्ति	pie bald spotting	<i>Zool.</i> तिलकी धब्बे
picture carrier		चित्र वाहक	piece	<i>H.Sc.</i> थान
picture compression	<i>Phy.</i>	चित्राण संकुचन	piece dyeing	<i>H.Sc.</i> वस्त्र रंजन
picture control coil (= frame coil)		चित्रनियंत्रण कुंडली, फ्रेम कुंडली	piece goods	<i>H.Sc.</i> वस्त्र थान
picture control points		चित्र-नियंत्रण बिन्दु	piece meal stoping	<i>Geol.</i> खडशा निघनन
picture detail		चित्र विवरण	piece mold	<i>Chem. (Plastics)</i> खड-संच
picture element		चित्र अल्पांश	piecwise continuous function	<i>Math</i> खडशा सतत फलन
picture field		चित्रण क्षेत्र	piecwise continuous kernel	खडशा सतत अष्टि
picture frequency		चित्र आवृत्ति	piecwise linear	खडशा रैखिक
picture inversion		चित्र-व्युत्क्रमण	piecwise linear function	खडशा रैखिक फलन
picture lock		चित्र अभिबन्धन	piecwise smooth	खडशा मनुष्य
picture phone		चित्र फोन	piecwise smooth boundary	खडशा मनुष्य परिसीमा
picture rotate control (= turn picture control)		चित्र घूर्णन नियंत्रण	pie cheese	<i>H.Sc.</i> पाई पनीर
picture signal		चित्र सिग्नल	pie diagram	<i>Math., Geog.</i> वृत्तारेख
picture signal amplitude		चित्र सिग्नल आयाम	piedmont	<i>Geol., Geog</i> गिरिपद, पीडमॉन्ट
picture size		चित्र साइज	piedmont alluvial plain	गिरिपद-वनोद्गम मैदान
picturesque life		रंगीन जीवन	piedmont bulb	पीडमॉन्ट बल्ब
picture synchroniza- tion (= frame synchronization)		चित्र तुल्यकालन, फ्रेम तुल्यकालन	piedmont bulb glacier	गिरिपद बल्ब हिमानी
picture synthesis		चित्र संश्लेषण	piedmont depression	गिरिपद गर्त, पीडमॉन्ट गर्त
picture transmission (= image trans- mission)		चित्र संचरण, चित्रप्रेषण	piedmont district	गिरिपद क्षेत्र
			piedmont fringe	पीडमॉन्ट किनारा, गिरिपद धारी

piedmont glacier		गिरिपद हिमानी	piezochemistry	Chem.	दाव रसायन
piedmontite	Geol.	पीडमान्टाइट	piezocrystallization	Phys., Geol.	दाव क्रिस्टलन
piedmont lake		गिरिपद झील	piezoelectric crystal		दाव विद्युत् क्रिस्टल
piedmont plain		गिरिपद मैदान	piezoelectric effect	Phys., Geol., Math.	दाव विद्युत् प्रभाव
piedmont province		गिरिपद प्रान्त	piezoelectricity	Geol., Phys.	दाव विद्युत्
piedmont scarp		गिरिपद कगार	piezoelectric medium		दाव-विद्युत् माध्यम
piedmont town		पीडमान्ट टाउन, गिरिपद नगर	piezoelectric pick up		दाव वैद्युत पिकअप, दाव वैद्युत उद्ग्राही
piedmonttreppen	Geog.	पीडमान्ट्रेपेन	piezoelectric quartz vibrator		दाव विद्युत् स्फटिक कंपित, दाव विद्युत् क्वार्ट्ज कंपित
piedmont valley		पीडमान्ट घाटी, गिरिपद घाटी	piezoelectrics		दाव-विद्युतिकी
pie-graph map	Geog.	वृत्तरेख मानचित्र	piezoelectric tensor		दाववैद्युत प्रदिश
pieing	Chem. (Text.)	विपाचन	piezomagnetism	Math.	दाव-चुम्बकत्व
pielanose	Chem.	पाइलेनोस	piezometer	Phys.	दावमापी
pie (π) mode	Phy.	पाइ (π) विद्युत	piezometer tube		दावमापी नलिका
pie (π) network		पाइ (π) जाल	piezometric contour	Geol.	दाव समोच्च रेखा
pie pan	H.Sc.	पाई पैन, पाई पात्र	piezometric contour map		दाव समोच्च रेखाचित्र
pier	Geog.	पोतघाट	piezometric gradient		दाव प्रवणता
Pierce circuit	Phy.	पियर्स परिपथ	piezometric surface	Geog.	दाव समोच्च पृष्ठ
piercement dome	Geol.	संस्तरवेधी गुम्बद	piezooid	Phy.	पिस्त्रायड
piercement fold		संस्तरवेधी बलन	pig	Geol., Chem.	पिग
piercer	Chem., Zool.	संवेधित्र वेधक	pig and ore process	Chem. (Met.)	पिग-अयस्क प्रक्रम
piercing	Zool.	वेधन	pig and scrap process	Chem. (Met.)	पिग उच्छिष्ट प्रक्रम
piercing apparatus		वेधन अंग	pig bed	Chem.	पिग संस्तर
piercing fold	Geol.	संस्तरवेधी बलन	pigeon	Zool.	कपोत, कबूतर
piercing mouth parts	Zool.	वेधन-मुख्वांग	pigeon fly		कपोत मसी
pierce test	Chem. (Paper)	संवेधन निकष	pigeon hole	Geog.	खाना, कोष्ठ
pierdam	Geol.	पियरदाँध	pigeon hole sort	Math.	कोष्ठशः छंटाई
Pieridae	Zool.	पियेरिडी	pigeonite	Geol.	पिजियोनाइट
Pieris	Zool.	पियेरिस	pigeon pea	Bot.	बरहर
'pier' process	Chem.	पियर प्रक्रम	pigging back	Chem. (Met.)	पुनः पिगकरण
Pier's apparatus	Chem.	पियर उपकरण	pig iron	Geol., Geog., Chem.	कच्चा लोहा
pie shaped wedge	Geol.	पाईरूप वेज			
piestic interval	Geol.	समदावरेखांतर			
piestic water	Geog.	पीस्टिक जल			
Pietzschia	Bot.	पीट्जिया			
pie winding	Phy.	पाई कुंडलन			

pig machine		किरि-यन्त्र	pulchard	Geog	पित्तचंड
pigment	Biol, Chem, H.Sc.	वर्णक	pile	H.Sc.	1 उत्सृज, रोजा 2 पुत्र
pigmentary macule		वर्णकित चित्ती	pulea		पाइलिया
pigmentation	Biol.	1. वर्णकता 2. वर्णकन	pile carpet	H.Sc.	रोएदार कानीन
pigment band		वर्णक पट्टी	pile-curing time	Chem.	समाधन काल
pigment cell		वर्णक कोशिका	pile driver	Geol	पाइल ड्राइवर
pigment cup ocelli		वर्णक चप नेत्रक	piled up group	Phy	पुत्र सचिन समूह
pigmented fruit		वर्णकित फल	pile dwelling	Geog.	बल्ली वानगृह, धुनकी-गृह
pigmented yarn	H.Sc.	वर्णकित सूत्र	pile equation (=critical equation)	Phy	पुत्र समीकरण, त्रातिक समीकरण
pigment in oil	Chem. (Paints)	तेल-वर्णक	pile fabric	H.Sc. Chem	रोएदार वस्त्र, पुत्र टातव
pigmentless egg	Zool.	अवर्णक अंडा	pile factor		पुत्र गुणाक
pigmentosa	Bot	वर्णकायक	pile gun	Phy.	'पाइल गन'
pigment printing		वर्णक छपाई	pileiform	Phy.	छत्राकार
pigment scarlet		पिगमेंट स्कार्लेट	pile irradiated crystal	Chem.	पाइल किरणित क्रिस्टल, पाइल किरणित स्फाटक
pigment spot		वर्णक चकत्ता	Pilema	Zool	पाइनेमा
pigment unit		वर्णमात्रक	Pilema pulmo		पाइलेमा पल्मो
pigment volume		वर्णक आयतन	pile moderator	Chem. (Nucl.)	पाइल मन्दक
pig-mouth carp	Zool.	कटिया	pileocystidium	Bot	छत्र-मिन्टिडियम
pigmy hog	Zool.	क्षुद्र सूकर	pileolus	Bot.	छत्रिका
pigmy mole cricket	Zool.	वामन छछुन्द सौगुर	pile simulator	Phy.	पुत्र अनुकारी
pignas	H.Sc.	पिगनेस	piles of nappe	Geol.	नापे पुत्र
pignut	H.Sc.	पिगनट	piles of plates		पट्टिका पुत्र
Pig's bladder	Chem.	पिग ब्लैडर	pileum (pileus)	Zool.	पाइलियम, भीर्पाय
pigtail	Chem, Geog.	पिगटेल, वेणी	pile-up	Phy	अतिव्यापन
pije	H.Sc	पिजे	pileus	Bot.	छत्र
pika	Zool.	पाइका, तुगमशक	pile weave	H.Sc.	उत्सृज वयन
pike	Chem. Geog.	1. शिखर 2. पाइक	pile yarn		रोआ-सूत्र
pike process		पाइक प्रक्रम	pilferage	Geog.	सपुञ्चोरी
Pila	Zool.	पाइला	pilfering		भोरी
Pila conica		पाइला कोनिका	Pilger process	Chem.	निलर प्रक्रम
Pila globosa		पाइला ग्लोबोसा	pillidium	Biol.	पाइल्लिडियम
pilaster cell	Zool.	स्पानु कोशिका	pillifer (pilliger)	Zool.	रोमघर
Pila virenus		पाइला वाइरेनस	pilliferous (pilligerous)		रोम धारक

pilliform	Zool.	रोमरूप	pilotage (=piloting)	Phy.	मार्गदर्शन
pillite	Geol.	पिलाइट	pilotaxitic texture	Geol.	पिलोटैक्सिटिक गठन
Pilkington process	Chem.(Gl.)	पिल्किंगटन प्रक्रम	pilot balloon	Geog.	पवनसूचक गुन्वारा, पायलट बैलून
pill	Chem. (Plast.)	गोली	pilot-balloon theodolite	Geog.	पायलट बैलून थियोडोलाइट
pillagings		लूटमार	pilot census	Math.	मार्गदर्शी जनगणना
pillar		स्तंभ	pilot cloth	H.Sc.	पायलट वस्त्र
pillar buttress	Geol.	स्तंभ वप्र	pilot deep-sea fishing station	Zool.	आरंभिक गभीर-समुद्र मत्स्यन केन्द्र
pillar caving		स्तंभ निपातन	pilot indicator		मार्गदर्शक रेडार, पाइलट रेडार
pillar pustule		स्तंभ स्फोटः	piloting	Phy.	मार्ग दर्शन
pillar type camera		स्तंभ प्रकार कैमरा	pilot lamp	Phy.	सूचक दीप, पाइलट लैम्प
pillbox	Phy.	समांतर पट्टिका संचारण लाइन, पिल वाक्स	pilot light		पायलट वत्ती
pillbox antenna		पिलवाक्स एन्टेना	pilot plant	Chem.	देशक संयंत्र, आरंभिक संयंत्र
pill-bug	Zool.	गुट्टिका मत्स्युण	pilot project		आरंभिक प्रायोजना
pillling	Chem. (Text.)	गोलीयन	pilot selector	Math.	आरंभिक वरणित्र
pillow	H.Sc.	तकिया, शिरोघान	pilot sheet	Geog.	पायलट शीट, नमूना शीट
pillow blocks	Geol.	शिरोघान खंड	pilot spark	Phy.	आरंभिक स्फुल्लिग
pillow cord		शिरोघान डोरी	pilot survey	Math.	मार्गदर्शी सर्वेक्षण
pillowed greenstone		शिरोघानी हरिताश्म	pilot wave (of a particle)	Phy.,Math.	मार्गदर्शी तरंग, पयनिर्धारक तरंग
pillowed structure		शिरोघानी संरचना	Piltdown skull	Geog.	पिल्टडाउन खोपड़ी
pillow lava		शिरोघान-लावा	Piltdown specimen		पिल्टडाउन नमूना
pillow linen	H.Sc.	पिलो लीनन	Pilz-atropin	Bot.	पिल्ज ऐट्रोपिन
pillow slip	H.Sc.	तकिये का गिलाफ, शिरोघान गिलाफ	pima	H.Sc.	पीमा
pillow structure		शिरोघानी संरचना	pimanthrene	Chem.	पिमैन्थ्रीन
Pilobolus	Bot.	पाइलोलोबस	pimaric acid	Chem.	पिमैरिक अम्ल
pilocarpidine	Chem.	पाइलोकार्पिडीन	pimele	Chem.	पिमेल
pilocarpine	Chem.	पाइलोकार्पिन	pimelic acid	Chem.	पिमेलिक अम्ल, पिमेलिक ऐसिड
pilon	H.Sc.	पीलॉन	Pimenta officinalis	Bot.	पाइमेन्टा आफिसिनेलिस
pilopic acid	Chem.	पिलॉपिक अम्ल, पिलॉपिक ऐसिड	pimento	H.Sc.	पाइमेंटी
pilosa	Zool.	पाइलोसा	pi (π) meson	Phy.	π मेसान, पाई मेसान
pilose	Biol.	विरलरोमिल	pimp cheese	H.Sc.	पिम्प पनीर
pilosebaceous follicle	Zool.	रोमतेल गर्त	pimple	Chem., Geol.	पिटिका
pilose thorax		रोमिल वक्ष			
pilot		1. चालक, पायलट 2. आरंभिक, मार्गदर्शी			

pimple metal		पिटिका धातु	p-independent set	Math.	p-स्वतंत्र समुच्चय
pimple stone	Geol.	गुटिका प्रस्तर, पिटिका प्रस्तर	p-i-n diode	Phy	p-i-n डायोड
pimpling	Phy., Chem.	पिटिकायन	pin draw	Geol.	पिन ड्रा
pin	Phy, Geog., H.Sc.	पिन	pine	Geog., Bot.	चीड़
pinaceous	Bot.	पाइनेसीय	pineal apparatus	Zool	पिनियल उपकरण
pina cloth	H Sc.	पिना वस्त्र	pineal body		पिनियल काय
pinacocyte	Zool	पिनेकोसाइट, सपाटकोशिका	pineal eye		पिनियल नेत्र
pinacoid	Geol.	पिनेकोइड	pineal nerve		पिनियल तन्त्रिका
pinacol-pinacolone rearrangement	Chem.	पिनेकोल-पिनकोलोन पुनर्विन्यास	pineal organ		पिनियल अंग
pinacolyl alcohol	Chem.	पिनकोलिल ऐल्कोहॉल	pineal pillow		पिनियल पिन्नी, पिनियन बर्ष
pinacyanole	Chem.	पिनामायनोल	pineal plate		पिनियल प्लेट
pinakadendron	Bot.	पिनेकोडेन्ड्रान	pineal sense organ		पिनियल ज्ञानेन्द्रिय
pinane	Chem	पाइनेन	pineapple	Bot, H Sc	अनन्नास
pincer-claws	Zool	सदृशिक नखर	pineapple cheese		अनन्नास पनीर
pincers	Zool. Geog.	सदृशिका, चिमटी	pineapple juice		अनन्नास रस
pinnette	Chem.	दशिका	pineapple rot		अनन्नास विगलन
pinch	Geol.	1 संकोचन 2 पिच, चिमिट 3. अतिव्यापन दोष	pineapple yellow spot		अनन्नास पीत चिन्ती
pinch and swell form		संकोच एव स्फीत रूप	pine barren	Geog	चीड़ ऊसर
pinchbeck	Chem.	पिचबेक	pine forest		चीड़ वन
pinch-cock	Chem., Phy	दबाव रोधनी, पिच कॉक	pine hill		चीड़ पहाड़ी
pin check	H.Sc.	पिन चेक	pinene	Chem	पाइनीन
pinched	Geol.	सकुचित	pine nut	Geog.	चीड़ फन
pinch effect	Phy, Geol.	सकुचन प्रभाव	pine pitch	Chem	चीड़ पिच, चीड़ हामर
pinching and swelling	Geol	सकुचन एव स्फीतन	pine rosin		चीड़ गंधारन, चीड़ रोडिन
pinch off	Phy.	सकुचन	pinetar		चीड़ तारकोल, चीड़ अननकतारा
pinch out	Geol.	संकोची लोपन	pine tree array	Phy	चीडाकार ब्यूह, कूमान ब्यूह
Pinctada	Zool	पिक्टेटा	(= koomans array)		
Pinctada margaritifera		पिक्टेटा भारगोराइटिफेरा	pine tree design	Chem.	चीड़ वृक्ष अभिवल्ल
Pinctada vulgaris		पिक्टेटा वल्गैरिस	pinewood	Bot., H.Sc., Geog.	पाइन वी सनड्री, चीड़
pin cushion	H Sc.	पिनगद्दी, पिनकुशन	pinewood zone		चीड़ इटिबय
pin cushion distortion	Phy.	पिनकुशन विरूपण, बीर-वर्धित विरूपण	pin eyed	Bot.	दोर्ध्ववर्तिक
			pin fallow	Geog.	पिन पतिहर
			pinfeather (filoplumes)	Bot., Zool.	पिनपिच्छ, सूचीपिच्छ (रोमपिच्छ)
			pinfold	Geog.	कांरी हाउस,

ping	Phy.	पिंग (सोनार-स्पंद), ध्वनि स्पंद	<i>Pinna affinis</i>	पिन्ना एफ़िनिस
pingal shark	Zool.	पिंगल चुरा	pinna-bar	Bot. पिच्छक-दंड
pinger	Phy.	पिंगर	pinnace	Geog. नौका (दो मस्तूली)
pinging		टंकारण	pinnacle	Geog., Geol. शिखरिका
pingo	Geog.	पिंगो, शांकर पहाड़ी	pinnacle of ice	हिम शिखरिका
pingo field	Geog.	पिंगो-क्षेत्र	pinna-loop	पिच्छक-पाश
pinguid	Chem.	संवसीय	pinnate	Bot., Geog., Zool. पिच्छाकार
pin-hole		सूची छिद्र	pinnate drainage pattern	पिच्छाकार अपवाह आकृति
pinhole camera		सूचीछिद्र कैमरा	pinnate tentacle	पिच्छाकार स्पर्शक
pinholing		सूक्ष्म छिद्रण	pinnatifid	Bot. दीर्घपिच्छाकार
pinic acid	Chem.	पाइनिक एसिड, पाइनिक अम्ल	pinnatifid	Bot. दीर्घतर पिच्छाकार
pinion	Geog.	1. पक्षांत	pinnatipartite	Bot. पिच्छकाम भाजित
	Zool.	2. दंत चक्र, पिनियन	pinnatisissus	Bot. पिच्छकानुपय
		1. पक्षांत	pinna-trace	Biol. पिन सूत्रकृमि
		2. पिच्छक	pin nematode	Chem. पिनर सूत्र
pinioning		पक्षबंधन	Pinner's formula	Zool. पखरूप, वाजरूप
pinite	Chem., Geol.	पिनाइट	pinniform	H.Sc. पिन से टांकना
pinite pseudomorphs	Geol.	कूटपिनाइट	pinning	Geog. पिन करना
pink	Geog.	पिन्क, गुलाबी	pinning up	Zool. युक्तगुलि
pinkeye	Zool.	गुलाबी आंख	pinniped	Zool. पिन्नीपोडिया
pincking	Chem.	1. पिक्कन, भूपकर्तन	Pinnipedia	Geog. पिनोथीर
	H.Sc.	2. चिल्लावण	pinnular	Zool. पिच्छिकीय
		3. लहरिया काट, लहरिया कटाई	<i>Pinnularia viridis</i>	Bot. पिन्नुलेरिया विरिडिस
pink root	Bot.	गुलाबी मूल	pinnule	Zool., Geol. पिच्छिका
pink salt	Chem.	पिंक साल्ट, पिंक लवण	pinocyte	Bot. पिनोसाइट, परिसर पुटिका
pink stem borer	Zool.	गुलाबी तना वेधक	pinocytic	परिसरीय, पिनोसाइटो
Pinku's organ	Zool.	पिंकु अंग	pinocytosis	Zool. कौशिका पायन Chem., Bot. पिनोसाइटो क्रिया
pin-lift	Chem. (Met.)	पिन-लिफ्ट, पिन उद्वाहित	pinoid pits	Bot. चौड़ाभ गर्त
pin mark	Geog.	पिन निशान	pinol	Chem. पाइनाॅल
pin marker	H.Sc.	पिन चिह्नक	pinonic acid	Chem. पाइनाॅनिक अम्ल, पाइनाॅनिक एसिड
pinna	Zool.	1. कर्ण पल्लव	pin point sampling (=area sampling)	Math. क्षेत्र प्रतिचयन
	H.Sc.	2. बाज	pin rib	H.Sc. पिन रिब
	Bot.	3. पिच्छक कर्णपालि पिच्छक		

pin stenter	Chem.	पिन स्टेन्टर, पिन तनित्र	piped television (= closed circuit television = community television)	Phy.	सार टेलिविजन
pint	Phy, H.Sc.	पाइन्ट	pipe fishes	Zool	नल मीन
pintail (Pt)	Zool.	पिनपुच्छ (पिपु)	pipeline	Geog	पाइप लाइन
pintail duck	Zool.	सूचिपुच्छ बत्ख	pipe metal		पाइप धातु
pintail snipe		सूचिपुच्छ चहा	piper	Geog	पाइपर
pin test	Chem	पिन निकष	piperade		पाइप्रेड
Pintsch gas	Chem	पिचगैस	piperazine	Chem	पिपेरेजीन
pin tucks	H Sc	उमड़ी सिलाई	Piper beetle	Bot.	पाइपर बीटेल (पान)
pinulate	Zool.	पिन्युलेट, चीड़सम	piperic acid	Chem	पिपेरिक अम्ल, पिपेरिक ऐसिड
pinulpectactine	Geol	पिच्छकपचअरीय	piperidine	Chem.	पिपेरिडीन
pinulus	Zool.	पिन्युलस, चीड़कटिका	piperine	Chem, H Sc	पिपेरीन
Pinus	Bot, Chem.	पाइनस	piperitone	Chem.	पिपेरिटोन
Pinus jeffreyi		पाइनस जेफ्रेई	piperno	Geol	पाइपेरनो
Pinus longifolia		पाइनस लोगीफोलिया	pipernoid		पाइपेरनोइड
Pinus sabiniani		पाइनस साबिनिऐनी	piperonal	Chem.	पिपेरॉनल
Pinus sylvestris		पाइनस सिलवेस्ट्रिस	piperylonyl cyclonone		पिपेरॉनल साइक्लोनोन
pinvise	Geog.	पिनवाइस	piperylonic acid		पिपेरॉनिक अम्ल, पिपेरॉनिक ऐसिड
pinworm	Zool.	पिनवृमि	piperylene		पिपेरिलीन
Piobert's law	Chem. (Met)	पाइयोबर्ट नियम	pipette	Chem.	पिपेट
piou (pi-meson)	Phy., Chem	पाइयोन (पाइमेसन)	pipe-vein		नाल-शिरा
pioneer	Geog.	1. पुरोगामी 2. नवीन	Pipidae	Zool.	पिपिडी
pioneer fringe		पॉयनियर सीमाप्रान्त, नवीन सीमाप्रान्त	piping	H.Sc, Geol.	नलिकायन थोट, बहिर्बन्धनी
pioneer land		पॉयनियर देश, नवीन देश	piping jelly	H.Sc.	पाइपिंग जेली
pioneer plan	Bot, Geog.	नवीन योजना	pipit	Zool.	पाइपिट, तुलिका
piounote	Bot.	पिओनोट	pipkrake	Geog.	पिपक्रेक
pip	Phy	पिप	pipkrake formation		पिपक्रेक रचना
Pipa	Zool.	पाइपा	pipkrake structure		पिपक्रेक संरचना
Pipa americana		पाइपा अमेरिकाना	Piptadenia oudhensis		पिप्टाडेनिया औधेन्सिस
pipe	H.Sc.	1. नल, नाल, नली, नलिका 2. पाइप	Piptocephalis cruciata	Bot.	पिप्टोसिफैलिस क्रुसिएटा
pipe-amygdules	Geol.	नाल वातामक			
pipe clay		नल मृत्तिका			
pipe coil type		पाइप कुण्डली प्ररूप			



<i>Piptoporus betulinus</i>	Bot.	पिप्टोपोरसं वेट्टुलिनस
piptospor	Bot.	पाति बीजाणु
Pipunculidae	Zool.	पाइपनकुलिडी
Pipunculus		पाइपनकुलस
Piqua reactor	Chem.	पिक्वा रिऐक्टर
pique	H.Sc.	पिके
pique anglais		पिके ऍंग्लेज
pique damas		पिके डैमस
piquet	Geog.	पिकेट
piquette	H.Sc.	पिकेट
pique voile		पिके वॉयल
piracy	Geog., Geol.	अपहरण
piranha fish	Geog.	पिरान्या मत्स्य
pirani gauge	Chem., Phy.	पिरानी गेज
Pirata	Zool.	पाइरेटा
Piria reaction	Chem.	पीरिआ अभिक्रिया
piriform (pyriform)	Zool.	नाखरूप
piriform lobe		नाखरूप पालि
piri		पलं
pirle		पलें
pirm	H.Sc.	पनं
pirnean wool	H.Sc.	पर्नीयन ऊन
piroque	Geog.	पिरोगु, स्तम्भ नौका
piroplasmosis	Zool.	पाइरोप्लास्मता
pirssonite	Chem.	पिर्सनोनाइट
piruette (pi)	Zool.	पिरुएट (पिरु)
<i>Pisaster ochraceus</i>	Zool.	पाइसैस्टर ओकरैसियस
pisatin	Chem.	पिसैटिन
Pisces	Zool. Astron.	पिसीज (मत्स्य वर्ग) मीन, पिसीज
*Pisces Australis		पिसीज आस्ट्रेलिस
piscicidal	Zool.	मत्स्यनाशी
piscicolous	Zool.	मत्स्यवासी
piscicultural scheme		मत्स्यपालन योजना
pisciculture	Zool.	मत्स्यपालन
pisciform	Zool.	मत्स्यरूप

piscine	Bot.	सरोवर पादप समुदाय
piscine ancestor	Zool.	मात्स्य पूर्वज
piscivore	Zool.	मत्स्याहारी
piscivorous		मत्स्यभक्षी
P is Galois over Q <sub>1</sub> (=P/Q is Galois)	Math.	P/Q गाल्वा-विस्तार है
pish palm	Geog.	पिश ताल
pish string		पिश डोरी
Pisidium	Zool.	पिसीडियम
pisiform	Zool. Bot.	(n.) गोलकास्थि (adj.) मटराकार
pisocrinus		पिसोक्रिनस
pisolite	Geol.,	पिसोलाइट
pisolite ironstone		पिसोलाइट लोहागम
pisolithus	Bot.	पिसोलियस
pisolithic	Geol.	पिसोलाइटो
pisolithic structure		पिसोलाइटो संरचना
pisolithic tuff		पिसोलाइटो टफ
<i>Pisonia alba</i>	Bot.	पाइसोनिया ऐल्वा
pistachio green		पिस्ता हरित
pistachios	H.Sc.	पिस्ता
<i>Pistacia tenticus</i>	Bot.	पिस्टेशिया टेंटिकस
<i>Pistacia terebinthus</i>		पिस्टेशिया टेरेबिन्थस
pistacia nut		पिस्ता
<i>Pistacia vera</i>	Bot.	पिस्टेशिया वेरा (पिस्ता)
pistacite		पिस्तासाइट
piste	Geog.	पगडंडी
<i>Pistia stratiotes</i>	Bot.	पिस्टिया स्ट्रेटिआइटोज
pisticia lentiscus	Chem.	पिस्टिशिया लेन्टिस्कस
pistil	Bot.	स्त्रीकेसर
pistillaceous		स्त्रीकेसरोपरिक
pistillaria	Bot.	पिस्टिलेरिया
pistillate		स्त्रीकेसरी
pistillode		बंध्य स्त्रीकेसर
pistillody		स्त्रीकेसररूपण
piston		पिस्टन

piston apparatus		पिस्टन समुच्चय	pitching	<i>Phy.</i> <i>Geol.</i>	पिच करना, पिच होना अक्ष नमन
piston corer		पिस्टन कोरक	pitching anticline	<i>Geol., Geog.</i>	नताक्ष अपनति, अक्षनमनी अपनति
piston-core station		पिस्टन-कोर केन्द्र	pitching coefficient	<i>Math</i>	अक्षनतिक गुणांक
piston-faulting		पिस्टन भ्रशन	pitching fold		अक्षनमनी घनन, नताक्ष बलन
piston phone		पिस्टन-फोन	pitching moment		अक्षनतिक आघूर्ण
piston pit		पिस्टन गर्त	pitching movement	<i>Zool.</i>	नताक्ष गति
piston rod		पिस्टन दंड	pitching stability		अक्षनतिक स्थायित्व
piston travel		पिस्टन-चाल	pitching syncline	<i>Geog</i>	नताक्ष अभिनति, अक्षनमनी अभिनति
<i>Pisum arvense</i>	<i>Bot</i>	पाइसम आरवेन्सी (छोटा मटर)	pitching yeast	<i>Chem</i>	आरम्भक यीस्ट
<i>Pisum sativum</i>	<i>Bot.</i>	पाइसम सेटाइवम (मटर)	pitch of the helix	<i>Math.</i>	कुडलिनी-अक्षरत्न
pit	<i>H.Sc.</i>	1 गर्त 2. गुठली निकालना	pitch ore		पिच अयस्क
pita	<i>H.Sc.</i>	पीटा	pitch-pin	<i>Chem.</i>	प्रासकेटन
pit and mound structure		गर्त पिढक-सरचना	pitch polishing		हामर पॉलिशन, हामर चकासन
pit aperture		गर्त द्वारक	pitch programmer		पिच निर्देशक
Pitaria		पिटैरिया	pitchstone		पिचस्टोन
pit canal		गर्त नलिका	pitch trouble		पिच कष्ट, राल कष्ट
pit cavity		गर्त गुहिका	putchy iron ore		पिची लोहा अयस्क
pitch	<i>Geol., Math</i> <i>H.Sc., Phy.,</i> <i>Chem.</i>	1 पिच 2. (mineral) हामर, पिच 3. (of screw) चूड़ी अनराल 4. (of sound) तारत्व	pit coal	<i>Geol</i>	खान-कोयला
	<i>Geol</i>	5 अक्षनति 6 अक्षरत्न	pit crater		गर्त बिबर, गर्त त्रेटर
pit chamber		गर्त कोष्ठ	pit curing		गर्त ससाधन
pitch attitude		पिच वृत्ति, नतिकोण	pit disease	<i>Bot.</i>	गर्त रोग
pitch axis		पिच अक्ष	pit dwelling	<i>Geog.</i>	गर्तवास
pitch-binder		हामर बधक, पिच बधक	pit field		गर्त क्षेत्र
pitch blende		पिचब्लेन्ड	pitch	<i>H.Sc., Bot</i>	पिच, मज्जा
pitch coal		पिच कोयला	pitch ball		मज्जा गुटिका
pitched battle	<i>Geog.</i>	घोर युद्ध	Pithecanthropus	<i>Zool.</i>	पिथेकैन्थ्रोपम
pitcher	<i>Bot., H.Sc.</i>	घट	Pithecia		पिथेसिया
pitcher plant	<i>Bot.</i>	घटपर्णी	pithecolid	<i>Geol., Geog.</i>	वानरायम
pitch-faced	<i>Geol.</i>	पिच फलित	pithecolid ancestry		वानरायम वंशकुल
			<i>Pithecolobium dulce</i>	<i>Bot.</i>	पिथीकोलोबियम इले
			Pithecophaga	<i>Zool.</i>	पिथीकोफैगा
			pitch fleck	<i>Bot.</i>	मज्जा-शत
			pithomoton		पिथोमोटोन

<i>Pithophora oedogonia</i>	Bot.	पिथोफ़ोरा ईडोगोनिया	pituitary fossa		पीयूप खात
pith-rib-meristem	Bot.	मज्जा-पर्णिका-विभज्योतक	pituitary gland	Zool., H.Sc.	पीयूप ग्रन्थि, पिट्यूटरी ग्रन्थि
pitless viper	Zool.	अगतं पृदाकु, अगतं घोणत	pituitary hormone	H.Sc.	पिट्यूटरी हार्मोन, पीयूपिका हार्मोन
pitman	Chem.	पिटमैन	pituitary pouch	Zool.	पीयूप घानी
Pitman rod	H.Sc.	पिटमैन छड़	pituitrin	Zool.	पिट्यूट्रिन
Pitman's test	Math.	पिटमैन-परीक्षण	pit viper	Zool.	गतं पृदाकु, गतं घोणास
pit membrane	Biol.	गतं झिल्ली	Pityrosporum	Bot.	पिटिरोस्पोरम
pitometer	Chem.	पिटोमीटर, पिटोमापी	Pitzer strain	Chem.	पिट्ज़र विकृति
piton	Geog.	पीटॉन, तीक्ष्ण शिखर	pivaldehyde	Chem.	पिवाल्डिहाइड
pit organ	Zool.	गतांग	pivalic acid	Chem.	पिवाँलिक अम्ल
pitot pressure	Phy.	वायु संघट्ट दाब	pivaloin	Chem.	पिवाँलाइन
pitot tube		1. वायु संघट्ट-दाब नलिका 2. पीटॉनली, पीटो नाल	pivot		धुराग्र, कीलक
pit pair		गतं-युग्म	pivotal		धुराग्रीय, आधारी
pit soaking	Chem.	गतं तिकतन	pivotal axis	Geol.	धुराग्रीय अक्ष
pitted	Biol., Geol., Geog.	गतंमय, गतित	pivotal condensation	Math.	आधारी संघनन
pitted outwash plain		गतंमय हिमघौत भूमि	pivotal element		आधारी अवयव
pitted pebble		गतित गुटिका	pivotal fault	Geol.	कीलकघ्न
pitted plain		गतंमय भूमि	pivotal line		आधारी रेखा
pitted rock		गतंमय शैल	pivotal movement		कीलक संचलन, परिभ्रमी संचलन
pitted scab		गतित स्कैब	pivot bond		कीलक बन्ध
pitted topography		गतंमय स्वलाकृति	pivoted		धुराग्रस्य, कीलकित
pitticite	Chem.	पिटिसाइट	pivoted lever		कीलकित उत्तोलक
pitting		गतंन्यास, गतंन	pivoted magnet		कीलकित चुंबक
pitting corrosion		गतंन-संक्षरण	pivot joint		धुराग्र सन्धि
pitting undermining		तलोच्छेदी गतंन	(=trochoid)		
Pittosporaceae	Bot.	पिट्टोस्पोरेसी	pivot pen		धुराग्र पेन, कीलक पेन
Pittosporales		पिट्टोस्पोरेलीज	pivot station	Geog.	कीलक चांदा
<i>Pittosporum floribundum</i>		पिट्टोस्पोरम फ्लोरीबन्डम	pizite	Geol.	पिजाइट
Pittsburgh sheet process	Chem.	पिट्सबर्ग चादर प्रक्रम	place	Math.	स्थान
Pittsburgh universal burner		पिट्सबर्ग-सार्वत्रिक बर्नर, पिट्सबर्ग-सार्वत्रिक ज्वालक	place-card	H.Sc.	स्थान पत्रक
pituitary body	Zool.	पीयूप काय	place exchange process	Chem.	स्थान विनिमय प्रक्रम
			placemat	H.Sc.	प्लेसमैट
			placenta	Zool. Bot.	अपरा, प्लेसेन्टा
			placental mammal		बीजांडासन
					अपरास्तनी

placenta foetalis	Zool.	ग्रभं अपरा	plagioclase	Geol.	प्लेजिओक्लेस
Placentalia	Zool.	प्लैसेन्टेनिया	plagioclase-amphibolite		प्लैजिओक्लेस-एम्फ्रीबोलाइट
placenta materna	Zool.	मातृ अपरा	plagioclastic		प्लेजिओक्लेसविदली
placentate		अपरायित	plagioclimate	Geog., Bot.	जनकृत धरम
placentation	Bot. Zool.	बीजाडन्यास अपराग्यास	plagiodromous venation	Bot.	तिर्यक् शिराविन्यास
placenta villi		अपरा रसाकुर	plagiogyria	Bot.	प्लेजिओगदरिजा
placentiferous	Bot.	बीजाडानघर	Plagiogyriaceae		प्लेजिओगदरिएमी
placer	Geol.	प्लेसर	plagiophyre	Geol.	प्लेजिओफायर
placer claim		प्लेसर अद्ययना	plagiosere	Bot.	जनकृत क्रमक
placer deposit		प्लेसर निक्षेप	plagiostomid	Zool.	प्लेजियोस्टोमिड
placer mining		प्लेसर खनन	Plagiostomum		प्लेजियोस्टोमम
Placobdella	Zool.	प्लेकोब्डेला	plagiotriaene	Zool.	प्लेजियोट्राइन, तिर्यक्त्रिकटिका
placochromatic type	Bot.	पट्टवर्ण प्ररूप	plagiotropic	Bot.	तिर्यक् अनुवर्ती
Placocystis	Geol.	प्लैकोसिस्टिस	plague flea	Zool.	प्लेग फिस्सू, ताउन फिथू
placode	Zool.	स्याली	placce	Geog.	प्लेस
placoderm	Geog., Zool.	प्लैकोडर्म	plaid	H.Sc.	प्लैड
Placodermi (Aphetohyoidea)	Zool.	प्लैकोडर्मो (ऐफैटोह्योडिया)	plaid flannel		प्लैड फलालेन
placodial	Bot.	प्लैकोडियमी	plaid square	Math.	शबलित वर्ग
placodioid	Bot.	प्लैकोडियमाम	plaid square design		शबलित वर्ग अभिव्यक्तपना
placodium	Bot.	प्लैकोडियम	plain	Geog., Geol. Chem.	1 मैदान 2. सपाट 3 विशुद्ध 4 बुदबुदहीन
Placodontia	Zool.	प्लैकोडोन्टिया	plain alidade	Geog.	साधारण ऐलीडेड, साधारण दशुरेखक
Placodus	Zool.	प्लैकोडस	plain bar		मैदान रोधिका
placoid	Zool.	पट्टाम	plain cloth	H.Sc.	साधारण बस्त्र
placoid scale		पट्टाम शल्क	plain glass		विशद काच
placoid tooth		पट्टाम दंत	plain knit	H.Sc.	प्लेन निट (बस्त्र)
placolith	Zool.	प्लैकोलिथ, पट्टाम	plain loom	H.Sc.	प्लेनलूम
Placophora	Zool.	प्लैकोफोरा	plain of collimation	Geog.	सघान-समतल
placula	Zool.	प्लैकुला, बिगिटकोरक, कनुक	plain scale	Geog.	सरल पैमाना
Placuna placenta	Zool.	प्लैकुना प्लैसेन्टा	plain spiral		समतल सर्पिल
pladdy	Geog.	प्लैडी	plain stitch	H.Sc.	सारा टांका
ptage	Geol.	प्लेज	plafative cuckoo	Zool.	प्लेन्टिव बुक्कू, बर्गमिय घातक
Plagiaulax	Zool.	प्लैजिओलैक्स	plain tract		सपाट क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र
plagioblastic	Bot.	तिर्यक्कोरक			
Plagioclasma	Bot.	प्लैजिओक्लसमा			
Plagioclilla	Bot.	प्लैजिओक्लिला			

plain velvet	<i>H.Sc.</i>	सादा मन्मल	Planck's constant	प्लांक नियतांक
plain weave	<i>H.Sc.</i>	सादा वयन	Planck's law	प्लांक-नियम
plain wool	<i>H.Sc.</i>	सादा ऊन	Planck's quantum of action	प्लांक क्रिया-क्वान्टम
plait	<i>Geog.,H.Sc.</i>	सिलवट	Planck's radiation formula	प्लांक विकिरण-सूत्र
plaite	<i>Zool.</i>	संग्रह	plane	तल, समतल
plaited		संग्रहित	plane angle	समतलीय कोण
plaited palm frond	<i>Geog.</i>	वलित नारिकेल पत्र	plane boundary	समतल परिसीमा
plaiting	<i>Chem.</i>	व्यावर्तन	plane Couette flow	काउटे का समतल प्रवाह
plait point	<i>Phy.,Chem.</i>	सम्मिश्रण बिन्दु	plane curve	समतल वक्र
plait-point curve	<i>Geol.</i>	क्रांतिक वक्र	plane deformation	समतल विरूपण
plaitwork	<i>Geog.,H.Sc.</i>	वेणी कला	plane domain	समतल प्रांत
plakea	<i>Zool.</i>	प्लैकिया, प्रपट्ट	plane elastostatic problem	समतल प्रत्यास्थ स्थैतिक समस्या
plan	<i>H.Sc.,Geog. Math.</i>	1. प्लान, खाका, आयोजना 2. अनुविक्षेप 3. नक्शा	plane face	समतल फलक
planalto	<i>Geog.</i>	प्लैनाल्तो	plane figure	समतल आकृति
plan and profile		प्लान और प्रोफाइल, अनुप्रस्थिका व पार्श्विका	plane front wave	समतल तरंगग्र
planar (epitaxial) transistor	<i>Phy.</i>	प्लेनर (एपिटैक्सियल) ट्रांजिस्टर	plane geometry	समतल ज्यामिति
planar arrangement	<i>Chem.,Phy.</i>	समतली व्यवस्था	plane group	तल ग्रुप
planar configuration		समतलीय विन्यास	plane harmonic function	समतल प्रसंवादी फलन
planar conformation		समतलीय संरूप	plane harmonic wave	समतल आवर्ती तरंग
plan area		अनुविक्षेप क्षेत्र	plane lattice	तल जालक
planar flow structure	<i>Geol.</i>	तलीय प्रवाह संरचना	plane-like wave front	समतल तरंगग्र
Planaria	<i>Zool.</i>	प्लैनेरिया	plane mirror	समतल दर्पण
<i>Planaria gonocephala</i>	<i>Zool.</i>	प्लैनेरिया गोनोसेफेला	plane motion	समतलीय गति
planarian	<i>Zool.</i>	प्लैनेरियन, अट्टकृमि	plane of bending	वक्रन-तल
planar lattice fault	<i>Phy.</i>	तलीय जालक दोष	plane of cleavage	विदलन तल
planar molecule		समतलीय अणु	plane of collimation	संधान समतल
planar solution		समतलीय हल	plane of curvature	वक्रता-समतल
planar structure		तलीय संरचना	plane of floatation	प्लवन समतल
planar tensor		समतलीय प्रदिश, समतलीय टेन्सर	plane of flow	प्रवाह तल
planar water	<i>Geog.</i>	तलीय जल, तलवान् जल	plane of maximum shear	उच्चतम अपरूपण तल
planation	<i>Geog.,Geol.</i>	समतलन	plane of polarization	ध्रुवण तल
Planck function	<i>Phy.,Math.,Chem.</i>	प्लांक-फलन	plane of projection	प्रक्षेपण-तल
			plane of reference	निर्देश तल

plane of scattering		प्रकीर्णन समतल	planet	<i>Math, Phy</i>	ग्रह
plane of stretching		तानन तल	plane table	<i>Geol, Geog.</i>	सर्वेक्षण पट्ट, प्लेन टेबुल
plane of symmetry		सममिति तल	plane table auxiliary point		प्लेनटेबुल सहायक बिन्दु
plane of the ecliptic		ऋतिवृत्त समतल	plane table fixing mark		प्लेन टेबुल स्थिति-चिह्न
plane of the load		उद्धार-तल	plane tabler		प्लेन टेबुलक
plane of weakness		दुर्बलता तल	plane table section		प्लेन टेबुल क्षेत्र
plane orbit		समतल कक्षा	plane table surveying		पट्ट सर्वेक्षण, प्लेनटेबुल सर्वेक्षण
plane parallel		तल-समान्तर	plane table top		प्लेन टेबुल तल्ला
plane parallel plate		समतल समान्तर पट्टिका	planetabbling		प्लेन टेबुलन
plane pileus		समतल छल	planetarium	<i>Phy.</i>	कृत्रिम नभोमंडल
plane plastic flow		समतल सुषट्य प्रवाह	planetary	<i>Math., Phy., Geog.</i>	ग्रहीय, भूमंडलीय
plane polariscopé		समतल ध्रुवणदर्शी	planetary atmosphere		ग्रहीय परिमंडल
plane polarised		समतल ध्रुवित, रेखा ध्रुवित	planetary circulation		ग्रहीय परिसंचरण
plane polarised Alfrén wave		समतल ध्रुवित ऐल्फ्रेन तरंग	planetary constant		ग्रहीय अचर
plane polarised beam		समतल ध्रुवित किरणपुञ्ज	planetary desert		भूमंडलीय मरुस्थल
plane polarised light		समतल ध्रुवित प्रकाश	planetary heat		ग्रहीय ऊष्मा
plane polarization		समतल ध्रुवण, रेखा ध्रुवण	planetary motion		ग्रह गति
plane progressive wave		समतल प्रगामी तरंग	planetary nebula		ग्रहीय नीहारिका
plane projection		समतल प्रक्षेप	planetary orbit		ग्रह कक्षा
plane quadrature		समतल शैलकलन	planetary physical environment		भूमंडलीय प्राकृतिक वातावरण
planer diode		समतली डायोड	planetary precession		ग्रहीय अयन
plane reflector aerial (=plane reflector antenna)		समतल परावर्तक ऐन्टेना	planetary system		ग्रह निवास
planerite	<i>Geol</i>	प्लेनेराइट	planetary temperature		ग्रहीय ताप
plane rotation matrix		समतलीय घूर्णन आव्यूह	planetary vorticity		ग्रहीय घ्रमिलता
plane-schistosity		समतल शिस्टना	planetary wind	<i>Geog.</i>	भूमंडलीय पवन
plane section		समतल परिच्छेद	planetesimal hypothesis	<i>Math., Geog.</i>	ग्रहाणु परिकल्पना
plane set (=planar set)		समतलीय समुच्चय	planetesimal matter		ग्रहाणु द्रव्य
plane sheet charge		आवेश की समतल चादर, समतल आवेश	planetesimal theory		ग्रहाणु सिद्धांत
plane strain		समतल विकृति	planetoid	<i>Math.</i>	सूक्ष्मग्रह
plane stress		समतल प्रतिबल	plane transmission grating		समतल पारगमन ग्रैटिंग
plane structure		समतल संरचना	plane trigonometry		समतल त्रिकोणमिति
plane sub-system		समतलीय उपनिकाय	plane wave		समतल तरंग
plane surface	<i>Phy., Geog</i>	समतल पृष्ठ	planeze	<i>Geog.</i>	प्लेनेज

planidium	Zool.	प्लैनीडियम	planktonic form	प्लवकीय आकृति
planilla	Geol.	प्लैनिला	planktonic foraminifera	प्लवकी फ़ोरामिनीफ़ेरा
planimeter	Geog.,Phy.	क्षेत्रफलमापी, प्लैनीमीटर	planktonic fry	प्लवकीय पोना
planimetric control		प्लैनीमीटरीय नियंत्रण, क्षेत्रफल मापीय नियंत्रण	planktonic microfossil	प्लवकी सूक्ष्मजीवाश्म
planimetric map		प्लैनीमीटरी मानचित्र	planktonic shell	प्लवकी कवच
planimetry	Geog.	प्लैनीमेट्री, समतलमिति	plankton indicator	प्लवक सूचक
planina	Geog.	प्लैनीना	plankton net	प्लवक जाल
Planipennia	Zool.	प्लैनीपीनिया	planktonology	Biol. प्लवकविज्ञान
planish	Geol.	सुसज्जन	plankton population	प्लवक समष्टि
planisher		प्लैनिशर, सुसज्जित	plankton sampler	प्लवक प्रतिदर्शक
planishing	Chem. (Met.)	सुसज्जन	plankton sampling	प्लवक प्रतिदर्शन
planishing pass		सुसज्जक पास, सुसज्जक पारण	plankton shrimp	प्लवक त्रिगट
planisphere	Geog.	प्लैनिस्फीयर, धरातल प्रसिप्त गोलक	plankton swarm	प्लवक वृन्द
planispiral	Geol.	तलसपिल	plankton	Biol. प्लवकांश, प्लवकैक
planispiral rectilinear		तलसपिल सरलरेखीय	plankton trap	Zool. प्लवक पंजर
planitegillate	Bot.	समतल टेजिलमी	planktophyte	Bot. प्लवकोद्भिद
plank building	Geog.	फलक निर्माण	Planktothuria	Zool. प्लैक्टोथूरिया
plank-built house		फलक-निर्मित गृह	planktotrophic	Zool. प्लवकपोषित
plank gunwale	Geog.	फलक पेरज	planned town	Geog. आयोजित नगर
planking (acid)	Chem. (Text.)	रोमिलन (अम्ल)	planning	Geog. Math. आयोजन, नियोजन, योजना
plank road	Geog.	फलक सड़क	planning a survey	सर्वेक्षण की योजना बनाना
plankter	Zool.	प्लवकांश	planning chart	आयोजना संचित्र
planktivorous	Zool.	प्लवकभोजी	planning horizon	आयोजना क्षितिज
planktology	Biol.,Geol., Geog.	प्लवकविज्ञान	planning of experiments	प्रयोग-आयोजना
plankton	Zool.,Geol., Geog.	प्लवक	planning operation	आयोजना-संक्रिया
plankton bloom		प्लवक पुंज	planning unit	योजना एकक
plankton concentration		प्लवक सांद्रण	planoblast	Zool. अटकोरक
plankton feeder		प्लवक भोजी	Planocera	Zool. प्लैनोसैरा
planktonic adaptation		प्लवकीय अनुबुद्धन	planococcus	Bot. चलगोलाणु
planktonic ciliate		प्लवकी पड्माभ	plano-concave lens	Phy. समतल-अवतल लेन्स
planktonic ecosystem		प्लवकी पारिवर्तन	plano-convex lens	Phy. समतल उत्तल लेन्स
planktonic food		प्लवकीय खाद्य	planocyte	Bot. चलकोशिका
			planogametic copulation	Bot. चलयुग्मकी संयुग्मन
			planographic coater	Chem. समतललेखी आलेपक

planographic map	Geog	प्लैनोग्राफीय मानचित्र, समतलनेछी मानचित्र	plant debris	सम्भावशेष
planographic printing		समतलनेछी मुद्रण	plant ecology	पादप पारिस्थितिकी
planont	Bot.	चलाणु	planted tree	Geog रोपित वृक्ष
planophyre	Geol.	प्लैनोफायर	plant-feeding animal	Geog. वनस्पति-प्राशन पशु
planophytic		स्तर-पॉफरीय, प्लैनोफायरी	plant form	वनस्पति प्रकार
Planorbis	Zool.	प्लैनॉर्बिस	plant formation	पादप रचना
Planorbifera	Zool	प्लैनॉर्बिलाइना	plant geographer	Bot ,Geog पादप भूगोलवेत्ता
planosol	Geog	प्लैनोसोल	plant geography	पादप भूगोल
planospore	Bot.	चल बीजाणु	plant group	पादप समूह
planozygote	Bot	चल युग्मनञ	planticle	Bot ध्रुण
plan picture	Phy.	प्लान चित्र	plantigrade	Zool पादतलचारी
plan position		प्लान स्थिति, मानचित्र स्थिति	plantigrade gait	पादतलगमन
plan position indicator	Geol.	प्लान स्थिति सूचक	planting	Geog. H Sc. 1 स्थापन, रोपण 2 प्लांटिंग
plant		1 पादप, पौजा, वनस्पति 2 सयत्र, प्लाण्ट	plant insecticide	Zool पादप कीटनाशी
planta	Zool ,H Sc	प्लैन्टा	plant kingdom	वनस्पति जगत्
Plantaginaceae	Bot	प्लैन्टेजिनेसी	plantlet	Bot पादपक
Plantaginales		प्लैन्टेजिनेसीञ	plant lice	Bot ,Geog पादप यूका, पादप जू
Plantago major	Bot.	प्लैन्टॅगो मेजर	plant louse	Zool. पादप यूका, पीघा जू
Plantago ovata		प्लैन्टॅगो ओवेटा (ईसपगोल)	plant migration	Bot. 1 पादप प्रवास 2 पादप प्रवासन
plantain	H Sc.	प्लैटिन	plant nutrient	पादप पोषक
plantaris longus	Zool.	प्लैन्टॅरिस लोगस, पादतल दीर्घपेशी	plant pathology	पादप रोगविज्ञान, पादप विज्ञानविज्ञान
plant association	Geog.	वनस्पति साहचर्य	plant pigment	वनस्पति वर्णक
plantation	Geog.	वागमन, रोपण	plant plankton	पादप प्लवक
plantation agriculture		रोपण कृषि	plant population	पादप संख्या
plantation crop		रोपण फसल	plant press	पादप दाबक
plantation farming		रोपण खेती	plant precipitation	पादप प्रेसिपिटिन
plantation village		वागमनी ग्राम	plant protein	वनस्पति प्रोटीन
plant bug	Zool	पादप-मत्सुण	plant quarantine	पादपमपकंरोध
plant cell		वनस्पति कोशिका	plant response	पादप अनुक्रिया
plant community	Geog ,Bot	पादप समुदाय	plant rust	पादप रिड्ट, पादप रस्ट
plant cover	Geog	वनस्पति-आवरण, पादप आवरण	plantsman	पादप पुरुष
			plant sociology	Geog. पादप समाजविज्ञान
			plant tryptic	Bot. पादप ट्रिप्टिन
			plantula	Zool ,H.Sc. संज्ञिका, पादपबध
			planula	H.Sc ,Zool. प्लैनुला



planuloid		प्लैनुलाम	plasmocyte	Zool.	प्लास्मायु
planuloid-acoeloid theory		प्लैनुलाम-एसीलाम सिद्धान्त	plasmodesma	Biol.	जीवद्रव्यतंतु, प्लैस्मोडेस्मा
plan view	Geol.	प्लान दृश्य	plasmodial cyst	Zool.	प्लैस्मोडियम पुटी
plaque	Biol.	प्लाक, लवांक	plasmodial infection		प्लैस्मोडियमी संक्रमण
plaque counting		प्लाकगणना	plasmodial mass		प्लैस्मोडियमी पुंज
plasia	Zool.	विकसन	Plasmodiidae	Zool.	प्लैस्मोडिआइडी
plaskon	Chem.	प्लैसकोन	plasmodiocarp	Biol.	प्लैस्मोडिओकार्प, प्लैस्मोडियम फलि
plasma	Biol. Math.,Phy. H.Sc.	प्लैज्मा, जीवद्रव्य प्लैज्मा प्लाविका	Plasmodiophora brassicae	Bot.	प्लैज्मोडिओफोरा ब्रैसिकी
plasma engineering		प्लाज्मा इंजीनियरी	Plasmodiophorales		प्लैज्मोडिओफोरेलीज
plasma frequency		प्लैज्मा आवृत्ति	plasmodiospheric	Geol.	प्लाज्मोहायोस्फेरिक
plasmagel	Biol.	प्लैज्माजेल	plasmodiospore	Geol.	प्लाज्मोहायोस्पोर
plasmagene	Zool.	द्रव्यजीन, प्लाज्माजीन	plasmoditrophoblast		प्लैस्मोडिट्रोफोब्लास्ट
plasmajet excitation	Chem.,Phy.	प्लैज्मोजेट उत्तेजन, प्लैज्मा प्रधार उत्तेजन	Plasmodium	Zool.	प्लैज्मोडियम
plasmalemma	Biol.	1. जीवद्रव्य कला 2. प्लैज्मा झिल्ली	Plasmodium falciparum		प्लैज्मोडियम फैल्सिपेरम
plasmalogen	Chem.	प्लाज्मैलोजन	Plasmodium malariae		प्लैज्मोडियम मलेरिआई
plasma membrane	Biol.	जीवद्रव्य कला, प्लैज्मा झिल्ली	Plasmodium vivax		प्लैज्मोडियम वाइवै
plasma oscillation		प्लैज्मा दोलन	Plasmodroma	Zool.	प्लैज्मोड्रोमा
plasma phenomenon		प्लैज्मा परिघटना	plasmogamous	Bot.	कोशिका-द्रव्य-लयनी
plasmapherisn		प्लाविकाहरण, प्लाज्माहरण	plasmogamy		कोशिकाद्रव्य-लयन, प्लैज्मोगामी
plasma physics		प्लैज्मा भौतिकी	plasmolysed cell	Bot.	द्रव्यकुंचित कोशिका
plasmastream		प्लैज्माधारा, जीवद्रव्य धारा	plasmolysing cell		द्रव्यकुंचनी कोशिका
plasmatic bridge	Geol.	प्लाज्मा-संतु	plasmolysis	Biol.,Chem.	जीवद्रव्यकुंचन
plasmatic factor		जीवद्रव्य कारक	plasmolytic method		जीवद्रव्यकुंची पद्धति
plasmatische grenzhaut	Bot.	संतमिति	plasmon	Phy.,Zool.	प्लाज्माॉन, द्रव्यैकक
plasmatocyte	Zool.	द्रव्यायु	plasmophagous	Bot.	जीवद्रव्यभक्षी, प्लैज्माभक्षी
plasmatron	Phy.	प्लैज्माट्रान	plasmopora	Geol.	प्लैज्मोपोरा
plasmic ligament		प्लाज्मा स्नायु, जीवद्रव्य स्नायु	plasmoptysis	Bot.	जीवद्रव्योत्सर्ण
plasmin	Chem.	प्लैस्मिन	plasmoquin	Chem.	प्लैज्माॉक्विन
plasminogea		प्लैस्मिनोजन	plasmosol	Biol.	प्लैज्मोसोल
plasmochin (pamaquin)	Chem.	प्लैस्मकिन	plasmosome	Bot.	प्लैज्मोसोम
			plasmotomy	Biol.	कोशिकाद्रव्यविभाजन, प्लैज्मोटोमी

plasmotrophoderm	Zool.	द्व्यपोषस्तर
plastacele	Chem.	प्लैस्तासेल
plastavon	H.Sc.	प्लैस्तावॉन
plaster	Chem., Geog., H.Sc.	1. प्लास्टर 2. पेरिस प्लास्टर
plaster model		प्लास्टर मॉडल
plaster mould		प्लास्टर साचा
plaster of Paris		पेरिस प्लास्टर
plastiatics	Chem.	प्लैस्टिक विज्ञान, प्लैस्टिकी, मुषट्यिकी
plastic		मुषट्य, प्लैस्टिक
plasticarve	Chem.	प्लैस्टीकार्व
plastic backing		प्लास्टिक पुष्ठघान
plastic bending	Math.	मुषट्य बकन
plastic buckling		मुषट्य आकुचन
plastic clay		मुषट्य मृत्तिका
plastic coated yarn		प्लास्टिक लेपित सूत्र
plastic collision		प्लैस्टिक सघट्ट
plastic creep		प्लैस्टिकी विसर्पण
plastic crystal		प्लास्टिक क्रिस्टल, मुषट्य क्रिस्टल
plastic curvature		प्लैस्टिक वक्रता
plastic deformation		मुषट्य विरूपण, प्लैस्टिकी विरूपण
plastic effect		प्लास्टिक-प्रभाव
plastic embedding method		प्लास्टिक अत स्थापनी विधि
plastic fabric		प्लास्टिक वस्त्र
plastic film		प्लास्टिक फ़िल्म
plastic flow		मुषट्य-प्रवाह, प्लास्टिक प्रवाह
plastic fluid		मुषट्य तरल
plastic gas model		मुषट्य गैस-निदर्श
plastic hinge		मुषट्य बन्ना
plastic impact		प्लास्टिक सघट्ट, प्लास्टिक टक्कर
plasticiae	Bot., Chem., Geog.	प्लैस्टिसीन
plasticised rubber		प्लैस्टिकित रबर, मुषट्यित रबर

plasticity		मुषट्यता, प्लैस्टिकता
plasticity index		मुषट्यता सूचकांक
plasticizer	H.Sc.	प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिककारी, मुषट्यताकारी!
plastic limit		मुषट्य सीमा प्लास्टिक सीमा
plastic locking medium		मुषट्य अभिवधन माध्यम
plastic medium		प्लैस्टिक माध्यम
plastic memory		प्लैस्टिक स्मृति, मुषट्य स्मृति
plastic number		प्लैस्टिक सख्या
plastic point		प्लैस्टिक अंक, मुषट्य बिन्दु
plastic potential		मुषट्य विभव
plastic recoil		मुषट्य प्रतिक्रम
plastic resin		प्लैस्टिक रैजिन
plastic resistance		प्लास्टिक प्रतिरोध
plastic rigid material		मुषट्य दृढ़ पदार्थ
plastic rigid solution		मुषट्य दृढ़ हल
plastic shading		प्लैस्टिक छायाकरण
plastic soil mass		मुषट्य मृदा संहति
plastic state		प्लैस्टिक अवस्था
plastic strain		मुषट्य विहृति, प्लैस्टिक विहृति
plastic strain vector		मुषट्य विहृति सदिश
plastic sulphur		मुषट्य गंधक, प्लैस्टिक गंधक
plastic viscosity		मुषट्य श्यानता, प्लैस्टिक श्यानता
plastic work hardening model		मुषट्य विहृतिप्रदायमान निदर्श
plastid	Biol.	लवक, प्लैस्टिड
plastidome	Bot.	प्लैस्टिडोम
plastification		प्लैस्टिकीकरण, प्लैस्टिकन, मुषट्यन
plastifier		प्लैस्टिककारी, मुषट्यकारी
plastify (= plasticize)		प्लैस्टिकन, मुषट्यन

plastigel	Chem.	प्लैस्टिजेल	plateau method		प्लैटो विधि
plastiline model	Geol., Geog.	प्लास्टिलीन मॉडल	plateau slope		प्लैटो प्रवणता
plastimeter	Chem.	गाढ़तामापी, प्लैस्टिमीटर	plateau's spherule		प्लैटो-स्फेरूल
plastin		प्लैस्टिन	plate catching diode		एनोड बंधक डायोड
plastisol	Chem.	प्लैस्टिसॉल	plate characteristic	Chem.	प्लेट अभिलक्षण, पट्टिका-अभिलक्षण
plastrochron	Bot.	घटनांतराल, प्लास्टोकान	plate circuit	Phy.	ऐनोड परिपथ, प्लेट परिपथ
plastogamic	Geol.	प्लास्टोगैमिक	plate constant	Phy.	प्लेट स्थिरांक
plastograph	Chem. (Plast.)	सुघट्य लेख, प्लैस्टोग्राफ	plate current	Phy., Math.	ऐनोडी धारा
plastomer	Chem.	प्लैस्टोमर, सुघट्यक	plated	H.Sc.	विद्युत् लेपित, मूलम्मा किया हुआ, पट्टित, प्लेटेड
plastomere	Bot.	लवकांश	plated circuit	Phy.	विद्युत्लेपित परिपथ
plastometer	Chem.	प्लैस्टोमीटर	plate detection mixer	Phy.	ऐनोडी संसूचक मिश्रक
plastopal	Chem.	प्लैस्टोपल	plate detector		ऐनोड संसूचक
plastoquinone	Chem.	प्लैस्टोक्विनोन	plated lobster	Zool.	पट्टित महाचिगट
plastron	Zool., Geol.	सधरवर्म, प्लैस्ट्रन	plated printed circuit	Phy.	विद्युत् मुद्रित परिपथ
plastron respiration	Zool.	वायुचय श्वसन	plate efficiency	Chem.	पट्टिका क्षमता
plastyon	H.Sc.	प्लैस्टियन	plate factor		प्लेट गुणक
Platanaceae	Bot.	प्लेटेनेसी	plate glass		पट्टिका कांच
Platanista gangetica	Zool.	प्लेटेनिस्टा गैजेटिका (सूत)	plate holder		प्लेट धारक
Platanistidae	Zool.	प्लेटेनिस्टिडी	plate ink	Chem.	पट्टिका मसी, प्लेट मसी
Platanus occidentalis	Bot.	प्लैटैनस ओक्सिडेंटैलिस	platelet	Phy. Zool.	लघु पट्टिका पट्टिकाणु
Platanus orientalis		प्लैटैनस ओरिएण्टैलिस	plate level	H.Sc.	विम्बानु
plate	H.Sc., Geol., Geog. Chem., Phy.	1. पट्टिका 2. बाधार पट्टिका 3. प्लेट 4. ऐनोड	plate making	Geog.	प्लेट लेवल प्लेट तैयारी
plateau	Geog., Geol., Phy.	1. प्लैटो 2. पठार	platemodulated class C amplifier	Phy.	ऐनोड मादुलित C वर्गीय प्रवर्धक
plateau basalt		पठारी बैसाल्ट	platen	Chem. (Plast.), Geog.	प्लेटन, रोहूपट्ट
plateau eruption		पठार-उद्गार	platen force		प्लेटन बल
plateau feature		पठार लक्षण	platen reseau		प्लेटन रेस्यू, मुद्रपट्टिका रेस्यू
plateau glacier		पठारी हिमनद	Plateosaurus	Zool.	प्लेटिओसॉरस
plateau gravel		पठारी बजरी	plate printing	Chem.	पट्टिका मद्रण
plateau land		पठार भूमि	plate resistance		ऐनोड प्रतिरोध
plateau magma type		पठारी मैग्मा प्ररूप	plate supply voltage		ऐनोड प्रदायी वोल्टता
plateau mesa		पठारी मेसा			

<i>platform</i>	<i>Geol.</i>	वेदी, प्लेटफॉर्म	<i>platinosa gauze</i>	प्लैटिनम जाली
<i>platform balance</i>	<i>Phy.</i>	मंच तुला	<i>platinum iridium rod</i>	प्लैटिनम-इरीडियम दण्ड
<i>platform conodont</i>	<i>Geol.</i>	समतलीय शकुदत	<i>platinum luster</i>	प्लैटिनम-शुक्ति
<i>platform facies</i>		वेदी सलक्षण	<i>platinum metals</i>	प्लैटिनम धातुवर्ग
<i>platforming</i>	<i>Chem (Pet)</i>	प्लैट-भावन	<i>platinum point</i>	प्लैटिनम तापंक
<i>platina del pinto</i>	<i>Chem</i>	"प्लेटिना डेल पिन्टो"	<i>platinum resistance thermometer</i>	प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी, प्लैटिनम प्रतिरोध यन्त्रमापी
<i>platinamine</i>	<i>Chem.</i>	प्लैटिन-ऐम्मीन	<i>platinum-rhodium</i>	प्लैटिनम-रोडियम
<i>platinite</i>	<i>Chem.</i>	प्लैटिनेट	<i>platinum sponge</i>	प्लैटिनम-स्पंज
<i>plating</i>	<i>Chem, Phy.</i>	पट्टन, विद्युत् लेपन	<i>platinum temperature</i>	प्लैटिनम ताप, प्लैटिनम टेम्परेचर
<i>platinic acid</i>	<i>Chem</i>	प्लैटिनिक अम्ल, प्लैटिनिक ऐसिड	<i>platinum thermometer</i>	प्लैटिनम तापमापी
<i>platinic dihydroxo tetrammine complex</i>	<i>Chem</i>	प्लैटिनिक डाइहाइड्रॉक्सो-टेट्रैमीन संकुल	<i>platinum tipped tongs</i>	प्लैटिनम मूखी सदशिका, प्लैटिनम मूखी टांग
<i>platinichloride</i>		प्लैटिनीक्लोराइड	<i>platinum wire</i>	प्लैटिनम तार
<i>platiniferous</i>	<i>Geol.</i>	प्लैटिनमधारी	<i>platinum yellow</i>	प्लैटिनम येलो]
<i>platini iridium</i>	<i>Chem.</i>	प्लैटिनी इरीडियम	<i>platosemidiammine chloride</i>	प्लैटोसेमिडैमिनीक्लोराइड
<i>platinising</i>	<i>Chem. (Met)</i>	प्लैटिनन	<i>Plat-o-table</i>	<i>Geol</i> प्लैट-ओ-टेबल
<i>platinite</i>	<i>Chem.</i>	प्लैटिनाइट	<i>platove</i>	<i>H Sc</i> प्लेटोव
<i>platinize</i>		प्लैटिनी करना, प्लैटिनीकरण	<i>platreating</i>	<i>Chem (Pet)</i> प्लैटोपचरण
<i>platinized</i>		प्लैटिनीकृत	<i>platted suburb</i>	<i>Geog</i> पट्टित नगरोपान्त
<i>platinized asbestos</i>		प्लैटिनीकृत ऐस्बेस्टॉस	<i>platter</i>	<i>H Sc., Geog.</i> 1. पाल, बडी प्लेट 2. षठीठा, षठवत्
<i>platinized electrode</i>		प्लैटिनम लेपित इलेक्ट्रोड	<i>platt lace</i>	<i>H Sc.</i> प्लैट लेस
<i>platino</i>	<i>Chem.</i>	प्लैटिनो	<i>plattnerite</i>	<i>Chem.</i> प्लैटनराइट
<i>platinocyanide</i>		प्लैटिनोसायनाइड	<i>Plattner's chlorine process</i>	<i>Chem.</i> प्लैटनर क्लोरीन प्रक्रम
<i>platinoid</i>	<i>Chem</i>	प्लैटिनॉयड	<i>Platt notation</i>	<i>Chem, (Photo)</i> प्लैट संकेतन
<i>platinotron</i>	<i>Chem, Phy</i>	प्लैटिनोट्रोन	<i>platy</i>	<i>Phy, Geol.</i> 1. पट्टकित, सपाट, चपटा 2. (scale of fissility) पट्टिकाविदली
<i>platinous</i>	<i>Chem</i>	प्लैटिनस	<i>platycarpous</i>	<i>Bot.</i> सपाटफल
<i>platinum</i>		प्लैटिनम	<i>platycephalous</i>	<i>Geol.</i> सपाट गिरत्क
<i>platinum amine</i>		प्लैटिनम ऐमीन	<i>Platycercus</i>	<i>Zool.</i> प्लैटोसर्पस
<i>platinum black</i>		प्लैटिनम कालिख, प्लैटिनम ब्लैक	<i>platycoelous</i>	<i>Zool.</i> प्लैटोसिनस, अधरगती
<i>platinum break</i>		प्लैटिनम विच्छेदक		
<i>platinum clad</i>		प्लैटिनम पट्टित		
<i>platinum foil electrode</i>		प्लैटिनम पत्रक इलेक्ट्रोड		

platyductyl	Zool.	त्रिपिटांगुलि
Platyedra	Zool.	प्लेटियेड्रा
Platyedra gossypiella		प्लेटियेड्रा गॉसिपियेला
platy-flaggy		पट्टकित-पट्टियामय
platy flow structure		पट्टकित प्रवाह संरचना
platy fracture		पट्टकित विभंग
platy habit	Phy.	पट्टिकाकारी प्रकृति
platyhelminth	Zool.	पट्टकिकृमि, पट्टकृमि, प्लेटोहेल्मिन्थ
Platyhelminthes		प्लेटोहेल्मिन्थोज
platykurtic curve	Math.	सपाटकक्रुवी वक्र
platykurtosis		सपाट कक्रुदता
platy lode	Geol.	पट्टकित लोड
platymyrian	Zool.	प्लेटिमाइरियन
platyphyllous	Bot.	सपाटपर्णी
Platyzoa	Zool.	प्लेटोपोडा
platy-pulverescient structure	Geog.	नुरमुरी पट्टित संरचना
Platyrrhina	Zool.	प्लैटोराइना
platyrrhine	Zool.	प्लैटोरइन, आधतनासी
platy shape	Phy.	पट्टिका आकार
platysma	Bot.	प्लैटोस्मा
Platysoma	Zool.	प्लेटोसोमा
Platysomidae		प्लेटोसोमिडी
platysperm	Bot.	त्रिपिटबीज
platyspermic		त्रिपिटबीजी
platyspermy		त्रिपिटबीजता
platy structure	Geol.	पट्टकित संरचना
Platyzoma	Bot.	प्लैटिडोमा
plav	Geog.	प्लैव, नह-अनुप
playa	Geol.	प्लाय
playa lake		प्लाय झील, प्लाय सरोवर
play and game	Math.	श्रीडन और खेल
play back head	Phy.	प्रतिप्रवण शीर्ष
playback loss		प्रतिप्रवणिक हानि
playback system	Geol.	प्रतिप्रवण तंत्र
Playfair's law	Geog.	प्लैफेयर नियम
playing field	Geog.	क्रीड़ा स्थल

playing time		वादनकाल
play of colours	Geol.	वर्ण विलास
pleasing patterns		रोचक प्रतिरूप
pleat	H.Sc., Chem.	1. प्लीट 2. कल्लोल, लहर
pleated	Chem.	कल्लोलित, लहरिया
pleck (= plek)	Geog.	प्लेक
Plecoptera	Zool.	प्लेकोप्टेरा
plecopteran	Zool.	कर्मिपंखी
plectane	Bot.	प्लैक्टेन
plectenchyma	Bot.	आभासी मृदुतक
plectobasidial	Bot.	प्लेक्टोबेसिडियमी
Plectognathi	Zool.	प्लेक्टोगनेथी
plectogyroid	Geol.	प्लेक्टोजाइरान
plectoid	Bot., Geol.	1. प्लेक्टसवत् 2. मिश्रकारी
plectonephric condition	Zool.	जालवृक्कीय अवस्था
plectostele		पट्टितलरम्भ
plectridium	Bot.	मुद्गरकाम
plectrum	Zool.	तन्नाश
pledget	H.Sc.	रुई का फाहा
'Pleiad'		'प्लीआड'
*Pleiades	Astron.	कृत्रिक, प्लायॉडिज
pleiomerous	Bot.	अतिअवयवी
pleiomery		अतिअवयवता
*Pleione (= h Tauri)	Math.	प्लीइओनी (=h वृष, h टाराइ)
pleiopetalous	Bot.	अतिदली
pleiophyllous		अतिपर्णी
pleiospermons		अतिबीजी
pleiotropic	Zool.	बहुप्रभावी
pleiotropic gene		बहुप्रभावी जीन
pleiotropism		बहुप्रभावित्व
pleiotropy		बहुप्रभाविता
Pleistocene epoch	Geol., Zool., Geog.	अत्यंत नूतन युग
Pleistocene Ice Age		अत्यंत नूतन हिमकाल, प्लीस्टोसीन हिमकाल

pleiozeny	Bot.	बहुपरपोषित्व	plesiomorphism	Geol.	समरूपता
Plemelj formula	Math.	प्लेमल्ज-सूत्र	plesiomorphous	Zool	आसन्नरूपी
Pleneta machine	Geog.	प्लेनेटा मशीन	Plesiosauria	Zool	प्लीसिओसॉरिया
plentiful range	Geog.	विस्तृत परिक्षेत्र	Plesiosaurus		प्लीसिओसॉरस
plenum	Phy.	प्लीनम	Plesiotoothis	Geol.	प्लीसियोट्यूथिस
plenum chamber		प्लीनम कोष्ठ	plesiotype	Geol., Zool.	आमन्यरूप
plenus	Bot.	पूर्ण	Plesippus	Zool.	प्लीसिप्पस
pleochroic	Geol., Phy.	बहुवर्णी	Plessy's Green	Chem	प्लेसीग्रीन, प्लेसी हरित
pleochroic halos		बहुवर्णी परिवेश	plethysmograph	Bot	प्लैथिस्मोग्राफ, वामनतंतु घनस
pleochroism	Phy., Geol.	बहुवर्णता	Plethodon	Zool	प्लीथोडॉन
pleochromatic	Bot.	बहुवर्णी	Plethodontidae		प्लीथोडॉन्टिडी
pleocrystalline	Geol.	पूर्णनिस्टली, बहुनिस्टली	plethora	Geog., Chem	बर्धघन्य, बाहुल्य
pleocyte	Zool.	प्लवाणु	plethora theory		बाहुल्य सिद्धान्त
pleocytosis		प्लवाणुता	plethos		बाहुल्य
Pleodorina	Zool	प्लीयोडोराइना	pleura	Zool, Geol.	1. फुफ्फुसावरण, 2. पार्श्वक
pleomorphic	Geol.	बहुरूपी		H.Sc.	परिफुफ्फुस, प्लूर
pleomorphism		बहुरूपता	Pleuracanth	Geog, Zool.	प्लूराकॅन्थ
pleomorphic	Zool.	विविधरूपी	Pleuracanthidae		प्लूराकॅन्थिडी
pleonaste		प्लीथोनेस्ट	Pleuracanthodii (Ichthyotomi)	Zool.	प्लूराकॅन्थोडिआई (इचिथ्योटीमी)
pleophagous	Zool. Bot	अनेकमक्षी बहुपरपोषी	Pleuracanthus decheni	Zool.	प्लूराकॅन्थस डेशेनी
pleopod	Zool., Geol.	प्लवपाद	pleural	Zool, Geol.	1. फुफ्फुसावरणी 2. पार्श्व
pleosporous		बहुवोशणुक	pleural angle		पार्श्व कोण
<i>Pleotrachelus fulgens</i>	Bot	प्लिओट्रेकेलस फलगेन्स	pleural apophysis		पार्श्व विवर्ध
pleotrophic	Bot.	बहुपोषित	pleural cavity		फुफ्फुसावरणी गुहा, पार्श्व गुहा
plerocercoid	Zool.	प्लेरोसर्कोसॉइड, पूर्णपुच्छवाम	pleural ganglia		पार्श्व शुष्णिका
plerocercus	Zool.	प्लेरोसर्कस, पूर्णपुच्छक	pleural gill		पार्श्व क्लोम
plerome		रभञ्जन	pleuralia	Zool, Geol.	प्लूरेलिया, पार्श्वकटिका
plerotic	Bot.	परिपूरक	pleural membrane	Zool.	फुफ्फुस कला
Plesiadapidae	Zool.	प्लीसिऐडैपिडी	pleural nerve cord		पार्श्व तंत्रिका रज्जु
plesioaster	Zool.	प्लीसिओऐस्टर, आमन्यतारक	pleural region		पार्श्व क्षेत्र
plesioibiotic	Zool.	आमन्यजीवी	pleural ridge		पार्श्व कटक
plesiomorph	Zool.	आसन्नरूप	pleural sac		फुफ्फुस कोष
plesiomorphes	Geol.	सदृशासन्न	pleural sclerite		पार्श्व कटक

pleural suture		पार्श्व सीवन	pleuroparietal connective	Zool.	फुफ्फुसपार्श्व संयोजी
pleural wing process		पार्श्व पक्षवर्ध	pleuropedal connective	Zool.	पार्श्वपद संयोजी
Pleuraspidotherium	Zool.	प्लूरैस्पिडोथीरियम	pleuropedal ganglion		पार्श्वपाद गुच्छिका
Pleuridium	Bot.	प्लूरीडियम	pleuroperitoneal cavity	Zool.	परिफुफुस-उदर्या गुहा
pieurion	Zool.	पार्श्वपट्ट	pleuroperitoneum		पार्श्वउदर्या
pleuripotent state	Zool.	बहुशक्त स्थिति	Pleurophyllidia	Zool.	प्लूरोफिलीडिया
pleurite	Zool.	पार्श्वकांश	pleuropodite	Zool.	पार्श्वपादांश
pleuroanthous	Bot.	पार्श्वपुष्पी	pleuropodium	Zool.	भ्रूणोदरपाद
pleurobasidium	Bot.	प्लूरोबेसिडियम	Pleuropterygii	Zool.	प्लूरोप्टेरीजाई
Pleurobrachia	Zool.	प्लूरोब्रेकिया	pleurorhizal	Bot.	पार्श्वमूली
pleurobranch	Zool.	पार्श्वबलोम	pleurosphenoid	Zool.	पार्श्वजतुक
pleurocarp	Bot.	पार्श्वफल	pleurosporous	Bot.	पार्श्वबीजाणवी
Pleurocarpi		प्लूरोकार्पी	pleurostemon	Zool.	पार्श्वस्थिवर्ध
pleurocarpic (=pleurocarpous)		पार्श्वफली	pleurosternal	Zool.	पार्श्वधरकीय
pleurocarpy		पार्श्वफलता	pleurosternite		पार्श्वधरकांश
pleurocentrum	Zool.	पार्श्वकशेरुकाय, पार्श्वकायक	pleurosternum		पार्श्वधरक
pleuro-cerebral connective	Zool.	पार्श्वमस्तिष्क संयोजी	pleurostomatous	Zool.	पार्श्वमुखी
pleuro-cerebral ganglion		पार्श्वमस्तिष्क गुच्छिका	Pleurotaenium clavatum	Bot.	प्लूरोटीनियम क्लेवेटम
pleurococcoïd	Bot.	प्लूरोकोकससम	pleurotin	Chem.	प्लूरोटिन
Pleurococcus	Bot.	प्लूरोकोकस	Pleurotremata	Zool.	प्लूरोट्रिमेटा
Pleurococcus vulgaris		प्लूरोकोकस बल्गेरिस	Pleurotus ostreatus	Bot.	प्लूरोटस ऑस्ट्रिएटस
pleurocoxal	Zool.	पार्श्वकक्षांगी	pleuroventral line	Zool.	पार्श्वक-उदर रेखा
pleurocystidium	Bot.	पार्श्वसिस्टिडियम	pleuro-visceral ganglion	Zool.	पार्श्वतारंग गुच्छिका
Pleurodeles	Zool.	प्लूरोडेलीज	Pleurozia	Bot.	प्लूरोजिया
Pleurodira	Zool.	प्लूरोडिरा	pleuston	Bot.	त्तरप्लवक, महाप्लवक
pleurodont	Zool.	पार्श्वदंती	plexiform	Zool.	जालकरूप
Pleurogona	Zool.	प्लूरोगोना	plexiform nervous system		जालकरूप तंत्रिका तंत्र
pleurolophocercous	Zool.	पार्श्वकटकपुच्छी	plexiglass	Chem.	प्लैक्सिग्लास, प्लैक्सिग्लास
Pleuromeia	Bot.	प्लूरोमाया	plexon	H.Sc.	प्लेक्सॉन
Pleuromeiaceae		प्लूरोमाएसी	plexus	Biol., H.Sc.	जालक, जालिका
Pleuromonas	Zool.	प्लूरोमोनास	pliability	Phy., H.Sc.	जानम्भता
pleuron	Zool.	पार्श्वक	pliable		जानम्य
pleuronematic flagellum	Bot.	पार्श्वमूत्र कशाभ	pliacentin	Chem.	प्लियासेन्टिन

plicant figure	<i>Geog.</i>	लघोली आकृति	plosive consonant		स्पर्श व्यञ्जन
plicant stroke	<i>Geog.</i>	तन्म्य दंड	plot	<i>Math.</i> <i>Geog.</i>	1 भूखण्ड, क्षेत्ररु, प्लॉट 2 आलेख
plica	<i>Zool.</i> <i>Geol.</i>	1. वलिक 2. प्रवलन	plot against	<i>Chem.</i>	सम्मुख अंकन
plica basalis		बाधार वलिक	plot experimentation		भूखण्ड प्रयोगीकरण
plica jugalis		युग्म वलिक	Plotkin's theorem	<i>Math.</i>	प्लॉटकिन प्रमेय
plica palonia		ध्यावृत वलिक, धनीकृत वलिक	plotophyte	<i>Bot.</i>	प्लवनोद्भिद्, प्लवनपादप
plica semilunaris		चन्द्राग्रे वलन	plotted	<i>Geog.</i> , <i>Math.</i> , <i>Geol.</i>	आलेखित
plicate	<i>Geol.</i> <i>Zool.</i>	प्रवलित वलिक्रीय	plotted control		आलेखित नियंत्रण
plicated		प्रवलित	plotted frequency distribution		आलेखित आवृत्ता वितरण
plicate pharynx		वलिक्रीय घ्राणनी	plotter		आलेखित्र
plication	<i>Geol.</i>	प्रवलन	plotting		आलेखन
Plicatula	<i>Bot.</i>	प्लिकेटुला	plotting and planning chart		आलेखन व आयोजन चार्ट
plicatulate	<i>Bot.</i>	सूक्ष्मचटकी	plotting chart		आलेखन चार्ट
plica vannalis	<i>Zool.</i>	पखाभिक वलिक	plotting instrument		आलेखित्र
Plinian activity	<i>Geol.</i>	प्लीनीई सक्रियता	plotting interval		आलेखन अंतराल
plinth	<i>Geog.</i>	प्लिथ	plotting machine		आलेखन मशीन
Pliocene epoch	<i>Geol.</i> , <i>Zool.</i>	अतिनूतन युग	plotting of curve		वक्र का आलेखन
pliofilm	<i>Chem.</i> , <i>H.Sc.</i>	प्लायोफिल्म	plotting plate		आलेखन पट्टिका
plioform resin	<i>Chem.</i>	प्लायोफॉर्म रेजिन	plotting scale		आलेखन स्केल
Pliohippus	<i>Zool.</i>	प्लीओहिप्पस	plough bote	<i>Geog.</i>	हल बोट
pliolepidine	<i>Geol.</i>	प्लायोलेपिडोनासम	ploughed		बोटा हुआ, हल चलाया हुआ
pliolepidine embryo		प्लायोलेपिडिन भ्रूण	ploughing		हल चलाना, जोतना, भुतार्ई
Pliopithecus	<i>Zool.</i>	प्लीओपिथीकस	plough-land		हृष्य भूमि, जोत-भूमि
pliotite	<i>Chem.</i>	प्लाइओटाइट	ploughman		हलवाहा, हृषक
pliotron	<i>Phy.</i>	प्लियोट्रॉन	ploughshare		फाल
plisse	<i>H.Sc.</i>	प्लोसे	plover	<i>Zool.</i>	टिटिट्टरी
plisse crepe		प्लोसे क्रेप	plow	<i>Geog.</i>	हल
ploc	<i>H.Sc.</i>	प्लॉक	plowable land	<i>Geog.</i>	हल चलाने योग्य भूमि
Plocidae	<i>Zool.</i>	प्लोसिडी	plowpan	<i>Bot.</i>	कर्षणाघर स्तर
Plocoscyphia	<i>Geol.</i>	प्लोकोसाईफिया	plow sole	<i>Geog.</i>	हल दुस्तर, कृष्ट हल
plodder	<i>Chem.</i>	प्लॉडर, सारित्र	plucked	<i>Phy.</i>	कपित
<i>Plodia interpunctella</i>	<i>Zool.</i>	प्लॉडिया इन्टरपुंक्टेला	plucked instrument		कपित सनुवाद्य
ploddy		सूत्रगुणता	plucked string		कपित तार
plosive	<i>Phy.</i>	स्पर्श			



Plucker coordinates	Math.	प्लूकर निर्देशांक	plumbiferous	Geol.	सीसाधारी
Plucker's abridged notation		प्लूकर का संक्षिप्त संकेतन	plumbing		नलकर्म
plucking (of rocks)	Geol.	उत्पाटन	plumbing fork	Geog.	साहुल कांटा
plucking (of a string)	Phy.	कर्षण	plumbite	Geol.	प्लम्बाइट
plucky	Geol.	उत्पाटी	plumb line	Geog.	साहुल सूत्र
plug		1. ढाट 2. प्लग	plumbosolvency	Chem.	सीस-विलेयता
plugboard diagram		प्लगबोर्ड-आरेख	plumbous	Geol.	सीसायुक्त
plug cushion technique		प्लग-कुशन प्रविधि	plumb point	Geol.	साहुल बिन्दु
plug dome		प्लग गुम्बद	plumbsol	Chem.	प्लम्बसॉल
plug formation		प्लग-रचना	plumbum	Chem.	सीस, सीसा
plugging	Chem. (Met.)	पिघायन	plum dieback	Bot.	बालूबुखारे का शीपॅरंभी क्षय, बालूबुखारे का पश्चक्षय
plugging cotton		ढाटवाली रई	plume	Zool.,Phy.	1. पिच्छ 2. पिच्छक
plug-in unit		प्लगनीय एकक	plume moth		पिच्छकी शलभ
pluma	Zool.	अधिपिच्छ	plumetis	H.Sc.	प्लुमेटिस
plumage	Zool.	पक्षति	plumicome	Zool.,Geol.	प्लूमीकोम, पिच्छगुच्छक
<i>Plumaria acutifolia</i>		प्लमैरिया ऐक्यूटिफोलिया	plumicorn	Zool.	पिच्छगुंग
plumate	Zool.	पिच्छकी	plumigerous	Zool.	पिच्छवान
plumb	Math.	साहुल	plumiliform	Zool.	पिच्छकाकार
Plumbagella		प्लम्बैगिला	plum leaf spot	Bot.	बालूबुखारे की पर्ण क्षति
plumbagin	Bot.	प्लम्बैजिन	plummet	Geog.	साहुल
Plumbaginaceae	Bot.	प्लम्बैजिनेसी	plummet hook	Geog.	साहुल कांटा
Plumbago	Bot.	प्लम्बैगो	plumose	Biol.	पिच्छकी
<i>Plumbago auriculata</i>		प्लम्बैगो आरीकुलेटा	plumose antenna		पिच्छकी श्रृंगिका
<i>Plumbago indica</i>		प्लम्बैगो इन्डिका	plumose hair		पिच्छकी रोम
<i>Plumbago zeylanica</i>		प्लम्बैगो जेलनिका	plumosite	Geol.	प्लूमीसाइट
plumbane	Chem.	प्लम्बेन	plumosity	Zool.	पिच्छकता
plumbate	Chem.	प्लम्बेट	plump	Geog.	स्यूल
plumb bob	Geog.	1. साहुल 2. साहुलपिंड	plump back worm	Zool.	प्लम्प बैक वृमि, स्यूल पूछ वृमि
plumber's solder		नलकारी संधानक, प्लम्बर-सोल्डर	plump-cheeked carnivore	Geog.	स्यूल-नाल मांसाहारी
plumbeus	Bot.	सीसावर्णी	plumping	Chem. (Leath.)	संस्यूलन
plumbic acid	Chem.	प्लम्बिक अम्ल, प्लम्बिक ऐसिड	plum rain	Geog.	प्लम वर्षा
			plum sauce	H.Sc.	प्लम सॉस

plumulaceous	Zool	कोमलपिच्छी	pluriseptate	Zool.	अनेकपटीय
Plumularia	Geol	प्लुमुलैरिया	pluriserial	Zool	अनेकपत्रिक
plumule	Bot Zool.	1. प्राकुर 2. कोमलपिच्छ	plurisporeous	Bot	बहुबीजी
plunge	Geol	1. अवनमन 2. निमज्जन	pluristratose	Bot	बहुस्तरीय
plunge a grade	Geol.	हाल निर्धारण	plurivalent	Zool	अनेकयुग्मी
plunge pool	Geog., Geol	प्रपात-कुड	plurivorous	Bot	बहुभक्षी
plunge-pool back scour	Geog.	प्रपात गर्त पश्च निर्घर्ष	plus	Math.	धन
plunger	Phy., Geol., Chem.	प्लजर, निमज्जक	plus formula		धन-सूत्र
plunger feeder		प्लजर सभरक	plush	H Sc	प्लश
plunger jig		प्लजर जिग	plush copper	Geol	प्लश ताम्र
plunger type colorimeter		प्लजर-प्ररूप वर्णमापी	plushette	H Sc	प्लशेट
plunging cliff	Geog., Geol	निमज्जी भूगु	plush stitch	H.Sc	प्लश टाका
plunging fold	Geol.	अवनमनी वलन	plus mesh	Chem. (Met)	धन जालाक्षि
plunging nappe		अवनमनी नापे	plus-pressure process	Geol	अति दाब प्रक्रम
plunging syncline		अवनमनी अभिनति	plus strain		धन विभेद
plunging terrace		निमज्जी वेदिता	plus zone		धन चिह्न क्षेत्र
plunging the telescope	Geog	दूरदर्शी अवनमन	pluteal arm	Zool.	प्लूटियली भुजा
plural production	Phy.	बहुल उत्पादन	plutei transversi	Zool	प्लूटिआई ट्रान्सवर्साई
plural scattering		बहुल प्रकीर्णन	Plutella maculipennis	Zool	प्लटेला मैकुलिपेनिस्
pluramelt process	Chem	प्लुरामेल्ड प्रक्रम	Plutellus	Zool	प्लूटेलम
pluricellular	Bot.	बहुकोशिकीय	pluteus	Zool., Geol.	प्लूटियस
pluriceps	Bot.	बहुमुखी	pluteus skeleton		प्लूटियस कवच
pluricotily	Bot.	बहुबीजपत्रता	Pluto		प्लूटो
pluriflorous	Bot	बहुपुष्पी	plutogenic movement	Geol.	विनरजन संचनन
plurifoliate	Bot.	बहुपर्णी	pluton	Geol	प्लूटॉन
plurifolious		बहुपर्णी	plutonate		प्लूटोनेट
plurilobed	Zool	बहुपालिक	plutonic association	Geol., Geog	वितलीय साहचर्य
plurilocular sporangium	Bot	बहुकोष्ठी बीजाणुधानी	plutonic breccia		वितलीय सक्तीणारम
plurinuclear	Zool	अनेककेन्द्रकी	plutonic cognate ejecta		वितलीय सजात बहि क्षेप
pluriparous	Zool	अनेकप्रज	plutonic complex		वितलीय जटिलसमूह
pluripetalous	Bot.	बहुदली	plutonic consolidation		वितलीय सघिड
pluripolar	Zool	अनेकध्रुवी	plutonic earthquake		वितलीय भूकम्प
plurisegmental	Zool.	अनेकखंडीय	plutonic fabric		वितलीय सविन्यास
			plutonic gabbro		वितलीय गैब्रो
			plutonic metamorphism		वितलीय नापाकरण

plutonic ore deposit		वितलीय अयस्क निक्षेप	p-n boundary	Phy.	p-n सीमा
plutonic plug		वितलीय प्लग	pneudraulic	Phy.	जलवातीय
plutonic provenance		वितलीय उद्गम	pneumadium	Bot.	1. रंघ्रोतक, वातरंघ्र 2. वायव मूल
plutonic rock		वितलीय शैल	pneumatically driven	Phy.	वायुचालित
plutonic theory	Geog., Geol.	मैग्मज सिद्धान्त	pneumatic bone	Zool.	वातिल अस्थि
plutonism	Geol., Geog.	मैग्मी संक्रिया	pneumatic circuit	Chem.	वात परिपथ, वातिल परिपथ
plutonist	Geol.	अग्निवादी, मैग्मावादी	pneumatic concentration	Geol.	वातीय सांद्रण
plutonium	Phy., Chem., H.Sc.	प्लूटोनियम	pneumatic concentrator		वातीय सांद्रक
plutonium reactor		प्लूटोनियम रिऐक्टर	pneumatic conveying		वातीय संवहन
plutonometamorphism	Geol.	वितलीय कायांतरण	pneumatic dryer	Chem.	वात-शुष्किक
plutonyl salt		प्लूटोनिल लवण	pneumatic duct	Zool.	वाताशय वाहिनी
pluvial	Geog., Bot., Geol.	वृष्टीय	pneumatic flotation machine	Geol.	वातीय प्लवन मशीन
<i>Pluvialis dominica</i>	Zool.	प्लूविएलिस डोमिनिका (छोटा वाटन)	pneumatic foramen	Zool.	वातिल रंघ्र
<i>Pluvialis squataola</i>		प्लूविएलिस स्क्वैटओला	pneumaticity	Zool.	वातिलता
pluvial period	Geog.	प्लूवियल काल	pneumatic printing frame	Geog.	वातीय प्रिंटिंग फ्रेम
pluvilignosa	Bot.	वर्षाकाष्ठिलादि	pneumatic quicksand	Geol.	वातीय चोर रेत
pluviograph	Geog.	प्लूवियोग्राफ, वर्षा-अरेख	pneumatics	Phy.	गैसयांत्रिकी
pluviometer	Geog.	प्लूविओमीटर, वर्षामापी	pneumatic stamp		वातीय स्टैम्प
pluviometric	Geog.	वर्षामापीय	pneumatic trough		गैस द्रोणिका
pluviometric coefficient	Geog.	वर्षामापीय गुणांक	pneumatocodon	Zool.	बहिर्वातभिन्ती
pluviusylva	Geog.	प्लूवीसिल्वा	pneumatocyst	Bot., Zool., Geol.	वातपुटी
ply	Chem. (Gl.) H.Sc.	1. स्तर 2. सूत, प्लाई	pneumatod	Bot.	1. आर्द्रताग्राही गुंठिका 2. रंघ्रोतक, वातरंघ्र
plymax	Chem. (Met.)	प्लाइमेक्स	pneumatogastric nerve	Zool.	फुफ्फुस-जठर तंत्रिका
plymetal	Chem. (Met.)	प्लाइघातु	pneumatogenetic inclusion	Geol.	वाष्पजनित अंतर्वेश
ply rolling (pack rolling)	Chem. (Met.)	स्तर वेल्लन	pneumatogenic	Geol.	वाष्पजनित
plywood	Geog., H.Sc.	प्लाईवुड, परती लकड़ी	pneumatolysis	Geol.	वाष्पखनिजन
plywood molding	Chem.	प्लाईवुड संचन, प्लाई लकड़ी संचन, स्तर काठ संचन	pneumatolytic metamorphism		उष्णवाष्पीय
ply yarn	H.Sc.	प्लाई सूत्र	pneumatolytic phase		उष्णवाष्पीय प्रावस्था
			pneumatophore	Bot.	1. श्वसन-सुल 2. वात पुटीघर

pneumatopore	Zool	वातरंध	Podaraceae	Bot.	पोडैस्सेसी
pneumatofoccus	Zool	बस्त्रवर्तमिति	Podbielnak process	Chem	पोडबीलिअक प्रक्रम
pneumatic		वातिल, गैसिल	pod borer	Zool	शिश्व वेधक
pneumococci		प्यूमोकोकाइ	pod distorting virus	Bot	फली विरूपी वाइरस
pneumogastric ganglion	Zool.	श्वासजठर-गुच्छिका	podeon	Zool.	बृतोदर
pneumonia	H.Sc., Zool.	प्यूमोनिया	podetium	Bot	प्रवृत
pneumostome	Zool.	वातमुख	podial ampulla	Zool	पदीय त्रुविका
pneumotectic	Geol	वाष्पमैग्मी	podial apparatus		पदीय समुच्चय
pneumotectic deposit		वाष्पमैग्मी निक्षेप	podial canal		पदीय नाल
pneumotropic	Zool.	श्वासप्रभावी	podial plate		पदीय पट्टिका
p-n-i-p transistor	Phy.	p-n-i-p ट्रांजिस्टर	podial region		पदीय क्षेत्र
p-n-i-p triode transistor		p-n-i-p ट्रायोड ट्रांजिस्टर	podical plate	Zool	गुद पट्टिका
p-n junction	Phy	p-n संधि	Podicipedidae	Zool	पोडीसिपेडिडी
Poa	Bot.	पोआ	Podicipes	Zool	पांडीसिपोज
poach	H.Sc.	पोच (करना)	Podicipitiformis		पोडीसिपिटिफॉर्मिस
poached egg		पोच अंडा	podite	Zool	पादांग
poacher		पोचर	podium	Zool	पादक
pochard	Zool.	पोचार्ड, मज्जिका	podobranchia	Zool.	पादबल्लोम
pocket		1 कोटरिका 2. आनरनिश्रम 3 ससाधित कांडं पुजक 4 जेब, पॉकेट	Podocarpinol	Chem.	पांडोकार्पिनॉल
pocket antenna	Phy.	जेबी एन्टेना	podocarpoid pit	Bot	पोडोकार्पसाम गर्त
pocket beach		कोटरमय पुलिन	Podocarpus		पोडोकार्पस
pocket deposit		कोटरिका निक्षेप	Podocarpus dacrydioidis		पोडोकार्पस डेक्रोडिओडीज
pocket drill	H Sc.	पॉकेट ड्रिल	podocyst	Zool	पदपुटी
pocket instrument	Geog	जेबी यंत्र	podocyte	Zool.	पदाणु
pocket-penitent	Geog.	पॉकेट पेनिटेन्ट	pododerm	Zool	पदचर्म
pock mark	H Sc.	चेचक चिह्न, ममूरिका चिह्न	podomere	Zool, H Sc.	पादखंड
pocky cloud	Geog	स्तनाम मेघ	Podomitrium	Bot	पोडोमिट्रियम
pocono blue	Chem.	पोकोनो नील, पोकोनो ब्लू	Podophrya	Zool.	पोडोफ्रिया
pocosin	Bot.	पोकोसिन	Podophyllum emodi	Bot	पोडोफिलम एमोडाइ
pod	Bot.	फली, शिम्ब	Podophyllum hexandrum		पोडोफिलम हेक्सैन्ड्रम
Podargidae	Zool.	पोडार्गिडी	Podophyllum peltatum		पोडोफिलम पेल्टैटम
Podargus		पोडार्गस	podosome	Zool.	पदशाय
			podotheca	Zool.	पादावरक
			Pod rot	Bot.	फली विगलन

podsol	<i>Bot., Geog., Geol.</i>	पॉडसॉल	poikilit	<i>Geol.</i>	प्वाँयकिलिट
podsollic soil		पॉडसाली मृदा	poikilitic		लघुक्रिस्टल अंतर्वेशी, प्वाँयकिलिटिक
podsolised soil	<i>Geol.</i>	पाडसोलीभूत मृदा	poikiloblastic		प्वाँयकिलोब्लास्टी
pod sucking bug	<i>Zool.</i>	शिम्वचूपी मत्सुण	poikilocyte	<i>Zool.</i>	विकृताणु
Poduroidea	<i>Zool.</i>	पोडुराँडिया	poikilocytosis		विकृताणुता
podzol	<i>Zool., Geog., Bot.</i>	पाडजोल	poikilophitic	<i>Geol.</i>	मिश्रक्रिस्टल अंतर्वेशी, प्वाँयकिलोफिटिक
podzolised zone	<i>Geog.</i>	पाडजोलीभूत क्षेत्र	poikilophitic texture		प्वाँयकिलोफिटिक गठन
podzolization	<i>Geog., Geol., Bot.</i>	पॉडजोलीभवन	poikilopyrite	<i>Geol.</i>	प्वाँयकिलोपाइराइट
Poebrotherium	<i>Zool.</i>	पिन्नोथोरियम	poikilosmotic	<i>Zool.</i>	असमपरासरणी
poecilitic	<i>Geol.</i>	पोकिलिटिक	poikilosmoticity		असमपरासरणता
poecilitic texture		पोकिलिटिक गठन	poikilothermous	<i>Zool.</i>	असमतापी
poeciloblastic	<i>Geol.</i>	पोकिलोब्लास्टी	poikilothermy		असमतापता
<i>Poeciloneuron indicum</i>	<i>Bot.</i>	पोइसिलोन्यूरॉन इन्डिकम	poil	<i>H.Sc.</i>	पोइल
poelage	<i>H.Sc.</i>	पोइलेज	Poincare group	<i>Math.</i>	प्वाँकारे समूह
poelon	<i>H.Sc.</i>	पोइलॉन	Poincare's inequality		प्वाँकारे-असमिका
poeneite	<i>Geol.</i>	पोनाइट	Poincare's theorem		प्वाँकारे-प्रमेय
Poggendorff cell	<i>Chem.</i>	पोगेन्डॉफ सेल	point		विंदु, अंक
Poggendorff's compensation method		पोगेन्डॉफ संपूरक विधि	point accuracy		विंदु-यथार्थता
<i>Pogostemon pachtouli</i>		पोगोस्टेमन पचौलाई	point at infinity		अनंतस्य विंदु
<i>Pogostemon plectranthoides</i>		पोगोस्टेमन प्लेक्ट्रान्थाइडीज	point atom		विन्दु परमाणु
Pogson's formula	<i>Math.</i>	पॉगसन-सूत्र	point bar		विसर्पी रोधिका
poh	<i>H.Sc.</i>	पो	point biserial correlation		विन्दु द्विश्रेणिक सहसंबंध
Pohlhausen's quartic profile	<i>Math.</i>	पाल्हाउसन की चतुर्घाती परिच्छेदिका	point brode	<i>H.Sc.</i>	प्वाईट-ब्रोड
Pohlhausen's temperature profile		पाल्हाउसन की ताप परिच्छेदिका	point charge		विंदु आवेश
Pohlman liquid whistle	<i>Chem.</i>	पोलमान द्रव सीटी	point charge electron		विन्दु आवेश इलेक्ट्रॉन
poi	<i>H.Sc.</i>	पोई	point circle		विंदु वृत्त
poic	<i>Bot.</i>	घासस्थली	point conic		विंदु शांकव
poide	<i>Phy.</i>	पोजाइड वक्र	point contact diode		विंदु संपर्क डायोड
poidometer	<i>Chem. Geol.</i>	प्वाइडोमीटर	point contact transistor		विंदु संपर्क ट्रांजिस्टर
			point coordinates		विंदु-निर्देशांक
			point coordinates of Wierstrauss		वायस्ट्रास के विन्दु-निर्देशांक
			point counter	<i>Phy.</i>	सूच्य गणित, तीक्ष्णाग्नी गणित

point d' arret		विराम बिन्दु	point of infinite discontinuity		अनन्त असातत्य बिन्दु
point defect		बिन्दु त्रुटि	point of intersection		प्रतिच्छेद बिन्दु
point density		बिन्दु घनत्व	point of linear invariability		रैखिक अचरत्व बिन्दु
point diagram		बिन्दु आरेख	point of mixed discontinuity		मिश्र असातत्य बिन्दु
point dipole		बिन्दु द्विध्रुव	point of non-summability		असकलनीयता बिन्दु
pointed twill	H.Sc.	नोकदार रेखिका, नोकदार ट्विल	point of non-uniform convergence		नैकसमान अभिसरण बिन्दु
pointed zigzag twill		नोकदार टेडी मेडी रेखिका	point of observation		प्रेक्षण बिन्दु
point electrode		बिन्दु इलेक्ट्रोड	point of osculation		सन्नतिपरिवर्तन बिन्दु
point electrode method		बिन्दु इलेक्ट्रोड विधि	point of projection		प्रक्षेप बिन्दु
point electron		बिन्दु इलेक्ट्रॉन	point of rarefaction		विरलन-बिन्दु
point equation		बिन्दु समीकरण	point of rest		विराम बिन्दु
pointer	Geog.	सकेतक, सूचक	point of solstice		अदनात बिन्दु
point estimate		बिन्दु आकल	point of striction		केन्द्रीय बिन्दु
point estimation		बिन्दु आकलन	point of suspension		निलम्बन बिन्दु
point event		घटना-बिन्दु	point of unbounded variation		अपरिबद्ध विचरण बिन्दु
point finite cover		बिन्दु-परिमित आवरण	point of uniform convergence		एकसमान अभिसरण बिन्दु
point focus		बिन्दु फोकस	pointolite lamp		पाइटोलाइट लैम्प
point function		बिन्दु-फलन	point open topology	Math	बिन्दुश सस्यति
point-group symmetry		बिन्दु-समूह सममिति	point operation		बिन्दु सक्रिया
point harmonic		बिन्दु प्रसवादी	point particle		बिन्दु कण
point imperfection		बिन्दु अपूर्णता	point performance problem		बिन्दु निष्पादन समस्या
point lattice		बिन्दु जालक	point plotting		बिन्दु आलेखन
point like ion		बिन्दुसम आयन	point reciprocation		बिन्दु मूलक व्युत्क्रमण
point mass		बिन्दु सहति	point sampling		बिन्दु प्रतिचयन
point mutation		बिन्दु उन्परिवर्तन	point set		बिन्दु समुच्चय
point object		बिन्दु विम्ब	point-singularity		बिन्दु विचित्रता
point of accumulation		गुच्छ बिन्दु	point slope method		बिन्दु प्रवणता विधि
point of analyticity		विश्लेषिकता बिन्दु	point source		बिन्दु स्रोत
point of condensation		सघनन बिन्दु	point spectrum		बिन्दु मानावली
point of contrary flexure		ननि परिवर्तन बिन्दु	point symmetry		बिन्दु सममिति
point of control		नियन्त्रण बिन्दु	point system		बिन्दु पद्धति
point of density		घनत्व बिन्दु			
point of equinox		द्विध्रुव बिन्दु			
point of incidence		आघनन बिन्दु			
point of infection		सङ्क्रमण बिन्दु			

point to point radio communication	<i>Phy.</i>	स्थल स्थल रेडियो संचरण	poison setae		विष शूक
point to point wiring		विन्दुशः तारकरण	poison spine		विष शूल
point ture	<i>H.Sc.</i>	प्वाइंट टर्क	Poisson adiabatic	<i>Math., Chem.</i>	प्वासों-रूढोप्म
point vortex		विन्दु घ्रमिल	Poisson arrival		प्वासों बंटनी आगमन
pointwise bounded family	<i>Math.</i>	विन्दुशः परिवद्ध परिवार	Poisson assumption		प्वासों बंटनी कल्पना
pointwise closed		विन्दुशः संबृत	Poisson Boltzmann equation		प्वासों बोल्ड्समान समीकरण
pointwise closure		विन्दुशः संवरक	Poisson bracket		प्वासों कोष्ठक
pointwise convergence		विन्दुशः अभिसरण	Poisson distribution		प्वासों बंटन
pointwise discontinuous function	<i>Math.</i>	विन्दुशः असंतत फलन	Poisson fashion		प्वासों बंटनी निधि
pointwise discontinuous null function	<i>Math.</i>	विन्दुशः असंतत शून्य फलन	Poisson integral		प्वासों समाकल
pointwise topology	<i>Math.</i>	विन्दुशः संस्थिति	Poisson problem		प्वासों की समस्या
poiret twill	<i>H.Sc.</i>	प्वारे ट्वील	Poisson's distribution		प्वासों बंटन
poise		प्वाज	Poisson's equation		प्वासों समीकरण
poiser	<i>Zool.</i>	सन्तोलक	Poisson's exponential binomial limit		प्वासों की चरघातांकी द्विपद सीमा
Poiseuille equation		प्वाज्य समीकरण	Poisson's integral formula		प्वासों समाकल सूत्र
Poiseuille flow	<i>Math.</i>	प्वाज्य प्रवाह	Poisson's parenthesis		प्वासों कोष्ठक
Poiseuille's law		प्वाज्य नियम	Poisson's ratio		प्वासों अनुपात
poison		विष	Poisson's summation		प्वासों-संकलन
poison claw	<i>Zool.</i>	विष नखर	Poisson table		प्वासों सारणी
poisoned	<i>Phy.</i>	दूषित	poker	<i>H.Sc.</i>	अंगार शलाका, सीक कुरेदनी
poisoned arrow		विषाक्त तीर	Polacanthus		पोलाकैथस
poisoned bait	<i>Zool.</i>	विषाक्त विलोभक	polana	<i>H.Sc.</i>	पोलाना
poison fang		विष दंत	polar		(n.) ध्रुवी (adj.) ध्रुवीय
poison gland		विष ग्रंथि	polar air		ध्रुवीय वायु
poison gland cell		विष ग्रंथि कोशिका	polar angle		ध्रुवीय कोण
poisoning	<i>Phy., H.Sc.</i>	विषाक्तन	polar aurora		ध्रुवीय ज्योति
poisoning computer		विषाक्तन परिकल्पित, विषाक्तन कम्प्यूटर	polar axis		ध्रुवीय अक्ष
poisoning predictor		विषाक्तन पूर्व सूचक	polar boss		ध्रुवीय बॉस, पोलर बॉस
poison jaw		विष हनु	polar body		ध्रुवीय काय
poisonous	<i>Chem., Biol., H.Sc.</i>	विषाक्त, विषैला	polar candle power	<i>Phy.</i>	दिशिक कैंडल शक्ति
poisonous snake		विषैला सांप	polar cap		ध्रुवीय टोपी
			polar capsule		ध्रुवीय संपुट
			polar cleft		ध्रुवीय विदर

polar component		ध्रुवीय घटक	polarisable micro-electrode		ध्रुवणीय सूक्ष्म इलेक्ट्रोड
polar compound		ध्रुवीय यौगिक	polarisation		ध्रुवण
polar coordinate		ध्रुवीय निर्देशांक	polarisation charge		ध्रुवण आवेश
polar crystal		ध्रुवीय क्रिस्टल	polarisation electron		ध्रुवण इलेक्ट्रॉन
polar curve		ध्रुवीय वक्र	polarisation ellipse		ध्रुवण दीर्घवृत्त
polar decomposition		ध्रुवीय वियोजन	polarisation energy		ध्रुवण ऊर्जा
polar deflection angle		ध्रुवीय विक्षेपी कोण	polarisation factor		ध्रुवण गुणक
polar developable		ध्रुवी विकामनीय	polarisation filter		ध्रुवण फिल्टर
polar diagram		ध्रुवी आरेख	polarisation identity		ध्रुवण सर्वसमिका
polar diameter		ध्रुवीय व्यास	polarisation microscope		ध्रुवण सूक्ष्मदर्शी
polar dielectrics		ध्रुवी डाइलेक्ट्रिक	polarisation of core		कोर का ध्रुवण
polar distance		ध्रुवीय दूरी	polarisation of dielectric		परार्थित का ध्रुवण, डाइलेक्ट्रिक का ध्रुवण
polar easterlies		ध्रुवीय पूर्वोपवन	polarisation potential		ध्रुवण विभव
polar equation		ध्रुवीय समीकरण	polarisation vector		ध्रुवण सदिश
polar eskimo		ध्रुवीय एस्कीमो	polariscope	<i>Phy</i>	ध्रुवणदर्शी, पोलैरिस्कोप
polar face		ध्रुव मुख	polarise	<i>Phy.</i>	ध्रुवित करना, ध्रुवित होना
polar field		ध्रुवीय क्षेत्र	polarised component		ध्रुवित घटक
polar filament		ध्रुवीय तंतु	polarised dielectric		ध्रुवित परार्थित, ध्रुवित डाइलेक्ट्रिक
polar flagellum	<i>Biol</i>	ध्रुवीय कशाभ	polarised indicator electrode		ध्रुवित सूचक इलेक्ट्रोड
polar flattening		ध्रुवीय सपटापन	polarised light		ध्रुवित प्रकाश
polar front		ध्रुवीय वाताग्र	polariser	<i>Phy., Geol</i>	ध्रुवक, ध्रुवणद्वार
polar group		ध्रुवीय वर्ग, जलविनैय वर्ग	polarising angle		ध्रुवण कोण
polar hyperplane		ध्रुवी ऊतविम समतल	polarising filter		ध्रुवण फिल्टर
polarian	<i>H Sc.</i>	पोनेरियन	polarising metallographic method		ध्रुवण धातु-चित्रण विधि
polaribilocular		ध्रुव द्विकोष्ठी	polarising microscope		ध्रुवण सूक्ष्मदर्शी
polar ice		ध्रुवीय बर्फ	polarising petrographic method		ध्रुवण शैलदर्शनात्मक विधि
polar ice cap		ध्रुवीय हिमच्छद	polarising voltage		ध्रुवण वोल्टता
polarilocular	<i>Bot.</i>	ध्रुवकोष्ठी	polarity	<i>Phy., Geol.</i>	ध्रुवणा
polarimeter	<i>Phy., Geol</i>	ध्रुवणमापी	polarity units	<i>Bot.</i>	ध्रुवण आरमक
polarimetry	<i>Phy.</i>	ध्रुवणमिति	polarizability	<i>Geol.</i>	ध्रुवणीयता
polar integral equation		ध्रुवीय समाकल समीकरण			
*Polaris (= $\alpha$ Ursae Minoris)	<i>Astron.</i>	ध्रुवतारा, पोनेरिस (= $\alpha$ अर्मी माइनोरिस)			
polarisability	<i>Phy.</i>	ध्रुवणता			
polarisability tensor		ध्रुवणीयता प्रदिश			



polarizability ellipsoid		ध्रुवपता दीर्घवृत्तज	polar planimeter		ध्रुवीय क्षेत्रफलमापी, ध्रुवीय प्लेनीमीटर
polarization binding		ध्रुवण बन्धन	polar plasm		ध्रुवीय द्रव्य
polarization catastrophe		ध्रुवण विपात	polar plug		ध्रुवीय प्लग
polarization colour		ध्रुवण वर्ण	polar radius		ध्रुवीय त्रिज्या
polarization correction		ध्रुवण संशोधन	polar radius of earth		पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या
polarization ellipsoid		ध्रुवण दीर्घवृत्तज	polar ray		ध्रुवीय किरण
polarization of electrode		इलेक्ट्रोड ध्रुवण	polar reciprocal		ध्रुवीय व्युत्क्रम
polarization potential		ध्रुवण विभव	polar region		ध्रुवीय प्रदेश
polarization resistance		ध्रुवण प्रतिरोध	polar sea		ध्रुवीय समुद्र
polarizing microscope		ध्रुवण सूक्ष्मदर्शी	polar semiconductors		ध्रुवीय अर्धचालक
polarizing power		ध्रुवण क्षमता, ध्रुवण सामर्थ्य	polar set (=polar)		ध्रुवी समुच्चय, ध्रुवी
polarizing voltage		ध्रुवण बोल्टता, (=संग्राही विभव)	polar solvent		ध्रुवीय विलायक
polar lamella		ध्रुवी पटलिका	polar star	Geog.	ध्रुवतारा
polar lattice		ध्रुवी जालक	polar subnormal		ध्रुवीय अधोलम्ब
polar line		ध्रुवी रेखा	polar subtangent		ध्रुवीय अध:स्पर्शी
polar molecule		ध्रुवी अणु	polar tangential coordinates		ध्रुवीय स्पर्शीय निर्देशांक
polar moment of inertia		ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण	polar transport		ध्रुवीय गमन
polar number		ध्रुवीय संख्या	polar vector		ध्रुवीय सदिश, ध्रुवीय वेक्टर
polarogram		पोलेरोग्राम	polar viscosity		ध्रुवीय श्यानता
polarograph		ध्रुवण लेखी, पोलेरोग्राफ	polar vortex		ध्रुवीय भ्रमिल
polarographic analysis		पोलेरोग्राफीय विश्लेषण	polar wandering		ध्रुवीय परिभ्रमण
polarographic reduction		पोलेरोग्राफीय अपचयन, ध्रुवणलेखी अपचयन	polar willow		ध्रुवीय विलो
polarographic wave		पोलेरोग्राफीय तरंग, ध्रुवणलेखीय तरंग	polar wind		ध्रुवीय पवन
polarography		पोलेरोग्राफी	polar zenithal equal area projection		ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप
polaroid	Phy.	पोलेरॉइड	polar zenithal projection		ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप
polarometric	Chem.	ध्रुवणमापी, पोलेरोमितीय	poldavy	H.Sc.	पॉल्डेवी
polaron	Phy., Chem.	ध्रुवॉन, पोलेरॉन	polder	Geol., Geog.	पोल्डर
polar permeability		ध्रुवीय पारगम्यता	pole		1. ध्रुव 2. (of function) अनन्तक 3. (computer) संपर्कक 4. (measure) पोल
polar piece		ध्रुवीय लोहखंड	pole cat	Zool.	मार्जॉरिका
polar plane		ध्रुवीय समतल	pole cell	Zool.	ध्रुव कोशिका

pole cluster		ध्रुव गुच्छ	poliomyelitis	Zool., Chem., H.Sc.	पोलियोमेररन्कुलोस (पोलियोमाइनिटिस)
pole curve		ध्रुव वक्र	poliovirus	Zool.	पोलियोविषाणु (पोलियोमेररन्कु लोस विषाणु)
"pole" dislocation		ध्रुव प्रक्षय	poliovirus vaccine	Zool.	पोलियोवाइरस टीका, पोलियोविषाणु टीका
pole effect		ध्रुव प्रभाव	polish	Chem., Geol., H.Sc.	पोलिश
pole gap		ध्रुव अंतराल	polishing	Chem., H.Sc.	1 चकासन 2. पॉलिश करना
polehode		लुठिजा	polishing agent		प्रभाचक, पॉलिशकारी
polehode cone		लुठिजा शंकु	polishing iron		पॉलिश इस्त्री
Polemoniaceae	Bot.	पोलिमोनिएसो	polishing press		पॉलिशकारी निपीडक, पॉलिशकारी प्रेस
Polemoniales		पोलिमोनिएलीज	polishing slate		पॉलिश-स्लेट
Polenske process	Chem.	पोलेन्स्के प्रक्रम	polishing stone		पॉलिश-प्रस्तर
Polenske value		पोलेन्स्के मान	Polish rug	H.Sc.	पॉलिश रग
polenta	H.Sc.	पोलेंटा	Polistes	Zool.	पॉलिस्टीस
pole of cleavage		विदलन ध्रुव	political	Geog.	राजनीतिक
pole of inaccessibility		अगम्यता ध्रुव	political allegiance		राजनीतिक निष्ठा
pole of involution		अंतवर्तन ध्रुव	political alliance		राजनीतिक संधि
pole of joints		संधि ध्रुव	political bargaining		राजनीतिक सौदागरी
pole of order-n		n-घात अंनतक	political boundary		राजनीतिक सीमा
pole of the ecliptic		रुद्रव, ऋतुवृत्त का ध्रुव	political character		राजनीतिक प्रकृति
pole of wave front		तरंगामुखी, तरंगध्रुव	political cleavage		राजनीतिक विदलन
pole pieces		ध्रुवीय खंड	political cohesion		राजनीतिक सघनन
pole signal	Geog.	ध्रुवीय निशान	political community		राजनीतिक सम्प्रदाय
pole singularity		ध्रुव वैचित्र्य	political concentration		राजनीतिक सघनन
polestar	Geog.	ध्रुवतारा	political division		राजनीतिक खंड
pole strength		ध्रुव प्राबल्य	political domination		राजनीतिक आधिपत्य
pole tip		ध्रुवश	political economy		राजनीतिक व्यवस्था
poleward		ध्रुवध्रुव	political end		राजनीतिक उद्देश्य
poleward march		ध्रुवध्रुव गमन	political entity		राजनीतिक सत्ता
polianite	Geol.	पोलियेनाइट	political federation		राजनीतिक संघ
Polian vesicle	Zool.	पोलीय बालय	political force		राजनीतिक बल
policeman	Chem.	पुलिसमैन	political geographer		राजनीतिक भूगोलवेत्ता
policy function	Math.	नीति कलन			
policy holder	H.Sc.	पॉलिसीधारी			
policy making		नीति निर्माण			
policy-space		नीति समष्टि			
policy variables		नीति अर			
polling	Chem.	दह विनोदन			

political geography		राजनीतिक भूगोल	pollen		पराग
political globe		राजनीतिक ग्लोब	pollen analysis		पराग विश्लेषण
political group		राजनीतिक दल	pollen basket		पराग करंड
political hierarchy		राजनीतिक पदानुक्रम	pollen-bearing		पराग-धारी
political instability		राजनीतिक अस्थिरता	pollen chamber		पराग कोष्ठ
political map		राजनीतिक मानचित्र	pollen cushion		पराग तल्प
political official		राजनीतिक पदाधिकारी	pollen-diagram		पराग वारख
political pattern		राजनीतिक प्रतिरूप	pollen dimorphism		पराग द्विरूपता
political regionalism		राजनीतिक प्रादेशिकता	pollen grain		परागकण
political repercussion		राजनीतिक प्रतिक्रिया	polleniferous		परागधर
political salvation		राजनीतिक मुक्ति	pollen morphology		परागाकारिकी
political set-up		राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक ढांचा	pollenophagous		परागभोजी
political situation		राजनीतिक अवस्थिति	pollen percentage		पराग प्रतिशतता
political sphere		राजनीतिक कार्य-क्षेत्र	pollen sac		परागपुट, परागकोप
political stability		राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक शान्ति	pollen spectrum		पराग स्पेक्ट्रम, पराग प्ररूप चित्र
political status		राजनीतिक प्रतिष्ठा	pollen sum		पराग योग
political structure		राजनीतिक संरचना	pollen tube		पराग नलिका
political subdivision		राजनीतिक उपविभाजन	pollex	Zool.	हस्तांगुष्ठ
political system		राजनीतिक तंत्र	pollination	Bot.	परागण
political theory		राजनीतिक सिद्धांत	pollinator		परागणकारी
political tint and boundary riband		राजनीतिक रंजन व सीमाधारी	pollinist		परागवादी
political unification		राजनीतिक एकीकरण	pollinium		परागपिंड
political unity		राजनीतिक एकता	pollinization		परागण
politico-geographical basis		राजनीतिक-भौगोलिक आधार	pollinizer		परागद
politico-geographical evaluation		राजनीतिक भौगोलिक माननिर्धारण	pollinose	Zool.	परागिल
politico-geographical study		राजनीतिक भौगोलिक अध्ययन	pollinose fly		परागिल मक्खी
politico-geographical thought		राजनीतिक भौगोलिक विचार	pollucite	Geol.	पॉनूसाइट
politus	Bot.	चमकदार	pollutant		प्रदूषक
polje		पोलजे	polluting caste		प्रदूषक जाति
pollacauphyte	Bot.	असंतत जलीय उद्भिद्	pollution	Biol., H.Sc.	प्रदूषण
pollack	Zool.	पोलैक	*Pollux (=β Geminorum)	Astron.	पॉलक्स (=βमिथुन, β जेमिनोरम)
pollapase	Chem.	पोलापेस	polo cloth	H.Sc.	पोलो वस्त्र
			polocyte	Zool.	ध्रुवाणु
			pologround	Geog.	पोलोप्राउण्ड, पोलोस्थल
			poldoidal field	Geol.	पोलॉइडी क्षेत्र

poloidal magnetic field	<i>Geol</i>	पोलोइडो चुम्बकीय क्षेत्र	polyanion peptize clay	पोलियैनियन पेप्टाइज मृत्तिका
poloma	<i>H.Sc.</i>	पोलोमा	polyanthous	<i>Bot</i> बहुसुपी
poloni	<i>H.Sc.</i>	पोलोनी	polyarch	<i>Bot</i> बहु-आदिदाहक
polonide	<i>Chem.</i>	पोलोनाइड	polyargyrite	<i>Chem</i> पॉलिआर्जराइट
polonium	<i>Phy.</i>	पोलोनियम	Polya's distribution	<i>Math</i> पोन्वा बटन
polospore	<i>Bot</i>	परागणु	polyatomic	<i>Chem,Phy, Geol</i> बहुपरमाणुक
polster	<i>Geog.</i>	पॉल्मटर	polyatomic gas	बहुपरमाणुक गैस
Poluethov test	<i>Chem.</i>	पॉलवोफ़ निक्षेप	polyatomic molecule	बहुपरमाणुक अणु
polyacid	<i>Chem.</i>	बहुलक अम्ल, बहु अम्ल, पॉलिऐमिड	polyauxotroph	<i>Bot</i> त्रिविध अमलसम्प्रेपी
polyacidic		बहुअम्लीय	polyaxon	<i>Geol.</i> बहुअक्ष
polyacrylic acid	<i>Chem.</i>	पॉलिऐक्रिलिक ऐसिड, बहुऐक्रिलिक अम्ल	polybasic	<i>Chem</i> बहुक्षारकी
polyacylation		बहुऐमिलिन	polybasic acid	बहुक्षारकी अम्ल, पॉलिबेसिक ऐसिड
polyad	<i>Chem.,Bot.</i>	बहुसयुज, बहुपटनी	polybasite	<i>Geol</i> पोलीबैसाइट
polyadelphous		बहुसंधी	polybasy	<i>Bot.</i> बहुमूल सख्यता
polyadenous	<i>Bot.</i>	बहुसंधी	polycarbonate	<i>Geog.</i> पालिकारबोनेट
polyadenylic acid	<i>Bot.</i>	पोलीएडोनिनिक अम्ल	polycarpellary	<i>Bot.</i> पुष्प अडपी
polyalcohol	<i>Chem, Bot</i>	पॉलीऐल्कोहॉल	polycarpic	<i>Bot.</i> 1 बहुकापीगिनियमीय 2 बहुना फलनी
polyalkylene	<i>Chem.</i>	पॉलीऐल्किलीन	Polycarpon	<i>Bot</i> पॉलीकार्पोन
Polyalthia	<i>Bot</i>	पॉलीऐलिया	<i>Polycarpon</i> <i>corymbosa</i>	पॉलीकार्पोन कोरिम्बोसा
<i>Polyalthia longifolia</i>		पॉलीऐलिया लॉगीफोलिया	<i>Polycarpon</i> <i>loeflingiae</i>	पॉलीकार्पोन लोफ्लिंजिई
<i>Polyalthia suberosa</i>		पॉलीऐलिया सबेरोसा	polycarpy	1. बहुअणुपत्र 2. बहुअ फलन
polyandrous	<i>Bot.</i>	1 पुष्प पुकेसरी 2. बहुपुकेसरी	polycation	<i>Geog</i> पॉलिकेशन
	<i>H.Sc.</i>	बहुपनिका	Polycelis	<i>Zool.</i> पॉलीसेलिस
	<i>Zool.</i>	बहुनरीय	polycentric	<i>Bot.</i> बहुकेन्द्री
polyandry	<i>H.Sc.</i>	1. बहुपतित्व 2. बहुपतिप्रथा	polycephalous	<i>Bot</i> बहुमुखी
	<i>Bot.</i>	1. बहुपुकेसरना 2. पुष्प पुकेसरता	polycercoos	<i>Zool.</i> बहुपुच्छक
	<i>Zool.</i>	बहुनरता	polycerebroside	<i>Chem</i> पॉलीसेरेब्रोसाइड
<i>Polyangium aureum</i>	<i>Bot</i>	पोलीऐन्जियम ऑरियम	Polychaeta	<i>Zool.</i> पॉलीचाटा
polyanion	<i>Geog, Chem.</i>	बहु ऋणायन, पॉलियैनियन	polychaete	<i>Zool.</i> बहुशूक, पॉलीचोट
polyanionic compound		बहु ऋणायनी यौगिक	polychasium	<i>Bot.</i> बहुशाधो, पॉलियैसियम
			Polycheles	<i>Geol.</i> पॉलीचेलेस

polychlorbutadiene	<i>Chem.</i> ( <i>Nucl.</i> )	पॉलिक्लोरब्यूटाडाइईन	polycyclic stele	बहुचक्रिक रंभ
polychloroethane	<i>Chem.</i>	पॉलिक्लोरोएथेन, बहुक्लोरोएथेन	polycyclic swallow hole	बहुचकी विलयरन्ध्र
polychoric correlation	<i>Math.</i>	बहुकोष्क सहसंबंध	polycyclcy	बहुचक्रिकता
polychroism	<i>Chem.</i>	नानावर्णता	polycyrtoid	<i>Geol.</i> बहुचक्रित
polychromasia	<i>Zool.</i>	बहुवर्णकता	polycythemia	<i>Chem.,</i> <i>H.Sc.</i> बहुसोहिताणुरक्तता
polychromate		पॉलिक्रोमेट	polydactyl	<i>Zool.</i> बहुअंगुलिक
polychromatic	<i>Geol.</i>	विविधवर्णी	polydactylous allele	बहुअंगुलीय विकल्पी
polychromatic absorptiometry	<i>Chem.</i>	पॉलिक्रोमेटिक अवशोषणमिति, पॉलिक्रोमेटिक अवचूपणमिति	polydactyly	<i>Zool.</i> बहुअंगुलिता
polychromatic acid		पॉलिक्रोमेटिक अम्ल, पॉलिक्रोमेटिक ऐसिड	polydelphic	<i>Bot.</i> बहुअंटाशयी
polychromatic radiation		बहुवर्णी विकिरण	polydemic	<i>Bot.</i> बहुक्षेत्रीय
polychrome	<i>Geog.</i>	बहुवर्णी	polydentate	<i>Chem.</i> बहुदन्तुर, पॉलिडेन्टेट
polyciliate	<i>Bot.</i>	बहुपट्टाकी	polyderm	<i>Bot.</i> पट्टवक्
Polycitoridae	<i>Zool.</i>	पॉलिसिटोरिडी	polydesmic petiole	<i>Bot.</i> बहुबंधी वृंत
polyclad	<i>Zool.</i>	पॉलीक्लैड	polydipsia	<i>H.Sc.</i> अतिपिपासा
Polycladida		पॉलीक्लैडिडा	polydisk strobilation	<i>Zool.</i> बहुविम्ब प्रयुंखलन
polyclimax	<i>Bot.</i>	बहुचरम	polydisperse	<i>Chem.,</i> <i>Bot., Geog.</i> बहु-परिक्षेप
polyclone	<i>Geol.</i>	पालीक्लोन	polydispersed	बहुपरिक्षेपित
Polycolpa	<i>Zool.</i>	पॉलीकोल्पा	polydispersed system	बहुपरिक्षेपित तन्त्र
polycondensation	<i>Chem.</i>	बहुसंघनन	polydispersity	बहुपरिक्षेपिता
polyconic	<i>Geog.,Phy.</i>	बहुशंकुक	polydomous	<i>Zool.</i> बहुनीड
polyconic projection		बहुशंकुक प्रक्षेप	Polydora	<i>Zool.</i> पॉलीडोरा
polycotyledonous form		बहुबीजपत्रीय रूप	polydymite	<i>Chem.</i> पॉलिडिमाइट
polycotyledony		बहुबीजपत्रता	polydynamism	<i>Geol.</i> बहुगतित्वाद
polycras	<i>Chem.</i>	पॉलिक्रेस	polyeder	<i>Bot.</i> बहुकोणक
polycrystalline	<i>Chem.</i> <i>Phy.</i>	बहुस्फाटकीय बहुक्रिस्टलीय	polyelectrode process	<i>Chem.</i> बहुइलेक्ट्रोड प्रक्रम
polycrystalline specimen		बहुक्रिस्टलीय प्रतिदर्श, बहुस्फाटकीय प्रतिदर्श	polyelectrolyte	<i>Geog.</i> पॉलिइलेक्ट्रोलाइट
polycyclic	<i>Bot.,Zool.,</i> <i>Geol.</i>	बहुचक्री	polyembryonate species	<i>Biol.</i> बहुभ्रूणी जाति
polycyclic drainage basin		बहुचक्री अपवाह द्रोणी	polyembryony	<i>Biol.</i> बहुभ्रूणता
polycyclic geosyncline		बहुचक्रीय भूअभिनति	polyene dye	<i>Chem.</i> पालिईन रंजक
			polyenergicid	<i>Bot.</i> पॉलीइनर्जिड
			polyester base	<i>Chem.,</i> <i>H.Sc.,Geog.</i> पॉलिएस्टर आधार
			polyester fiber	पॉलिएस्टर तन्तु
			polyester resin	पॉलिएस्टर रेजिन
			polyester rubber	पॉलिएस्टर रबर

polyether foam	Chem, H.Sc.	पॉलिईथर फेन	Polygonaceae	Bot	पॉलीगोनेसी
polyethylene (polythene)	Chem Geog.	पॉलिएथिलीन (पॉलिथीन)	polygonal aerofoil		बहुभुजी एरोफायल
polyethylene fiber		पॉलिएथिलीन तन्तु	polygonal approximation		बहुभुजी सन्निकटन
polyethylene oxide		पॉलिएथिलीन ऑक्साइड	polygonal cell		बहुभुज कोशिका
polyforming	Chem.	बहुमभवन	Polygonales	Bot.	पानोपोनेलीज
polyfructosan	Chem.	पॉलिफ्रक्टोसल	polygonal ground		बहुभुज भूमि
polyfunctional	Chem.	बहुक्रियात्मक	polygonal line		बहुभुजी रेखा
Polygalaceae	Bot	पॉलीगैलसी	polygonal mesh		बहुभुजीय जाल
<i>Polygala chinensis</i>		पॉलीगैला चाइनेन्सिस	polygonal pattern		बहुभुजी प्रतिरूप, बहुभुजी आकृति
polygalacturonase	Chem, Biol.	पॉलिगैलैक्ट्युरोनेस	polygonal soil		बहुभुज मिट्टी
polygalacturonic acid		पॉलीगैलैक्टुरोनिक अम्ल	Polygonatum	Bot.	पॉलीगोनेटम
polygalacturonide		पॉलिगैलैक्ट्युरोनाइड	polygonisation		बहुकोणन, बहुभुजन
<i>Polygala erioptera</i>		पॉलिगैला ईरिओप्टेरा	polygonised structure		बहुभुजी संरचना
Polygalales		पॉलीगैललीज	polygonization		बहुभुजन
<i>Polygala telephioides</i>		पॉलीगैला ट्रेलैफीऑइडीज	polygon of displacement		विस्थापन बहुभुज
polygalinae	Bot.	पॉनीगैलिनो	polygon of forces	Math.	बल बहुभुज
polygamist	Zool.	बहुसगमक	polygon of vectors	Math.	सदिश बहुभुज, वेक्टर बहुभुज
polygamodioecious	Bot.	विविधपुष्पी एकलियाययी	polygon of velocities		वेग बहुभुज
polygamous	Zool. Bot.	बहुसगमनी सर्वांगी	Polygonum	Bot.	पॉनीगोनम
polygamous species		बहुसगमनी स्पोशीज	<i>Polygonum amphibium</i>		पॉलीगोनम एम्फीबियम
polygamy	Geog. Zool. Bot.	बहुविवाह (प्रया) बहुसगमन विविधलिंगी पुष्टता	<i>Polygonum aviculare</i>		पॉलीगोनम एवीकुलैर
polygastric type	Zool.	बहुबठरीय प्ररूप	<i>Polygonum bistorta</i>		पॉलीगोनम बाइस्टोर्टा
polygene	Zool.	अनेकजीन	<i>Polygonum chinense</i>		पॉलीगोनम चाइनेन्स
polygenesis	Zool, Bot.	बहुदभवन	<i>Polygonum convolvulus</i>		पॉलीगोनम कान्वोल्वुलस
polygenetic inclusion	Geol.	बहुमूलज अंतर्वेश	<i>Polygonum fagopyrum</i>		पॉलीगोनम फॅगोपाइरम
polygenetic soil		बहुमूलज मिट्टी	<i>Polygonum glabrum</i>		पॉलीगोनम ग्लॅब्रम
polygenetic volcano	Geol.	बहुकालज ज्वालामुखी	<i>Polygonum hydropiper</i>		पॉलीगोनम हाइड्रोपीपेर
polygenic	Geol. Zool.	बहुमूलज अनेक जीनी	<i>Polygonum lanigerum</i>		पॉलीगोनम लेनीगैरम
polygenous	Geol	बहुमूलज	<i>Polygonum plebejum</i>		पॉलीगोनम प्लेबेजम
polygeosyncline	Geol.	बहुभूजभिनति			
polygermanane	Chem.	पॉलिजर्मन, बहुजर्मन			
polygon	Math.	बहुभुज			

<i>Polygonum tinctorum</i>		पॉलीगोनम टिक्टोरम	<i>Polymastigina</i>	<i>Zool.</i>	पॉलीमैस्टीगाइना
<i>Polygordiidae</i>	<i>Zool.</i>	पॉलीगोर्डिआइडी	<i>polymastigote</i>	<i>Zool.</i>	शिखकशाभ
<i>Polygordius</i>	<i>Zool</i>	पॉलीगोर्डियस	<i>polymastism</i>	<i>Zool.</i>	बहुस्तनता
<i>Polygordius neapolitanus</i>		पॉलीगोर्डियस निआपोलिटैनस	<i>polymegaly</i>	<i>Zool.</i>	अनेकशुक्राणुता
<i>polygranular</i>	<i>Geol.</i>	विविध कणिक	<i>polymer</i>	<i>Chem., H.Sc.</i>	बहुलक
<i>polygraph</i>	<i>Geog.</i>	बहुरेखाचित्र	<i>polymerase</i>	<i>Zool.</i>	पॉलिमरेस
<i>polygynous</i>	<i>Zool.</i>	बहुजाया	<i>polomere</i>	<i>Geol.</i>	बहुघटकी आग्नेय शैल, पॉलीमियर
<i>polygyny</i>	<i>Geog.</i>	बहुपत्नीत्व, बहुपत्नी प्रथा	<i>polymer fibre</i>	<i>H.Sc.</i>	बहुलक तंतु
	<i>Zool.</i>	बहुजायता	<i>polymer gasolin</i>	<i>Chem.</i>	बहुलक गैसोलीन
<i>polyhalide</i>	<i>Chem.</i>	पालिहैलाइड	<i>polymeric form</i>		बहुलक रूप
<i>polyhaline brackish waters</i>	<i>Zool.,Geol.</i>	अतिलवणी खारा जल	<i>polymeric skeleton</i>		बहुलक कंकाल
<i>polyhaline water</i>		अतिलवणी जल	<i>polymerisation</i>	<i>Geog.</i>	बहुलकीकरण
<i>polyhalite</i>	<i>Geol.</i>	पॉलिहैलाइट	<i>polymerism</i>		बहुलकता, बहुतयता
<i>polyhalogenoid</i>	<i>Chem.</i>	बहुहैलोजनाइड, पॉलिहैलोजनाइड	<i>polymerization isomer</i>		बहुलकन समायवयव
<i>polyhalomethane</i>	<i>Chem.</i>	पालिहैलोमैथेन	<i>polymerized oils</i>		बहुलकित तैल
<i>polyhedral</i>	<i>Math.</i>	बहुतलीय, बहुफलकीय	<i>polymer lattice</i>		बहुतय जालक, बहुलक जालक
<i>polyhedral angle</i>		बहुतल कोण	<i>polymerous</i>	<i>Zool.,Geol.</i>	बहुतयी
<i>polyhedral body</i>		बहुतल पिंड	<i>polymerous body</i>		बहुतयी पिंड
<i>polyhedral cell</i>		बहुतलीय कोशिका	<i>polymerous symmetry</i>		बहुतयी सममिति
<i>polyhedral cone</i>		बहुफलकीय शंकु	<i>polymer structure</i>		बहुलक संरचना
<i>polyhedral disease</i>		बहुतल वाइरस रोग	<i>polymetamorphism</i>	<i>Geol.</i>	बहुकायान्तरण
<i>polyhedral form</i>		बहुफलक रूप	<i>polymeter</i>	<i>Geog.</i>	पॉलिमीटर, बहुमापी
<i>polyhedral inclusion</i>		बहुतलीय अंतरंगक	<i>polymethacrylates</i>	<i>Chem.</i>	पॉलिमैथैक्रिलेट
<i>polyhedral projection</i>	<i>Geog.</i>	पॉलिहेड्रिक प्रक्षेप	<i>polymethacrylic acid</i>		पॉलिमैथैक्रिलिक अम्ल
<i>polyhybrid</i>	<i>Biol.</i>	बहुसंकर	<i>polymethacrylic nitrile</i>		पॉलिमैथैक्रिलिक नाइट्राइल
<i>polyhydric</i>	<i>Chem.</i>	पालिहाइड्रिक	<i>polymethylene</i>	<i>Chem.</i>	पॉलिमैथिलीन
<i>polyhydric alcohol</i>		पॉलिहाइड्रिक ऐल्कोहॉल	<i>polymethyl methacrylate</i>		पॉलिमैथिल मैथैक्रिलेट
<i>polyhydroxy</i>		पॉलिहाइड्रॉक्सि	<i>polymict</i>	<i>Geol.,Geog.</i>	विविधावसाद, पॉलीमिक्ट
<i>polyinvagination</i>	<i>Zool.</i>	बहुअंतर्वेलन	<i>polymignite</i>	<i>Chem. (Met.)</i>	पॉलिमिग्नाइट
<i>polyiodide</i>	<i>Chem.</i>	पॉलिआयोडाइड	<i>polymita</i>	<i>H.Sc.</i>	पॉलिमिटा
<i>polykont</i>	<i>Zool.</i>	अवेककशानी	<i>polymorph</i>	<i>Chem.,Phy.</i>	बहुरूपक
<i>polylecithal</i>	<i>Zool.</i>	अतिपीतक, पॉलीलेसिबल	<i>polymorphic</i>	<i>Biol.,Chem., H.Sc.</i>	बहुरूपी
<i>polylepibus</i>	<i>Bot.</i>	बहुगल्की			
<i>polylithionite</i>	<i>Geol.</i>	पॉलीलियोनोनाइट			

polymorphic form		बहु रूपी रूप	polynuclear	<i>Zool, Geog</i> , बहुलकेन्द्रकीय <i>Chem.</i>
polymorphic species		बहु रूपी जाति	polynuclear compound	बहुलकेन्द्रक यौगिक
polymorphic variant		बहु रूपी परिवर्त	polynuclear leucocyte	बहुलकेन्द्रकी श्वेताणु
polymorphic zooid		बहु रूपी जीवक	polynuclear structure	बहुलकेन्द्रकीय संरचना
polymorphism	<i>Biol.</i>	बहु रूपता	polynucleate	<i>Zool.</i> बहुलकेन्द्रकी
polymorphonuclear	<i>Bot.</i>	बहु रूपकेन्द्रकीय, बहुपालिकेन्द्रकी	polynucleotide	<i>Bot</i> पॉलिन्यूक्लिओटाइड
polymorphonuclear cell	<i>Zool.</i>	बहु रूपकेन्द्रकी कोशिका	polynya	<i>Geog</i> पॉलिनिया, हिमदेशीय झील
polymorphonuclear granulocyte		बहु रूपकेन्द्रक कणिकाणु	Polyodon	<i>Zool.</i> पॉलिओडॉन
polymorphonuclear leucocyte		बहु रूपकेन्द्रकी श्वेताणु	Polyoeca	<i>Zool.</i> पॉलीसा
polymorphy	<i>Zool</i>	बहु रूपत्व	polyoestrus	<i>Zool.</i> बहुमदचक्र
polymyodian	<i>Zool</i>	पॉलीमायोडियन, बहुशब्दिनीपित्रीय	polyoicous	<i>Bot.</i> बहुलिकारक्ष्मी
polymyxia	<i>Chem.</i>	पॉलीमिक्सिन	polyol	<i>Chem.</i> पॉलिअल
polynephria	<i>Zool</i>	बहुमूत्रनाल	polyoma virus	<i>Zool.</i> पोलियोमा विषाणु, बहुअर्बुद विषाणु
polynervous venation	<i>Bot</i>	शिराबहुल विन्यास	polyome	<i>Zool.</i> पोलियोम, कवचमुद्य, कवचरक्ष
Polynesian	<i>Geog.</i>	पॉलिनेशियाई	polyoptrum	<i>Chem.</i> ( <i>Met</i> ) समोत्तल-लेम्स
polyneuritis	<i>Chem., H Sc.</i>	बहुनन्दिद्राशोय	Polyose	पॉलिओस
polynutron	<i>Chem.</i>	बहुन्यूट्रॉन	polyoxide	पॉलिऑक्साइड
<i>Polynoe extenuata</i>	<i>Zool</i>	पोलीनॉइ एक्सटेन्स्यूएटा	polyp	<i>H Sc, Zool</i> पॉलिप
Polynoidae		पोलीनॉइडी	polyparium	<i>Geol, Zool</i> पॉलिपेरियम
polynomial	<i>Math.</i>	बहुपद	polypeptidase	<i>Zool</i> पॉलिपेप्टिडेस
polynomial approximation		बहुपदी सन्निकटन	polypeptide	<i>Biol, H Sc.</i> पॉलिपेप्टाइड
polynomial evaluation		बहुपद-मानांकन	Polypetalae	<i>Bot.</i> पॉलिपेटली
polynomial forms		बहुपद-व्यञ्जक	polypetalous	<i>Bot</i> पृष्क दनीय
polynomial function		बहुपद फलन	Polyphaga	<i>Zool.</i> पॉलीफैगा
polynomial interpolation		बहुपद अन्तर्वेशन	polyphagia	<i>H.Sc.</i> अतिशुधा
polynomial like function		बहुपदवन् फलन	polyphagous	<i>Zool</i> विविधभक्षी
polynomial regression		बहुपद समाश्रयण	<i>Polyphagus euglenae</i>	<i>Bot</i> पॉलीफैगस यूग्लीनी
polynomial solution		बहुपद हल	polyphagy	<i>Zool.</i> विविधभक्षिता
polynomial test		बहुपद परीक्षण	polyphase induc- tion motor	<i>Phy.</i> बहुक्रीय प्रेरण मोटर
polynomial theorem		बहुपद प्रमेय	polyphase source	बहुक्रीय स्रोत
			polyphase system	बहुक्रीय तंत्र
			polyphasic pegmatite	<i>Geol.</i> बहुप्रावस्वी पेग्माटाइट



Polyphemus	Zool.	पोलीफेमस	polyporous plate	Zool.	बहुरंघ्र पट्टिका
polyphenol layer	Zool.	पॉलिफोनॉल स्तर	<i>Polyporus caudicinus</i>	Bot.	पॉलीपोरस काँडिसिनस
Polyphragma	Zool.	पोलीफ्रैग्मा	polyprene	Chem.	पॉलिप्रोन
polyphyletic	Biol., Geol.	बहुस्रोतोद्भव	polyprism	Phy.	बहुक प्रिज्म
polyphyletic		बहुस्रोतोद्भव	polyprotic	Chem.	बहुप्रोटी
polyphyletical		बहुस्रोतोद्भव	polyprotodont	Zool.	बहु आदिदंत, बहुप्रदंत
polyphyletic evolution		बहुस्रोतोद्भव विकास	Polyprotodontia	Zool.	पॉलिप्रोटोडॉन्टिया
polyphyletic group		बहुस्रोतोद्भव वर्ग	polyprunida	Geol.	बहुप्रूनडा
polyphyletism		बहुस्रोतोद्भवता	Polypteridae	Zool.	पॉलिप्टेरिडी
polyphyllous	Bot.	1. पृथक् परिदलीय 2. बहुपर्णी	Polypterini	Zool.	पॉलिप्टेराइनी
polyphylogeny	Geol.	बहुजातिवृत्त	Polypterus	Zool.	पॉलिप्टेरस
polyphyly	Zool.	बहुमूलोद्भवता	<i>Polypterus bichir</i>	Zool.	पॉलिप्टेरस विचिर
polyphyodont	Zool.	बहुवारदंती	polyrheithry	Bot.	बहुदग्म
polyphyodont dentition		बहुवार दंतोद्भव	polyrhizous	Bot.	बहुमूलिकायुक्त
polypide	Geol.	पॉलीपीड	polyribosome	Bot.	पॉलिराइबोसोम
polypidom	Geog.	पॉलिपिडम	polyrod (polystyrene)	Phy.	पालीस्टाइरीन दंड
Polyplacophora	Geol.	पॉलीप्लैकोफोरा	polyrod aerial (=polyrod antenna)		पालिरॉड ऐन्टेना
polyplanetic	Bot.	बहुचल	polyrod antenna		पालिरॉड ऐन्टेना
polyplant	Chem.	बहुसंयंत्र	polysaccharide	Chem., H.Sc.	पॉलिसैकेराइड, बहुशर्कराइड
polyPLICATE	Bot.	बहुवलि	polysaccharide form		बहुशर्करा आकृति, बहुशर्कराइड आकृति
polyploid	Biol.	बहुगुणित	polysaprobe	Zool.	बहुभूतजीवी, बहुभूतिजीवी
polyploidy		बहुगुणिता	polysaprobic	Zool., Bot.	बहुभूतिक
polyplumbide	Chem.	पॉलिप्लम्बाइड	polysaturated	H.Sc.	बहुसंतृप्त
polypneustic respiratory system	Zool.	बहुरंध्री श्वसन तंत्र	polysaturated fatty acid		बहुसंतृप्त वसा अम्ल
Polypocephalus	Zool.	पॉलिपोसेफैलस	polysilicate	Chem.	पॉलिसिलिकेट
polypod	Zool.	अनेकपदी	<i>Polysiphonia flexicalis</i>	Bot.	पॉलीसाइफोनिया फ्लेक्सिकॉलिस
polypodiaceous	Bot.	पोलीपोडिएसीय	polysiphonic	Zool., Geol., Bot.	बहुविनाल, बहुसाइफनी
Polypodiaceae	Bot.	पोलीपोडीआई	polysiphonous		बहुसाइफनी
polypodioid	Bot.	पोलीपोडियमसम	polysius drier	Geol.	पॉलीसियस शुष्कित्र
Polypodiopsis	Bot.	पोलीपोडिओप्सिस	polysius vertical chain drier	Geol.	पॉलीसियस उदग्र-चेन शुष्कित्र
Polypodium	Zool.	पॉलीपोडियम			
<i>Polypodium vulgare</i>		पॉलीपोडियम चल्गेरी			
polypod phase	Zool.	अनेकपदी प्रावस्था			
polypoid	Zool.	पॉलिपाप			
Polyporaceae	Bot.	पॉलीपोरेसी			
polyporic acid	Chem.	पॉलिपोरिक अम्ल			

<i>polysomatic</i>	<i>Geol.</i>	बहुकणिक
<i>polysome</i>	<i>Bot., Zool</i>	बहुसूत्र, पॉलिसोम
<i>polysomic</i>		बहुसूत्री
<i>polysomitic</i>	<i>Zool.</i>	बहुकोषद्वी
<i>polyspermatous</i>	<i>Bot</i>	बहुबीजी
<i>polyspermous</i>		बहुबीजी
<i>polyspermy</i>	<i>Zool.</i> <i>Bot.</i>	बहुगुणधुना बहुबीजता
<i>polysphaerite</i>	<i>Geol</i>	पॉलीस्फिराइड
<i>Polysphondylium violaceum</i>	<i>Bot.</i>	पालीस्फोन्डिलियम वायोलेसियम
<i>polysporangiate</i>	<i>Bot.</i>	बहुबीजाणुधानीयुक्त
<i>polysporangium</i>		बहुबीजाणुधानी
<i>polyspore</i>	<i>Bot</i>	बहुबीजाणु
<i>polyspory</i>		बहुबीजाणुना
<i>polystele</i>	<i>Bot.</i>	बहुस्तम्भी
<i>polystelic</i>		बहुस्तम्भी
<i>polystely</i>		बहुस्तम्भता
<i>polystemonous</i>	<i>Bot.</i>	बहुपुत्रेसरी
<i>polystichous</i>	<i>Bot.</i>	बहु-श्रवालिक
<i>Polystichus abietinus</i>	<i>Bot.</i>	पॉलीस्टिक्स एबीटिनस
<i>Polystigma rubrum</i>	<i>Bot.</i>	पॉलीस्टिग्मा रुब्रम
<i>polystomatous</i>	<i>Zool</i>	बहुमुखीय
<i>polystomoid</i>	<i>Zool.</i>	पॉलिस्टोमॉयड, बहुमुखीय
<i>Polystomum</i>	<i>Zool.</i>	पॉलीस्टोमम
<i>polystylous</i>	<i>Bot</i>	बहुवृत्तिकीय
<i>polystyrene</i>	<i>Chem., H Sc.</i>	पॉलिस्टाइरीन
<i>polystyrene fiber</i>		पॉलिस्टाइरीन तन्तु
<i>polystyrol</i>	<i>Chem.</i>	पॉलिस्टाइराल
<i>polysulphide</i>	<i>Chem</i>	पॉलिसल्फाइड
<i>polysulphide permutit</i>	<i>Chem.</i>	पॉलिसल्फाइड परम्यूटिट
<i>polysynthetic twinning</i>	<i>Geol</i>	बहुसंश्लेषी समलन
<i>polysynthetic twinning texture</i>		बहुसंश्लेषी समलन गठन
<i>polytene</i>	<i>Zool.</i>	बहुपट्टीय

<i>polytenic chromosome</i>	<i>Bot , Zool.</i>	बहुसूत्र गुणसूत्र, बहुपट्टीय गुणसूत्र पालीटेनिक गुणसूत्र
<i>polyteny</i>	<i>Zool</i>	बहुपट्टता
<i>polyterephthalate</i>	<i>Chem.</i>	पॉलिटेरथैलेट
<i>polythalamous</i>	<i>Zool ,Geol</i>	बहुवेष्टमी
<i>polythalamous foraminifer</i>		बहुवेष्टम छिद्रघर
<i>polythalamous gall</i>		बहुवेष्टमी पिटिका
<i>polythalamous shell</i>		बहुवेष्टम कवच
<i>polythene</i>	<i>Chem.</i>	पॉलिथीन
<i>polythermal projection</i>	<i>Chem</i>	बहु-समताप प्रक्षेप
<i>polythermic</i>	<i>Zool.</i>	उच्चतापी
<i>polythionic acid</i>	<i>Chem</i>	पॉलियायोनिक् अम्ल, पॉलियायोनिक् ऐसिड
<i>polythymidylic acid</i>		पोलीथायमिडीलिक अम्ल
<i>polytomous</i>	<i>Bot</i>	बहुभाजी
<i>polytomy</i>		बहुभाजन
<i>polytopic</i>	<i>Bot., Geol.</i>	बहुस्थली
<i>polytopy</i>		बहुस्थलिकता
<i>polytrichous</i>	<i>Bot</i>	बहुरोमी
<i>polytrochal</i>	<i>Zool.</i>	बहुचक्रक
<i>polytrope</i>	<i>Math.</i>	अनुपाती गोला
<i>polytrophic ovariole</i>	<i>Zool.</i>	बहुपोषी अण्डाशयक
<i>polytrophic type</i>		बहुपोषी प्रकार
<i>polytropic</i>	<i>Phy. Zool.</i>	बहुदेशिक अनेकानुवर्ती, अनेकप्रकारकी
<i>polytropic Index</i>	<i>Math.</i>	अनुपाती सूचकांक
<i>polytropic process</i>	<i>Phy</i>	बहुदेशिक प्रक्रम
<i>polytypic</i>	<i>Zool., Phy.</i>	बहुतप्ररूपी
<i>polytypic concept</i>		बहुतप्ररूप संकल्पना
<i>polytypy</i>		बहुतप्ररूपता
<i>polyurethane fiber</i>	<i>H.Sc., Chem.</i>	पॉलियूरिथेन तन्तु
<i>polyurethane foam</i>		पॉलियूरिथेन फ़ोम
<i>polyurethane resin</i>		पॉलियूरिथेन रेशिन
<i>polyurethane rubber</i>		पॉलियूरिथेन रबर
<i>polyuria</i>	<i>H.Sc.</i>	बहुसूत्रता

polyuridylic acid	Bot.	पोलियूरीडायलिक अम्ल	ponceau	Chem.	पॉन्सो (रक्त)
polyuromide	Chem.	पॉलियूरोमाइड	poncho	Geog.	पांचो
polyuronic acid	Geog.	पॉलियूरोनिक एसिड	Ponchon diagram	Chem.	पांचन आरेख
polyvalent	Chem.	बहुसंयोजक	pond	Zool., Geog.	ताल, तलैया
polyvalent ion	Chem.	बहुसंयोजक आयन	pond culture		ताल मत्स्य-पालन
polyverticillate	Bot.	बहुचक्रक	ponderable matter	Math.	द्रवगम्य द्रव्य
polyvinyl acetate	Chem.	पॉलिवाइनिल ऐसीटेट	ponderal effect	Chem.	पॉन्डेरल निष्पत्ति
polyvinyl formal		पॉलिवाइनिल फॉर्मल	ponderomotive equation	Math.	चालात्मक समीकरण
polyvinyl pyrrolidone		पोलिविनाइल पाइरोलिडोन	ponderomotive force		चालात्मक बल
polyvoltine	Zool.	अनेकप्रज	pond fisheries	Zool.	ताल-मात्स्यकी
polyxenic	Bot.	बहुआगन्तुक	pond heron	Zool.	ताल वक
	Zool.	बहुसंदूषित	ponding	Geog.	जलावरोधन
polyxylic	Bot.	बहुदाक्षकी	pondlet	Geol.	तड़ागिका
polyzeosyncline	Geol.	बहुसूअभिनति	pond-marsh biocies	Zool.	ताल-कच्छ जीवसहवासक
polyzime	Bot.	पोलीजाइम	pond mussel		ताल मसल, ताल शंबु
Polyzoa	Geol., Zool.	पॉलिज़ोआ	pond skater		ताल-विसर्पी, पॉन्ड-स्केटर
polyzoic	Zool.	1. बहुजीवकी 2. बहुखंडी	pond snail		ताल घोंघा, ताल शंबुक
polyzoic tapeworm		बहुखण्डी फीताकृमि	ponente	Geog.	पोनन्त (पवन)
polyzoid	Zool.	बहुजीवक	pongee	H.Sc.	पॉंजी
pomace	Chem.	फलपेप	pongee imperial	H.Sc.	पॉंजी इम्पीरियल
	(Food)		pongid		पॉन्जिड
Pomatoceros	Zool.	पोमटोसिरॉस	Pongidae	Zool.	पॉंगिडी
pombe	Geog., H.Sc.	पोम्बे	Pongo	Zool.	पॉंगो
pome	Bot.	पोम	ponor	Geog.	पोनोर, कीपाकार गत
pomegranate	Bot., H.Sc.	अनार, दाड़िम	ponora	Bot.	फलवृत्तांत
Pomeranz-Fritsch reaction	Chem.	पोमैरान्ज फ्रीश अभिक्रिया	pons assinorum	Math.	अज्ञ-परीक्षण
pomfret	Zool.	पॉम्फ्रेट, सरंगा	pons cerebrealis	Zool.	पोन्स सेरैब्रेलिस
pomfret cake	H.Sc.	पॉम्फ्रेट केक	pons coxalis	Zool.	कस सेतु
pomiferous	Bot.	पोमधर	ponson velvet	H.Sc.	पॉन्सन मखमल
pomiform	Bot.	सेवरूप	pons Varolii	Zool.	पोन्स वैरोलाई
Pomoidae	Bot.	पोमाइडी	Pontederiaceae	Bot.	पोन्टडेरीएसी
pompadour	H.Sc.	पॉम्पाडोर	pontiac	H.Sc.	पॉंटिएक
pompe	H.Sc.	पॉम्पे	pontianak (resin)	Chem.	पॉंटियानक (रेजिन)
pompéin red	Chem.	पॉम्पियन रक्त, (Paint) पॉम्पियन लाल	pontil	Chem.	पॉन्टिल
pompholyx	Chem.	पॉम्फोलिक्स	pontile flexure	Zool.	सेतुक आनमन
			Pontobdella	Zool.	पॉन्टोब्डेला

Pontochrome Blue Black	Chem.	पॉन्टोक्रोम ब्लू ब्लैक	poor visibility		अल्प दृश्यता
pontohalicolous	Bot	लवणकच्छरायी	pop	H Sc.	पॉप
pontoon (boat)	Chem	तरावू (नौका)	popcorn	H Sc	मक्काफुल्लो, मक्का की धौन
pontoon bridge	Geog.	पीपों का पुल	popeline	H Sc.	पॉपेलीन
Pontoscolex corethrurus	Zool	पॉन्टोस्कॉलेक्स कोरेंथ्रूरस	poplar	Geog.	पॉप्लर
pony	Geog. H Sc.	1 टट्टू, यावू 2 पॉनि	poplar bud	Chem. (Food)	चिन्तार नलिका, पॉप्लर कलिका
pony cloth	H Sc.	पॉनि वस्त्र	Pople method	Chem	पोपल विधि
pony mixer	Chem (Paint)	लघु मिश्रित्र	poplin	H Sc	पॉपलीन
poodle	H Sc	पूडल	poplinette	H Sc.	पॉपलिनैट
pool	Geol, Geog. Phy	1 कुड 2 पूल	popliteal space	H Sc.	जानुपृष्ठ अवकाश
pool cathode		कुड कैथोड	pop mark	Chem (Met)	छिद्र चिह्न
pool cathode tube		कुड कैथोड नलिका	popper	H Sc	पॉपर
pool deposit		कुड निक्षेप	Popper's helium star	Math.	पॉपर हीलियम तारा
pooled estimate	Math.	संयोजित आंकल	poppy seed oil	Chem (Paint)	छमछत तेल
pooling of classes		वर्ग-संयोजन	population	Bot., Math., Geog., (Ncl.) Zool.	1 जनसंख्या, सङ्घा, आबादी 2. समष्टि
pooling process		संयोजन प्रक्रम	population accretion		जनसंख्या अभिवृद्धि
pool reactor	Phy.	पुष्करिणी रिएक्टर	population contour map		जनसंख्या सममान मानचित्र
pool retting	H Sc.	कुड अपगलन	population cycles		समष्टि चक्र
poop	Geog	पूप, नौपुच्छ	population diagram		समष्टि आरेख
poor absorber	Phy.	अल्प अवशोषक	population distribution		1. जनसंख्या वितरण 2. समष्टि बंटन
poor conductor	Chem	हीन चालक	population dynamics		जनसंख्या गतिकी
poorga	Geog.	पूरगा, हिमवान	population fluctuation		समष्टि उन्नावचन
poor law institution	Geog	दारिद्र्य विधि संस्था	population genetics		समष्टि आनुवंशिकी
poor-law union		दारिद्र्य विधि मध्य	population geography		जनसंख्या भूगोल
poor lustre	Geol.	मंद चमक	population interactions		समष्टि परस्परक्रिया
poorly drained		अल्प अपवाहित	population mean		समष्टि माध्य
poor phase	Chem.	दरिद्र कला, दरिद्र प्रावस्था	population mobility		जनसंख्या गतिशीलता
poor radiator	Phy.	अल्पविकिरक	population of rotational and vibrational levels		घूर्णी तथा कंपनी स्तरों की समष्टि
poor rainfall		अल्प वर्षा, मंद वर्षा	population optimum		जनसंख्या अनुकूलनम दशा
poor reflectivity		मंद परावर्तकता	population parameter		समष्टि प्राचन
poor resolution (= low resolution)	Phy.	निम्न विभेदन			
poort	Geog	पूर्ट, जल-दर्रा			

population projection		जनसंख्या पूर्वानुमान, जनसंख्या प्रक्षेप	porch	<i>Geog.,H.Sc.</i>	द्वार मंडप, पोर्च
population regression coefficient		समष्टि समाश्रयण गुणांक	porch and deck paint	<i>Chem.</i>	जल-वायु रोधी पेन्ट
population regression constant		समष्टि समाश्रयणांक	porcupine	<i>Zool.,H.Sc.</i>	सेही, शल्य
population sampling		समष्टि प्रतिचयन	porcupine fish	<i>Zool.</i>	शल्यकी मीन
population structure		जनसंख्या संरचना, जनसंख्या विन्यास	pore	<i>Zool., Geol.</i>	रंध्र, छिद्र
population types of Baade		वाड़े के समष्टि प्रकार	pore canal		रंध्र नाल
population value		समष्टि मान	pore diaphragm		छिद्र डायफ्राम
population variance		समष्टि प्रसरण	pore field		छिद्र क्षेत्र
<i>Populus alba</i>	<i>Bot.</i>	पोप्युलस एल्वा	pore filling		रंध्र पूरण
<i>Populus ciliata</i>		पोप्युलस सीलिएटा	pore fungi		छिद्रिल कवक
<i>Populus euphratica</i>		पोप्युलस यूफ्रेटिका	Porella	<i>Bot.</i>	पोरेला
<i>Populus nigra</i>		पोप्युलस नाइग्रा	<i>Porella platyphylla</i>		पोरेला प्लेटोफिला
<i>Porana paniculata</i>	<i>Bot.</i>	पोराना पैनीकुलेटा	pore membrane	<i>Zool.</i>	छिद्र कला
porandrous	<i>Bot.</i>	रंध्रस्फुटनी	pore-organ		रंध्रांग
porate	<i>Bot.,Geol.</i>	मुखकी	pore plate		रंध्र पट्टिका
porcelain	<i>Chem.,Geol.</i>	पॉसिलेन	pore rhomb		छिद्र-रॉम्ब
porcelain basin		पॉसिलेन बेसिन, पॉसिलेन द्रोणी	pore size		रंध्र आमाप
porcelain capsule		पॉसिलेन-संपुटिका	pore space		रंध्राकाश
porcelain cement		पॉसिलेन सीमेंट	pore volume		रंध्र आयतन
porcelain dish		पॉसिलेन प्याली	pore water pressure		रंध्र-जल दाब
porcelainized		पॉसिलेनित	Poria	<i>Bot.</i>	पोरिया
porcelain jasper		पॉसिलेन जैस्पर	Porichthys	<i>Zool.</i>	पोरिक्थीज
porcelain lace		पॉसिलेन लेस	poricidal		रंध्र विदारक
porcelain meal		पॉसिलेन अक्चूर्ण	Porifera	<i>Zool.,Geol.</i>	पोरिफेरा
porcelain mortar		पॉसिलेन-खरल	poriferan	<i>Zool.</i>	छिद्रघर
porcelain process		पॉसिलेन-प्रक्रम	poriferous zone		छिद्रिल क्षेत्र
Porcellana	<i>Zool.</i>	पोसिलेना	porism		बहुअस्तित्व, पोरिज्म
porcellanite	<i>Geol.</i>	पोसिलेनाइट	<i>Porites limoza</i>		पोराइटीज लिमोजा
porcellanous	<i>Geol.</i>	1. पोसिलेनी 2. अछिद्री	pork	<i>H.Sc.</i>	शूकरमांस
Porcellio	<i>Zool.</i>	पोसिलियो	porker	<i>Geog.,H.Sc.</i>	पोर्कर
			porman	<i>Chem. (Met.)</i>	पोर्मन
			porocephalid worm	<i>Zool.</i>	पोरोसिफेलिड कृमि
			Porocephalus	<i>Zool.</i>	पोरोसेफलस
			porocyte	<i>Zool.</i>	रंध्रकोशिका, रंध्राणु
			porocyte canal		रंध्राणु नाल
			porodic	<i>Geol.</i>	अक्रिस्टलीय, पोरोडिक

porodine	<i>Geol.</i>	पोरोडाइन	porpesite	<i>Chem.</i>	पोपेसाइट
Porodon		पोरोडॉन	porphin	<i>Chem.</i>	पोफिन
porogamic	<i>Bot.</i>	बद्धार-प्रवेशी	porphobilinogen	<i>Chem.</i>	पोफोबिलिनोजन
porogamous		बद्धार-प्रवेशी	<i>Porphyra tenera</i>	<i>Bot.</i>	पॉरफाइरा टेनेरा
porogamy		बद्धारी प्रवेश	porphyria	<i>Chem.</i>	पोफिरिया
poroid	<i>Bot.</i>	(n) रघ्नाभिका	porphyrin	<i>Chem.</i>	पोफरिन
porometer	<i>Bot.</i>	स्टोमातोपी, रघ्नापी	porphyrindia	<i>Chem.</i>	पोफरिन्डिन
Poromyia	<i>Zool.</i>	पोरोमाइया	porphyrin skeleton		पोफरिन कवच
pororate	<i>Bot.</i>	सछिद्र मुखकी	porphyrinuria		पोफरिन्यूरिया
porose	<i>Zool, Geol.</i>	रघ्निल	porphyrite	<i>Geol.</i>	पोफराइट
porose area		रघ्निल क्षेत्र	porphyritic		पोफराइटी, दीर्घ क्रिस्टल अतवशी
porosity	<i>Geol, Phy.</i>	सरघ्नता	porphyroblast	<i>Geol.</i>	पोफरोब्लास्ट
porosity curve		सरघ्नता वक्र	porphyroblastic		पोफरोब्लास्टिक
porosity trap		सरघ्नता ट्रैप	porphyroclastic		पोफरोक्लास्टिक
Porospora	<i>Zool.</i>	पोरोस्पोरा	porphyroclastic fabric		पोफरोक्लास्टिक सन्निव्यास
porospore	<i>Bot.</i>	छिद्रज बीजाणु	porphyroclastic texture		पोफरोक्लास्टिक गठन
porous		सरघ्न, सरघ्नी	porphyrogenetic	<i>Geol.</i>	पोफरोजनक
porous bed		सरघ्न सस्तर	porphyro-granulitic	<i>Geol.</i>	पोफरो कणिकीय
porous brush		सरघ्न ब्रुश	porphyro-granulitic texture		पोफरो कणिकीय गठन
porous clay		सरघ्न मृत्तिका	porphyroid	<i>Geol.</i>	पोफरोम
porous clay atmometer		सरघ्न मृत्तिका वाष्पनमापी	<i>Porphyrosiphon notarisi</i>	<i>Bot.</i>	पॉरफाइरोसाइफॉन नोटैरिमिआइ
porous clay cup		सरघ्न मृत्तिका प्याला	porphyry	<i>Geol.</i>	पोफरी
porous dam		सरघ्न बाध	porphyry copper		पोफरी ताम्र
porous deposit		सरघ्न निक्षेप	<i>Porpita pacifica</i>	<i>Zool.</i>	पोपिटा पैसिफिका
porous fritted plate		सरघ्न आगनित पट्टिका, सूक्ष्म रघ्न आगनित पट्टिका	porpoise	<i>Zool, Chem.</i>	शिमुमार, शिमुक, सूस शिमुक लेल
porous membrane		सरघ्न झिल्ली	porpoise oil		पोरेक्ट
porous plate		सूक्ष्म रघ्न पट्टिका	porrect	<i>Bot.</i>	पोरेक्ट
porous plug		सरघ्न ढाट	porridge	<i>H.Sc.</i>	दलिया
porous pot		सरघ्न पात्र	*Porrima (=γ Virginis)	<i>Astron.</i>	पोरिमा (=γ कन्या, γ बरिनिम)
porous pot electrode		सरघ्न इलेक्ट्रोड	porringer	<i>H.Sc.</i>	पोरिंगर
porous pumice		सरघ्न सामक	Porro prism	<i>Geog.</i>	पोरो प्रिज्म
porous rock		सरघ्न शैल	Porsch's theory	<i>Bot.</i>	पोरश्वदार
porous sandstone		सरघ्न बानुकाश्म			
porous septum		सरघ्न पट			
porous soil		सरघ्न मिट्टी			
porous substance		सरघ्न पदार्थ			

port	<i>Geog., Chem.,Phy.</i>	1. पोर्ट, पत्तन 2. प्रहार (Glass) 3. ईंधनद्वार
portable	<i>Phy.,H.Sc., Chem.</i>	सुवाह्य
portable aerial (=mobile antenna)		सुवाह्य ऐन्टेना
portable instrument		सुवाह्य उपकरण
portable monitor		सुवाह्य मानीटर
portable press		सफरी दाबक, सुवाह्य दाबक
portable receiver		सुवाह्य बमिग्राही
portable retort		सुवाह्य रिटॉर्ट
portable television transmitter		सुवाह्य टेलीविजन प्रेषित
portable transmitter		सुवाह्य प्रेषित
portage	<i>Geog.</i>	संवहन
portal	<i>Zool.</i>	निवाहिका, पोर्टल
portal fissure		निवाहिका विदर
portal heart		निवाहिका हृदय
portal system		निवाहिका उपतंत्र, पोर्टल सिस्टम
portal vein		निवाहिका शिरा
port area	<i>Phy.</i>	ईंधन द्वार क्षेत्र
porter	<i>Geog.</i>	भारिक
porter yarn	<i>H.Sc.</i>	पोर्टर सूत्र
portfolio	<i>Geog.</i>	पोर्टफोलियो
port glass	<i>Geog.</i>	पोर्टग्लेस
port-hole die	<i>Chem.</i>	पोर्ट छिद्र ठप्पा, पोर्ट छिद्र ढाह
portland blast-furnace cement	<i>Geol.,Chem.</i>	पोर्टलैंड बाल्या- मट्टी सीमेन्ट
portland cement		पोर्टलैंड सीमेन्ट
Portland filter		पोर्टलैंड फिल्टर
portolan chart	<i>Geog.</i>	पोर्टोलान चार्ट, पत्तन दर्शिका चार्ट
portolano	<i>Geog.</i>	पोर्टोलानो, नाविक संदर्शिका (पत्तन)

Porto marble	<i>Geol.</i>	पोर्टो मार्बल
port radar installation	<i>Phy.</i>	पत्तन रेडार संस्थापन
portrait		रूप चित्र
portrait stone	<i>Geol.</i>	चित्र रत्न, पोर्ट्रेट स्टोन
portray	<i>Geog.</i>	चित्रण
portrayal		चित्रण
portrayed		चित्रित
port site	<i>Geog.</i>	पत्तन स्थल, बन्दरगाह स्थल
port town		पत्तन नगर
Portuguese Man-of-War	<i>Zool.</i>	पुर्तगाली युद्ध-मानव
Portulacaceae	<i>Bot.</i>	पोर्टूलैकेसी
<i>Portulaca grandiflora</i>		पोर्टूलाका ग्रैंडीफ्लोरा
<i>Portulaca oleracea</i>		पोर्टूलाका ओलरेसिया
<i>Portulaca quadrifida</i>		पोर्टूलाका क्वार्ड्रीफिडा
Portunus puber	<i>Geog.</i>	पोर्टूनस प्यूबर
porus	<i>Bot.</i>	मृच्छक
porzite	<i>Geol.</i>	पोर्जाइट
posepnyte	<i>Geol.</i>	पोसिपनाइट
posistor	<i>Phy.</i>	पॉजिस्टर
position		1. स्थिति 2. स्थल, स्थान
positional notation		स्थिति चिह्न
position angle		स्थिति कोण
position block		स्थिति ब्लॉक
position circle		स्थिति वृत्त
position coordinates		स्थान निर्देशांक
position distribution function		स्थिति वितरण फलन
position effect		स्थान प्रभाव
position factor		स्थान-गुणक
position feedback		स्थितिक पुनर्निवेश
position finding element		स्थिति निर्धारक अवयव
position isomerism		स्थान समावयवता, स्थान आइसोमरता
position line		स्थिति रेखा

position of equilibrium		साम्य का स्थल, सतुलन का स्थल	positive deviation		धनात्मक विचलन
position serial numbers		स्थिति क्रमांक	positive discharge		धनात्मक विसर्जन
position telemeter		दूरस्थिति मापी	positive distortion (=barrel distortion)	<i>Phy</i>	ढोलाकृति विरूपण
position tracker, (=plotting plate)		आलेखन पट्टिका	positive electric charge		धनात्मक विद्युत् आवेश, धनात्मक विद्युत् चार्ज
position vector	<i>Math.</i>	स्थिति सदिश	positive electrode		धन इलेक्ट्रोड
positivation (=positivity)	<i>Chem.</i>	धनता	positive electron		धन इलेक्ट्रॉन
positive		1 धनात्मक, धन 2. सकारात्मक 3 (photography) पॉजिटिव	positive elements		धन घटक
positive angle		धन कोण	positive elongation		धन दीर्घीकरण
positive areas		धनात्मक क्षेत्र	positive error		धनात्मक अशुद्धि
positive artesian head		धनात्मक उत्प्लुत शीर्ष	positive estuary	<i>Geol</i>	अत्यलवणीय ज्वारनदमुख
positive association		धनात्मक साहचर्य	positive eugenics	<i>Zool.</i>	सकारात्मक सुजनन विज्ञान, सकारात्मक सुजनिकी
positive attribute		धनात्मक गुण	positive evidence		सकारात्मक प्रमाण, सकारात्मक सबूत
positive branch		धनात्मक शाखा	positive face		धनात्मक फलक
positive catalyst		धनात्मक उत्प्रेरक	positive feed back		धनात्मक पुन. धरण
positive character		धनात्मक लक्षण	positive film photometry		पॉजिटिव फ़िल्म प्रकाशमिति
positive charge		धन आवेश, धन चार्ज	positive gas exhauster		धन गैस रेचित्र
positive chirality		धन किरैन्डिटी	positive grid oscillator		धन ग्रिड दोलक
positive column		धनात्मक स्तम्भ	positive hole		धन छिद्र
positive cone		धनात्मक शंकु	positive hypothesis		धनात्मक परिकल्पना
positive confining bed		धनात्मक रोधी स्तर	positive infection	<i>Bot. Zool.</i>	प्रभावी संक्रमण
positive contours	<i>Geol</i>	ऊर्ध्वतल-समोच्च रेखा	positive interaction		धनात्मक परस्परक्रिया
positive copy	<i>Geog.</i>	पॉजिटिव कापी, सकारात्मक प्रतिलिपि	positive ion		धन आयन
positive correlation		धनात्मक सहसंबंध	positive land form		उर्ध्व स्थलाकृति
positive crystal		धनात्मक क्रिस्टल	positive lens		धनात्मक लेन्स
positive current		धनात्मक धारा	positive linear functional		धनात्मक रैखिक फलनक
positive definite form		धनात्मक निश्चिन्त समरूप	positively charged sol		धन आविष्ट विलय
positive definite function		धनात्मक निश्चिन्त फलन	positive lynchet	<i>Geog.</i>	धन विचेट, निश्चित क्षेत्रांतर भूमि
positive definite matrix		धनात्मक निश्चित आव्यूह	positively related		धनात्मक संबद्ध
positive definite quadratic form		धनात्मक निश्चित द्विघाती समघात	positive magnetostriction		धनात्मक चुम्बकत्व विरूपण
			positive mapping	<i>Math.</i>	धनात्मक प्रतिचित्रण



positive material		पॉजिटिव ड्रय, पॉजिटिव सामग्री	positive terminal		धन टर्मिनल
positive metering (instrument)		धन मीटरण, धन-संभापन (यंत्र)	positive Thomson effect		धनात्मक टाम्सन प्रभाव
positive modulation		धनात्मक माडुलन	positive topographic forms	<i>Geol.</i>	ऊर्ध्व स्थलाकृतिक रूप
positive moment		धनात्मक आघूर्ण	positive transmission		धनात्मक संचरण
positive mould		धन संच	positive trend		धनात्मक उपनति
positive movement		धनात्मक गति	positive variation		धनात्मक विचरण
positive operator		धनात्मक संकारक	positive volcanic form		धनात्मक ज्वालामुखीय रूप
positive ore	<i>Geol.</i>	प्रमाणित अयस्क	positive zero		धनात्मक शून्य
positive peak modulation		धन शिखर माँडुलन	positivist	<i>Phy.</i>	प्रत्यक्षवादी
positive pedal		धन पदिक	positivity		धनता
positive picture modulation		पॉजिटिव चित्र माँडुलन	positron	<i>Phy., Chem.</i>	पॉजिट्रान
positive picture phase		पॉजिटिव चित्र कला	positron-emitter		पॉजिट्रान उत्सर्जक
positive plate		धन पट्टा	positronium		पॉजिट्रोनियम
positive pole		धन ध्रुव	posset	<i>H.Sc.</i>	पॉसेट, पॉसेट
positive potential		धन विभव	possibilism		संभाव्यतावाद
positive print	<i>Geog., Phy.</i>	पॉजिटिव छाप, पॉजिटिव प्रिन्ट	possibility	<i>Math., Phy.</i>	संभावना, संभाव्यता
positive print technique		पॉजिटिव प्रिन्ट तकनीक	possibility number		संभाव्यता संख्या
positive probability		धनात्मक प्रायिकता	possible	<i>Math.</i>	संभव, संभाव्य
positive ray analysis		धन किरण विश्लेषण	possible ore	<i>Geol.</i>	संभावी अयस्क
positive rays		धन किरण	possole	<i>H.Sc.</i>	पोसोल
positive reaction		धन अभिक्रिया	possum (opossum)	<i>Zool.</i>	पोसम (ओपोसम)
positive resistance temperature coefficient		प्रतिरोध का धनताप गुणांक	possum ear	<i>Bot.</i>	पोसम ईयर (रोग)
positive response		धन अनुक्रिया	post	<i>Phy.</i>	स्तम्भ
positive rotational level		धनात्मक घूर्णोत्तर	post-abdomen	<i>Zool., Geol.</i>	पश्चउदर
positive semidefinite		धनात्मक सामिनिश्चित	post abdominal ganglion		उदरपश्चीय गूच्छिका
positive serial correlation		धनात्मक श्रेणीगत सहसंबंध	post acetabular	<i>Zool.</i>	श्रोणीक्षुखल पश्चीय
positive side		धन पक्ष	postachrostical bristles	<i>Zool.</i>	पश्चजवर्णी शूक
positive skewness	<i>Math.</i>	धन वैषम्य	postadaptation	<i>Zool.</i>	पश्चानुकूलन
positive surface		धनात्मक सतह	postadaptive mutation		पश्चानुकूली उत्परिवर्तन
positive taxis		धनात्मक अनुचलन	postalar	<i>Zool.</i>	अनुपक्ष
			postalar bridge		अनुपक्ष सेतु
			postalar tail	<i>Bot.</i>	वर्षावर्षी पुच्छ
			postal guide	<i>Geog.</i>	डाक गाइड
			postal vein	<i>Zool.</i>	परचक शिरा

postament	Bot.	पश्चात्	postcoaxal bridge	Zool	पश्चकक्षाग सेतु
postanal	Zool.	गुदपश्च	postcranial skeleton	Bot., Zool	पश्चकपालीय कंकाल
postanal field	Zool.	अनुपक्षान्त क्षेत्र	postcrystalline	Geol	क्रिस्टलनोत्तर
postanal plate		गुदपश्च पट्टिका	postcrystalline deformation		क्रिस्टलनोत्तर विकृषण
postantennal	Zool.	शृंगिकापश्च	postcubital	Zool.	अनुमध्योत्तर
postantennal organ		शृंगिकापश्च अंग	postcubitus	Zool.	पोन्टक्यूविटम
postantennal somite		शृंगिकापश्च कायखंड	post Darwinian	Zool	डार्विनोत्तर
post-articular	Zool.	संधिपश्चीय	post deflection accelerating electrode	Phy.	विक्षेपोत्तर त्वक्क इलेक्ट्रोड
post-axial border	Bot, Zool.	अक्षपश्च सीमान	post deflection acceleration		विक्षेपोत्तर त्वरण
postaxial hemimelia		अक्षपश्चीय हेमिमीलिया	post development teeth	H Sc.	पश्च परिवर्धन दात
postaxial ray		अक्षपश्चीय अर	postdorsal corner	Geol	पृष्ठ पश्च कोण
postaxial surface		अक्षपश्च सतह	Postelsia palmaeformis	Bot.	पोस्टेलिसिया पामीफार्मिस
post-axial tuberosity		अक्षपश्च प्रोत्व	post-embryonic	Zool, Geol	ध्रुणोत्तर
post axillary	Zool.	पश्चवक्षीय	post-embryonic development		ध्रुणोत्तर परिवर्धन
postboarding	Chem. (Text.)	पश्च दहन	post-embryonic stage		ध्रुणोत्तर अवस्था
postbranchial	Zool.	पश्चकलोम	post-enclosure period	Geog.	परिबद्धोत्तर काल
postbranchial body		पश्चकलोम विड	post-equatorial horn	Zool.	पश्चमध्यवर्ती शृंग
postbuckling behaviour	Math.	अकुचनोत्तर आचरण	poster cloth	H.Sc.	पोस्टर वस्त्र
postcardinal	Zool.	पश्च प्रमुख	posteriad	Bot.	पश्चाभिमुख
postcaval vein	Zool.	पश्च महाशिरा	posterior	Biol, H.Sc.	पश्च
postcentral	Zool.	केन्द्रपश्च	posterior abdominal region	Zool.	पश्च उदर क्षेत्र
postcephalic	Zool.	पश्चशीर्ष	posterior adductor		पश्च अभिवर्तनी पेशी
postcerebral	Zool.	पश्चप्रमस्तिष्क	posterior adductor impression		पश्च अभिवर्तनी चिह्न
postcheliceral	Zool.	पश्चकरजीय	posterior adhesive tube		पश्च आसजी नली
postcingular plate	Bot.	प्रमेखलापश्च पट्ट	posterior angle		पश्चीय कोण
postclavicle	Zool.	पश्चजलुक	posterior aorta		पश्च महाधमनी
postcleithrum	Zool.	पश्चजलुकाम	posterior arculus		पश्च चापिका
post climax	Bot.	उत्तर चरम	posterior auricular vein		पश्च कर्ण शिरा
postclitellar	Zool.	पर्याणिकापश्च	posterior cavity		पश्च गुहा
postclypeus	Zool.	पश्चमुखपाली	posterior cephalic crown		पश्च शिरस्य क्रिटी
postcolon	Zool.	पश्चकोलन			
postcommissural gland	Zool.	पश्चसंधाधी ग्रंथि			
postconjugant fission	Zool.	पश्चसंयुग्मक विच्छेदन			
post-consolidation structure	Geol.	संघटनोत्तर रचना			
postcosta	Zool.	पोस्टकोस्टा, अनुपशृंगिका			
postcostal space	Zool.	अनुपशृंगिक स्थान			

posterior cephalic foramen	पश्च शिरस्य रंध्र	posterior maxilla	पश्च जंभिका, पश्च मैक्सिला
posterior chamber	पश्च कक्ष	posterior media	पश्च मीडिया
posterior chromatophore lobe	पश्च वर्णकीलवक पालि	posterior mesenteric artery	पश्च आंत्रयोजनी धमनी
posterior commissure	पश्च संघायिनी	posterior mesenteron rudiment	पश्च मध्यांत्र आद्यावशेष
posterior cornu <i>Zool.</i>	पश्च श्रृंगवर्ध	posterior notal process	पश्च वक्षपृष्ठक वर्ध
posterior crop <i>Zool.</i>	पश्च अन्नपुट	posterior palatine foramen <i>Zool.</i>	पश्च तालु रंध्र
posterior denticulate process	पश्च दंतिकाकार प्रवर्ध	posterior palatine vacuity	पश्च तालु कुहर
posterior dorsal cartilage	पश्चपृष्ठ उपास्थि	posterior pallial artery <i>Zool.</i>	पश्च प्रावार धमनी
posterior dorsal fin	पश्च पृष्ठ पख	posterior pallial nerve	पश्च प्रावार तंत्रिका
posterior dorsal muscle	पश्च पृष्ठ पेशी	posterior pharynx	पश्च ग्रसनी
posterior dorsal plate	पश्च पृष्ठ पट्टिका	posterior phrenic vein	पश्च मध्यछद शिरा
posterior dorsoventral muscle	पश्च पृष्ठाधर पेशी	posterior pleopod	पश्च प्लवपाद
posterior facial vein	पश्च आनन शिरा	posterior plug	पश्च प्लग, पश्च रोघिनी
posterior funnel fold	पश्च कीप बलन	posterior probability <i>Math.</i>	उत्तर प्रायिकता
posterior ileocaecal vein	पश्च त्रिकांक्ष शिरा	posterior promotor <i>Zool.</i>	पश्च अग्रवर्तनी
posterior intercalary plate	पश्च अंतर्विष्ट पट्टिका	posterior protogenic-tooth <i>Geol.</i>	आदिजात पश्चदंत
posterior intertribecular	पश्च अंतरासंबंधक	posterior protractor <i>Zool.</i>	पश्च अपाकुंचक
posterior intervertebral notch	पश्च-अन्तराकशेरुकी खांच	posterior pterygoid foramen	पश्च व्यंगिका रंध्र
posterior intestinal vein	पश्च आंत्र शिरा	posterior quadrant	पश्च चतुर्थांश
posterior intestine	पश्च आंत्र	posterior refractor muscle	पश्च आकुंचक पेशी
posterior labral muscle	पश्च लेब्रम पेशी, पश्च ऊर्ध्वोष्ठ पेशी	posterior root	पश्च मूल]
posterior lateral cartilage	पश्च पार्श्व उपास्थि	posterior rotator	पश्च घूर्णी
posterior lateralis	पश्च पार्श्वतंत्रिका	posterior sublingual shield	पश्च अधोजिह्व विशल्क
posterior levator	पश्च उन्नयनी	posterior sucker	पश्च चूपक
posterior linogastric vein	पश्च प्लीहाजठर शिरा	posterior tentorial arm	पश्चछदि शाखा
posterior loculate socket	पश्च कोष्ठकी गतिका	posterior tentorial pit	पश्चछदि गर्त
posterior masticatory <i>Geog.</i>	पश्च चर्वण	posterior thoracic air sac	पश्चवक्ष वायु कोष
		posterior tuberosity	पश्च प्रोत्य
		posterior vein	पश्च शिरा
		posterior vena cava	पश्च महाशिरा

posterodorsal arm	Zool.	पश्चपृष्ठीय भुजा	posthepatic	Zool.	पश्चयकृत्यीय
posterolateral arm		पश्चपार्श्वीय भुजा	posthumous	Geol.	विवर्तनोत्तर
posterolateral edge		पश्चपार्श्वीय कोर	postical lobe	Bot.	अभ्यस्य पालि, पश्चपालि
posterolateral ostium		पश्चपार्श्वीय आस्य	post-infectional immunity	Zool.	सक्रमणपश्च प्रतिरक्षा
posterolateral outgrowth		पश्चपार्श्वीय उद्गर्भ	posting	Math.	प्रविष्टि
poster rug	H Sc.	पोस्टर रग	post-inoculation	Bot.	सरोपणोत्तर
posteruption phenomenon	Geol.	उद्गारोत्तर घटना	postkinetic granite	Geol.	गतिकोत्तर ग्रेनाइट
poster work	Geog.	पोस्टर कार्य	post-labium	Zool.	पश्चलेबियम
postesophageal fibre	Zool.	पश्चग्रसिका ततु	post-larva	Zool.	पश्चडिम्भक
postfaulting peneplanation	Geog.	ध्रंशनोत्तर समप्रायभूमिभवन	post magmatic	Geol.	मैग्मोत्तर
post-fertilization tissue	Biol.	निपेचनोत्तर ऊतक	postmandibular	Zool.	चिबुकपश्चीय
postflagellate	Zool.	पश्चकशापी	postmating	Zool.	पश्चसगमो
post forming	Chem (Plastics)	पश्च सभवन	postmedian	Zool.	पश्चमध्यस्थ
postfrenum	Zool.	पश्चप्रग्रह	postmedian plate	Zool.	पश्चमध्यस्थ पट्ट
post frons	Zool.	फ्रॉन्ट फ्रॉन्स, अनुललाट	post-mentum	Zool.	पश्चमेन्टम
post-frontal	Zool.	ललाटिकापश्ची, अनुललाटी	post meridian	Geog.	अपराह्न
postfrontal pharyngeal dilator		अनुललाट ग्रसनी-विस्फारिणी	postminimus	Zool.	अधिकगुणित
postfrontal suture		अनुललाट सीवन	post mitotic	Zool.	पश्चसममूत्री
post furca	Zool.	पश्चद्विशिष्ट	post-monsoon period	Geog.	मानसूनोत्तर काल
postganglionic	Zool.	गुच्छिकापश्च	post mortem (= antopsy)	H Sc.	शव परीक्षा, मरणोत्तर परीक्षा
postgastrula	Zool.	पश्चकटुक	post mortem routine	Phy.	वैफल्योत्तर नेमका
postgastrula stage		कटुकपश्च अवस्था	postmultiplication	Math.	उत्तर गुणन
postgena	Zool.	पश्चकपोल	postnatal	Zool.	जन्मोत्तर, प्रसवोत्तर
post-genital	Zool.	जननान्गपश्चीय	postnotal plate	Zool.	उत्तरवक्षपृष्ठक पट्टिका
postgenital segment		जननान्गपश्चीय खंड	postnotal process		उत्तरवक्षपृष्ठक प्रवर्ध
postglacial	Geol, Geog.	हिमनदोत्तर, हिमयुगोत्तर	post-notum	Zool.	उत्तरवक्षपृष्ठक
postglacial deposit		हिमनदोत्तर निक्षेप	postnuchal plate	Zool.	पश्चन्यूनक पट्टिका, पश्चकंधरा पट्टिका
postglacial notch		हिमनदोत्तर खांच	post-nuptial display	Zool.	कामदोत्तर प्रदर्शन
postglacial time		हिमयुगोत्तर काल	post-nuptial moult		कामदोत्तर निर्मोक्ति
post-glenoid process	Zool.	ग्लीनॉइडपश्चीय प्रवर्ध	postoccipital	Zool.	अनुकपालपश्ची, पश्चानुकपाल
postgula	Zool.	पश्चगलकटक	postoccipital ridge		अनुकपालपश्ची कटक
post heating	Chem. (Met)	पश्चतापन	postoccipital suture		पश्चानुकपाल सीवन
			postoccipital vertebra		अनुकपालपश्ची कशोष्क
			postocclipt	Zool.	पश्चानुकपाल
			postocular	Zool.	पश्चालि

postocular shield		पश्चाक्षि विशालक	post Pleistocene time	Geog.	अत्यन्तनूतनोत्तर काल
postoesophageal commissure	Zool.	ग्रसिकापश्च संघायी	post pollinated nucellus	Bot.	परानणोत्तर बीजांडकाय
post office	Geog.	डाकघर	post precipitation	Chem.	पश्च अवक्षेपण
post office box	Phy.	पोस्टऑफिस बॉक्स	post reduction	Zool.	पश्चन्यूनीकरण
post office relay		पोस्टऑफिस रिले	post-retinal fibre	Zool.	पश्चदृष्टिपटल तंतु
post optimality problem	Math.	इष्टतमोपरांत समस्या	postrose	Bot.	पृष्ठोन्मुखी
post-oral	Zool.	मुखपश्चीय	post-sacral vertebra	Zool.	पश्चन्निक कशेरुक
postoral ciliated band		मुखपश्चीय पद्मामी पट्टी	postsegmental region	Zool.	पश्चखंडीय क्षेत्र
postoral circlet		मुखपश्चीय वृत्तक	post septal passage	Geol.	पटपश्च पथ
post-oral plate		मुखपश्च पट्टिका	postspinous fossa	Zool.	कंटकपश्च खात
postoral suture		मुखपश्चीय सीवन	post station	Geog.	विधाम स्थान
postoral trophic appendage		मुखपश्च पोषी उपांग	poststernellum	Zool.	पश्चोपाधरक
post-orbital	Zool.	नेत्रकोटरपश्ची	post-sternite	Zool.	पश्च अधरक
postorbital bristle		नेत्रकोटरपश्ची शूक, पश्चनेत्रख शूक	poststone	Geol.	पोस्टस्टोन
postorogenic	Geol.	पर्वतनोत्तरी	post sulcal node	Geol.	पश्च सीता गांठ
post-orogenic facies		पर्वतनोत्तरी संलक्षण	post-tectonic granite	Geol.	विवर्तनिकोत्तर ग्रेनाइट
postorogenic granite		पर्वतनोत्तरी ग्रेनाइट	post-tectonic pluton		विवर्तनिकोत्तर प्लूटॉन
postotic	Zool.	पश्चकर्णी	post-tectonic recrystallization		विवर्तनिकोत्तर पुनः क्रिस्टलन
post-ovulatory copulation	Zool.	पश्च-अंडोत्सर्ग मैथुन	post-temporal	Zool.	शंखपश्ची
postpalmar	Zool., Geol.	पश्चकरतल	post-tentorial arm	Zool.	पश्च-छदि शाखा
post-parietal	Zool.	भित्तिकास्थिपश्ची	post-tentorial pit		पश्च-छदि गर्त
post-partum oestrus	Zool.	प्रसवोत्तर भदचक्र, प्रसवोत्तर स्त्रीभदचक्र	post tergite	Zool.	पश्च पृष्ठकांश
post-partum ovulation		प्रसवोत्तर अंडोत्सर्ग, प्रसवोत्तर डिम्बक्षरण	post-trematic	Zool.	पश्चरंध्र
post-patagium	Zool.	पश्चपटेजियम, पश्चभ्रमप्रसर	post-trematic nerve		पश्चरंध्र तंत्रिका
postpatent period	Zool.	व्यक्तोत्तर काल	post-trochophoral	Zool.	ट्रोकोफोरपश्च
postpectus	Zool.	पश्चनिवझ	post-tympanic process	Zool.	पश्चकर्ण प्रवर्ध
postpedes	Zool.	पश्चपाद	post-typhlosolar region	Zool.	आंतबलनपश्च क्षेत्र
postpedicel	Zool.	पश्चवृन्त	postulate	Math.	अभिगृहीत
postpetiole	Zool.	पश्चवृन्त	postulate of relativity		आपेक्षिकता-अभिगृहीत
postpharyngeal	Zool.	ग्रसनीपश्च	postulate of velocity		वेग अभिगृहीत
postphragma	Zool.	पश्चवृत्ति, पश्चवझछद	postulational approach		अभिगृहीतीय दृष्टिकोण
			postural	H.Sc.	स्थितिज
			posture	Biol., H.Sc.	आसन, संस्विति, स्थिति
			postuterine rudiment	Zool.	गर्भाशयपश्च आयांग
			postuterine sac		गर्भाशयपश्च कोश

postventral corner	<i>Geol.</i>	अधरपश्च कोण	potash	पोटैश
postvertical bristle	<i>Zool.</i>	पश्चोदय शुक	potash alum	पोटैश-फिटकरी
post volcanic phenomenon	<i>Geol.</i>	पश्च ज्वालामुखी घटना	potash bulb	पोटैश बल्ब
postulvar	<i>Zool.</i>	भगपश्ची	potash deficiency disease	पोटैश न्यूनता रोग
postulvar rudiment		भगपश्च आशय	potash fertilizer	पोटैश उर्वरक
postulvar uterine branch		भगपश्च गर्भाशयी शाखा	potash glass	पोटैश काच
postwar boom	<i>Geog.</i>	युद्धोत्तर बूम	potash magnesia	पोटैश मैग्नीशिया
post zygapophys	<i>Zool.</i>	पश्चयोत्रि वध	potash mica	पोटैश अक्षक
postzygotic	<i>Zool.</i>	पश्चयुगमत्रीय	potash salt	पोटैश-लवण
pot	<i>Chem (Gl.), H Sc.</i>	1 घट 2. पोट	potassic	<i>Chem, Geol.</i> पोटैशियमी
potable		पेय	potassic lava	पोटैशियमी लावा
potable water		पेय जल	potassii permanganas crystal	पोटैसी परमैंगेनास क्रिस्टल
potage	<i>H.Sc.</i>	पोटाज	potassium	<i>H Sc., Chem.</i> पोटैशियम
potage dubarry		पोटाज इयूबैरी	potassium acetate	पोटैशियम ऐसीटेट
Potala	<i>Geog.</i>	पोटाला	potassium carbonate	पोटैशियम कार्बोनेट
potamicolous	<i>Bot.</i>	नदीवासी	potassium chloride	पोटैशियम क्लोराइड
potamiphilous	<i>Bot.</i>	नदीरापी	potassium cyanide	पोटैशियम सायनाइड
potamobenthos	<i>Zool.</i>	सरित्तनितलक	potassium diaquochromate	पोटैशियम डाइऐक्वोक्रोमेट, पोटैशियम ट्रिअक्वोमेट
Potamobius	<i>Zool.</i>	पोटैमोबियस	potassium ferricyanide	पोटैशियम फेरीमायनाइड
potamodromous	<i>Zool.</i>	सरित्तगामी	potassium hydrogen phthalate	पोटैशियम हाइड्रोजन फेथलेट
potamodromy		सरित्तगामिता	potassium hydrogen tartrate	पोटैशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट
Potamogale	<i>Zool.</i>	पोटैमोगाली	potassium iodide	पोटैशियम आयोडाइड
Potamogalidae		पोटैमोगालिडी	potassium metabisulphite	पोटैशियम मेटाबाइसल्फाइट
Potamogetonaceae	<i>Bot.</i>	पोटैमोजेटोनेसी	potassium myronate	पोटैशियम माइरोनेट
Potamogeton crispus		पोटैमोजेटोन क्रिस्पस	potassium nitrate	पोटैशियम नाइट्रेट
Potamogeton indicus		पोटैमोजेटोन इन्डिकस	potassium nitrite	पोटैशियम नाइट्राइट
Potamogeton pectinatus		पोटैमोजेटोन पेक्टीनेटस	potassium nutrition	पोटैशियम पोषण
potamologic geography	<i>Geog.</i>	नद-भूगोल,	potassium pectate	पोटैशियम पेक्टेट
potamology		नदविज्ञान	potassium permanganate	पोटैशियम परमैंगनेट
potamophilous	<i>Bot.</i>	नदीरापी	potassium peroxy zirconyl sulfate	पोटैशियम पराक्सा जर्कोनिल सल्फेट
potamoplankton	<i>Zool.</i>	सरित्तप्लवक		
pot arch	<i>Chem.(Gl.)</i>	षट शोरण		

potassium phosphate		पोटैशियम फॉस्फेट	potentate	<i>Geog.</i>	अधिपति
potassium silicate		पोटैशियम सिलिकेट	potent factor		शक्त कारक
potassium sorbate		पोटैशियम सॉरबेट	potential		(n.) विभव (adj.) 1. स्थितिज 2. शक्य
potassium succinate		पोटैशियम सक्सिनेट	potential actuated		विभव सन्निय
potassium sulphite		पोटैशियम सल्फाइट	potential agricultural value		विभव कृषि मान, सम्भावी कृषिमान
potassium tartrate		पोटैशियम टार्ट्रेट	potential ancestry	<i>Zool.</i>	सम्भाव्य पूर्वजता
potassium tetraoxalate		पोटैशियम टेट्राऑक्सलेट	potential barrier		विभव प्राचीर
potato	<i>H.Sc., Bot.</i>	आलू	potential box		विभव बक्स
potato agar medium		आलू ऐगार माध्यम	potential capacity		शक्य क्षमता
potato blight		आलू की शीर्णता, आलू की अंगमारी	potential centre		विभव केन्द्र
potato cheese		आलू पनीर	potential centre displacement method		विभव केन्द्र विस्थापन विधि
potato chips		आलू चिप्स	potential conflict		शक्य संघर्ष
potato flour		आलू आटा	potential core		विभव कोर
potato fusarium wilt		आलू की फ्यूजेरियमी म्लानि	potential curve		विभव वक्र
potato leaf roll		आलू पर्णवेल्लन	potential danger	<i>Geog.</i>	सम्भाव्य खतरा
potato masher		पोटेटो मैशर	potential density		विभव घनत्व
potato mosaic		आलू किर्मीर, आलू मोजेक	potential determining ion		विभव निर्धारण आयन
potato mottle-virus		आलू कर्दुरता विषाणु	potential diagram		विभव आरेख
potato powdery scab		आलू का चूर्णित कच्छु	potential difference		विभवान्तर
potato salad		आलू सलाद	potential divider		विभव-विभाजक
potato scab		आलू-स्कैब	potential drop		विभव पात
potato spirit		आलू स्प्रिट	potential-drop ratio method		विभवपात अनुपात विधि
potato starch		आलू मंड	potential energy		स्थितिज ऊर्जा
potato-stone	<i>Geol.</i>	पोटेटो स्टोन	potential energy barrier		विभवऊर्जा रोध
potato tuber moth		आलू कंद शलभ	potential energy diagram		स्थितिज ऊर्जा आरेख
potato wart		आलू का मस्सा, आलू का कीलक	potential-energy map		स्थितिज ऊर्जा मानचित्र
potato wilt		आलू म्लानि	potential energy of deformation		विरूपण स्थितिज ऊर्जा
pot bottom	<i>Geol.</i>	पॉट बॉटम	potential energy surface		स्थितिज ऊर्जा पृष्ठ
pot burner	<i>Chem.</i>	पात्र वर्नेर, पात्र ज्वालक	potential field		विभव-क्षेत्र
pot core	<i>Phy.</i>	घट क्रोड	potential flow		विभव-प्रवाह
pot earth	<i>Geol.</i>	भडि मृत्तिका			
potelot	<i>Geol.</i>	पोटलॉट			
potency	<i>H.Sc., Chem.</i>	शक्तिमत्ता, शक्ति			
potent	<i>Chem.</i>	शक्तिमान			

potential flow field		विभव-प्रवाह क्षेत्र	potentiometer recorder		विभवमापी अभिलेखी
potential forest		विभव वन	potentiometric analysis		विभवमितीय विश्लेषण
potential function		विभव फलन	potentiometric end point		विभवमितीय अन्त्य बिन्दु
potential gradient		विभव प्रवणता	potentiometric method		विभव मूलक पद्धति
potential height		विभव उच्चता	potentiometric titration		विभव मूलक अनुयापन
potential hill		विभव टीला	potentiostat		विभवस्थापी
potential hollow		विभव गर्त	Potemion		पोटेरिऑन
potential instability		विभव अस्थिरता	pot-eye		घट अक्षि
potentiality	<i>Geog.</i>	शक्यता, विभव	pot furnace		घट भट्टी, घट घ्राट्ट
potentiality of evolution		विक्रम विभव	pot glass		घट काच
potential mediator		विभव साम्यक, विभव मीडिएटर	potherbs		खाद्य उत्पादक
potential motion		विभव गति	Pothier coefficient		पोथियर गुणांक
potential osmotic pressure		शक्य परासरण दाब	Pothocites		पोथोसाइटोज
potential power		शक्य शक्ति	pot holder		पॉट होल्डर
potential production unit		शक्य उत्पादन एकक	pot hole		जनन गतिका
potential productivity		विभव उत्पादितता	pot-hole action		जलन गतिका क्रिया
potential profile		विभव प्रोफाइल	pothole excavation		धूर्णाजन खनन
potential saturation		विभव सत्पत्ति	pot-hole formation		जनन गतिका रचना
potential scattering		विभव प्रकीर्णन	pot-hole gully		जनन गतिका अवनालिका
potential sensitivity		विभव सुवाहिता	potholing		जलन गर्तन
potential service	<i>Math.</i>	समाध्य सेवा	pothook	<i>Geog., H.Sc.</i>	पाँडूक, कडा
potential strategy		समाख्य युक्ति	Pothos	<i>Bot., Geog.</i>	पोथॉस
potential surface		विभव पृष्ठ	<i>Pothos scandens</i>		पोथॉस स्कैन्डेन्स
potential temperature		विभव ताप	pot kiln	<i>Geol.</i>	भावा, भाइ भट्टी
potential terminal		विभव टर्मिनल	potlatch	<i>Geol.</i>	पोटलेच, आदिवासी राजभोज
potential theory		विभव सिद्धान्त	pot lead	<i>Geog.</i>	प्रेकालेड, पॉटलेड
potential transformer		विभव ट्रांसफार्मर	pot life (adhesive working life)	<i>Chem., Bot.</i>	घट आयु (आसजक आयु)
potential well		विभव कूप	pot magnet	<i>Phy.</i>	घट चुम्बक
potential well model		विभव कूप मॉडल	pot mill	<i>Chem. (Plastics)</i>	घट वेधणी
<i>Potentilla</i>	<i>Bot.</i>	पोटेन्टिला	Potomac formation	<i>Geol.</i>	पोटोमैक मैलमसूह
Potentillae		पोटेन्टिली	Potomac series		पोटोमैक श्रेणी
Potentillineae		पोटेन्टिलिनी			
potentiometer	<i>Phy., Geog.</i>	विभवमापी, पोटेन्टियोमीटर			



potometer		वाष्पोत्सर्जनमापी, पोटोमीटर	pot	<i>Phy.</i>	कूटना
Potonia	<i>Bot.</i>	पोतोनिया		<i>Geog.</i>	वाड़ा
pot opening	<i>Chem.(Gl.)</i>	घट छिद्र		<i>H.Sc.</i>	पाउंड
Potos	<i>Zool.</i>	पोटोस	poundal	<i>Phy.</i>	पाउंडल
pot ring	<i>Chem.</i>	घट बलय	pounding gale	<i>Geog.</i>	अवपाती झंझा
Potsdam system	<i>Geol.</i>	पोट्सडैम पद्धति	Pound oscillator		पाउंड दोलक
Potsdam value		पोट्सडैम मान	pour	<i>Chem.,Bot.</i>	वहाव, अघःस्रवण
potsherd	<i>Geog.</i>	ठीकरा	pour depressor		अघःस्रवण अवनमक, वहाव अवनमक
pot spinning	<i>H.Sc.</i>	पाँट कताई	poured short		न्यून अघःस्रावित
potstone	<i>Geol.</i>	भांड प्रस्तर	pouring basin		अघःस्रावी बेसिन, अघःस्रावी कुंडी
potted circuit	<i>Phy.</i>	घट मुद्रित परिपथ	pour inhibitor		अघःस्रवण निरोधक
potted line		घट मुद्रित लाइन	pour plate method	<i>Bot.</i>	सवन प्लेट विधि, पोर प्लेट विधि
potted plant	<i>H.Sc.</i>	गमले का पौधा	pour point		वहाव बिन्दु
Potter process	<i>Chem.</i> <i>(Met.)</i>	पाँटर प्रक्रम	pour reversion	<i>Chem.(Pet.)</i>	अघःस्रवण प्रत्यावर्तन
potter's clay	<i>Geol.</i>	नल-मृत्तिका	pour stability		अघःस्रवण स्थायित्व
pottery	<i>H.Sc.,</i> <i>Chem.</i>	1. मृदभांड, मिट्टी के वर्तन 2. भाण्डकर्म	<i>Pourtalesia alcocki</i>	<i>Zool.</i>	पोर्टैलेसिया एल्काँकी
pottery butt	<i>Geog.</i>	मृत्तिका नाद	pour test		वहाव-परीक्षण
pottery clay		भांड-मृत्तिका	poverty of flora	<i>Geog.</i>	वनस्पति अभाव
pottery wheel	<i>Geog.</i>	चाक	poverty-stricken mass	<i>Geog.</i>	अभावग्रस्त जनसमूह
potting	<i>Phy.</i>	घटमुद्रण, पात्रोपचार	poverty-stricken peasant	<i>Geog.</i>	दरिद्र कृषक
potting nitre	<i>Chem.</i>	पात्र शोरा, पाँट नाइट्र	powder		पाउडर, चूर्ण
potu fly	<i>Zool.</i>	पोटु मक्खी, पोडु मक्खी	powder blue		पाउडर ब्लू, पाउडर नील
pot wagon	<i>Chem.(Gl.)</i>	घट गाड़ी	powder cart	<i>Geog.</i>	वाहद गाड़ी
pouch	<i>Zool.</i>	कोष्ठ	powder combination	<i>Geog.</i>	पाउडर प्रणाली
pouch net		कोष्ठ जाल	powder down	<i>Zool.</i>	क्षोद पिच्छ
poulangy	<i>H.Sc.</i>	पौलेंजी	powder down patch		क्षोद पिच्छ क्षेत्र
poult de la reine	<i>H.Sc.</i>	पू डे ला रीन	powdered dye		चूर्णित रंजक
poult de soie	<i>H.Sc.</i>	पू डे स्वा	powdered ore	<i>Geol.</i>	प्रकीर्णित अयस्क
poultice	<i>H.Sc.</i>	उपनाह, पुल्टिस	powdered sugar		चूर्णित शर्करा
poultry	<i>Geog.,H.Sc.</i>	कुक्कुट पालन, पोल्ट्री	powdering		चूर्णन
poultry farm		कुक्कुट फार्म	powder metallurgy		चूर्ण धातुकी
poultry needle	<i>H.Sc.</i>	पोल्ट्री सुई	powder method		चूर्ण विधि
poultry raising		कुक्कुट पालन	powder of Algaroth	<i>Chem.</i>	ऐल्गेराथ पाउडर
pounce	<i>Geog.</i>	पाउन्स			

powder photograph	Phy	चूर्णिक फोटो	power loading		शक्ति भारण
powder post beetle	Zool	कण्ड चूर्णकारी भृग	power loom	H.Sc.	दिजली करघा
powdery	Bot, Geol., Chem	चूर्णी, चूर्णिल	power meter		शक्तिमापी
powdery mildew		चूर्णिल आसिता	power method		घात-विधि
powdery scab		चूर्णिल स्कैब, चूर्णिल कच्छु	power net	H.Sc.	पाँवर नेट
powdery soil		चूर्णी मृदा	power of accommodation		समजन क्षमता
powellite	Geol.	पादेलइट	power of a point		बिन्दु क्षमता
power		1 सामर्थ्य, क्षमता, शक्ति 2. (degree) घात	power of a set		सम्मुख्य की गणन संख्या
power alcohol	Chem.	पावर ऐल्कोहल	power of a test		परीक्षण की क्षमता
power amplification	Phy.	शक्ति प्रवर्धन	power of dissipation		क्षय शक्ति
power amplifier		शक्ति प्रवर्धक	power of lens		लेन्स की क्षमता
power arm	Phy.	आर्म्स दाहु	power of statistical test		सांख्यिकीय परीक्षण की क्षमता
power boat	Geog	यत्न चालित नौका	power of the countinuum		सातत्यक की गणन-संख्या
power breeder	Phy.	शक्ति प्रजनक	power pack	Phy.	शक्ति सकुल
power breeder reactor		शक्ति प्रजनक रिएक्टर	power peg		घात कीलक
power capstan	Geog.	यत्न चालित कैपस्टन	power plant	Phy.	शक्ति सयत, विद्युत् सयत
power coefficient	Phy.	शक्ति गुणांक	power-propelled vessel	Zool	यत्नचालित पोत
power control rod		शक्ति नियंत्रण छड़	power range	Phy.	शक्ति परतल
power craft	Zool.	यत्न नौयान	power rating	Phy.	शक्ति सीमांक
power curve		घात वक्र	power ratio		शक्ति अनुपात
power density		शक्ति घनत्व	power reactor		शक्ति रिएक्टर
power divider		शक्ति विभाजक	power requirement		शक्ति अपेक्षा
powered vessel	Zool.	यत्न पोत	power semi group	Math	घात सामिसमूह
power factor		शक्ति गुणांक	power series analysis		घात श्रेणी विश्लेषण
power factor meter		शक्ति गुणक मापी	power series expansion		घात श्रेणी प्रसार
power fishing	Zool	यत्न मत्स्यन	power series method		घात श्रेणी विधि
power forming	Chem	शक्ति सभावन	power set-back	Phy.	शक्ति विघात
powerful vehicle	Geog	शक्तिशाली गाड़ी	power shovel	Geol.	विद्युत्-शोवेल
power function of test	Math.	परीक्षण का क्षमता फलन	power spectral density		शक्ति स्पेक्ट्रमी घनत्व
power group M	Math.	घातसमूह M	power spectrum	Math.	मातावनी ऋचन
power house	Geog, Phy.	विजलीघर	power spectrum level	Phy.	शक्ति स्पेक्ट्रमी स्तर
power law		घात नियम	power spectrum of noise pressure		रव दाब का शक्ति स्पेक्ट्रम
power law method		घातानुसारी नियम विधि	power sprayer	Zool.	शक्ति पुहारक, शक्ति पुहारित्र
power law of viscosity		श्यानता का घात नियम			
power line	Geog., Phy.	पावर लाइन, शक्ति संचरण लाइन			

power supply	<i>Phy.</i>	विद्युत् प्रदाय	practical chemistry	प्रायोगिक रसायन
power trajectory		शक्ति प्रक्षेप पथ	practical class	प्रयोग कक्षा
power transformer		शक्ति परिणामित्र, शक्ति ट्रांसफार्मर	practical corollary	व्यावहारिक उपप्रमेय
power transmission		(विद्युत्) शक्ति संचरण	practical entropy	व्यावहारिक ऐन्ट्रॉपी
power transmission line		शक्ति संचरण लाइन	practical examination	प्रायोगिक परीक्षा
power tube		शक्ति नलिका	practical geography	प्रायोगिक भूगोल, प्रयोगात्मक भूगोल
power winches	<i>Zool.</i>	यंत्र प्रामित्र	practical geometry	प्रायोगिक ज्यामिति
power winding		शक्ति कुंडलन	practical guide	प्रयोगात्मक गाइड
power work hardening material	<i>Math.</i>	शाक्तिक विकृति दृढायमान पदार्थ	practically certain	<i>Math.</i> निश्चितप्राय
pox	<i>Bot.</i>	पाँक्स	practical method	व्यावहारिक विधि
pox stone	<i>Geol.</i>	पाँक्स प्रस्तर	practical note book	<i>Phy.</i> प्रयोग नोट बुक
pox virus	<i>Zool.</i>	पाँक्स वाइरस, स्फोट विषाणु	practical physics	प्रायोगिक भौतिकी
Poynting flux	<i>Math.,Phy.</i>	प्याइन्टिंग वभिवाह	practical regionalism	व्यावहारिक प्रदेशवाद
Poynting-Robertson effect		प्याइन्टिंग राबर्टसन प्रभाव	practical taxonomy	<i>Bot.</i> वन्यासिक वर्गिकी, प्रायोगिक वर्गिकी
Poynting's-theorem		प्याइन्टिंग प्रमेय	practical unit	व्यावहारिक मात्रक
Poynting's vector		प्याइन्टिंग सदिश, प्याइन्टिंग वेक्टर	practical work	प्रयोग कार्य
poyoak oil	<i>Chem.</i>	पायजोक तैल	practical zoology	प्रायोगिक प्राणिविज्ञान
pozzuolana	<i>Geol.</i>	पोझोलाना	practice	<i>Math., H.Sc.</i> 1. व्यवहार-गणित 2. प्राचलन पद्धति
pozzuolana cement (also pozzulona)	<i>Chem.</i>	पोल्ललाना सीमेन्ट (पुल्ललाना)	practice rocket	<i>Phy.</i> वन्यास राकेट
P. P. I. (Plan position Indicator)	<i>Phy.</i>	प्लान स्थिति सूचक, P. P. I.	Pradoliny	<i>Geog.</i> प्रैडोलाइनी
P. P. I. diagram		प्लान स्थिति सूचक आरेख, P. P. I. आरेख	praecoces (nidifugae)	<i>Zool.</i> सहायानपेक्षी (नोडापाययी)
P. P. I. prediction		P.P.I. पूर्वानुमान	praecox	<i>Bot.</i> कालपूर्वी
P. P. I. repeater		P.P.I. पुनरावर्तक, P.P.I. रिपीटर	praedorsal corner	<i>Geol.</i> पृष्ठाग्र कोण
P. P. I. scope		प्लान स्थिति सूचक दर्शी, P. P. I. दर्शी	praedorsum (predorsum)	<i>Zool.</i> अग्रपृष्ठ
P. P. M. (pulse position modulation)	<i>Phy.</i>	स्पंद स्थिति माडुलन	praelabrum (prelabrum)	<i>Zool.</i> अग्रऊर्ध्वपृष्ठ
"Prachtvolle Rothfarbung"	<i>Chem.</i>	प्राक्टफोले रोथफारबुंग, आपूर्णांश	Praeepas	<i>Geol.</i> प्रिलेपस
practical		1. प्रयोगात्मक, प्रायोगिक 2. व्यावहारिक	*Praesepe	प्रोसीप
practical application		व्यावहारिक अनुप्रयोग	praeterga (preterga)	<i>Zool.</i> अग्रपृष्ठक
			praeventral corner	<i>Geol.</i> अघराग्र कोण
			prairie climate	<i>Geog.</i> प्रेअरी जलवायु
			prairie dog	प्रेअरी डॉग
			prairie dog mound	प्रेअरी डॉग टीला
			prairie plain	प्रेअरी मैदान

prairie soil		प्रेअरी मृदा	pre-amplifier	Phy.	पूर्व प्रवर्धक
prairie steps		प्रेअरी सीपान	preanal area	Zool.	गुदपूर्व क्षेत्र
pramoxine hydrochloride	Chem.	प्रेमोक्सीन हाइड्रोक्लोराइड	preanal fin		गुदपूर्वी पक्ष
Prandtl Reuss constitutive equation	Math	प्राड्ल रॉयम सरचक्र समीकरण	preanal ganglion		गुदपूर्वी गुच्छिका
Prandtl's boundary layer		प्राड्ल परिसीमा पृष्ठ	preanal lobe		गुदपूर्व पालि
Prandtl's mixing length theory		प्राड्ल का मिश्रण लम्बाई सिद्धांत	preanal plate		गुदपूर्व पट्टिका
Prandtl's momentum transfer theory		प्राड्ल का संवेग स्थानान्तरण सिद्धांत	peranal sucker		गुदपूर्वी चूसक
prase	Geol.	प्रेज	preanal tube		गुदपूर्व नलिका
praseodymium		प्रेजियोडिमियम	pre-and post		पूर्व तथा पश्चात्
praseo-salt	Chem.	प्रेजियो लवण, हरित लवण	preantenna	Zool	अग्रशृंगिका
prasinite	Geol.	प्रेसीनोइट	preantennal appendage (=preantennary appendage)		अग्रशृंगिका उपांग
<i>Prasiola crispa</i>	Bot.	प्रेसिओला क्रिस्पा	preantennal nerve		अग्रशृंगिक तन्त्रिका
prasoid	Geol.	प्रेजोइड	preantennary segment		अग्रशृंगिक खंड
pratal	Bot	शादूलवर्षा	pre-articular	Zool	संधिपूर्वी
pratnicolous	Zool	शादूलवासी	preassigned number	Math	पूर्वनिर्दिष्ट संख्या
prawn	Zool	झींगा	preautumnal	Bot.	शरत्पूर्वी
prawn canning		झींगा डिब्बाबंदी	preaxial corner	Geol	अधरपूर्व कोण
prawn fishery		झींगा मात्स्यकी	preaxial border	Zool	पूर्वाक्ष सीमाना
prawn fishing		झींगा मत्स्यन	preaxial ray	Zool	अग्रपूर्वी अर
prayer stick	Geog.	पूजा दंड	preaxial surface		अग्रपूर्वी सतह
prayer wheel	Geog.	प्रार्थना चक्र	preaxial tuberosity		पूर्वाक्ष प्रोत्थ
Prayon concentrator	Chem.	प्रेजॉन सांद्रित्र	prebalancer	Zool.	प्रसन्तोलेक
preabdomen	Zool., Geol.	अधीदर	"pre-bate"	Chem.	पूर्ववेष्ट, पूर्वचर्म कुंड
pre-acclimatization	Zool	पूर्व पर्यनुकूलन	preboarding	Chem (Text)	पूर्व आदूहन
preacetabular	Zool.	श्रोणिजलूखलपूर्वी	preboreal	Zool.	पूर्वबोरियन
preacetabular process (pectineal process)		श्रोणिजलूखलपूर्व प्रवर्ध	prebranchial zone	Zool.	बनोमपूर्व क्षेत्र
preacquisition fasting	Bot.	अवनपूर्व अनशन	prebronchial	Zool	पूर्वश्वमनी
pre-adaptation	Zool.	पूर्वानुकूलन	precaliferol	Chem.	प्रोबैलिफेरॉल
preadaptive mutation		पूर्वानुकूलो उत्परिवर्तन	Pre-Cambrian era	Geol., Zool., Geog	कैम्ब्रियनपूर्व महाकल्प
preaestival	Bot.	शीष्म पूर्वी	Pre-Cambrian formation		कैम्ब्रियनपूर्व शीतममूह
preagricultural period	Geog.	पूर्व कृषि काल	precapillary	Zool.	पूर्वनेत्रिका
prealar	Zool	पक्षपूर्व	precartilage	Zool	पूर्वजगारिष

precaudal gland	Zool.	पुच्छपूर्वी ग्रंथि	precipitating agent	अवक्षेपण कर्मक
precaudal region		पुच्छपूर्वी क्षेत्र	precipitating electrolyte	अवक्षेपक अपघट्य
precaution		पूर्वाविधान, पूर्वोपाय	precipitation	1. अवक्षेपण 2. वर्षण
precaval vein	Zool.	अग्रमहाशिरा	precipitation and ripening	अवक्षेपण और पक्ववन
precedance indicator	Phy.	पूर्वप्रदर्श सूचक	precipitation day	वर्षण दिवस
precephalic	Zool.	शीर्षपूर्व	precipitation effectiveness	वर्षण प्रभावितता
precephalon	Zool.	आदिशीर्ष	precipitation hardening	अवक्षेपण दृढ़ीभवन, अवक्षेपण कठोरण
'preceratium' phase	Bot.	सिरेशियम पूर्व प्रावस्था, प्रीसिरेशियम प्रावस्था	precipitation mechanism	वर्षण क्रियाविधि
precerebral	Zool.	प्रमस्तिष्कपूर्व	precipitation number	अवक्षेपणांक
precessing ellipse	Phy.	पुरस्तारी दीर्घवृत्त	precipitation pattern	वर्षण पैटर्न
precession	Geog., Math.,Phy.	अवन, पुरस्तरण	precipitation process	अवक्षेपण प्रक्रम
precessional angle		पुरस्तरण कोण	precipitation reaction	अवक्षेपण अभिक्रिया
precessional motion		पुरस्तरण गति	precipitation rose	वर्षण आरेख
precessional velocity		पुरस्तरण वेग	precipitation static (=precipitator noise)	अवक्षेप रव
precession constant		अवन स्थिरांक	precipitation unit	अवक्षेपण एकक
precession method		पुरस्तरण विधि	precipitator	अवक्षेपित
precession of equinoxes		विषुव अवन	precipitator noise (=precipitation static)	अवक्षेप रव
precession photography		पुरस्तरण फोटोग्राफी	precipitin	Biol.,Chem. प्रेसिपिटिन
precheliceral segment	Zool.	पूर्वप्रकरज खंड	precipitin reaction	प्रेसिपिटिन अभिक्रिया
precieuse	H.Sc.	प्रेस्यूज	precipitin test	प्रेसिपिटिन परीक्षण
precinct	Geog.	अहाता, सीमा, उपक्षेत्र	precipitous bank	Geog. खड़ा किनारा
precingular plate	Bot.,Zool.	प्रमेखलापूर्व पट्ट	precipitous hill	खड़ी पहाड़ी
precious garnet	Geol.	पाइरोप	precipitous sea	Geog. उत्तुंग तरंगित सागर
precious metal	Geol.	बहुमूल्य धातु	precipitous slope	खड़ा ढाल
precious mineral		बहुमूल्य खनिज	precise	प्रत्य, परिशुद्ध
precious opal		बहुमूल्य ओपल	precise adaptation	परिशुद्ध अनुकूलन
precious serpentine		बहुमूल्य सर्पेंटीन	precise leveling	परिशुद्ध समतलन
precious stone		रत्न, बहुमूल्य रत्न, मणि	precise	परिशुद्ध फोटोग्राम- मिति यंत्र
precipice	Geog.,Geol.	दरद, खड़ी चट्टान	precise photogrammetric instrument	
precipitable water	Geog.	वर्षणीय जल	precision	परिशुद्धता, परिशुद्धि
precipitant	Chem.	अवक्षेपक		
precipitate		अवक्षेप		
precipitated		अवक्षेपित		
precipitate labour	H.Sc.	सहसा प्रसव		

precision analyser		परिशुद्धता विश्लेषक	precoxale (precoxalia) <i>Zool.</i>	अग्रवृक्षागक
precision approach radar		यथार्थता उपनमनदर्शी रडार	precurral nerve <i>Zool.</i>	उत्पूवं तंत्रिका
precision attained		उत्तम्य परिशुद्धता	precrystalline <i>Geol.</i>	क्रिस्टलनपूर्वं
precision constant	<i>Geog.</i>	सुतथ्य स्थिराक	precrystalline deformation	क्रिस्टलनपूर्वं विरूपण
precision instrument		यथार्थमापी यंत्र, प्रतयमापी साधित्र	precure <i>Chem. (Plastics)</i>	पूर्वसमाधन
precision levelling		सुतथ्य तलेक्षण	precursor <i>H Sc, Phy, Math</i>	पूर्वगामी, पूर्ववर्ती
precision made	<i>H Sc.</i>	सूक्ष्म निर्मित	precursor-exhaustion	पूर्वगामी समापन सिद्धांत
precision network	<i>Phy.</i>	यथार्थता जाल	precursor wave	पूर्वगामी तरंग
precision of a test		परीक्षण की परिशुद्धता	precursory folding <i>Geol.</i>	पूर्वाग्र बलन
precision parameter		परिशुद्धि पैरामीटर	precystic <i>Zool.</i>	पुटीपूर्वं
precision prescribed	<i>Math.</i>	निर्धारित परिशुद्धता	precystic amoeba	पुटीपूर्वं अमीबा
precision reached		प्राप्त परिशुद्धता	precystic individual	पुटीपूर्वं व्यक्ति
precision resistance		परिशुद्ध प्रतिरोध, यथाधिक प्रतिरोध	precystic stage	पुटीपूर्वं अवस्था
pre-climax	<i>Bot.</i>	प्राक्चरम	predaceous <i>Zool, Geog.</i>	परभक्षी
preclitellar	<i>Zool.</i>	पर्याणिकापूर्वं	pre Darwinian <i>Biol.</i>	डार्विनपूर्वं
precoat filters	<i>Chem.</i>	पूर्वलेपित निस्पन्दक, पूर्वलेपित फिल्टर	predation <i>Zool.</i>	परभक्षण
precocious	<i>Zool.</i>	कालपूर्वं	predatism	परभक्षिता
precociousness	<i>Zool.</i>	पूर्वजननता	predator <i>Zool.</i>	परभक्षी
precombustion products	<i>Chem.</i>	पूर्वदहन उत्पाद	predator-prey relationship	मशय-मशक संबंध
precompact	<i>Math.</i>	पूर्वसंहत	predatory <i>Geog. Zool.</i>	सूठक परभक्षी
preconditioning	<i>Chem.</i>	पूर्वानुबलन	predatory fish	परभक्षी मीन
preconduction current	<i>Phy.</i>	चालनपूर्वं धारा	predatory insect	परभक्षी कीट
pre-conglomerate time	<i>Geog.</i>	पूर्वं सगुटिका काल	predatory mammal	परभक्षी स्तनी
preconjugant	<i>Zool.</i>	पूर्वसयुग्मी	predazzite <i>Geol.</i>	प्रिडाडाइट
preconsolidation structure	<i>Geol.</i>	प्राक्मपिडन रचना	predecessor <i>Bot, Math.</i>	पूर्ववर्ती, पूर्वग
pre-cooled	<i>Phy.</i>	पूर्वं शीतलित	predentate <i>Zool.</i>	दंतिकापूर्वी
precooling	<i>Chem.</i>	पूर्वशीतलन	predentate dinosaur	दंतिकापूर्वी साइनोसॉर
pre-coraoid	<i>Zool.</i>	असतुहपूर्वी	predentine <i>Zool.</i>	प्रीडेन्टीन
precoracoidal bar		असतुहपूर्वं दंड	predestined victim <i>Geog.</i>	पूर्वनियत अडेर
precostal	<i>Zool.</i>	अग्रशुंघ	predetermined scale <i>Math., Geog, Phy.</i>	पूर्वनियत माप, पूर्वनियत मापनी
precoxá	<i>Zool.</i>	अग्रवृक्षाग	predetermined variable	पूर्वनियत चर
precoxal bridge		अग्रवृक्षाग सेतु	predicand <i>Math.</i>	पूर्वानुमान्य, प्रागुध्य

predicated variable (=determining variable)	Math.	निर्धारक चर	predusk period	Zool.	गोधुलिपूर्व काल, संध्यापूर्व काल
predictable	Geog.	पूर्वसूचनीय	predynastic boat	Geog.	पूर्व राज्यवंशीय नौका
predictand	Geol.	प्राक्वाच्य	Preece test	Chem.	प्रीस निकप, प्रीस संपरीक्षण
predicted	Math., Geog.	प्रागुक्त	pre-emphasis	Geol.,Phy.	प्राक् प्रवलन
predicted scores		प्रागुक्त समंक	pre-emphasis network		प्राक्प्रवलन जाल
predicted value		प्रागुक्त मान	pre-enclosure strip	Geog.	पूर्व परिवद्ध पट्टी
prediction		प्रागुक्ति	preen gland (uropygial gland)	Zool.	तेल ग्रंथि (पश्चांत कूट ग्रंथि)
prediction equation		प्रागुक्ति समीकरण	preening	Zool.	पिच्छप्रसाधन
prediction interval		प्रागुक्ति अंतराल	pre-episternum	Zool.	पूर्वाग्रपाश्वंक
prediction of tide		ज्वारभाटा प्रागुक्ति	pre-eruption period	Geol.	पूर्व उद्गारी काल
predictive decomposition		प्रागुक्तीय वियोजन	pre-erythrocytic phase	Zool.	रक्तानुपूर्व प्रावस्था
predictor	Math.,Geol.	प्राग्वक्ता	pre-erythrocytic schizont		रक्तानुपूर्व शाइजॉन्ट
predictor-corrector method		प्राग्वक्ता संशोधन विधि	preevolutionary	Zool.	विकासपूर्वी
predictor formula		प्राग्वक्ता सूत्र	preexistant society	Geog.	पूर्वविद्यमान समाज
predigestion	Zool.	पूर्वपाचन	pre-existing	Geol.,Geog.	पूर्ववर्ती
predigital	Zool.	पूर्वांगुलक	pre-existing centre		पूर्ववर्ती केन्द्र
predigital remiges	Zool.	पूर्वांगुलक पुच्छ	pre-existing culture		पूर्ववर्ती संस्कृति
predilution	Chem. (Fert.)	पूर्व तनुकरण	pre-existing pattern		पूर्ववर्ती प्रतिरूप
predisposing	H.Sc.	प्रवर्तनपूर्व	pre-existing rock		पूर्ववर्ती शैल
predisposing factor		प्रवर्तनपूर्व कारक	pre-existing valley		पूर्ववर्ती घाटी
predisposition	Geog.	पूर्वानुकूलता	pre-exponential factor	Chem. (Photo.)	पूर्व चरघातांकी गुणक
predissociation	Phy.,Geog., Chem.	पूर्व वियोजन	prefab	H.Sc.	पूर्वरचित
predissociation limit		पूर्ववियोजन सीमा	prefabricated house		पूर्वरचित गृह
predissociation spectrum		पूर्व वियोजन स्पेक्ट्रम	prefasting-period	Bot.	अनशन पूर्वी अवधि
prednisolone	Bot.,Chem.	प्रेडनीसोलोन	prefemoral process	Zool.	अग्रऊविका प्रवर्ध
prednisone	Chem.	प्रेडनिसोन	prefemur	Zool.	अग्रऊविका
predominance	Zool.	पूर्वप्रभाविता	preference	Math.	वरीयता
predominant	Geog.	प्रधान, प्रमुख	preference field index number		वरीयता क्षेत्र सूचकांक
predominant state	Geog.	प्रमुख राज्य	preference function		वरीयता फलन
predrier	Chem.	पूर्व शुष्किक	preference surface		वरीयता पृष्ठ
predrying	Geol.	शुष्कनपूर्व	preferential	Math.,Phy., Geol.	वरणात्मक
			preferential absorption		वरणात्मक अधिशोषण

preferential combustion		वरणात्मक दहन	preglacial drift		हिमनदपूर्व अपोढ़
preferential coordinate system		वरणात्मक निर्देशांक निकाय	pre-glacial fauna		हिमपूर्व प्राणिजाल
preferential direction		वरणात्मक दिशा	pre-glacial phase		हिमनपूर्व प्रावस्था
preferential traffic	Geog	अधिमान्य यातायात	Pregl micro dessicator	Chem.	प्रेग्ल सूक्ष्म जलशोषित
preferential treaty		अधिमान्य संधि	Pregl's method		प्रेग्ल पद्धति
preferent species	Bot	वरणकारी जाति	pregnancy	H Sc, Zool	सगर्भता
prefern	Bot.	प्राक्पणांग	pregnane	Chem	प्रेग्नेन
preferred		वरीय, अधिमत्	pregnanediol	Chem	प्रेग्नेनडाइऑल
preferred axis	Phy	तरजोही अक्ष, वरेण्य अक्ष	pregnant nuclei	Phy.	गर्भित नाभिक
preferred orientation		वरीय अभिविन्यास, वरीय दिक्विन्यास	pregnenolone	Chem.	प्रेग्नेनलोन
preferred procedure		अधिमानित क्रियाविधि	prehalter	Zool	प्रसतोलक
preferred temperature	Zool	अभिमत तापमान	preheated	Chem., Phy	पूर्वतापित
preitoplume	Zool.	पूर्वरोमपिच्छ	preheater	Phy.	पूर्वतापक
prefix	Math.	पूर्वसूचक	preheater stove		पूर्वतापी स्टोव
prefix property		पूर्वसूचक गुणधर्म	preheating		पूर्वतापन
preflagellate	Zool	पूर्वकशापी	prehensile	Zool.	परिग्राही
preffame reaction	Chem. (Pet)	पूर्व ज्वाला अभिक्रिया	prehensile tail		परिग्राही पुच्छ
prefoliation	Bot	प्राक्पत्र चिन्यास	prehersion	Zool	परिग्रहण
preform	Chem (Plast)	वटक, वटकन	prebensor		परिग्राही
preformability	Phy.	पूर्वोत्पादनीयता	prehibernal	Bot	शिशिर पूर्वी
preformation		पूर्वोत्पादन	pre-Hilbert space		प्राग् हिल्बर्ट समष्टि
preformationism	Zool	पूर्वरचनावाद	prehistoric		प्रागैतिहासिक
preformation theory		पूर्वरचना सिद्धान्त	prehistoric animal		प्रागैतिहासिक प्राणी
preformed precipitate		पूर्वनिमित्त अवक्षेप	prehistoric flora		प्रागैतिहासिक वनस्पति जाल
preformist	Bot, Zool	पूर्वरचनावादी	prehistoric reptile		प्रागैतिहासिक सरीसृप
prefrontal	Zool.	सलाटिकापूर्वी	prehistoric site		प्रागैतिहासिक स्थल
pregamic division	Zool.	सुग्मनपूर्व विभाजन	prehnite	Geol	प्रेनाइट
preganglionic	Zool.	गुच्छिकापूर्व	prehnitene sulphonic acid	Chem.	प्रेनीटोन सल्फोनिक एसिड
pregelatinized starch	Chem.	पूर्वजिलेटिनित स्टार्च	prehaitic acid	Chem.	प्रेनीटिक अम्ल, प्रेनीटिक एसिड
pregenicular	Zool.	अग्रजानु	prehnitization	Geol.	प्रेनाइटन
pregenital segment	Zool.	अग्रजनन खंड	preignition	Chem (Pet), Phy.	पूर्व ज्वनन
preglankgophyte	Bot	प्रीग्लिफोफाइट, प्राक्ग्लिफो	pre-illumination		प्राक्प्रदीप्ति, प्रदीप्तिपूर्व
preglacial	Geol.	हिमयुगपूर्व, हिमनदपूर्व	pre-image	Math.	पूर्व प्रतिबिम्ब
			prelmaginal	Zool.	प्रपूर्वक



preimaginal stage		प्रपूर्णक अवस्था	preliminary to running	<i>Geog.</i>	परिचालन तैयारी
pre-industrial age	<i>Geog.</i>	पूर्वऔद्योगिक युग	preliminary treatment		प्रारंभिक उपचार
preinfective period	<i>Bot.</i>	संक्रमणपूर्व अवधि	preliminary tremor		प्रारंभिक कंप
prein	<i>H.Sc.</i>	प्रीन	preliminary wave		प्रारम्भिक तरंग
pre-inoculation	<i>Bot.</i>	संरोपण पूर्वी	preliminator	<i>Geol.</i>	प्रीलिमीनेटर
preionization	<i>Bot., Geol., Phy.</i>	पूर्व आयनन	preliming	<i>Chem.</i>	पूर्व चूनायन
preissia	<i>Bot.</i>	प्रीसिया	pre-located	<i>Geol.</i>	पूर्वावस्थ
prejudice	<i>Geog.</i>	पूर्वग्रह	Prelog's rule	<i>Chem.</i>	प्रेलॉग नियम
pre-labium	<i>Zool.</i>	अग्रलेवियम	prelytic stage	<i>Zool.</i>	लयनपूर्व अवस्था
prelacteal dentition	<i>Zool.</i>	पूर्वपाती दंतविन्यास	premandibular	<i>Zool.</i>	अग्रचिबुक
prelarval development	<i>Zool.</i>	डिम्बकपूर्व परिवर्धन	premandibular appendage		अग्रचिबुक उपांग
prelate	<i>Geog.</i>	1. धर्माधिकारी 2. प्रिलेट	prematuring	<i>Zool.</i>	पूर्वसंगमी
preliminary		प्रारंभिक	premature	<i>Biol., H.Sc.</i>	कालपूर्व, अपक्व
preliminary adjustment		प्रारम्भिक समायोजन	premature cut off	<i>Phy.</i>	अकाल अंतक, समयपूर्व अंतक
preliminary attenuation	<i>Phy.</i>	प्रारंभिक क्षीणन	premature yellowing		अकाल पीतता
preliminary computation		प्रारंभिक अभिकलन	prematurity	<i>H.Sc.</i>	पूर्व परिपक्वता
preliminary count		प्रारंभिक गणना	premaxilla	<i>Zool.</i>	जंभिकापूर्वी
preliminary data		प्रारंभिक आंकड़े, प्रारंभिक उपात्त	premaxillary spine		जंभिकापूर्व कंट
preliminary design		प्रारंभिक डिजायन	premaxillo-maxillary region		जंभिकापूर्व जंभिका क्षेत्र
preliminary edition		प्रारंभिक संस्करण	premedia	<i>Zool.</i>	प्रीमीडिया
preliminary estimate		प्रारंभिक आकल	premelting	<i>Chem.</i>	पूर्व गलन
preliminary examination		प्रारंभिक परीक्षा	prementum	<i>Zool.</i>	मेन्टमपूर्वी, प्रचिबुकांग
preliminary infiltration		प्रारंभिक अंतःस्वंदन	premetallized dye	<i>Chem.</i>	पूर्वधात्वित रंजक
preliminary operation		प्रारंभिक प्रचालन	premetamorphic	<i>Biol., Geol.</i>	कायान्तरपूर्व, प्राक्कार्यांतरी
preliminary profile		प्रारंभिक प्रोफाइल, प्रारंभिक परिरेखा	premium	<i>H.Sc.</i>	प्रीमियम
preliminary proof		प्रारंभिक प्रूफ	premium bull	<i>Geog.</i>	अधिमूल्य सांड
preliminary provisional measurement		प्रारंभिक अस्थायी माप	premolar	<i>Zool.</i>	अग्रचवणक
preliminary series		प्रारंभिक श्रेणी	premonition	<i>Geog., Geol.</i>	पूर्वाभास
preliminary survey		प्रारंभिक सर्वेक्षण	premonitory events		पूर्वाभासी घटनाएँ
preliminary tank		प्रारंभिक टंकी	premonsoon rainfall	<i>Geog.</i>	पूर्वमानसून वर्षा
preliminary theorem		प्रारंभिक प्रमेय	pre-motor city	<i>Geog.</i>	प्राग्-मोटर शहर
			premunition	<i>Zool.</i>	अग्रप्रतिरक्षा
			prenasal region	<i>Zool.</i>	नासापूर्वी क्षेत्र
			prenasal superior process		नासापूर्व ऊर्ध्वबंध

<i>prenatal</i>	<i>H. Sc., Zool.</i>	प्रसवपूर्व, जायपूर्व	<i>prepenna</i>	<i>Zool.</i>	पूर्वदेहपिच्छ
<i>prenatal infection</i>		प्रसवपूर्व संक्रमण	<i>prephanerogamae</i>	<i>Bot.</i>	प्राक् फेनेरोगैमी, प्रीफेनेरोगैमी
<i>prenatal influence</i>		प्रसवपूर्व प्रभाव	<i>prepharynx</i>	<i>Zool.</i>	पूर्वघसनी
<i>prenotum</i>	<i>Zool.</i>	पूर्वपक्षपृष्ठक	<i>prephragma</i> ( <i>prephragmata</i> )		अपफैगमा, अणुवृत्ति
<i>prenuclear seminorm</i>	<i>Math.</i>	प्रागन्यूस्लीय सामिमानक	<i>pre-Pliocene</i>	<i>Bot.</i>	अनिदूतन पूर्व, प्रिप्लायोसीन पूर्व
<i>prenuclear set</i>		प्रागन्यूस्लीय समुच्चय	<i>prepollen</i>	<i>Bot.</i>	प्राक् परतल
<i>prenuptial moult</i>	<i>Zool.</i>	कामदपूर्व निर्भोजक	<i>prepollyx</i>	<i>Zool.</i>	सदृहस्तागुष्ठ
<i>preocellar bristle</i>	<i>Zool.</i>	अप्रनेत्रक शूक	<i>preponderance</i>	<i>Geog.</i>	प्रचुरता
<i>preocular antenna</i>	<i>Zool.</i>	पूर्वाक्षि शृङ्गिका	<i>prepubertal</i>	<i>Zool.</i>	यौवनपूर्व
<i>preocular shield</i>	<i>Zool.</i>	अग्रक्षि विशल्क	<i>prepubic process</i>	<i>Zool.</i>	अधनपूर्वी प्रवर्ध
<i>preolfactory nerve</i> (= terminal nerve)	<i>Zool.</i>	घ्राणपूर्व तंत्रिका (टर्मिनल तंत्रिका)	<i>prepuce</i>	<i>Zool.</i>	शिग्रममुडछद
<i>pre-opercular</i>	<i>Zool.</i>	प्रच्छदपूर्वी	<i>prepupa</i>	<i>Zool.</i>	पूर्वप्यूपा, पूर्वकोशित
<i>preoral</i>	<i>Zool., Geol.</i>	मुखपूर्वी	<i>prepupal cuticle</i>		पूर्वकोशित उपत्वचा
<i>preoral cavity</i>		मुखपूर्व गुहा	<i>prepupal instar</i>		पूर्वकोशित इन्स्टार
<i>preoral chamber</i>		मुखपूर्व कोष्ठ	<i>prepupal period</i>		पूर्वकोशित अवधि
<i>preoral circlet</i>		मुखपूर्व वृत्तक	<i>preputial cavity</i>	<i>Zool.</i>	शिग्रममुड गुहिका
<i>preoral food cavity</i>		मुखपूर्वी खाद्य गुहिका	<i>preputial gland</i>		शिग्रममुड ग्रन्थि
<i>preoral gut</i>		मुखपूर्व आहारनाल	<i>preputial sac</i>		शिग्रममुड कोश
<i>preoral lobe</i>		पूर्वमुख पालि	<i>pre-quantum</i>	<i>Chem., Phy.</i>	क्वांटम पूर्व
<i>preoral pit</i>		मुखपूर्व गर्त	<i>prequantum process</i>		क्वांटमपूर्व प्रक्रम, प्राक्क्वांटम प्रक्रम
<i>preoral suture</i>		मुखपूर्व सीवन	<i>pre-relativistic</i>	<i>Math.</i>	प्रागापेक्षिकीय
<i>pre-orbital</i>	<i>Zool.</i>	नेत्रकोटरपूर्वी, नेत्रछपूर्वी	<i>pre-relativity definition</i>		प्रागापेक्षिकीय परिभाषा
<i>pre-orbital fossa</i>	<i>Zool.</i>	नेत्रकोटरपूर्वी घात, नेत्रछपूर्वी घात	<i>pre-relativity physics</i>		प्रागापेक्षिकीय भौतिकी
<i>preorder</i>	<i>Math.</i>	प्राश्चम	<i>preroosting flight</i>	<i>Zool.</i>	निलपनपूर्व उड़डपन
<i>preotic ganglion</i>	<i>Zool.</i>	कर्णपूर्व गुच्छिका	<i>presacral vertebra</i>	<i>Zool.</i>	संक्रमपूर्व कशेरुक, त्रिभूर्व कशेरुक
<i>preovipositional period</i>	<i>Zool.</i>	अंडनिक्षेपणपूर्व अवधि	<i>pre-saturator</i>	<i>Chem.</i>	पूर्व सतृप्तकारी
<i>pre-palaeolithic</i>	<i>Zool.</i>	पूर्व पुराप्रस्तर	<i>presbyopia</i>	<i>Phy.</i>	जरा दूरदर्शिता
<i>preparation</i>		विरचन, निर्मिति, कृति	<i>Presbytis</i>	<i>Zool.</i>	प्रेस्बार्दिस
<i>preparative reagent</i>	<i>Chem.</i>	विरचन अभिकर्मक	<i>Presbytus entellus</i>		प्रेस्वाइडिस एंटेल्स (लघुर)
<i>pre-partum ovulation</i>	<i>Zool.</i>	प्रसवपूर्व अंडोत्सर्ग, प्रसवपूर्व हिम्बक्षरण	<i>prescribed</i>	<i>Geog.</i>	नियत, निर्धारित
<i>pre-patagium</i>	<i>Zool.</i>	पूर्वपैटेजियम, पूर्वचर्मप्रसर	<i>prescutal ridge</i>	<i>Zool.</i>	अप्रस्कूटमी बटक
<i>prepatent period</i>	<i>Zool.</i>	स्यस्तपूर्व काल	<i>prescutal suture</i>		अप्रस्कूटमी सीवन
<i>pre-pattern</i>	<i>Zool.</i>	पूर्व प्रतिरूप	<i>prescuto-scutal</i>		अप्रस्कूटम-स्कूटमी
<i>prepectus</i>	<i>Zool.</i>	अग्रनिबध			

prescutum	Zool.	अग्रस्कूटम	press	Geog., H.Sc.,	निपीडक, प्रेस
presegmental	Zool.	पूर्वखंडीय		Chem.	
preselector	Phy.	पूर्ववरक	press act	Geog.	प्रेस ऐक्ट, प्रेस अधिनियम
presence	Bot. (Ecol.)	चिर उपस्थिति	press and blow process		निपीड-धमन प्रक्रम, दाब धमन प्रक्रम
presentation	Phy.	प्रस्तुतीकरण	pressboard		प्रेस बोर्ड
present configuration	Math.	वर्तमान विन्यास	press button arrangement	Phy.	बटन-दाब व्यवस्था
presented target area	Phy.	प्रस्तुत लक्ष्य क्षेत्र	press drip	Chem. (Pet.)	निपीड द्रव्य
present guidance	Phy.	पूर्वनिर्धारित निर्देशन	pressed caviar	H.Sc.	संपीडित कैवियर
present worth	Math.	वर्तमान मूल्य, तत्कास धन	pressed glass		संपीडित कांच, निपीडित काच
preseptal passage	Geol.	पटपूर्व पथ	pressed ware	H.Sc.	संपीडित भाण्ड
pre-sere	Biol.	प्राक्क्रमक	presser	H.Sc.	दाबक
preservaline	Chem. (Food)	प्रिजर्वेलिन	presser foot		दाब पाद
preserval of bed	Geol.	संस्तर परिरक्षण	presser foot lifter	H.Sc.	दाब पाद उठाने वाला
preservation	H.Sc., Chem.	परिरक्षण	press-forging		निपीड फोर्जिंग
preservation reflex	Zool.	रक्षण प्रतिवर्त	pressing chamber		निपीडन वेष्टम
preservative		परिरक्षक	pressing paper	Bot.	दाबी-कागज
preserved (tinned or bottled)	H.Sc.	परिरक्षित	pressing steam	H.Sc.	भाप इस्ती करना
preserved eggs		परिरक्षित अंडे	pressman		प्रेस मैन
preserved fish		परिरक्षित मछली	press mark		इस्ती चिह्न
preserving area		संरक्षी क्षेत्र	press order proof	Geog.	प्रेस आदेश प्रूफ, मुद्रण आदेश प्रूफ
preset guidance	Phy.	पूर्व निर्धारित निर्देश	pressor drug	Chem.	रक्त चापवर्धी औषधि, प्रेसर औषधि
preset potential	Chem.	पूर्व नियत विभव	pressor nerve	Zool.	दाबवर्धक तंत्रिका
presetting	Chem. (Met.)	पूर्व दृढ़न	press plate	H.Sc.	दाब-पट्टिका, दाब प्लेट
preshrunk	H.Sc.	पूर्वसंकुचित	press stud (press button)	H.Sc.	दाब बटन
presintering	Chem.	पूर्व सिन्टरण	press to talk operation	Phy.	वार्तायं दाब प्रचालन
pre-spawners	Zool.	पूर्वअंडजनक	pressure		दाब, निपीड
pre-spawning	Zool.	पूर्वअंडजनन	pressure adjusting cap		दाब समायोजक कप
presphenoid	Zool.	जलुकपूर्वी	pressure anomaly		दाब-असंगति
prespinous fossa	Zool.	कटकपूर्वी खात	pressure arch		दाब चाप
prespiracular gill pouch	Zool.	पूर्वसोमक कोष्ठ			
prespore cell	Zool.	बीजाणुपूर्व कोशिका			
presporulation medium	Bot. (Bacteriology)	स्पोरनपूर्व माध्यम			

pressure belt		दाब कटिबंध	pressure		दाब कायांतरण
pressure broadening		दाब पृथुलन, दाब विस्तरण	pressure metamorphism		
pressure coefficient		दाब गुणांक	pressure microphone		दाब माइक्रोफोन
pressure compounding		दाब मयोजन	pressure naptha		निपीड नैप्या
pressure cooker	H.Sc.	प्रेसर कुकर	pressure of population Geog		जनसंख्या-भार
pressure defect		दाब न्यूनता	pressure operated		दाब चालित
pressure diffusion		दाबीय विसरण	pressure operation		दाब सक्रिया, दाब प्रचालन
pressure diffusion method		दाबीय विसरण विधि	pressure pattern-flying		दाबानुसूप उड़ान
pressure digester		दाब पाचित्र	pressure plate		दाब प्लेट
pressure distillation		निपीड आसवन	pressure reduction process		दाब लघूकरण प्रथम
pressure distribution		दाब का वितरण, दाब बंटन	pressure regulating valve		दाब नियंत्रक वाल्व, दाब नियंत्रक बपाट
pressure dome		दाब गुम्बद	pressure release valve		दाब न्यूनक वाल्व
pressure drag		दाब कर्षण	pressure ridge		निपीडित हिमचटक, दाब कटक
pressure drag coefficient		दाब कर्षण गुणांक	pressure roll		दाब रोल, निपीड से रोल
pressure drop		दाब ह्रास	pressure-sealed steel cylinder		दाब बंद इस्पात सिलिंडर
pressure equation		दाब समीकरण	pressure sensitivity		दाब सुप्राहिता
pressure feed system		दाब भरण तंत्र	pressure shift		दाबीय विस्थापन
pressure figure		दाब-आकृति	pressure spectrum level		दाब स्पेक्ट्रमी स्तर
pressure filter		दाब फिल्टर	pressure suit		दाब कचच
pressure flow		दाब प्रवाह	pressure surface		दाब-सूष्ठ
pressure flow hypothesis		दाब प्रवाह परिकल्पना	pressure switch		दाब स्विच
pressure-flow mechanism		दाब प्रवाह क्रिया	pressure tank filter		दाब टंकी फिल्टर
pressure fluctuation		दाब उच्चावचन	pressure technique		निपीड प्रविधि, निपीड तकनीक
pressure flush		दाब-सप्रवाह	pressure tendency		दाब प्रवृत्ति
pressure force		दाब बल	pressure tensor		दाब प्रदिश
pressure gauge		दाब गैज	pressure thrust		दाब प्रणोद
pressure gradient		दाब प्रवणता	pressure tide-gauge		दाब ज्वारमापी
pressure gradient microphone		दाब प्रवणता माइक्रोफोन	pressure tube		दाबमह नली
pressure ice		निपीडित बर्फ	pressure type capacitor		दाब प्रसूप सञ्चारित्र
pressure lamp	H.Sc.	प्रेसर लैम्प	pressure value		दाब मान
pressure magnification		दाब आवर्धन	pressure wave		दाब तरंग
pressure map		दाब मानचित्र			

pressurization		निपीडन			
pressurized dispenser	Zool.	दाबीकृत प्रक्षेपक		prevailing wind	सनातन पवन
pressurized water reactor		दाबानुकूलित जल रिऐक्टर, दाबित जल रिऐक्टर		prevention	निरोध, निवारण
prestige	Phy.	प्रागवस्था		prevention of cycling	चक्रण निरोध
presternal zone	Zool.	अग्राधरकांश क्षेत्र		preventive	निरोधक
presternum	Zool.	अग्राधरक		preventive inspection	निरोधी निरीक्षण
prestige residential area	Geog.	समृद्ध आवास क्षेत्र		preventive maintenance problem	निरोधी अनुपालन समस्या
presulcal node	Geol.	खांचपूर्व गांठ		preventive measures	निरोधक उपाय
presumption	Chem.	पूर्वधारणा		preventive replacement	निरोधी प्रतिस्थापन
presumptive address (=base address)	Phy.	निर्देश पता		preventive solution	Chem. संरोधी विलयन, संरक्षी विलयन
presupposition	Math.	पूर्वकल्पना		preventol	Chem. प्रवेन्टोल
presynaptic fibre	Zool.	अंतर्ग्रंथनपूर्व तंतु		prevonule	Zool. पूर्वगिरिका
pre-tannage <sup>1</sup> cess	Chem.	चर्मशोधन पूर्व प्रक्रम		prevernal	Bot. 1. वसंतपूर्वी 2. प्राक्वासंती
pretarsus	Zool.	गुल्फिकापूर्वी		preview monitor (= camera monitor)	Phy. प्रस्तुतिपूर्व मानीटर
preteconic	Geol.	पूर्वविवर्तनिक		previous edition	Geog. पिछला संस्करण
preteconic pluton		पूर्वविवर्तनिक प्लूटॉन		previtamin	Zool. प्राक्विटामिन, प्रोविटामिन
preteconic recrystallization		पूर्वविवर्तनिक पुनक्रिस्टलन		prevomer	Zool. सीरिकापूर्वी
pretergital zone	Zool.	अग्रपृष्ठकांश क्षेत्र		prevomer process	सीरिकापूर्व प्रवर्ध
pretergite	Zool.	अग्रपृष्ठकांग		Prevost solution	Chem. प्रेवो विलयन
pretest	Math.	पूर्व परीक्षण		pre-whitening	Geol. प्रिव्हाइटनिंग
pretesticular nephridium	Zool.	वृषणपूर्व दृक्कक		pre-yield creep	Phy. पराभवपूर्व विसर्पण
pre-titration	Chem.	पूर्व अनुमापन		prezygapophysis	Geol., Zool. अग्रयोर्जिप्रवर्ध
pretrematic	Zool.	अग्ररंघ		prezygote	Zool. पूर्वयुग्मनज
pretritubercular	Zool.	त्रिगुलिकपूर्व		prezygotic	युग्मनजपूर्व
pretyphlosolar region	Zool.	आंशबलनपूर्व क्षेत्र		prezygotic division	युग्मनजपूर्व विभाजन
pretzel	H.Sc.	प्रेट्जल		Priacodon	Zool. प्रिएकोडॉन
pre-urban alignment	Geog.	नगर-पूर्व संरेखण, नगर-पूर्व पंक्ति-वृद्धता		priapulid	Zool. प्रायपुलिड
pre-urban landscape		नगर-पूर्व दृश्यभूमि		Priapulus	प्रायपुलस
pre-urban nucleus		नगरपूर्व केन्द्रक		price	Math. मूल्य, भाव
prevailing westerlies	Geog.	सनातन पछुवा पवन		price-compensation index	समकारी भाव-सूचकांक
prevailing westerly wind		सनातन पछुवा पवन		price flexibility	मूल्य नम्यता

price formation		मूल्य रचना	primary alcohol	प्राथमिक ऐल्कोहॉल
price imputations		मूल्य आरोपण	primary amoebiasis	प्राथमिक अमीबीया
price index		भाव सूचकांक, मूल्य सूचकांक	primary andesitic magma	मूल एन्डेसाइटो मैग्मा
price/ite		प्राइसाइट	primary androgynal cell	प्राथमिक पुंजनक कोशिका
price mark-up equation		मूल्य नामन समीकरण	primary auxiliary chamber	प्राथमिक सहायक कक्ष
price numbers		भाव सूचकांक	primary axial cell	प्राथमिक अक्ष कोशिका
price relative		मूल्यानुपात, भाव अनुपात	primary axis	1 प्राथमिक अक्ष 2 प्रधान अक्ष
price reporting		भाव प्रतिवेदन	primary bar	मुख्य पटलिका
price series		मूल्य श्रेणी	primary bare area	प्राथमिक अनावृत क्षेत्र
pricked	Geog.	सूचीबद्ध	primary branchial rod	मुख्य क्लोम दंड
pricker	Geog	वेद्यनी	primary bubonic plague	प्राथमिक गिण्टी टाऊन
pricking sensation	Phy	वेधी संवेदन	primary cell	प्राथमिक सेल
prickle	Bot	तीक्ष्ण वर्ध	primary cell line	प्राथमिक कोशिका-रेख
prickly		तीक्ष्ण वर्ध	primary cell strain	प्राथमिक कोशिका-विभेद
prickly bush	Geog	कंटिलो झाडी	primary circuit	प्राथमिक परिपथ
prickly pear	Bot.	नागफनी	primary clay	मूल मृत्तिका
prick seam	H Sc.	प्रिक-सीवत	primary colour	प्राथमिक वर्ण, प्राथमिक रंग
prick stitch		प्रिक टांका	primary community	प्राथमिक समुदाय
priestcraft	Geog.	पुरोहित नीति, पुरोहिती	primary consumer	प्राथमिक उपभोक्ता
Priest-Gibson N color scale	Chem	प्रीस्ट-गिब्सन N रंग मापक्रम	primary cranium	प्राथमिक कपाल
Priest-Lange reflectometer	Chem	प्रीस्ट-लांगे परावर्तन-मापी	primary crusher house	प्राथमिक सदनक कक्ष
Prileschaiev reaction	Chem	प्रिलेशेव अभिक्रिया	primary current	प्राथमिक धारा
prilling	Chem.	लवन	primary data	प्राथमिक आकडे, प्राथमिक दत्त
prilling header		लवन शीर्षणी	primary detonating compound	प्राथमिक विस्फोट प्रेरक यौगिक
primacord	Phy.	विस्फोटक रज्जु	primary dip	प्राथमिक नीति
primal-dual algorithm	Math.	आद्य-द्वैती कलनविधि	primary displaced atom	प्राथमिक विस्थापित परमाणु
primal problem		आद्य समस्या	primary dissociation	प्राथमिक विघटन
primaquine phosphate	Chem.	प्रोमक्विन फास्फेट	primary dorsal organ	प्राथमिक पुच्छीय अंग
primaries	Zool.	प्रथमपिच्छ	primary dust valve	प्राथमिक धूलि वाल्व
primary		1 आद्य 2 प्राथमिक, प्रथम 3 मुख्य, प्रधान, मूल	primary economy	आदिम अर्थव्यवस्था
primary adaptation		मुख्य अनुकूलन	primary equation	मुख्य समीकरण

Primary Era	<i>Zool., Geol.</i>	प्रथम महाकल्प	primary nondisjunction	प्राथमिक अवियोजन
primary excitation		प्राथमिक उत्तेजन	primary ocellus	प्राथमिक नेत्रक
primary explosive (=intiatory explosive)		प्राथमिक विस्फोटक (समरंभिक विस्फोट)	primary openings	प्राथमिक रंध्राकाश
primary extinction		प्राथमिक विलोप	primary optic axis	मूल प्रकाशिक अक्ष
primary eye		प्राथमिक नेत्र	primary particle	प्राथमिक कण
primary features		प्राथमिक लक्षण	primary peneplane	मुख्य समप्राय भूमि
primary fission yield		प्राथमिक विखंडन लब्धि	primary permeability	प्राथमिक पारगम्यता
primary flat lying fractures		प्राथमिक सपाटस्थ विभंग	primary pigment cell	प्राथमिक वर्णक कोशिका
primary focal length		प्राथमिक फोकस दूरी	primary pit field	प्राथमिक गर्त क्षेत्र
primary foliation		प्राथमिक शल्कन	primary planet	मूल ग्रह
primary fumarole		प्राथमिक वाष्पमुख	primary pneumonic plague	प्राथमिक फुफ्फुसीय तारुन
primary geosyncline		प्राथमिक भूअभिनति	primary podium	प्राथमिक पादक
primary gill-slit		बाह्य क्लोम रंध्र	primary point	प्राथमिक बिंदु
primary granitic magma		मूल ग्रेनाइटो मैग्मा	primary precipitate	प्राथमिक अवक्षेप
primary host		प्राथमिक परपोषी	primary prevention	प्राथमिक निवारण
primary hue		मूल प्रवर्ण	primary product	प्रधान उत्पाद
primary ideal		प्राथमिक गुणजावली	primary production	प्राथमिक उत्पादन
primary inductance		प्राथमिक प्रेरकत्व	primary radar	मूल रेडार
primary industry		प्रधान उद्योग	primary rainbow	प्राथमिक इंद्रधनुष
primary inoculum		प्राथमिक संरोप	primary ray	प्राथमिक बीटा किरण
primary interstices		प्राथमिक अंतराकाश	primary reaction	मुख्य अभिक्रिया
primary ionization		प्राथमिक आयनन	primary recrystalliza- tion	प्राथमिक पुनःक्रिस्टलन
primary iris cell		प्राथमिक परितारिका कोशिका, प्राथमिक बाइरिस कोशिका	primary relief	प्राथमिक उच्चावच
primary knock-on		प्रथम प्रघातित	primary representation of an ideal	गुणजावली का प्राथमिक निरूपण
primary lead		प्राथमिक सीसा, प्राथमिक लेड	primary ring	प्राथमिक वलय
primary levelling		प्रथम श्रेणी तलेक्षण	primary rock	मूल शैल
primary lineation		प्राथमिक संरेखण	primary root	प्राथमिक मूल
primary mapping		प्रथम श्रेणी मानचित्रण	primary rural population	प्रमुख ग्रामीण जनसंख्या
primary mesentery		प्राथमिक पट	primary sampling unit	प्राथमिक प्रतिचयन एकक
primary minerals		प्राथमिक खनिज	primary scale	मूल स्केल
primary nappe		प्राथमिक नापे	primary segmentation	प्राथमिक खंडीभवन
			primary septum	प्राथमिक पट
			primary service area	प्राथमिक सेवा क्षेत्र
			primary service centre	प्राथमिक सेवा केन्द्र

primary sex ratio		प्राथमिक यौन अनुपात	prime cut	<i>Chem (Pet)</i>	आदि प्रभाज
primary sheet		प्राथमिक शीट	primed class	<i>Math.</i>	शिखी वर्ग
primary shoreline		प्राथमिक तटरेखा	primed coordinate system		शिखी निर्देशांक निकाय
primary skip zone		प्राथमिक लक्षण क्षेत्र	primed quantity		शिखी राशि
primary slime		प्राथमिक अणुपक	primed system		शिखी-निकाय
primary specific ionization		प्राथमिक विशिष्ट आयनन	prime end (= Caratheodory measure)	<i>Math</i>	द्विषोष अ त (कैप्रथियोडरी माप)
primary spectrum		प्राथमिक स्पेक्ट्रम	prime factor		अभाज्य गुणन शब्द
primary spermatocyte		प्राथमिक शुक्रकोशिका	prime field		अभाज्य क्षेत्र
primary standard		प्राथमिक मानक	prime ideal		अभाज्य गुणजावली
primary sterility		प्राथमिक बन्धता	Primella		श्राद्धेला
primary storage	<i>Phy.</i>	मुख्य संचय	prime meridian	<i>Geog.</i>	प्रमुख याम्योत्तर
primary stratification		प्राथमिक स्तरण	prime mover	<i>Phy.</i>	मूल गति उत्पादक
primary structure		प्राथमिक संरचना	prime profit	<i>H Sc.</i>	मूल लाभ
primary suspensor		प्राथमिक निलंबक	primer	<i>Phy, Chem., Biol.</i>	1. प्रारम्भक 2. प्राइमर
primary symptom		प्राथमिक लक्षण, मुख्य लक्षण	primer DNA		प्रारम्भक डी.ए.न.ए.
primary tectogene		प्राथमिक त्रिवर्तजन	prime subfield		अभाज्य उपक्षेत्र
primary transit angle		प्राथमिक गमन कोण	primeval	<i>Zool.</i>	बाइबलिक
primary traverse		प्रथम श्रेणी मासारेखा, प्रथम श्रेणी चक्रम	primeval rock	<i>Chem.</i>	बादिम शैल
primary triangulation (= first order triangulation)		प्रथम श्रेणी त्रिकोणीयन, मूल श्रेणी त्रिकोणीयन	primeverose	<i>Chem</i>	प्राइमेवेरोस
primary trisomic		प्राथमिक एकाधिमूत्री	prime vertical	<i>Geog., Math</i>	प्रधान उद्भूत
primary unit area	<i>Geog.</i>	मुख्य एकक क्षेत्र	prime vertical deflection	<i>Geog.</i>	प्रधान उद्भूत विक्षेप
primary valence	<i>Chem.</i>	मुख्य संयोजकता	prime white oil	<i>Geol.</i>	प्वेल केरोसीन
primary villi	<i>Bot</i>	आद्य रसाकुर	primibrach	<i>Zool.</i>	प्रबाहु
primary wall		प्राथमिक भित्ति	primidone	<i>Chem.</i>	प्रिमिडोन
primary wave		प्राथमिक तरंग	primin (isolan)	<i>Chem.</i>	प्राइमिन
primary yolk cell	<i>Zool</i>	प्राथमिक पीतक कोशिका	priming spot	<i>Chem.</i>	स्थापक आदि संज्ञन
primate	<i>Zool, H.Sc.</i>	प्राइमेट	primate		प्राइमाइट
primate city	<i>Geog.</i>	प्रमुख-शहर	primitive		आदिम, बाध, आदि, पूर्वग
Primates	<i>Zool.</i>	प्राइमेटोज, प्राइमेट्स (नर-वापर गण)	primitive age		आदिमकाल, आद्य युग
primavera	<i>H Sc.</i>	प्रिमावेरा	primitive agriculture		आदिम कृषि
prime	<i>Geog. Chem. Math. H.Sc.</i>	अद्य (ज्वार उच्चता) आदिमजन्त 1. अभाज्य 2. प्रधान प्राइम	primitive algebra		पूर्वग बीजगली
			primitive ancestor		आद्य पूर्वग



primitive aquatic marsupial		आद्य जलीय धानी प्राणी	primitive subsistence agriculture		आदिम जीविका कृषि
primitive basis	<i>Phy.</i>	अभाज्य आधारक, आदिम आधारक	primitive time-sense		पूर्वग काल संवेग
primitive cell	<i>Phy.</i>	अभाज्य सेल, अभाज्य कोष्ठिका	primitive tool		आदिम औजार
primitive core		आद्य कोर	primitive tooth band		आद्य दंतपट्ट
primitive cultivation		आदिम कृषि	primitive translation		पूर्वग स्थानांतरण
primitive culture		आदिम संस्कृति	primitive translation vector	<i>Phy.</i>	अभाज्य स्थानांतरण वेक्टर
primitive equation		पूर्वग समीकरण	primitive unit cell		अभाज्य एकक सेल, अभाज्य एकक कोष्ठिका
primitive fold		आद्य बलन	primitive want		आदिम आवश्यकता
primitive form		आदि रूप	primitivo	<i>H.Sc.</i>	प्रीमीटिवो
primitive groove		आदि खांच	primocane	<i>Bot.</i>	प्रथम प्ररोह
primitive group		पूर्वग समूह	primordial	<i>Geog., Biol., Geol.</i>	1. आद्य, आदिकालिक, 2. मौलिक
primitive hunting		आद्य आखेटन	Primordial	<i>Geog.</i>	आद्य कैम्ब्रियन
primitive knot		आद्य गांठ	primordial crust		आद्य भूपटल
primitive lattice		आद्य जालक, अभाज्य जालक	primordial earth		आद्य पृथ्वी
primitive man		आदि मानव	primordial germ cell		-आदि जनन-कोशिका
primitive mesoderm cell		आद्य मध्यजन- स्तर कोशिका	primordial lead		आद्य सीस
primitive method		पूर्वकालीन पद्धति	primordial sexual cell		आदि लिंग-कोशिका
primitive morphology		आदि आकारिकी	primordial stock		आद्य विभव
primitive notion		पूर्वग धारणा	primordial utricule		कोशिका दृति
primitive people		आदि जन	Primordial zone		आद्य कैम्ब्रियन जोन
primitive period	<i>Phy., Math.</i>	आधारी आवर्तक	primordium	<i>Biol.</i>	आद्यक
primitive period pair		आधारी आवर्तक युग्म	primrose	<i>H.Sc.</i>	प्रिमरोज, पीतसेवती
primitive period parallelogram		आधारी आवर्तक समांतर चतुर्भुज	prim rose seed oil	<i>Chem.</i>	प्रिमरोज बीज तेल, पीत सेवती बीज तेल
primitive period strip		आधारी आवर्तक पट्टी	primula	<i>H.Sc.</i>	प्रिम्यूला
primitive pit		आद्य गर्त	Primulaceae	<i>Bot.</i>	प्रिमूलेसी
primitive polynomial		पूर्वग बहुपद	Primulales		प्रिमूलेसीज
primitive population		आदिम जनसंख्या	primuline dye	<i>Chem.</i>	प्रिम्यूलीन रंजक
primitive ridge		आद्य कटक	primuline red		प्रिम्यूलीन रक्त, प्रिम्यूलीन रेड
primitive rock		आदि शैल	princalene	<i>H.Sc.</i>	प्रिंकालीन
primitive stock		आद्य प्रभव	princess	<i>H.Sc.</i>	प्रिसेस
primitive streak		आदि रेखा	princesse		प्रिसेस
primitive subsistence		आदिम जीविका	princess lace		प्रिसेस लेस

principal	1. मुख्य, प्रमुख 2 मूलधन	principal focus	मुख्य फोकस
principal activator	मुख्य सक्रियक	principal host	मुख्य परपोषी
principal angle of incidence	मुख्य आपतन कोण	principalia	Geol प्रतिपेलिया
principal axis	मुख्य अक्ष	principal ideal	मुख्य गुणज्ञावली
principal axis of dilatation	प्रसार के मुख्य अक्ष	principal ideal domain	मुख्य गुणजावली प्रांत
principal axis of molecules	अणुओं के मुख्याक्ष	principal ideal ring	मुख्य गुणजावली वलय
principal axis of strain	मुख्य विकृति अक्ष	principal line	मुख्य रेखा
principal axis of stress	मुख्य प्रतिबल अक्ष	principal lunar semi-diurnal constituent	मुख्य चान्द्र अर्ध-दैनिक घटक
principal axis theorem	मुख्याक्ष प्रमेय	principal market	प्रमुख बाजार
principal axis vector	मुख्याक्ष सदिश	principal maxima	मुख्य उच्चिष्ठ
principal azimuth	मुख्य दिग्ग	principal maximum	मुख्य महत्तम
principal business thoroughfare	प्रमुख वाणिज्य मार्ग	principal meridian	Geog मूल याम्योत्तर
principal character	मुख्य लक्षण	principal minor	मुख्य उपसारणिक
principal city	प्रमुख शहर	principal moment	मुख्य आघूर्ण
principal co-efficient of expansion	प्रसार का मुख्य गुणांक	principal moment of inertia	जड़त्व का मुख्य आघूर्ण
principal component	मुख्य घटक	principal normal direction	मुख्य अभिलंब दिशा
principal coordinates	मुख्य निर्देशांक	principal normal strain	मुख्य अभिलंब विकृति
principal curvature	मुख्य वक्रता	principal of equipotentiality	समशमता सिद्धान्त
principal design	मुख्य अभिव्यक्ति	principal part	मुख्य भाग
principal diagonal	मुख्य विकर्ण	principal plane	मुख्य समतल
principal dielectric axis	मुख्य परावैद्युत अक्ष	principal plane of the ray	रेखा का मुख्य समतल
principal direction	मुख्य दिशा	principal plane of stress	मुख्य प्रतिबल समतल
principal direction of strain	मुख्य विकृति दिशा	principal point	मुख्य बिन्दु
principal direction of stress	मुख्य प्रतिबल दिशा	principal point base	मुख्य बिन्दु आधार
principal diurnal species	प्रमुख दैनिक प्रकार	principal point triangulation	प्रतिमान त्रिकोणम त्रिकोणीयन, प्रधान बिन्दु त्रिकोणीयन
principal elliptic term	मुख्य दीर्घवृत्तीय पद	principal quantum number	मुख्य क्वांटम अंक
principal energy tensor	मुख्य ऊर्जा प्रदिश, मुख्य ऊर्जा टेन्सर	principal radius	मुख्य त्रिभुजा
principal extension	मुख्य विस्तार	principal railway	प्रमुख रेलवे
		principal root	मुख्य मूल
		principal section	मुख्य परिच्छेद

principal sequential design	मुख्य अनुक्रमिक अभिकल्पना	principle of equivalent change	तुल्यांकी परिवर्तन नियम
principal series	मुख्य श्रेणी	principle of gauge variance	प्रमापी विचरण नियम
principal simultaneous design	मुख्य युगपत् अभिकल्पना	principle of identification	अभिज्ञान नियम
principal strain	मुख्य विकृति	principle of indistinguishability	अविवेच्यता नियम
principal strain ratio	मुख्य विकृति अनुपात	principle of invariance	निश्चरता नियम
principal stress	मुख्य प्रतिबल	principle of least action	अल्पतम क्रिया नियम
principal stress-strain relation	मुख्य प्रतिबल-विकृति संबंध	principle of Mach	माख सिद्धांत
principal submatrix	मुख्य उप आव्यूह	principle of maximum modulus	सहत्तम मापांक नियम
principal surface	मुख्य पृष्ठ	principle of maximum overlapping	भूयिष्ठ अतिव्यापन सिद्धान्त
principal tangential line	मुख्य स्पर्शी रेखा	principle of mobile equilibrium	चल साम्य नियम, चल साम्य सिद्धांत
principal triangulation	प्रधान त्रिकोणीयन	principle of monotonicity	एकदिष्टता नियम
principal trihedral	मुख्य त्रिफलक	principle of nested intervals	नीडित अंतराल नियम
principal valence	मुख्य संयोजकता	principle of optimality	इष्टतमत्व नियम
principal valency	मुख्य संयोजकता	principle of radial plotting	अरीय आलेखन सिद्धान्त
principal value	मुख्य मान	principle of reflection	परावर्तन नियम
principal variance	मुख्य प्रसरण	principle of scientific determinism	वैज्ञानिक निर्धार्यता नियम
principal velocity	मुख्य वेग पृष्ठ	principle of similitude	सादृश्य का नियम
principal volcano	प्रमुख ज्वालामुखी	principle of stationary action	स्तब्ध क्रिया नियम
principal wave	मुख्य तरंग	principle of stationary phase	स्तब्ध प्रावस्था नियम
principle	<i>Math., Phy., Chem.</i> नियम	principle of superposition	अध्यारोपण नियम
principle of argument	कोणांक नियम	principle of surfaces	पृष्ठ नियम
principle of constancy	स्थिरता नियम	principle of Tarski	टार्स्की नियम
principle of contraction mapping	संकुचन प्रतिचित्रण नियम	principle of uniform boundedness	एकसमान परिवद्धता नियम
principle of covariance	सह परिवर्तन नियम	principle of virtual velocity	कल्पित वेग नियम
principle of detailed balancing	विस्तृत संतुलन नियम		
principle of duality	द्वैत नियम		
principle of equipotentiality	समक्षमता सिद्धांत		
principle of equipresence	समोपस्थिति नियम		
principle of equivalence	तुल्यता नियम		

principle of washing		धावन नियम	prism action		'प्रिज्म' क्रिया
Prins reaction	<i>Chem</i>	प्रिन्स अभिक्रिया	prism antenna		प्रिज्म ऐन्टेना
print		प्रिन्ट, छाप, मुद्रण (चिह्न)	prismatic	<i>Geog., Geol., Zool</i>	प्रिज्मीय
printability		मुद्रणीयता	prismatic astrolabe		प्रिज्मीय एस्ट्रोलैब (यन्त्र)
print cloth		प्रिन्ट क्लाथ	prismatic bars		प्रिज्मीय दंड
printed circuit		मुद्रित परिपथ	prismatic binoculars		प्रिज्मीय द्विनेत्री
printed matter		मुद्रित सामग्री, मुद्रित विषय वस्तु	prismatic cell		प्रिज्मी कोशिका
printer's hydro	<i>Chem.</i>	मुद्रक हाइड्रो	prismatic compass		प्रिज्मीय कम्पास
print gingham		प्रिन्ट गिन्गम	prismatic element		प्रिज्मीय अवयव
printing	<i>Chem., H Sc.</i>	छपाई, मुद्रण	prismatic eyepiece		प्रिज्मीय नेत्रिका
printing art paper		प्रिन्ट-पत्र, प्रिन्ट पेपर	prismatic glide		प्रिज्मीय संधंण
printing calculator	<i>Math</i>	मुद्रण परिकल्पित	prismatic initial		प्रिज्मीय आरम्भक
printing ink	<i>Chem.</i>	छपाई रेशनाई, मुद्रण मसी	prismatic layer		प्रिज्मीय स्तर
printing off	<i>Geog</i>	छापना	prismatic slice		प्रिज्मीय तराज
printing office		मुद्रणालय	prismatic spectrum		प्रिज्मीय स्पेक्ट्रम
printing press		मुद्रण मशीन	prismatic system		प्रिज्मी तंत्र
printing press operator	<i>Geog.</i>	प्रेस प्रचालक	prismatic trommel		प्रिज्मी ट्रमेल
printing strength		मुद्रण प्रावृत्त्य	prism binocular		प्रिज्मी द्विनेत्री, प्रिज्मी बाइनोकुलर
printing technology		मुद्रण शिल्प विज्ञान	prism cap		प्रिज्म छादन
print original	<i>Geog.</i>	छाप ओरिजिनल, प्रिन्ट ओरिजिनल	prism monochromators		प्रिज्म एकरंगित्र
print-out effect	<i>Phy</i>	प्रिन्ट आउट प्रभाव	prism of first order	<i>Geol</i>	प्रथम बर्गी प्रिज्म
print-out type	<i>Phy</i>	प्रिन्ट आउट टाइप	prismogram	<i>Math</i>	समपासवरेख
print patch	<i>H Sc.</i>	छापेदार पैच	prismoid		प्रिज्माम
print pulse	<i>Phy</i>	मुद्रण स्पंद	prismoidal	<i>Geol.</i>	प्रिज्माभ्रीय
print sulphur	<i>Chem</i>	गंधक मुद्र, गंधक प्रिन्ट	prismoidal formula	<i>Math</i>	प्रिज्माभ्रीय सूत्र
prionognathic	<i>Geol.</i>	प्रायोनॉग्नेथिक, त्रकधहन्वी	prismoidal solid		प्रिज्माभ्रीय ठोस, प्रिज्माभ्रीय चिह्न
prior	<i>Geog</i>	महाध्यक्ष	prism power		प्रिज्म की शक्तता
prior approval		पूर्व अनुमोदन	prism spectroscopy		प्रिज्मी स्पेक्ट्रमदर्शी
priorite	<i>Chem</i>	प्रायराइट	prism square		प्रिज्म गुणिया
priority		अग्रता	prism table		प्रिज्म मंच
prior probability	<i>Math</i>	पूर्व प्रायिकता	prisometer	<i>Chem</i>	प्रिज्मोमीटर
prisere	<i>Bot.</i>	प्राचमिक क्रमक	Pristidae	<i>Zool.</i>	प्रिस्टिडी
prism	<i>Math.</i>	प्रिज्म	Pristiphoridae	<i>Zool</i>	प्रिस्टिफोरिडी
			Pristus	<i>Zool.</i>	प्रिस्टिस
			<i>Pristis cuspidatus</i>		प्रिस्टिस कस्पिडेटस (कासमीन, बाण)

private building estate	<i>Geog.</i>	स्वकीय गृह सम्पदा	probability integral transformation		प्रायिकता समाकल रूपांतरण
private consumer	<i>H.Sc.</i>	निजी उपभोक्ता	probability judgement		प्रायिकता निर्णय
private enterprise		निजी उद्योग	probability limit		प्रायिकता सीमा
private gain	<i>H.Sc.</i>	निजी मुनाफा	probability mass		प्रायिकता द्रव्यमान
private line	<i>Phy.</i>	निजी लाइन	probability of cause		कारण-प्रायिकता
private ownership	<i>H.Sc.</i>	निजी स्वामित्व	probability of demand		मांग की प्रायिकता
privet mosaic	<i>Bot.</i>	प्रिवेट मोजेक, प्रिवेट किर्मीर	probability of equipment failure		उपकरण क्रिया मंग प्रायिकता
privilege instruction	<i>Phy.</i>	द्विगोपाधिकार अनुदेश	probability of interference		व्यतिकरण प्रायिकता
proaccelerina	<i>Chem.</i>	प्रोऐक्सिलरिन	probability of selection		वरण प्रायिकता
pro-amnion	<i>Zool.</i>	प्राक्जल	probability ratio		प्रायिकता अनुपात
proangisoperms	<i>Bot.</i>	प्राक् आवृतबीजी	probability sample		प्रायिकता प्रतिदर्श
proanthesis	<i>Bot.</i>	पूर्वपुष्पन	probability sampling		प्रायिकता प्रतिचयन
Proanura	<i>Zool.</i>	प्रोएन्यूरा	probability selection method		प्रायिकता वरण विधि
proatlas	<i>Zool.</i>	प्रशीपंघर	probability space		प्रायिकता समष्टि
proavian	<i>Zool.</i>	प्राक्पक्षीय	probability structure		प्रायिकता संरचना
probabilistic	<i>Math.,Phy.</i>	प्रायिकतात्मक	probability vector		प्रायिकता सदिश
probabilistic approach		प्रायिकतात्मक उपगमन	probable		प्रायिक, प्रसंभाव्य
probabilistic demand		प्रायिकतात्मक मांग	probable accidental error	<i>Geog.</i>	प्रसंभाव्य अज्ञातहेतुक अशुद्धि
probablistic variable		प्रायिकतात्मक चर	probable density		प्रसंभाव्य घनत्व
probability		प्रायिकता	probable deviation	<i>Math.</i>	प्रसंभाव्य विचलन
probability aggregate		प्रायिकता समूच्चय	probable error		प्रसंभाव्य त्रुटि
probability amplitude		प्रायिकता आयाम	probable expectation		प्रसंभाव्य प्रत्याशा
probability coefficient		प्रायिकतांक	probable reserve		प्रसंभाव्य निचय
probability current		प्रायिकता धारा	probacteriophage	<i>Zool.</i>	प्राक्जीवाणुभोजी
probability curve		प्रायिकता वक्र	Proban treatment	<i>Chem.</i>	प्रोबैन उपचार
probability density		प्रायिकता घनत्व	probarbitol sodium	<i>Chem.</i>	प्रोबारबिटॉल सोडियम
probability density distribution		प्रायिकता घनत्व वितरण	probasidium	<i>Bot.</i>	पूर्ववेसिडियम, प्रोवेसिडियम
probability density function		प्रायिकता घनत्व फलन	probe	<i>Chem.,Phy.</i>	संपरीक्षित्र, अन्वेषी शलाका
probability distri- bution		प्रायिकता वंटन	probe microphone		अन्वेषी माइक्रोफोन
probability factor		प्रायिकता गुणांक	probe tube	<i>H.Sc.,Phy.</i>	एपण नली, खोज नली
probability function		प्रायिकता फलन	probe unit		खोज एकक
probability generating function		प्रायिकता जनक फलन	probit	<i>Math.,Geol.</i>	प्रॉबिट
probability integral		प्रायिकता समाकल			

probit analysis		प्रॉबिट विश्लेषण	procambium		प्रोक्म्बिया
probit graph		प्रॉबिट आलेख	procarp	Bot	आयाधानी
probit regression line		प्रॉबिट समाश्रयण रेखा	procartilage	Zool	प्रोकार्टिलिज
probity	H Sc.	सत्यनिष्ठा	procaryota	Bot	प्रोकैरियोटा, असीम केन्द्रकी
problem	Math, Chem, Geol.	प्रश्न, समस्या, निर्मय	Procaviidae	Zool	प्रोकैविआइडी
problematical		समस्यात्मक, सदिग्ध	procedural bias	Math	प्रक्रियात्मक अभिनिर्दि
problematicum	Geol	समस्या वस्तु	procedare		प्रक्रिया, कार्य-विधि
problem definition		समस्या सप्रस्तुति	procedure oriented language	Phy	प्रक्रिया मूलक भाषा
problem formulation		समस्या सस्रूपण	Procellaria	Zool	प्रोसेलेरिया
problem oriented language		समस्या मूलक भाषा	Procellariiformes		प्रोसेलेराइफॉर्मिज
problem situation		समस्या स्थिति	Procellariidae		प्रोसेलेरिआइडी
probota	Bot	प्रोबोला	procephalic lobe	Zool	आयर्शिरस्य पालि
probolog	Chem. (Met)	प्रोबोलॉग	proceroid	Zool	प्रोसरकॉयड, प्रयुच्छात्र
Proboscidea	Zool	प्रोबोसीडिया (हाथी गण)	procerebrum	Zool.	अध्रमस्तिक
proboscidea	Zool	शूडक	Procerodes	Zool.	प्रोसेरोडीज
proboscoidal		शूडकीय भुजा	Procerodes lobata		प्रोसेरोडीज लोबेटा
proboscoidiform	Zool	शूडकरूप	procerus	Bot	प्राशु
proboscis	Zool.	शूड, शूडिका	process		1 प्रक्रम 2 प्रवर्ध
proboscis apparatus		शूडिका उपकरण	processability	Chem	प्रक्रमणीयता
proboscis armature		शूड उपकरण	process average fraction defective	Math	प्रक्रमी माध्य दूषितानुपात
proboscis bulb		शूडिका कन्द	process colorimeter turbidimeter	Chem	प्रक्रम वर्णमापी आविन्ततामापी
proboscis cavity		शूडिका गुहा	process cost	H Sc.	समय
proboscis coelom		शूडिका प्रगुहा	processed data	Phy.	समाधित उपात
proboscis pore		शूडिका रंध	processed film		समाधित फिल्म
proboscis receptacle		शूड आकुचक	processed fish		समाधित मटली
proboscis retracter		शूड आद्याग	processed milk		समाधित दूध
proboscis rudiment		शूड शानेन्द्रिय	processing	Geol, H Sc.	प्रक्रमण, समाधन
proboscis sense organ		शूडिका आवरण	processing error		प्रक्रमण-त्रुटि
proboscis sheath		शूडिका छद	process tak		प्रक्रम मसी
proboscis sheath		शूडिका कवच	process of Fauser and Casale	Chem.	फॉसर कैसेल प्रक्रम
proboscis skeleton		शूडिका कवच	process of least squares	Geog.	न्यूनतम वर्ग प्रक्रम
probud	Zool	प्रोबुड	processor	Phy.	ससाधन
procainamide hydrochloride	Chem.	प्रोकेनमाइड हाइड्रोक्लोराइड			
procaine		प्रोकेन			
procaine halide		प्रोकेन हैलाइड			

process silk	H.Sc.	प्रोसेस सिल्क	prodigiosa	Chem.	प्रोडाइजियोसिस
processus gracilis	Zool.	तनुप्रवर्ध, प्रोसेसस ग्रेसीलिस	prodigious force	Geog.	बलाघारण बल
processus vaginalis	Zool.	योनि प्रवर्ध	prodromal symptom	Zool.	रोगपूर्व लक्षण, पूर्वग लक्षण
prochlorperazine	Chem.	प्रोक्लोरेपेराजीन	prodrome	Zool.	पूर्वग
procion dye	Chem. (Text.)	प्रोसिजन रंजक	produced	Math.	उत्पादित
proclimax	Bot.	चरमानास	producer		1. उत्पादक 2. निर्माता 3. प्रोड्यूसर
proclinate	Zool.	अग्रनत	producer gas		प्रोड्यूसर गैस, वायु अंगार गैस
procoelous	Zool.	अग्रगती	producer gas engine		प्रोड्यूसर गैस इंजिन
Procolophon	Zool.	प्रोकोलोफॉन	producer goods		उत्पादक वस्तुएं
procoracoid	Zool.	अग्रअंसतुंड	producer risk		उत्पादक की जोखिम
procorpus	Bot.	कार्पेसाग्र	producing zone	Geol.	उत्पादक क्षेत्र
procoxa	Zool.	अग्रकक्षांग	product	Chem., H.Sc., Math.	1. उत्पाद 2. गुणफल
procricoid	Zool.	पूर्वमुद्रिका	product bundle		गुणफल पूल
procricoid cartilage		प्रोक्रीकॉइड उपास्थि, पूर्वमुद्रिका उपास्थि	product connection		गुणफल संबंधन
procryptic	Zool., Chem.	प्रगोपक	product demodulator	Geol.	गुणफल विमाडुलक
procryptic colours		प्रगोपक वर्ण	product directed set	Math.	गुणन दिष्ट समुच्चय
Procter Wilson theory	Chem.	प्रॉक्टर विल्सन वाद	Productella		प्रोडक्टेल्ला
proctodaeal depression	Zool.	गुदपय अवनमन	product event		गुणन घटना
proctodaeal invagination		गुदपय अंतर्वलन	product form of inverse		व्युत्क्रम का गुणन-रूप
proctodaeal valve		गुदपय कपाट	product function		गुणन फलन
proctodaeum	Zool.	गुदपय, प्रोक्टोडियम	product invariant property (=productive property)		गुणनिक गुणधर्म
proctoscope	Zool.	मलाशयदर्शी	production		उत्पादन
proctoscopic		मलाशयदर्शीय	production cost		उत्पादन-लागत
procumbent	Biol.	शयान	production curves		उत्पादन वक्र
procuticle	Zool.	प्रत्वचा, प्रचर्म	production cycle		उत्पादन चक्र
*Procyon (=α Canis minoris)	Astron.	प्रोसिजॉन (=α कैनिस् माइनोरिस)	production decision equation		उत्पादन निर्णय समीकरण
Procyonidae	Zool.	प्रोसियोनिडी	production function		उत्पादन फलन
prod	Chem.	प्रॉड, अंकुश, बार	production function model		उत्पादन फलन निर्देश
prodelphic	Bot.	अग्रैकाण्डाशयी	production indices		उत्पादन सूचकांक
prodelta clays	Geol.	पुर: डेल्टामृत्तिका	production of vorticity		घनिलता का उत्पादन
prodeltidium	Geol.	पूर्वडेल्टोडियम			
Prodenia litura	Zool.	प्रोडोनिया लिटुरा			
prodigality	H.Sc.	अपव्यय, फिजूलखर्ची			

production operation	उत्पादन सत्रिया	product order	गुणन-क्रम
production plan	उत्पादन आयोजना	product ordering	गुणन क्रमीकरण
production process	उत्पादन प्रक्रम	product pump	उत्पाद पम्प
production-quantity model	उत्पादन मात्रा निर्देश	product quality	उत्पाद की गुणता
production rate	उत्पादन-दर	product quantum yield	उत्पाद क्वांटम सन्धि
production reactor	उत्पादक रिएक्टर	product set	गुणन समुच्चय
production release	उत्पादन मोचन, उत्पादन मुक्ति	product space	गुणन समष्टि, गुणन आकारा
production schedule	उत्पादन अनुसूची	product theorem	गुणन प्रमेय
production scheduling	उत्पादन अनुसूचीयन	product topology	गुणन सत्थिति
production supervision	उत्पादन पर्यवेक्षण	product uniformity	गुणन परिदेशक
productive energy	उत्पादक ऊर्जा	Productus	<i>Geol</i> प्रोडक्टस
productive equipment	उत्पादक उपस्कर	product variability	उत्पाद विचरता
productive forest	उत्पादी वन	product well	उत्पाद कुप
productive measures	उत्पादक सत्तर	proembryo	<i>Biol.</i> प्राक्भ्रूण
productiveness	उत्पादन क्षमता	proembryonal filament	प्राक्भ्रूण तंतु
productive process	उत्पाद प्रक्रम	proembryonic	<i>Zool.</i> प्राक्भ्रूणीय
productive property	गुणनिक गुणधर्म	proembryonic cap	प्राक्भ्रूण गोप
productive soil	उत्पादी मृदा	proembryo tissue	प्राक्भ्रूणोत्पक
productivity	उत्पादकता	proenzyme	<i>H.Sc.</i> प्राक्एन्जाइम
productivity of land	भूमि उत्पादकता	proepipodite	<i>Zool.</i> पूर्वाधिपादाङ्ग
product manifold	गुणनफल प्रसमष्टि	pro-erythroblast	<i>Zool</i> प्राक्-रक्तानुकोरक
product modulator	गुणनफल माड्युलर	proestrus	<i>Zool.</i> मदपूर्व (स्त्रीमदपूर्व)
product moment formula	गुणन-आघूर्ण सूत्र	professional nurse	<i>H.Sc.</i> व्यवसायी परिचारिका
product-moment method	गुणन-आघूर्ण विधि	professional paper	<i>Geog.</i> प्रोफेशनल पेपर
product nucleus	उत्पादित नाभिक	professional quarter	<i>Geog.</i> व्यवसायी क्वार्टर
product of ideals in a ring	बलय में गुणजावतियों का गुणनफल	profibrin	<i>Chem.</i> प्रोफिब्रिन
product of intense specialisation	उग्रविशेषीकरण-उत्पाद	proficorder	<i>Chem.</i> ( <i>Met</i> ) परिच्छेदिका लेखी
product of random variables	यादृच्छिक चरो का गुणनफल	profile	परिच्छेदिका, प्रोफाइल
product of range	गुणनश्रेण उत्पाद	profile and cross-section	<i>Geog.</i> परिच्छेदिका व अनुप्रस्थ काट
product of two algebras	दो बीजावतियों का गुणनफल	profile area	परिच्छेदिका क्षेत्र
product of two transformations	दो रूपांतरणों का गुणनफल	profile columnar section	प्रोफाइल स्तंभी परिच्छेद
		profile diagram	परिच्छेदिका आरेख



profile drag		प्रोफाइल कर्पण, परिच्छेदिका कर्पण	उद्दहनु शीर्षं
profile grid		प्रोफाइल ग्रिड	
profile method		प्रोफाइल विधि	
profile of equilibrium	<i>Geol.</i>	साम्यावस्था की परिच्छेदिका	
profile of powderline	<i>Phy.</i>	चूर्णीय रेखाकृति	
profile paper		प्रोफाइल पेपर	
profile section		प्रोफाइल काट, प्रोफाइल परिच्छेद	
profile shooting		प्रोफाइल शूटिंग	
profiling	<i>Geol.</i>	प्रोफाइलिंग, परिच्छेदिकायन	
profilometer		प्रोफाइलमापी, परिच्छेदिकामापी	
profiloscope		परिच्छेदिकादर्शी	
profit		लाभ	
profitable occupation		लाभप्रद व्यवसाय	
profit function		लाभ-फलन	
profit maximization		लाभ अधिकतमकीरण	
profligate	<i>Geog.</i>	अतिव्ययशी	
proforma	<i>Geog.</i>	प्रपत्र, निदर्शन पत्र, फार्म	
profound fissure	<i>Geol.</i>	गभीर विदर	
progametangium		प्राक्युग्मकधानी	
progamous	<i>Zool.</i>	युग्मनपूर्व	
progastric cavity	<i>Zool.</i>	जठरान गुहा	
progenitor	<i>Zool.</i>	प्रजनक	
progeny	<i>Bot., Zool.</i>	संतति	
progeny phase		संतति प्रावस्था	
progestation	<i>Zool.</i>	प्राग्गर्भाविधि	
progesterone	<i>Chem., H.Sc., Zool.</i>	प्रोजेस्टरोन	
progestin	<i>Zool.</i>	प्रोजेस्टिन	
proglacial	<i>Geog., Geol.</i>	पुरोहिमानी, पुरोहिमनदीय	
proglacial lake		पुरोहिमानी झील	
proglottid	<i>Zool.</i>	देहखंड	
prognathism	<i>Zool.</i>	उद्दहनुता	
prognathous		उद्दहनु	
prognathous head			
prognosis	<i>Zool., Geog.</i>		पूर्वानुमान, प्राग्ज्ञा
prognostic chart			पूर्वानुमानी चार्ट
prognostics			मौसम पूर्वानुमानिकी
Progoneata	<i>Zool.</i>		प्रोगोनिएटा
progoneate	<i>Zool.</i>		अग्रजनिक
progonia	<i>Zool.</i>		अग्रकोण
progradation	<i>Geog., Geol.</i>		पुरःक्रमण
prograded			पुरःक्रमित
prograded area			पुरःक्रमित क्षेत्र
prograding			पुरःक्रमणी
prograding shore			पुरःक्रमणी तट
programme	<i>Phy., Math.</i>		प्रोग्राम, कार्यक्रम
programme address counter			प्रोग्राम पता अभिलेखी, प्रोग्राम पता रजिस्टर
programme beat-beat			प्रोग्राम वि-विस्पंद
programme counter (= counter register)			नियंत्रण रजिस्टर
programmed check			प्रोग्रामी जांच
programme generator			प्रोग्राम जनित्र
programme meter			प्रोग्राम मापी
programme network			प्रोग्राम जाल
programmer			प्रोग्रामक
programme step			प्रोग्राम चरण
programme switch			प्रोग्राम स्विच
programme testing time			प्रोग्राम परीक्षण काल
programming			प्रक्रमन, प्रोग्रामन
Prographularia			प्रोग्रफूलेरिया
progress	<i>Geol.</i>		प्रगति
progress chart			प्रगति चार्ट
progression	<i>Math.</i>		श्रेढ़ी
progression (of configuration)	<i>Phy.</i>		(विन्यास का) अनुक्रम
progressional morphological series	<i>Bot.</i>		प्रगामी आकृति श्रेणी
progression of progression	<i>Phy.</i>		श्रेढ़ियों की श्रेढ़ी

progressive		प्रगामी, वर्धमान	Projapygidae	Zool.	प्रोजेपिगिडी
progressive adaptation		प्रगामी अनुकूलन	project	H Sc	परियोजना
progressive average		प्रगामी माध्य	projected		प्रक्षिप्त, प्रक्षेपित
progressive burning	Phy.	दाववर्षी ज्वलन	projected dip		प्रक्षिप्त नति
progressive change		प्रगामी परिवर्तन, पुरोगामी परिवर्तन	projected profile		प्रक्षिप्त परिच्छेदिका, प्रायोञ्जिन परिच्छेदिका
progressive climatic change		प्रगामी जलवायवी परिवर्तन	projected radius		प्रक्षेपित त्रिज्या
progressive expenditure	H.Sc	आरोही खर्च	projected scale		प्रक्षेपित मापदण्ड
progressive extinction		प्रगामी विलोप	projected sheet		प्रक्षेप शीट
progressively		प्रगामीयत	projected slab		प्रक्षिप्त खण्ड
progressive motion		प्रगामी गति	projected sunlight		प्रक्षिप्त सौरप्रकाश
progressive observation		प्रगामी प्रेक्षण	projected value		प्रक्षेपित मान
progressive overlap		प्रगामी अनिव्यापन	projecting		प्रक्षेपी, वह्निचिप्ट
progressive plastic flow		प्रगामी सुघट्य प्रवाह	projecting lantern	Phy	चित्रदर्शी सातटन, चित्रप्रक्षेपी सातटन
progressive population	H.Sc.	वर्धमान जनसंख्या	projecting microscope	Geol.	प्रक्षेपी सूक्ष्मदर्शी
progressive sand wave		प्रगामी बालुका तरंग	projecting mouth		प्रक्षेपी मुख
progressive scanning (=sequential scanning)	Phy	अनुक्रमिक क्रमवीक्षण, उत्तरोत्तर क्रमवीक्षण	projection	Geog , Math ,Geol	1 प्रक्षेपण, प्रक्षेप 2 वह्निदेशन
progressive sorting	Geol.	अनुक्रमिक छटाई	projection formula		प्रक्षेप सूत्र
progressive species		प्रगामी जाति, प्रगामी स्पीसीज	projection into coordinate spaces		निर्देशक समष्टियों में प्रक्षेप
progressive substitution		वर्धमान प्रतिस्थापन	projection matrix		प्रक्षेप आव्यूह
progressive wave		प्रगामी तरंग	projection of a set		समुच्चय का प्रक्षेप
progress of mapping	Geog.	मानचित्रण प्रगति	projection of electron density		इलेक्ट्रॉन घनत्व प्रक्षेपण
proguanil	Chem.	प्रोग्वानिल	projection of trend value		उपनति मान का वह्निदेशन
prohaemocyte	Zool.	प्रक्षिराणु	projection of vector		सदिश प्रक्षेप
prohaptor	Zool.	अप्रस्थापक	projection operator		प्रक्षेप सकारक
prohibited area	Geog.	निषिद्ध क्षेत्र	projection optics		1 प्रक्षेप प्रकाशिकी 2. प्रक्षेप प्रकाशिकीय व्यवस्था
prohibited goods		निषिद्ध माल, निषिद्ध वस्तुएँ	projection printer	Geog.	प्रोजेक्शन प्रिन्टर
prohibited zones	Phy.	निषिद्ध जोन	projection printing		प्रक्षेप मुद्रण, प्रोजेक्शन प्रिन्टिंग
prohibition		निषेध	projection television		प्रक्षेपण टेलीविजन
prohibitive hindrance		निषेधक बाधा	projection theorem		प्रक्षेप प्रमेय
proinulase	Biol.	प्रोइनुलेस	projection topography		प्रक्षेपण स्थलाहृति
			projection tube		प्रक्षेपण नलिका

projection welding		प्रक्षेप संघान	prole	Bot.	उपजाति
projective		प्रक्षेपीय	prolegs	Zool.	प्रपाद
projective coordinates		प्रक्षेपीय निर्देशांक	prolepsis	Bot.	पूर्वाभासी परिवर्धन
projective differential geometry		प्रक्षेपीय अवकल ज्यामिति	proletariat		थमजीवी
projective flat		प्रक्षेपी समतल	proleucocyte	Zool.	प्रश्वेताणु
projective geometry		प्रक्षेपीय ज्यामिति	proliferation	Bot.,Zool.	क्रम प्रसरण, प्रचुरोद्भवन
projective group		प्रक्षेपीय समूह	proliferation tissue		प्रचुरणी ऊतक
projective invariant		प्रक्षेपीय निश्चर	proliferative development		क्रम प्रसारी परिवर्धन
projective limit		प्रक्षेपी सीमा	proliferous		प्रचुरोद्भवनी
projective line		प्रक्षेपीय रेखा	prolification	Bot.	कक्ष कलिकोद्भवन
projectively flat space		प्राक्षेपिकतया सपाट समष्टि	prolinase	Chem.	प्रोलीनेस
projective plane		प्रक्षेपी समतल	proline	Zool.,H.Sc.	प्रोलीन
projective property		प्रक्षेपीय गुणधर्म	prolipase	Bot.	प्रोलाइपेस
projective space		प्रक्षेपी समष्टि	proliterate	Chem. (Met.)	प्रोलाइट
projective system		प्रक्षेपी निकाय	prolithionite	Geol.	प्रोलिथियोनाइट
projective topology		प्रक्षेपी संस्थिति	proloculum	Zool.,Geol.	प्रोलॉक्यूलम, पुरोकोष्ठ
projective transformation		प्रक्षेपीय रूपांतरण	proloculus	Zool.	आदिकक्ष
project map	Geog.	प्रायोजन मानचित्र	proloma	Zool.	अग्रोपांत
projector	Phy.	प्रक्षेपित्र	prolong	H.Sc.	प्रोलॉन
project planning	Math.	परियोजना व्यवस्था	prolongation	Chem.	क्षिप्रांग, प्रोलांग
prokaryonata	Bot.	पूर्वकेन्द्रक, प्रोकैरियोनेटा	prolongation of archipelago	Geog.	दीर्घण
Prokoenenia	Zool.	प्रोकीनेनिया	prolonged dry season		दीर्घ शुष्क ऋतु
prolactine	Chem.	प्रोलैक्टिन	prolonged wear		दीर्घकालीन विघर्षण
prolamin	Chem.	प्रोलैमिन	proluvial	Geog.	प्रोल्यूवियल
prolarva	Zool.	प्रद्विम्भ	prolymphocyte	Zool.	प्रलसीकाणु
prolate		दीर्घाक्ष	promatia	Chem.	प्रोमेशिया
prolate crystal	Phy.,Math.	दीर्घाक्ष क्रिस्टल	promazine hydrochloride	Chem.	प्रोमजीन हाइड्रोक्लोराइड
prolate cycloid		दीर्घाक्ष चक्रज	promein	Chem.	प्रोमिन
prolate ellipsoid		दीर्घाक्ष दीर्घवृत्तज	promenette	H.Sc.	प्रोमिनेट
prolate ellipsoid of revolution		दीर्घाक्ष-परिक्रमण-दीर्घवृत्तज	promeros	Zool.	प्रखंड
prolate spheroid		दीर्घाक्ष गोलाभ	prometaphase	Biol.	प्राक्मध्यावस्था, प्रमध्यावस्था
prolate spheroidal coordinates		दीर्घाक्ष गोलाभीय निर्देशांक	promethazine	Chem.	प्रोमिथेजीन
prolate symmetric top molecule		दीर्घाक्ष सममित भ्रमी अणु	promethium		प्रोमिथियम

promicrophone	<i>Phy.</i>	अन्वेपी माइक्रोफोन	pronator-supinator muscle	<i>H Sc.</i>	अवतानिका उततानी पेशी
prominence		1 उत्तैद्य 2. (Astron.) सौर ज्वाला	pronauplius	<i>Zool</i>	प्रोतॉप्लियस
prominent (moth)	<i>Zool</i>	गुशलभ	Proneomenia	<i>Zool</i>	प्रोनियोमीनिया
prominent isolated peak	<i>Geol, Geog</i>	प्रमुख एकाकी चोटी	pronephric	<i>Zool</i>	प्राक्बृक्कीय
prominent local feature		मुख्य स्थानीय आकृति	pronephric bulge		प्राक्बृक्कक उभार
prominent nose	<i>Geog.</i>	उन्नत नासिका	pronephric capsule		प्राक्बृक्कक सपुट
prominogen	<i>Bot.</i>	प्रोमिनोजन	pronephric chamber		प्राक्बृक्कक कक्ष
promintic (methyridine)	<i>Chem</i>	प्रोमिन्टिक	pronephric duct		प्राक्बृक्कक वाहिनी
promiscuous	<i>Geog.</i>	स्वच्छन्द	pronephros		प्राक्बृक्क
promiscuous use	<i>Chem. (Food)</i>	निर्दिशिष्ट उपयोग	prong (of tuning fork)	<i>Phy.</i>	भुजा
promitochondria	<i>Bot.</i>	प्रोमाइटोकॉन्ड्रिया	pronged fork	<i>H Sc.</i>	दुनुकी बाटा
promitosis	<i>Zool.</i>	प्रसूजीविभाजन, प्रसमसूत्रण, प्रोमाइटोसिस	prongs	<i>Phy.</i>	एकत्रेन्द्री लीक
promizole	<i>Chem.</i>	प्रोमिजोल	pronotum	<i>Zool</i>	प्रनसपृष्ठक
promoloid	<i>Chem.</i>	प्रोमोलायड	pronounced hump	<i>Phy</i>	प्रमुख कबुद
promonocyte	<i>Zool.</i>	प्रएकलाणु	pronounced trend	<i>Math.</i>	स्पष्ट उपनति
promontory	<i>Geog, Geol.</i>	उच्चातरिप	prontosol	<i>Chem.</i>	प्रॉन्टोसिल
promoted electrons	<i>Phy.</i>	प्रोन्नत इलेक्ट्रॉन	pronucleus	<i>Zool.</i>	प्राक्नेन्द्रक
promoted mixing		वर्धित मिश्रण	pronymph	<i>Zool.</i>	प्रापर्यक (प्राक्जर्मक)
promoter		वर्धक	prooestrus (prooestrum)	<i>Zool</i>	मदपूर्वकाल
promotional campaigns	<i>Math.</i>	प्रोन्नति अभियान	proof	<i>Math, Geog.</i>	1 प्रमाण 2. उपपत्ति 3 प्रूफ
promotional effort		प्रोन्नति प्रयास	proof box	<i>Chem. (Food)</i>	प्रमाणक पेटी
promotional energy	<i>Chem.</i>	उन्नयन ऊर्जा	proof by analysis		विश्लेषण द्वारा उपपत्ति
promotor	<i>Zool, Geol.</i>	व्यपवर्तनी (पेशी) सद्गाहक	proof by induction		बागम द्वारा उपपत्ति
prompt gamma-radiation	<i>Chem</i>	तात्कालिक गामा विकिरण	proof examiner		प्रूफ आचरक
prompt neutron	<i>Phy.</i>	तात्कालिक न्यूट्रॉन	proof gallon		प्रमाणक गैलन
promycelium	<i>Bot.</i>	प्राक्बृक्क ततु	proof load		प्रमाणक उद्भार
promyelocyte	<i>Zool.</i>	प्रमज्जाणु	proof plane		परीक्षण पट्टिका
pronation	<i>Zool.</i>	अवतानन	proof reader		प्रूफ रीडर
pronator		अवतानिनी	proof spirit		प्रूफ स्पिरिट
pronator longus		दीर्घ अवतानिनी	proof stage		प्रूफावस्था
			proof stick		प्रमाणक शक्ति
			proof stress		प्रमाणक प्रतिबल
			proof test		प्रमाणक निरूप
			proof testing		प्रमाणार्थ परीक्षण

pro-ostracum	<i>Geol.</i>	अग्रकवच	propellant mass flow	नोदक द्रव्य प्रवाह
pro-otic	<i>Zool.</i>	अग्रकर्णिका, प्रोओटिक	propellant mass ratio	नोदक द्रव्य अनुपात
pro-ovarian cilia	<i>Zool.</i>	अभिजंडाशयी पद्माम	propeller	<i>Math., H.Sc.,Phy.</i> नोदक
prooxidants	<i>Chem. (Fat.)</i>	अनु-ऑक्सीकर, अनुउपचायक	propeller disc	नोदक मंडलक
pro-oxidase	<i>Chem.</i>	प्रो-ओक्सिडेज	propeller efficiency	नोदक दक्षता
prooxytriaene	<i>Geol.</i>	प्रोऑक्सीट्रायेन	propelling stroke	<i>Zool.</i> नोदक आघात
prop	<i>Geol.</i>	छादाधार	propene	<i>Chem.</i> प्रोपीन
propadiene	<i>Chem.</i>	प्रोपेडाइ-ईन	propepsin	<i>Zool.</i> प्रोपेप्सिन
propadrine	<i>Chem.</i>	प्रोपेड्रीन	proper algebraic extension	<i>Math.</i> उचित बीजीय विस्तार
propagated error	<i>Math.</i>	संचारित द्रुति	proper charge density	उचित आवेश घनत्व
propagation	<i>Bot.,Phy. H.Sc.</i>	1. संचरण 2. प्रवर्धन, प्रचारण	proper cone	उचित शंकु
propagation anomalies		संचरण असंगतियाँ	proper coordinates	उचित निर्देशांक
propagation constant		संचरणान्क, संचरण नियतान्क	proper density	उचित घनत्व
propagation number		संचरण-संख्या	proper difference	उचित अंतर
propagation of error		द्वुटि संचरण	properdin	प्रोपॅडिन
propagation of light		प्रकाश-संचरण	proper double refraction	उचित द्विव्यपवर्तन
propagation of sound		ध्वनि संचरण	proper energy	उचित ऊर्जा
propagation reaction		संचरण अभिक्रिया	proper entropy	उचित ऐन्ट्रॉपी
propagation vector		संचरण सदिश	proper factor	उचित गुणनखंड
propagative cell		प्रवर्धन कोशिका	proper fraction	उचित भिन्न
propagative transmission	<i>Zool.</i>	प्रवर्धी संचरण	proper function	उपयुक्त फलन, उचित फलन
propagatory cell		प्रवर्धी कोशिका	proper fuze function	उचित फ्यूज फलन
propagulum (=propagule)	<i>Bot.</i>	प्रवर्ध्य	proper ideal	उचित गुणजावली
propamidine	<i>Chem.</i>	प्रोपैमिडीन	proper interval	उचित अंतराल
propane	<i>Chem.</i>	प्रोपेन	properistome	<i>Bot.</i> प्रपरिमुख
propanol		प्रोपेनाँल	proper length	उचित लम्बाई
propargyl		प्रोपार्गिल	properly contained	<i>Math.</i> पूर्णतया अंतर्विष्ट
proparian type		प्रोपेरिक्लाई प्रकार	properly quasi-nilpotent element	उचित शून्यमावी कल्प अचयव
propatagium	<i>Zool.</i>	अग्रचर्मप्रसर	proper macroscopic density	उचित स्थूल घनत्व
propel		नोदन करना	proper margin	<i>Bot.</i> अर्धमातहत
propellant erosion	<i>Phy.</i>	नोदक अपघर्षण	proper material density	उचित द्रव्यात्मक घनत्व
propellant explosive		नोदक विस्फोटक		
propellant mass	<i>Math.</i>	नोदक द्रव्यमान		

proper maximum		उचित उच्चिष्ठ	Prophylactic treatment	Bot	निरोधोपचार
proper measure		उचित माप	Prophylaxis	Zool, H Sc	रोगनिरोध
proper minimum		उचित निम्निष्ठ	Prophyll	Bot	सहपत्रिका
proper motion	Math	निजी गति	Propine		प्रोपाइन
proper motion orbit		निजीयति कक्षा	Propionaldehyde	Chem	प्रोपिऑन-ऐल्डिहाइड
proper orthogonal transformation		उचित तार्किक रूपान्तरण	Propionate		प्रोपियोनेट
proper quantity		उचित राशि	Propione		प्रोपियोन
proper rotation		उचित घूर्णन	Propionibacterium acnes	Bot	प्रोपियोनिबॅक्टीरियम एक्नीज
proper subgroup		उचित उपसमूह	Propionic acid	Chem	प्रोपिऑनिक अम्ल, प्रोपिऑनिक ऐमिड
proper submodule		उचित उपप्रतिरूपक	Propithecus	Zool	प्रोपिथीकस
proper subset		उचित उपसमुच्चय	propoplastid	Bot	प्राक्नवक
proper subspace		उचित उपसमष्टि	Proplatinum	Chem	प्रोप्लैटिनम
proper temperature		उचित ताप	Propiopithecus	Zool.	प्रोपिओपिथीकस
properties of matter	Chem, Phy	द्रव्य का गुणधर्म	propneustic respiratory system	Zool	अग्ररध श्वसन तंत्र
proper time		उचित काल	propneustic system		अग्ररध सल
property	Chem, Phy, Geol	गुण, गुणधर्म	Propodeon	Zool.	अग्रवृत्तोदर
property of conservation	Math.	संरक्षण गुणधर्म	Propodeum	Zool	अग्रपाद
property tax	H Sc	संपत्ति कर, भूमिभवन कर	Propodite	Zool.	प्रशादोश
proper value (=eigen value)		उचित मान, आद्यतन मान	Propodium	Zool.	अग्रपाद
proper vector		उचित सदिश	propodus	Zool	पूर्वघड
proper volume		उचित आयतन	propolis	Zool.	प्रोपोलिस, रालाम
prophage	Zool	प्रारूपाज, प्रोफाज, प्रातिबधोजी	proportion	H Sc, Math, Phy.	समानुपात, अनुपात, भाग
propham (isopropyl phenyl carbamate)	Chem.	प्रोफैम	proportional		समानुपातिक, अनुपातिक
prophase	Biol, H.Sc	प्रोफेज, पूर्वावस्था	proportional allocation		आनुपातिक नियतन
prophecy	Geog	भविष्यवाणी	proportional compass		प्रपोर्शनल कम्पास, अनुपाती परकार
prophenpyridamine	Chem	प्रोफिनपिरिडैमीन	proportional cost		आनुपातिक लागत
prophenyl ester	Bot.	प्रोफेनिल ऐस्टर	proportional counter		अनुपातिक शक्ति
prophobilinogen	Chem.	प्रोफोबिलिनोजेन	proportional distribution		अनुपातिक वटन
prophylactic	H.Sc, Zool, Chem	रोग निरोधी	proportional divider		आनुपातिक विभोक्त
prophylactic activity		रोग रोग शक्तिवृद्धा	proportional effect		आनुपातिक प्रभाव
prophylactic effect		रोगनिरोधी प्रभाव	proportional expenditure		आनुपातिक व्यय

proportional frequency		वानुपातिक वारंवारता	propylene	Chem.	प्रोपिलीन
proportionality factor		वानुपातिकता गुणक	propylene diamine		प्रोपिलीन डाइऐमीन
proportional limit		वानुपातिक सीमा	propyl ether		प्रोपिल ईथर
proportional part		वानुपातिक भाग	propylite	Geol.	प्रोपिलाइट
proportional region		वानुपातिक क्षेत्र	propylitic		प्रोपिलाइटी
proportional relationship		वानुपातिक संबंध	propylitization		प्रोपिलाइटीभवन
proportional sampling		वानुपातिक प्रतिचयन	propyl red	Chem.	प्रोपिल रेड, प्रोपिल रक्त
proportional stratified random sampling		वानुपातिक स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन	propyne (propine)	Chem.	प्रोपाइन
proportionate sampling		वानुपातिक प्रतिचयन	prorated cost	Chem. (Plast.)	यथानुपाती लागत, यथानुपाती परिव्यय
proportionate stratified sampling		वानुपातिक स्तरित प्रतिचयन	prorenin		प्रोरेनिन
proportion defective (= fraction defective)		दूषितानुपात	prorhabdion	Bot.	प्राक् बोष्ठ गुहाभित्ति
proportion of occurrence		घटनानुपात	proscolox	Zool.	प्रोस्कोलेक्स, प्रमूर्ध
proposition	Math.	साध्य	Proscorpius	Geol.	प्रोस्कोर्पियस
propoxyphene	Chem.	प्रोपाक्सीफीन	proselytiser	Geog.	धर्मान्तरण समर्थक
proprioception	Zool.	स्वांतरग्रहण	prosencephalon	Zool.	अग्रमस्तिष्क, प्रोसेन्सेफलॉन
proprioceptive centre		स्वांतरग्राही केन्द्र	prosenchyma		दीर्घ ऊतक
proprioceptive organ		स्वांतरग्राही अंग	prosign	Phy.	परख चिह्न
proprioceptor		स्वांतरग्राही	prosiloxane	Chem.	प्रोसिलॉक्सेन
proproot	Bot.	अवस्तंभ मूल	Prosimii	Zool.	प्रोसिमिनाई
propterygium	Zool.	अग्रपखक	prosiphon		प्रलम्बनाल, प्रलंबसाइक्रन
propterygoid	Zool.	अग्र द्व्यंगिका	prosiphonate	Geol.	अग्रसाइक्रनी
propulsion	Math., Phy., Zool.	नोदन	Prosize process	Chem.	प्रोसाइज प्रक्रम
propulsion reactor		नोदन रिएक्टर	prosobranch	Zool., Geog.	प्रोसोब्रैंक, अग्रक्लोमी
propulsion spectrum		नोदन स्पेक्ट्रम	Prosobranchia	Zool.	प्रोसोब्रैंकिया
propulsion system		नोदन निकाय	prosocoele	Zool.	अग्रगुहा
propulsion vesicle		नोदन वाशय	prosodal	Zool.	अभिमार्गी
propulsive force		नोदक बल	prosodus	Zool.	प्रोसोडस, अभिमार्ग
propupa	Zool.	प्राक्पूपा, प्राक्कोशित	prosogyrate	Geol.	पुरोवक्रित
*Propus (= $\eta$ Geminorum)	Astron.	प्रोपस (= $\eta$ मिथुन, $\eta$ जेमिनोरम्)	prosoma	Zool., Geol.	अग्रकाय, प्रोसोमा
propygidium	Zool.	प्रोपाइजिडियम	prosomatic segment		अग्रकायिक खंड
propygium	Zool.	प्रकटिप्रोथ	Prosopis juliflora	Geog.	प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा
propyl alcohol	Chem.	प्रोपिल ऐल्कोहॉल	Prosopis specigera	Bot.	प्रोसोपिस स्पीसीजेरा (शंड)
			prosopite	Geol.	प्रोसोपाइट
			prosoplectenchyma	Bot.	दीर्घऊतक
			Prosopon	Zool.	प्रोसोपान

prosopyle		आगमद्वार	prosuspensor	Bot.	प्राक्निलदक
prosorius	Bot.	प्राक्बीजाणुधानी पुत्र, प्राक्तीरस	protactinium	Chem.	प्रोट-एक्टिनियम, प्रोटैक्टिनियम
prospect	Geol.	प्रत्याशी (खनिज) प्राप्ति	protagon	Chem.	प्रोटर्गॉन
prospect hole	Geol.	पूर्वक्षण कूपक	protalbic acid	Chem.	प्रोटैल्बिक अम्ल, प्रोटैल्बिक एसिड
prospecting	Geol.,Phy.	पूर्वक्षण	protalbinate	Chem.	प्रोटैल्बिनेट
prospecting gravimeter		पूर्वक्षण गुरुत्वमापी	protalus ramparts	Geol.	शैल मलबाग्य प्राचीर
prospective ore	Geol.	प्रत्याशी अयस्क	protamine	Chem.	प्रोटैमीन
prospective use	Math.	भावी उपयोग	protamin insulinate		प्रोटैमिन इन्सुलिनेट
prospector	Geol.,Phy.	पूर्वक्षक	<i>Protaminobacter ruber</i>	Bot	प्रोटैमीनोबैक्टर र्यूबर
prosperity	H.Sc.	समृद्धि	protandric	Bot.,Zool	पुपुर्वी
<i>Prosopodium plagioopus</i>	Bot	प्रास्पोजिउम प्लोजिओपस	protandrous		पुपुर्वी
prosporangium	Bot	प्राक्बीजाणुधानी	protandrous hermaphroditism		पुपुर्वी उभयलिंगता
prospory		प्राक्बीजाणुता	protandry		पुपुर्वता
prostal	Zool	प्रॉस्टल, प्रक्षेपिका	Protargol	Chem.	प्रोटार्गॉल
prostatia		प्रोस्टेलिया, प्रक्षेपिका	profarsus	Zool.	वमगुल्फ
prostaphlin	Chem.	प्रोस्टैप्लिन	protaspid stage	Geol.	आद्यकवच अवस्था
prostate	Zool	प्रॉस्टेट	protaspis	Geol.,Zool.	आद्यकवचो
prostate gland		प्रॉस्टेट ग्रंथि	protaxis	Geol	पुरापूर्वताक्ष
prostatic duct		प्रॉस्टेट वाहिनी	Proteaceae	Bot	प्रोटिएसी
prostatic region		प्रॉस्टेट क्षेत्र	proteaceous genera		प्रोटिएसीय वंश
prostatic vesicle		प्रॉस्टेट अणय	Proteales		प्रोटिएलीय
prostatoid	Zool.	प्रॉस्टैडाम,	protean	Geol	बहुविचरणशील
prosternum	Zool.	प्राघरक	profean stone		प्रोटिएन प्रस्तर
protheca	H.Sc.,Zool.	चिबुकपालि, प्रॉस्थीका	protease	Biol.,H.Sc.	प्रोटिएस
prosthetic group	H.Sc., Chem.	प्रॉस्थेटिक समूह	protectant		रक्षक
prosthelos	Chem.	प्रॉस्थेडॉस	protectatln	Chem. (Met)	प्रोटैक्टलिन
prosthlostomid (type)	Zool.	प्रॉस्थियोस्टोमिड (प्रकार)	protected		रक्षित
prostigmine	Chem.	प्रॉस्टिग्मीन	protected forest	Geog.	रक्षित वन
Prostoma	Zool.	प्रोस्टोमा	protected reversing thermometer	Zool.	रक्षित व्युत्क्रमी तापमापी
prostomatous ciliate	Zool	पूर्वमुखी पशुमान	protecting		रक्षी
prostomial tentacle	Zool.	पुरोमुख-स्पर्शक	protecting agent		रक्षक
prostomium	H.Sc.,Zool.	प्रोस्टोमियम, पुरोमुख	protecting glass		रक्षी काँच
prostrate	H.Sc.,Bot., Zool.	शयान	protecting pillar		रक्षी स्तम्भ
prostration	H.Sc.	श्वसन्नता	protecting reef		रक्षी भित्ति



protecting strip		रक्षी पट्टी	protective vascular tissue		रक्षी संवहन-ऊतक
protection		रक्षण, सुरक्षा	protectorate	<i>Geog.</i>	संरक्षित राज्य, प्रोटेक्टोरेट
protection against loss		हानि से रक्षण	protector tube	<i>Phy.</i>	रक्षक नलिका
protection effect		रक्षी प्रभाव	protectus	<i>Bot.</i>	सुरक्षित
protection file		रक्षण संचिका	protegelum	<i>Geol.</i>	आदिकवच, प्रोटेगेलम
protection ring		रक्षण बलय	proteid	<i>Chem., Bot.</i>	प्रोटीड
protection survey	<i>Phy.</i>	सुरक्षा सर्वेक्षण	Proteidae	<i>Zool.</i>	प्रोटीडी
protective	<i>Bot., Zool., Chem.</i>	रक्षी, संरक्षक, रक्षण	proteid content	<i>Geog.</i>	प्रोटीड अंश, प्रोभूजेय अंश
protective action		रक्षी क्रिया, रक्षक क्रिया	proteid vacuole		प्रोटीड रसधानी
protective agent		रक्षक, संरक्षी कर्मक	protein	<i>Biol., Chem., H.Sc.</i>	प्रोटीन
protective antibody		रक्षण प्रतिरक्षी	proteinaceous sac		प्रोटीनी कोप
protective barrier		रक्षण-उपरोध	proteinaceous material		प्रोटीनमय पदार्थ
protective bund		रक्षण बांध	protein anion		प्रोटीन धनायन
protective coat		रक्षी आवरण	protein depletion		प्रोटीन निर्धारण, प्रोटीन निःशेषण
protective coating		रक्षी आलेप	protein error		प्रोटीन त्रुटि
protective colloid		रक्षी कोलाइड	protein fibre		प्रोटीन तंतु
protective coloration		रक्षी रंजन	protein free milk		प्रोटीन रिक्त दूध
protective cyst		संरक्षी पुटी	protein group		प्रोटीन वर्ग
protective embankment		रक्षा-तटबंध, रक्षा बांध	protein histochemistry		प्रोटीन ऊतक रसायन
protective epithelium		रक्षी एपिथीलियम	protein intake		प्रोटीन अंतर्ग्रहण
protective factor		रक्षी गुणक	protein localization procedure		प्रोटीन स्थान निर्धारण प्रक्रिया
protective housing		रक्षी गृह	protein matrix		प्रोटीन आधाती
protective influence		रक्षी प्रभाव	protein metabolism		प्रोटीन उपापचय
protective medium		रक्षी माध्यम	protein milk		प्रोटीन दुग्ध
protective mimicry		रक्षी अनुहरण	protein nitrogen		प्रोटीन नाइट्रोजन
protective muscular cell		संरक्षी पेशीय कोशिका	proteinoid	<i>Biol.</i>	प्रोटीनॉयड, प्रोटीनाम
protective net		रक्षक जाल	protein phase		प्रोटीन प्रावल्या
protective resemblance		संरक्षी साम्य	protein phosphorus		प्रोटीन फासफोरस
protective resistance		रक्षक प्रतिरोध	protein producing plant		प्रोटीन उत्पादक पौधा
protective scale		रक्षक शल्क	protein reaction		प्रोटीन अभिक्रिया
protective stock level		संरक्षित मात्रा स्तर	protein solution		प्रोटीन घोल
protective tariff		संरक्षक टैरिफ			
protective tissue		रक्षी ऊतक			
protective value		रक्षण मान			

protein spheres		प्रोटीन गोलक	protheca	Geol	आदिप्रावरक
protenchyma	Bot	प्राक्-ऊतक	prothecium	Bot	आद्यथीमियम
Protentomidae	Zool.	प्रोटेंटोमिडी	prothetely	Zool	प्रपूर्णा
Protecephalus	Zool.	प्रोटिओसेफलस	prothidium	Chem	प्रोथिडियम
Proteolepas	Zool.	प्रोटीयोनीपस	prothoracic bristle	Zool	अग्रवक्षीय शूक
proteolipide	Chem.	प्रोटोनीलिपिड	prothoracic ganglion		अग्रवक्षीय गुच्छिका
proteolysis	Biol ,H Sc , Chem	प्रोटोलीसिस, प्रोटीनअपघटन	prothoracic gland		अग्रवक्षीय ग्रंथि
proteolytic		प्रोटीन अपघटक, प्रोटोलीसिस	prothoracic scutum		अग्रवक्षीय प्रशल्क
proteolytic enzyme		प्रोटोलीसिस एन्जाइम, प्रोटीन अपघटक एन्जाइम	prothoracic spiracle		अग्रवक्षीय श्वासरंध्र
Proteomyxa	Zool	प्रोटोमिक्सा	prothoracotheca	Zool	अग्रवक्षीय आवरण
protease	Biol ,H Sc.	प्रोटियोज	prothorax	Zool ,H Sc	अग्रवक्ष
proterandrous	Bot ,Zool	पुरुषी	prothrombin	Zool ,H Sc	प्रोट्रोम्बिन
proterandry		पुरुषता	Prothylachnas	Zool	प्रोथिलेकनास
protergite	Zool	अग्रपृष्ठकाश	prolinase	H Sc ,Zool	प्रोलीनेस
protergum	Zool	अग्रपृष्ठक	Protinoctiluca	Zool	प्रोटिनोक्टीलुका
proterobase	Geol	प्रोटोरोबेस	protist	Zool.	प्रजीव
proterocladous	Bot	अल्पवर्धित शाखी	protista	Bot	प्रोटिस्टा, आद्यजीव
proterogenesis	Geol	पूर्वविकास, प्रोटोरोजेनेसिस	protistology	Zool	प्रजीवविज्ञान
proteroglypha	Zool.	प्रोटोरोग्लिफा (अग्रविषयवर्ती)	protistplankton	Zool	प्रप्लवक
proterogynous	Bot.	स्त्रीपूर्वी	Protium serratum		प्रोशियम सेरेटम
proterogyny		स्त्रीपूर्वता	Prot method	Chem (Met)	प्रॉट मेथि
Proteromonas	Zool.	प्रोटोरोमोनास	protoactinide	Phy	प्रोटोएक्टिनाइड
Proteromonas lacerti		प्रोटोरोमोनास लैसर्टाई	protoactinium	Phy.	प्रोटोएक्टिनियम
Proterospongia	Zool.	प्रोटोरोस्पंजिया	protoaecium	Bot.	आद्यईशियम (protoaecidium)
Proterotheriidae	Zool	प्रोटोरोथेरीडी	protoanemonin	Chem	प्रोटोएनिमोनिन
proterotype	Bot.	प्राथमिक प्ररूप	proto-apertural side	Geol	आद्यमुखी पार्श्व
Proterozoic Era	Geol ,Zool	प्राग्जीव महाकल्प, प्रोटोरोजोइक महाकल्प	protobasidium	Bot	आद्यबेसिडियम
Proteus	Zool.	प्रोटियस	protobasute	Geol	प्रोटोबेस्यूट
Proteus vulgaris		प्रोटियस वर्गारिस	Protobatrachus	Zool	प्रोटोबैट्रैकस
prothallium	Bot	प्रोथैलियम	protobiology	Zool	आदिजीवविज्ञान
prothallus	Bot	प्रोथैलस	protobiont	Zool	आदिजीव
			protobios	Zool.	प्रोटोबायोज, आदिजीवशास्त्र
			protoblast	Zool.	आद्यकोरक
			protoblem	Bot	प्रारंभ
			protobothroid valve	Geol	आदिप्रावरक क्वाट

protobranch	Zool.	आद्यक्लोमी	protodeacylation	Chem.	प्रोटो विएसिलन, प्रोटॉन विएसिलन
Protobranchiata	Zool.	प्रोटोब्रैकिएटा	protodealkylation		प्रोटो विएल्कलीकरण, प्रोटॉन विएल्कली- करण
protocalamites	Bot.	प्रोटोकैलेमाइटीज	protodeboronation	Chem.	प्रोटोविबोरोनन
protocephalic	Zool.	आदिशिरस्य, प्राक्शिरस्य	protodecarboxylation		प्रोटोविकाबोक्सिलन, प्रोटॉन विकाबोक्सिलन
protocephalon	Zool.	आद्यशीर्ष	protodegermylation	Chem.	प्रोटोविजमॅनिलन
protocephalozia	Bot.	प्रोटोसिफेलोसिया	protodehalogenation	Chem.	प्रोटो विहैलोजनीकरण, प्रोटॉनविहैलोजनी- करण
Protoceratops	Bot.	प्रोटोसिरैटॉप्स	protodemercuration	Chem.	प्रोटो विपारदन, प्रोटॉन विपारदन
protocercal tail	Zool.	आद्यपालि पुच्छ	protodeplumbylation		प्रोटोविप्लम्बिलन
protocerebral region	Zool.	आद्यप्रमस्तिष्क क्षेत्र	protoderm	Bot.	अधित्वक
protocerebral segment		आद्यप्रमस्तिष्क खंड	protodesilylation	Chem.	प्रोटोविसिलिलन
protocerebrum	Zool.	आद्यप्रमस्तिष्क	protodestannylation	Chem.	प्रोटोविस्टेनिलन
Protocetidae		प्रोटोसीटाइडी	protodesulphonation		प्रोटो विसल्फोनेटन, प्रोटॉन विसल्फोनेटन
Protocefus	Zool.	प्रोटोसीटस	Protodonata	Geol.	प्रोटोडोनेटा
protoclamydospore	Bot.	प्राक्क्लैमिडोबीजाणु	protodont valve	Geol.	आदिदंती कपाट
protochlorophyll	Bot.	प्रोटोक्लोरोफिल	Protodrillus	Zool.	प्रोटोड्राइलस
protochondral plate	Zool.	प्रोटोकॉर्डल प्लेट, प्राग्रज्जु पट्टिका	protoenstatite	Geol.	प्रोटोएन्स्टेटाइट
Protociliata	Zool.	प्रोटोसिलिएटा	<i>Protogaster rhizophilus</i>	Bot.	प्रोटोगैस्टर राइजोफिलस
Protociliatia	Zool.	प्रोटोसिलिएशिया	Protogastraceae		प्रोटोगैस्ट्रेसी
protoclase	Geol.	आदिविदल	Protogastrales		प्रोटोगैस्ट्रलीज
protoclastic	Geol.	आदि खंडज	protogen	Zool.	प्रोटोजन
protoclastic structure		आदिखंडज संरचना	protogene		प्रोटोजिन
protocneme	Zool.	मूलपट	protogenetic	Geol.	आद्यजनिक
protocoelae	Zool.	आद्यगुहा	rotogenic	Geol.,Phy.	1. प्रोटान दाता 2. आद्यजनिक
protocoelomic sac		आद्यगुहा कोष	protogenic groove		आद्यजनिक खांच
protoconch	Geol., Zool.	आद्यशंखनामि प्राक्शंख	protogenic teeth		आद्यजनिक दंत
protocone		आद्य मध्यशंकु	protogenic teethplate		आद्यजनिक दंतपट्टिका
protoconid	Zool.	आदिवंताग्र	protogenous	Geol.	आद्यजात
protoconidium	Bot.	प्राक्कोनिडियम	Protoglossus	Zool.	प्रोटोग्लोसस
protoconule	Zool.	अग्रमध्यशंकु	<i>Protoglossus kohaleri</i>		प्रोटोग्लोसस कोहलेरी
protocorm	Bot.	आदिघनकंद, प्रोटोकॉर्म	protoglucal		प्रोटोग्लूकल
protocormic	Zool.	आदिकांड			
protocormic segment		आदिकांड खंड			
protocormous rhizome	Bot.	आदिघनकंदीय प्रकंद			
protocrocetin	Bot.	प्रोटोकरोसेटिन			
Protocystis	Geol.	प्रोटोसिस्टिस			

protogonia	Zool.	प्रकोण	proton acceptor		प्रोटॉन ग्राही
protogonidium	Bot.	प्राक्गोनिडियम	protonated double bond		प्रोटॉनित युग्म आवन्ध
protogonist	Geog.	समर्थक	protonation	Chem.	प्रोटॉनीकरण, प्रोटॉनन
protogynous	Bot., Zool.	स्त्रीपूर्वी	proton defect conductor		प्रोटॉन दोष चालन
protogyny		स्त्रीपूर्वता	proton disintegration		प्रोटॉन विघटन
Prothippus	Zool	प्रोटोहिप्पम	proto donor		प्रोटॉन दाता
proto-human form	Geog	आद्य मानव आकृति	protonema	Bot	प्रथम तंतु
Protohydra	Zool.	प्रोटोहाइड्रा	protonemal leaves		प्रथम तंतुक पर्ण
<i>Protohydra leuckartii</i>		प्रोटोहाइड्रा ल्यूकटियाई	protonematic cell		प्रथम तंतुक कोशिका
protohymenium	Bot	आद्यहाइमीनियम	protonematic stage		प्रथम तंतुक अवस्था
protolac process	Chem.	प्रोटोलेक प्रक्रम	protonephridial	Zool	आदिवृक्ककी
Protolepidodendron	Bot.	प्रोटोलेपिडोडेन्ड्रॉन	protonephridial canal		आदिवृक्कक नाल
protolichestic acid	Chem.	प्रोटोनिक्सेस्टरिक अम्ल	protonephridial duct		आदिवृक्कक वाहिनी
protoloma	Zool	प्रोपान्त	protonephridial tubule		आदिवृक्कक नलिका
protoloph	Zool.	प्रशिखर	protonephridium		आदिवृक्ककी
protolysis	Chem	प्रोटॉन अपघटन, प्रोटो- अपघटन, प्रोटोपघटन	protonephromixium	Zool.	आदिवृक्ककमिश्र
protolytic		प्रोटोपघटनी, प्रोटोपघनी	protonic solvent	Chem.	प्रोटॉनी विलायक
protolytic reaction		प्रोटो अपघटनी क्रिया, प्रोटॉन अपघटनी अभिक्रिया, प्रोटोक्रिटी अभिक्रिया	protonium ion	Chem.	प्रोटोमिनियम आयन
proto magma	Geol	आद्यभग्मा	proton linear accelerator		प्रोटॉन रेखिक त्वरित्र
protomammal	Zool.	प्रथस्तनी	proton microscope		प्रोटॉन सूक्ष्मदर्शी
Protomecoptera	Zool.	प्रोटोमेकोप्टेरा	proton neutron exchange		प्रोटॉन न्यूट्रॉन विनिमय
protomerite	Zool.	प्रोटोमेराइट, पूर्वांशक	Protonocilucidae	Zool.	प्रोटोनोंकिल्युमिडी
protomite	Zool.	प्रोटोमाइट	proton-proton reaction		प्रोटॉन-प्रोटॉन प्रतिक्रिया
protomitosis	Zool	प्रमूत्रीविभाजन, प्रथममूत्रण	proton-proton well		प्रोटॉन-प्रोटॉन वूप
protomonad	Zool	प्रोटोमोनड	proton range		प्रोटॉन परास
Protomonardina	Zool, H.Sc.	प्रोटोमोनाडाइना	proton recoil detector		प्रोटॉन प्रतिकोप समूचक
protomonte	Zool	प्रोटोमॉन्टे (प्रोटोमॉन्ट)	proton recoil proportional counter		प्रोटॉन प्रतिकोप अनुपाती गणित
protomorphic races	Geog.	आदिम जानियाँ	proton resonance		प्रोटॉन अनुनाद
<i>Protomyces unundatus</i>	Bot.	प्रोटोमाइसीज इन्डेटस	proton resonance technique		प्रोटॉन अनुनादी तकनीक
Protomycetales	Bot.	प्रोटोमाइमिटेलीज	proton richer		अधिक प्रोटॉनी
protomylonite	Geol.	प्रोटोमाइलोनाइट	proton scattering		प्रोटॉन प्रकीर्णन
proton	Chem, Phy.	प्रोटोन	proton synchrotron		प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन

proton threshold		प्रोटॉनो देहली	<i>Protopterus</i>	प्रोटोप्टेरस
protonymph	Zool.	प्रथमान्नक	<i>amphibius</i>	एम्फ्रीवियस
Protoopalina	Zool.	प्रोटोओपेलाइना	protoptile	Zool. प्रोटोप्टाइल, प्रशावपिच्छ
proto-ostracod	Geol.	आदि ऑस्ट्रेकोड	protoquartzite	Geol. प्रोटोक्वार्ट्जाइट
protoparaffin	Chem. (Pet.)	प्रोटोपैराफिन	protoquartzitic sand	प्रोटोक्वार्ट् ज़ाईटी वानू
protopectin		प्रोटोपेक्टिन	protore	Geol. आद्यअयस्क
protoperithecium	Bot.	प्राक्पेरीथीसियम	protorhabd	Zool. प्रोटोरैब्ड, आदि- तीक्ष्णका
protopheophytin	Bot.	प्रोटोफिओफाइटिन	Protosalvinia	Bot. प्रोटोसैल्वीनिआ
protophloem	Bot.	प्राक्फ्लोवाह, प्राक्फ्लोएम	protosatellite	Math. प्राग्पग्रह
protophylic		प्रोटॉनग्राही	protoscolex	Zool., Geol. आदिमूर्ध
protophyll	Bot.	आदिपर्ण, प्रोटोफिल्ल	Protoselachii	Zool. प्रोटोसैलैकाइ
Protophyta	Bot.	प्रोटोफाइट्टा	protoseptum	Zool. आदिपट
protoplanet	Math.	प्राग्ग्रह	protosinomenine	Chem. प्रोटोसिनॉमनीन
protoplanktologist	Zool.	आदिप्लवकविज्ञ	<i>Protosiphon</i>	Bot. प्रोटोसाइफॉन
protoplankton		आदिप्लवक	<i>botryoides</i>	वोट्रांइडोइज
protoplasm	Geol., Biol., H.Sc.	जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म	Protospondyli	Zool. प्रोटोस्पॉन्डाइली
protoplasmic		जीवद्रव्यी	protospore	Biol. प्राक्बीजाणु
protoplasmic colloid		जीवद्रव्य कोलॉइड	protosporophore	प्राक्बीजाणुधर
protoplasmic respiration		जीवद्रव्यी श्वसन	protostephanine	Chem. प्रोटोस्टिफेनीन
protoplasmic strand		जीवद्रव्यी रज्जुक	protosteale	Bot. टोसरंभ
protoplasmic streaming		जीवद्रव्यी प्रवाह	portostelic	टोसरंभी
protoplasmic synthesis		जीवद्रव्यी संश्लेषण	protostelic twig	टोसरंभी टहनी
protoplasmodium	Bot.	प्राक्प्लैज्मोडियम	protosterigma	Bot. प्राक् प्रांगुल
protoplast	Bot., Zool.	जीवद्रव्यक, प्रोटोप्लास्ट	protosternous	Zool. प्रोटोस्टर्नस, आद्याधरक
protoplastid	Bot.	प्रोटोप्लास्टिड	protosternum	आद्याधरक
protopod	Zool.	आद्यपाद	protostom	Bot. रंध्राग्री
protopodite	Zool., Geol.	आदिपादांश, प्रोटोपोडाइट	protostoma	Zool. आद्यमुख
protopod larva		आद्यपाद डिम्बक	prototaxites	Bot. प्रोटोटैक्सटाइटीज
protopod phase		आद्यपाद प्रावस्था	prototectites	Geol. प्रोटोटैक्टाइट्स
protopore	Geol.	आद्यरंध्र	prototergite	Zool. प्रपृष्ठकांश
protoporphyrin	Chem.	प्रोटोपोर्फ़ीरिन	protothallus	Bot. प्राक्थैलस, प्रोटोथैलस
protopterid	Bot.	प्रोटोप्टेरिड	Protothieria	Zool. प्रोटोथीरिया
Protopterus	Zool.	प्रोटोप्टेरस	prototroch	Zool. आदिचक्र
<i>Protopterus</i>		प्रोटोप्टेरस	prototrochal	आदिचक्री
<i>aethiopicus</i>		एथियोपीकस	prototroph	Biol. प्रपोषित, सर्वसंश्लेषी
			prototrophic	सर्वसंश्लेषी

prototrophy	<i>Biol.</i>	सर्वसश्लेषिता	protractor impression	अपाकुचक चिह्न
prototropic shift	<i>Chem.</i>	प्रोटोनी सृति	protractor lentis	लेन्स अपाकुचक
prototropy	<i>Chem.</i>	प्रोटोड्रोफी, प्रोटोमोची	protractor muscle	अपाकुचक पेशी
prototype		आदिरूप	protractor onchii	ऑन्कस अपाकुचक
prototype instrument		आदिरूप उपकरण	protractor spiculi	बटिका अपाकुचक
prototype metre		आदिरूप मीटर	Protremata	<i>Geol.</i> प्रोट्रिमेटा
prototype model		आदिरूप निदर्श	protriaene	<i>Zool., Geol.</i> प्रोट्राईन, उत्त्रिकटिका
prototype number		आदिरूप सख्या	prottrichocyst	<i>Zool.</i> प्रोट्राइकोसिस्ट, पूर्वदशिकाभक
Protoungulata	<i>Zool.</i>	प्रोटोअंगुलेटा	prottrichocyst granule	पूर्वदशिकाभक कणिका
protoungulate	<i>Zool.</i>	प्राक्खुरीय	protrusible tongue	<i>Zool.</i> बहि सररी जिह्वा
protouredium	<i>Bot.</i>	प्राक्पूरीदियम	protrusion	<i>Geol., Geog.</i> बहि सरण
protoveratrine	<i>Chem.</i>	प्रोटोवेरट्रीन	protubera	<i>Bot.</i> प्रोट्यूबरा
protovertebra	<i>Zool.</i>	आद्यकशेरुक	protuberance	<i>Geol.</i> प्रोट्यूब्रेंस
protoxide	<i>Geol.</i>	प्रोटॉक्साइड	protuberant	प्रोट्यूब्रॉ
protoxylary canal	<i>Bot.</i>	आदिदाकनाल	Protura	<i>Zool.</i> प्रोटूरा
protoxylem		आदिदाक	proturan	<i>Zool.</i> आरिपुच्छ
Protozoa	<i>Geol., Zool., H. Sc.</i>	प्रोटोझोआ	protyle	<i>Chem.</i> प्रोटारल
protozoacide	<i>Zool.</i>	प्रोटोझोआनाशी, आदिजन्तुनाशी	proustite	<i>Chem.</i> प्रुस्टाइट, प्राउस्टाइट
protozoal exotoxin	<i>Zool.</i>	आदिजन्तुक बहि आदिष	prout	<i>Chem.</i> प्राउट
protozoan		प्रोटोझोअम, आदिजन्तु	prouterus	<i>Zool.</i> प्रगर्भाणय
protozoan association		प्रॉन्टोझोआयी सहवाम, आदिजन्तु सहवाम	Prout hypothesis	प्राउट परिकल्पना
protozoan culture		प्रोटोझोअन सवर्ध, आदिजन्तु सवर्ध	provascular bundle	<i>Bot.</i> प्राक् सवहन पूल
protozoa stage	<i>Zool.</i>	प्रोटोझोइया अवस्था, आदिजन्तुइया अवस्था	provascular meristem	प्राक् सवहन विभज्योतक
Protozoic (period)	<i>Geol.</i>	आदिजीवी	provascular strand	प्राक्सवहनी सपूल
protozoologist	<i>Zool.</i>	आदिजन्तुविज्ञानी, प्रोटोझोआविज्ञानी	provascular tissue	प्राक्सवहन ऊतक
protozoology		आदिजन्तुविज्ञान, प्रोटोझोआनीजी	proved reserve	<i>Geol.</i> प्रमाणित निचय
protracted labour	<i>H.Sc.</i>	अनिदीर्घ प्रसव	provenance	<i>Bot., Geog., Geol.</i> उद्गम क्षेत्र, जनक क्षेत्र
protractile	<i>Zool.</i>	अपाकुचनशील	provenance factor	उद्गमो कारक
protraction	<i>Phy.</i>	कालव्याधोप	provenance index	उद्गममाक
protractor	<i>Geog., Zool.</i>	कोणमापक, प्रोट्रेक्टर, चाँदा अपाकुचक	provender	<i>H.Sc.</i> प्रोवेंडर
protractor gubernaculi		अप्रित अपाकुचक	proven territory	<i>Geol.</i> प्रमाणित क्षेत्र
			proventriculus	<i>Zool.</i> अशिनबडर
			provident fund	<i>H.Sc.</i> अशिव्य निधि
			provincial alternation	<i>Geol.</i> क्षेत्रीय एकान्तरण
			provincial capital	<i>Geog.</i> प्रांतीय राजधानी
			provincial city	प्रांतीय शहर

provincial succession	<i>Geol.</i>	क्षेत्रीय अनुक्रम	Prozeuglodon	<i>Zool.</i>	प्रोज्यूलोडॉन
provinculum	<i>Geol.</i>	वादि बहुदती हिन्ज	prozone	<i>Bot.</i>	प्रोजोन
proving	<i>Geog.</i>	प्रूक निकालना	pruinose		मोमी
provirus	<i>Biol.</i>	प्राग्वाइरस	prunasin	<i>Chem.</i>	प्रूनसिन
provisional assess- ment		अनंतिम निर्धारण	prunella	<i>H.Sc.</i>	प्रूनेला
provisional edition	<i>Geog.</i>	अस्थायी संस्करण	prunelle	<i>H.Sc.</i>	प्रूनल
provisional estimates	<i>H.Sc.</i>	अनंतिम प्राक्कलन	prunello	<i>H.Sc.</i>	प्रूनेलो
provisional index number	<i>Math.</i>	अनंतिम सूचकांक	pruniferous	<i>Bot.</i>	प्रूनघर
provisional seta	<i>Zool.</i>	अस्थायी शूक	pruning	<i>H.Sc.</i>	काट छांट (पौधों की)
provisions	<i>H.Sc.</i>	1. उपलब्ध, व्यवस्था 2. सामग्री	pruning hook	<i>Zool.</i>	कृन्तनांकुश
proviso		शर्त	Prunoidae	<i>Bot.</i>	प्रूनॉइडी
provitamin	<i>H.Sc., Zool.</i>	प्राक्विटामिन, प्रोविटामिन	prunoid skeleton	<i>Geol.</i>	प्रूनॉयड कंकाल
provitrain	<i>Geol.</i>	प्रोविट्रेन	prunoid type		प्रूनॉयड प्ररूप
provomerine tooth	<i>Zool.</i>	प्राक्मोरीनका दंत	Prunus	<i>Bot., Geog.</i>	प्रूनस
provw	<i>Geog.</i>	पोताग्र	<i>Prunus amygdalus</i>		प्रूनस एमिगडेलस (बादाम)
prowersite	<i>Geol.</i>	प्रोवरसाइट	<i>Prunus armeniaca</i>		प्रूनस आरमी- निआका
prowersose	<i>Geol.</i>	प्रोवरसोज	<i>Prunus avium</i>		प्रूनस एवियम
proress		जोर्य	<i>Prunus persica</i>		प्रूनस पर्सिका (आड़ू)
proximad	<i>Bot.</i>	सन्निकट	pruriens	<i>Bot.</i>	खुजलीकारी
proximal	<i>Math., Biol.</i>	समीपस्थ, निकटस्थ	prussian binding	<i>H.Sc.</i>	प्रशियन बाईंडिंग
proximate analysis	<i>Chem., Geol.</i>	निकट विश्लेषण, षटक वर्ग विश्लेषण	prussian blue		प्रशियन ब्लू
proximate relation		निकट सम्बन्ध	prussian shawl		प्रशियन शाल
proximity axiom	<i>Math., Phy.</i>	सामीप्य अभिवृत्ति	prussian velvet		प्रशियन मखमल
proximity detector		सामीप्य संसूचक	prussic acid		प्रूसिक अम्ल, प्रूसिक ऐसिड
proximity dimension		सामीप्य विमा	prutik	<i>H.Sc.</i>	प्रूटिक
proximity effect		सामीप्य प्रभाव, सन्निकट प्रभाव	pry knife	<i>Geog.</i>	अन्तरोक्षक चाकू
proximity meter		सामीप्य मापी	psalterium	<i>Zool.</i>	सात्टेरियम
proximity theorem		सामीप्य प्रमेय	psamathophilous	<i>Bot.</i>	समृद्रतटरागी
proximo		वागामी मात्र का	psammite	<i>Geol.</i>	वालुकाम
proximoceptor	<i>Zool.</i>	समीपग्राही	psammitic		वालुकीय
proxy-mineral	<i>Geol.</i>	प्रॉक्सी खनिज, प्रतिता खनिज	psammitic gneiss		वालुकीय नाइस
			psammite schist		वालुकीय शिस्ट
			psammo	<i>Geog.</i>	सॅमो (वालू)
			Psammoclema	<i>Zool.</i>	सॅमोक्लेमा
			psammogenic dune	<i>Geol.</i>	वालुकृत टिब्बा

psammolittoral	Bot., Zool.	बालुकाबेलाचनी	pseudoangiocarpic	Bot	आभासी आवृत्त हाइमोनियमी
psammon	Bot.	बालुकावासी	pseudoangiocarpy		आभासी आवृत्तहाइमो- नियमता
psammophiles		बालुकारागी पादप	pseudoanalytic function	Math.	छद्म विरलेपिक फलन
psammophilous		बालुकारागी	pseudoanticline	Geol.	कूट अपनति
psammophore	Zool.	बालुकावाही	pseudoarea	Math.	छद्म क्षेत्र
psammophyte	Bot.	बालुकोद्भिद्	pseudo-archaefaxis	Geol	आभासी आर्चेफैक्सिस
psammosere	Bot	बालुकीय क्रमक	pseudo-asymmetric		स्यूडो असममित, छद्म असममित
psaroniaceae tree fern	Bot.	सैरोनिफ्सीय वृक्ष पर्णाय	psuedo-atoll	Geol	कूट अडल, कूटअवान द्वीप वलय
psaronieae	Bot	सैरोनिई	pseudoaxial bond	Chem	छद्म-अक्षीय बाबन्ध
psaronius		सैरोनियस	pseudo-axillary	Bot	कूटक्षीय
Pschorr synthesis	Chem.	शॉर संश्लेषण	pseudo-axis	Bot	आभासी अक्ष
psephicity	Geol	गोलकता	pseudobasidium	Bot.	आभासी बेसिडियम
psephite	Geol	गुटिकाश्म	pseudo-bedding	Geol.	कूट सम्तरण
psephitic		गुटिकाश्मी	pseudo berry	Bot.	कूटबेरी, कूट सरमदन
psephitic gneiss		गुटिकाश्मी नाइस	pseudobinary	Chem	छद्म द्विअगी
Psephurus	Zool	सेपयूरस	pseudo binary system		छद्म द्विअगी तंत्र
Psetta	Zool	सेट्टा	pseudobocca	Geol.	कूट रंधिका
pseudaelurus	Zool	स्यूडीलुरस	pseudoboleite	Geol.	स्यूडोबोलाइट
pseudanthium theory	Bot	कूट पुष्प वाद	Pseudobonellia	Zool.	स्यूडोबोनेलिया
<i>Pseudantropius parva</i>	Zool.	स्यूडूट्रोपियस गरुडा (बाबा)	pseudobranch	Zool.	कूटश्लोम
pseudimago	Zool	कूट पूर्णक	Pseudobranchia		स्यूडोब्रंचिया (कूटश्लोम)
<i>Pseudis paradoxa</i>	Zool	स्यूडिस पैराडोक्सस	Pseudobranchus	Zool	स्यूडोब्रंचस
pseudoacervulus	Bot.	आभासी एमरबुलस	pseudobreccia	Geol	कूटसकोपाश्म
pseudoacid		छद्म-अम्ल, छद्म ऐमिड, आभासी अम्ल, आभासी ऐमिड	pseudobrookite	Geol.	स्यूडोब्रूकाइट
pseudoacrorhagus	Zool	कूटशिखरगुच्छ	pseudobulb	Bot., Zool.	आभासी शल्ककन्द कूटकन्द
pseudoadiabat	Phy.	छद्म एडिपाबेट	pseudocannel	Geol.	कूटकैनल
pseudo-adiabatic	Geog	छद्म एडिपाबेटिक, कूटोष्म आभासी	pseudo-capacitance	Chem.	छद्म धारिता
pseudoaethalium	Bot.	आभासी एथैलियम	pseudocapillitium	Bot.	आभासी कैपिलियम, आभासी तंतुजाल
pseudoallele	Zool	कूटविकल्पी (कूटयुग्मविकल्पी)	pseudocarp	Bot.	आभासी फलिका
pseudoallelism		कूटविकल्पना (कूटयुग्मविकल्पना)	Pseudocarpel	Bot.	आभासी अण्डप
pseudoalum		छद्म पिटकरी	pseudo catkin	Bot.	कूट कैटकिन
pseudo-anaboly	Geol.	आभासी ऐनाबोली	pseudocelli	Zool.	कूटनेत्रक



pseudocellulose	Bot.	स्यूडोसेलुलोज	pseudocrystal	Geol., Phy.	छद्मक्रिस्टल, आभासी क्रिस्टल
pseudocentrous	Zool.	कूटकशेदककायी	pseudocrystalline		छद्मक्रिस्टली, क्रिस्टनाभासी
pseudochamber	Geol.	कूटकक्ष	pseudocumene		छद्मक्यूमीन, आभासी-क्यूमीन
Pseudochelirus	Zool.	स्यूडोकेलिरस	pseudo-cuticula	Zool.	कूटोपचर्म
pseudochitin	Zool., Geol.	कूटकाइटिन	pseudocycas	Bot.	स्यूडोसाइकस
pseudochitinous		कूटकाइटिनीय	pseudocypbella	Bot.	आभासी लघुकोटरी
pseudochitinous lorica		कूटकाइटिनी शौरिका	pseudocypbellate		आभासी लघुकोटरी
pseudochitinous secretion		कूटकाइटिनी त्राव	pseudocyst	Zool.	कूटपुटी
pseudochrysalis	Zool.	कूटकोशस्य	pseudocystidium	Bot.	आभासी सिस्टिडियम
pseudocilia	Bot.	आभासी पश्माभ	pseudodeltidium	Geol.	कूटत्रिकोणिका
pseudo cirque	Geog.	स्यूडोसर्क	pseudodemand function	Math.	छद्मांग फलन
pseudocode	Math.	छद्म कूट	pseudo dendritic texture	Geol.	दुभाभ गठन
pseudocoel	Zool.	कूटगुहा, कूटप्रगुहा	pseudo density	Chem.	छद्म घनत्व
pseudocoelic cavity		कूटगृह गुहा	pseudoderm	Zool.	कूटचर्म
pseudocoelocyte	Zool.	कूटगृहाणु	pseudo-deviation	Geol.	आभासी विचलन
pseudocoelomate	Zool.	कूटकोलीमा, कूटगृहिक	pseudodominance	Biol.	आभासी प्रभाविता
pseudocoelome	Bot.	आभासी देहगुहा	pseudodont	Zool.	कूटदन्त
pseudocoelomic membrane		कूटगृहिक-कला	pseudoelater mother cell	Bot.	आभासी इलेटर मातृ कोशिका
pseudocolloidal property	Chem. (Nucl.)	छद्म कोलॉइडी गुणधर्म	pseudoembryo	Bot.	आभासी भ्रूण
pseudo-colony	Zool.	कूटनिवह	pseudo embryosac		आभासी भ्रूणकोश
pseudocolpus		कूट विदरकी	pseudoeuclidean line element	Math.	छद्म युक्लिडीय रेखा तत्व
pseudocolumella	Zool.	आभासी स्तम्भिका	pseudoexospore		आभासी बहिष्कोश
<i>Pseudocolus javanicus</i>	Bot.	स्यूडोकोलस जेवैनिकस	pseudoexponent	Math.	छद्म घातांक
pseudo compact	Math.	छद्म संहत	pseudofaeces	Zool.	कूटविष्ठा
pseudocone eye	Zool.	कूटशंकु नेत्र	pseudofilament		आभासी तंतु
pseudoconidium	Bot.	आभासी कोनिडियम	pseudoform	Phy.	छद्म रूप, आभासी रूप
pseudoconjugation	Zool.	कूटसंयुग्मन	pseudofossil	Geol.	कूटजीवाश्म
pseudocopulation	Bot.	कूटसंयुग्मन	pseudofragment	Geol.	छंटाभासी
pseudocortex	Bot.	आभासी बल्बुद	pseudofrenulum	Zool.	कूटप्रग्रह
pseudocostate	Bot.	कूटविराल	pseudo-frequency-distribution	Math.	आभासी आरंभारता वंटन
Pseudocrinus	Geol.	स्यूडोक्रिनस	pseudogalothia	Geol.	स्यूडोगैलोथिया
pseudocross lamination	Geol.	आभासी शंख स्तरिकाविन्यास	pseudogame	Math.	स्यूडोगैमाभासी खेल

pseudogamous	<i>Biol</i>	आभासी युग्मनी	pseudojadeite	<i>Geol.</i>	कूटजेडाइट
pseudogamy		आभासी युग्मन	pseudo jute	<i>H Sc.</i>	स्यूडोजूट
pseudogaster	<i>Zool</i>	कूटजठर	pseudokeratin	<i>Chem</i> ( <i>Leather</i> ) <i>Zool.</i>	छद्य केराटिन, कूटकेराटिन
pseudogastrula	<i>Zool.</i>	कूटगैस्ट्रुला, कूटकन्दुक	pseudolabia	<i>Bot.</i>	आभासी ओष्ठ
pseudogiant	<i>Math.</i>	छद्म दानव	pseudo-labyrinthic	<i>Geol.</i>	कूट लैबिरिथी
pseudoglaucophane	<i>Geol.</i>	स्यूडोग्लाकोफेन	Pseudolamelli-branchiata	<i>Zool</i>	स्यूडोलेमेलीब्रैकिएटा
Pseudoglyphea	<i>Geol.</i>	स्यूडोग्लाइफिया	pseudolateral	<i>Bot</i>	कूट पार्श्वक
pseudogneissose	<i>Geol.</i>	कूटनाइसी, छद्मनाइसी	pseudoleucite	<i>Geol</i>	कूटल्यूमाइट
pseudo graphitic shirt		छद्म ग्रेफाइटो पट	pseudomalachite		कूटमैलेकाइट
pseudo-gravitational field	<i>Phy.</i>	गुहत्वकल्प क्षेत्र	pseudomanubrium	<i>Zool</i>	कूटहस्तक
pseudogyne	<i>Zool</i>	कूटजाया	Pseudomelania	<i>Geol.</i>	स्यूडोमेलैनिया
pseudohaemal system	<i>Zool.</i>	कूटरधिर तंत्र	<i>Pseudomelania heddingtonensis</i>	<i>Chem</i> , <i>Geol</i>	स्यूडोमेलैनिया हेडिंग्टोनेन्सिस
pseudo-halogen		आभासी हैलोजन	pseudomembranelle	<i>Zool.</i>	कूटक्लाम
pseudohalteres	<i>Zool.</i>	कूटसतोलक	pseudomenorrhoea	<i>H Sc.</i>	प्रच्छन्नार्वव, प्रच्छन्न ऋतुस्राव
pseudohapfor	<i>Zool.</i>	कूटस्थापक	pseudomerism		आभासी समावयवता, छद्म समावयवता
pseudohead	<i>Bot.</i>	कूटमुखक	pseudomesarch	<i>Bot</i>	कूट मध्यादिदारक
pseudo-heart	<i>Zool.</i>	कूटहृदय	pseudometal		छद्म धातु आभासी धातु
pseudohermaphroditism		आभासी उभयलिंगता	pseudometallic	<i>Chem.</i>	छद्म धातुक
pseudohexagonal cell	<i>Phy.</i>	छद्म षट्कोणीय कोष्ठिका	pseudometamerism	<i>Zool.</i>	कूटविच्छेदावस्था, कूटविच्छेदता
pseudohomotypic division	<i>Bot.</i>	आभासी समविभाजन	pseudometric	<i>Math.</i>	छद्मदूरीक
pseudohormocyst		आभासी पुटिकावनि	pseudometric space		छद्मदूरीक समष्टि
pseudohormogonium	<i>Bot.</i>	कूट होर्मोगोनियम	pseudometrizable space		छद्मदूरीकनीय समष्टि
pseudo-host	<i>Zool</i>	कूटभोपी	pseudomixis	<i>Bot.</i>	आभासी जनन
pseudohymcnium	<i>Bot</i>	आभासी हाइमोनियम	pseudo-molecule	<i>Phy., Chem.</i>	छद्म अणु
Pseudohy menochbirus	<i>Zool.</i>	स्यूडोहाइमेनोकाइरस	pseudomolecular reaction		छद्म आणविक अभिक्रिया
pseudohypha	<i>Bot.</i>	आभासी कवकतंतु	pseudomonad	<i>Bot.</i>	स्यूडोमोनेड, आभासी एंकिना
pseudo-ideal		छद्म आदर्श	<i>Pseudomonas acerts</i>	<i>Bot.</i>	स्यूडोमोनास एसेरिस
pseudoidium	<i>Bot</i>	आभासी आइडियम	<i>pseudomonas radicola</i>		स्यूडोमोनास रेडिकोला
pseudoigneous	<i>Geol</i>	आभासी अग्नेय			
pseudo-alluvial deposit	<i>Geog.</i>	स्यूडो अल्लुविय निर्देश			
pseudoisaboor		स्यूडोइसन्नूर			
pseudo-isometric projection	<i>Geog.</i>	आभासी त्रिपल्लवाश प्रक्षेप			

<i>Pseudomonas saccharophila</i>	Chem.	स्यूडामोनास सैकैरोफ़िला	pseudoperianth	Bot.	स्यूडोपेरिएन्थ, कूटसहपत्रपुंज
pseudo-monocotyledonous	Bot.	आभासी एकबीजपत्री	pseudoperidium	Bot.	आभासी कवकफलभित्ति
pseudomonocyclic	Zool.	कूटकचक्रीय	pseudoperithecium		आभासी पेरीथीसियम
pseudomonopodium	Bot.	कूटकशाखिता	<i>Pseudopeziza trifolii</i>	Bot.	स्यूडोपेज़ाइज़ा ट्राइफोलिआइ
pseudomorphic	Chem.	छद्म रूपिक	pseudophenocryst	Geol.	आभासी लक्ष्यक्रिस्टल
pseudomorphism		कूटरूपिता	pseudophore	Bot.	आभासी वृत्तक
pseudomycelium		आभासी कवकजाल	Pseudophyllidea	Zool.	स्यूडोफ़िलीडिया
pseudonavicella	Zool.	कूटपोतिका	pseudophylogeny	Bot.	कूट जातिवृत्त
pseudonipple	Zool.	मिथ्याचूचुक	pseudophysis	Bot.	आभासी सूत्र
pseudonitrol		स्यूडोनाइट्रॉल	pseudoplacenta	Zool.	कूटअपरा
pseudonitro system		स्यूडोनाइट्रो तंत्र	pseudoplacental viviparity		कूटअपरा जरायुजता
pseudonon-conformable relationship	Geol.	आभासी असमविन्यासी संबंध	pseudoplacentation	Zool.	कूटअपराविन्यास
pseudonorm	Math.	छद्म मानक	pseudoplankton	Zool., Geol.	कूट प्लवक, प्लवकाभासी
pseudonormable		छद्म मानकनीय	pseudoplanktonic form		प्लवकाभासी जीव
pseudonormal	Math.	छद्माभिलम्ब	pseudoplasmodium	Bot., Zool.	आभासी प्लैज्मोडियम, कूट प्लैज्मोडियम
pseudonormed space		छद्म मानकित समष्टि	pseudo plastic	Chem. (Plast.)	छद्म प्लास्टिक
pseudonorm topology		छद्ममानक संस्थिति	pseudoplastic flow		छद्म प्लास्टिक प्रवाह
pseudonucleus	Zool.	कूटकेन्द्रक	pseudopod	Zool., Geol.	पादाभ
pseudonym	Zool.	कूटनाम	pseudopodia	Zool., H.Sc.	पादाभ
pseudonymph	Zool.	कूटार्भक	pseudopodial activity		पादाभ सक्रियता
pseudo-oolite	Geol.	कूटअंडकाश्म	pseudopodial network		पादाभ जालिका
pseudo-ophitic	Geol.	कूटओफ़ाइट	pseudopodial process		पादाभ प्रवर्ध
pseudo-order reaction	Chem.	छद्म कोटि अभिक्रिया	pseudopodiospore	Zool.	बीजाणु अमीबाभ
pseudoostiole		आभासी आस्यक	pseudopore	Zool.	कूटछिद्र
pseudopalagonite	Geol.	कूटपैलेगोनाइट	pseudoporphyritic	Geol.	कूटपर्पोफ़िराइट
pseudopallium	Zool.	कूटप्रावार	pseudopower	Math.	छद्म घात
pseudo panicle	Bot.	कूट पैनिकल	pseudopregnancy	H.Sc.	कूटगर्भवस्था
pseudoparaphysis	Bot.	आभासी सहसूत्र	pseudoprogram	Math.	छद्म प्रोग्राम
pseudoparasitism	Zool.	कूटपरजीविता	pseudoproof	Math.	छद्मोपपत्ति
pseudoparenchyma	Biol.	आभासी मृदूतक	pseudopsephite	Geol., Geog.	कूटगुटिकाश्म
pseudopaxilla	Zool.	कूटप्रकील			
pseudopeltate	Bot.	छद्विकाभासी			
pseudopemphix		स्यूडोपेम्फ़िक्स			
pseudoperculum	Zool.	कूटप्रच्छद			

<i>pseudo pulp cavity</i>	<i>Geol.</i>	कूट मज्जागुहा	<i>pseudosperm</i>	<i>Bot.</i>	बीजाभासक
<i>pseudopupa</i>	<i>Zool</i>	कूटकोशित, कूटप्यूपा	<i>Pseudosphaeriales</i>	<i>Bot</i>	स्यूडोस्फ़ैरिएनीज
<i>pseudopycnidium</i>		आभासी पिक्निडियम	<i>pseudospherolith</i>	<i>Geol</i>	कूटस्फ़ैरोलियथ
<i>pseudo raceme</i>	<i>Bot.</i>	कूट असीमाक्ष	<i>pseudosphere</i>	<i>Math</i>	छद्मगोलक
<i>pseudo racemic compound</i>		छद्म रेसिमिक यौगिक	<i>pseudo spherical world</i>	<i>Math</i>	छद्मगोलीय जगत्
<i>pseudorandomness</i>	<i>Math.</i>	छद्मयादृच्छकता	<i>pseudospike</i>	<i>Bot</i>	कूटस्पाइक, कूट कणिका
<i>pseudorandom number</i>		छद्मयादृच्छक सङ्ख्या	<i>pseudospiracle</i>	<i>Zool</i>	कूटश्वासरोह
<i>pseudo raphe</i>	<i>Bot</i>	आभासी रेफ़ी	<i>Pseudospora</i>	<i>Zool</i>	स्यूडोस्पोरा
<i>pseudo reduced density</i>	<i>Chem.</i>	छद्म समानीत घनत्व	<i>pseudo-sporangium</i>	<i>Zool</i>	कूटस्पोरैन्जियम, कूट-बीजाणुघानी
<i>pseudo resolvent</i>	<i>Math</i>	छद्म साधक	<i>pseudospore</i>	<i>Bot</i>	आभासी बीजाणु
<i>pseudorhabdite</i>	<i>Zool</i>	कूटयष्टिका	<i>pseudosteady plastic flow</i>	<i>Math.</i>	छद्म अपरिवर्ती सुषट्य प्रवाह
<i>pseudorotational parameter</i>	<i>Chem.</i>	छद्मघूर्णी प्राचल	<i>pseudostigma</i>	<i>Zool.</i>	कूटविदुव
<i>pseudo scalar</i>	<i>Phy., Chem.</i>	छद्म स्केलर, छद्म अदिश	<i>pseudostigmatic organ</i>		कूटविदुकी अंग
<i>pseudoscalar field</i>		छद्म अदिश क्षेत्र	<i>pseudostoma</i>	<i>Geol</i>	कूटमुख
<i>pseudoschistose</i>		कूटशिष्टाभ	<i>pseudostroma</i>	<i>Bot</i>	आभासी पीठिका
<i>Pseudosciæna diacanthus</i>	<i>Zool.</i>	स्यूडोसाइएना डाएकैन्थस (घोल)	<i>pseudostromatism</i>	<i>Geol.</i>	सुन्ध सस्तरण
<i>pseudosclerotium</i>	<i>Bot.</i>	आभासी रकेलेरोसियम	<i>pseudosucker</i>	<i>Zool</i>	कूटचूषक
<i>pseudoscolex</i>	<i>Zool.</i>	कूटमूर्ध	<i>pseudo-supply function</i>	<i>Math</i>	छद्म पूति फलन
<i>pseudoscope</i>	<i>Phy., Geog.</i>	विपरीत दर्शी, स्यूडोस्कोप	<i>pseudosymmetry</i>	<i>Geog.</i>	आभासी सममिति
<i>pseudoscopic switch</i>	<i>Geog.</i>	स्यूडोस्कोपी स्विच, विपरीत दर्शी स्विच	<i>pseudosyncline</i>	<i>Geol</i>	कूट अमितति
<i>pseudoscopy</i>	<i>Geog.</i>	प्रतिविविधदर्शी, स्यूडोस्कोपी	<i>pseudo-tachylite</i>	<i>Geol.</i>	कूटटैकिलाइट
<i>pseudoscorpion</i>	<i>Zool.</i>	कूटवृषिक	<i>pseudoteeth</i>	<i>Zool.</i>	कूटदंत
<i>Pseudoscorpionida</i>	<i>Zool.</i>	स्यूडोस्कोपिडोनिडा	<i>pseudo-tensor density</i>	<i>Math</i>	छद्म प्रदिश घनत्व
<i>pseudosematic colour</i>		निष्पत्ता भ्रमबोधक वर्ण	<i>pseudotentacle</i>	<i>Zool.</i>	कूटस्पर्शक
<i>pseudoseptum</i>	<i>Geol.</i>	आभासी पट	<i>pseudoterminal bud</i>		आभासीअन्तस्थ कविका
<i>pseudoserosa</i>	<i>Zool</i>	कूटतलीबला	<i>pseudothallus</i>	<i>Bot</i>	आभासी धेनन
<i>pseudosessile</i>	<i>Zool.</i>	कूटकृत	<i>pseudotheca</i>	<i>Zool, Geol</i>	कूटप्रावरक
<i>pseudo shield volcano</i>	<i>Geol</i>	कूट गुम्बदी उबालामुष्टी	<i>pseudothecium</i>		स्यूडोथेसियम
<i>pseudoslickenside</i>	<i>Geol.</i>	कूटस्लिकनभावं	<i>pseudo-topaz</i>	<i>Geol</i>	कूट पुत्रराज, स्यूडोटोपैज
<i>pseudosolution</i>		आभासी विलयन	<i>pseudo-town</i>	<i>Geog</i>	कूट नगर
			<i>pseudotrachea</i>	<i>Zool</i>	कूटवायु, कूटवायुमयी
			<i>pseudotrichogyne</i>	<i>Bot.</i>	आभासी स्त्रीधानी रोम
			<i>Pseudotrilon</i>	<i>Zool</i>	स्यूडोट्रिलॉन

pseudotroch	Zool.	कूटचक्र
pseudotrochus	Zool.	कूटचक्रक
<i>Pseudotsuga douglasii</i>	Bot.	स्यूडोत्सुगा डाउग्लेसाइ
pseudotubular	Geol.	कूटनलिकाकार
pseudoumbel	Bot.	कूट पुष्प छत्र
pseudo unimolecular reaction	Chem.	बाभासी एकाणुक अभिक्रिया
pseudovacule		कूट रसधानी, कूटधानी
pseudovagina	Bot.	बाभासी वाच्छद
pseudo-rector	Phy.	छद्म वेक्टर, छद्म सदिश
pseudo-rector coupling		छद्म सदिश युग्मन
pseudovector field		छद्म सदिश क्षेत्र
pseudovelum	Zool.	कूटविच्छद
pseudovirus	Zool.	कूटविषाणु
pseudo viscous flow	Geol.	कूट चिस्कासी प्रवाह
pseudovitellus	Zool.	कूटपीतक
pseudovolcanic	Geol., Geog.	कूटज्वालामुखीय
pseudovolcanic feature		कूटज्वालामुखीय लक्षण
pseudovolcanic phenomenon		कूटज्वालामुखीय घटना
pseudovolcano	Geol.	कूटज्वालामुखी
pseudovum	Zool.	कूटअंडाणु
pseudowollastonite	Geol.	स्यूडोवोल्लैस्टोनाइट
pseudoyohimbine	Chem.	छद्म-ओहिम्बिन
Pseudozygopleura	Geol.	स्यूडोजाइगोप्ल्यूरा
psicain	Chem.	साइकेन
psicofuranine	Chem.	सिक्वोफ्यूरैनीन
psicolous	Bot.	शाद्वलमृदावासी
psicose	Chem.	साइकोस
<i>Psidium guajava</i>	Bot.	सिडियम गुआजावा (अमरुद)
psi ( $\psi$ ) function		साइ फलन, ( $\psi$ ) फलन, साइ फंक्शन, ( $\psi$ ) फंक्शन
psilate	Bot.	मृदु
psilicolous	Bot.	प्रेअरीवासी

psilium		प्रेअरी समुदाय
psilomelane	Geol.	साइलोमिलेन
Psilophytales	Bot.	साइलोफाइटेलीज
psilophytic habit		साइलोफाइटीय प्रकृति
psilophytic plant		साइलोफाइटीय पादप
psilophytic stage		साइलोफाइटीय अवस्था
Psilophyton	Bot.	साइलोफाइटॉन
Psilotum	Bot.	साइलोटम
Psittacidae	Zool.	सिटैसिडी
Psittaciformes	Zool.	सिटैसीफॉर्मिज
psittacosis	Biol.	शुकार्ति, सिटैकोसिस
Psittacotherium	Zool.	सिटैकोथीरियम
Psittacus	Zool.	सिटैकस
psocid	Zool.	सोसिड
Psocidae	Zool.	सोसिडी
Psocoptera	Zool.	सोकोप्टेरा
psocopteran	Zool.	सोकोप्टेरन, (कोपिथोग्नेथन)
Psocus	Zool.	सोकस
Psolus	Zool.	सोलस
Psophiidae	Zool.	सोफिआइडी
<i>Psoralea corylifolia</i>	Bot.	सोरेलिया कोरिलीफोलिया
<i>Psoroptes communis</i>	Zool.	सोरोप्टीज कॉम्युनिस
P-state	Phy.	P-अवस्था
p-statistic	Math.	p-प्रतिदर्शज
psychiatric	H.Sc.	मनोविकारी
psychiatrist		मनोविकारविज्ञानी
psychic income	H.Sc.	मानसिक आय
Psychoda	Zool.	साइकोडा
psychological measurements	Math.	मनोवैज्ञानिक माप
psychological testing		मनोवैज्ञानिक परीक्षण
psychology	H.Sc.	मनोविज्ञान
psychopathic personality		मनोवैकृत व्यक्तित्व
Psychopsis	Zool.	साइकोप्सिस
psychosphere	Geog.	साइकोस्फीयर, मनोमण्डल

psychotherapy	H.Sc.	मनचिकित्सा
psychovisual	Geog.	मनोदृष्टिक
psychrometer	Geog, H.Sc.	साइक्रोमीटर
psychrophil	Zool.	शीतरागी
psychrophile	Chem. (Paper)	शीतरागी, साइक्रोफाइल
psychrophilic	Bot.	निम्नतापप्रिय, शीतरागी
psyllid yellows		सिलिड पीतरोग
Ptak space	Math.	टाक-समष्टि
pteralia	Zool.	पक्षकठिका
Pteranodon	Zool.	टेरानोडॉन
Pteraspid	Zool.	टेरैस्पिड
Pteraspidae		टेरैस्पिडी
Pteraspidomorphi	Zool.	टेरैस्पिडोमॉर्फि
Pteraspis	Zool.	टेरैस्पिस
<i>Pteraspis rostrata</i>		टेरैस्पिस रोस्ट्रेटा
Pteria	Geol.	टेरिया
<i>Pteria hirundo</i>		टेरिया हिरुण्डो
<i>Pteria media</i>		टेरिया मीडिया
<i>Pterichthyodes milleri</i>	Zool.	टेरिक्थिओडीज मिलेरी
Pterichthyomorphi	Zool.	टेरिक्थिओमॉर्फि
pteridium	Bot.	टेरिडियम
pteridologist	Bot.	टेरिडोलॉजिस्ट, टेरिडोलॉगिस्टाविज्ञ
pteridophyll		पणार्णपत्र
Pteridophyta	Bot.	टेरिडोफाइटा
pteridophytic lines		टेरिडोफाइटो वंशक्रम
pteridosperm		टेरिडोस्पर्म
pteridospermous		टेरिडोस्पर्मो
Pteridotheca		टेरिडोथीका
Pterinopecten	Geol.	टेरीनोपेक्टेन
<i>Pterinopecten papyraceus</i>		टेरीनोपेक्टेन पेपिरैसियस
ptero	Bot.	पक्ष, पक्ष
pterobranch	Zool.	टेरोब्रैन्क, पक्षकरोम
Pterobranchia		टेरोब्रैन्किया
pteroicarpus	Bot.	पक्षफलो

<i>Pterocarpus marsupium</i>		टेरोकार्पस मार्सूपियम
pteroaulous	Bot.	पक्षस्तभी
<i>Pterocera lambis</i>	Zool.	टेरोसेरा लैम्बिस
Pteroclididae	Zool.	टेरोक्लीडिडी
Pterodactyloidea		टेरोडैक्टाइलॉइडिया
Pterodactylus	Zool.	टेरोडैक्टाइलस
pteroic acid	Chem.	टेरोइक अम्ल
Pterophyllum		टेरोफिलम
pteropteron	Zool.	पक्षपाखंडक
pteropod	Geol., Zool.	टेरोपोड, पक्षपाद
Pteropoda	Zool.	टेरोपोडा
pteropodium	Zool.	पक्षपद
pteropod ooze	Geol.	टेरोपोड सिष्टुपक
Pteropus	Zool.	टेरोपस
<i>Pteropus magnus</i>		टेरोपस मैग्नुस
<i>Pteropus minor</i>		टेरोपस माइनर
Pterosauria	Zool.	टेरोसौरिया
pterospermons	Bot.	पक्षबीजी
<i>Pterospermum acerifolium</i>		टेरोस्पर्मम ऐसरिफोलियम
<i>Pterospermum subersifolium</i>		टेरोस्पर्मम सुबैरिफोलियम
pterosphenoid	Zool.	पक्षचतुर्क
pterostigma	Zool.	पक्षचिन्ह
pterostomial region	Zool.	पक्षमुखोप क्षेत्र
pterotheca	Zool.	पक्षधरक
pterothoracic pulsatile organ	Zool.	पक्षधरोप स्पंदी अंग
pterothorax	Zool.	पक्षधरदल
pterotic	Zool.	पक्षकणिका
Pterotrachea	Zool.	टेरोट्रेकिया
<i>Pterotrachea scutata</i>		टेरोट्रेकिया स्कुटेटा
pteroylglutamic acid	Chem.	टेरोइल ग्लूटैमिक अम्ल
Pterula		टेरुला
pterygiophore	Zool.	बरास्थि, टेरिगियोफोर

pterygium	Zool.	पक्षक	puberulent		सूक्ष्मरोमिल
pterygoid	Zool.	व्यंगिका, टेरिगाँड	puberulic acid	Chem.	प्यूवैर्यूलिक अम्ल
pterygopodial gland	Zool.	पक्षपाद ग्रंथि	pubescent	H.Sc.	रोमिल
pterygopodium		पक्षपाद	pubic pediculosis	Zool.	जघन यूकता
pterygopous	Bot.	पक्षवृती	pubic symphysis		जघन संधान
Pterygota	Zool.	टेरीगोटा	pubis	Zool.	प्यूविस, जघनास्थि
pterygote	Zool.	सपंख	public address system	Phy.	ध्वनि प्रवर्धक यंत्रावली
pterygote insect		सपंख कीट	publication	Geog.	प्रकाशन अनुदेश
pteryla	Zool.	पिच्छक्षेत्र, टेरिला	instruction		
pterylography		पिच्छक्षेत्रज्ञान	public auctioneer	Geog.	राजकीय नीलामकर्ता
pterylosis	Zool.	पिच्छविन्यास	public-domain land	Geog.	लोक भूसम्पदा
ptilinal suture	Zool.	निर्गमकौशीय सीवन	public health	H.Sc.	जनस्वास्थ्य
ptilinum	Zool.	टिलिनम, निर्गमकोश	public health nurse		जनस्वास्थ्य परिचारिका
Ptilocrinus	Zool.	टाइलोक्राइनस	public house	Geog.	मधुशाला
ptilology	Zool.	पक्षतिविज्ञान	public opinion	Math.	जनमत माप
Ptilonorhynchidae	Zool.	टीलोनोरिन्किडी	measurement		
ptilopaedic young	Zool.	बावृत शाव	public opinion poll		जनमत सर्वेक्षण
ptilosis	Zool.	पक्षतिविन्यास	(=public opinion survey)		
ptilota	Zool.	पक्षकीट	public ship	Geog.	सरकारी जहाज
P.T.M. (pulse time modulation)	Phy.	स्पंदकाल माडुलन	public works	Geog.	लोक कर्मान्त
Ptolemaic system	Math.	टालमीय निकाय	puboischiofemoralis internus	Zool.	प्यूवोइश्चियोफीमोरेलिस इन्टरनस, अंतरा-जघन-श्रोणि ऋरुपेशी
Ptolemy's map	Geog.	टॉलमी-मानचित्र	puboischiotibialis	Zool.	प्यूवोइश्चियोटिविएलिस, जघन-श्रोणि अंतर्जंघिकापेशी
ptomaine		टोमेन	<i>Puccinia graminis tritici</i>	Bot.	पक्सिनिया त्रैमिनिस ट्रिटिसाइ
ptyalin	Zool.	टायालिन	pucker	Geog., H.Sc.	(n.) 1. झुरी 2. पकर (vb.) शिकन डालना
Ptychocarpus	Bot.	टाइकोकार्पस	puckered	Chem.	पुट्टित
Ptychodactis	Zool.	टाइकोडैक्टिस	puckering	Chem., Bot.	प्रकुंचन
Ptychodera	Zool.	टाइकोडेरा	pudding	H.Sc.	पुडिंग
ptygmatic folding	Geol.	संपंगतिक वलन	pudding ball	Geol.	पुडिंग बॉल
ptygmatic vein		संपंगतिक शिरा	pudding cloth		पुडिंग वस्त्र
ptylin	H.Sc.	टायलिन	pudding furnace	Chem.	पलटनी भट्टी, खोरी भट्टी
p-type conductivity	Phy.	p-प्रकार की चालकता			
p-type semiconductor		p-प्रकार का अर्धचालक			
ptyxis	Bot.	किसलय वलन			
pua fiber	Zool.	पूजा तन्तु			
puberlonic acid	Chem.	प्यूवर्लॉनिक अम्ल			
puberulous	Zool.	सूक्ष्मरोमिल			
puberty	Zool., H.Sc.	यौवनारम्भ			

pudding process		पसटना प्रक्रम, खोना प्रक्रम	pulegol	Chem.	प्युलेगॉन
pudding stone	Geol., Geog.	पुड्डिंग स्टोन	pulegone	Chem.	प्युलेगोन
puddlability	Geog.	लोष्टवर्तीयता	<i>Pulex irritans</i>	Zool.	प्युलेक्स इरिटैन्स
puddle	Geog.	1. पडल, कोबड, पोखर	Pulfrich refractometer	Chem.	पुनफ्रिच अपवर्तनाकमापी, पुनफ्रिच, रिफ्रेक्टोमीटर
	Geol.	2. जलरोधी मृत्तिका	Pulicidae	Zool.	प्यूलिभिडी
puddled	Chem.	बाद्रे आलोडित	pull		1 अभिवर्षण 2 अभिकर्षण 3 अपवर्षण
puddler	Chem. (Fert.)	आलोडित		Geog.	4 छाप, पुल
puddler's candles	Chem. (Met)	आलोडक ज्वाल	pull-back	Chem (Plastics)	पश्च अपवर्षण
puddling machine	Chem (Fert)	आलोडन मशीन	pulled wool	H Sc.	1. कर्षित ऊन 2 पुन समाश्रित ऊन
puddy (pu)	Zool.	नाटा (नट)	pulley	Phy., H Sc	पुली, घिरनी, बप्पी
pueblo	Geog.	प्युबलो (ग्राम)	pulley block		घिरनी आलव
puerile	Geog.	सुच्छ	pulling	Phy.	1 (TV) चित्राण विस्तारण 2 तुल्यकालन क्षति 3 अभिवर्षण
puff	Phy. H Sc.	फूत्कार फुलबडी	pull method		अभिवर्षण विधि
puff-bank	Geog.	पफ बैंक	pull of centrality	Geog	केन्द्रीयता आकर्षण
puff cone	Geol	पफ शंकु	pullom	H Sc.	पुलॉम
puffed compact	Chem. (Met.)	आफुल्ल हत	pull out	H Sc.	खिचने वाला
puffing	H.Sc.	आफुल्लन, फुलाना	pull out table		खिचनेवाली मेज
puffing agent		आफुल्लक	pull-up	Chem.	विपटलन
puffing hole	Geog.	वायु-छिद्र	pulmobranchia	Zool.	फुफ्फुसबलोम
Puffinus	Zool.	पफाइन्स	pulmo-cutaneous	Zool.	फुफ्फुस-त्वचीय
puff of momentum	Phy.	सवेण का झोका	pulmo-cutaneous arch		फुफ्फुस-त्वचीय चाप
puff virus	Biol.	पफ वाइरस	pulmocutaneous artery		फुफ्फुस-त्वचीय धमनी
pufferite	Geol	पफ्लेराइट	pulmonary artery	Zool.	फुफ्फुस-धमनी
pug (moth)	Math., Zool.	पग (शलभ)	pulmonary circuit		फुफ्फुसो परितव
pugging	Geol.	पायन	pulmonary circulation		फुफ्फुसो परिसंचरण
pugillanite	Geol	पगनिएनाइट	pulmonary respiration		फुफ्फुसो स्वसन
pug mill	Chem.	पगमिल, गारा मिल	pulmonary sac		फुफ्फुस-कोष
Pugnax	Geol.	पगनैक्स	pulmonary system		फुफ्फुसो संज्ञ
<i>Pugnax acuminatus</i>		पगनैक्स ऐक्यूमिनेटस	pulmonary vein		फुफ्फुस निरा
puking	Chem	प्युकन, उल्लेखन	Pulmonata	Geol., Zool.	पल्मोनेटा
pulan	H.Sc.	पुलेन	pulmonate	Zool.	पल्मोनेट, सफुफुस
pulaskite	Geol.	पुलैस्कार्ट			



pulp	<i>Bot., Geog., Geol.</i>	मज्जा, गूदा, लुगदी	pulse amplitude modulation	स्पंद आयाम माडुलन
pulp cavity	<i>Zool.</i>	मज्जा गुहा	pulse beetle	दाल भृंग
pulp chamber		मज्जा कक्ष	pulse circuit	स्पंद परिपथ
pulp consistency	<i>Geol.</i>	लुगदी गाढ़ता	pulse code	स्पंद कोड
pulper	<i>Chem. (Paper)</i>	पल्पित, लुगदीकारित्र	pulse code modulation (PCM)	स्पंद कोड माँडुलन (PCM)
pulping	<i>Chem. (Paper)</i>	लुगदीकरण, पल्पन	pulse coder	स्पंद कोडक
pulp-initiating cell		गूदा आरंभक कोशिका	pulse coding	स्पंद कोडन
pulpit		मंच	pulse corrector	स्पंद संशोधक
pulp manufacturing industry		लुगदी निर्माण-उद्योग	pulsed accelerator	स्पंदित त्वरित्र
pulp molding		लुगदी संचन, मज्जा संचन	pulsed altimeter	स्पंददायी तुंगतामापी
pulpwood		लुगदी-काष्ठ	pulse decay time	स्पंद क्षय काल
pulque	<i>Bot.</i>	पूल्क	pulse demoder	स्पंद विकोडित्र
pulsance		स्पंदता	pulsed glide path	स्पंदित विसर्पण पथ
pulsatance	<i>Phy.</i>	स्पंदनत्व	pulsed magnetron	स्पंदित मैग्नेट्रोन
pulsatile organ	<i>Zool.</i>	स्पन्दी अंग	pulsed operation	स्पंदित प्रचालन
pulsatile rosette		स्पंदी पाटलक	pulse Doppler	स्पंद डॉप्लर (तंत्र)
pulsating glow	<i>Zool.</i>	स्पंदमान दीप्ति	pulsed oscillating field	स्पन्दित दोलायमान क्षेत्र
pulsating load	<i>Math.</i>	स्पंदमान उद्भार	pulsed oscillator	स्पंदित दोलित्र
pulsating membrane		स्पंदमान कला	pulse droop	स्पंद शोषनमन
pulsating moment		स्पंदमान बाघूर्ण	pulse duration	स्पंद अवधि
pulsating sphere		स्पंदमान गोला	pulse duration ratio	स्पंद अवधि अनुपात
pulsating spring	<i>Geol.</i>	उष्णोत्स, गाइस्टर	pulse duty factor (=pulse duration ratio)	स्पंद अवधि अनुपात
pulsating virtual cathode	<i>Phy.</i>	स्पन्दमान आमासी कैथोड	pulse E.H.T. generator	स्पंद E.H.T. जनित्र
pulsation	<i>Biol., Phy., H.Sc.</i>	स्पंदन	pulse former	स्पंद आवृत्ति रचक
pulsation welding		स्पन्दी संघन	pulse forming line	स्पंद जनक लाइन
pulsator jig		स्पंदक जिग	pulse forming network	स्पंद जनक जाल
pulsatory	<i>Phy., Geol.</i>	स्पंदमान	pulse frequency	स्पंद पुनरावर्तन दर
pulsatory action	<i>Zool.</i>	स्पंदी क्रिया	pulse frequency modulation	स्पंद आवृत्ति माडुलन
pulsatory organ		स्पंदी अंग	pulse generator	स्पंद जनित्र
pulsatory oscillation		स्पंदी दोलन	pulse height analyser	स्पंद उच्चता विश्लेषक
pulsatory sequence		स्पंदी अनुक्रम	pulse height discrimination	स्पंद ऊंचाई विविगतीकरण
pulse		1. दाल 2. स्पंद		
pulse amplifier		स्पंद प्रवर्धक		

pulse height discriminator		स्पन्द उच्चता विवेचक		pulse stretcher		स्पन्द विस्तारक
pulse height setting		स्पन्द उच्चता समजन		pulse stretching		स्पन्द विस्तारण
pulse integrator		स्पन्द समाकृतित्र		pulse switch		स्पन्द स्विच
pulse interval		स्पन्द अन्तराल		pulse system		स्पन्द तंत्र
pulse ionization chamber		स्पन्द आयन कोष्ठ		pulse tail		स्पन्द पुच्छ
pulse jet		स्पन्द जेट		pulse theory		स्पन्द सिद्धांत
pulse jitter		स्पन्द जिटर		pulse tilt		स्पन्द नति
pulse limiting rate		स्पन्द सीमांक दर		pulse time modulation		स्पन्द समय माडुलन
Pulsellum	Zool.	पल्सेलम		dulse time ratio		स्पन्द अवधि अनुपात
pulse mixing		स्पन्द मिश्रण		pulse train		स्पन्दावली
pulse mode		स्पन्द विधा		pulse transformer		स्पन्द परिणामित्र
pulse moder		स्पन्द मोडिटर, स्पन्द विधायक		pulse width		स्पन्द विस्तार
pulse modulation		स्पन्दी माडुलन		pulse width modulation		स्पन्द कालावधि माडुलन
pulse modulator radar		स्पन्द माडुलक रेडार		pulsing circuit	Phy	स्पन्दन परिपथ
pulse multiplex		स्पन्द बहुमकैलन		pulsing system		स्पन्दन तंत्र
pulse of pressure		दाब स्पन्द		pulsion stroke		स्पन्दन आघात
pulse packet		स्पन्द पैकेट		pulu fiber	H.Sc.	पुलू तन्तु
pulse peak modulation		स्पन्द शिखर माडुलन		pulverator	Geol.	चूर्णित्र
pulse pile up		स्पन्द अतिव्यापन		pulverisation	Geol., H.Sc.	पेषण, पीसना, चूर्णन
pulse position modulation		स्पन्द स्थिति माडुलन		pulverise		पीसना, चूर-चूर करना
pulser	Phy.	स्पन्दक		pulverised fuel	Chem	सक्षोदित ईंधन
pulse radar		स्पन्द रेडार		pulverised oil	Chem.	1 प्रक्षोभित तैल 2 क्षणित तैल
pulse rate	H.Sc. Phy.	नाड़ी दर, स्पन्द दर		pulveriser		पेषक, पेषणी, चक्की
pulse recurrence frequency		स्पन्द पुनरावर्तन दर		pulverising mill		सक्षोदन पेषणी, सक्षोदन मिल
pulse repetition rate		स्पन्द पुनरावर्तन दर		pulverization	Chem.	सक्षोदन
pulse resolution		स्पन्द विभेदन		pulverized glass		चूर्णित काच
pulse rise time		स्पन्द उत्तर्य काल		pulverized solid	Chem.	सक्षोदित विठ
pulse selector		स्पन्द चरक		pulverulent	Geol.	चूर्णिल
pulse shape		स्पन्द आकार, स्पन्द रूप		pulveryte	Geol	पल्वेराइट, चूर्णाश्म
pulse shaper		स्पन्द रूपक		pulvilliform	Zool	पादतल्प रूप
pulse spacing		स्पन्द अंतराल		pulvillus	Zool	पादतल्प
pulse spectrum		स्पन्द स्पेक्ट्रम		pulvular	Bot.	पर्णवृत्ततली
pulse spike		स्पन्द शूल		pulvinate	Bot.	तल्पयुक्त
				pulvialform		तल्परूप
				pulvinate		पर्णवृत्ततल्प

pulvinus		पर्णवृत्ततल्प	punching	<i>Math.,Phy.</i>	छिद्रण
pulvisculus	<i>Bot.</i>	पल्विस्कुलस, बीजाणु धूलि	punching machine		छिद्रण मशीन
pumice	<i>Geol.</i>	झांवा	punching position		छिद्रण स्थिति
pumiceous bomb		झांवाभासी बम	punching stock		छिद्रणीय संभार
pumiceous structure		ज्ञामकी संरचना	punch light		छिद्रक बत्ती
pumice stone		झांवा	punch stop key		छिद्रक रोक कुंजिका
pumice tuff		झांवा टफ	punch stripper		निर्लेपक छिद्रक
pumicite	<i>Geol.</i>	प्युमिसाइट	punch through voltage	<i>Phy.</i>	वेद्य वोल्टता
pumilus	<i>Bot.</i>	निम्न	(=penetration voltage)		
pummelo	<i>Chem.</i> ( <i>Food</i> )	प्यूमेलो	puncta lacrymalia	<i>Zool.</i>	अश्रु रंघ्र
pump	<i>Phy.</i>	पंप	punctate	<i>Biol.</i>	बिन्दुकित
pumpability		पंपनीयता	punctation		बिन्दुगतं
pump cylinder		पम्प सिलिंडर	punctiform	<i>Zool.</i>	बिन्दुरूप (रक्तस्राव)
pump drive assembly		पंप चालक समुच्चय	(haemorrhage)		
pumped storage		पम्प जलसंग्रह, पम्प स्टोरेज	punctilious	<i>Geog.</i>	सूक्ष्माचारी
pumpellyte	<i>Geol.</i>	पम्पेल्लाइट	puncture	<i>Chem.</i>	सवेद्यन, पंचर
pumping	<i>Phy.</i>	पम्पन	puncture test	<i>Chem.</i> ( <i>Paper</i> )	वेद्य निकप
pumping action		पंपन कार्यं	pungent	<i>Chem.,</i> <i>H.Sc.</i>	तीखा
pumping activity		पंपन कार्यं	pungent smell		तीखी गंध
pumping frequency		पम्पक आवृत्ति	pungent taste		तीखा स्वाद
pumpkin	<i>H.Sc.</i>	कद्दू	Punicaceae	<i>Bot.</i>	प्यूनिकैसी
pumpkin beetle	<i>Zool.</i>	कद्दू भृंग	<i>Punica granatum</i>	<i>Bot.</i>	प्यूनिका ग्रैनेटम (अनार)
pumpmotor		पम्प मोटर	punicic acid	<i>Chem.</i>	प्यूनिसिक अम्ल
pump well		पंप कूप	punicin	<i>Chem.,</i> <i>H.Sc.</i>	प्यूनिसीन
puna	<i>Geol.</i>	पुना, उच्च बंजर पठार	Punic war	<i>Geog.</i>	प्यूनिक संग्राम
punch	<i>Phy.</i> <i>H.Sc.</i>	1. पंचित्र 2. पंच (एक वेद्य)	punjam (=punjum)	<i>H.Sc.</i>	पंजम
punch card		छिद्रित कार्ड	Punnet square	<i>Zool.</i>	पनेट वर्ग
punched card		छिद्रित पत्रक, छिद्रित कार्ड	punto	<i>H.Sc.</i>	पुन्टो
punched card calculator		छिद्रित पत्रक परिकल्पित	punty (pontil)	<i>Chem.</i>	पंटी
punched card machine		छिद्रित पत्रक यंत्र	pap	<i>Phy.</i>	पप
punched card records		छिद्रित कार्ड अभिलेख	pupa	<i>Zool.</i>	प्यूपा, कोशित
punched metal screen		छिद्रित धातु छान्ना	pupa adheraena	<i>Zool.</i>	वासंजित प्यूपा, वासंजित कोशित
punched plate screen		छिद्रित पट्टिका छान्ना			
puncheon	<i>Chem.</i> ( <i>Met.</i> )	पंचिअन			

pupa angularis		कोणीय कोशित, कोणीय प्यूपा	pure bending	<i>Math</i>	शुद्ध वक्रन
pupa conica		शंकवाकार प्यूपा, शंकवाकार कोशित	pure bred	<i>Biol.</i>	शुद्ध वंशज
pupa custodiata		रक्षित प्यूपा, रक्षित कोशित	pure breed		शुद्ध वंश
pupa dermatata		धर्मिय प्यूपा, धर्मिय कोशित	pure culture		शुद्ध संवर्ध
pupaeform	<i>Geol</i>	प्यूपा रूप	pure decimal		शुद्ध दशमत्तव
pupa exarata	<i>Zool.</i>	अवद कोशित, अवद प्यूपा	pure deformation		शुद्ध विरूपण
pupa folliculata		पुटक-प्यूपा, पुटक कोशित	pure dominant		शुद्ध प्रभावी
pupal cell		कोशित कोशिका, प्यूपीय कोशिका	pure element		शुद्ध तत्व
<i>Pupalia lappacea</i>		प्यूपैलिया लैपेसिया	pure equation		शुद्ध समीकरण
pupa libera		मुक्त कोशित, मुक्त प्यूपा	pure field theory		शुद्ध क्षेत्र निदान्त
pupal instar		कोशित इन्स्टार, प्यूपीय इन्स्टार	pure finish		शुद्ध परिष्कृता
pupal paedogenesis		कोशित शावकीजनन, प्यूपीय शावकीजनन	pure gene		शुद्ध जीन
pupal period		प्यूपा अवधि, कोशित अवधि	pure geometry		शुद्ध ज्यामिति
pupa nuda		अनावृत प्यूपा, अनावृत कोशित	pure induction		शुद्ध आगमन
pupa obtecta		आवृत्त प्यूपा, आवृत्त कोशित	pure inseparability		शुद्ध अपृथक्करणीयता
puparium	<i>Zool.</i>	प्यूपावरण, कोशितावरण	pure line		शुद्ध वंशक्रम
pupa subterranea		भूमिगत प्यूपा, भूमिगत कोशित	purely atomic measure		शुद्ध परमाण्विक माप
pupation	<i>Zool.</i>	प्यूपीकरण	purely continuous spectrum		शुद्ध सतत मानावली
pupiferous	<i>Zool</i>	प्यूपाधर, कोशितधर	purely inseparable		शुद्धत अपृथक्करणीय
pupigerous	<i>Zool</i>	कोशितधारी, प्यूपाधारी	purely inseparable element		शुद्धत अपृथक्करणीय अवयव
pupili	<i>Phy, Zool</i>	तारा, पुतली, कनीनिका	purely inseparable extension		शुद्धत अपृथक्करणीय विस्तार
pupin coil		प्यूपीत कुडली	purely transcendental		शुद्धत अबीजीय
pupiparous	<i>Zool</i>	कोशितज, प्यूपाप्रजक	purely transcendental extension		शुद्धत अबीजीय विस्तार
pupivorous	<i>Zool</i>	प्यूपाहारी, कोशिताहारी	pure mathematics		शुद्ध गणित
* Puppls	<i>Astron</i>	पपिस	pure music		शुद्ध संगीत
Purana group	<i>Geol.</i>	पुराना शैलमध	pure note		शुद्ध स्वर
purchaser's acceptance criterion	<i>Math.</i>	श्रेता के स्वीकरण निकष	pure number	<i>Math.</i>	सख्यामात्र
purchasing power	<i>Geog.</i>	श्रय-शक्ति	pure point spectrum		शुद्ध बिन्दु परानावली
Purdie's method	<i>Chem.</i>	पर्डी पद्धति	pure precession		शुद्ध पुरस्सरण
			pure precessional motion		शुद्ध पुरस्सरण गति
			pure projective geometry		शुद्ध प्रक्षेपीय ज्यामिति
			pure quadratic equation		शुद्ध द्विघात समीकरण

pure quartz sandstone		शुद्ध स्फटिक बालुकाश्म	purine	<i>Chem.</i>	प्यूरिन
pure quaternion		शुद्ध चतुष्टयी	purine base		प्यूरिन-क्षारक
pure radial vibration		शुद्ध द्विज्य कंपन	purinometer		प्यूरिनमापी
pure random series		शुद्ध यादृच्छिक श्रेणी	purist	<i>Geog.</i>	विशुद्धिवादी
pure reactance		शुद्ध प्रतिघात	puritan	<i>H.Sc.</i>	प्यूरिस्टन
pure recessive		शुद्ध अप्रभावी	purity		शुद्धता
pure recurring decimal		शुद्ध आवर्त दशमलव	Purkinje fibre	<i>H.Sc., Zool.</i>	पुरकिजे तंतु
pure relaxation		शुद्ध विश्रांति	Purkinje network		पुरकिजे जाल
pure resistance		शुद्ध प्रतिरोध	Purkinje tissue		पुरकिजे ऊतक
pure rotational spectrum		शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम	purl	<i>H.Sc.</i>	पल
pure rotation band		शुद्ध घूर्णन बैंड	purl knitting	<i>H.Sc.</i>	उल्टी बुनाई, उल्टा बुना
pure scattering		शुद्ध प्रकीर्णन	puromycin	<i>Chem.</i>	प्यूरोमाइसिन
pure shear		शुद्ध अपरूपण	puron	<i>Chem.</i>	प्यूरॉन
pure silk		शुद्ध रेशम	purple		नील लोहित, बैंगनी, पपल
pure spectrum		शुद्ध स्पेक्ट्रम	purple copper ore		पपल ताम्रअयस्क, नील लोहित ताम्र अयस्क
pure state		शुद्ध अवस्था	purple emperor	<i>Zool.</i>	बैंगनी सम्राट (तितली), पपल एम्परर
pure strain		शुद्ध विकृति	purple lactose agar		नील लोहित लैक्टोस ऐगार
pure strategy	<i>Math.</i>	अविकल्पी युक्ति	purple light		नील लोहित प्रकाश
pure substance		शुद्ध पदार्थ	purple of Cassius		कासियस-पपिल
pure tone		शुद्ध टोन, शुद्ध स्वरक	purple riband		नील-लोहित धारी
pure torsion		शुद्ध व्यावर्तन	purple rumped sunbird		नीलारुणकटि सूर्यपक्षी
pure transcendental extension		शुद्ध अबीजीय वितान	Purple snail	<i>Chem.</i>	पपल स्नेल
pure unloading		शुद्ध अमारण	purple top virus		नीललोहित चूड़ वाइरस
pure vibrational level		शुद्ध कम्पन स्तर	purploid		नीललोहिताभ
pure viscoplastic relaxation		शुद्ध स्थानसुषट्य विश्रांति	purposive sampling	<i>Math.</i>	सोद्देश्य प्रतिचयन
purga	<i>Geog.</i>	पूर्णा, प्रचण्ड हिमसंज्ञा	purposive selection		सोद्देश्य वरण
purgative	<i>Chem.</i>	सारक	Purpura	<i>Zool.</i>	परप्युरा
purgatory	<i>Geog.</i>	पापमोचन-स्थान	purpureo	<i>Chem.</i>	परप्यूरिओ, नीललोहित
purging	<i>Chem. (Met.)</i>	रेचन, सारण	purpureo-salt		परप्यूरिओ लवण
purification	<i>Chem.</i>	शोधन, निर्मलीकरण, स्वच्छीकरण	purpureus	<i>Bot.</i>	नील लोहित
purified		शोधित	purpuric acid	<i>Chem.</i>	परप्यूरिक अम्ल
purifier		शोधक	purpurin	<i>Chem.</i>	परप्यूरिन
purify		शोधन करना	purpurogallin	<i>Chem.</i>	परप्यूरोगैलिन
			Purpuroidea		पुरप्यूरॉइडिया

<i>Purpuroidea nodulata</i>		पुरपुरोइडिया नोडुलेटा			
purse	H.Sc.	पर्स, बटुआ		rustulose	स्फोटवृत्त
purse net	Zool.	कोष जाल, खर्की जाल		rusule	Zool. Bot. प्रधानी प्ररमधानी
purse seine	Zool., Geog.	कोष सपाश		R U System	Phy. PU तंत्र
purse seine boat		कोष सपाश नौका		Rusza	Bot., Geog. पुरसा
purse seine gear		कोष सपाश तभार		Putamen	Bot. गठली, अण्डि
purse seining		कोष सपाशन		Putative antheridium	Bot. तथाकल्पित पुधानी
purse silk	H.Sc.	पर्स रेशम		Putnam clay	Geog. पुटनम भूतिका
purse sponge	Geog.	पर्स-स्पज		Putranjiva roxburghu	Bot. पुत्रजीवा रॉक्सबर्गई
purse twist	H.Sc.	पर्स रेशम		Putrefaction	H.Sc. पूयन, सड़न, पूनीमवन
pursuing course indication	Phy.	अनुसरण पथ सूचन		Putrefactive	पूयनीय
pursuit course		अनुसरण पथ		Putrefy	सड़ना, पूयित होना
purum uricum	Chem.	प्यूरम यूरिकम		Putrescent	पूतिमान
Pusey hardness	Chem. (Met.)	प्यूसी कठोरता		Putrescine	Chem. प्यूट्रेसीन
push back	Chem. (Plastics)	पश्च-कर्ष		Putrid	पूयित
push button	Phy., Chem., H.Sc.	दाब बटन, पुश बटन		Putty	Chem. (Gl.) पुटी
pusher	Chem.	कर्षक		Putty powder	पुटी पाउडर
pusher type furnace	Chem. (Met.)	कर्षक भ्राष्ट्र		Puty	Geog., Geol. प्नी
pushing	Phy.	अपकर्षण		Puzzolana cement	Chem. पुजोलाना सीमेन्ट, पुजोलाना सीमेन्ट
push moraine	Geog.	घक्का हिमोढ़		P-varying compliance	Math. P-विचर अनुवृत्ति
pushover	Phy.	नियोजित नमन		pwa	H.Sc. प्वे
push plough	Geog.	प्रणोदन हन		P-wave resonance	Phy. P-तरंग अनुनाद
push pull	Chem., Phy., Geol.	कर्षाकर्ष		P)cinaster	Geol. पिसिनेस्टर
pushpull circuit		कर्षाकर्षी परिपथ		P)cinaster angustatus	पिसिनेस्टर ऐन्गुस्टेटस
push pull excitation		कर्षाकर्षी उत्तेजन		P)cnaster	Zool., Geol. पिकनेस्टर, धनतारक
push pull mechanism		कर्षाकर्षी क्रिया विधि		P)cnidiophore	Bot. पिकनिडियमधर
push pull voltage (=balanced voltage)	Phy.	सन्तुलित वोल्टता		P)cnidiospore	पिकनिडियम-बीजाणु
puskita	Geog.	पुस्किता		P)cnite	Geol. पिकनाइट
pustular		स्फोटपूणं		P)cnium	Bot. पिकनियम
pustule	Geol.	स्फोट		P)cnochlozite	Geol. पिकनोक्लोराइट
pustuliform		स्फोटरूप		P)cnocline	Geog. पिकनोक्लाइन
				P)cnocoidangium	पिकनोकोनिडियम
				P)cnocoidium	Bot. पिकनोकोनिडियम
				P)cnogonida	Zool. पिकनोगोनिडा
				P)cnometry	Chem. पिकनोमिति
				P)cnonotidae	Zool. पिकनोनोटिडी
				P)cnopodia	Zool. पिकनोपोडिया

<i>Pycnopus cinnabarinus</i>	Bot.	पिक्नोपोरस सिनैवारिनस	pyloric end	जठरनिर्गमांश
<i>pycnosclerotium</i>	Bot.	पिक्नोस्क्लेरोशियम	pyloric filter plate	जठरनिर्गमी नित्यन्दन- पट्टिका
<i>pycnosis</i>	Zool.	पिक्नोसिस, प्रघनन	pyloric gland	जठरनिर्गम ग्रंथि
<i>pycnospore</i>	Bot.	पिक्नोबीजाणु	pyloric sphincter	जठरनिर्गम अवरौघिनी
<i>pycnostroma</i>	Geol.	पिक्नोस्ट्रोमा	pyloric stomach	जठरनिर्गमी वामाशय
<i>pycnotheca</i>	Geol.	संहत प्रावरक, पिक्नोथीका	pyloric valve	जठरनिर्गम कपाट
<i>pycnothecium</i>		पिक्नोथीसियम	pyloric valvule	जठरनिर्गम कपाटिका
<i>pycnothyrium</i>	Bot.	पिक्नोथाइरियम	pyloric vein	जठरनिर्गम शिरा
<i>pycnotrope</i>	Geol.	पिक्नोट्रोप	pylorus	जठरनिर्गम
<i>pycnoxylic</i>	Bot.	घनदाहक	pylumin	Chem. प्रलेपन पूर्व उपचार प्रक्रम
<i>pygal plate</i>	Zool.	वर्मान्त पट्टिका	pynacryptol	Chem. (Nucl.) पिर्नैक्रिप्टॉल
<i>pygeum</i>		पाइजियम	pyocyanin	Chem. पायोसायनिन
<i>pygidial area</i>	Zool.	पाइजिडियल क्षेत्र	pyracin	Chem. पाइरेसिन
<i>pygidial gland</i>		पाइजिडियल ग्रंथि	Pyralididae	Zool. पाइरेलिडिडी
<i>pygidium</i>	Zool.	पाइजिडियम	pyralin	Chem. पाइरेलिन
<i>Pygmaecoidaris prionigera</i>	Zool.	पिग्मिओसिडैरिस प्राइओनीजेरा	Pyralis	Zool. पाइरेलिस
<i>pygmaeus</i>	Bot.	वामन	<i>Pyralis farinalis</i>	पाइरेलिस फॅरिनैलिस
<i>pygmy</i>	Geog.	वामन, बोना, पिग्मी	pyralmandite	Geol. पाइरएलमैंडाइट
<i>pygmy group</i>		पिग्मी वर्ग	pyralspite	Geol. पाइरएलस्पाइट
<i>pygmy race</i>		वामन जाति	pyramid	Geog., Geol., Math. पिरैमिड
<i>Pygocephalus</i>		पाइगोसेफेलस	pyramidae	पिरैमिडी
<i>pygochord</i>	Zool.	पाइगोकोर्ड, पुच्छरज्जु	pyramidal form	पिरैमिडी आकृति
<i>pygopod</i>	Zool.	कटिप्रोथपद	pyramidal	पिरैमिडी अर्धाकृतिक वर्ग
<i>pygopodium</i>	Zool.	पुच्छपाद	hemimorphic class	पिरैमिडी शृंग
<i>Pygoscelis adeliae</i>	Zool.	पाइगोस्केलिस एडिली	pyramidal horn	पिरैमिडी आरंभिक कोशिका
<i>pygostyle</i>	Zool.	पुच्छ-फाल	pyramidal initial cell	पिरैमिडी शिखर
<i>pygotheca</i>	Zool.	कटिप्रोथावरक	pyramidal peak	पिरैमिडी स्तम्भ
<i>pyknometer</i>	Chem.	पिक्नोमीटर	pyramidal pillar	पिरैमिडी घनाकृति
<i>pylangium</i>	Zool.	पश्चिमनीकांड, पाइलैन्जियम	pyramidal solid	पिरैमिडी ऊर्ध्वखनन
<i>pyloocyte</i>	Zool.	निर्गमाणु	pyramidal stoping	पिरैमिडी पृष्ठ
<i>pylome</i>	Zool., Geol.	पाइलोम, द्वारक	pyramidal surface	पिरैमिडी पट्टति
<i>pylon</i>	Geog.	पाइलॉन	pyramidal system	पिरैमिडी पथ
<i>pyloric</i>	Zool.	जठरनिर्गमी	pyramidal tract	पिरैमिडी तंत्रिकाशिक
<i>pyloric caecum</i>		जठरनिर्गमी अंधनाल	pyramidal neuron	
<i>pyloric chamber</i>		जठरनिर्गमी कक्ष		

pyramid of the first order		प्रथम बर्षी पिरॅमिड	Pyrometer	Geog	पाइरजियोमीटर
pyramid of the second order		द्वितीय बर्षी पिरॅमिड	Pyrgo	Geol	पिर्गो
pyramid shaped		पिरॅमिडी आकृतिक	Pyrogocystis	Geol.	पिर्गोसिस्टिस
pyran	Chem	पाइरॅन	Pyrheliometer	Geog, Phy	सूर्य-निर्वाकरण मापी
pyranometer	Phy., Geog.	पाइरॅनोमीटर	Pyribenzamine	Chem.	पाइरिबेन्झामीन
pyranose	Chem.	पाइरॅनोस	Pyribole	Geol	पाइरीबोल
pyranose form		पाइरॅनोस रूप	Pyric climax	Bot	आग्नेय चरम
pyranosidic form	Chem.	पाइरॅनोसिडिक रूप	Pyridazine	Chem	पिरिडैजीन
pyranthrone	Chem.	पाइरॅन्थोन	Pyridine	Chem.	पिरिडीन
pyrarenyte	Geol.	डबलरेणुकायम, पाइरॅरेनाइट	Pyridine method		पाइरीडीन विधि
pyrargyrite	Geol.	पाइराजिराइट	Pyridine nucleotide		पिरिडीन न्यूक्लियोटाइड
pyrazinamide	Chem.	पाइरैजिनेमाइड	Pyridinium	Chem.	पिरिडीनियम
pyrazoline	Chem.	पाइरैजोलीन	Pyridoln	Chem	पिरिडॉलिन
pyrazolone	Chem	पाइरैजोलीन	pyridoxal	Chem., H Sc.	पिरिडॉक्सल
pyrene	Bot, Chem.	1. गुडली 2. पाइरीन	pyridoxamine	H.Sc.	पिरिडॉक्समिनीन
pyrenean wool	H Sc.	पिरेनियार्ड ऊन	pyridoxic acid	Chem	पिरिडॉक्सिक अम्ल
pyrene extinguisher	Chem	अग्निशासक	Pyridoxine	Zool, H Sc	पाइरिडॉक्सिन
pyreneite	Geol	पाइरीनाइट	Pyridyl	Chem.	पिरीडिल
pyrenocarp	Bot.	पाइरीनोकार्प	Pyriform	Botol	नाखरूप
Pyrenocarpeae		पाइरीनोकार्पी	Pyriform appendage		नाखरूप अनुबन्ध
pyrenoid		पाइरीनॉइड	pyriform cement gland		नाखरूप श्लेथ ग्रन्थि
Pyrenomycetes		पाइरोनोमाइसिटीज	pyriform gland		नाखरूप ग्रन्थि
pyrenone	Chem.	पाइरेनोन	pyriform organ		नाखरूप अंग
Pyrenophora teres	Bot.	पाइरीनोफोरा टेरीज	pyriform sac		नाखरूप कोष
pyrenophore	Zool.	अष्टिघर	Pyrilla	Zool.	पाइरिला
pyrenosome	Zool	अष्टिनाथ	pyrimidine	Chem.	पिरिमिडीन
Pyrenulaceae	Bot.	पाइरीनुलेसी	pyrimidine feeding		पिरिमिडीन भक्षण
Pyrenulales		पाइरीनुलेसीज	pyrite	Chem., Geol	मांसिक, पाइराइट
Pyrenula nitida		पाइरीनुला निटिडा	pyrite burner		मांसिक-ज्वालक
pyrethrin	Chem.	पाइरेथ्रिन	pyritic		पाइराइटी, मांसिकी
pyrethrum	Chem.	पाइरेथम	pyritic smelting		पाइराइटी प्रगलन, मांसिक प्रगलन
pyrethrum spray		पाइरेथम फुहार	pyritiferous	Geol.	मांसिकमय
pyrex	H Sc.	पाइरेक्स	pyritization	Geol	पाइराइटीभवन, मांसिकीभवन
pyrex glass	Chem.	पाइरेक्स काच	pyritohedral	Geol.	पाइराइटभवनकी



pyritology	Geol.	मासिक विज्ञान, मासिकिकी	pyroelectric region		ताप-विद्युत् प्रदेश
Pymont water	Chem.	पायरमॉन्ट जल	pyroelectric sphere		ताप-विद्युत् गोला
pyroantimonate	Chem.	पाइरो-ऐन्टिमोनेट	pyroelectric vector		ताप-विद्युत् सदिश
pyroantimonie		पाइरो-ऐन्टिमोनिक	pyrofax	Chem. (Met.)	पायरोफैक्स
pyroantimonous		पाइरोऐन्टिमोनस	pyrofuming sulfuric acid	Chem.	पाइरोसल्फ्यूरिक अम्ल
pyroarsenate	Chem.	पाइरोआर्सनिटे	pyrogallate		पाइरोगैलेट
pyroarsenic acid		पाइरोआर्सनिक अम्ल, पाइरोआर्सनिक ऐसिड	pyrogallol	Chem.	पाइरोगैलोल
pyrobelonite	Geol.	पाइरोबेलोनाइट	pyrogelite	Geol.	पाइरोजेलीट
pyrobitumen	Chem.	पायरोबिटूमिन	pyrogenetic	Geol.	अग्निजात
pyrobituminous		ताप विटूमिनो	pyrogenic	Geol.	उत्तापजनिक, अग्निजनिक
pyrobraze	Chem. (Met.)	पायरोब्रेज	pyrogenic ore deposit		अग्निजनिक अवस्क निक्षेप
pyrocatechol	Bot., Chem.	पाइरोकैटीचोल	pyrogenous	Chem. (Plastics), Geol.	1. उत्तापज 2. आग्नेय
pyrocatechol violet		पायरोकैटीचोल वायोलेट, पाइरोकैटीचोल लाम्ब	pyrognostics	Geol.	ज्वालना लक्षण
pyrochemical	Chem.	उत्ताप-रासायनिक	pyrographitic acid	Chem.	पाइरोग्रेफिटिक अम्ल
pyrochlore	Chem.	पाइरोक्लोर	pyroheliometer	Geol.	सूर्य विकिरणमापी
pyrochroite	Chem.	पाइरोक्रॉइट	pyrolan	Chem.	पाइरोलान
pyroclast	Geol., Geog.	ज्वलखंडाग्न, पाइरोक्लास्ट	pyroligneous acid	Chem.	पाइरोलिग्नेयस अम्ल, पाइरोलिग्नेयस ऐसिड
pyroclastic	Geog., Geol.	ज्वलखंडाग्नी, पाइरोक्लास्टी	pyrolignite	Geol.	पाइरोलिग्नाइट
pyroclastic accumulation		पाइरोक्लास्टी संचय	pyrolite	Geol.	पाइरोलाइट
pyroclastic activity		ज्वलखंडाग्नी सक्रियता	pyrolith	Geol.	ज्वलारन
pyroclastic cones		ज्वलखंडाग्नी शंकु	pyrolock	Chem.	पायरोलॉक
pyroclastic rock		पाइरोक्लास्टी शैल, ज्वलखंडारनी शैल	pyrolusite	Geol.	पाइरोलुसाइट
pyrocryalline	Geol.	मैग्माक्रिस्टलीय, पाइरोक्रिस्टलीय	pyrolutite	Geol.	ज्वलपंकारन
pyrocystis	Zool., Geog.	पाइरोसिस्टिस, नावबुटी	pyrolysis	Chem.	ताप-अपघटन, तापानलन
pyrocystis type		नावबुटी प्ररूप	pyromagma	Geol., Geog.	उत्तापमैग्मा
pyroelectric bodies	Math., Phy., Geol.	ताप-विद्युत् पिंड	pyromagnetic	Geol.	तापचुंबकीय
pyroelectric crystal		ताप-विद्युत् क्रिस्टल	pyromellitic acid	Chem.	पायरोमेलिटिक अम्ल
pyroelectric effect		ताप-विद्युत् प्रभाव	pyromeride	Geol.	पाइरोमेरिड
pyroelectricity	Phy.	तापविद्युत्	pyrometallurgy	Chem., Geol.	ताप-धातुकर्म
pyroelectric phase		ताप विद्युत् प्रावस्था	pyrometamorphism	Geog., Geol.	उत्तापकायांतरण
			pyrometasomatic	Geol.	ताप तत्वांतरणी
			pyrometer		उत्तापमापी

pyrometric cone equivalent		उत्ताप मापी शकु तुल्याक	<i>Pyrosoma spinosum</i>	Zool.	पाइरोसोमा स्पाइनोसम
pyrometry	Phy.	उत्तापमिति	Pyrosomida	Zool.	पाइरोसोमिडा
pyromic	Chem. (Met)	पाइरोमिक	Pyrosomidae	Zool.	पाइरोसोमिडी
pyromike	Chem (Met.)	पाइरोमाइक	pyrosphere	Geol., Phy	उत्तापमंडल
pyromilitic acid	Chem.	पाइरोमिलिटिक अम्ल	pyrostibnite	Geol.	पाइरोस्टिब्नाइट
pyromolybdate	Chem	पाइरोमोलिब्डेट	prostilpnite	Chem	पाइरोस्टिल्पनाइट
pyromorphism	Geol	उत्ताप बायांतरण	Pyrostremma	Zool	पाइरोस्ट्रेमा
pyromorphite	Geol	पाइरोमॉर्फाइट	pyrosulfuryl	Chem.	पाइरोसल्फ्यूरिल
pyrone	Chem	पाइरोन	pyrosulphate	Chem.	पाइरोसल्फेट
<i>Pyronema omphalodes</i>	Bot.	पाइरोनीमा ओम्फैलोडीज	pyrosulphate fusion		पाइरोसल्फेट गलन
pyronene	Chem.	पाइरोनीन	pyrosulphite		पाइरोसल्फाइट
pyroninophil	Zool.	पाइरोनिनरसगी	pyrosulphuric chloride		पाइरोसल्फ्यूरिक क्लोराइड
pyroninophilic cells		पाइरोनिनरसगी कोशिका	pyrotechnics	Phy., Chem.	आतिशबाजी, अग्निक्रीडा
pyrope	Geol.	पाइरोप	pyrovanadate	Chem	पाइरोवैनेडेट
pyrophanite	Geol.	पाइरोफॅनाइट	pyrovanadic acid		पाइरोवैनेडिक अम्ल, पाइरोवैनेडिक ऐसिड
pyrophilous	Bot.	दग्ध संज्ञ रोगी	pyroxene	Chem.	पाइरॉक्सीन
pyrophone		पाइरोफोन	pyroxene gneiss		पाइरॉक्सीन नाइस
pyrophoric	Chem.	स्वत ज्वलनशील	pyroxene granulites		पाइरॉक्सीन कणिकाश्म
pyrophoric lead		स्वत. ज्वलनी सीसा	pyroxenite		पाइरॉक्सीनराइट
Pyrophorus	Zool.	पाइरोफोरस	pyroxene	Geol.	पाइरॉक्सीन
pyrophosphate	Chem	पाइरोफॉस्फेट	pyroxmangite		पाइरॉक्सीनमेगाइट
pyrophosphatic acid		पाइरो फॉस्फेटिक अम्ल	pyroxylin	Geog., H.Sc.	पाइरॉक्सीलिन
pyrophosphite		पाइरोफॉस्फाइट	pyroxylin-coated fabric		पाइरॉक्सीलिन लेपित वस्त्र
pyrophosphorous acid		पाइरोफॉस्फोरस अम्ल	pyroxylene	Geog.	पाइरॉक्सीलिन
		पाइरोफॉस्फोरम ऐसिड	pyrrhic	Bot.	अग्नि सन्धी
pyrophosphoryl chloride		पाइरोफॉस्फोरिल क्लोराइड	pyrrhosiderite	Geol.	पिरोसिडेराइट
pyrophyllite	Geol	पाइरोफ्लाइटाइट	Pyrrhosorus	Bot	पाइरोसोरस
pyroprocessing	Chem.	उत्ताप प्रक्रमण	pyrrhotine	Geol.	पिरोटाइन
pyroradyte	Geol.	ज्वलनगुटिकाश्म	pyrrhotite	Geol.	पिरोटाइट
pyros	Chem. (Met.)	पाइरोस	pyrrol	Chem.	पिरोल
pyroschist	Geol.	पाइरोसिस्ट	pyrrole		पिरोल
Pyrosoma	Zool.	पाइरोसोमा	pyrrolidine		पिरोलिडीन
			pyrrolidone		पिरोलिडोन
			pyrrolin		पिरोलीन
			pyromycenone	Chem.	पाइरोमाइसिनोन

pyrromycin	Chem.	पाइरोमाइसिन	Pythagoras mass	Chem.	पाइथेगोरस संहति
pyrophyll	Bot.	पाइरोफिल	Pythiogeton transversum	Bot.	पिथिओजेटॉन ट्रान्सवर्सम
Pyrus communis	Bot.	पाइरस कम्यूनिस	Pythium disease	Bot.	पिथियम रोग
Pyrus malus		पाइरस मॅलस (सेब)	Python	Zool.	पाइथन (अजगर)
pyruvaldehyde	Chem.	पाइरूवैल्डिहाइड	Python molurus		पाइथन मोलुरस
pyruvate	Chem.	पाइरूवेट	Pythonomorpha	Zool.	पाइथोनोमॉर्फा
pyruvic acid		पाइरूविक अम्ल, पाइरूविक एसिड	Pyuridae	Zool.	पाइयूरिडी
pyrvinium chloride	Chem.	पिरविनियम क्लोराइड	Pyxicola	Zool.	पिक्सीकोला
pyrylium compound		पाइरिलियम यौगिक	*Pyxis	Astron.	पिक्सिस

## Q

Q-aerial	Phy.	Q-ऐन्टेना	quadrangular prism	Math.	चतुर्भुजो त्रिज्म
Q-branch	Phy.	Q-शाखा, शून्य शाखा	quadrant	Math., Phy., Geol.	1. चतुर्थांश 2. (of a circle) वृत्त पाद
Q.E.D.	Math.	इति सिद्धम्	quadrantal component	Phy.	वृत्तपादीय घटक
Q-factor	Phy.	Q-लक्षणार्क, Q-गुणांक	quadrantal error		वृत्तपादीय त्रुटि
Q-joints	Geol.	Q-संघि	quadrantal pendulum		वृत्तपादीय लोलक
qouz	Geog.	कोज, बालू-टिब्बा	quadrant electrometer	Phy.	वृत्तपादविद्युत्मापी, क्वाड्रैन्ट इलेक्ट्रोमीटर
quad	Math.	वर्ग कोष्ठिका	quadrastpidiotus	Zool.	क्वाड्रैस्पिडिओटस
quad-demy	Geog.	क्वाड-डिमाई	quadrat	Bot., Math.	वर्ग जालिका, क्वाड्रेट
quad-demy offset machine		क्वाड-डिमाई ऑफसेट मशीन	quadrata	Zool.	हनुसंधिका, क्वाड्रेट
quad-demy size		क्वाड-डिमाई साइज	quadratfrei number	Math.	अवर्गभाज्य संख्या
quadrable function	Math.	क्षेत्रकलनीय फलन	quadratic	Math.	1. वर्ग 2. द्विघात
quadrangle	Math.	चतुष्कोण		Geol.	3. द्विसमलंबाक्ष द्विघात लागत
quadrangle axiom		चतुष्कोण-अभिगृहीत	quadratic cost		
quadrangle sheet		चतुष्कोण-शीट, चतुष्कोण पत्रक			

quadratic cost function	द्विघात लागत फलन	quadratic term	द्विघाती पद
quadratic crystal	द्विमूलद्राव्य निस्टल	quadratic Zeeman effect	द्विघाती जेमान प्रभाव
quadratic curve	द्विघात वक्र	quadratojugal	<i>Zool</i> हनुमधिगडिका, क्वाड्रेटोजुगल
quadratic dependence	द्विघातीय आश्रितता	quadrature	<i>Math</i> क्षेत्रफलन
quadratic differential	द्विघात अवकल	quadrature component	<i>Geol</i> समकोणिक घटक
quadratic differential form	द्विघात अवकल समघात	quadrature formula	क्षेत्रफलन-सूत्र
quadratic effect	द्विघात प्रभाव	quadrature of circle	<i>Math.</i> वृत्त का वर्गकरण
quadratic equation	द्विघात समीकरण	quadrature of moon	<i>Geog.</i> चन्द्र समकोणस्थिति
quadratic expression	द्विघात व्यञ्जक	quadrature operation	समकोणिक प्रचालन
quadratic extension	द्विघात विस्तार	quadrel	<i>Chem</i> चौकोर, चतुष्क
quadratic factor algorithm	द्विघात खंड कलन-विधि	quadrennial synod	<i>Geog.</i> चतुर्वापिक धर्म-सभा
quadratic field	द्विघात क्षेत्र	quadribasic	<i>Chem</i> चतु सारक्षीय, चतु बेमिक
quadratic form	द्विघाती समघात	quadric	<i>Math.</i> द्विघाती, द्विघात
quadratic function	द्विघाती फलन, द्विघाती फंक्शन	quadricapsular	<i>Bot</i> चतु सपुटी
quadratic functional	द्विघात फलनक	quadriciceps	<i>Zool.</i> चतु शिरस्क
quadratic hyper-surface	द्विघात ऊनविम पृष्ठ	quadriciliated	<i>Bot</i> चतुष्पदमाभिक
quadratic integral form	द्विघात समाकल समघात	quadricolumella	<i>Bot</i> क्वाड्रीकालुमेला
quadratic interpolation	द्विघात अतवेशन	quadricovalent	<i>Chem.</i> चतु सहसयोनी
quadratic mean	द्विघाती माध्य	quadric surface of deformation	<i>Math</i> विरूपण का द्विघात पृष्ठ
quadratic objective function	द्विघाती उद्देश्य फलन	quadridentate	<i>Chem, Zool.</i> चतु दन्तुर, चतुर्दन्त
quadratic plate	<i>Chem.</i> चतुष्कोणीय प्लेट, चतुष्कोणीय पट्टिका	quadridentate pedicellaria	चतुर्दन्त बृन्तपद
quadratic production function	द्विघात उत्पादन फलन	quadridentate skeleton	<i>Chem.</i> चतु दन्तुर कंकाल, चतुष्पूरक कंकाल
quadratic programming	द्विघात प्रोग्रामन	quadrifarious	<i>Bot.</i> चतुष्पक्षिक
quadratic reciprocity law	द्विघात व्युत्क्रमणीयता-नियम	quadrified	<i>Geol</i> चतुर्भाजित
quadratic residue	द्विघाती अवशेष	quadrifilar	<i>Geol</i> चतुस्तनुक
quadratic response	द्विघाती अनुक्रिया	quadriflagellate	<i>Zool</i> चतुष्कशाभी
quadratic Stark effect	द्विघात स्टार्क प्रभाव	quadriflorus	<i>Bot.</i> चतुष्पुष्पी
quadratic surd	द्विघात करणी	quadrifolium	<i>Geog., Bot</i> चतुष्पत्रिय
quadratic surface	द्विघाती पृष्ठ	quadrifolius	चतुष्पत्रि
		quadrifurcate	<i>Bot.</i> चतुर्शाखित
		quadrilateral	<i>Math</i> चतुर्भुज
		quadrinomials	<i>Bot.</i> चतुष्पुटी
		quadrinuclear	<i>Chem</i> चतुर्नाभिकीय, चतुर्भुजनीय

quadriucleate	Zool.	चतुष्केन्द्रक	quadrupole band	Phy.	चतुर्ध्रुवी बैंड
quadriucleate spore		चतुष्केन्द्रक बीजाणु	quadrupole moment		चतुर्ध्रुव-आघूर्ण
quadripartite hinge	Geol.	चतुर्भागी हिस्स	quadrupole moment tensor		चतुर्ध्रुव आघूर्ण प्रदिश
quadripartite membrane	Zool.	चतुर्भागी कला	quadrupole radiation		चतुर्ध्रुवी विकिरण
quadripartite mouth		चतुर्भागी मुख	quadrupole strength		चतुर्ध्रुव सामर्थ्य
quadripartitioning	Bot.	चतुष्पटीभवन	quagmire	Geog.	दलदल, क्वागमायर
quadripedal	Zool.	चतुष्पादी	quail	Zool.	बटेर, बतक
quadriphyllons	Bot.	चतुष्पर्णी	quaint pattern	H.Sc.	अनोखा नमूना
quadripinnate	Bot.	चतुष्पिच्छकी	quaker babbler	Zool.	क्वेकर बैस्टर, प्रकम्पी केचपचिया
quadripinnatifid		दीर्घचतुष्पिच्छकी	quaking bog	Geog., Geol.	कंपी दलदल
quadripod beacon	Geog.	क्वाड्रीपोड बीकन	quaking grass		कंपी-घास
quadripoise	Phy.	चतुर्ध्रुवी	qualified component	Phy.	योग्य घटक
(= quadrupole)			qualimeter	Chem.	क्वालीमीटर
quadripolar sexuality	Bot.	चतुर्ध्रुवी लैंगिकता	qualitative	Chem., H.Sc.	गुणात्मक
quadripolar species		चतुर्ध्रुवी जाति	qualitative analysis		गुणात्मक विश्लेषण
quadripleoar spindle		चतुर्ध्रुवी तर्कु	qualitative character		गुणात्मक लक्षण
quadrupole radiation	Phy.	चतुर्ध्रुवी विकिरण	qualitative composition		गुणात्मक संघटन
quadriradiate	Zool.	चतुररीय	qualitative features		गुणात्मक लक्षण
quadriradiate pelvis	Zool.	चतुररीय श्रोणि	qualitative indentification		गुणात्मक अभिनिर्धारण
quadriscutate	Bot.	चतुर्वंमं	qualitative laws		गुणात्मक नियम
quadritubercular	Zool.	चतुर्गुलिक	quality	Math., H.Sc.	गुण, गुणता
quadrivalence	Chem.	चतुःसंयोजकता	quality characteristic		गुणता-अभिलक्षण
quadrivalent		चतुःसंयोजक	quality control		गुणता-नियन्त्रण
quadrivoltine	Zool.	चतुष्प्रज	quality decision	Math.	गुणता निर्णय
quadroon	Geog.	चतुर्भंग-संकर	quality factor		गुणता कारक
quadrolus	Zool.	क्वाड्रुलस	quality-history record		गुणता-इतिहास अभिलेख
quadruped	Zool.	चतुष्पाद, चौपाया	quality improvement		गुणता सुधार
quadrupedal movement	Geog.	चतुष्पादी संचलन	quality level		गुणता स्तर
quadruple	Chem.	चतुः, चतुर्गुण	quality of conformance		अनुसृत्यता गुणता
quadruple crossover	Zool.	चतुर्गुण विनिमय	quality of mutability	Geog.	उत्परिवर्तनशीलता-गुण
quadruple integral		चतुर्गुण समाकल	quality of service		सेवाई की गुणता
quadruple link		चतुर्गुण बंध	quality of sound	Phy.	ध्वनि का स्वरूप
quadruple point	Math.	चतुष्क बिन्दु	quality product	Geog.	उत्कृष्ट पदार्थ
quadruple stain		चतुष्कानिर्जक			
quadruplet	Phy.	चतुष्क			
quadruplex	Chem.	चतुःस्तर			
quadrupole	Chem., Phy.	चतुर्ध्रुवी			

quality protection		गुणता रक्षा
quality rating		गुणता-क्रम निर्धारण
quality specification		गुणता विनिर्देश
quality standard		गुणता मानक
quality value		गुणता मान
quality variation		गुणता विचरण
<i>Quamoclit punnata</i>	<i>Bot</i>	क्वामोक्विलट पिन्नेटा
quanta	<i>Phy</i>	क्वान्टम
quantal	<i>Phy.</i>	क्वान्टमी
quantal response	<i>Math.</i>	द्विविक्ली अनुक्रिया
quantasome	<i>Bot.</i>	क्वान्टामोम
quantic	<i>Math</i>	समघाती
quantification	<i>Math</i>	प्रमातीकरण
quantile	<i>Math</i>	विभाजक
quantisation	<i>Phy</i>	1 क्वान्टमीकरण, क्वान्टमन 2. राशिकरण
quantisation of charge	<i>Math</i>	आवेश का प्रमातीकरण
quantisation of electromagnetic field		विद्युत्-चुम्बकीय क्षेत्र का क्वान्टमीकरण
quantised orbit	<i>Phy.</i>	क्वान्टित कक्षा
quantised state		क्वान्टित अवस्था
quantitative	<i>Geog., Chem., H.Sc</i>	मात्रात्मक, परिमाणत्मक
quantitative acidity		मात्रात्मक अम्लता
quantitative character		मात्रात्मक लक्षण
quantitative computation		मात्रात्मक परिकलन
quantitative chemical analysis		मात्रात्मक रासायनिक विश्लेषण
quantitative dot-map		मात्रात्मक बिन्दु मानचित्र
quantitative estimate		मात्रात्मक आकलन
quantitative geography		मात्रात्मक भूगोल
quantitative histochemistry		मात्रात्मक ऊतक रसायन
quantitative inheritance		मात्रात्मक वंशाणुति
quantitative law		मात्रात्मक नियम

quantitatively	<i>Chem.</i>	मात्रात्मकतः, मात्रात्मकतः
quantitative outcome		मात्रात्मक घटना
quantitative radar observation		मात्रात्मक रेडार प्रेक्षण
quantitative response		मात्रात्मक अनुक्रिया
quantitative system		मात्रा पद्धति, परिमाण पद्धति
quantity	<i>Chem., H.Sc, Math.</i>	1. मात्रा, परिमाण 2. राशि
quantity discount		मात्रा मित्रीकाटा
quantity elasticities		मात्रा लोच
quantity relative		मात्रानुपात
quantized molecule	<i>Chem., Phy</i>	क्वान्टित अणु
quantized rotation		क्वान्टित घूर्णन
quantizing error		क्वान्टीकरण त्रुटि
quantometer	<i>Chem</i>	क्वान्टिमपी
quantum	<i>Phy.</i>	क्वान्टम
quantum absorption		क्वान्टम अवशोषण
quantum condition		क्वान्टम प्रतिबंध
quantum counter		क्वान्टम गणित
quantum defect		क्वान्टम न्यूनता
quantum efficiency		क्वान्टम दक्षता
quantum electrodynamics	<i>Math</i>	प्रमात्रा विद्युत्चुम्बिकी
quantum field		क्वान्टम क्षेत्र
quantum function		क्वान्टम फलन, क्वान्टमी पदधान
quantum hypothesis		क्वान्टम परिकल्पना
quantum indices		क्वान्टम-सूचकांक
quantum jump		क्वान्टम कंठ
quantum laws		क्वान्टम नियम
quantum level		क्वान्टम स्तर
quantum liquid		क्वान्टम द्रव
quantum mechanical analogue		क्वान्टम यांत्रिकीय अनुरूप
quantum mechanical effect		क्वान्टम यांत्रिकीय प्रभाव
quantum-mechanical field theory		क्वान्टम यांत्रिकीय क्षेत्र सिद्धान्त

quantum mechanical oscillator		क्वान्टम यांत्रिकीय दोलित	quartan malaria		चतुर्थक मलेरिया
quantum mechanical theory		क्वान्टम यांत्रिकीय सिद्धान्त	quartation	Geol.	चतुर्थांशीकरण
quantum mechanics		क्वान्टम यांत्रिकी	quartef		चतुष्क
quantum number		क्वान्टम संख्या	quarter	Math. Geog.,H.Sc.	1. चतुर्थांश, चौथाई 2. क्वार्टर
quantum of action	Phy.	कर्म क्वान्टम	quarter cycle	Phy.	चतुर्थांश चक्र, चतुर्थांश आवर्तन
quantum optics		क्वान्टम प्रकाशिकी	quarter diurnal		चौथाई-दैनिक
quantum perturbation theory		क्वान्टम क्षोभ सिद्धान्त	quarter-inch map	Geog.	चौथाई-इंचो मानचित्र
quantum phenomenon		क्वान्टम परिघटना	quarter inch sheet		चौथाई इंच शीट
quantum physics		क्वान्टम भौतिकी	quartering	Geol.,Chem.	चतुर्थांशन
quantum postulate		क्वान्टम अविगृहीत	quartering process		चतुर्थांशन प्रक्रम
quantum reflection		क्वान्टमित परावर्तन	quartering sample		चतुर्थांशन प्रतिदर्श, चतुर्थांशन नमूना
quantum repulsive force		क्वान्टम प्रतिकर्षी बल	quaternary consumer	Zool.	चतुर्थक उपभोक्ता
quantum statistics		क्वान्टम सांख्यिकी	quaternary occupation	Geog.	चतुष्क व्यवसाय
quantum step	Phy.	क्वान्टम क्रम	quaternate	Bot.	चतुर्भागी
quantum theory		क्वान्टम-सिद्धान्त	quarter period	Math.	आवर्तक पाद, चतुर्थांश आवर्तकाल
quantum theory of specific heat		विशिष्ट ऊष्मा का क्वान्टम सिद्धान्त	quarter point	Math.	पाद बिन्दु
quantum weight		क्वान्टम भार	quarter-point veins		क्वार्टर प्वाइन्ट शिरा
quantum yield		क्वान्टमी लब्धि	quarter-wave antenna		चतुर्थांश तरंग ऐन्टेना
quaquaversal	Bot.,Geol.	सर्वतोनत, सर्वतोनतिक	quarter wave line		चतुर्थांश तरंग लाइन
quaquaversal fold		सर्वतोनतिक बलन, गुंबदी बलन	quarter wave plate		चतुर्थांश तरंग प्लेट, चतुर्थांश तरंग पट्टिका
quarantine	Zool.,H.Sc.	संगरोध, क्वारन्टाइन	quarter wave trans- former		चतुर्थांश तरंग ट्रांसफार्मर
quarfeloid	Geol.,Geog.	स्फटफेलायड	quartette (quartet)	Phy.	चतुष्क
quarry	Geol.,Geog.	खुली खान, खदान	quartic	Math.	चतुर्घाती
quarry-blasting		खदान विस्फोटन	quartic term		चतुर्घातीय पद
quarrying	Geol.	आखनन	quartile	Math.	चतुर्थक
quarry lode		खदान गिरानिक्षेप	quartile deviation		चतुर्थक विचलन
quarry-shop		खुली खान कर्मशाला	quartilide	Geog.	क्वार्टीलाइड, चतुर्थांश
quarry tile		खदान टाइल	quarto mill	Chem.	क्वार्टो मिल, चतुः बेल्लन मिल
quarry water		खदान जल	quartz	Geol.	स्फटिक, क्वार्ट्ज
quart	H.Sc.	क्वार्ट	β quartz	Geol.	β (बीटा) क्वार्ट्ज
quartan ague	Zool.	चतुर्थक शीतज्वर	quartz basalt		स्फटिक बेसाल्ट
quartan fever		चतुर्थक ज्वर			
quartan infection		चतुर्थक संक्रमण			

quartz boff		स्फटिक दृश्याश	quartz wedge		स्फटिक पन्नी
quartz crystal		स्फटिक क्रिस्टल, क्वार्ट्ज-क्रिस्टल	quartz window		स्फटिक-गवाक्ष, स्फटिक की खिड़की
quartz crystal clock		स्फटिक-क्रिस्टल घड़ी	quartz yata		क्वार्ट्ज सूत्र
quartz diabase		स्फटिक डायबेस	quasi-additive-theorem		योगकला प्रमेय
quartz diorite		स्फटिक-डायोराइट	quasiamorphons	<i>Chem.</i>	अक्रिस्टल बल्य
quartz dolerite		स्फटिक डोलराइट	quasi-analytic function	<i>Math.</i>	आविश्लेषिक फलन
quartz drift		स्फटिक ड्रिफ्ट	quasi-autotrophic	<i>Zool</i>	अश स्वपोषित
quartz electrode		स्फटिक इलेक्ट्रोड	quasi-barrelled space	<i>Math</i>	महलकबल्य समष्टि
quartz enchemise		तन्तुल स्फटिक	quasi-bedded ore formations	<i>Geol</i>	अर्धसंस्तरित अयस्क रचना
quartz felsite		स्फटिक फेल्साइट	quasi-binary	<i>Chem.</i>	द्वि अणुवत्
quartz fibre		स्फटिक तन्तु, क्वार्ट्ज तंतु	quasi-bound state	<i>Phy.</i>	बद्ध प्राय अवस्था
quartz gabbro		स्फटिक गैब्रो	quasichemical		अर्ध रासायनिक
quartz glass		स्फटिक-काच, क्वार्ट्ज काच	quasi-classical	<i>Chem.</i>	पुरासम्मान कल्प
quartz horizontal magnetometer		स्फटिक क्षैतिज चुम्बकत्वमापी	quasi-colloidal structure	<i>Geog</i>	अर्ध-कोलॉयडो संरचना
quartz hornfels		स्फटिक हॉर्नफेल्ट	quasi-compact cluster	<i>Math</i>	सङ्कतकल्प गुच्छ
quartzic		स्फटिकमय	quasi-complete space	<i>Math</i>	संपूर्णकल्प
quartziferous	<i>Geol</i>	स्फटिक धारी	quasi component	<i>Math.</i>	घटक-बल्य
quartzine	<i>Geol.</i>	क्वार्ट्जाइल	quasiconformal function	<i>Math.</i>	अनुकोणकल्प फलन
quartzite	<i>Geol.</i>	क्वार्ट्जाइल	quasiconformality	<i>Math.</i>	अनुकोणकल्पता
quartzitic		क्वार्ट्जाइली	quasicontinuous	<i>Phy, Math</i>	सततकल्प
quartz mining		क्वार्ट्ज खनन	quasi crystalline structure	<i>Chem.</i>	कल्प क्रिस्टल संरचना, आभासी क्रिस्टल संरचना
quartz norite		स्फटिक नोराइट	quasi dielectric	<i>Phy.</i>	दाइ इलेक्ट्रिक कल्प
quartzo feldspathic		स्फटिक फेल्सपारी	quasi-elastic force	<i>Math, Geog</i>	प्रत्यास्वकल्प बल
quartzoid	<i>Geol</i>	स्फटिकाम	quasi-elastic wave		प्रत्यास्व कल्प तरंग
quartz oscillator		स्फटिक दोलक, क्वार्ट्ज दोलक	quasi-endemic	<i>Zool.</i>	अंश-स्थानिक
quartzose	<i>Geol.</i>	स्फटिकमय, स्फटिकयुक्त	quasi-ergodic hypothesis	<i>Math.</i>	अभ्यतिप्राय कल्प परिकल्पना
quartzose sandstone		स्फटिक बानुकास्य	quasi-ergodic property		अभ्यतिप्रायकल्प गुणधर्म
quartzporphyry	<i>Geol., Geog.</i>	क्वार्ट्जपाकरी	quasi-eruptive prominence	<i>Math</i>	उद्भेदीकल्प सौर ज्वाल
quartz resonater		क्वार्ट्ज अनुनादक	quasi-exclave	<i>Geog.</i>	भूत बहिर्दोत्र
quartz schist		स्फटिक शिस्ट	quasi factorial design	<i>Math.</i>	उपादानादीनकल्प अभिनकल्पना
quartz spectrograph		स्फटिक-स्पेक्ट्रोग्राफी, क्वार्ट्ज स्पेक्ट्रोशाफ			
quartz-tube thermometer		स्फटिक नली धर्मापीटर			
quartz vein		स्फटिक शिरा			



quasi factorial experiment		उपादानीयकल्प प्रयोग	quasi-metrization theorem	Math.	दूरीकानकल्प प्रमेय
quasi field	Math.	क्षेत्रकल्प	quasi molecule	Phy.	अणुकल्प
quasi-fluid behaviour	Geog.	अर्ध-तरल आचरण	quasi-monotonic function	Math.	एकदिष्टकल्प फलन
quasi-fluxional arrangement	Geol.	अभिवाहीकल्प विन्यास	quasi-monotoniod function	Math.	एक दिष्टानकल्प फलन
quasi fossil	Geol.	आभासी जीवाश्म	quasi-norm	Math.	मानककल्प
quasi free conduction electron	Phy.	स्वतंत्र-कल्प चालक इलेक्ट्रॉन	quasi-one-dimensional motion	Math.	एकविमबत् गति
quasi-geostrophic	Geog.	भूविक्षेपी कल्प	quasi-parabolic case	Math.	परवल्यिककल्प स्थिति
quasi-hyperbolic case	Math.	अतिपरवल्यिककल्प स्थिति	quasi-parasitic	Zool.	अंश-परजीवी
quasi-hyperbolic geometry		अतिपरवल्यिककल्प ज्यामिति	quasi-particle	Math.	कणाम
quasi-hyperbolic region		अतिपरवल्यिककल्प प्रदेश	quasi periodic function	Math.	आवर्तककल्प फलन
quasi-independent ionic stage	Phy.	स्वतंत्रकल्प आयनी अवस्था	quasi-plastic fashion	Geol.	अर्धप्लास्टिकी विधा
quasi-infinite tide	Geog.	अपरिणितकल्प उवार-भाटा	quasi-precession	Math.	अवनकल्प
quasi-instruction	Phy.	आभासी अनुदेश	quasi-racemate	Chem.	अर्ध-रेसिमेट
quasi-integral of motion	Math.	गति का समाकलकल्प	quasi-random sampling	Math.	वास्तुच्छिककल्प प्रतिचयन
quasi-interior point	Math.	आन्तरिककल्प बिन्दु	quasi regular	Math.	नियमितकल्प
quasi-invariance	Math.	निश्चरताकल्प	quasi regularity		नियमितकल्पता
quasi-inverse	Math.	प्रतिलोमकल्प	quasi-resolvent	Math.	साधककल्प
quasi-latin square	Math.	लैटिनकल्प वर्ग	quasi-stable circuit	Phy.	स्थायीकल्प परिपथ
quasi lattice	Chem.	अर्धजालक	quasi-static	Phy., Math.	स्थैतिककल्प
quasi-level flight	Math.	क्षैतिजकल्प उड़ान	quasi-static frequency		स्थैतिककल्प आवृत्ति
quasi-linear constitutive equation	Math.	रैखिककल्प संरचक समीकरण	quasi-static process		स्थैतिककल्प प्रक्रम
quasilinear differential equation		रैखिककल्प अवकल समीकरण	quasi-static problem		स्थैतिककल्प समस्या
quasilinear function		रैखिककल्प फलन	quasi-static range		स्थैतिककल्प परिसर
quasi linearly disjoint extensions		रैखिककल्पतया विसंयुक्त विस्तार	quasi-stationary	Phy.	स्थिरकल्प
quasi maximally algebraic	Math.	अधिकतमकल्पतया बीजीय	quasi-stationary front		स्थिरकल्प अग्र
quasimetallic	Chem.	अर्ध धात्विक, धातुकल्प	quasi-stationary state	Chem.	स्थिरकल्प अवस्था
quasimetallic compounds		धातुकल्प यौगिक	quasi-steady current circuit	Math.	स्थायीकल्प धारा परिपथ
			quasi-steady flight		स्थायीकल्प उड़ान
			quasi-steady state		स्थायीकल्प दशा
			quasi-submanifold	Math.	उपप्रसमाष्टिककल्प
			quasi-ternary	Chem.	त्रिजंगी कल्प
			quasi theoretical	Chem.	अर्ध सैद्धान्तिक
			quasi-thermodynamic quantity	Chem.	अर्धगतिककल्प राशि

quasi-tidal effect	<i>Math.</i>	ज्वारीयकल्प प्रभाव	queen closer (brick work)	<i>Chem</i>	क्वीन क्लोजर, अद्दा लोढा
quasitopological result	<i>Math</i>	सांस्थितिककल्प परिणाम	Queen potentiometer		क्वीन का विभवमापी
quasi-tonnele space	<i>Math</i>	मडलककल्प समष्टि	queen silk	<i>H Sc.</i>	क्वीन रेशम
quasi transverse propagation	<i>Phy.</i>	अनुप्रस्थवत् संचरण	<i>Queletia mirabilis</i>	<i>Bot</i>	क्वेलेशिया मिरैविलिस
quasi-uniform	<i>Math</i>	एकसमानकल्प	queluzite	<i>Geol.</i>	क्वेलूझाइट
quasi-uniform field		एकसमानवल्प क्षेत्र	quench	<i>Chem.,Phy</i>	शमन करना
quasi-unimoleculer	<i>Chem.</i>	एकाधिकवत्	quench aging	<i>Chem (Met)</i>	शामक अधिकांश प्रभावण
quasi-unloading	<i>Math</i>	अभारणाशाम	quench and fracture test		शमनविभग निरूप
quasiviscous effects	<i>Chem</i>	श्यानवत् प्रभाव	quenched modification		शमित रूपांतरण
quasi-wall map	<i>Geog</i>	प्रायभित्ति मानचित्र	quenched spark		शमित स्फूर्तिग
quaternary	<i>Chem, Math</i>	1. चतुष्क 2. चतुर्थ	quencher	<i>Phy.</i>	शामक
Quaternary	<i>Geol.</i>	चतुर्थ महाकल्प	quencher molecule		शामक अणु
quaternary alloy		चतुष्क मिश्रधातु, चतुष्क एलाय	quench hardening		शमन कठोरण
quaternary ammonium		चतुष्क अमोनियम सवण	quenching	<i>Phy.</i>	शमन, बुझाना
quaternary compound		चतुष्क यौगिक	quenching agent		शामक कारक
Quaternary Era		चतुर्थ महाकल्प	quenching circuit		शामक परिपथ
quaternary fission	<i>Phy.</i>	चतुर्विखंडन	quenching constant		शमन-स्थिरांक, शमन स्थिर
quaternary steel		चतुष्क इस्पात	quenching cross section		शमन अनुप्रस्थ काट
Quaternary system		चतुर्थ महाकल्पों शील समूह	quenching efficiency		शमन दक्षता
quaternion	<i>Math.</i>	चतुष्टयी	quenching oil		शमन तैल
quaternion coefficient		चतुष्टयी गुणांक	quenching radius		शमन त्रिज्या
quaternion field		चतुष्टयी क्षेत्र	quenching stress		शमन प्रतिबल
quaternion group		चतुष्टयी समूह	quench probe unit		शमनअन्वेषी एकक
quaternion projective space		चतुष्टयी प्रक्षेपीय समष्टि	quench radiation	<i>Phy.</i>	शामक विकिरण
quaternion solution		चतुष्टयी हल	quench voltage		शामक वोल्टता
quaternulization (quaternarization)	<i>Chem.</i>	चतुष्पन	Quenouille's test	<i>Math.</i>	क्विनोयिले परिक्षण
quay	<i>Geog.</i>	घाट (अहाड़ी)	quenselite	<i>Geol</i>	क्वेन्सेलाइट
quebrachine	<i>Chem.</i>	कैब्रेचिन	quenstedtite	<i>Chem</i>	क्वेनस्टेडाइट
quebracho	<i>Chem, Geog, Geol.</i>	कैब्रेचो	quercetin	<i>Chem.</i>	क्वर्सिटिन
quebracho extract		कैब्रेचो निष्कर्ष	quercitol	<i>Chem</i>	क्वर्सिटॉल
quebracho-industry		कैब्रेचो उद्योग	quercitron	<i>Chem</i>	क्वर्सिट्रॉन
queen bee	<i>Zool.</i>	रानी मधिका	<i>Quercus macrocarpa</i>	<i>Bot, Geog.</i>	क्वेकॉस मैक्रोकार्पा
			<i>Quercus pedunculata</i>		क्वेकॉस पेडन्कुलाटा

<i>Quercus robur</i>		क्वेर्कस रोबर	quick set hedge	<i>Geog.</i>	आशुवर्षी वाड
<i>Quercus sessiliflora</i>		क्वेर्कस सेसिलीफ्लोरा	quick setting cement	<i>Geol.</i>	आशु दृढन सीमेंट, शीघ्र जमने वाला सीमेंट
<i>Quercus tinctoria</i>		क्वेर्कस टिक्टोरिया	quick setting plaster		आशु दृढन प्लास्टर
quercyite	<i>Geol.</i>	क्वेर्साइट	quick silver	<i>Geol.</i>	पारद, पारा
querecho	<i>Geog.</i>	केरेचो	quick silver vermillion	<i>Chem.</i> ( <i>Paint</i> )	पारद सिंदूर
query mark	<i>Geog.</i>	सन्देह चिह्न	quick vinegar process	<i>Chem.</i>	क्विक विनेगर प्रक्रम, त्वरित विनेगर प्रक्रम
questionnaire	<i>H.Sc., Math.</i>	प्रश्नावली	quiescent	<i>Geol.,Phy.</i>	शांत
queue discipline	<i>Math.</i>	पंक्ति अनुशासन	quiescent carrier		शांत वाहक
queue length		पंक्ति-लम्बाई	quiescent carrier modulation		शांत वाहक मॉड्युलन
queuing approach		पंक्ति-उपगमन	quiescent cell		प्रशांत कोशिका
queuing model		पंक्ति-निदर्श	quiescent mercury anode		शांत पारद ऐनोड
queuing operation		पंक्ति संक्रिया	quiescent neve		शांत नेवे
queuing problem		पंक्ति समस्या	quiescent period		शांतिकाल शांत काल,
queuing process		पंक्ति-प्रक्रम	quiescent point		शांत विन्दु
queuing situation		पंक्ति स्थिति	quiescent prominence		शांत सौरज्वाला
queuing system		पंक्ति प्रणाली	quiescent push pull amplifier		शांत कर्पापकर्पी प्रवर्धक
queuing theory		पंक्ति सिद्धांत	quiescent radio emission		शांत रेडियो-उत्सर्जन
quevenne scale	<i>Chem.</i>	क्वेवेन मापक्रम	quiescent stage		शांत अवस्था
quick-acting	<i>Phy.</i>	द्रुतकर्मी	quiescent value		शांत मान
quick drying	<i>Chem.</i> ( <i>Paint</i> )	आशु शुष्कन	quiescent volcano		शांत ज्वालामुखी
quickened physiological tempo	<i>Geog.</i>	त्वरित शरीरक्रियात्मक गति	quiet day	<i>Phy.</i>	शांत दिवस
quickening	<i>H.Sc.</i>	प्रथम गर्भस्पन्दन	quiet eruption	<i>Geol.</i>	शांत उद्गार
quick ground	<i>Geol.</i>	अदृढ़ भूमि	quieting systems	<i>Phy.</i>	चुपकारी तंत्र
quicking	<i>Chem.</i> ( <i>Met.</i> )	पारद क्षेपण	quiet noise	<i>Phy.</i>	अशुद्ध सूर्य रव (सीर)
quicklime	<i>Chem.,Geol.</i>	विनावुझा चूना, बरी का चूना	quiet pool	<i>Geog.</i>	शांत कुंड
quick look data	<i>Phy.</i>	द्रुत अवलोकन दत्त	quiet water		शांत जल
quick mix method	<i>Chem.</i> ( <i>Fat.</i> )	आशुमिश्र पद्धति, तुरन्त मिश्र पद्धति	quiled	<i>Geol. H.Sc.</i>	1. पंखलेखनी 2. कवीला
quick operation		द्रुत प्रचालन	quill	<i>Zool. Geog. H.Sc.</i>	जल 1. पंखलेखनी 2. क्विल
quick reaction capability		द्रुत प्रक्रिया क्षमता	<i>Quillaja saponaria</i>	<i>Bot.</i>	क्विलजा सैपोनेरिया
quick run record		द्रुत धाव रेकार्ड			
quick sand	<i>Geol.</i>	चोर रेत, बालुपंक			
quick sandy		चोररेतीला, बालु पंक			

quill feather	Zool	पंखपिच्छ	quinolinic acid	Chem	क्विनोलिनिक अम्ल, क्विनोलिनिक ऐमिड
quilling	H.Sc.	कवीलन	quinolinium	Chem.	क्विनोलिनियम
quill lettering	Geog.	पखलेखनी अक्षराकन	quinolizidine	Chem	क्विनोलिक्विडीन
quillo	H.Sc.	कवीलो	quinon		क्विनोन
quill pen	Geog.	पखलेखनी, क्विल-पैन	quinoid form	Chem.	क्विनोनॉइड रूप
quilot	H.Sc.	कवीलॉट	quinoid structure		क्विनोनॉइड संरचना
quilt	H.Sc.	रजाई	quinovic acid	Chem	क्विनोविक अम्ल
quilt-maker		रजाई रचयिता	quinoxaline	Chem	क्विनोक्सीनोन
quinacrine	Chem.	क्विनैक्वीन	quinquannolate	Zool.	पंचबलय
quinaldinate	Chem	क्विनैल्डिनेट	quinque	Bot	पंच
quinaldine	Chem.	क्विनैल्डीन	quinquedentate	Zool	पंचदंत
quinaldinered		क्विनैल्डीन रेड, रक्त क्विनैल्डीन रक्त	quinquedentate pedicellaria		पंचदंत वृत्तपद
quinaldinic acid		क्विनैल्डिनिक अम्ल, क्विनैल्डिनिक ऐसिड	quinquefarious	Bot	पंचपत्रिक
quinalizarin	Chem.	क्विनैलज़ारिन	quinquefolius	Bot	पंचपर्णी
quinapyramine (antrycide)	Chem	क्विनैप्राइरमीन	quinquelocular	Bot, Geol.	पंचकोष्ठकी
quinary	Bot	पंचभागी	quinqueloculine	Geol	पंचकोष्ठकी
quinary system	Chem.	पंचांगी तन्त्र, पंचांगी प्रणाली	quinquephenyl	Chem	पंच फेनिल, क्विक्वुफेनिल
quinazoline	Chem	क्विनैज़ोलीन	quinquereme	Geog.	पंचपनवार नौका
quince		क्विन्स	quinque-tubercular	Zool	पंचगुनिक
quincunial	Bot.	पंचकी	quinquevalence	Chem	पंचसंयोजकता
quincunx	Bot.	क्विनक्वक्स, पंचक	quinquevalent		पंचसंयोजक
quincunxial arrangement	Zool.	पंचकोणी विन्यास	quinquinerrous venation	Bot	शिंशुपंचकी विन्यास
quincunxial pattern		पंचकोणी प्रतिरूप	quinta	Geog.	क्विन्टा
quinhydrone		क्विनहाइड्रोन	quintal	Geol	क्विन्टल
quinhydrone electrode		क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड	quintet	Phy.	पंचक
quinic acid	Chem	क्विनिक अम्ल	quintile	Math.	पंचमक
quinicine	Chem.	क्विनिक्वीन	quintuple effect	Chem. (Food)	पंचगुण प्रभाव
quinine		क्विनिन	quintuple point	Chem	पंचगुण बिंदु
quinizaric	Chem.	क्विनिज़रिक	quintuplet	Math	पंचक
quinol	Chem	क्विनॉल	quinoclodane	Chem	क्विन्यूक्विनोडीन
quinolate	Chem.	क्विनोलेट	quirogite	Geol.	क्विरोज़ाइट
quinol dimethyl ether		क्विनॉल डाइमैथिल ईथर	Quisqualis Indica	Bot.	क्विस्कालिग इंडिका
quinoilae	Bot., Chem.	क्यूनीलिन	quitenine	Chem	क्विटैनीन
			quivering (qv)	Zool.	कम्पमान (कंप)

quograph	<i>Geog.</i>	क्वोग्राफ	quotient mapping		विभाग-प्रतिचित्रण
quoin	<i>Geog.</i>	काइन	quotient of ideals in a ring		बलय में गुणजावलियों का भागफल
quota method	<i>Math.</i>	नियतमात्रात्मक विधि	quotient of similarity		तुल्यता भागफल
quota sample		नियतमात्रात्मक प्रतिदर्श	quotient ring		विभाग बलय
quota sampling		नियतमात्रात्मक प्रतिचयन	quotient ring w.r.t. a multiplicative system		गुणनात्मक निकाय के सापेक्ष विभाग-बलय
quotation	<i>Math.</i>	निवेदित दर, निवेदित मूल्य	quotient ring w.r.t. a prime ideal		व्यक्त्य गुणजावली के सापेक्ष विभाग बलय
quotation mark	<i>Geog.</i>	उद्धरण चिह्न	quotient set		विभाग समुच्चय
quotidian infection	<i>Zool.</i>	दैनिक संक्रमण	quotient space		विभाग समष्टि
quotient	<i>Math.</i>	1. भागफल 2. विभाग	quotient theorem		भागफल प्रमेय
quotient-difference algorithm		विभाग अंतर कलन विधि	quotient topology		विभाग संस्थिति
quotient field		विभाग क्षेत्र	quarer	<i>Geog.</i>	व्यूरर
quotient group		विभाग समूह	Q value	<i>Phy.</i>	Q मान
quotient ideal		विभाग गुणजावली	Q <sub>10</sub> value	<i>Bot.</i>	Q <sub>10</sub> मान
quotient law		भागफल-नियम			
quotient law for tensors		प्रद्विश भागफल नियम			

## R

rabanna	<i>H.Sc.</i>	रैवाना	rabbling (or racking)		रैबलन
rabbit	<i>Zool.</i>	खरगोश, शशक	rabdionite	<i>Geol.</i>	रैडियोनाइट
rabbit (=shuttle)	<i>Phy.</i>	रैबिट, शटल	rabies vaccine	<i>Zool.</i>	बलर्क टीका, रैबीज टीका
rabbit flea	<i>Zool.</i>	शशक पिण्ड, शशक पिन्सू	rabies virus		बलर्क विषाणु, रैबीज वाइरस
rabbit hair		शशक रोम	Racah parameter	<i>Chem.</i>	राका पैरामीटर, राका प्राचल
rabbit papilloma virus	<i>Zool.</i>	शशक पिप्पलावृद्ध विषाणु, शशक पैपिलोमा वाइरस	raccoon	<i>Geog., Zool.</i>	रैकून, वृक्षक
rabbit-skin blanket		शशक-चर्म कम्बल	raccroc stitch	<i>H.Sc.</i>	रैकरॉक टांका
rabbit stick		खरगोश छड़ी	race	<i>Geog.</i> <i>H.Sc.</i>	1. प्रजाति 2. दौड़ 3. रैस
rabble	<i>Chem., Geol.</i>	रैबल	race consciousness		प्रजाति चेतना

race course	<i>Geog.</i>	घुड़दौड़ मैदान, रेसकोर्स	R-acid	<i>Chem.</i>	R (धार) अम्ल
racemate		रेसिमेट	racioes	<i>H Sc.</i>	रेसोन्स
raceme	<i>Bot.</i>	असीमाश	rack	<i>Chem.</i> ( <i>Pet</i> ) <i>H Sc.</i>	प्रचयती
racemic		रेसिमिक	rack and pinion		दतुर दड-चक्र, रैक-पिनियन
racemic acid		रेसिमिक अम्ल, रेसिमिक ऐमिड	rackarock	<i>Chem.</i>	रैकरॉक
racemic form		रेसिमिक रूप	racking pipe	<i>Chem</i> ( <i>Pet</i> )	प्रचयन नाल
racemiferous	<i>Bot.</i>	असीमाशघर	rack stitch	<i>H Sc.</i>	रैक स्टिच
racemisation		रेसिमोकरण	racon (radar beacon)	<i>Phy.</i>	रेकन, रेडार बीकन
racemorphan	<i>Chem</i>	रेसीमॉर्फिन	rad	<i>Zool, Phy.</i>	रेड
racemose	<i>Bot, Chem</i> <i>Zool.</i>	असीमाशी शाखगुच्छाभ	radar	<i>Phy., Geol.,</i> <i>Geog</i>	रेडार
racemose gland (alveolar gland)		शाखगुच्छाभ ग्रथि • (बूपिका ग्रथि)	radar altimetry		रेडार तुंगतामापिकी
racemosus	<i>Bot</i>	असीमाशी	radar astronomy		रेडार खगोलिकी
racemule		असीमाशक	radar balloon		रेडार बैलून
racemus	<i>Chem</i>	रेसिमम	radar beacon (=racon)		रेकन, रेडार बीकन
race track	<i>Phy</i>	प्रघात पथ	radar blip		रेडार ब्लिप
Rachianectes		रैकियनेक्टोइड	radar camouflage		रेडार छे नियोपन
Rachiglossa	<i>Zool</i>	रैकीग्लोसा	radar charts		रेडार चार्ट
rachiglossate radula	<i>Zool</i>	रैकीग्लोसाई रेनीजिह्वा	radar coastal picture		रेडारी तट चित्र
rachilla	<i>Bot</i>	रैचिना	radar dish		रेडार डिश
rachion	<i>Bot</i>	रैचियन	radar display room		रेडार प्रदर्शक कक्ष
rachus	<i>Zool</i>	रैचिस, प्रास	radar echo		रेडार प्रतिध्वनि
Rachitomi	<i>Zool.</i>	रैकोटोमी	radar equation		रेडार समीकरण
rachitinous (temnos- pondylous)	<i>Zool</i>	अयुक्तक शोष्कीय	radar fix		रेडारी स्थान निर्धारण
racial adaptation		प्रजातीय अनुकूलन	radar gun Lying		रेडारी गोप नियंत्रण
racial composition		प्रजातीय संगठन	radar heating		रेडार-तापन
racial cycle		प्रजाति चक्र	radar homing		रेडार अभिलक्षण
racial development		प्रजातीय विकास	radar information centre		रेडार प्रदर्शक कक्ष
racial geography		प्रजाति भूगोल	radar magnetron		रेडार मैग्नेट्रॉन
racial group		प्रजाति वर्ग	radar meteorology		रेडार मौसम-विज्ञान
racial map		प्रजाति मानचित्र	radar mosaics		रेडार मोडेक, रेडार बुट्टिम चित्र
racial mixture		प्रजातीय सम्मिश्रण	radar navigation		रेडार संचालन
racial origin		प्रजातीय उद्गम			
racial purity		प्रजातीय शुद्धता			
racial stock		प्रजातीय प्रभव			

radar navigation aid		रेडार संचालन सहाय	radial chamberlet		अरीय कक्षिका
radar operator		रेडार प्रचालक	radial concentric pattern		अरीय संकेन्द्रीय प्रतिरूप
radar performance figure		रेडार निष्पादन गुणांक	radial consequent valley system		अरीय अनुवर्ती घाटी तंत्र
radar prism		रेडार प्रिज्म	radial cross vein		रेडियल अनुप्रस्थ शिरा, अरीय अनुप्रस्थ शिरा
radar problem		रेडार समस्या	radial crystallization		अरीय क्रिस्टलन
radar scope		रेडार दर्शी	radial density distribution		त्रिज्या-घनत्व वितरण
radar screen picture		रेडार पटचित्र	radial distance		त्रिज्य दूरी
radar surveillance		रेडार चौकसी	radial distortion		अरीय विरूपण
radar wind (radwin) (=radar balloon)		रेडार बैलून	radial distribution method		अरीय वितरण पद्धति, अरीय विभाजन पद्धति
radectomy	H.Sc.	दन्तमूलोच्छेदन	radial drainage		अरीय अपवाह
Rademacher function	Math.	राडेमाखर-फलन	radial driller		त्रिज्य वेधित्र
Rademacher's theorem		राडेमाखर-प्रमेय	radial driller machine		त्रिज्य वेधन यंत्र
radener	H.Sc.	रैडेनर	radiale	Zool.	बहिःमणिवर्धिका, रेडिएली
Radenthein process	Chem.	रेडेन्थिन प्रक्रम	radial force		अरीय बल
radia	H.Sc.	रेडिया	radial groove		अरीय खाँचा
radial	Phy.	रेडियोऐक्टिविटी मापन	radial epidermal fibre		अरीय अधिचर्म तंतु
radial (instrument)	Phy.	रेडिएक (यंत्र), रेडियोऐक्टिविटी मापित्र	radial equation		त्रिज्य समीकरण
radial	Geog., Biol., Geol. Math. H.Sc., Zool.	अरीय त्रिज्य रेडियल, बहिः- प्रकोष्ठिक	radial flow		त्रिज्य प्रवाह
radial acceleration		त्रिज्य त्वरण	radial focusing		त्रिज्य फोकसन
radial alar prolon- gation		अरीय पक्षक दीर्घण	radial furrow		अरीय खातिका
radial ambulacral vessel		अरीय वीथि वाहिका	radial graph		त्रिज्य ग्राफ, अरीय ग्राफ
radial artery		बहिःप्रकोष्ठिक धमनी	radial haemal sinus		अरीय हीमल कोटर
radial assumption		अरीय पूर्वधारण	radial highway		अरीय महामार्ग
radial astigmatism	Phy.	त्रियेक अविन्दुकता	radiality		अरीयता
radial bar		अरीय दंड	radial kernel		त्रिज्य कर्ण
radial bone		बहिःप्रकोष्ठिका, रेडियल	radial line method		अरीय रेखा त्रिधि
radial brace		अरीय बंध	radial-line plotting		त्रिज्यरेखा आलेखन
radial boulevard		अरीय मुख्यमार्ग	radially symmetrical		त्रिज्यतः सममित, अरतः सममित
radial bundle		त्रिज्य पूल	radial movement		अरीय संचलन
radial canal		अरीय नाल	radial muscle		अरीय पेशी
			radial pentagon		अरीय पंचभुज

radial perihæmal canal		अरीय परिस्थिर नाल	radiant shield		विकिरण परिरक्षक
radial perihæmal vessel		अरीय परिस्थिर वाहिका	Radiata	Zool.	रेडिएटा (अरक)
radial plot method		अरीय आलेख विधि	radiate	Phy.	विकिरण करना, विकिरण होना
radial pore canal		अरीय रंध्रनाल	radiated	Phy, Bot, Geol	विकीर्ण, विकिरित
radial pressure gradient		त्रिज्य दाब-प्रवणता	radiated field		विकिरित क्षेत्र
radial quantum number		त्रिज्य क्वाण्टम संख्या	radiated pyrite		विकिरित पायराइट
radial rift		अरीय विदार	radiate stigma		अरीय बन्तिकाष्ठ
radial route		अरीय मार्ग	radiating		विकिरणकारी
radial sector		रेडियल सेक्टर	radiating atom		विकिरणकारी परमाणु
radial septal filament		अरीय पटतनु	radiating dipole		विकिरणकारी द्विध्रुव
radial shield		अरीय झाल	radiating dyke	Geol	अरीय भित्ति, अरीय डाइक
radial slit		त्रिज्य रेखाच्छिद्र	radiating fibril	Zool.	अरीय तंतुक
radial spherulith		अरीय स्फैरोलिय	radiating line		अरीय रेखा
radial strain		त्रिज्य विकृति	radiating power		विकिरण क्षमता
radial street		अरीय सड़क	radiation	Phy.	विकिरण
radial styloid process		अरीय बन्तिकाष्ठ प्रवर्ध	radiation annealing		विकिरण तापानुशीतन, विकिरण अर्नातन
radial symmetry		अरीय सममिति	radiation balance		विकिरण समुतन
radial tentacle		अरीय स्पर्शक	radiation catalysis		विकिरण-उत्प्रेरण
radial time base		त्रिज्य समयधार	radiation chemistry		विकिरण रसायन
radial trunkline		अरीय तृणलाइन	radiation condition		विकिरण प्रतिबंध
radial vane		त्रिज्य पद्य	radiation constant		विकिरण स्थिरांक
radial variance		त्रिज्य प्रसरण	radiation correction		विकिरण शोधन
radial wave function		त्रिज्य तरंग फलन	radiation damage		विकिरण क्षति
radian	Math.	रेडियन	radiation damage method		विकिरण-क्षति विधि
radial	Geol	रेडियनल	radiation damping		विकिरण अवमंदन
radian measure		रेडियन माप	radiation detection		विकिरण समूचन
radiant	Phy.	विकिरणी, विकिरण	radiation detector		विकिरण समूचक
radiant energy		विकिरण ऊर्जा	radiation effect		विकिरण प्रभाव
radiant flux		विकिरण प्लवङ्ग	radiation equipment		विकिरण उपकरण
radiant flux density		विकिरण अतिवाह घनत्व, विकिरण प्लवङ्ग घनत्व	radiation field		विकिरण क्षेत्र
radiant heat		विकिरण-ऊष्मा	radiation fog		विकिरण कुहुरा
radiant heating		विकिरण तापन	radiation free space		विकिरण-विहीन जाफाज
radiant matter		विकिरणी द्रव्य	radiation growth		विकिरण प्ररोहण
			radiation hardening		विकिरण कठोरण



radiation impedance	विकिरण प्रतिवाधा	radiative energy loss	ऊर्जा की विकिरणी-हानि
radiation inactivation	विकिरण-निष्क्रियता	radiative envelope	विकिरणी आवरण
radiation induced cancer	विकिरण-प्रेरित कैंसर	radiative equilibrium	विकिरणी सन्तुलन
radiation length	विकिरण दैर्घ्यं	radiative gradient	विकिरणी प्रवणता
radiation-less decomposition	विकिरणहीन अपघटन	radiative recombination	विकिरणी पुनर्योजन
radiationless transition	विकिरणहीन संक्रमण	radiative transfer	विकिरणी स्थानांतरण
radiationless transition probability	विकिरणहीन संक्रमण प्रायिकता	radiator	<i>Phy.</i> विकिरक, रेडियेटर
radiation logging	विकिरण संलेखन	radiator foil	रेडियेटर पर्णिका
radiation maze	विकिरण जाल	radiatus	<i>Bot.</i> विकीर्ण
radiation microsurgery	विकिरण शल्यकर्म	radical	<i>Bot.</i> मूलजाभासी, मूलज करणी <i>Math.</i> मूलक <i>Chem.</i> मूलक
radiation minimum temperature	न्यूनतम विकिरण-ताप	radical axis	<i>Math.</i> मूलाक्ष
radiation monitor	विकिरण मॉनिटर	radical centre	मूलाक्ष-केन्द्र
radiation night	विकिरण रात्रि	radical-chain mechanism	मूल-शृंखला क्रियाविधि
radiation potential	विकिरण विभव	radical deduction	मूल निगमन
radiation pressure	विकिरण दाब	radical dimer	मूलक द्वितीय, मूलक द्विलक
radiation process	विकिरण प्रक्रम	radical hyperplane	मूल ऊनविम समतल
radiation protection	विकिरण सुरक्षा	radical-inhibitor product	मूलक निरोधी उत्पाद
radiation pyrometer	विकिरण उतापमापी	radical of an ideal	गुणजावली की करणी
radiation pyrometry	विकिरण उतापमिति	radical of a ring	वलय की करणी
radiation reaction	विकिरण प्रतिक्रिया	radical of a submodule	उपप्रतिरूपक की करणी
radiation resistance	विकिरण प्रतिरोध	radical plane	मूल समतल
radiation sensitivity	विकिरण संवेदनशीलता	radical scavenger	मूलक समाजक
radiation sickness	विकिरण व्याधि	radical sign	करणी चिह्न
radiation survey	विकिरण सर्वेक्षण	radical trapping	मूलक विपाशन
radiation temperature	विकिरण-ताप	radical yield	मूलक लब्धि
radiation therapy	विकिरण चिकित्सा	radication	<i>Bot.</i> मूलन
radiation thermometer	विकिरण तापमापी	radicellose	<i>Bot.</i> मूलाभासयुक्त
radiation trap	विकिरण ट्रैप, विकिरण पाश	radicicolous	<i>Bot.</i> मूलवासी
radiation width (=particle width)	<i>Phy.</i> कणीय प्रसर (=विकिरणी प्रसर)	radicivorous	<i>Zool.</i> मूलाहारी
radiative	विकिरणी	radicle	<i>Bot.,H.Sc.</i> मूलांकुर
radiative capture	विकिरणी प्रग्रहण	radicolous (=radicicolous)	<i>Zool.</i> मूलवासी
radiative collision	विकिरण संघट्ट	radicular	<i>Geol.</i> मूलवत्
radiative decay	विकिरणी क्षय		

radicular cirrus	Zool.	मूलाकुटीय कुरल	radioactive family	रेडियोऐक्टिव कुल
radicular end		मूलाकुटी मिरा	radioactive intensity	रेडियोऐक्टिव तीव्रता
radiculiformis	Bot.	मूलाकुररूपी	radioactive series	रेडियोऐक्टिव श्रृंखला (= रेडियोऐक्टिव श्रेणी)
Radiigera	Bot.	रेडिगेरा	radioactive source	रेडियोऐक्टिव स्रोत
radio	Phy., H. Sc.	(n.) रेडियो (adj) 1. रेडियो- 2 रेडियोऐक्टिव, विघटनात्मिक, विकिरणी	radioactive tracer	रेडियोऐक्टिव अनुसाराक
radio acoustic sound ranging	Phy.	रेडियो ध्वानिक-ध्वनि परामन	radioactive waste	विघटनात्मिक अपशिष्ट, रेडियोधर्मो अपशिष्ट
radioactinium	Phy.	रेडियोऐक्टिनियम	radioactivity	विघटनात्मिकता, रेडियोऐक्टिवता
radioactivation analysis	Phy.	विकिरण सक्रियण विश्लेषण, सक्रियण विश्लेषण	radioactivity anomaly	रेडियोऐक्टिवता अमपति
radioactive		विघटनात्मिक, रेडियोऐक्टिव	radioactivity log	रेडियोऐक्टिवता लॉग, रेडियोसक्रियता सलेख
radioactive age		विघटनात्मिक	radioactivity logging	रेडियोऐक्टिवता सलेखन
radioactive carbon		विघटनात्मिक कार्बन	radioactivity standard	रेडियोऐक्टिवता मानक
radioactive chain		रेडियोऐक्टिव श्रृंखला	radio altimeter	रेडियो तुंगतामापी
radioactive clathrate		विघटनात्मिक क्लैथ्रेट	radio amateur	रेडियो अम्यदमापी
radioactive clock		रेडियोऐक्टिव वयमापी	radio assaying	विकिरण-आमगन
radioactive concentration		रेडियोऐक्टिव सांद्रता	radio astronomy	रेडियो खगोलिकी
radioactive constant		रेडियोऐक्टिव स्थिरांक	radio autograph	विकिरणमन्त्रिय स्वचित्र
radioactive containment		रेडियोऐक्टिव सरोधन, विकिरण सक्रिय सरोधन	radioautography	विकिरणमन्त्रिय स्वचित्रण
radioactive daughter		रेडियोऐक्टिव प्रभूत	radio autopilot coupler	रेडियो ऑटोपिलाइन्ट सुग्मक
radioactive daughter isotope		रेडियोऐक्टिव प्रभूत समस्थानिक	radio balloon	रेडियो बैलून
radioactive decay		रेडियोऐक्टिव क्षय	radio bearing	रेडियो दिग्मान
radioactive decay series		रेडियोऐक्टिव श्रृंखला	radio bearing instal- lation	रेडियो दिग्मान स्थापन
radioactive dis- equilibrium		विघटनात्मिक अमनुजन	radioblateral sym- metry	Zool. अरीक-द्विपार्श्व सममिति
radioactive disintegration		रेडियोऐक्टिव विघटन	radiobiological toxicity	Phy. रेडियोमैत्रिक वायिधानुजा
radioactive disintegration series		रेडियोऐक्टिव विघटन श्रेणी	radiobiologist	Zool. विकिरणजोषविज्ञानी
radioactive equilibrium		रेडियोऐक्टिव साम्यावस्था	radiobiology	Zool. विकिरण-जैविकी
			radio buoy	रेडियो प्लाव
			radiocarbon dating	रेडियोकार्बन- कालनिर्धारण
			radiocentric plan	रेडियोकेन्द्री योजना
			radiochemical purity	रेडियो रासायनी शुद्धता
			radiochemical method	रेडियो रासायनिक विधि

radio-chemistry		विघटनामिक-रसायन, रेडिय सक्रिय रसायन, रेडिय-रसायन	radiogenic lead	रेडिय सक्रियता- जन्य सीसा
radiocolloid		रेडिय सक्रिय कोलाइड, रेडियो कोलाइड	radiogeology	रेडियो-भूविज्ञान
radio deception		रेडियो वंचना	radiogoniometer	रेडियो कोणमापी
radio doppler		रेडियो डॉपलर	radiogram	<i>Phy., Chem., H.Sc.</i> , 1. रेडियोग्राम, रेडियो तार 2. रेडियम चित्र
radio echo observa- tion		रेडियो-प्रतिध्वनि-प्रेक्षण	radiograph	<i>Phy.</i> रेडियो ग्राफ, विकिरण चित्र
radioecology		विकिरण पारिस्थिति की	radiographic contrast	विकिरण लेखी वैषम्य, रेडियोग्राफी वैषम्य
radio element		रेडियोऐक्टिव तत्व	radiography	विकिरणी चित्रण
radio facility chart		रेडियो सुविधा चाटें	radio-haloes	रेडियो परिवेज
radio fadeout		रेडियो. परिमंदन	radio interferometer	रेडियो व्यतिकरणमापी
radio field intensity		रेडियोक्षेत्र की तीव्रता	radioiodine	रेडियोऐक्टिव आयोडीन
radio fix		रेडियो स्थान निर्धारण	radioisotope	रेडियो बाइसोटोप, विकिरण समस्थानिक
radiofluorite	<i>Geol.</i>	रेडियोफ्लूओराइट	radioisotopic generator	विकिरण समस्थानिक जनित, रेडियो बाइसोटोपिक जनित
radio frequency		रेडियो-आवृत्ति	radio isotopic purity	रेडियो बाइसोटोपीय शुद्धता, विकिरण समस्थानिकी शुद्धता
radio frequency bridge		रेडियो आवृत्ति-संतु	Radiolaria	<i>Zool., Geol., Geog.</i> रेडियोदेरिया
radio frequency oscillator		रेडियो आवृत्ति दोलित	Radiolaria content	रेडियोलेरिया अंश
radio frequency power		रेडियो आवृत्ति शक्ति	radiolarian earth	रेडियोलेरीय मृदा
radio frequency ripple		रेडियो आवृत्ति ऊर्मि	radiolarian jasper	रेडियोलेरीय जैस्पर
radio frequency spectrometer		रेडियो-आवृत्ति स्केट्रममापी, रेडियो- आवृत्ति स्केट्रोमीटर	radiolarian ooze	रेडियोलेरीय निषक
radio frequency spectroscopy (= nuclear magne- tic resonance spectroscopy)		रेडियो-आवृत्ति स्केट्रमिकी, न्यूक्लीय चुंबकीय अनुनाद स्केट्रमिकी	radiolarian shell	रेडियोलेरीय कवच
radio frequency spectrum	<i>Phy.</i>	रेडियो आवृत्ति स्केट्रम	radiolarite	<i>Geol.</i> रेडियोलेराइट
radio frequency transparent		रेडियो आवृत्ति पारगामी	radiole	<i>Geol.</i> रेडियोल
radio frequency welding		रेडियोआवृत्ति संघनन, रेडियोआवृत्ति वेल्डन	radiolead	रेडियोऐक्टिव सीसा
radiogenic		रेडियो ऐक्टिवताजन्य, रेडियसक्रियताजन्य	radio lesion	<i>Chem.</i> विकिरण विक्षत
radiogenic isotope		रेडियनक्रियताजन्य समस्थानिक	radio listening survey	<i>Math.</i> रेडियो श्रवण सर्वेक्षण
			Radiolites	<i>Geol.</i> रेडियोलाइटोज
			<i>Radiolites angeiodes</i>	रेडियोलाइटोज ऐन्जियोडीज
			radiolitic	<i>Geol.</i> रेडियोलाइटो
			radiolocation	<i>Phy., Geol.</i> रेडियो स्थान निर्धारण
			radiological	<i>Phy.</i> एकमिकिरण विकिरणसामक विकिरण विकिरणसामक

radiological methods of detection	<i>Chem.</i>	वैकिरणकी अभिज्ञान पद्धति	radiometry	<i>Phy.</i>	विकिरणमिति
radiological weapon		रेडियोऐक्टिव अस्त्र	radiomicrography		विकिरण सूक्ष्म लेखन
radiologist		विकिरण चिकित्सक, एक्सकिरण-चिकित्सक	radiomicrometer	<i>Chem., Phy.</i>	सूक्ष्मविकिरणमापी
radiology		विकिरण चिकित्सा विज्ञान, ऐक्सकिरण चिकित्सा विज्ञान, विकिरणकी	radiomimetic	<i>Chem.</i>	विकिरण अनुहारी
radio luminescence		विकिरण सदीप्ति	radionavigation	<i>Phy., Geog.</i>	रेडियो संचालन
radiolysis		विकिरण अपघटन	radionavigation facility		रेडियो संचालन सुविधा
radiolytic behavior		विकिरण-अपघटनो आचरण, विकिरण-आशिक आचरण	radio network		रेडियो जाल
radiolytic equilibrium		विकिरण-अपघटनी साम्य	radio noise		रेडियो रव
radiolytic synthesis		विकिरण अपघटित संश्लेषण	radio nucleus		रेडियोऐक्टिव न्यूक्लियस रेडियोनाभिक
radio magnetic indicator		रेडियो चुंबकीय सूचक	radio nuclide		रेडियोऐक्टिव न्यूक्लाइड
radio mast (= antenna tower)		रेडियो मस्तूल, ऐन्टेना स्तम्भ	radio optical range		रेडियो का प्रकाशीय परास
radio-medial cross vein	<i>Zool.</i>	रेडियोमीडियल क्रॉस वेन, अरीय-माध्यस्थ अनुप्रस्थ शिरा	radiopaque	<i>Chem.</i>	विकिरण अपार्य
radiometal	<i>Chem.</i>	रेडियोमेटल, रेडियोधातु	radio pasturization		रेडियो-प्रास्तुरीकरण
radio metallography	<i>Phy, Geol.</i>	किरण धातुचित्रना विज्ञान	radiophoto		रेडियोफोटो
radio meteor	<i>Geol.</i>	रेडियो उल्का	radiophoto luminescence		रेडियो भा-सदीप्ति
radio meteorograph		रेडियो मौसमलेखी	radiophyllite	<i>Geol.</i>	रेडियोफलाइनाइट
radiometer	<i>Chem, Phy, Geog.</i>	विकिरणमापी, रेडियोमीटर	radio picture		रेडियो चित्र
radiometer effect		विकिरणमापी प्रभाव, रेडियो मीटरो प्रभाव,	radio probings		रेडियो परीक्षण
radio method		रेडियो विधि	radio propagation	<i>Geol, Geog.</i>	रेडियो संचरण
radiometric analysis		रेडियोऐक्टिवतामापिक विश्लेषण	radio range (=radio range beacon)	<i>Phy, Geog.</i>	रेडियो पराम बीकन
radiometric gauge		प्रतिक्षेप निम्नदात्रमापी	radio range beacon		रेडियो पराम बीकन
radiometric magnitude		विकिरणमापीय कार्तिमान	radio range leg		रेडियो पराम चरण
radiometric relation		विकिरणमापीय संबंध	radio receiver		रेडियो अभिग्राहित
radiometric survey		विकिरणमिदिक सर्वेक्षण	radioresistance	<i>Phy.</i>	विकिरण प्रतिरोध
radiometric technique		विकिरणमितीय तपनीक, विकिरणमितीय प्रविधि	radlosa	<i>Zool.</i>	रेडियोसा, अरपादास
			radioscope		रेडियोऐक्टिवतादर्शी
			radioscopy	<i>Chem.</i>	रेडियोदर्शिता
			radio-sensitive		विकिरण-सवेदी
			radiosensitivity	<i>Chem.</i>	रेडियो सुधाहिता
			radio series	<i>Phy.</i>	रेडियोऐक्टिव श्रेणी
			radio signal		रेडियो सिग्नल, रेडियो संकेत

radio signal strength		रेडियो संकेत प्रबलता	radish mosaic		मूली किर्मीर, मूली मोड़ेक
radio-sondage	<i>Geog.</i>	रेडियो सॉन्डेज	radish white rust		मूली का श्वेत किट्ट
radiosperm	<i>Bot.</i>	रेडियोस्पर्म	radium	<i>Chem.,Phy., H.Sc.</i>	रेडियम
radiospermic	<i>Bot.</i>	त्रिज्यबीजी	radium emanation		रेडियम-प्रसर्ग, रेडॉन
radiospermy		त्रिज्यबीजता	radium paint		रेडियम-पेन्ट
radio star		रेडियो तारक, रेडियो तारा	radium therapy		रेडियम चिकित्सा
radiostrontium	<i>H.Sc.</i>	रेडियोस्ट्रॉनशियम	radius	<i>Math. Zool.,H.Sc.</i>	त्रिज्या 1. (vein) रेडियस 2. (bone) वहिः- प्रकोष्ठिका, रेडियस
radiosynthesis	<i>Chem.</i>	रेडियो संश्लेषण	radius distribution		त्रिज्या-वंटन
radio technique		रेडियो तकनीक	radius map		त्रिज्या मानचित्र
radiotechnology	<i>Chem.</i>	रेडियोलॉजी	radius of convergence		व्यतिरिक्त त्रिज्या
radio telegraphy	<i>Phy.</i>	रेडियो-तार संचार	radius of curvature		वक्रता त्रिज्या
radio telephone		रेडियो-टेलीफोन	radius of gyration		परिभ्रमण त्रिज्या
radio telephony		रेडियो टेलीफोनी	radius of inversion		प्रतिलोमन त्रिज्या
radio telerecording seismograph		रेडियो दूरामिलेखन भूकंपलेखी	radius of molecular attraction		वाणविक आकर्षण की त्रिज्या
radiotellurium	<i>Chem.</i>	रेडियो टेलूरियम	radius of reciprocation		व्युत्क्रमण-त्रिज्या
radio temperature	<i>Math.</i>	रेडियोमितीय ताप.	radius of rotation		घूर्णन-त्रिज्या
radio-thallium	<i>Phy.</i>	रेडियोऐक्टिव-थैलियम	radius of torsion		व्यावर्तन त्रिज्या
radiotherapeutic technique	<i>Chem. (Met.)</i>	विकिरणचिकित्सीय तकनीक, विकिरण- चिकित्सीय प्रविधि	radius of universe		त्रिज्य-त्रिज्या
radiotherapy	<i>Phy.</i>	विकिरण चिकित्सा	radius vector	<i>Math.</i>	ध्रुवांतर, ध्रुवांतर रेखा
radiothorium	<i>Phy.</i>	रेडियोथोरियम	radius chifion	<i>H.Sc.</i>	रेडियवत्त शिफॉन
radio transmission		रेडियो प्रेषण, रेडियोसंचरण	radvection	<i>Chem. (Met.)</i>	विकिर-संचहन
radio transmitter		रेडियो प्रेषक	radix	<i>Math.</i>	मूलांक
radio-ulna	<i>Zool.,H.Sc.</i>	अंतःग्रहिःप्रकोष्ठिका, रेडियो-अलना	radix of notation		संकेतन-मूलांक
radio-ulnar		अन्तराप्रकोष्ठिका, रेडियोअलनर	radix point		मूलांक, मूलांक बिन्दु
radio-ulnar joint		अन्तराप्रकोष्ठिका सन्धि, रेडियोअलनर सन्धि	radnor cloth	<i>H.Sc.</i>	रेडनॉर वस्त्र
radio waves	<i>Phy.</i>	रेडियो-तरंग	radome (radar dome)	<i>Phy.</i>	रेडॉम
radio welding		रेडियो-संधान	radon	<i>Phy.,Geol.</i>	रेडॉन
radio whistle		रेडियो सीटी	radon leakage		रेडॉन क्षरण
radio wind flight (=radio balloon)		रेडियो बैनून	Radon Nikodym derivative	<i>Math.</i>	राडॉन-निकोडिम अवकलज
radish	<i>H.Sc.</i>	मूली	Radon-Nikodym theorem		राडॉन-निकोडिम-प्रमेय

radula	<i>Zool, Bot, Geol</i>	रेतीजिह्वा, रेडुला, घर्षित्र	rales ultimes line (R. U. line)	<i>Chem</i>	दीर्घस्वामी रेखा
radular	<i>Zool</i>	रेतीजिह्वा, घर्षित्र	Ralidae	<i>Zool</i>	राइडी
radula sac		रेतीजिह्वाकोष, रेडुलाकोश	railan	<i>H Sc.</i>	रेलान
radula spore	<i>Bot.</i>	रेडुला बीजाणु	rail grizzly	<i>Geol</i>	रेल पिडली
Radolum	<i>Bot.</i>	रेडुलम	railhead	<i>Geog</i>	रेलपर्वन्त
rafaelite	<i>Geol.</i>	रैफेलाइट	rail mill	<i>Chem</i>	रेल मिल
Rafalson method	<i>Math.</i>	रेफैलसन-विधि	rail riffle	<i>Geol</i>	रेल रिफल
raffinate	<i>Chem.</i>	रेफिनेट	railroad		रेलमार्ग
raffia fabric		रैफया वस्त्र	railroad ballast		रेलमार्ग-गिट्टी
Raffinesquina	<i>Geol.</i>	रैफिनेस्क्वीना	railroad canvas	<i>H.Sc</i>	रेलरोड कैनवास
<i>Raffinesquina alternata</i>		रैफिनेस्क्वीना ऐल्टरनेटा	rail road map	<i>Geog</i>	रेलमानचित्र
raffinose	<i>Bot</i>	रैफिनोस	rail type launcher	<i>Phy.</i>	रेल मोचित्र
raft	<i>Zool., Geol, Geog.</i>	1. चाटी 2. रैफट	railway	<i>Geog</i>	रेलमार्ग, रेलवे, रेल
rafted ice		रैफट बर्फ	railway creeper		रेलवे क्रीपर
rafting		रैफ्टिंग	railway enclosure		रेलवे अहाता
raft lake		चाटी झील	railway ferry		रेलवे फेरी
raft like canoe		चाटी सदृश्य कानू	railway gauge		रेलवे गेज
rag	<i>H Sc.</i>	घोर	Railway map of India		भारत का रेलवे मानचित्र
rag (ragstone)	<i>Geog.</i>	रैग, रैगस्टोन	railway out-agency		रेलवे बाह्य एजेंसी
ragbag	<i>H Sc.</i>	बैला	railway station		रेलवे स्टेशन
ragged picture	<i>Phy.</i>	जर्जरित चित्र	railway terminus	<i>Geog.</i>	अन्तिम स्टेशन
ragging	<i>Geol</i>	रैगिंग	railway town		रेलवे टाउन
ragging of rolls	<i>Chem. (Met.)</i>	घैल्लन मरक्षण	railway tunnel		रेलवे सुरंग
raglan	<i>H Sc.</i>	रैगलन	raiment	<i>Geog, H Sc.</i>	परिधान, वस्त्र
raglan cord		रैगलन डोरी	raimondite	<i>Chem, Bot, Geol.</i>	रायमन्डाइट
raglan sleeve		रैगलन आस्तीन	rain		बर्षा
raglanite	<i>Geol.</i>	रैग्लेनाइट	rainband	<i>Geog.</i>	रेनबैंड
Ragmus	<i>Zool.</i>	रैगमस	rain bearing		बर्षा धारी
rag paper	<i>Chem.</i>	सक्त कागज, चिपडा कागज	rain bearing cloud		बर्षा धारी मेघ
rag pulp	<i>Chem.</i>	सक्त लुग्दी, चिपडा पल्प	rain bearing wind		बर्षा-धारी पवन
rag rug	<i>H.Sc.</i>	घोर रग	rainbow	<i>Geog., Phy.</i>	इन्द्र घनूप
raider	<i>Geog</i>	आनामारु	rainbow chalcidony		इन्द्रघनूपी कैल्सेडोनी
			rainbow effect		इन्द्रघनूपी प्रभाव
			rainbow sardine	<i>Zool</i>	फोन्डन, टोकी
			rain channel		बर्षा प्रवाह
			raincoat	<i>H.Sc.</i>	बरसाती

rain day		वर्षा दिन	rainy zone		वृष्टिमय क्षेत्र
rain drop		वर्षा बिन्दु	raise (mining)	<i>Geol.</i>	रेज
raindrop impression		वर्षा-बिन्दु छाप, वर्षा बिन्दु चिह्न	raised	<i>Geog., Geol.</i>	उत्थित
Rainey corpuscle	<i>Zool.</i>	रेनी कणिका	raised beach		उत्थित पुलिन
rainfall		वृष्टि, वर्षा	raised bog		उत्थित दलदल
rainfall abnormality		वर्षा-अपसामान्यता	raised causeway		उत्थित काजवे
rainfall break		वर्षा अंतराल	raised crossing		उत्थित क्रॉसिंग
rainfall map		वर्षा-मानचित्र	raised dwelling		उत्थित गृह
rainfall variable		वर्षा चर	raised moss		उत्थित भाँस
rain forest		वर्षा-प्रचुर वन	raisin	<i>H.Sc.</i>	किशमिश
rain gauge		वर्षामापी, वृष्टिमापी	raising	<i>Chem. (Text.)</i>	1. संफुल्लन 2. रंजकक्षेपण
rain imprints		वर्षा-चिह्न	raising agent	<i>H.Sc.</i>	फूलाने वाला,
rain-intensity gradients		वर्षा-तीव्रता प्रवणता	raising factor	<i>Math.</i>	वर्धक गुणक
rain lahar		वर्षा लाहार	rake	<i>Geol. Chem. Geog.</i>	1. अवनमन 2. रेकन, पांचा करना 3. रेक
rain maker		वर्षा उत्पादक	rake classifier	<i>Geol.</i>	रेक वर्गीकर
rain-making		वर्षा उत्पादन	raked	<i>Phy.</i>	नत
rain physics		वर्षा भौतिकी	Rakel's metal	<i>Chem.</i>	रैकल धातु
rain pillar		वर्षा स्तंभ	rake vein	<i>Geol.</i>	अवनमित झिरा
rain pittings		वर्षा गर्त	Rakhmatulin's wave	<i>Math.</i>	रखमतुलीन-तरंग
rain print		वर्षा चिह्न	Rala process	<i>Chem. (Nucl.)</i>	रैले (रेडियम लेन्थेनम) प्रक्रम
rain proof		वृष्टि सह	ralig	<i>Bot.</i>	रेलिंग
rain shadow		वृष्टि-छाया	Rallidae	<i>Zool.</i>	रैलिडी
rain shadow area		वृष्टि-छाया क्षेत्र	Ralliformes	<i>Zool.</i>	रैलीफॉर्मोज
rain spell		वर्षा दौर, वर्षण बेला	ralstonite	<i>Geol.</i>	रैल्स्टोनाइट
rain squall	<i>Geog.</i>	चंडवातीय वर्षा	ram	<i>Chem. Zool. Geog. Phy.</i>	1. क्रुस्टक 2. पुंभेप, मेंढा 3. रैम 4. धक्का
rain storm		तूफानी वर्षा	ramage	<i>H.Sc.</i>	रैमिज
rain thunder		वर्षा गर्जन	ramal		शाखीय
rain wash		वृष्टि धावन	ramal bundle		शाखीय पुल
rain-water		वर्षा-जल	<i>Ramalina complanata</i>	<i>Bot.</i>	रैमालाइना कम्प्लेनेटा
rain weather		वर्षा मौसम	<i>Ramalina subcomplanata</i>		रैमालाइना सब-कम्प्लेनेटा
rainy		वृष्टिमय	Raman active	<i>Phy.</i>	रामन-सक्रिय
rainy coastal district		वृष्टिमय तटीय अंचल	Raman displacement		रामन विस्थापन
rainy season		वर्षा ऋतु			
rainy tropical low-land		वृष्टिमय उष्णकटिबंधीय निम्नभूमि			
rainy weather		वर्षा मौसम			

Raman effect		रामन प्रभाव	ramified		शाखित
Raman frequency		रामन आवृत्ति	ramified molecule		शाखित अणु
Raman jump		रामन क्षप	ramified prime ideal		शाखित अभाज्य गुणजावली
Raman line		रामन रेखा	ramified prime number		शाखित अभाज्य संख्या
Raman radiation		रामन विकिरण	ramiflorous	Bot.	शाखपुष्पी
Raman shift		रामन विस्थापन, रामन स्थिति	ramiform	Biol.	शाखारूप
Raman tube		रामन नलिका	ramifying process	Bot	शाखन प्रवर्ध, शाखी प्रवर्ध
Ramanujan's sum	Math.	रामानुजन का योगफल	ramifying veins	Geol.	शाखी शिरा
Raman vibration band		रामन क्षपन बैंड	ramjet	Phy., Math.	रैमजेट, निपीडक जेट, निपीडक प्रधार, निपीड प्रधार
ramark	Phy.	रेमार्क	ramiparous	Bot	शाखाप्रसू
ramate	Zool.	सशाख, शाखायुक्त	rammability	Chem (Met.)	कुट्टयता
ramaway	Chem (Met.)	थपकुट्ट (दोष)	rammelsbergite	Chem.	रैमत्सबर्गाइट
ram drag	Phy.	धक्का बल	rammer	Chem. (Met.)	1. दूरमुठ, कुट्टक 2. मुद्गर
ramekin	H.Sc.	रेमीकिन	ramming	Chem (Met.)	कुटाई
ramentum	Bot.	तनुशल्क, रैमेन्टम	ramo-conidium	Bot.	शाखज क्षोनिडियम
rameous	Bot.	शाखीय	ramo-manubricus	Zool.	रैमस-मैनुब्रियम पेशी
rami	Bot.	शाखाएँ	ramose	Bot.	शाखान्वित
Ramibacterium ramosum	Bot.	रेमीबैक्टीरियम रैमोसोम	ramp	Geol.	रैम्प
ramibaculate	Bot	शाखिन वंकुलीय	rampart	Geog.	प्रकार, परकोटा
ramicole	Zool	शाखावासी	Ramphastidae	Zool	रैम्फैस्टिडी
ramicolous		शाखावासी	ramphoid cusp		चञ्चकार उभयाध, द्वितीय प्रवार का उभयाध
rami communicantes	Zool.	संयोजक शाखा	ramp trough		रैम्प ट्रोगी
ramicorn	Zool.	शाखामूय	ramp valley		रैम्प घाटी
ramie	Geog.	रेमी	ramp zone		रैम्प क्षेत्र
ramie cloth		रेमी वस्त्र	ram rocket	Math, Phy.	रैमिड राकेट, रैम राकेट
ramie fibre	Chem, H.Sc.	रेमीतु	Ramsauer effect	Chem.	रैमसौर प्रभाव, रैमसौर निष्पत्ति
ramie linen	H.Sc.	रेमी लिनन	Ramsay and Young's rule	Chem.	रैम्से-यंग नियम
ramiferous	Bot.	शाखाधर	ramsayite	Geol	रैम्सेनाइट
ramification	Geog. Biol.	बहुशाखन, प्रशाखन शाखन	Ramsay lubricant	Chem.	रैम्से-यंग स्नेहक
ramification group		बहुशाखन समूह			
ramification index		बहुशाखन सूचकांक			
ramification number		बहुशाखन-संख्या			
ramification point		बहुशाखन बिन्दु			
ramificatus	Bot.	शाखिन			



Ramsbottom test	Chem.	रैम्सबॉटम परीक्षण	random	Math., Phys., Zool.	यादृच्छिक, संयोगिक, अनियमित
Ramsden circle	Phy.	रैम्जडेन वृत्त	random access		यादृच्छिक अभिगम
ramson	H.Sc.	रैमसन	random access memory		यादृच्छिक अभिगम स्मृति
ramular gap	Bot.	शाखा-अंतराल	random access programming		यादृच्छिक अभिगम प्रोग्रामन
Ramularia tulasnei	Bot.	रैमुलेरिया तुलास्नेआई	random appearance		यादृच्छिक उपस्थिति
ramular trace	Bot.	शाखानुपय, शाखा ट्रेस	random assortment		यादृच्छिक अपव्यूहन
ramulus	Bot.	प्रशाखा	random coincidence		संयोगी संपात
ramus	Geol., Geog. Biol.	शाखा	random decimal		यादृच्छिक दशमलव
ramus lateralis	Zool.	पार्श्व शाखा	random design		यादृच्छिक अभिकल्पना
ramzaite	Geol.	रैमजेआइट	random digit		यादृच्छिक अंक
Rana	Zool.	राना	random dispersion		यादृच्छिक विक्षेपण
Ranales	Bot.	रैनेलीज	random distribution		यादृच्छिक वितरण
Ranarex specific gravity indicator	Chem.	रैनरेक्स विजिष्ट घनत्व सूचक	random disturbance		यादृच्छिक विक्षोभ
Rana ridibenda		राना रिडिवन्हा	random drainage		अनियमित अपवाह
ranas	Geog.	रैनास	random drift		यादृच्छिक अपसरण
Rana septentrionalis	Zool.	राना सेप्टेन्ट्रायोनैलिस	random dyeing		यादृच्छिक रंजन
Rana temporaria		राना टेम्पोरेरिया	random economy		यादृच्छिक अर्थव्यवस्था
Rana tigrina		राना टिग्रिना	random effect model		यादृच्छिक प्रभाव निदर्शन
ranch	Geog.	रैन्च	random element		यादृच्छिक अवयव
ranch house		रैन्च हाउस	random error		यादृच्छिक त्रुटि
ranching		रैचन	random error of measurement		यादृच्छिक माप त्रुटि
ranchman		रैचमेन	random event		यादृच्छिक घटना
rancid	Chem.H.Sc.	विकृत गंधी	random flight		यादृच्छिक उड़ान
rancidification		विकृति गंधन	random fluctuation		यादृच्छिक उच्चावचन
rancidity		विकृत गंधिता	random flux		यादृच्छिक अभिवाह
rancieite	Geol.	रैन्सीआइट	random fragmenta-tion		यादृच्छिक खंडन
rancimeter	Chem.(Fat)	विकृतिमापी, विकृति गंधिता मापी	random function		यादृच्छिक फलन
rancio	H.Sc.	रैसिओ	random impact		यादृच्छिक संघट्ट
rand	Geog.	रैन्ड	random impulse process		यादृच्छिक आवेग प्रक्रम
randanite	Geol.	रैन्डेनाइट	random incidence sensitivity	Phy.	यादृच्छिकता नुग्राहिता
randannite	Geol.	रैन्डेन्नाइट	randomisation		यादृच्छिकीकरण
Randia dumetorum		रैन्डिया डुमेटोरम	randomisation test		यादृच्छिकीकरण परीक्षण
Randia uliginosa		रैन्डिया यूलिजिनोसा			
randkluft	Geog.	रैन्डक्लफ्ट			

randomised	यादृच्छीकृत	random sampling error	यादृच्छिक प्रतिचयन त्रुटि
randomised blocks	यादृच्छिकीकृत खडक	random scalar field	यादृच्छिक अदिश क्षेत्र
randomised decision function	यादृच्छिकीकृत-निर्णय फलन	random segregation	यादृच्छिक विसंयोजन
randomised pair technique	यादृच्छिकीकृत युग्म-तकनीक	random selection	यादृच्छिक चरण
randomised walk	यादृच्छिक भ्रमण	random series	यादृच्छिक श्रेणी
random line	Geog. रैंडम रेखा	random shift	यादृच्छिक विस्थापन
randomly fluctuating value	यादृच्छिकरूप उच्चावच मान	random space orientation	यादृच्छिक दिक्-विन्यास
randomly incorporated	यादृच्छिक समाविष्ट	random start	यादृच्छिक प्रारम्भ
random mating	यादृच्छिक संगम	random stone	यादृच्छिक प्रस्तर
random method	यादृच्छिक रीति	random variable	यादृच्छिक चर
random model	यादृच्छिक निदर्श	random variability	यादृच्छिक विचरणशीलता
random motion	यादृच्छिक गति	random vector field	यादृच्छिक सदिश क्षेत्र
randomness	Phy. यादृच्छिकता	random walk	यादृच्छिक भ्रमण
random noise	यादृच्छिक रव	random-walk problem	यादृच्छिक भ्रमण समस्या
random number	यादृच्छिक संख्या	randstand	Geol./Geog. रैंडस्टैंड
random number generator	यादृच्छिक संख्या जनित्र	Randupson process	Chem. रैंडप्सन प्रक्रम
random number series	यादृच्छिक संख्याश्रेणी	Raney metal	Chem. रैने धातु
random operated cloud chamber	यादृच्छ चालित अभ्रकोष्ठ	Raney nickel	रैने निस्सल
random operation	यादृच्छिक सक्रिया	range	1 (maximum distance) पराम 2. (maximum variation) परिमर 3 (group of objects) माला, श्रेणी 4 गोचर, चरागाह, रेंज
random order	यादृच्छिक क्रम	range bearing display	Phy. दूरी बेयरिंग प्रदर्श
random orientation	अनियमित अभिविन्यास, यादृच्छिक अभिविन्यास	range chart	परिमर चार्ट
random parameter	यादृच्छिक प्राचल	range condition	Bot. चरागाह स्थिति
random perturbation	यादृच्छिक क्षोभ	range discrimination	Phy. दूरी विभेदन
random phase	यादृच्छिक कला	(= distance resolution)	
random pressure fluctuation	यादृच्छिक दाब उच्चावचन	range energy relation	पराम-ऊर्जा-सूत्र
random pressure load	यादृच्छिक दाब भार	range expansion	पराम प्रसार
random processing	यादृच्छिक प्रक्रमण	range factor	परिमर गुणक
random property	यादृच्छिक गुणधर्म	range finder	परातमापी
random sample	यादृच्छिक प्रतिदर्श	range for comfort	सुस्थता पराम
random sampling	यादृच्छिक प्रतिचयन	range gate	पराम द्वार
random sampling distribution	यादृच्छिक प्रतिचयन बंटन	range gate pulse	पराम द्वार स्पंद
		range height indicator	पराम उच्चता सूचक

range land	<i>Geog.</i>	प्रक्षेत्र	range wind	<i>Phy.</i>	अनुपरासी पवन
range limit	<i>Geog.</i>	प्रक्षेत्र सीमा	ranging	<i>Geog.</i>	ऋजुरेखन
range line		परास रेखा	ranging pole	<i>Geog.</i>	सर्वेक्षण पोल, ऋजुरेखन पोल
range management		रेंज प्रबन्ध	ranging rod		सर्वेक्षण दंड, ऋजुरेखन दंड
range map	<i>Geog.</i>	प्रक्षेत्र मानचित्र	Rangoon maroon	<i>Chem.</i>	रंगून घनारण
range marker	<i>Phy.</i>	दूरी चिह्नक	Rangoon-net	<i>Zool.</i>	रंगून-जाल
range marker generator		दूरी चिह्नक जनित	Rangoon yellow	<i>Chem.</i>	रंगून-पीत, रंगून यलो
range marks (=distance marks)		दूरी चिन्ह	Ranidae	<i>Zool.</i>	रैनिडी
range method		परिसर-विधि	ranite	<i>Geol.</i>	रैनाइट
range of action		क्रिया परिसर	rank		1. पंक्ति (=row) 2. कोटि (=category)
range of address		पतामाला	rank correlation		कोटि सहबंध
range of audibility		श्रव्यता का परास	rank difference		कोटि-अंतर
range of animal adaptation		पशु अनुकूलन परिसर	ranked character	<i>Math.</i>	कोटिकृत लक्षण
range of conics		शांकव माला	ranked code		कोटिकृत कूट
range of convergence		अभिसरण परिसर	Rank in coal		कोयला-कोटि
range of error		त्रुटि-परिसर	Rankine cycle	<i>Phy.</i>	रैन्किन चक्र
range of fossil		जीवाश्म परिसर	Rankine-Hugoniot jump relation		रैन्किन ह्यूगोनियो, प्लुति संबंध
range of integration		समाकलन परिसर	Rankine hypothesis		रैन्किन परिकल्पना
range of mountains		पर्वत श्रेणी, पर्वत माला	Rankine's combined vortices		रैन्किन के सम्मिलित त्रमिल
range of points		बिन्दुमाला	Rankine's theorem		रैन्किन प्रमेय
range of relation		संबंध परिसर	ranking coefficient	<i>Geog.</i>	क्रमविन्यास गुणांक
range of second order		द्वितीय कोटि की माला	ranking sort	<i>Math.</i>	कोटिवार छंटाई
range of species		जाति परिसर	rankit		कोट्यैकक
range of tabulation		सारणीयन परिसर	rank of equipment		समबिन्दु कोटि
range of temperature		ताप परिसर	rank of matrix	<i>Math.</i>	आव्यूह की जाति
range of town		नगर-परास	rank of perturbation		क्षोभ कोटि
range of variation		परिवर्तन-परिसर	rank order		कोटि-क्रम
range province		परिसर क्षेत्र	rank order statistics		कोटि-क्रम प्रतिदर्शज
ranger	<i>Geog.</i>	रेन्जर, वनपाल	rank preserving operation		कोटि रक्षी संक्रिया
range selector-switch		परिसर वरित्र त्विच	rank-size rule	<i>Geog.</i>	श्रेणी आकार प्रणाली
range space		परिसर समष्टि	rank space (=range space)	<i>Math.</i>	परिसर समष्टि
range straggling		परास-विचरण	rank subspace (=range subspace)		परिसर उपसमष्टि
range tie		रेन्ज टाई			
range tracking		परास अनुवर्तन			
range type	<i>Geog.</i>	प्रक्षेत्र प्रकार			

ransafite	Geol.	रैन्सेटाइट	rapid beats	Phy	द्रुत विस्पन्दन
Ransburg electro-coating process	Chem.	रैन्सबर्ग वैद्युत लेपन प्रक्रम	rapid convergence		द्रुत अभिसरण
Ransburg process		रैन्सबर्ग प्रक्रम	rapid divergence		द्रुत अपसरण
ransomite	Geol	रैन्सोमाइट	rapid drying spirit		क्षिप्र शुष्कन स्फिरिट
rant	Geog	रैट	rapid evaporation		द्रुत वाष्पन
Ranunculaceae	Bot	रैननकुलसी	rapid fast dye		क्षिप्र पक्व रजक
Ranunculus aquatilis	Bot.	रैननकुलस, ऐक्वाटैलिस	rapid flowing stream		क्षिप्र प्रवाही धारा
Ranunculus muricatus		रैननकुलस म्युरीकेटस	rapid flowage type		द्रुत प्रवाह प्रकार
Ranunculus reniformis		रैननकुलस रेनी- फॉर्मिस	rapid ground survey		द्रुत भूमि सर्वेक्षण
Ranunculus scleratus		रैननकुलस स्क्लरैटस	rapid hardening (portland cement)		क्षिप्र कठोरन (पोर्टलैण्ड सीमेन्ट)
Ranunculus subpinnatus		रैननकुलस सबपिन्नेटस	rapidity		द्रुतता
Ranunculus wallichianus		रैननकुलस वाली चिएनस	rapid laminar movement		द्रुत स्तरीय गति
Raob computation data	Geol.	रैआँव परिक्ल आकडे	rapidogen	Chem.	रैपिडोजन
Raoult's law	Geol	राउल्ट नियम	rapid process plate		क्षिप्र प्रक्रम पट्टिका
rapaceous	Bot	शलजमरूप	rapid rectilinear lens		क्षिप्र ऋजुरेखी लेन्स, रैपिड रेक्टिलीनियर लेन्स
rapakivi	Geol.	रपपकिवी	rapid runoff		द्रुत जनवाह
Rapanea maxim	Chem.	रैपेनिया मैक्सिम	rapid-sand filters		क्षिप्र बानुका निम्नन्दक, क्षिप्र बानुका फिल्टर
rapanone	Chem.	रैपनोन	rapid separator		द्रुत पृथक्कर
rape	Geog.	रैप	rapid steel (a high speed steel)		क्षिप्र इस्पात (उच्च गति इस्पात)
rape-seed	Chem, Geog	रैपिया	rapid turbulent movement		द्रुत विध्रुव्य गति
rapeseed oil		रैपिया तेल	rapid water fishes	Zool.	द्रुतगति मत्स्य
raphaelite	Geol.	रैफीलाइट	rapier-like thrust	Geog.	बटार-सदृश प्रणोद
Raphanus sativus	Bot.	रैफॅनस सैटाइवस (भूली)	raploch	H.Sc.	रैपलॉच
raphe		रैफी	raplot	Phy.	रैडाप्लॉच, रैप्लॉट
raphide		रैफाइड	rapping (molding)	Chem.	ताडन
raphite	Geol	रैफाइट	rapport	H.Sc.	रैपॉर्ट इस्पात
raphus		रैफस	raptorial bird	Zool	प्रगह पक्षी
rapic acid	Bot.	रैपिक अम्ल	raptorial ciliate		प्रगह पदमाभी
rapid	Geog, Chem.	रैपिड, क्षिप्र	raptorial rotifer		प्रगह चक्रघर
			raptorial subchela		प्रगह उपकरज
			requette cell	Bot.	रैकेट कोशिका
			rare	Chem.,Phy. Geol.	1 दुर्लभ 2. विरल

rare earth		दुर्लभ मृदा	rasse	Bot.	उपजाति
rare earth metal		दुर्लभ मृदा धातु	rassenkreis	Zool.	बहु रूपजाति
rarefaction	Phy.	विरलन, विरलता	*Rastaban (=β Draconis)	Astron.	रास्तबैन (=β ड्रेकोनिस)
rarefaction wave		विरलन तरंग	raster	Phy.	रैस्टर, चित्ररेखापुंज
rarefied gas		विरलित गैस	rastorte	Geog.	विश्राम स्थल, रास्टोर्ट
rarefied gas dynamics		विरलित गैस गतिकी	Rastrelligor kanagurta	Zool.	रैस्ट्रेल्लिगर कानागुर्ता (वांगड़ा)
rarefy	Phy.	विरल करना	Rastrites		रैस्ट्राइटोज
rare gas	Chem.	अक्रिय गैस	Rastrites peregrinus		रैस्ट्राइटोज पैरीग्रिनस
rare isotope		दुर्लभ समस्थानिक, दुर्लभ आइसोटोप	Rast's method	Chem.	रास्ट पद्धति, रास्ट रीति
rare medium		विरल माध्यम	Rast's micro-method		रास्ट माइक्रो-पद्धति, रास्ट सूक्ष्म-पद्धति
rare mineral species		दुर्लभ खनिज जाति	rat	Zool. Geog.	1. उन्दुर, चूहा 2. राट, नगर-परिषद
rare subset (=nowhere dense set)	Math.	नकुदापि सघन समुच्चय	rataria	Zool.	रैटैरिया
rariconstant theory	Math.	अल्पाक्षर सिद्धान्त	ratchet relay	Phy.	रैचेट रिले
*Rasalas (=μ Leonis)	Astron.	रास अलअस (=μ सिंह, μ लिओनिस)	ratchet time base		रैचेट समयाधार
*Ras Algethi (=α Herculis)	Astron.	रास अलजेथी (=α हर्क्युलिस)	rate	Chem., H.Sc.	1. अर्थ 2. दर
*Rasalhague (=α Ophiuchi)	Astron.	रास-अलहग्वी (=α ऑफियूकई)	rate action		दर नियन्त्रण
rasbora	Zool.	रसबोरा, डांडबन	rate constant		वेग नियतांक
Raschig process	Chem.	राशिग प्रक्रम	rate dependent constitutive equation		दर आश्रित संरचक समीकरण
rasenserien	Bot.	शाकीय क्रमक	rate determining step		वेग निर्धारक पद
rash	Geol.	रैश	rated power	Chem.	घोषित शक्ति
rash point	Chem.	रभस बिन्दु	rated power supply	Phy.	अनुमत शक्ति प्रदायी
rasores	Zool.	वृरणपक्षी	rated voltage		अनुमत वोल्टता
rasorial	Zool.	धुरण, दुरण	rate equation		दर समीकरण
rasorite	Geol.	रैसोराइट	rate grown method		वृद्धि दर विधि
Raspail test	Chem.	रासपाय निरूप	rate-grown transistor (=graded junction transistor)		दर संबृद्धि ट्रांजिस्टर
raspberry	H.Sc.	रसभरी	rate gyroscope		दर जाइरोदर्शी
raspite	Geol.	रैस्पाइट	rate-independent constitutive equation		दर-स्वतंत्र संरचक समीकरण
rasping	Zool.	रेतन	rate influence		दर-प्रभाव
rasping mouthparts		रेतन मूखांग	rate law		अर्थ-नियम
rasping organ		रेतन अंग			
raspite	Chem.	रैस्पाइट			
rasputitsa	Geog.	रैस्पूटिट्सा, रुसी वसंतकाल			

rate measurer		दर मापक	rational bipolar coordinates		परिमेय द्विध्रुवी निर्देशांक
rate meter	<i>Phy, Chem</i>	दर मापी, रेटमापी	rational cover		परिमेय आवरण
rate of change		परिवर्तन की दर	rational consumer	<i>H.Sc.</i>	विवेकी उपभोक्ता
rate of convergence		अभिसरण-दर	rational decision making		परिमेय निर्णयकरण, परिमेय निर्णयन
rate of depletion		अवक्षय दर	rational equivalence		परिमेय तुल्यता
rate of dyeing		विरजन दर, विरजन अर्घ	rational expression		परिमेय व्यंजक
rate of fission		विखंडन-दर	rational field		परिमेय क्षेत्र
rate of interest	<i>H.Sc.</i>	ब्याज दर	rational fractional form		परिमेय भिन्नात्मक रूप
rate of ordering		व्यवस्थापन दर	rational function		परिमेय फलन
rate of strain		विस्तृति-दर	rational function field		परिमेय फलन क्षेत्र
rate structure		दर व्यवस्था	rational horizon	<i>Phy., Geog</i>	खगोलीय क्षितिज, भूरेखबर्ती क्षितिज
rath	<i>Geog.</i>	राथ	rationalisation	<i>Chem</i>	शुक्ति सगतिकरण
rather heavy rain	<i>Geog.</i>	काफी भारी वर्षा	rationalisation of the denominator		हर का परिमेयकरण
rather strong intensity scale	<i>Geol.</i>	आपन्नत्व तीव्रता मापनी	rationalized m. k. s units	<i>Phy</i>	परिमेयीकृत m. k. s मात्रक
Rathke's pocket	<i>Zool.</i>	राटके कोडरिका	rationaly definite		परिमेयत निश्चित
Rathke's pouch		राटके कोष्ठ	rationaly specializable		परिमेय विशेषीकरणीय
rat hole	<i>Chem.</i>	मूय छिद्र	rational manner	<i>Math.</i>	शुक्तियुक्त रीति
ratine	<i>H.Sc.</i>	रैटिने	rational name	<i>Chem.</i>	सयुक्तिक नाम, महेंदुरक नाम
ratine lace		रैटिने लेम	rational number		परिमेय सङ्ख्या
ratine yarn		रैटिने सूत्र	rational number field		परिमेय सङ्ख्या क्षेत्र
rating	<i>Chem, Phy.</i>	1 अनुमानक 2 सन्निघारण	rational operation		परिमेय सक्रिया
ratio	<i>Math.</i>	अनुपात	rational operator		परिमेय सकारक
ratio arms		अनुपाती भुजाएँ	rational planning		शुक्तिमगन आयोजन
ratio controller		अनुपात नियंत्रक	rational radius		परिमेय त्रिज्या
ratio detector		अनुपात समूचक	rational representation		परिमेय निरूपण
ratio estimator		अनुपात आकलक	rational scalar		परिमेय अंश
ratlometer		अनुपातमापी	rational scale		परिमेय मापक्रम
ration	<i>H.Sc.</i>	राशन	rational set		परिमेय समुच्चय
rational	<i>Math.</i>	परिमेय	ratio of concentration	<i>Geol.</i>	सांद्रता अनुपात
rational activities coefficient		परिमेय सक्रियता गुणांक	ratio-recording method	<i>Chem.</i>	अनुपात अभिलेखन रीति
rational algebraical expression		परिमेय बीजीय व्यंजक	ratio scale		अनुपात मापनी
rational analysis	<i>Chem.</i>	सुक्त विश्लेषण, परिमेय विश्लेषण			
rational approximation		परिमेय सन्निकटन			

ratio test		अनुपात परीक्षण	ravensduck	H.Sc.	रैवेडक
rato	Phy.	रैटो	ravine	Geog.	खड्ड
rato bottle	Phy.	रैटो बोतल	ravine afforestation		खड्ड-भूमि वनरोपण
ratoon crop	Geog.	रतून सस्य	ravine land		खड्ड-भूमि
ratoon stunting disease	Bot.	पेढी कुंठन रोग	ravinement	Geol., Geog.	1. (process) खड्ड बनाना
ratrace	Phy.	रैटरेस		Geol.	2. (structure) खड्ड अपसमविन्यास
ratron (= tricon radar system)	Phy.	त्रिसंपात रैडार तंत्र, रैट्रॉन	ravine symbol		खड्ड प्रतीक
rat snake	Zool.	मूयाद सर्प, उन्दुर सर्प	ravioli	H.Sc.	रावियोली
rat-tailed larva	Zool.	मूषपुच्छ डिम्बक	Ravner theory	Chem.	रैवनर वाद
rat-tail file		चूहा-पुच्छरेती, मूषक-पुच्छरेती	raw	H.Sc., Chem. Geol., Geog.	कच्चा, अपरिष्कृत
rat tailing		मूष पुच्छन	raw batch		कच्चा घान, आम घान
rattan	Geog., H.Sc.	रैटैन	raw coal		अपरिष्कृत कोयला
rattan canes		रैटैन बेंत	raw cold	Geog.	अतिशीत
rattan leaves		रैटैन पत्र	raw cotton		कच्चा कपास
rattan palm		रैटैन पाम	raw cullet		धाम भग्न, कच्चा भग्न
ratti coating	H.Sc.	रटी कोटिंग	raw data	Phy.	असंसाधित दत्त, यथा प्राप्त उपात्त
Rattler test	Geol.	रैटलर परीक्षण	raw edge		अपरिष्कृत किनारा
rattle snake	Geol., Zool.	रैटल सर्प	raw hide		कच्चा चमड़ा, कच्चा चर्म
rattle stone	Geol.	ध्वनिकारक-अश्म	raw humus		अपक्व ह्यूमस
rattling	Chem.	झनझनन	rawin (= radio balloon)	Phy.	रेडियो बैलून, रैविन
<i>Rattus rattus</i>	Zool.	रैटस रैटस (चूहा)	raw industrial material		कच्चा औद्योगिक पदार्थ
rattvik lace	H.Sc.	रैटविक लेस	rawinsonde	Phy., Geol., Geog.	रैविनसांडे
Ratufa		रैटुफा	raw material		कच्चा माल, कच्ची सामग्री, आम पदार्थ
Rauber's layer		रोवर स्तर	raw material inventory		कच्चे माल की तालिका
rauk	Geog.	रॉक, समुद्री स्टैंक	raw moment	Math.	स्वेच्छ बिन्दु आघूर्ण
Raulin-Thom solution	Bot.	रोलिन थॉम घोल	raw oil		आम तेल, कच्चा तेल
rautenplatte	Bot.	चतुष्कोण प्लेट	raw ore		कच्चा अयस्क
<i>Rauwolfia serpentina</i>	Bot.	रोवॉल्फिया सर्पेन्टाइना	raw produce		कच्चा उत्पाद
raveling	H.Sc.	उधेड़ना	raw quartz		अपरिष्कृत स्फटिक
raven	Geog.	रैवेन	raw rubber		कच्चा रबर, अपरिष्कृत रबर
<i>Ravenala madagascariensis</i>	Bot.	रैवीनेला मँडागास्करैन्सिस			
Ravenelia	Bot.	रैविनेलिया			

raw score	<i>Math.</i>	यथा प्राप्त समक	Rayleigh's resistance formula		रैले प्रतिरोध सूत्र
raw silk		कच्चा रेशम	Rayleigh's theory		रैलेवाद
raw-silk industry		कच्चा रेशम उद्योग	Rayleigh wave		रैले-तरंग
raw soil	<i>Geog.</i>	अपक्व मृदा	raymark	<i>Phy.</i>	रेमार्क
raw stock	<i>Geog.</i>	1. कच्चा माल	Raymond bowl mill	<i>Geol.</i>	रेमॉन्ड चपक मिल
	<i>H Sc.</i>	2. अपरिष्कृत तन्तु	Raymond mill		रेमॉन्ड मिल
raw stream		कच्ची धारा	Raymond whizzer classifier		रेमॉन्ड ह्वीजर वर्गीकर
raw sugar		अपरिष्कृत शर्करा	ray net	<i>Zool.</i>	रे जाल
ray		1. रश्मि, किरण 2 (of fin) पख-अर 3 (fish) रे, मकूज 4 (Topol) अर्ध रेखा 5 (=spokes) अर	rayo	<i>Chem.</i> ( <i>Met</i> )	राइओ (मिस्रातु)
ray acoustics		किरण ध्वानिकी	rayon	<i>H Sc.,</i> <i>Chem.</i>	रेयॉन
ray axis		किरण अक्ष	rayon twill		रेयॉन ट्वीन
Raybin reaction	<i>Chem</i>	रेविन अभिक्रिया	rayon yarn		रेयॉन सूत्र
ray blight		अर अंगभारी, अर शीर्षता	ray surface		किरण पृष्ठ
ray cell		अर कोशिका	ray tracing		किरण अनुरेखन
ray conoid		किरण शंकुध	ray vector		किरण सदिश
ray crossing		अर व्यत्यास	ray velocity		किरण वेग
ray diagram		किरण आरेख	Razek-Mulder analyser	<i>Chem.</i>	राजेक मल्डर विश्लेषित
raydist	<i>Phy.</i>	रैडिस्ट	razon	<i>Phy.</i>	रेजॉन
rayed arcs		रश्मित चाप	razor back	<i>Geol</i>	रेजरबैक
ray fisheries		रेमात्स्यकी	razor blade	<i>Geog.</i>	उत्तरा फलक
rayflex	<i>H.Sc.</i>	रेफ्लेक्स	razor clam	<i>Zool.</i>	रेजर क्लम, झुर सीपी
ray floret		अर-मुष्पक	razor fish		रेजर मीन, झुर मीन
ray fungus		अर-नवक	razor shell	<i>Geog.</i>	रेजर शेल
Rayleigh approximation	<i>Geol.</i>	रैले सन्निकटन	razoomoffskin	<i>Chem.</i>	रेजोमाफस्किन
Rayleigh atmosphere		रैले वायुमंडल	razzia	<i>Geog.</i>	घावा
Rayleigh distribution		रैले वटन	R-branch	<i>Phy.</i>	R-शाखा, घनात्मक शाखा
Rayleigh Jeans distribution law	<i>Chem</i>	रैले-जोन्स वितरण नियम	R. C. oscillator	<i>Phy.</i>	R. C. दोनक
Rayleigh Jeans formula		रैले-जोन्स सूत्र	R-dislocation	<i>Phy.</i>	R-प्रघ्न
Rayleigh number		रैले-संख्या	R display (= R scope)	<i>Phy.</i>	R-प्रदर्शन, R-दर्शी
Rayleigh-Ritz method		रैले-रिट्ज विधि	reabsorption	<i>Chem, Zool.</i>	पुनरवशोषण, पुनरवशोषण
Rayleigh scattering		रैले प्रकीर्णन	reabsorption coefficient		पुनरवशोषण गुणांक
Rayleigh scattering coefficient		रैले प्रकीर्णन गुणांक			



reach	<i>Geog.</i> <i>Geol.</i>	1. रीच (of river) 2. अग्रांश (of sea and land)	reaction turbine		प्रतिक्रिया टरबाइन
reactance	<i>Phy.</i>	प्रतिघात	reaction wood		प्रतिक्रिया दारु
reactance coil		प्रतिघात कुंडली	reactivation	<i>Phy., Zool.</i>	पुनः सक्रियण, पुनःसक्रियकरण
reactance modulation		प्रतिघाती माड्युलन	reactive		अभिक्रियाशील
reactance tube		प्रतिघात नलिका	reactive chamber		अभिक्रिया वेधम
reactance tube modulator		प्रतिघात नलिका माड्युलक	reactive component	<i>Phy.</i>	प्रतिघाती घटक
reactant		अभिकारक	reactive coupling		प्रतिघाती युग्मन
reactatron	<i>Phy.</i>	रिएक्टेट्रॉन	reactive current		प्रतिघाती धारा
reacting-molecule	<i>Chem.</i>	अभिकारक अणु	reactive energy		प्रतिघाती ऊर्जा
reacting weight		अभिकारी भार	reactive factor		प्रतिघाती गुणक
reaction	<i>Phy.</i> <i>Chem.</i>	प्रतिक्रिया अभिक्रिया; क्रिया	reactive load		प्रतिघाती भार, प्रतिघाती लोड
reactional constituent		अभिक्रियात्मक घटक	reactive moment		प्रतिक्रियाशील आघूर्ण
reaction coordinate		अभिक्रिया निर्देशांक	reactive pigment		अभिक्रियाशील वर्णक
reaction coupling		प्रतिघाती युग्मन	reactive power		प्रतिघाती शक्ति
reaction cross-section		अभिक्रिया परिक्षेत्र	reactive site		अभिक्रिया क्षेत्र
reaction cylinder		अभिक्रिया सिलिंडर	reactive voltampere		प्रतिघाती वोल्टऐम्पियर
reaction isobar		समदाव अभिक्रिया वक्र	reactivity	<i>Phy.</i>	अपक्रांतिकता
reaction isochor(e)		1. (graph) समआयतन अभिक्रिया वक्र 2. (equation) सम-आयतनिक अभिक्रिया समीकरण	reactivity meter		अपक्रांतिकता मापी
reaction isotherm		अभिक्रिया समताप	reactivity noise		अपक्रांतिकता रव
reaction mechanism		अभिक्रिया क्रिया विधि	reactivity unit		अपक्रांतिकता मात्रक
reaction of first order		प्रथम कोटि अभिक्रिया	reactor noise	<i>Phy.</i>	रिएक्टर रव
reaction of second order		द्वितीय कोटि अभिक्रिया	reactor simulator		रिएक्टर अनुकारी
reaction of third order		तृतीय कोटि अभिक्रिया	reactor sphere		रिएक्टर मंडल
reaction of zero order		शून्य कोटि अभिक्रिया	reactor time constant (=reactor period)		रिएक्टर कालांक
reaction pair		अभिक्रिया युग्म	reactor trip		रिएक्टर ट्रिप, रिएक्टर निपात
reaction product		अभिक्रिया उत्पाद	reactor vault		रिएक्टर गुप्ति
reaction pulse		प्रतिक्रिया स्पन्द	readability	<i>Chem., Geog.</i>	पाठ्यता, वाचनीयता
reaction rate		अभिक्रिया दर	readied missile	<i>Phy.</i>	आसज्जित अस्त्र
reaction rim		अभिक्रिया नेमि	read-in	<i>Phy.</i>	ग्राही पठन
reaction series		अभिक्रिया श्रम, अभिक्रिया माला	reading		1. पाठ्यांक 2. पठन
"Reaction times"		अभिक्रिया काल	reading glass		पठन लेन्स, पठन कांच
			reading punching unit	<i>Math.</i>	वाचन छिद्रण एकक
			readings		पाठ्यांक

readjustment	<i>Chem</i>	पुन समञ्जन	real focus		वास्तविक फोकस
read light	<i>Math.</i>	वाचन बत्ती	real form		वास्तविक समघात
Readman process	<i>Chem.</i>	रीडमान प्रक्रम	realgar	<i>Geol</i>	मन शिला, मेनमिल
read pulse		पठन स्पंद	real gas		वास्तविक गैस
read out	<i>Phy.</i>	प्रदायी पठन	real image		वास्तविक प्रतिबिंब
read soil		लाल मिट्टी	real income		वास्तविक आय
read time		वाचन काल, अभिगम काल	realisation		प्रापण
ready made garment	<i>H.Sc.</i>	तैयार वस्त्र	realisation function		प्रापण फलन
ready made plan	<i>H.Sc.</i>	पूर्व तैयार योजना	realistic error estimate	<i>Math.</i>	यथार्थिक त्रुटि आकलन
ready reckoner	<i>Math.</i>	तत्काल परिकल्पक	real lattice		वास्तविक जालक
ready storage	<i>Phy.</i>	सुप्राप्य संचय	homomorphism		समाकारिता
reagent	<i>Chem., H.Sc.</i>	अभिकर्मक, अभिकारक	real line		वास्तविक रेखा
reagent bottle		अभिकर्मक बोतल	real linear space		वास्तविक रैखिक समष्टि
reagent dropper		अभिकर्मक बिन्दुपाती	real linear vector space		वास्तविक रैखिक सदिश समष्टि
reagent feeder		अभिकर्मक सभरक	re-allocation	<i>Math.</i>	पुननियतन
reagent generating electrode		अभिकर्मक जनन इलेक्ट्रोड	realm	<i>Biol.</i>	परिमंडल
reagentizer	<i>Chem</i>	अभिकर्मित्र	real matrix		वास्तविक आव्यूह
real	<i>Math., H Sc.</i>	वास्तविक	real number		वास्तविक सङ्ख्या
real affine space		वास्तविक सजातीय समष्टि	real number field		वास्तविक सङ्ख्या क्षेत्र
real algebraic number		वास्तविक बीजगणित सङ्ख्या	real part		वास्तविक भाग
real analytic mapping		वास्तविक वैश्लेषिक प्रतिचित्रण	real polynomial		वास्तविक बहुपद
real Archimedean valuation		वास्तविक आर्किमीडी मानांकन	real power		वास्तविक शक्ति
real arithmetic space (= real number space)		वास्तविक सङ्ख्या समष्टि	real quadratic		वास्तविक द्विघाती समघात
real axis		वास्तविक अक्ष	real reciprocal		वास्तविक व्युत्क्रम
real bound state		वास्तविक बद्ध अवस्था	real restriction		वास्तविक नियंत्रण
real closed		वास्तविक सद्बुत	real root		वास्तविक मूल
real conjugate		वास्तविक संयुग्मी	real space		वास्तविक समष्टि
real continuum		वास्तविक सातत्यक	real symmetric kernel		वास्तविक सममित अष्टि
real coordinate space		वास्तविक निर्देशक समष्टि	real time		वास्तविक काल
real-estate operation	<i>Geog.</i>	स्मारक संपदा विकास	real time operation		वास्तविक काल सञ्चालन
real fluid		वास्तविक तरल	real time processing		वास्तविक काल सन्वाहन
			real time system		वास्तविक काल प्रणाली
			real time working		वास्तविक काल विचारधारा
			real transformation		वास्तविक रूपान्तरण
			real underlying space		वास्तविक सहायक समष्टि
			real universe		वास्तविक विश्व

real valuation		वास्तविक मानांकन	Rebecca	Phy.	रेबेका
real value		वास्तविक मूल्य	reboil	Chem.	पुनःस्फोटन
real valued function		वास्तविक मान फलन	reboiler coil	Chem.	पुनर्तापन कुंडली
real variable		वास्तविक चर	Reboulia	Bot.	रिवूलिया
real variable function		वास्तविक चर फलन	Reboulia hemispherica		रिवूलिया हेमीस्फेरिका
real vector space		वास्तविक सदिश समष्टि	rebound	Phy.	(n.) प्रतिक्षेप (v.) प्रतिक्षिप्त होना
real wages		वास्तविक मजदूरी	rebozo	H.Sc.	रिबोजो
ream	Chem.(Gl.)	विषमस्तर (दोष)	rebus	Geog.	शब्दचित्र विधि
ream bread	H.Sc.	रीम ब्रेड	rebus stage		शब्दचित्रण अवस्था
reamer	Chem., H.Sc.	1. परिछिद्रक, रोमर 2. निष्कर्षक	recalcitrant region	Geog.	दुःशास्य प्रदेश
reamering	Chem.	रीमरण	recalescence	Chem.,Phy., Geol.	पुनरुष्मण
reaming	Chem.,Geol.	छिद्रवर्धन	recalescence temperature		पुनरुष्मण ताप
reamurite	Geol.	रीमूराइट	recalescent point		पुनरुष्मण बिन्दु
rean (=rein)	Geog.	रीन	recalibrate	Chem.	पुनः अंशांकन
reanimation	Geog.	पुनः चेतन	recapitulation	Zool.	पुनरावर्तन
reaper	Geog.	फसल कर्तक, रोपर	recapitulation theory		पुनरावर्तन सिद्धान्त
reappearance (of eclipsed body)	Math.	जन्मोलन	recarburize	Chem.	पुनः कार्बुरन, पुनः कार्बुरित करना
reapplication	Geog.	पुनरनुप्रयोग	recasing	Geol.	पुनःकेसन
reappropriation	Geog.	पुनर्विनियोजन	receding colour	Chem.	प्रतिभारी वर्ण
rear chainman	Geog.	पिछला जरीबवाला	receding ice front	Geog.	पश्चगामी बर्फाग्र
rearing ponds	Zool.	पालन-पोषण ताल	receipts and disbursements		प्राप्ति तथा संवितरण
rearmament	Geog.	नुशस्त्रीकरण	receiver	Chem.,Phy.	ग्राही, अभिग्राही
rear projection	Phy.	पश्च प्रक्षेपण	receiver gating	Phy.	अभिग्रहण द्वारन
rearranged twill	Chem.	पुनर्व्यवस्थ रेखिका	receiver primary (=display primary)	Phy.	प्रदर्शन मूलवर्ण
rearrangement	Chem.	पुनर्विन्यास	receiving		ग्राही, अभिग्राही
rear stagnation point		पश्च प्रगतिरोध बिन्दु	receiving flask		ग्राही फ्लास्क
rear stop		पश्च सीमक	receiving inspection		अभिग्राही निरीक्षण
rear-to-front ratio		पश्च-अग्र अनुपात	receiving point	Phy.	ग्रहण बिन्दु
rearward eigenvector		पश्च अभिलक्षणिक सदिश	receiving station		अभिग्राही स्टेशन
reason		हेतु	recedemented glacier	Geol.	पुनर्योजित हिमनद
reasoning ability	Math.	तर्कण योग्यता	recency	Geol.	अभिनवता
re-assembled	Geog.	पुनर्योजित			
recaumur degree		रिज़ॉमर डिग्री			
reba	Zool.	रेबा			
rebate	H.Sc.	घटौती			

recent	<i>Geol., Zool.</i>	अभिनव	recessive lethal		अप्रभावी घातक
recent ancestor		अभिनव पूर्वज	recessive mutant		अप्रभावी उत्परिवर्ती
Recent epoch		अभिनव युग	recessiveness		अप्रभाविता
Recent Era		अभिनव महाकल्प	recessive pure strategy	<i>Math.</i>	अप्रभावी विशुद्ध युक्ति
recent immigrant		अभिनव आप्रवासी	recess of bay	<i>Geog.</i>	गोण खाड़ी
recentralization	<i>Geog.</i>	पुन केन्द्रीकरण	recessus utriculus	<i>Geol.</i>	प्रतिस्कारी दृति
recentrifugation (recentrifuging)	<i>Zool</i>	पुनरपकेन्द्रण	recharge		पुन पूरण
recentring		पुन केन्द्रण	recharge area	<i>Geol</i>	पुनभरण क्षेत्र
receptacle	<i>H Sc</i>	धानी, पात्र	recharging	<i>Phy.</i>	पुन आवेशन, फिर से चार्ज करना
receptacle latrine		मलायान शौचालय	re-chauffee	<i>H Sc</i>	दुबारा गर्म किया खाद्य
receptacle retractor	<i>Zool</i>	आधान आकुचक	Rechel's value	<i>Chem.</i>	रेशोन मान
receptaculum chyli	<i>Zool.</i>	वमालसीकाधान	rechromatography	<i>Bot.</i>	पुनवर्णलेखन
receptaculum ovarum		अडाधान	recidal	<i>Chem.</i>	रैसिडल (मिश्रातु)
receptaculum seminis (spermatheca)		शुक्राधान, शुक्रग्राहिका	recininic acid	<i>Chem.</i>	रिंसिनिक अम्ल
reception	<i>Phy.</i>	अभिग्रहण	recipe	<i>H.Sc.</i>	पाकयोग, रैसोपी
reception diagram		अभिग्रहण आरेख	recipient cell	<i>Zool.</i>	आदाता कोशिका
receptive matrix	<i>Zool.</i>	ग्राही आधानी	reciprocal		व्युत्क्रम, अन्योन्य, पारस्परिक
receptor	<i>H.Sc, Zool.</i>	ग्राही	"reciprocal arabinase number"		व्युत्क्रम ऐरेबिनेट संख्या
receptor blockade		ग्राही-अवरोध	reciprocal bases		पारस्परिक आधार
receptor cell		ग्राही कोशिका	reciprocal bilinear form		व्युत्क्रम द्विरैखिक समघात
receptor destroying enzyme		ग्राही नाशक एन्जाइम	reciprocal buying		पारस्परिक प्रय
receptor destruction		ग्राही विनाश	reciprocal centimetre		व्युत्क्रम सेंटीमीटर
receptor gradient		ग्राही प्रवणता	reciprocal copulation		पारस्परिक मैथुन
receptor site		ग्राही स्थल	reciprocal cross		व्युत्क्रम संकरण
recess	<i>Geog., Geol.</i>	रिसेस	reciprocal derivative		व्युत्क्रम अवकलज
recess establishment		रिसेस स्थापना	reciprocal deter- minant		व्युत्क्रम सार्थक
recession	<i>Geog, Geol Phy.</i>	1. प्रतिस्वार, प्रतिस्तरण 2. पश्च स्तरण	reciprocal difference		व्युत्क्रम-अंतर
recessional moraine	<i>Geol.</i>	प्रतिस्कारी हिमोढ़	reciprocal equation		व्युत्क्रम समीकरण
recessional stage		प्रतिस्कारी अवस्था	reciprocal excitation		अन्योन्य उत्तेजन
recession of ice		बर्फ प्रतिस्वार	reciprocal figure		व्युत्क्रम चित्र
recession of slopes		ढाल प्रतिस्तरण	reciprocal fluctuation		अन्योन्य उन्नायचन
recessive	<i>Zool., Bot. H.Sc.</i>	अप्रभावी	reciprocal function	<i>Math.</i>	प्रतिस्तीम फलन
recessive character		अप्रभावी लक्षण	reciprocal insurance		पारस्परिक बीमा
recessive epistasis		अप्रभावी प्रवणता			

reciprocal kernel		व्युत्क्रम अष्टि	reciprocating motion		प्रत्यागामी गति
reciprocal lattice point		व्युत्क्रम जालक बिन्दु, प्रतिलोम जालक बिन्दु	reciprocating steam engine		प्रत्यागामी भाप इंजन
reciprocal lattice vector		व्युत्क्रम जालक सदिश, प्रतिलोम जालक सदिश	reciprocating vacuum pump		प्रत्यागामी निर्वात पंप
reciprocal mating		पारस्परिक मैथुन	reciprocation		व्युत्क्रमण
reciprocal matrix		व्युत्क्रम आव्यूह	reciprocity		1. पारस्परिकता 2. व्युत्क्रमता
reciprocal mean life time		व्युत्क्रमी माध्य आयु	reciprocity constant		पारस्परिकतांक
reciprocal network (=dual network)	Phy.	अनुसंगी जाल	reciprocity law		व्युत्क्रमता नियम
reciprocal observation		अन्योन्य प्रेक्षण	reciprocity principle		पारस्परिकता नियम
reciprocal of line segment		रैखिक खंड व्युत्क्रम	reciprocity theorem		पारस्परिकता-प्रमेय
reciprocal of product		गुणन व्युत्क्रम	recirculation ratio	Chem.	पुनःसंचरण अनुपात
reciprocal quartic		व्युत्क्रम चतुर्घाती	reck	Chem.	आखुर
reciprocal radii		व्युत्क्रम त्रिज्याएँ	reclaimable waste	Geog.	उद्घारीय व्यर्थभूमि
reciprocal ranging		परस्पर ऋजुरेखन	reclaimer		उद्घारित्र
reciprocal recombination		व्युत्क्रम पुनर्योग	reclamation	Geog.	उद्धार, भूमिउद्धार
reciprocal relation		पारस्परिक संबंध	recline	Bot.	अवनत
reciprocal salt pair system		अन्योन्य लवण-युग्म तंत्र	reclined twill	H.Sc.	अवनत ट्वील
reciprocal space		व्युत्क्रम आकाश	recodified	Zool.	पुनःसंहित
reciprocal spectrum		व्युत्क्रम स्पेक्ट्रम	recognisable community	Geog.	अभिज्ञेय समुदाय
reciprocal spiral		व्युत्क्रम सर्पिल	recognisable impression		अभिज्ञेय चिह्न
reciprocal symmetric tensor		व्युत्क्रम सममित प्रदिश, व्युत्क्रम सममित टेन्सर	recognisable individuality		अभिज्ञेय व्यष्टित्व
reciprocal system of vectors		सदिशों का व्युत्क्रम निकाय	recognition odour		अभिज्ञान गंध
reciprocal tendency		पारस्परिक प्रवृत्ति	recognized name	Geog.	मान्यता प्राप्त नाम
reciprocal tensor		व्युत्क्रम प्रदिश, व्युत्क्रम टेन्सर	recoil		(n.) प्रतिक्षेप (adj.) प्रतिक्षिप्त
reciprocal theorem		व्युत्क्रम प्रमेय	recoil atom		प्रतिक्षिप्त परमाणु
reciprocal transform		व्युत्क्रम रूपान्तर	recoil atom energy		प्रतिक्षेप परमाणु ऊर्जा
reciprocal translocation		अन्योन्य स्थानान्तरण, पारस्परिक स्थानान्तरण	recoil electron		प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन
reciprocal vertical angle		व्युत्क्रम ऊर्ध्वाधर कोण	recoil factor		प्रतिक्षेप गुणक
reciprocating brush	Chem.	प्रत्यागामी ब्रश	recoil nuclei		प्रतिक्षिप्त न्युक्लियस
			recoil radiator		प्रतिक्षेप विकिरक
			recoil ray		प्रतिक्षेप किरण
			recoil ring		प्रतिक्षेप बलय
			recolonization	Geog., Zool.	1. पुनः उपनिवेशीकरण 2. पुननिवेशन

recombinant cell	<i>Zool.</i>	पुनर्योजन कोशिका	reconstructed turquoise	<i>Geol.</i>	कृत्रिम शीरोजा, कृत्रिम टर्कॉइज
recombinant virus		पुनर्योजन विषाणु	reconstruction profile	<i>Geog.</i>	पुनर्निर्माण-परिच्छेदिका
recombination	<i>Phy.</i>	पुनर्योजन	recon unit	<i>Zool</i>	पुनराणु एकक, रैकॉन एकक
recombination coefficient		पुन' संयोजन गुणांक पुनर्योजन गुणांक	recooler	<i>Chem.</i>	पुनःशीतित
recombination continuum		पुनर्योजन सातत्यक	record	<i>H.Sc.</i> <i>Phy, Geog.</i> <i>Geol.</i>	(vb) दर्ज करना, अंकित करना (n) रिकार्ड, अभिलेख
recombination map		पुनर्योजन चित्र	recordak	<i>Math</i>	रिकार्डक
recombination time		पुन. संयोजन काल	record changer		रेकार्ड परिवर्तित
recombined fat		पुन. संयोजित वसा	record cutter		अभिलेख उत्कीर्णक
recommended practice	<i>Geog.</i>	अभिस्तावित पद्धति	recorded		अभिलिखित
recomplementation	<i>Math.</i>	पुनः पूरकीकरण	recorded programme		अभिलिखित प्रोग्राम
recomposed basal conglomerate	<i>Geol.</i>	पुनर्रचित आधारी संगुटिकाश्म	recorder	<i>Phy.</i>	अभिलेखी
recomposed granite		पुनर्रचित ग्रेनाइट	record form		अभिलेख प्रपत्र
recompressed	<i>H.Sc.</i>	पुनःसंपीडित	record head		अभिलेखी शीर्ष
recon	<i>Zool.</i>	पुनराणु, रैकॉन	recording (=camera shooting)		अभिलेखन, कैमरा शूटिंग
reconcilable		समाधेय	recording barograph		अभिलेखीय बैरोग्राफ
reconcilable circuit		समाधेय परिपथ	recording blank (=recording disc)		अभिलेखन डिस्क
reconciliation		समाधान	recording channel		अभिलेखन चैनल
reconditioned	<i>Geog.</i>	नवकृत	recording cylinder		अभिलेखन सिलिन्डर
reconditioned carrier (wave)	<i>Phy.</i>	अनुकूलित वाहक (तरंग)	recording drum		अभिलेखन ड्रम
reconnaissance	<i>Geog, Phy, Geol.</i>	आबीक्षण	recording head		अभिलेखी शीर्ष
reconnaissance mapping		आबीक्षी मानचित्रण	recording instrument		अभिलेखन यंत्र
reconnaissance missile		आबीक्षी अस्त्र	recording of infor- mation		सूचना-अभिलेखन
reconnaissance satellite		आबीक्षी उपग्रह	recording of sound		ध्वनि वा अभिलेखन
reconnaissance survey		आबीक्षी सर्वेक्षण	recording spot		अभिलेखन बिन्दु
reconnoiter	<i>Geol</i>	पूर्वसर्वेक्षण	recording statoscope		अभिलेखी स्टैटोस्कोप
reconnoitre	<i>Geog.</i>	पूर्वसर्वेक्षण (टोपू लगाता)	record slip		अभिलेखन पर्ची
reconsequent drainage	<i>Geog.</i>	पुनराणुवर्ती अपवाह	record storage		अभिलेख संचयन
reconstituted granite	<i>Geol.</i>	पुनर्रचित ग्रेनाइट	record volume		अभिलेख खण्ड
reconstructed glacier	<i>Geog.</i>	पुनर्निमित्त हिमनद, पुनर्निमित्त हिमानो	Recoura's sulphate	<i>Chem.</i>	रैकूरा सल्फेट
			recovered wool	<i>H.Sc.</i>	पुन' प्राप्त ऊन
			recovery	<i>Math, Geol., Phy.</i>	उपनिधि, पुन' प्राप्ति, प्राप्ति
			recovery factor		उपनिधि गुणक

recovery index		प्राप्ति सूचकांक	rectangular code	आयताकार कूट
recovery operation		1. पुनःप्राप्ति प्रचालन 2. उपलब्धि संक्रिया	rectangular coordinates	समकोणिक निर्देशांक, आयतीय निर्देशांक
recovery oren		पुनःप्राप्ति कंडु	rectangular density function	आयतीय प्रायिकता फलन
recovery quality	<i>Chem.</i>	1. पुनरुज्जीवन गुण 2. प्रत्यास्थता गुण	rectangular distribution	आयतीय वंटन
recovery time	<i>Phy.</i>	पुनराप्तिकाल, पुनः प्रस्तुति-काल	rectangular distribution function	आयतीय वंटन फलन
recreation	<i>H.Sc.</i>	मनोरंजन	rectangular drainage	आयताकार अपवाह
recreational area		मनोरंजन क्षेत्र	rectangular drainage pattern	आयताकार अपवाह पैटर्न
recreational island	<i>Geog.</i>	विश्रामप्रद द्वीप	rectangular frame	आयतीय तंत्र
recreation ground		मनोरंजन स्थल	rectangular games	आयतीय खेल
recrudescence (=recrudescence)	<i>Zool.</i>	पुनः क्रियाशीलता	rectangular graph	आयताकार ग्राफ
recrystallisation	<i>Chem.,Geol.</i>	पुनः क्रिस्टलन	rectangular guides	आयताकार गाइड
recrystallisation in situ		स्वस्थाने पुनः क्रिस्टलन	rectangular hole card	आयताकार छिद्र पत्रक
rectal	<i>Zool.</i>	मलाशयी	rectangular house	आयताकार गृह
rectal caecum		मलाशय-अंधनाल	rectangular hut	आयताकार कुटी
rectal commissure		मलाशयी संघायी	rectangular hyperbola	समकोणीय अतिपरवलय
rectal cuticle		मलाशयी उपत्वचा	rectangular jointing	आयताकार संघि
rectal gill		मलाशय-क्लोम	rectangular Lagrangian interpolation formula	लगरांज का आयतीय अंतर्वेशन सूत्र
rectal gland		मलाशय ग्रंथि	rectangular lattice design	आयतीय जालक अभिकल्पना
rectal matrix gland		मलाशय बाघात्री ग्रंथि	rectangular magnetic compass	आयताकार चुम्बकीय दिक्सूचक
rectal muscle		मलाशयी पेशी	rectangular matrix	आयताकार आव्यूह
rectal papilla		मलाशय पिप्पल	rectangular membrane	आयताकार झिल्ली
rectal pouch		मलाशयी कीष्ठ	rectangular method	आयताकार विधि
rectal sac		मलाशय कोष	rectangular net	आयताकार जाल
rectal sinus		मलाशय कोटर	rectangular parallelepiped (cuboid)	आयतफलकी, समकोणिक समांतरपट्टफलक
rectal tube		मलाशयी नलिका	rectangular protractor	आयती प्रोट्रेक्टर, आयती चांदा
rectal valve		मलाशय कपाट	rectangular rule	आयतीय नियम
rectangle	<i>Math.</i>	आयत	rectangular solid	आयताकार ठोस
rectangle of fit		वासंजन आयत	rectangular tangential projection	आयतीय स्पर्शरेखीय प्रक्षेप
rectangular		आयताकार, समकोणिक, समकोणीय		
rectangular aerofoil		आयतीय एरोफॉयल		
rectangular array		आयताकार सारणी		
rectangular axis		समकोणिक अक्ष, समकोणिक निर्देशाक्ष		

rectangular wave		आयत तरंग	rectilinear distance		सरलरेखीय दूरी
rectangular well model		आयताकार कूप मॉडल	rectilinear scanning		सरलरेखीय क्रमबोधन
rectangulation		आयतीकरण	rectilinear trend (=linear trend)	<i>Math.</i>	एकघाती उपनति
rectangulation pillar		आयतीकरण स्तम्भ	rectilinear uniform motion		ऋजुरेखीय एकसमान गति
rectangulator		आयतीकारक	rectilinear velocity		रेखीय वेग
rectifiability	<i>Math</i>	चापकलनीयता	rectilinear vortex		रेखीय घ्रमिल
rectifiable curve		चापकलनीय वक्र	rectimurate	<i>Bot</i>	ऋजु प्रकटकी
rectification		1 (alcohol) परिशोधन 2. (electric current) दिष्टकरण	rectinervous venation	<i>Bot.</i>	समातरोपरि शिरा-विन्यास
rectification decision		परिशोधन निर्णय	rectirostral	<i>Zool.</i>	ऋजुचंचु
rectified		1. परिशोधित 2. दिष्टकृत	rectimeter	<i>Chem.</i>	ऋजुतामापी
rectified current		दिष्टकृत धारा	rectoblique plotter	<i>Geog.</i>	निर्वृक् शोध आलेख, रैक्टोब्लिक प्लॉटर
rectified index number		परिशोधित सूचकांक	rectorite	<i>Geol</i>	रेक्टराइट
rectified modulus of continuity		परिशोधित सातत्य मापांक	rectrice	<i>Zool</i>	पुच्छपिच्छ
rectified spirit		परिशोधित स्विट्ट	rectum	<i>Zool, H.Sc</i>	मलाशय, रेक्टम
rectifier	<i>Phy.</i>	1. दिष्टकारी 2. परिशोधक	rectus	<i>Zool.</i>	1. ऋजु देशी 2. जूम्र
rectifier contact	<i>Phy.</i>	दिष्टकारी सम्पर्क	rectus abdominis	<i>Zool.</i>	रेक्टर ऐन्डोमिनिस, उदरीय ऋजु देशी
rectifier lens		परिशोधी लेन्स	recuit	<i>H.Sc.</i>	रेखी
rectifier transformer		दिष्टकारी ट्रान्स्फार्मर	recumbent		शयान
rectifier valve		दिष्टकारी वाल्व	recumbent animal		शयान जन्तु
rectiflorus	<i>Bot.</i>	समतर पुष्पाक्षी	recumbent anticlinal fold		शयान अपनत बलन
rectifying camera	<i>Goel.</i>	परिशोधन-कैमरा	recumbent fold		शयान बलन
rectifying column		परिशोधन स्तम्भ, परिशोधन कॉलम	recuperation	<i>Chem, Geol. H.Sc.</i>	1. पुनर्प्राप्तन 2. पुनरुत्थाप्यलाभ
rectifying developable	<i>Math.</i>	सरलक विभासनीय	recuperative		पुनर्प्राप्ती
rectifying element		दिष्टकारी अवयव	recuperative furnace		पुनर्प्राप्ती फ़ास्ट
rectifying inspection		परिशोधक निरीक्षण	recuperator		पुनर्प्राप्ति
rectifying valve		दिष्टकारी वाल्व	recuperator cooler		पुनर्प्राप्ती कूलर
rectilinear pattern	<i>Geog.</i>	ऋजुरेखीय प्रतिरूप	recur	<i>Math.</i>	पुन. होना, पुनरावृत्ति होना
rectilinear	<i>Math.</i>	सरलरेखी, सरल रेखात्मक, ऋजुरेखीय	recurrence		पुनरावृत्ति
(=rectilineal)			recurrence formula		पुनरावृत्ति सूत्र
rectilinear collision		ऋजुरेखीय संघट्टन	recurrence horizon		पुनरावृत्ति स्तर
rectilinear congruence		द्विप्राचल सरल रेखा कुल	recurrence relation		पुनरावृत्ति संबंध
rectilinear current		ऋजुरेखीय धारा			



recurrence tendency		पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति	red blood corpuscle		लाल रधिर-कणिका
recurrent		पुनरावर्ती, प्रत्यावर्ती	red bole		रेड बोल, लाल बोल
recurrent event		पुनरावर्ती घटना	red brass		रक्त पित्तल
recurrent fauna	<i>Geol.</i>	पुनरावर्ती प्राणिजात	red breasted flycatcher		रक्तवक्ष मक्षिकाश
recurrent lap (=surging lap)	<i>Chem.</i>	वर्तनी बलि	red bug		लाल मत्सुण
recurrent lobe	<i>Zool.</i>	प्रत्यावर्ती पालि	red-celotone photograph		लाल-सेलोटोन फोटोग्राफ
recurrent nerve		प्रत्यावर्ती तंत्रिका	red clay		लाल सिंधुपंक
recurrent network		पुनरावर्ती जाल	red clover		लाल क्लोवर
recurring	<i>Math.,H.Sc.</i>	आवर्त, आवर्ती	red cobalt	<i>Geol.</i>	एरीयाइट
recurring continued fraction		आवर्ती वितत भिन्न	red coral		रक्त प्रवाल
recurring cost		आवर्ती लागत	red cotton bug		लाल कपास मत्सुण
recurring decimal		आवर्त दशमलव	red crag		रेड क्रेग, लाल श्रृंग
recurring expenditure		आवर्ती खर्च (व्यय)	red deer		लाल मृग
recurring nova		आवर्ती नवतारा	reddingite	<i>Geol.</i>	रेडिंगाइट
recurring period		आवर्त काल	reddingtonite	<i>Geol.</i>	रेडिंगटोनाइट
recurring series		आवर्ती श्रेणी	reddish		रक्ताम
recursion formula		प्रतिवर्तन सूत्र	reddish blue colour		रक्ताम नील रंग
recursive formula		पुनरावर्तन सूत्र	reddish brown		रक्ताम भूरा
recurved	<i>Bot.,Geol.</i>	प्रतिवक्र, प्रतिवक्रित	reddish leached soil		रक्ताम निष्कालित मृदा
recurved ovary		प्रतिवक्रित अण्डाशय	reddish purple		रक्ताम बैंगनी
recurved spine		प्रतिवक्रित शूल	reddish violet		रक्ताम बैंगनी
recurved spit		प्रतिवक्रित स्पिट	reddish white		रक्ताम श्वेत
recurvirostral	<i>Zool.</i>	अधिवक्रचंचु	reddle		रेडिल
Recurvirostridae	<i>Zool.</i>	रिकरवीरोस्ट्रीडी	red earth		लाल मिट्टी, लाल मृदा
recycle ratio	<i>Chem., Math.</i>	पुनश्चक्रण अनुपात	redeemer trod	<i>Geog.</i>	उद्धारक पथ
recycling		पुनः चक्रण	redeposition	<i>Geog.</i>	पुनर्निक्षेपण
recycling (=double pulsing)	<i>Phy.</i>	पुनःजालन (स्पर्दीत्पादन)	red eye ( <i>Drosophila</i> )	<i>Zool.</i>	अरुपाक्ष
red adder	<i>Phy.</i>	लाल योजक	redfish	<i>H.Sc.</i>	रेडफिश
red algae	<i>Bot.</i>	लाल शैवाल, लोहित शैवाल	Redford's alloy	<i>Chem.</i>	रेडफोर्ड मिश्रामु
red ant		लाल चींटी	Red Fox	<i>Chem.</i>	रेड फॉक्स
red antimony		लाल ऐन्टिमनी	red giant		रक्त दानव, लाल दानव
redbean sauce	<i>H.Sc.</i>	रेडबीन सॉस	red gland		लाल ग्रंथि
red bed		लोहित संस्तर	red-green colour blindness	<i>Zool.</i>	लाल-हरी वषण्घ्रता
red bed facies		लोहित संस्तर संलक्षणी	'red' gun		लाल प्रक्षेपी
			red haematite		लाल हेमेटाइट
			red hardness		रक्त-कठोरता

red-headed buntin		रक्तशीर्ष वन्दिन, रक्त शीर्ष भारीट	redox potential		अपचयोपचय विभव, रेडॉक्स विभव
red heat		नाल तप	redox reaction		रेडॉक्स अभिक्रिया, अपोपचय अभिक्रिया
red herring		नाल हेरिंग	red palm weevil		नाल ताड़ धुन
red hot		नाल ताप	red poll		रेड पोल
red-hot surface		रक्त तप्त सृष्ठ	red prussite of potash		पोटाश रक्त प्रुसाइट
redia	<i>Zool</i>	रेडिया	redrawing	<i>Geog</i>	पुन आरेखण
redifferentiation	<i>Bot</i>	पुनविभेदन	'red' restorer		लाक पुन स्थापक
redir	<i>Geog.</i>	रेडिर	red ring nematode		नाल वलय सूत्रइमि
red iron vitriol	<i>Geol</i>	वोट्रियोजन	red rumped swallow		रक्त भाण्डोक, रक्तकटि आवाबील
redispersible powder	<i>Chem.</i>	पुन परिक्षेपणीय धूलें	redruthite	<i>Chem.</i>	रेडरूथाइट
redistillation	<i>Chem.</i>	पुन आमचन	Red sea		नाल सागर
redistribution		पुनवितरण	Red Sea arm		नाल सागर शाखा
red lead	<i>Geol.</i>	मिनियम	red shank	<i>Zool</i>	वरण जघ
red leaf	<i>H Sc.</i>	रेडलीफ	red shift	<i>Phy.</i>	अभिरक्त विस्थापन
red litmus		नाल लिटमस	red short (Iron)	<i>Chem</i>	ताप भंगुर (लोह)
red loam		नाल दुमट	red-shortness	<i>Chem , Geol</i>	रक्तताप भंगुरता
red locust		नाल टिड्डो	red silver ore		रक्त रजत अयस्क (पादरारिराइट)
red louse		नाल यूका, लाल जूं	red spider		नाल लूना
red manganese ore		नाल मैंगनीज अयस्क	red spider mite		नाल लूना त्रिचडी
red marl		रेड मार्ल	red spur fowl		नाल नट कुक्कुट
red metal		रेड मेटल, रक्त धातु	red start	<i>Zool.</i>	रेड स्टार्ट, नपेभुक
red mite		नाल त्रिचडी	red stripe disease		नाल धारी रोग
red mud	<i>Geol.</i>	लॉहिन पक	red suture disease		नाल धीवन रोग
red mullet	<i>Zool.</i>	म्हाकेला	redtailed bot	<i>Zool</i>	नालपुच्छ सुदमकडी
red mutant allele		नाल उत्परिवर्ती विकल्पी	red tint		नाल आभा
red node disease		नाल गाठ रोग	redtop	<i>Geog.</i>	रेडटॉप (घास)
red node virus		नाल गाठ वाइरस, नाल पर्वमधि वाइरस	reduce		1. कम करना 2. समानपन करना 3. अपचयन करना
red ochre	<i>Geol.</i>	गेरू	reduced	<i>Chem.</i>	अपचित
red oil		रक्त तेल, रेड तेल	reduced bearing	<i>Geog.</i>	समानोत्त दिक्मान
redon	<i>H Sc.</i>	रेडॉन	reduced brightness (of comet)		(धूमकेतु की) समानोत्त धुनि
redona phosphate	<i>Chem.</i>	रेडोना फॉस्फेट	reduced cell		समानोत्त कोशिका
redonda phosphate	<i>Chem.</i>	रेडोन्डा फॉस्फेट			
red ore		लॉहिन अयस्क			
redox	<i>Chem</i>	रेडॉक्स, अपचयोपचय			
redox indicator		रेडॉक्स सूचक			

reduced cofactor	<i>Math.</i>	लघूकृत सहस्रगुणक	reduced relative degree	लघूकृत सापेक्ष मात्रा
reduced crude		अपचित अपरिष्कृत	reduced resin	अपचित रेजिन
reduced data	<i>Phy.</i>	परिष्कृत दत्त	reduced sampling inspection	समानीत प्रतिचयन निरीक्षण
reduced degree		लघूकृत घात	reduced terms	समानीत पद
reduced echelon form		समानीत सोपानक रूप	reduced trace	समानीत अनुरेख
reduced echelon matrix		समानीत सोपानक आव्यूह	reduced variance	समानीत प्रसरण
reduced equation		समानीत समीकरण	reduced variate	समानीत विचर
reduced equation of state		समानीत अवस्था समीकरण	reduced velocity dispersion	समानीत वेग परिक्षेपण
reduced form		समानीत रूप	reduced vergence	समानीत सृति
reduced form method		समानीत रूप विधि	reduced width	<i>Phy.</i> परिवर्तित चौड़ाई
reduced form of a game		खेल का समानीत रूप	reducer	<i>Chem.</i> 1. अपचायक (यन्त्र) 2. अपचायक (पदार्थ)
reduced haemoglobin		अपचित हीमोग्लोबिन	reducibility	<i>Math.</i> 1. समानेयता, खंडनीयता <i>Chem.</i> 2. अपचेयता
reduced inspection		लघूकृत निरीक्षण	reducibility criterion by Hensel	<i>Math.</i> हेन्सेल का खंडनीयता निकष
reduced iron		अपचित लोह	reducible	1. समानेय 2. लघूकरणीय 3. आविन्दुकोची 4. अपचेय
reduced isometric		1. समानीत सममापी 2. समानीत समायतनी	reducible algebra	खंडनीय बीजावली
reduced mass		समानीत द्रव्यमान	reducible circuit	आविन्दुकोची परिपथ
reduced mass effect		समानीत द्रव्यमान प्रभाव	reducible fraction	समानेय भिन्न
reduced modulus of elasticity		लघूकृत प्रत्यास्थता गुणांक	reducible path	आविन्दुकोची पथ
reduced modulus theory		लघूकृत मापांक सिद्धांत	reducible polynomial	खंडनीय बहुपद
reduced norm		समानीत मानक	reducible set	लघूकरणीय समुच्चय
reduced observation equation		समानीत प्रेक्षण समीकरण	reducing agent	अपचायक
reduced oil	<i>Geol.</i>	अवशिष्ट तेल	reducing area	अपचायक क्षेत्र
reduced oxide		अपचित ऑक्साइड	reducing cubic	लघूकारक त्रिघाती
reduced penultimate remainder		लघूकृत उपांतिम अवशेष	reducing flame	अपचायक ज्वाला
reduced pressure		समानीत दाब	reducing oil	अपचायक तेल
reduced primary representation		लघूकृत प्राथमिक निरूपण	reducing property	अपचायक गुणधर्म
reduced print		लघूकृत मुद्र, लघूकृत प्रिंट	reducing roots	लघूकारी मूल
reduced ramification index		लघूकृत शाखन सूचकांक	reducing solution	अपचायक विलयन
reduced real image		लघूकृत वास्तविक प्रतिबिंब	reducing sugar	अपचायी शर्करा
			reducing white ink	अपचायी ज्वेत मसी
			reducing zone	अपचायक जोन

reductant		अपचायक	redundancy	<i>Phy.</i>	अतिरिक्तता
reductase	<i>Chem.</i>	रिडक्टैस	redundancy of encoding	<i>Math.</i>	कूटलेखन अनिरेक
reductimetry		अपचयनमिति, रिडक्टीमिटी	redundant circuit		अतिरिक्त परिपथ
reductio-ad absurdum		असंगति प्रदर्शन	reduplicate	<i>Bot</i>	प्रतिवृत्ति
reduction		1. लघुकरण, न्यूनोकरण 2. (Math) समानयन 3. (Chem.) अपचयन	Reduviidae	<i>Zool</i>	रेडुवाइडी
reductional melotic division		न्यूनकारी अर्धमूर्ती विभाजन	redux process	<i>Chem.</i>	घातु अधन प्रक्रम
reduction body	<i>Zool.</i>	ह्रास पिंड	reduzate	<i>Geol</i>	रेडूजेट
reduction cell		अपचयन सेल	red variable	<i>Math.</i>	रक्त चरकानि तारा
reduction division		न्यूनकारी विभाजन	red vented bulbul	<i>Zool.</i>	रेड वेन्टेड बुलबुल, रक्तामन बुलबुल
reduction factor	<i>Phy.</i>	परिवर्तन गुणांक	red vinegar	<i>H Sc.</i>	रेड सिरका
reduction formula		लघुकरण सूत्र, समानयन-सूत्र	red water	<i>Zool.</i>	शोण जल
reduction gear		न्यूनकारी गियर	red water fever	<i>Zool.</i>	रक्त मूत्र ज्वर
reduction gyrotory crusher		लघुकरण परिघ्रमो दलित	red wattle lapwing	<i>Zool.</i>	रेड वेटल टिट्टिम
reduction index		ह्रासांक	redwhiskered	<i>Zool.</i>	रेडविस्केर्ड, रक्तगुम्फ
reduction of equator		द्विध्रुवत् समानयन, निरक्ष समानयन	redwinged	<i>Zool.</i>	रक्तपक्ष
reduction of level		तल-समानयन	redwood	<i>Geog. H Sc.</i>	रक्तदाह
reduction of map		मानचित्र-लघुकरण	Redwood viscometer	<i>Chem.</i>	रेडवुड श्यानतामापी
reduction of scale		मापनी-लघुकरण	Reech's theorem	<i>Chem.</i>	रीच प्रमेय
reduction potential		अपचयन विभव	reed	<i>Phy.</i>	रीड
reduction ratio		लघुकरण अनुपात		<i>H.Sc., Geog., Bot.</i>	नड, नराई, नरकट, नरकुल
reduction to centre	<i>Geog.</i>	अभिकेन्द्रण	reed band		रीड बैंड
reduction to lowest terms		लघुतम रूप में लाना	reed-covered surface		नरकट आवरित पृष्ठ नड-आवरित पृष्ठ
reduction ton		लघुकरण टन	reed furniture		नरकुल फर्नीचर
reduction tube		अपचायक नली	reed grass		नडघास
reductive acid		रिडक्टिव अम्ल, अपचायक अम्ल	reed instruments		रीड-वाद्य
reductive algebra	<i>Math.</i>	विघटनीय बीजावली	reed marks		नड चिह्न
reductive coset		विघटनीय सट्टसमुच्चय	Reed Mulinch method		रीड मुच विधि
reductive subgroup		विघटनीय उपसमूह	Reed-Muller code		रीड मूलर कूट
reductone	<i>Chem.</i>	रिडक्टोन	reed organ		रीड आर्गन
reductor	<i>Chem.</i>	अपचायक, रिडक्टर	reed peat		रीड पीट
redulith	<i>Chem.</i>	रेड्यूलिय	reed pipe	<i>Geog.</i>	रीड-पाइप
			reed pool		नडमय तालाब
			Reed reaction		रीड अभिक्रिया
			reed swamp		नड अनुप, नरकुल अनुप
			reed symbol		नड प्रतीक

reed (type) relay		रीड रिले	reentry	Phy.	पुनः प्रवेश
reed width	H.Sc.	रीड चौड़ाई	reentry body		पुनः प्रविष्ट पिंड
reedy cloth	H.Sc.	रीड़ी वस्त्र	reentry path		पुनः प्रवेश पथ
reedy coal	Geol.	रीड़ी कौयला	Reese River process	Geol.	रीजरिवर प्रक्रम
reef	Geol., Zool.	रीफ, भित्ति, शैल-भित्ति	reestablishment	Geog.	पुनः स्थापन
	Chem.	अंतर्घूमन	re-evaporatian	Geol., Phy.	पुनर्वाष्पन
reef-building coral	Zool.	भित्तिकारी प्रवाल	reeve	Zool.	भट जलरंका
reef-building worm	Geog.	भित्ति-निर्माणी कृमि	re-export	Geog.	पुनर्निर्यात
reef cluster	Geol.	प्रवालभित्ति पुंज	reevon	H.Sc.	रीवॉन
reef edge		प्रवालभित्ति कोर	refdanskite	Geol.	रेफडैन्स्काइट
reef-facies		भित्ति संलक्षणी	refection	Zool.	स्वविप्टाशन
reef flat		रीफ अंचल	referee method	Chem.	निर्णायक पद्धति
reef foundation		भित्ति नींव, भित्ति आधार	reference	Geog.	1. निर्देश 2. संदर्भ
reef front		भित्ति अग्र	reference address (= base address)		निर्देश पता
reefing	Geol.	रीफ खनन	reference angle		निर्देश कोण
reef knoll		भित्ति टेकरी	reference black level		संदर्भों कृष्ण स्तर, कृष्ण निर्देश तल
reef limestone		भित्ति-चूनाश्म	reference box		संदर्भ तालिका
reef picking		रीफ चयन	reference cell		संदर्भ सेल
reef wash		रीफ धोत	reference circle		निर्देशवृत्त
reeking humidity	Geog.	चरम आर्द्रता	reference cycle		निर्देश-चक्र
reel	H.Sc.	रील	reference datum		निर्देशदत्त; उपमान दत्त
reeler	Chem.	रीलन मशीन, संश्लेषण यंत्र	reference electrode		निर्देश इलेक्ट्रोड
	Zool.	संचलक	reference ink		संदर्भ मसी
reeling	Chem., H.Sc.	संश्लेषण, व्यावर्तन	reference line		संदर्भ रेखा, निर्देश रेखा
reeling machine	Geog.	संश्लेषण यंत्र, संश्लेषण मशीन	reference mark		निर्देश चिह्न
re-emerge	Geog.	पुनः उन्मज्ज	reference noise		निर्देश रव
re-entrance angle		अंतः प्रविष्ट कोण	reference number		संदर्भ अंक
re-entrant		अंतः प्रवेशी	reference point		निर्देश बिन्दु, संदर्भ बिन्दु
re-entrant angle		अंतः प्रविष्ट कोण	reference scale		निर्देश मापक्रम
re-entrant corner		अन्तः प्रविष्ट कोना	reference signal		निर्देश संकेत
re-entrant oscillator	Phy.	पुनः निवृष्ट दोलक	reference sketch	Geog.	अनुचित्र
reentrant syncline		अन्तः प्रविष्ट अमिनति	reference spheroid		संदर्भ गोलाभ
re-entrant valley		अन्तः प्रविष्ट घाटी	reference station		संदर्भ स्टेशन, संदर्भ चांदा
re-entrant vortex filament		पुनः प्रविष्ट घ्रमिल-तंतु	reference surface		निर्देश पृष्ठ, संदर्भ तल

reference system		निर्देश तंत्र	reflected wave		परावर्तित तरंग
reference table		संदर्भ सारणी	reflecting baked-enamel finish		परावर्ती भवित्त इनेमल परिष्कृता
reference time		निर्देश समय	reflecting barrier		परावर्ती अवरोध
reference to box		संदर्भ सूचक	reflecting efficiency		परावर्तन दक्षता
reference white level		संदर्भ श्वेत स्तर, श्वेत निर्देश तंत्र	reflecting goniometer		परावर्तन कोणमापी
refikite	<i>Geol.</i>	रेफिक्राइट	reflecting power		परावर्तन क्षमता
refina wool	<i>H Sc.</i>	रेफीना ऊन	reflecting surface		परावर्ती सृष्ट
refined birth rate	<i>H Sc</i>	शोधित जन्म दर	reflection		परावर्तन
refined death rate		शोधित मृत्यु	reflection coefficient		परावर्तन गुणांक, परावर्तनांक
refined flour (=soft flour)	<i>H.Sc.</i>	भैंदा	reflection coincidence		परावर्तन मपात
refined technique	<i>Phy.</i>	परिष्कृत तकनीक	reflection density		परावर्तन घनत्व
refinement		1. शोधन, परिष्करण 2. अधिशोधन	reflection effect		परावर्तन-प्रभाव
refinement cycle		अधिशोधन चक्र	reflection factor		परावर्तन गुणक
refinement for acentric synthesis		अनेन्द्रिक संश्लेषण अधिशोधन	reflection galvanometer		परावर्तन धारामापी
refinement of a normal series		प्रत्यामान्य श्रेणी का अधिशोधन	reflection grating		परावर्तन ग्रेटिंग
refinement theorem		अधिशोधन प्रमेय	reflection grating monochromator		परावर्तन-ग्रेटिंग एकवर्णित्र
refiner		1. शोधित्र 2. शोधन कक्ष	reflection interval		परावर्तन अंतराल
refinery	<i>Geog.</i>	परिष्करण शाला	reflection interval radar		परावर्तनानंतरान रडार
refining		शोधन, परिष्करण	reflection layer		परावर्तक स्तर
refining agent		परिष्कारक	reflection loss	<i>Phy</i>	परावर्तनिक हानि
refining of metal		धातु-शोधन	reflection magneto-meter		परावर्तन चुंबकत्वमापी
refining process		परिष्करण प्रक्रम	reflection maxima		परावर्तन भूदिव्य
reflectance	<i>Phy</i>	परावर्तकता	reflection nebula		परावर्तन-नीहासिका
reflectance densitometer		परावर्तकता घनत्वमापी	reflection parameter		परावर्तन पैरामीटर, परावर्तन प्राचय
reflected	<i>Phy., Chem., Geol.</i>	1. परावर्तित, प्रतिबिंबित 2. बहिन	reflection pattern		परावर्तन चित्रण
reflected buried hill		प्रतिबिंबित अतहित गिरि	reflection plotter		परावर्तन आरेखित्र
reflected buried structure		प्रतिबिंबित अतहित संरचना	reflection power		परावर्तन क्षमता, परावर्तकता
reflected ray		परावर्तित किरण	reflection shooting		परावर्तन विस्फोट
reflected resistance		परावर्तित प्रतिरोध	reflection telescope		परावर्ती दूरदर्शक
reflected train of waves		परावर्तित तरंगश्रृंखला	reflective optics (= projection optics)	<i>Phy.</i>	1. प्रक्षेप प्रकाशिकीय व्यवस्था 2. प्रक्षेप प्रकाशिकी

reflective power		परावर्तन क्षमता	refocussing method	Phy.	पुनः फोकसन विधि
reflectivity	Phy.	परावर्तकता	refold	Geol.	पुनर्वलन
reflectivity correction		परावर्तकता संशोधन	refolded fold		पुनर्वलित बलन
reflectivity-correlation		परावर्तकता सहसंबंध	reforestation (=reafforestation)	Geog.	पुनर्वनरोपण
reflectivity factor		परावर्तकता गुणक	reform	Chem.	पुनरुत्पादन, पुनः संभावित
reflectometer	Phy.	परावर्तनमापी	reformate		पुनः संभावित, पुनरुत्पादित
reflector	Phy.,H.Sc.	परावर्तक	reformation of cartography	Geog.	मानचित्रकला सुधार
reflector electrode		परावर्ती इलेक्ट्रोड	Reformatsky reaction	Chem.	रिफॉर्मेट्स्की अभिक्रिया
reflector layer		परावर्तक स्तर	reforming		पुनःसंभावन
reflector saving		परावर्तक बचत	refractor	Chem.	रिफ्रैकोर
reflector tracker (=plotting plate)	Phy.	आलेखन पट्टिका	refractaloy	Chem.	उच्चतापसह मिश्रातु
reflectoscope		परावर्तनदर्शी	refracted	Bot.,Phy., Geog.	अपवर्तित
reflex	Zool.,H.Sc.	प्रतिवर्त	refracted ray		अपवर्तित किरण
reflex action		प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्तन	refractility		अपवर्तनीयता
reflex baffle		प्रतिवर्ती ब्यारोड	refracting power		अपवर्तन क्षमता
reflex behaviour		प्रतिवर्ती व्यवहार	refracting prism		अपवर्तक प्रिज्म
reflex bleeding		प्रतिवर्ती रुधिरक्षेपण	refracting surface		अपवर्तक पृष्ठ
reflex bunching		प्रतिवर्ती गुच्छन	refraction	Phy.,H.Sc.	अपवर्तन
reflex camera	Phy.	रिफ्लेक्स कैमरा	refraction correction		अपवर्तन संशोधन
reflex centre		प्रतिवर्ती केन्द्र	refraction mono- chromator		अपवर्तन एकवर्णित
reflex copying		प्रतिवर्ती प्रतिकरण	refraction profile shooting		अपवर्तन प्रोफाइल शूटिंग
reflexed		1. बलित 2. नत	refraction shooting		अपवर्तन विस्फोट
reflexed pileus	Bot.	बहिर्वलित छत्रिका	refractive eddies	Phy.	अपवर्तन भंवर
reflexive	Math.	स्वतुल्य	refractive index		अपवर्तनांक
reflexive law		स्वतुल्य नियम	refractivity	Phy.	अपवर्तकता
reflexive relation		स्वतुल्य संबंध	refractolith	Chem.	रिफ्रैक्टोलिय
reflexive space		स्वतुल्य समष्टि	refractometer	Phy.	अपवर्तनांकमापी
reflexivity		स्वतुल्यता	refractometric measurement		अपवर्तनांक मापन
reflex klystron		प्रतिवर्ती क्लाइस्ट्रॉन	refractometric method		अपवर्तनमिति पद्धति
reflex klystron oscillator		प्रतिवर्ती क्लाइस्ट्रॉन दोलक	refractoriness	Zool.	अननुत्तरणता
reflex mechanism		प्रतिवर्ती क्रियाविधि	refractory	Chem., Geol.	उच्चतापसह, दुर्गलनीय
reflex stimulation		प्रतिवर्ती उद्दीपन			
reflorescence	Bot.	पुनः पुष्पण			
refluxcondenser		परचवाही संचयित्र			
reflux ratio		परचवाही अनुपात			

refractory brick		उच्चतापसह ईंट	regenerate	Chem.	पुनर्घोषित करना
refractory carbide		रिफ्रेक्टरी कार्बाइड, उच्चतापसह कार्बाइड	regenerated protein fiber	H Sc.	पुनर्घोषित प्रोटीन तन्तु
refractory casing		उच्चतापसह आवरण, रिफ्रेक्टरी आवरण	regenerated rock	Geol.	खड्ड शैल
refractory furnace		उच्चताप भट्टी	regenerated ulmin	Geol.	उत्तरजात अल्मिन
refractory metal		दुर्गमनीय धातु	regeneration	Phy. H Sc.	1 पुनरुद्भवन 2 सपोषो पुनर्निवेशन 3 पुनर्जनन
refractory ore		दुर्गमनीय अयस्क	regeneration coupling		पुनर्जनन युग्मन
refractory period	Phy Zool	1 अनुक्रियाहीन काल 2 अनुत्तेजन अवधि	regeneration sequence		पुनर्जनन अनुक्रम
refrangibility		अपवर्तनशीलता	regenerative	Biol., Chem., Phy.	पुनर्जनी, पुनर्घोषो, पुनरुत्पादक
refrangible	Chem	अपवर्तनशील	regenerative cell	Chem., Biol.	पुनरुत्पादक कोशिका
refreezing	Geog.	पुनर्हिमीमवन	regenerative cooling		पुनर्निवेशी शीतलन
refrigerant	Chem., H Sc	प्रशीतक	regenerative cycle		पुनर्घोषो चक्र
refrigerate	H Sc.	प्रशीतित करना	regenerative firing		पुनर्घोषो दहन
refrigeration	Phy., H Sc.	प्रशीतन	regenerative furnace		पुनर्घोषो भट्टी
refrigeration cycle		प्रशीतन चक्र	regenerative nidus		पुनरुत्पादक नोड
refrigeration injury		प्रशीतन क्षति	regenerative operation		पुनर्घोषो प्रचालन
refrigeration plant		प्रशीतन सयन्त्र	regenerative process		पुनर्घोषो प्रवर्ध
refrigerator	H.Sc., Phy.	प्रशीतित्र, रेफ्रिजरेटर	regenerative system		पुनर्घोषो तंत्र
refrigerator bag		प्रशीतित्र थैला, रेफ्रिजरेटर बैग	regenerative territory		पुनरुत्पादक क्षेत्र
refringent body		अपवर्तक पिंड	regenerative voltage	Phy.	सपोषक बोल्टता, पुनर्घोषो बोल्टता
refuelling	Geog., H Sc	पुनर् ईंधन भरना	regenerator	Phy.	पुनर्घोषित्र
refuge	Geog.	शरण, आश्रय	regent	Geog.	रीजेंट, राजप
refugium	Bot.	रिफ्यूजियम	regime	Geog., Geol.	1. शासन 2. प्रवृत्ति
refund	H Sc.	घनदापसी	regimen of a stream	Geol.	सरिता प्रवृत्ति
refurbished	Geog., H.Sc.	पुनर् मज्जित	regime of precipitation		वर्षण की प्रवृत्ति
refurnished	H.Sc.	पुनर् मज्जित	regime of rainfall		वर्षा की प्रवृत्ति
refuse	Chem. H.Sc.	1. कचरा 2. उच्छिष्ट	regime of river		नदी की प्रवृत्ति
reg	Bot.	बजरी सदृश्यन, रेश	regina twill	H.Sc.	रिजास्ता ट्वील
Regadrella	Zool.	रिगाड्रेला	region	Geog., Math.	प्रदेश, क्षेत्र
regain	Chem.	वनेदाप्ति	regional address		प्रदेशीय पत्रा
Regalecus	Zool.	रगैलेकस	regional analysis map		क्षेत्र विश्लेषण मानचित्र
regalia	Geog.	षदवी चिह्न	regional centrality		प्रादेशिक केन्द्रीयता
regatta	H.Sc.	रिगैटा	regional centre		प्रादेशिक केन्द्र
regelation	Geog., Geol., Phy	पुनर्हिमायन			



regional circle	प्रादेशिक परिमण्डल	region of admissible designs	ग्राह्य अभिकल्पना प्रदेश
regional clientele	प्रादेशिक ग्राहक निकाय	region of convergence	अभिसरण प्रदेश
regional compensation	क्षेत्रीय प्रतिकार	region of disregistry	वनमिलेख क्षेत्र
regional isostatic compensation	क्षेत्रीय समस्थितिक प्रतिकार	region of divergence	अपसरण प्रदेश
regional correlation	प्रादेशिक सहसंबंधन	region of fit	आसंजन प्रदेश
regional culture	प्रादेशिक संस्कृति	region of indecision	अनिर्णय प्रदेश
regional density	क्षेत्रीय घनत्व	region of independent variables	स्वतन्त्र चरों का प्रदेश
regional dip	प्रादेशिक नति	region of influence	असर क्षेत्र
regional function	प्रादेशिक कार्य	region of integration	समाकलन प्रदेश
regional geography	प्रादेशिक भूगोल	region of limited proportionality	सीमित अनुपातितता कला क्षेत्र
regional geology	प्रादेशिक भूविज्ञान	region of natural landscape	<i>Geog.</i> प्राकृत भूदृश्य प्रदेश
regional gravity map	प्रादेशिक गुरुत्व मानचित्र	region of no oscillation	दोलनहीन प्रदेश
regional grouping	प्रादेशिक वर्गीकरण	region of spontaneous magnetisation	स्वतः चुंबकन प्रभाव क्षेत्र
regional homogeneity	प्रादेशिक समांगता	region of super heat	वर्तिताप प्रदेश
regionalism	प्रादेशिकता	region pseudo operation	प्रदेश-छद्म संक्रिया
regional isostatic anomaly	क्षेत्रीय समस्थितिक असंगति	register	<i>Geog.</i> पंजी, रजिस्टर पंजीयन
regionalist	प्रदेशवादी	registered security	<i>H.Sc.</i> पंजीकृत प्रति-भूति, रजिस्टर्ड प्रति-भूति
regionalization	प्रादेशीकरण	registering apparatus	<i>Geol.</i> अभिलेखन उपकरण
regionalized	प्रादेशीकृत	registering balloon	<i>Geog.</i> मौसम सूचक बैलून
regional market	प्रादेशिक बाजार	register slip	<i>Geog.</i> रजिस्ट्री पर्ची
regional metamorphism	प्रादेशिक कायांतरण	registration	<i>H.Sc., Geog.</i> रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण
regional metropolis	प्रादेशिक महानगर	registration mark	<i>Geog.</i> रजिस्ट्रेशन चिह्न
regional movement	प्रादेशिक आन्दोलन	regma	रेग्मा
regional old age	प्रादेशिक जीर्णवस्था	regmatic	<i>Geol.</i> विभंगीय
regional planning	प्रादेशिक योजना	Regnaults' method	<i>Chem.</i> रेन्यो विधि
regional shopping centre	प्रादेशिक क्रय केन्द्र	Regnellidium	रेग्नीलिडियम
regional standard of rest	प्रादेशिक विराम-मानक	regny	<i>H.Sc.</i> रेग्नी
regional tourist map	प्रादेशिक पर्यटक मानचित्र	regolith	<i>Geol.</i> आवरण प्रस्तर, रेगोलिथ
regional town planning unit	प्रादेशिक नगर योजना एकक	regosol	<i>Geog.</i> रेगोसोल
regional unconformity	प्रादेशिक विषमविन्यास	regradation	<i>Geol., Geog.</i> पुनस्संतुल तलन
regional unification	प्रादेशिक एकीकरण	regress	<i>Phy.</i> प्रतिगमन, प्रतिक्रमण
regional urbanization	प्रादेशिक नगरीकरण	regressand	<i>Math.</i> नमाश्रेय
region of acceptance	स्वीकृति प्रदेश		

regression	<i>Astr., Geog</i>	1. वक्री गति 2 पञ्च गमन	regular chain	नियमित शृंखला
	<i>Math.</i>	3 समाश्रयण	regular content	नियमित आधेय
	<i>Biol., Geol</i>	4 प्रतिक्रमण	regular convergence	नियमित अभिसरण
regressional geodesic		समाश्रयण अल्पातरी	regular curve	नियमित वक्र
regression analysis		समाश्रयण विश्लेषण	regular decagon	सम दशभुज
regression calculation		समाश्रयण परिवर्तन	regular doublet	नियमित द्विक, चक्रण-द्विक
regression curve		समाश्रयण वक्र	regular eddy pattern	नियमित भ्रवर प्रतिक्रमण
regression effect		समाश्रयण प्रभाव	regular element of a ring	खल्य का नियमित अवयव
regression equation		समाश्रयण समीकरण	regular estimation	नियमित आकलन
regression error		समाश्रयण-त्रुटि	regular figure	समभुज आकृति, सम आकृति
regression estimate		समाश्रयण आकलन	regular flower	सममित्र पुष्प
regression function		समाश्रयण फलन	regular force	नियमित बल
regression line		समाश्रयण रेखा	regular guide	नियमित गाइड
regression model		समाश्रयण निदर्श	regular harmonic function	नियमित प्रमवादी फलन
regression of nodes		पासो की वक्री गति	regular heptagon	सम सप्तभुज
regression plane		समाश्रयण-समतल	regular hexagon	सम षट्भुज
regression pheno- menon		समाश्रयण परिघटना	regular hexahedron	समषट्फलक
regression polynomial		समाश्रयण-बहुपद	Regularia	<i>Zool., Geol.</i> रेगुलेरिया
regression ratio		समाश्रयण-अनुपात	regular ideal	नियमित युग्मजावली
regressive burning	<i>Phy</i>	दावधायी ज्वलन	regular integral	नियमित समाकलन
regressive evolution	<i>Zool., Geol., Geog.</i>	प्रतिव्रामो विकास	regularity condition	नियमितता प्रतिबंध
regressive metamorphism		प्रतिव्रामो कायांतरण	regularly closed space	नियमित सद्बुत समष्टि
regressive overlap		प्रतिव्रामो अतिव्याप्ति	regular map	नियमित प्रतिचित्र
regressive sand wave		प्रतिव्रामो बालुका तरंग	regular matrix	नियमित आव्यूह
regressor	<i>Math</i>	समाश्रयी	regular mesure	नियमित माप
regret analysis	<i>Math.</i>	खेद विश्लेषण	regular motion	नियमित गति
regret matrix		खेद आव्यूह	regular nonagon	सम नवभुज
regrowth layer	<i>Phy.</i>	पुनः रोहण परत	regularo bufagin	<i>Chem.</i> रेग्यूलरो ब्यूफेगिन
regula falsi	<i>Math.</i>	सिध्या स्थिति विधि	regular octagon	<i>Math.</i> सम अष्टभुज
regular	<i>Math., Geog Biol.</i>	1. सम, नियमित 2 सममित	regular octahedron	समत्र्यष्टफलक
regular agglutination		नियमित समूहन	regular orbit	नियमित कक्षा
regular allowance		नियमित भत्ता	regular parameter	नियमित प्राचन
regular analytic curve		नियमित विश्लेषिक वक्र	regular pentagon	सम पंचभुज
regular arc		नियमित चाप	regular perturbation problem	नियमित क्षोभ समस्या
regular Borel measure		नियमित बोरेल माप		

regular polygon		सम बहुभुज	regulation of output		निर्गम नियमन ।
regular polyhedron		समबहुफलक	regulative development	Zool.	नियमनकारी परिवर्धन
regular prism		समभुजाधार प्रिज्म	regulator	H.Sc., Phy., Geog.	नियामक, नियंत्रक
regular pyramid		सम पिरैमिड	regulator clock		नियामक घड़ी
regular realization		नियमित निरूपण	regulator gene	Zool.	नियामक जीन
regular reflection		नियमित परावर्तन	regulator mixture (buffer solution)		नियामक मिश्रण
regular region		नियमित प्रदेश	regulo	Zool.	रेगूलो
regular rhythm		नियमित लय	*Regulus (= $\alpha$ Leonis)	Astron.	मघा, रेगुलस (= $\alpha$ सिंह, $\alpha$ लिओनिस)
regular representation		नियमित निरूपण	regulus	Chem.	शुद्ध प्राय घातु
regular series		नियमित श्रेणी	regulus of antimony		शुद्ध प्राय ऐन्टिमनी
regular set		नियमित समुच्चय	regulus of Venus	Chem.	विनस रेगुलस, शुक्र रेगुलस (मिश्रातु)
regular singularity		नियमित विचित्रता	regur	Geol.	रेगड़
regular solid	Math.	समफलकी ठोस	regurgitated juice		उद्गलित रस
regular solution		नियमित साधन, नियमित हल	regurgitation	Bot., Zool., H.Sc.	उद्गलन, प्रत्यावहन
regular space		नियमित समष्टि	reh	Geol.	रेह
regular system		नियमित निकाय	rehabilitation	Geog., H.Sc.	पुनर्वास, पुनर्वासन
regular spare-time occupier		नियमित अतिरिक्त समय अभिधारक	rehalogenation	Chem.	पुनर्हैलोजनीकरण
regular survey programme		नियमित सर्वेक्षण कार्यक्रम	rehani	H.Sc.	रिहानी
regular tetrahedron		सम चतुष्फलक	reheater	Chem.	पुनस्तापित्र
regular time production		नियमितकालीन उत्पादन	reheat factor	Phy.	पुनः तापन गुणांक
regular trace form		नियमित अनुरेख रूप	reheating	Chem.	पुनस्तापन
regular twill	H.Sc.	सम रेखिका, समद्विवल	Rehmsdorf process	Chem.	रेम्सडॉर्फ प्रक्रम
regular yield locus		नियमित पराभव बिंदु पथ	rehoboam	H.Sc.	रीहॉवोएम
regulate	Chem., Phy.	नियंत्रण करना	rehydration	Geog., Chem., H.Sc.	पुनर्हृदकन, पुनर्जलयोजन
regulated common		नियंत्रित सार्वजनिक भूमि, नियंत्रित कॉमन	rehydration of clay-particle		मिट्टीकण-पुनर्जलयोजन
regulated power supply (= stabilised power supply)		नियमित शक्ति प्रदायी, स्थायीकृत शक्ति प्रदायी	rehydration ratio	Chem.	पुनःउदकन अनुपात
regulating resistance		नियंत्रक प्रतिरोध	reichardite	Geol.	राइकार्डाइट
regulating screw	H.Sc.	नियामक पेंच	Reichardt's inductive theory	Math.	राइकर्ट आगमनिक सिद्धान्त
regulating shutters		नियामक कपाट	Reichert Meissl value	Bot., Chem.	राइकर्ट माइसल मान
regulation	Biol., Phy., H.Sc.	नियमन	Reichert value	Chem.	राइकर्ट मान
regulation egg		नियमन अंडा	Reichert Wollny process		राइकर्ट वॉल्नी प्रक्रम

Reich process		राइक प्रक्रम	Reissert synthesis	<i>Chem.</i>	राइसर्ट संश्लेषण
Reichstadt	<i>Geog.</i>	राजधानी नगर, रीकस्टाट	reissite	<i>Geol.</i>	राइसाइट
Reichsteile	<i>Geog.</i>	प्रधान नगर, रीस्टीले	reissue	<i>Geog.</i>	पुनर्निर्गम
Reichstein's compound	<i>Chem.</i>	राइकस्टाइन यौगिक	rejected heat	<i>Phy.</i>	निराकृत ऊष्मा
Reid vapour pressure	<i>Chem.</i>	रीड वाष्पदाब	rejection	<i>Math.,Phy.</i>	निराकरण
Reike diagram	<i>Phy.</i>	राइके आरेख	rejection band		निराकृत बैंड
Reimer-Tiemann reaction	<i>Chem.</i>	राइमर-टीमन अभिक्रिया	rejection level	<i>Phy.,Math</i>	अस्वीकरण स्तर
reimmunized	<i>Bot</i>	पुनारोधसम	rejection number		निराकरण संख्या
reimpregnated	<i>Zool.</i>	पुन संश्लेषित	rejection plan		अस्वीकरण आयोजना
reindeer	<i>Geog.,Zool</i>	रेनडियर	reject limit		अस्वीकरण सीमा
reindeer cheese		रेनडियर पनीर	rejector circuit		अस्वीकारी परिपथ
Reinecke's salt	<i>Chem.</i>	राइनेके लवण	"rejects" (=below standard)	<i>Chem.</i>	निरस्त
Reiner's theory	<i>Chem.</i>	राइनर थार	rejuvenated	<i>Geol Geog.</i>	1 पुनर्ज्वलित 2 पुनरुद्भूत
reinfection	<i>Biol.</i>	पुनस्सक्रमण	rejuvenated fault scarp		पुनरुद्भूत भ्रंशकगार
reinfestation	<i>Zool.</i>	पुनर्ग्रसन	rejuvenated river		पुनर्ज्वलित नदी
reinfiltration	<i>Bot.</i>	पुनः अन्त स्थन्दन	rejuvenated water		पुनरुद्भूत जल
reinforced	<i>Math</i>	प्रबलित	rejuvenation-head		पुनर्ज्वन शीर्ष
reinforced body		प्रबलित पिंड	rejuvenille		पुनर्ज्व
reinforced cuboid		प्रबलित आयतफलक	rejuvenescence	<i>Zool</i>	पुनर्ज्वन
reinforcement		प्रबलीकरण, प्रबलन	relaid	<i>Geog.</i>	पुनर्विन्यस्त
reinforcing agent		प्रबलक	reladling	<i>Chem.</i>	पुनः दवायन
reinforcing pigment (= inert pigment)		प्रबलन वर्णक (अक्रिय दणक)	relapse	<i>H.Sc</i>	पुनरावर्तन
Reinganum's viscosity equation	<i>Chem.</i>	राइनगनम श्यानता समीकरण	relapse strain	<i>Zool.</i>	आवर्ती विभेद
reinite	<i>Geol.</i>	राइनाइट	relapsing fever		पुनरावर्ती ज्वर
reinoculation	<i>Zool, Bot.</i>	पुनर्निवेशन, पुन संरोपण	related matrix	<i>Math.</i>	संबंधित आब्यूह
Reinsch's test	<i>Chem.</i>	राइन्श परीक्षण	related product	<i>H.Sc.</i>	संबंधित उत्पाद
reinserted carrier	<i>Phy.</i>	पुनर्निविष्ट वाहक	relation	<i>Math.</i>	संबंध
re-institution	<i>Geog.</i>	पुनः स्थापन	relational colling	<i>Zool.</i>	संबंधरक कुटनन
reinsurance	<i>H.Sc.</i>	पुनर्बीमा	relation algebra		संबंधों की बीज क्रियाएँ
Reinwardia indica	<i>Bot.</i>	राइनवारदिया इन्डिका	relation-structure		संबंध संरचना
re-irradiated	<i>Chem.</i>	पुनः किरणित	relative	<i>Geog.</i>	आपेक्षिक, सापेक्ष
Reiset's chloride	<i>Chem.</i>	राइसेट क्लोराइड	relative acceleration		आपेक्षिक त्वरण
			relative activity		मापेक्ष सक्रियता
			relative address		सापेक्ष पता
			relative addressing		सापेक्ष पताभिगमन

relative address part	सापेक्ष पतांश	relative frequency	H.Sc.	आपेक्षिक बारंबारता, आपेक्षिक आवृत्ति
relative address register	आपेक्षिक पता पंजी	relative gravity		आपेक्षिक गुरुत्व
relative age	आपेक्षिक आयु	relative hearing loss		सापेक्ष श्रवण हानि
relative aircraft density	आपेक्षिक वायुमान घनत्व	relative height		सापेक्ष ऊंचाई
relative altitude	आपेक्षिक उच्चता	relative homomorphism		आपेक्ष समकारिता
relative angular momentum	आपेक्षिक कोणीय संवेग	relative humidity		आपेक्षिक आर्द्रता
relative aperture	आपेक्षिक द्वारक	relative invariant		आपेक्षिक निश्चर
relative family wage	सापेक्ष परिवार मजदूरी	relative importance		सापेक्ष महत्व
relative bearing	आपेक्षिक दिक्मान	relative location		सापेक्ष अवस्थिति
relative biological effectiveness	आपेक्षिक जैविक प्रभावशीलता	relative loss factor		सापेक्ष हानि-कारक
relative boundedness	आपेक्षिक परिवद्धता	relative lowering		आपेक्षिक अवनमन
relative centroid	आपेक्षिक केन्द्रक	relatively bounded linear functional		सापेक्षतः परिवद्ध रैखिक फलनक
relative centroid velocity field	आपेक्षिक केन्द्रक वेग क्षेत्र	relatively closed set		सापेक्ष संवृत समुच्चय
relative chalking	सापेक्ष विघटन दर	relatively complete set of functions		फलनों का सापेक्ष पूर्ण समुच्चय
relative complement	सापेक्ष पूरक	relatively countably compact		सापेक्षतः गणनीयतः संहत
relative conductivity	आपेक्षिक चालकता	relatively invariant measure		सापेक्ष निश्चर माप
relative coordinates	आपेक्षिक निर्देशांक	relatively open set		सापेक्ष विवृत समुच्चय
relative degree	सापेक्ष मात्रा	relatively prime divisor		सापेक्षतः अभाज्य भाजक
relative delay	आपेक्षिक विलंब	relatively prime element		सापेक्षतः अभाज्य अवयव
relative density	आपेक्षिक घनत्व	relatively steady motion		सापेक्षतः अपरिवर्ती गति
relative departure	आपेक्षिक विचलन	relative mass		आपेक्षिक द्रव्यमान
relative direction	आपेक्षिक दिशा	relative maximum		आपेक्षिक उच्चतम
"relative" distribution function (=normalised distribution function)	सापेक्ष वितरण फलन (प्रसामान्यित वितरण फलन)	relative mean deviation		आपेक्षिक माध्य विचलन
relative dryness	सापेक्ष शुष्कता	relative minimum		आपेक्षिक निम्नतम
relative efficiency	आपेक्षिक दक्षता	relative motion		आपेक्षिक गति
relative elongation	आपेक्षिक दीर्घवृद्धि	relative orientation		सापेक्ष दिक्विन्यास, सापेक्ष दिक्स्थापन
relative error	आपेक्षिक त्रुटि	relative parallax		आपेक्षिक लंबन
relative error test	आपेक्षिक त्रुटि परीक्षण	relative plot		आपेक्षिक आलेख
relative excitation curve	आपेक्षिक उत्तेजक-वक्र	relative position		आपेक्षिक स्थिति
relative fluid conductance	आपेक्षिक तरल चालकता	relative precision		आपेक्षिक परिशुद्धता

relative probability (= conditional probability)	आपेक्षिक प्रायिकता	relativistically invariant	<i>Phy.</i>	आपेक्षिकता निश्चर
relative proper motion	आपेक्षिक निजी गति	relativistic analogy		आपेक्षिकीय अनुरूपता
relative quiescence	सापेक्ष निश्चलता, सापेक्ष मदक्रियता	relativistic correction		आपेक्षिकीय समीकरण
relative reliability index	सापेक्ष विश्वस्तता सूची	relativistic cosmology		आपेक्षिकीय ब्रह्मांडकी
relative relief	आपेक्षिक उच्चावच	relativistic denominator		आपेक्षिकीय हर
relative relief map	आपेक्षिक उच्चावच मानचित्र	relativistic derivation		आपेक्षिकीय व्युत्पत्ति
relative rotation	आपेक्षिक घूर्णन	relativistic effect		आपेक्षिकीय प्रभाव
relative scalar	सापेक्ष अदिश	relativistic electrodynamics		आपेक्षिकीय विद्युत् चुम्बकीय सिद्धान्त
relative sexuality	सापेक्ष लैंगिकता	relativistic electromagnetic theory		आपेक्षिकीय विद्युत् चुम्बकीय सिद्धान्त
relative solubility	आपेक्षिक विलेयता	relativistic energy relation		आपेक्षिकीय ऊर्जा-सूत्र
relative specificity	सापेक्ष विशिष्टता	relativistic energy theory		आपेक्षिकीय ऊर्जा प्रमेय
relative stopping power	आपेक्षिक निरोधी क्षमता	relativistic equation		आपेक्षिकीय समीकरण
relative sunspot number	आपेक्षिक सूर्य कलक संख्या	relativistic field equation		आपेक्षिकीय क्षेत्र समीकरण
relative tensor	सापेक्ष प्रदिश सापेक्ष टेन्सर	relativistic first law		आपेक्षिकीय प्रथम नियम
relative tilt	सापेक्ष नति	relativistic formula		आपेक्षिकीय सूत्र
relative topology	आपेक्षिक स्थिति	relativistic Hugoniot equation		आपेक्षिकीय ह्यूगोनियो समीकरण
relative transpiration	आपेक्षिक वाष्पोत्सर्जन	relativistic hydrodynamics		आपेक्षिकीय द्रवगतिकी
relative tributary area	आपेक्षिक पोषक क्षेत्र	relativistic interaction		आपेक्षिकीय अन्योन्य क्रिया
relative turbidity	आपेक्षिक स्फूर्ति	relativistic interaction energy		आपेक्षिकीय अन्योन्यक्रिया ऊर्जा
relative uniformity	सापेक्ष परिवेशक	relativistic invariance		आपेक्षिकीय निश्चरता
relative variability	आपेक्षिक विचरणशीलता	relativistic kinetic energy		आपेक्षिकीय गतिज ऊर्जा
relative vector	सापेक्ष सदिश	relativistic Lagrangian		आपेक्षिकीय सप्राचिपन
relative velocity	आपेक्षिक वेग	relativistic magnetohydrodynamics		आपेक्षिकीय चुंबक द्रवगतिकी
relative viscosity	आपेक्षिक श्यानता	relativistic mass		आपेक्षिकीय द्रव्यमान
relative vorticity	सापेक्ष घूर्णितता	relativistic mass relaxation		आपेक्षिकीय सहृदि क्षिपिलन
relative wetness	सापेक्ष आर्द्रता	relativistic mechanics		आपेक्षिकीय यांत्रिकी, आपेक्षिकीय बल विज्ञान
relative wind	आपेक्षिक पवन			
relativist	सापेक्षवादी			
relativistic	आपेक्षिकीय			
relativistic aberration formula	आपेक्षिकीय अपेक्ष-सूत्र			

relativistic optics		आपेक्षिकीय प्रकाशिकी	relaxation frequency		विश्रान्ति आवृत्ति
relativistic particle		आपेक्षिकीय कण	relaxation function		विश्रान्ति फलन
relativistic physics		आपेक्षिकीय भौतिकी	relaxation generator		विश्रान्ति जनित्र
relativistic quantum field theory		आपेक्षिकीय क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत	relaxation length		विश्रान्ति दैर्घ्य
relativistic second law		आपेक्षिकीय द्वितीय नियम	relaxation method		विश्रान्ति विधि
relativistic theory		आपेक्षिकीय सिद्धांत	relaxation oscillation		विश्रान्ति दोलन
relativistic theory of elasticity		आपेक्षिकीय प्रत्यास्त्वता सिद्धांत	relaxation oscillator		विश्रान्ति दोलित्र
relativistic thermodynamical fluid		आपेक्षिकीय ऊष्मागतिक तरल	relaxation pattern		विश्रान्ति प्रतिरूप
relativistic thermodynamics		आपेक्षिकीय ऊष्मा गतिकी	relaxation phenomenon		विश्रान्ति परिघटना
relativistic track		आपेक्षिकीय लीक	relaxation spectrum		विश्रान्ति स्पेक्ट्रम
relativistic unit		आपेक्षिकीय एकक	relaxation technique		विश्रान्ति प्रविधि
relativistic wave theory		आपेक्षिकीय तरंगवाद, रिलेटिविटी तरंगवाद	relaxation test		विश्रान्ति परीक्षण
relativity	<i>Phy., Math.</i>	1. आपेक्षिकता, रिलेटिविटी 2. आपेक्षिकी	relaxation time		विश्रान्ति काल
relativity acceleration		आपेक्षिकता त्वरण	relaxed inspection standard		विश्रान्ति निरीक्षण मानक
relativity doublet		आपेक्षिकीय द्विक	relaxin	<i>Zool.</i>	रिलैक्सिन, शमित
relativity line element		आपेक्षिकीय रेखा अल्यांस	relay	<i>Math., Phy.</i>	1. रिले 2. प्रतिनारण
relativity mechanics		आपेक्षिकता बलविज्ञान	relay earthquake	<i>Geol.</i>	अनुभूकम्प
relativity of centrifugal force		व्यपकेन्द्र बल की आपेक्षिकता	relay radar		रिले रेडार
relativity of motion		गति की आपेक्षिकता	relay television		रिले टेलीविजन
relativity of time		समय की आपेक्षिकता, काल की आपेक्षिकता	relay transmitter		रिले प्रेषित्र
relativity precession		आपेक्षिकीय पुरस्तरण	released	<i>Geol.</i>	निर्मुक्त
relativity principle		आपेक्षिकता नियम	released mineral		निर्मुक्त खनिज
relativity theory		आपेक्षिकता सिद्धांत	release fracture		मोचन विभंग
relativization		आपेक्षिकीकरण	release joint		मोचन संधि
relativized product topology		आपेक्षिकीय गुणन संस्थिति	release mark		मोचन चिह्न
relaxant	<i>Phy., H.Sc., Chem.</i>	विश्रान्तक	release of mechanical strain		यंत्र-तनाव मोचन
relaxation	<i>Phy.</i>	विश्रान्ति	release phase	<i>Zool.</i>	मोचन प्रावस्था
relaxation effect		विश्रान्ति प्रभाव	releaser		मोचक
			release valve		मोचन वाल्व
			releasing		मोचक
			releasing key		मोचन कुंजी
			releasing magnet		मोचन चुम्बक
			releasing stimulus	<i>Zool.</i>	मोचन उद्दीपन
			"Releas-o-matic"	<i>Chem.</i>	मोचनकारी
			relevant data	<i>Math.</i>	सुसंगत आंकड़े

relevant document	<i>Geog.</i>	प्रासंगिक प्रलेख	relief feature		उच्चावच लक्षण
relevant environment		सुसंगत परिस्थिति	relief globe		उच्चावच ग्लोब
relevant random variables		सुसंगत यादृच्छिक चर	relief holes	<i>Geol.</i>	मोचन छिद्र
relevant set of states		अवस्थाओं का सुसंगत समुच्चय	relief index		उच्चावचकांक
releve	<i>Bot.</i>	रल्वे	relief intensity		उच्चावच तीव्रता
relevelment	<i>Geog.</i>	पुनस्समतलन	relief inversion		उच्चावच उत्क्रमण
reliability	<i>Phy., Geog.</i>	विश्वसनीयता	relief line		उच्चावच रेखा
reliability coefficient		विश्वसनीयता गुणांक	relief map		उच्चावच मानचित्र
reliability factor		विश्वसनीयताका	relief method		उच्चावच विधि
reliability function		विश्वसनीयता फलन	relief model		उच्चावच प्रतिरूप
reliability index		विश्वस्तता सूची	relief printing		उच्चावच मुद्रण, उद्भूत मुद्रण
reliability of measurement		माप की विश्वसनीयता	relief sprue	<i>Chem.</i>	निर्माण स्तूप
reliability of scores		समको की विश्वसनीयता	relief valve		मोचन वाल्व
reliability of test		परीक्षण विश्वसनीयता	relieving		निर्माण
reliability problem		विश्वसनीयता समस्या	relieving anode	<i>Phy.</i>	सहायक एनोड
relic	<i>Geol., Zool.</i>	अवशेष	"relieving effect"		निर्माण प्रभाव
relic gneiss		नाइस अवशेष	religious association	<i>Geog.</i>	धार्मिक संपर्क, धार्मिक सभ
relic lake		अवशेष झील	religious belief		धार्मिक विश्वास
relic monotypic		अवशेष एकलप्ररूपी	religious cloak		धार्मिक लबादा, धार्मिक धोगा
relict	<i>Zool., Geog., Geol.</i>	अवशिष्ट	religious fervor	<i>Geog.</i>	धर्मोत्साह
relict area		अवशिष्ट क्षेत्र	religious town		धार्मिक नगर
relict bedding plane		अवशिष्ट संस्वरण तल	reliquefaction	<i>Bot.</i>	पुनर्जीवनन
relict hypothesis		अवशिष्ट परिकल्पना	reliquiae	<i>Geog., Geol.</i>	जैवावशेष
relictation	<i>Geol.</i>	अवशिष्टण	relish	<i>H. Sc.</i>	खटनी, रेनिस
relict mass		अवशिष्ट पिंड	relish cream cheese		रेलिस क्रीम-नीर
relict mountain		अवशिष्ट पर्वत	relieno	<i>H. Sc.</i>	रेलेनो
relict population		अवशिष्ट आबादी	relocation	<i>Math.</i>	पुनरवस्थापन
relict region		अवशिष्ट प्रदेश	relocation factor		पुनरवस्थापन गुणांक
relict species		अवशिष्ट स्पीशीज, अवशिष्ट जाति	reluctance	<i>Chem., Phy.</i>	प्रतिष्टम्भ
relict tier		अवशिष्ट सोपान	reluctivity		प्रतिष्टमिता
relief	<i>Geog., Geol.</i>	उच्चावच	reluctometer		प्रतिष्टममाप
relief block		उच्चावच ब्लॉक	rem (r.e.m. = Roentgen equivalent mass)	<i>Chem., Phy.</i>	रेम
relief building agent		उच्चावचन कारक	re-magnetizing	<i>Geog.</i>	पुनरचुम्बकन
relief displacement		उच्चावच विस्थापन			



remainder	<i>Maht.</i>	बाकी, शेष, शेषफल, अवशेष	remote data indicator	सुदूर दत्त सूचक
remainder sign		अवशेष चिह्न	remote indicator	सुदूर सूचक
remainder term		अवशेष पद	remote location	सुदूर स्थिति
remainder theorem		शेषफल-प्रमेय	remote metering	सुदूर मापन
remaining mass	<i>Phy.</i>	अवशिष्ट द्रव्यमान	remote plan indicator	सुदूर प्लान सूचक
remains		अवशेष	remotor	<i>Zool.</i> प्रत्यावर्तनी
remalloy	<i>Chem.</i>	रीमालॉय	removable	<i>Math.</i> अपनेय
remanence	<i>Chem.</i> <i>Math.</i>	1. चुंबकत्वाशेष 2. टिकाऊपन	removable discontinuity	अपनेय असांतत्य
remanent coercive force		अवशिष्ट नियंत्रक बल	removable oscillation	अपनेय दोलन
remanent induction		अवशिष्ट प्रेरण	removable singularity	अपनेय विचित्रता
remanent magnetism		अवशिष्ट चुंबकत्व	removal	निष्कासन, अपनयन
remanent magnetization		अवशिष्ट चुंबकन	removal cross section	अपनेय परिक्षेत्र
remanie	<i>Geol.</i>	पुनःस्थापित	removal of bed	<i>Geol.</i> संस्तर अपनयन
remanie glacier	<i>Geol.</i>	पुनःयोजित हिमनद	remover	<i>H.Sc.</i> अपसारक
remedial action	<i>Math.</i>	प्रत्युपाय क्रिया	remunerative activity	<i>Geog.</i> लाभजनक क्रिया
remedy	<i>Geog.,H.Sc.</i>	उपचार	<i>Remusatia vivipara</i>	रेमूसैशिया विविपैरा
remeta	<i>H.Sc.</i>	रेमेटा	renaissance cloth	<i>H.Sc.</i> रिनेसांस वस्त्र
remicle (spurious primary)	<i>Zool.</i>	रैमिकल (प्रथमकूटपिच्छ)	renaissance furniture	रिनेसांस फर्नीचर
remiform	<i>Biol.</i>	क्षेपणिरूप	renaissance lace	रिनेसांस लेस
remiges	<i>Zool.</i>	पक्षपिच्छ	renaissance of cartography	<i>Geog.</i> मानचित्रकला पुनर्जागरण
remigium	<i>Zool.</i>	रेमिजियम	renal	<i>Zool.</i> वृक्कीय, वृक्क
Remigolepis	<i>Zool.</i>	रेमिगोलेपिस	renal artery	वृक्क धमनी
remittent fever	<i>Zool.</i>	अल्पविसर्गी ज्वर	renal cavity	वृक्क गुहिका
remnant	<i>Geog.</i>	अवशेष, अवशिष्ट	renal corpuscle	वृक्क पिंडाणु, वृक्क कार्पसल
remodelled furniture	<i>H.Sc.</i>	पुनः प्रतिरूपित फर्नीचर	renal organ	वृक्कांग
remodulation	<i>Phy.</i>	मॉडुलनान्तरण	renal pelvis	वृक्क शोणि
remoistening	<i>Chem.</i>	पुनः आर्द्रण	renal portal circulation	वृक्क-निवाहिका- परिसंचरण
remolinite	<i>Geol.</i>	रेमोलिनाइट	renal pyramid	वृक्क-पिरैमिड
Remora (sucker fish)	<i>Zool.</i>	रेमोरा (चूषक मीन, लचुक)	renal sac	वृक्क गोणी
remote control	<i>Chem.,Phy.</i>	सुदूर नियंत्रण	renal sinus	वृक्क कोटर
remote cut off pentode	<i>Phy.</i>	चर म्यू पेन्टोड, सुदूर अंतक पेन्टोड	renal portal system	वृक्क निवाहिका उपतंत्र
remote cut off tube	<i>Phy.</i>	सुदूर अंतक नलिका	renal portal vein	वृक्क निवाहिका शिरा
			renal vessel	वृक्क वाहिका
			renardite	<i>Geol.</i> रेनार्डाइट

render	<i>Chem.</i>	1. (leather) रेंडर 2 (food) उपपादन	renormalization theory	<i>Math., Phy.</i>	पुन प्रसामान्यीकरण सिद्धांत
rendering	<i>Chem.</i>	दारण	renormalized equation		पुन प्रसामान्यीकृत समीकरण
rendition	<i>Geog.</i>	चित्रण	renormalized field		पुन प्रसामान्यीकृत क्षेत्र
rendzina (= rendsina)	<i>Bot, Geog.</i>	रेंडज़ाइन	renormalized field equation		पुन प्रसामान्यीकृत क्षेत्र समीकरण
rendzina soil		रेंडज़ाइन मृदा	renovation	<i>H Sc.</i>	नवीकरण
Renalmia		रेंनिऐल्मिया	reosselacrite	<i>Geol.</i>	रेन्सेलेराइट
renewal	<i>Math.</i>	नवीकरण	rent capitalism	<i>Geog</i>	कर पूंजीवाद
renewal equation	<i>Math., H.Sc.</i>	पुन स्थापन समीकरण	reopening of lodes	<i>Geol</i>	शिरानिक्षेप-पुनर्विकृत
renewal of license		साइसेम नवीकरण	reorder level	<i>Math.</i>	पुनरादेशी स्तर
renewal process		नवीकरण प्रक्रम	reorder point		पुनरादेशी बिन्दु
renewal theory		पुन स्थापन सिद्धान्त	reorder quantity		पुनरादेशी मात्रा
renewed green leaf	<i>Geog.</i>	नवीकृत हरितपत्र	reorientation	<i>Phy., Geol., Geog</i>	पुन. अभिविन्यास, पुनर्दिक् विन्यास
rengue	<i>H.Sc.</i>	रेंगे	re-orientation of traffic		यातायात पुन अभिविन्यास
Reniera	<i>Geol.</i>	रेनीरा	reovirus	<i>Zool.</i>	रिओवाइरस, शानिविराणु (श्वाम आत्र विरोग विषाणु)
renierine (isodictyal)	<i>Zool.</i>	समत्रालिक	reoxidation	<i>Chem.</i>	पुन ऑक्सीकरण
renierite	<i>Chem. (Met)</i>	रेनीराइट	rep (Roentgen equivalent physical)	<i>H Sc., Chem., Phy.</i>	रेप
reniforite	<i>Geol.</i>	रेनिफोराइट	repair	<i>H Sc.</i>	सुधार, मरम्मत
reniform	<i>Zool.</i>	बृक्काकार	repaired		सुधारित
reniformis	<i>Bot</i>	बृक्काकार	repairman	<i>Math</i>	मस्कर्ता
reniformite	<i>Geol.</i>	रेनिफॉर्मिट	repair rate		सुधार दर
reniform nematode	<i>Biol</i>	बृक्काकार सूत्रकृमि	repand		तरंगित कोर
Renilla	<i>Zool</i>	रेनिला	reparatory strand	<i>Bot.</i>	पुनः पूरक स्यूत
rennase	<i>Chem.</i>	रीनेस	repeatability	<i>Phy, Geog., Math.</i>	पुनरावर्तनीयता
rennet	<i>H Sc.</i>	रेनेट	repeat distance	<i>Phy</i>	पुनरावर्तन दूरी
rennet curd		रेनेट दही	repeated		बारबार
rennet stomach (abomasum)	<i>Zool.</i>	चतुर्षमाशय (ऐबोमैसम)	repeated angle		पुनरावृत्त कोण
rennin	<i>Bot, Zool., H Sc.</i>	रेनिन	repeated deformation		पुनरावृत्त विकृषण
renofemoral artery	<i>Zool</i>	ऊरुवृक्क शमनी	repeated differentiation		पुनरावृत्त अक्षरकनन
renopericardial aperture	<i>Zool</i>	बृक्क-हृदयावरणी छिद्र	repeated Lebesgue Integral		पुनरावृत्त लेबेगु मपाकन
renopericardial canal		बृक्क-हृदयावरणी नाल			
renopericardial orifice		बृक्क-हृदयावरणी रंध्र			

repeated limit		पुनरावृत्त सीमा	re-photographed	<i>Geog.</i>	पुनः फोटोग्राफित
repeated loading		पुनरावृत्त उद्भारण	replaceable	<i>Chem.</i>	प्रतिस्थापनीय
repeated Riemann integral		पुनरावृत्त रीमान-समाकल	replaceable atom method		प्रतिस्थापन परमाणु विधि
repeated survey		पुनरावृत्त सर्वेक्षण	replacement	<i>Geol., Phy.</i>	प्रतिस्थापन
repeated twin		पुनरावृत्त यमल	replacement collision		प्रतिस्थापन संघट्ट
repeated twinning		पुनरावृत्त यमलन	replacement control		प्रतिस्थापनी नियंत्रण
repeater		रिपीटर, पुनरावर्तक	replacement deposit		प्रतिस्थापन-निक्षेप
repeater jammer		पुनरावर्ती संवाधक	replacement dike		प्रतिस्थापन डाइक
repeater transmitter (=slave transmitter)		पुनरावर्तक प्रेषित्र, रिपीटर ट्रांसमीटर	replacement fund		प्रतिस्थापन निधि
repeating coil		पुनरावर्ती कुंडली	replacement lode		प्रतिस्थापन शिरानिक्षेप
repeating instrument		पुनरावर्ती-यंत्र	replacement situation		प्रतिस्थापन स्थिति
repel		प्रतिकर्षित करना, प्रतिकर्षित होना	replacement theory		प्रतिस्थापन सिद्धांत
repellent	<i>Biol., H.Sc.</i>	प्रतिकर्षी	replacement titration		पुनःस्थापन अनुमापन, पुनःस्थापन टाइट्रीकरण
repellent properties	<i>Geog.</i>	विकर्षण गुणधर्म	replacement tube	<i>Phy.</i>	वदल नलिका, प्रतिस्थापन नलिका
repeller electrode	<i>Phy.</i>	प्रतिकर्षी इलेक्ट्रोड	replacement vein		प्रतिस्थापन शिरा
repeller space		प्रतिकर्षी अवकाश	replacing bone	<i>Zool.</i>	प्रतिस्थापनी अस्थि
repelling		प्रतिकर्षी	replacing cell		प्रतिस्थापनी कोशिका
repenetration	<i>Chem. (Nucl)</i>	पुनः अंतर्घन	replaquing	<i>Zool.</i>	पुनःप्रपट्टन,
repens	<i>Bot.</i>	प्रशायी	replat	<i>Geog.</i>	रेप्लैट
repeptisation	<i>Chem.</i>	पुनः पेप्टीकरण	replenisher	<i>Phy., Geol.</i>	पुनः पूरक
repeptized		पुनः पेप्टीकृत	replenishment	<i>Geol.</i>	पुनः पूति
repetition	<i>H.Sc., Phy., Math.</i>	पुनरावृत्ति	repletum	<i>Bot.</i>	रिप्लीटम
repetitional develop- ment		पुनरावर्ती परिवर्धन	replica	<i>Phy., Bot.</i>	प्रतिकृति, रेप्लिका
repetition frequency (=repetition rate)		पुनरावर्तेन आवृत्ति	replica grating		प्रांतकृति ग्रेटिंग, रेप्लिका ग्रेटिंग
repetition of bed		संस्तर पुनरावृत्ति	replica method		प्रतिकृति विधि
repetition rate		पुनरावर्तेन आवृत्ति	replica plating		प्रतिकृति प्लेटन
repetitive peak for- ward current		पुनरावर्ती चरम अग्र धारा	replica technique		प्रतिकृति प्रविधि, प्रतिकृति तकनीक
repetitive peak reverse voltage		पुनरावर्ती चरम प्रतिवोल्टता	replicated		प्रतिकृत
repetitive sampling		पुनरावृत्तीय प्रतिचयन	replication		1. प्रतिकृति 2. पुनरावृत्ति
rep gobolin	<i>H.Sc.</i>	रेप गॉबोलिन	replication phase		प्रतिकृति प्रावस्था
			replicative cycle	<i>Zool.</i>	प्रतिकृति चक्र
			replicator	<i>Zool.</i>	प्रतिकृतिकारक, प्रतिकृतिकर

replicon	Zool	रैप्लिकॉन, प्रतिवृत्तिक	repressible	Zool.	दमनशील
replum		आभासीपट	repressible enzyme		दमनशील एन्जाइम
reply pulse	Phy.	प्रत्युत्तर सपद	repression		दमन
repocal	Chem	रेपोकन	repressor	Zool.	दमनकर
repolarization	Zool	पुनर्ध्रुवण	repressuring	Chem	पुनर्निषीडन
report	Math.Phy.,	प्रतिवेदन, रिपोर्ट	reprint	Geog	पुनर्मुद्रण
report generator		प्रतिवेदन जनक	reprinting		पुनर्मुद्रण
report programme generator		रिपोर्ट प्रोग्राम जनित	reprocessed wool		पुन मगापित ऊन
repose period	Geol.	प्रसुप्तावधि	reproducer	Geol	प्रति उल्थादित्र
repository	Chem , H.Sc.	आगार, निक्षेपस्थान	reproducibility	Phy ,Chem., Math.	पुनरुत्पादन-क्षमता, पुनरुत्पाचना
repp	Chem. (Text.),H Sc	रेप, कणिकी	reproducible	Phy.	पुन प्राप्य, पुनरुत्पाद्य
Reppé process	Chem.	रेपे प्रक्रम	reproducible surface	Chem.	पुनरुत्पन्न पृष्ठ
rep poplin	H Sc.	रेप पाँपलीन	reproducing brushes		पुनरुत्पादी ब्रुश
recipitation	Chem.,Bot.	पुन अवक्षेपण	reproducing head	Phy.	पुनरुत्पादन अग्र
represent	Math., Geog	निरूपित करना, निरूपण करना	reproducing punch		पुनरुत्पादी छिद्रक
representation		निरूपण	reproduction	H.Sc. Biol Geog.	पुनरुत्पादन जनन बिज्ञोत्पादन
representational hieroglyph	Geog.	प्रति चित्रलिपि	reproduction cyst		जनन-पुटी
representation module		निरूपण-प्रनिरूपक	reproduction factor		पुनरुत्पादन गुणक
representation of centrum		वलय केन्द्र का निरूपण	reproduction imprint		अग्रिमुद्र पुनरुत्पादन
representation of relief		उच्चावच-निरूपण	reproduction rate		जनन-दर
representation theorem		निरूपण प्रमेय	reproductive	Zool.,H Sc.	जननीय, जनन-जननात्मक
representation theory		निरूपण-मिद्दात	reproductive cycle		जनन-चक्र
representative		1. प्रतिनिधि 2. निरूपक	reproductive distribution		जननात्मक वितरण
representative element		निरूपक अवयव	reproductive drive		जनन प्रनोद
representative fraction		निरूपक भिन्न	reproductive eurytherm		जनन अधितापटा
representative point		निरूपक बिन्दु	reproductive isolation		जननात्मक विलयन
representative sample		प्रतिनिधि प्रतिदर्श	reproductive medusa		जनन मेद्दुसा
representative velocity curve		निरूपक वेग-वक्र	reproductive organ		जननांग
represented		निरूपित	reproductive polyp		जनन पॉलिप
			reproductive potential		जननात्मक शक्यता
			reproductive property		पुनरुत्पादी गुणधर्म
			reproductive rhythm		जनन लय, जनन क्षण
			reproductives	Zool.	जननक
			reproductive site		जनन स्थान

reproductive stenothermy		जनन अल्पतापता	rerolling quality	Chem. (Met.)	पुनर्वेल्लन गुणता
reproductive system		जनन तंत्र	rerun point	Math.	पुनः परंपरा बिन्दु स्थल
reproductive zooid		जनन जीवक	rerun program		पुनः परंपरा प्रोग्राम
reproductivity		जननता, जननक्षमता	rerun routine	Phy.	पुनरावर्ती नेमका
reptans	Bot.	प्रशार्थी	resale	H.Sc.	पुनर्विक्रय
reptigrade	Zool.	परिसर्पण	resam	Geog.	रेसैम
reptile	Zool.	सरीसृप	rescinnamine	Chem.	रिसिनैमीन
Reptilia	Zool.	रेप्टीलिया	research	Phy., Chem.	अनुसंधान
reptilian feature	Geog.	सरीसृपीय लक्षण	researcher		अनुसंधायक
Reptonia buxifolia	Bot.	रेप्टोनिया वक्सफोलिया	research reactor		अनुसंधान रिऐक्टर
repugnatorial gland	Zool.	प्रतिकारी ग्रंथि	research scientist		अनुसंधानी वैज्ञानिक
repulping	Chem.	पुनःपल्पन	research strategy		अनुसंधानी युक्ति
repulsed	Phy., Chem.	प्रतिकर्षित	reseau	H.Sc.	रेजो
repulsion	Phy.	प्रतिकर्षण	resection	Geog., Geol.	स्थिति-निर्धारण
repulsion exponent		प्रतिकर्षण घातांक	resection line		स्थिति-निर्धारण रेखा
repulsion of sub- jacent deficiency	Geog.	अधोलग्न अपूर्णता- विकर्षण	Resedaceae	Bot.	रीसेडेसी
repulsive force	Phy.	प्रतिकर्षी बल, प्रतिकर्षण बल	Resedales	Bot.	रीसेडेलीज
repulsive interaction		प्रतिकर्षी अन्तःक्रिया	Reseda odorata	Bot.	रीसेडा ओडोरेटा
repulsive potential		प्रतिकर्षी विभव	resedimentation	Geol.	पुनरवसादन
repulsive potential exponent		प्रतिकर्षी विभव घातांक	resequent	Geol., Geol.	नवानुवर्ती
repulsive state	Chem.	प्रतिकर्षी अवस्था	resequent drainage		नवानुवर्ती अपवाह
requalification	Math.	पुनरहता	resequent fault-line scarp		नवानुवर्ती भ्रंशरेखा कगार
requeson	H.Sc.	रिक्वेसन	resequent river		नवानुवर्ती नदी
request	H.Sc., Geol.	रिक्वेस्ट	resequent stream		नवानुवर्ती सरिता
Requienia		रेक्वीनिया	resequent valley		नवानुवर्ती घाटी
requirement space	Math.	आवश्यकता समष्टि	reserpic acid	Chem.	रिसर्पिक अम्ल
requisite		आवश्यक	reserpine	Chem.	रिसर्पिन
reradiation	Geol.	पुनर्विकिरण	reservation		आरक्षण
rere	H.Sc.	रीर	reserve	Geol.	1. निचय 2. आरक्षित
re-recording	Phy.	प्रति रेकार्डिंग	reserve acidity		निश्चित अम्लता
re-reeling machine	Chem.	पुनः रीलन यंत्र, पुनः अटेरन मशीन	reserve and wooded area	Geog.	संरक्षित एवं अरण्य क्षेत्र
rerefining	Chem.	पुनः परिष्करण	reserve bladder	Zool.	संचयी बाधय
			reserved coal		निश्चित कोयला
			reserved forest		आरक्षित वन

reserved product		निश्चित उत्पाद	residual contamination	अवशिष्ट दूषण
reserve fund		आरक्षित निधि	residual current	अवशिष्ट धारा
reserve humus	<i>Geog.</i>	निश्चित ह्यूमस	residual deformation	अवशिष्ट विरूपण
reserve material		निश्चित पदार्थ	residual deposit	अवशिष्ट निक्षेप
reserve printing (resist printing)	<i>Chem (Text)</i>	प्रतिरोध मुद्रण	residual dispersion	अवशिष्ट वर्णविक्षेपण
reserve product		निश्चित उत्पाद	residual elevation	अवशेष उन्नता
reservoir	<i>Geol, Geog., Phy</i>	1 कुड, हौड, जलाशय 2. तैलाशय 3 भंडार <i>Zool</i> 4 आशय	residual error	अवशिष्ट अशुद्धि
reservoir dam		जलाशय-बाध	residual factor	अवशिष्ट गुणक
reservoir of heat		ऊष्मा भंडार	residual feature	अवशिष्ट लक्षण
reservoir rock		तैलाशय शैल	residual force	अवशिष्ट बल
reset	<i>Phy</i>	पुन नियोजन	residual form	अवशिष्ट रूप
reset pulse	<i>Phy</i>	पुन स्पंद नियोजक	residual gravity	अवशिष्ट गुरुत्व
resettable counter		पुननियोज्य गणित पुननियोज्य गणित	residual gravity map	अवशिष्ट गुरुत्व मानचित्र
resetting time		पुन. काल नियोजन	residual hill	अवशिष्ट गिरि
Reshabar (=Rrashaba)	<i>Geog</i>	रशाबार (पवन)	residual industry	अवशिष्ट उद्योग
resident (bird)	<i>Zool</i>	अप्रवासी	residual magnetism	अवशिष्ट चुंबकत्व
residential city	<i>Geog.</i>	निवास शहर	residual material	अवशिष्ट पदार्थ
residential deterior- ation	<i>Geog.</i>	आवासीय पतन	residual mound	अवशिष्ट टीला
residential distri- bution		आवासीय वितरण	residual mountain	अवशिष्ट पर्वत
residential population		आवासीय जनसंख्या	residual oil	अवशिष्ट तेल
residential segrega- tion		निवास सम्बन्धी पृथक्करण	residual ore deposit	अवशिष्ट अयस्क निक्षेप
residential town		आवासीय नगर	residual pillar	अवशिष्ट स्तम्भ
residual		अवशिष्ट, अवशेष	residual placer	अवशिष्ट ध्वेसर
residual astronomical tide		अवशिष्ट खगोलीय ज्वार-भाटा	residual radioactivity	अवशिष्ट रेडियोएक्टिवता
residual body		अवशिष्ट पिंड	residual range	अवशिष्ट परास
residual boulder		अवशिष्ट गोलपत्थर	residual ray	अवशिष्ट किरण
residual breccia		अवशिष्ट सकोपाथर	residual resistance	अवशिष्ट प्रतिरोध
residual charge		अवशिष्ट आवेश	residual resistivity	अवशिष्ट प्रतिरोधकता
residual clay		अवशिष्ट मृत्तिका	residual set	अवशिष्ट समुच्चय
residual constant		अवशिष्टांक	residual shrinkage	अवशिष्ट संकुचन
			residual silk	अवशिष्ट रेशम
			residual soil	अवशिष्ट मृदा, अवशिष्ट मिट्टी
			residual spectrum	अवशिष्ट मानावली
			residual stress	अवशिष्ट प्रतिबल
			residual structure	अवशिष्ट संरचना
			residual temperature error	अवशिष्ट ताप त्रुटि

residual treatment effect		अवशिष्टोपचार प्रभाव
residual variance		अवशिष्ट प्रसरण
residual variation		अवशिष्ट विचरण
residual vector		अवशिष्ट सदिश
residual velocity		अवशिष्ट वेग
residue		अवशिष्ट, अवशेष
residue aqueous sand		अवशिष्ट जल बालू, अपदार्थी जलस्थ बालू
residue at a pole		अनंतक पर अवशेष
residue atom		अवशिष्ट परमाणु
residue class		अवशेष कक्षा, अवशेष वर्ग
residue class ring		अवशेष-वर्ग बलय
residue degree		अवशेष की मात्रा
residue field		अवशेष-क्षेत्र
residue method		अवशेष विधि
residue structure		अवशिष्ट संरचना
residuum	<i>Geol.</i>	अवशेष
resilience	<i>Geol., Chem. (Met.)</i>	प्रत्यास्थता, प्रतिस्थित्व
resiliency of paper		पत्र प्रतिस्थित्व
resilient	<i>H.Sc.</i>	1. अतिस्कन्दी 2. प्रतिस्कन्दी
resilient flooring		प्रतिस्कन्दी फर्श
resilifer	<i>Geol.</i>	रेजिलिफर
resiliometer	<i>Chem.</i>	प्रतिस्थित्वमापी
resillage	<i>Chem.</i>	रेसिलेज
resille	<i>H.Sc.</i>	रेजिल
resin	<i>Chem., Bot., H.Sc.</i>	राल, रेजिन
resinate drier	<i>Chem. (Paint)</i>	रेजिनेट शुष्कक
resin cerate		रेजिन सीरेट
resin cysts		रेजिन पुटी
resin ducts		राल वाहिनी, रेजिन वाहिनी
resin emulsion paint		रेजिन पायस पेन्ट, राल पायस प्रलेप
resin finish	<i>H.Sc.</i>	रेजिन परिष्कृति
resinification		रेजिनीकरण

resin-in-pulp process		मज्जांतः राल प्रक्रम, पल्पांतः रेजिन प्रक्रम
'resin of copper'		ताम्र रेजिन
resinography	<i>Chem.</i>	राल लेखन, रेजिन लेखन
resinoid	<i>Chem.</i>	रेजिनाइड, रेजिनाभ
resinol	<i>Chem.</i>	रेजिनॉल
resinosis	<i>Bot.</i>	रेजिनाति, रालाति
resinous	<i>Geol.</i>	रेजिनी
resinous lustre		रेजिनी दृति
resinox	<i>Chem.</i>	रेसिनॉक्स
resin treated fabric	<i>Chem.</i>	राल अभिकृत वस्त्र. रेजिन अभिकृत वस्त्र
resist	<i>Geog., H.Sc.</i>	प्रतिरोध करना
resistal	<i>Chem.</i>	रेजिस्टल
resistance	<i>H.Sc., Phy. Biol.</i>	प्रतिरोधक प्रतिरोध
resistance arm	<i>Phy.</i>	भार-भुजा
resistance box		प्रतिरोध-बाक्स
resistance capacitance coupling		प्रतिरोध संघारित्र-युग्मन
resistance coupling		प्रतिरोधी युग्मन
resistance cyst		प्रतिरोधी पुटी
resistance furnace		प्रतिरोध भट्टी
resistance law		प्रतिरोध नियम
resistance porometer		प्रतिरोध रन्ध्र मापी, प्रतिरोध पोरामीटर
resistance ratio		प्रतिरोध अनुपात
resistance temperature coefficient		प्रतिरोध ताप गुणांक
resistance thermometer		प्रतिरोध तापमापी, प्रतिरोध थर्मामीटर
resistance welding		प्रतिरोध-संधान
resistant		प्रतिरोधी, प्रतिरोधक
resistant mass		प्रतिरोधी पिंड
resistant rock		प्रतिरोधी शैल
resistant seed		प्रतिरोधी बीज
resistant stage		प्रतिरोधी अवस्था
resistant strain		प्रतिरोधी विभेद
resistate	<i>Geol.</i>	प्रतिरोधी

resisting medium		प्रतिरोधी माध्यम	resolution time		विभेदन काल
resistive bridge circuit		प्रतिरोधक सेतु परिपथ	resolution time correction		विभेदन काल सशोधन, विभेदन काल सशुद्धि
resistivity	<i>Phy, Geol.</i>	प्रतिरोधकता	resolvable	<i>Chem.</i>	विभेद्य
resistivity curve		प्रतिरोधकता वक्र	resolve		1 खड करना 2 विभेदन करना 3 वियोजित करना
resistivity method		प्रतिरोधकता विधि	resolved part		वियोजित भाग
resistometer		प्रतिरोधमापी	resolvent	<i>Math</i>	साधक
resistor	<i>Phy.</i>	प्रतिरोधक	resolvent cubic		साधक त्रिघाती
resistor-capacitor system		प्रतिरोधक-सघातित पद्धति	resolvent function		साधक फलन
resistor colour code		प्रतिरोध वर्ण कोड	resolvent kernel		साधक अष्टि
resistor furnace		प्रतिरोधक भट्टी	resolvent operator		साधक सकारक
resist printing		प्रतिरोध मुद्रण	resolvent set		साधक समुच्चय
resist style		प्रतिरोधी शैली	resolver	<i>Phy.</i>	वियोजक
resite stage	<i>Chem</i>	रेजाइट अवस्था	resolving power	<i>Phy, Geog</i>	विभेदन क्षमता
resitol	<i>Chem.</i>	रेसिटॉल	resolving time		विभेदन काल
resloom	<i>H Sc</i>	रेसलूम	resonance	<i>Phy</i>	अनुनाद
reslurrying	<i>Chem.</i>	पुन कर्दमन	resonance absorption		अनुनादी अवशोषण
resnatron	<i>Phy.</i>	रेसनेट्रॉन	resonance acceleration		अनुनादी त्वरण
resochin	<i>Chem</i>	रिसोचिन	resonance accelerator		अनुनादी त्वरक
resolite	<i>Chem. (Met)</i>	रेसोलाइट	resonance capture		अनुनाद परिग्रहण
resol stage	<i>Chem.</i>	रेसॉल अवस्था	resonance condition		अनुनाद प्रतिबंध
resoluble	<i>Chem</i>	1. विभेद्य 2. पुनर्विलेय	resonance cross section		अनुनादी परिच्छेत्र
resolute (= resolved part)	<i>Math</i>	वियोजित	resonance curve		अनुनाद वक्र
resolution		1 वियोजन 2 खडन 3. विभेदन	resonance degeneracy		अनुनाद अपभ्रष्टता
resolution function		विभेदन फलन	resonance dip		अनुनादी गर्त
resolution of degeneracy		अपभ्रष्टता-वियोजन	resonance disintegration		अनुनादी विघटन
resolution of forces		बल-वियोजन	resonance effect		अनुनादी प्रभाव
resolution of identity		तन्ममक का वियोजन	resonance energy		अनुनाद ऊर्जा
resolution of nebula		नीहारिका का विभेदन	resonance escape probability		अनुनादी पलायन प्रायिकता
resolution of velocities		वेग-वियोजन	resonance filter		अनुनादी फिल्टर
resolution pattern (= test chart)	<i>Phy</i>	स्पष्टता परीक्षण चार्ट	resonance fluorescence		अनुनाद प्रदीप्ति
			resonance force		अनुनाद बल
			resonance form		अनुनादी रूप



resonance heating		अनुनादी तापन	resonator	<i>Phy.</i>	अनुनादक
resonance hybrid		अनुनाद संकर	resorbed	<i>Geol.</i>	पुनः शोषित
resonance integral		अनुनादी समाकल	resorcina	<i>Chem.</i>	रिसॉर्सिन
resonance interaction		अनुनादी अन्योन्य क्रिया	resorcin blue		रिसॉर्सिन ब्लू
resonance lamp		अनुनाद दीप	resorcinol	<i>Bot., Chem.</i>	रिसॉर्सिनॉल
resonance level		अनुनाद स्तर	$\beta$ -resorcyclic acid	<i>Chem.</i>	$\beta$ -रिसॉर्सिलिक अम्ल
resonance line		अनुनाद रेखा	resorption	<i>Chem., Geol., H.Sc.</i>	पुनः शोषण, पुनः चूषण
resonancemeter		अनुनादमापी	resorption border		पुनः शोषण परिसीमा
resonance method		अनुनाद विधि	resort	<i>Geog., H.Sc.</i>	विनोद स्थल, विश्रामस्थल
resonance neutron		अनुनादी न्यूट्रॉन	resort city		विनोदप्रिय शहर, विश्रामप्रद शहर
resonance peak		अनुनाद शिखर (अनुनादी ऊर्जा-शिखर)	resort town		विनोदप्रिय नगर, विश्रामप्रद नगर
resonance penetration		अनुनादी वेधन	resort weave	<i>H.Sc.</i>	रिजॉंट वयन
resonance phosphorescence		अनुनाद स्फुरदीप्ति	resource	<i>Geog., H.Sc., Geol.</i>	साधन, सम्पदा
resonance potential		अनुनादी विभव	resource appraisal		साधनांकन
resonance scattering		अनुनादी प्रकीर्णन	resource utilization		साधन उपयोग
resonance series		अनुनाद श्रेणी	respectively		क्रमानुसार, क्रमशः
resonance spectrum		अनुनाद स्पेक्ट्रम	respiration	<i>Biol., H.Sc.</i>	श्वसन
resonance stabilization		अनुनाद स्थायीकरण	respiration gas meter		श्वसन गैस मीटर
resonance stabilized intermediate		अनुनाद स्थायीकृत मध्यवर्ती	respirator		श्वसित्र, रेस्पिरेटर
resonance structure		अनुनादी संरचना, रेजोनेन्स संरचना	respiratory		श्वसनी, श्वसन
resonance tube		अनुनाद नलिका	respiratory cavity		श्वसन गुहिका
resonance width		अनुनाद चौड़ाई	respiratory control		श्वसन नियंत्रण
resonant	<i>Phy.</i>	अनुनादी	respiratory current		श्वसन धारा
resonant cavity		अनुनादी कोटर	respiratory energy		श्वसन ऊर्जा
resonant cavity maser		अनुनादी कोटर मेसर	respiratory enzyme		श्वसन एन्जाइम
resonant deceleration		अनुनादज मंदन	respiratory horn		श्वसन शृंग
resonant line		अनुनादी लाइन	respiratory inhibitor		श्वसन निरोधक
resonant post		अनुनादी स्तंभ	respiratory irritant		श्वसन क्षोभक
resonate		अनुनादन, रेजोनेटन	respiratory level		श्वसन तल
resonating chamber	<i>Geog.</i>	अनुनाद कक्ष	respiratory metabolism		श्वसन उपापचय
resonating ion		अनुनादी आयन, रेजोनेटी आयन	respiratory organ		श्वसन-अंग
resonating organ	<i>Zool.</i>	अनुनादी अंग	respiratory pigment		श्वसन रंजक
resonating sac		अनुनादी कोष	respiratory pore		श्वसन-रंध्र

respiratory quotient		श्वसन भागफल	restiform		रज्जुरूप
respiratory response		श्वसन-अनुक्रिया	restiform body	<i>Zool</i>	रेस्टिफॉर्म पिंड, रज्जुसम पिंड
respiratory root		श्वसन मूल	restinga	<i>Bot</i>	रेस्टिंगा
respiratory substrate		श्वसन पदार्थ	resting cyst	<i>Zool</i>	विराम पुटी
respiratory system		श्वसन-तंत्र	resting epithelium	<i>Zool</i>	सुप्त उपकृता
respiratory tissue		श्वसन ऊतक	resting frequency	<i>Phy</i>	शांत आवृत्ति
respiratory tube		श्वसन नली	resting moment	<i>Phy</i>	संतुलित आघूर्ण
respiratory valve		श्वसन कपाट	resting period	<i>Biol</i>	सुप्तिकाल
respiratory villosity		श्वसन उद्बर्धता	resting phase	<i>H Sc</i>	विश्रान्ति प्रावस्था
respiroscope		श्वसन-दर्शी	resting point		विराम बिन्दु
resplendent	<i>Geol</i>	देदीप्यमान	resting potential		विराम विभव
responder	<i>Phy.</i>	उत्तरदाता	resting spore	<i>Bot</i>	सुप्त बीजाणु
responder cell	<i>Zool</i>	अनुकारी कोशिका	restitution	<i>Math, Phy</i>	प्रत्यानयन, प्रत्यवस्थान
response	<i>Phy</i> <i>Biol, Math.</i> <i>H.Sc.</i>	उत्तर अनुक्रिया प्रतिवेदन	rest-length	<i>Math</i>	विरामस्थ लम्बाई
response curve		अनुक्रिया वक्र	restless		अशांत
response cycle		अनुक्रिया आवर्तन	rest mass		विराम-द्रव्यमान
response diagram		अनुक्रिया आरेख	rest-mass density	<i>Math</i>	विरामस्थ द्रव्यमान घनत्व
response error		उत्तर त्रुटि	restocking	<i>Bot</i>	शुद्धपुन स्थापन
response function		अनुक्रिया फलन	restoration	<i>H Sc</i>	पुन स्थापन
response mechanism		अनुक्रिया विधि	restoration figure		पुन स्थापित चित्र
response metameter		अनुक्रिया परिचल	restoration of land	<i>Geog.</i>	भूमि-प्रत्यास्थापन
response point		अनुक्रिया बिन्दु	restored contour	<i>Geog.</i>	पुन स्थापित समोच्चरेखा
responser	<i>Phy.</i>	प्रति-उत्तर दर्शी	restoring force		प्रत्यानयन बल, प्रत्यवस्थान बल
response surface		अनुक्रिया पृष्ठ	rest point		विराम बिन्दु
response time		अनुक्रिया काल	rest position		विराम स्थिति
response time distribution		अनुक्रिया काल वटन	Restrahl wavelength	<i>Phy.</i>	अवशिष्ट तरंग दैर्घ्य
responsiveness		अनुक्रियता	restrainer	<i>Phy.</i>	समरुकारी
resquaring	<i>Chem</i> <i>(Met.)</i>	मुक्तन	restraining agent	<i>Chem.</i> <i>(Text)</i>	निप्राहक
rest	<i>Phy, Math.</i>	विराम	restricted	<i>Geog.</i>	प्रतिबंधित
restans	<i>Bot</i>	दीर्घस्यायी	restricted area		प्रतिबंधित क्षेत्र
restart	<i>Phy</i>	पुन प्रारम्भ	restricted burning grain	<i>Phy</i>	सीमित ज्वसन घ्रेन
restaurant	<i>H Sc.</i>	रेस्टोरेन्ट	restricted holonomy group	<i>Phy.</i>	नियंत्रित हॉलोमोमी-समूह, नियंत्रित हॉमोमोमी
rest energy	<i>Phy.</i>	विराम ऊर्जा	restricted Jordan double integral		प्रतिबंधित जोरदा द्विसमाकल
rest frame	<i>Math.</i>	विरामस्थ तंत्र			

restricted Lie-algebra		प्रतिबंधित ली-बीजावली	resultant open community		परिणामी विवृत समुदाय, परिणामी खुला समुदाय
restricted local support		सीमित स्थानीय सहायता	resultant published sheet		परिणामी प्रकाशित शीट
restricted miscibility		सीमित मिश्रणीयता	resultant terrain		परिणामी भू-आकृति
restricted product		प्रतिबंधित गुणनफल	resultant variation of level		परिणामी तल-विचरण
restricted randomisation		प्रतिबंधित यादृच्छिकीकरण	resultant vector		परिणामी सदिश
restricted range		प्रतिबंधित परिसर	resulting diagram		परिणामी आरेख
restricted relativity		प्रतिबंधित आपेक्षिकता	resulting increase		परिणामी वृद्धि
restricted sampling design		प्रतिबंधित प्रतिचयन अभिकल्पना	resulting motion		परिणामी गति
restricted velum structure	Geol.	सीमित गुंठिकामय संरचना	result table		परिणाम सारणी
restriction		प्रतिबंध	resupination	Bot.	विपर्यस्तता
restriction mapping		संकुचन-प्रतिचित्रण	resupinte		विपर्यस्त
restriction		नियंत्रण	resured landscape		पुनर्जीवित दृश्यस्थल
restriction of a transformation	Math.	रूपान्तरण का संकुचन	resurfacing	Geog., Geol.	पुनः पृष्ठलेपन, पुनः सतहलेपन
restrictor valve	H.Sc.	संयामक वाल्व	resurgence		पुनरुत्थान
striking	Chem.	पुनस्ताड़न	resurgent (magmatic) gas	Geol.	पुनरुत्थित गैस
reststrahlen	Phy.	अवशिष्ट किरण	resurgent water		पुनरुत्थित जल
Reststrahl reflection (=residual ray reflection)	Phy.	अवशिष्ट किरण परावर्तन, रेस्टस्ट्रॉह्ल परावर्तन	resurrected erosion surface	Geol.	पुनःप्रकटित अपरदन पृष्ठ
resublimed iodine	Chem.	पुनः ऊर्ध्वपातित आयोडीन	resurrected fault scarp		पुनःप्रकटित प्रसंकगा
resubmission	Math.	पुनः प्रस्तुतीकरण	resurrected (fossil) peneplain		पुनःप्रकटित समप्रायभूमि
resubmitted material		पुनः प्रस्तुत सामग्री	resurrected stream		पुनःप्रकटित सरिता
resuing	Geol.	पार्श्वं ऊर्ध्वं च नन	resurrection plants	Bot.	पुनर्जीवनी पादप
result		परिणाम, फल, नतीजा	resurvey	Geog.	पुनःसर्वेक्षण
resultant		1. परिणामी 2. (eliminant) निराकरण फल	resuspension	Bot.	पुनर्निखन
resultant couple		परिणामी बल-युग्म	resynthesized	Zool.	पुनःसंश्लेषित
resultant displacement		परिणामी विस्थापन	retail delivery area	Geog.	फुटकर दालि क्षेत्र
resultant force		परिणामी बल	retailer	H.Sc., Geog.	फुटकर विक्रेता
resultant modification		परिणामी रूपांतरण	retail price		फुटकर कीमत
resultant moment		परिणामी आघूर्ण	retail shopping district		फुटकर खरीद क्षेत्र
resultant mosaic		परिणामी मोडेक	retail trade area		फुटकर व्यापार क्षेत्र
resultant negative		परिणामी नेगेटिव	retail trading		फुटकर व्यापार
			retained profit	H.Sc.	प्रतिधारित लाभ

retained strength	<i>Chem.</i> <i>(Met)</i>	धारित प्राबल्य	rete testis		वृषण जालिका
retainer plate		धारक प्लेट, धारक पट्टिका	rete tubule		नाल जालिका
retaining pin		धारण-पिन	retfo	<i>H Sc</i>	रेट्फो
retaining wall		धारक भित्ति	reticella	<i>H Sc.</i>	रेटिशेला
retaining zone		धारण परिसर	reticella a fuselli	<i>H Sc</i>	रेटिशेला ए फुसेली
retardation	<i>Geog.</i>	मदन	reticular density		जालिका घनत्व
retardation spectrum		मदन-स्पेक्ट्रम	Reticularia	<i>Bot.</i>	रेटिकुलेरिया
retarded	<i>Phy.</i>	मदित	reticular spherulith	<i>Geol</i>	जालीय स्फैरोलिथ
retarded field		मदित क्षेत्र	reticular tissue	<i>Zool</i>	जालिका ऊतक
retarded flow		मदित प्रवाह	reticular tract		जालिका पथ
retarded motion		मदित गति	reticulate	<i>Biol</i>	जालिकारूपी
retarded potential	<i>Math, Phy.</i>	द्विलंबित विभव	reticulate chloroplast		जालिकारूप हरितलवक
retarder	<i>Phy.</i>	मदक	reticulate coagulum		जालिकारूपी स्कंद
retarding coil	<i>Phy</i>	द्विरोधक कुंडली	reticulated		जालिकारूपी, जालिकारूपित
retarding electrode		मदक इलेक्ट्रोड	reticulated bar		जालिकारूपी रोधिका
retarding factor		मदक उपादान	reticulate septal filament		जालिकारूपी पटतनु
retarding field		मदक क्षेत्र	reticulation		जालिकारूप, जालिका मदन
retarding field oscillator		मदक क्षेत्र दोलक	reticulatus	<i>Bot.</i>	जाल-मम
retarding potential		मदक विभव	reticule	<i>Phy</i>	रेटिक्यूल
rete	<i>Zool., H.Sc.</i>	जाल, जालिका	reticulin	<i>Chem</i>	रेटिक्युलिन
rete blastema		विकोरक जालिका	reticulite	<i>Geol.</i>	रेटिकुलाइट
rete cord		रज्जु जालिका	reticulocyte	<i>Biol.</i>	1. जालिका कोशिका, रेटिक्युलोसाइट 2. जालिकाणु
rete mirable		केमिका जाल	reticulocytosis	<i>Zool.</i>	जालिकाणुना
retene oil	<i>Chem.</i> <i>(Paint)</i>	रीटीन तेल	reticulo-endothelial cell	<i>Zool.</i>	जालिका-अंत स्तर, कोशिका
retention	<i>Geog., Geol.</i>	धारण	reticulo-endothelial septum		जालिका-अंत स्तर पट
retention period		धारण-अवधि	reticulo-endothelial system		रेटिक्यूलो-एन्डोथीलियम तंत्र, जालिका- अंत स्तर तंत्र
retention pressure		धारण दबाव	reticulo-endothelial tissue		रेटिक्यूलो-एन्डोथीलियम ऊतक
retention range		धारण परिसर	reticulopod	<i>Zool.</i>	जालिकारूपी
retention time		धारणकाल			
retention volume		धारण आयतन			
retentiveness	<i>Phy.</i>	धारणशीलता			
retentive objective		धारण उद्देश्य			
retentive power	<i>Phy.</i>	धारण क्षमता			
rete ovarii	<i>Zool.</i>	अंडाशय जालिका			
rete primordium		आद्यक जालिका			

reticulum	<i>Biol.</i>	1. जालिका 2. द्वितीय वामाशय
*Reticulum	<i>Astron.</i>	*रेटिकुलम
retiform		जालिकाभ
retigraph	<i>Chem.</i>	रेटोग्राफ
retina	<i>Zool.,Phy., H.Sc.</i>	दृष्टिपटल, रेटिना
retinaculum	<i>Zool.</i>	उपबंधनी
retinal	<i>Zool.</i>	रेटिनी, दृष्टिपटलीय
retinal cell		रेटिनी कोशिका
retinal club		रेटिनी गदा
retinal ganglion		रेटिनी गुच्छिका
retinalite	<i>Geol.</i>	रेटिनेलाइट
retinal rod	<i>Chem.</i>	दृष्टिपटल छड़
retinella	<i>Zool.</i>	रेटिनेला, दृग्जालक
retinellite	<i>Geol.</i>	रेटिनेलाइट
retinene	<i>Chem., H.Sc.</i>	रेटिनीन
retinervous venation	<i>Bot.</i>	जालक शिराविन्यास
retinoblastoma	<i>Zool.</i>	रेटिनोब्लास्टोमा, दृष्टिपटलकोरकार्बुद
retinol	<i>Chem.</i>	रेटिनॉल
retinoscope	<i>Zool.,Phy.</i>	रेटिनादर्शी
retinue	<i>Geog.</i>	परिजन
retinula	<i>Zool.</i>	रेटिनूला, दृक्पटलक
retinular cell		रेटिनूला-कोशिका
Retiolites	<i>Geol.</i>	रेटियोलाइटीज
<i>Retiolites geintzianus</i>		रेटियोलाइटीज जीनिज़िएनस
retonation wave	<i>Geol.</i>	प्रत्यावर्ती तरंग
retorse silk	<i>H.Sc.</i>	रिटॉर्स रेशम
retort	<i>H.Sc.,Geol., Chem.</i>	भमका, रिटॉर्ट
retort carbon		रिटॉर्ट कार्बन
retort clay		भमका-मिट्टी
retort-furnace		भमका भट्टी
<i>Retortomonas intestinalis</i>	<i>Zool.</i>	रिटोर्टोमोनास इन्टेस्टाइनैलिस
retort-shaped organ	<i>Zool.</i>	भमकाकार अंग, रिटॉर्टरूप अंग

retort stand		रिटॉर्ट स्टैंड
retoucher	<i>Geog.</i>	सुशोधक
retouching		सुशोधन
retouching section		सुशोधन अनुभाग
retouching varnish		सुशोधन वार्निश
retraced	<i>H.Sc.</i>	पुनः अंकित
retrace interval	<i>Phy.</i>	प्रतिघाव अंतराल
retracing time		प्रतिघाव अंतराल
retract	<i>Math.</i>	संकर्ष
retractable launcher	<i>Phy.</i>	स्थिति परिवर्तक मोचित्र
retractile	<i>Zool.</i>	आकुंचनशील
retractile claws		आकुंचनशील नखर
retractile tentacle		आकुंचनशील स्पर्शिका
retraction	<i>Zool. Chem.</i>	आकुंचन संकर्षण
retractive power		आकुंचन शक्ति
retractor	<i>Zool.</i>	आकुंचक, रिट्रैक्टर
retractor bulbi		रिट्रैक्टर बल्बार्ड, नेत्र आकुंचक
retractor femoris		रिट्रैक्टर फिमोरिस, ऊर आकुंचक
retractor gubernaculi		व्यरिद्र आकुंचक
retractor lentis		लेन्स-आकुंचक
retractor muscle		आकुंचक पेशी
retractor penis		आकुंचक शिशन
retractor pharyngeus		जघर ग्रसननी आकुंचक
retractor spiculi		कंटिका आकुंचक
retral	<i>Geol.</i>	पश्च
retral process		पश्च प्रवर्द्ध
retreat	<i>Geog.</i>	निवर्तन
retreating fall		निवर्तनी प्रपात
retreat of beach		पुलिन निवर्तन
retree	<i>Chem. (Paper)</i>	विद्यत
retrices	<i>Zool.</i>	पुच्छपिच्छ
retroactive	<i>H.Sc.</i>	पूर्वमान्य
retroaldol rearrange- ment	<i>Chem.</i>	पश्च ऐल्डॉल पुनर्व्यवस्था
retroarcuate	<i>Bot.</i>	प्रत्यावर्तित

retrocerebral apparatus	<i>Zool</i>	पश्चप्रमस्तिष्क पुंज	retrogressive metamorphism		प्रतिगामी वायातरण
retrocerebral gland		पश्चप्रमस्तिष्क ग्रंथि	retrogressive metamorphosis		प्रतिक्रामी कायातरण
retrocerebral sac		पश्चप्रमस्तिष्क कोश	retrogressive morphogenesis		प्रतिक्रामी सरचना विकास
retrocession	<i>Bot</i>	प्रतीष गति	retrogressive population	<i>Math</i>	ह्राममान जनसंख्या
retroculture	<i>Bot</i>	पुन सवर्धन, पुन सवर्धन	retrogressive system		प्रतिगामी तंत्र
retrodirective reflectors	<i>Geol</i>	प्रतिदेशिक परावर्तक	retro launching		पश्चगतिक मोचन
retrofit	<i>Phy.</i>	अनुरूपान्तर	retrolental fibroplasia	<i>Chem</i>	लेन्सपरच रेशाविकसन
retrogradation	<i>Geog., Geol.</i>	पश्चक्रमण, पश्चगमन	retroperistalsis	<i>Zool</i>	प्रतिपुर सरण, प्रतिक्रमाकुचन
retrograde	<i>Bot</i>	पश्चगतिक	retroperitoneal position	<i>Zool</i>	पश्चपर्युदर्य स्थिति
retrograde boiling		पश्चगतिक क्वथन	retropharyngeal band	<i>Zool</i>	अनुग्रसनी पट्ट
retrograde condensation		प्रतिगामी सघनन	retroprogesterone	<i>Chem</i>	रेट्रोप्रोजेस्टरोन
retrograded coast		प्रतिक्रमित तट	retro-rockets	<i>Phy</i>	पश्चगतिक रॉकेट
retrograde liquefaction		पश्च द्रवण	retrose		पश्चमुखी
retrograde locomotion		पश्चगतिक चलन	retrosiphonate	<i>Geol.</i>	पश्चसाइकनी
retrograde mass flow		पश्चगतिक द्रव्यमान प्रवाह	retrospect	<i>Geog</i>	मिहावलोकन
retrograde metamorphism		पश्चगतिक कायातरण	retrospective simulation	<i>Math.</i>	पूर्वव्यापी अनुकारिता
retrograde motion		पश्चगति, वक्त्री गति	retroversal	<i>Geol</i>	पश्चनमनी
retrograde movement		पश्चगतिक आन्दोलन	retrovesicular ganglion	<i>Zool</i>	प्रत्याशयी गुच्छिका
retrograde orbit		पश्चगतिक कक्षा	retting		पूयीविशेषण, अपगलन, सडाना
retrograde satellite		पश्चगतिक उपग्रह	return	<i>Phy.</i>	1. प्रतिध्वनि 2. प्रतिगमन, प्रतिघात
retrograde solubility	<i>Chem.</i>	प्रतिगामी विनेयता, उष्माह्लासी विनेयता	return cargo	<i>Geog.</i>	वापसी नौभार
retrograde vaporization		पश्च वाष्पन	return circuit		प्रतिगमन परिपथ
retrograde vernier	<i>Geog.</i>	वक्त्री वर्नियर	return interval		प्रतिगमन अन्तराल
retrograding		प्रतिगामी, प्रतिक्रामी	return lead	<i>Phy.</i>	प्रत्यानयन तार
retrograding shore		प्रतिक्रामी तट	return line		वापसी साइन
retrogression		प्रतिक्रमण	return loss	<i>Phy.</i>	परावर्तनिक हानि
retrogressional morphological series		प्रतिगामी आकृतिक श्रेणी	return oil	<i>Chem. (Pet.)</i>	पुनर्घावित तेल
retrogressive		प्रतिक्रमणी	return period	<i>Math.</i>	प्रत्यागमन काल
retrogressive development	<i>Zool.</i>	प्रतिक्रमी परिवर्धन	return pin		वापसी पिन

reunion	Zool.	पुनर्योग	reverse current classifier	Geol.	प्रतिधारा बर्गीकर
reunition	Zool.	पुनर्योजन	reverse curvature		उत्क्रम वक्रता
reused silk	H.Sc.	पुनःप्रयुक्त रेज़म	reverse curve		उत्क्रम वक्र
reused wool		पुनःप्रयुक्त ऊन	reversed		उत्क्रमित, प्रतिलोमित
Reuss equation of plasticity	Math.	रायस सुधद्यता-समीकरण	reverse dc resistance		प्रतीप dc प्रतिरोध
revdanskite	Geol.	रेव्डैन्स्काइट	reversed image	Phy., Geog.	व्युत्क्रम प्रतिबिम्ब
reveche	H.Sc.	रिवेचे	reverse dip	Geol.	प्रतिनति
revel	Geog.	बानन्दोत्सव	reverse direction		प्रतीप दिशा
revena	H.Sc.	रेवीना	reversed magnetization		उत्क्रमित चुंबकन
revenue	H.Sc.	1. राजस्व	reversed profile		उत्क्रमित प्रोफाइल
	Geog.	2. संग्राप्ति	reversed pseudosteady flow		उत्क्रमित छद्म-स्थायी प्रवाह
revenue survey	Geog.	राजस्व सर्वेक्षण	reversed stream		उत्क्रमित सरिता
revenue survey map		राजस्व सर्वेक्षण मानचित्र	reversed tuning fork arrangement		उत्क्रमित स्वरित्र द्विभुज व्यवस्था
reverberant sound		अनुरणन-ध्वनि	reverse fault		उत्क्रम भ्रंश
reverberation		अनुरणन	reverse form		उत्क्रम रूप
reverberation chamber		अनुरणन कोष्ठ	reverse group		उत्क्रम समूह
reverberation room		अनुरणन कमरा	reverse impedance		व्युत्क्रम प्रतिबाधा
reverberation time		अनुरणन-काल	reverse isotopic dilution		उत्क्रम समस्थानिक तनुकरण
reverberatory furnace	Chem.	परावर्तनी भट्टी	reverse mutation		प्रतिलोम उत्परिवर्तन, प्रतिलोम म्यूटेशन
Reverdin rearrangement	Chem.	रवैर्दे पुनर्व्यवस्था	reverse negative plate	Geog.	विमुख नेगेटिव प्लेट
reversal	Phy., Math.	उत्क्रमण	reverse order		उल्टा क्रम, प्रतिलोम क्रम
reversal development	Phy.	विपर्यास विकास	reverse ordering		प्रतिलोम क्रमीकरण
reversal of current		धारा का उत्क्रमण	reverse recovery time		प्रतीप पुनः प्राप्ति समय
reversal of limits		सीमाओं का उत्क्रमण	reverse-roll coater		उत्क्रम रोलन बालेपक
reversal of phase		कला का उत्क्रमण	reverse satin		रिवर्स साटन
reversal symmetry		उत्क्रमण सममिति	reverse saturation current		प्रतीप संतृप्ति धारा
reverse		1. उत्क्रम प्रतिलोम, प्रतीप 2. रिवर्स	reverse telescope		व्युत्क्रम दूरवीन
reverse battery metering	Phy.	वैटरी ध्रुवोत्क्रमण सूचन	reverse tint original	Geog.	प्रतिरंजन ओरिजिनल
reverse bearing	Geol., G. og.	पश्च दिक्मान	reverse titration		विलोम अनुमापन, विलोम टाइट्रिकरण
reverse bias	Phy.	पश्चदिशिक बायस	reverse voltage		विरोधी वोल्टता
reverse classification		उत्क्रमी बर्गीकरण	reversibility		उत्क्रमणीयता
reverse crepe	H.Sc.	रिवर्स क्रेप	reversible		उत्क्रमणीय
reverse current	Phy.	प्रतीप धारा			

reversible adiabatic process		उत्क्रमणीय हृद्योष्म प्रक्रम	reviera		रेवीरा
reversible back emf		उत्क्रम्य, पश्च वि० वा० ब०, उत्क्रम्य पश्च ई० एम० एफ०	revised simplex technique	Math.	सशोधित एकल प्रविधि
reversible behaviour		उत्क्रमणीय व्यवहार	revision levelling	Geog.	पुन. तलेक्षण
reversible bleaching		उत्क्रमणीय विरंजन	revision survey	Geog.	पुन. सर्वेक्षण
reversible cell		उत्क्रमणीय सेल, उत्क्रम्य सेल	revived folding	Geol.	पुनरुद्भूत वनन
reversible change		उत्क्रमणीय परिवर्तन	revived river	Geog.	पुनरुज्जीवित नदी
reversible cycle		उत्क्रमणीय चक्र	revived stream		पुनरुज्जीवित सरिता
reversible electrode		उत्क्रम्य इलेक्ट्रोड	revivification		पुनरुज्जीवन
reversible engine		उत्क्रम्य इंजन, उत्क्रमणीय इंजन, उत्क्रम्य यंत्र	revivify	Chem.	पुन. सक्रियकरण, पुन. सक्रियण
reversible fabric		उत्क्रमणीय वस्त्र	reviscent		पुनर्जीवनक्षम
reversible interchange		उत्क्रम्य विनिमय	revolute	H.Sc.	कोरकुचित
reversible magnetization		उत्क्रमणीय चुंबकन	revolution	Math.,Phy	परिक्रमण
reversible magnetostriction		उत्क्रमणीय चुम्बकत्वो विरूपण	revolution by evolution	Geog.	विकास मूलक क्रान्ति
reversible operation		उत्क्रमणीय सक्रिया, उत्क्रम्य सक्रिया	revolution counter	Phy.	घूर्णन-गणित
reversible pendulum	Phy.	विपर्यय लोलक	revolve	Geog.	परिक्रमण करना
reversible permeability		उत्क्रमणीय चुंबकशीलता	revolver register		परिक्रामी पदो
reversible process		उत्क्रमणीय प्रक्रम	revolving		परिक्रामी
reversible reaction		उत्क्रमणीय अभिक्रिया	revolving axis		परिक्रामी अक्ष
reversing layer		उत्क्रमण-परत	revolving drum		घूर्णमान सिनिन्दर
reversing mechanism	Zool.	उत्क्रमी साधन	revolving flow		परिक्रामी प्रवाह
reversing mill		उत्क्रमण मिल	revolving line		परिक्रामी रेखा
reversing press		उत्क्रमण प्रेस	revolving pot		परिक्रामी घट
reversing station		उत्क्रमण स्टेशन	revolving round table		घूर्णी गोल टेबल, घूर्णी गोल पटल
reversing thermometer		उत्क्रमी तापमापी	revolving stone screen		घूर्णी प्रस्तर छन्ना
reversion	Bot, Zool.	प्रत्यावर्तन	revolving storm		परिक्रामी तूफान
reversionary character		प्रत्यावर्ती लक्षण	revolving tray oven		परिक्रामी धानी कटु
reversion of the series method	Math.	श्रेणी प्रतिलोमन विधि	revolving tube		परिक्रामी नली
reverted phosphoric acid		प्रत्यावृत्त फॉस्फोरिक अम्ल	revolving tube furnace		परिक्रामी नली-पट्टी
revet crag	Geol.	रिवेट ग्रान	rewdanskite	Chem. (Met)	रेबडेन्सकाइट
revetment	Geol.	रिवेट देह	rewetting agent	Chem.	पुन. बनेरक
			rewiring	Geog.	पुन. तारन
			rework	Math. Geol.	1. पुन. कार्य 2. पुन. करन
			rework cost	Math.	पुनः सस्करण लागत



reworked		पुनःसंस्कृत	<i>Rhabdomeson</i>	रैब्डोमेसॉन
reworked loess	Geol.	पुनःरचित लोएस	<i>rhombiferum</i>	रॉम्बीफेरम
reworked tuff		पुनःरचित टफ़	<i>Rhabdomolgus</i>	Zool. रैब्डोमोलगस
rex	Phy.	रेक्स	<i>Rhabdomonas gracilis</i>	Bot. रैब्डोमोनास ग्रैसिलिस
rex chert	Chem. (Fert.)	रेक्सचर्ट	rhabdophanite	Geol. रैब्डोफेनाइट
rexigenous duct	Bot.	अपयोगजात वाहिनी	Rhabdopleura	Zool. रैब्डोप्लूरा
reymet	H.Sc.	रेमेट	Rhabdopleuridae	Zool. रैब्डोप्लूरिडी
Reynolds law of similarity	Math., Phy.	रेनल्ड्स का समरूपता नियम	rhabdopod	Zool. यष्टिपाद
Reynolds number		रेनल्ड्स संख्या	rhabdosome	Geol., Zool., Bot. रैब्डोसोम, दंडकाय
Reynolds stress	Math.	रेनल्ड्स-प्रतिबल	Rhabdosphaera	Geog., Zool. रैब्डोस्फीरा
reza	H.Sc.	रेज़ा	<i>Rhabdosphaera claviger</i>	रैब्डोस्फीरा क्लैवीजर
rezistal	Chem. (Met.)	रेज़िस्टल	<i>Rhabdosphaera stylifer</i>	Zool. रैब्डोस्फीरा स्टाइलीफर
R. F. amplifier	Phy.	R. F. प्रवर्धक	<i>Rhacophorus malabaricus</i>	Zool. रैकोफोरस मालावेरिकस
R. F. value (rate of flow)	Chem.	बार० एफ० मान	rhacopteris	Bot. रैकोप्टेरिस
rhabd	Zool.	द्वितीयाक्षिका	rhadames	H.Sc. रेहॅम्स
rhabdion	Bot.	ओप्टगुहामिति	rhagadiose	Bot. प्रविदीर्ण
rhabdite	Zool.	बेतसी, यष्टिका	Rhagionidae	Zool. रेगिओनिडी
rhabditiform		यष्टिकारूप रैब्डाइटिसरूप	rhagon type (canal system)	Zool. रैगनी नालतंत्र
Rhabditis	Zool.	रैब्डाइटिस	rhammite	Zool. रैमाइट, ऊमिक
rhabditoid bursa		रैब्डाइटिसाभ प्रपुटी, यष्टिकाभ प्रपुटी	rhammite tract	ऊमिक पथ
rhabditoid oesophagus		रैब्डाइटिसाभ ग्रसिका, यष्टिकाभ ग्रसिका	Rhamnaceae	Bot. रैम्नेसी
rhabdocarpous]	Bot.	दंडफली	Rhamnalis	Bot. रैम्नेलीज
rhabdoclone	Geol.	रैब्डोक्लोन	rhamninase	Bot. रैम्नीनेस
rhabdocoel	Zool.	यष्टिगुहा	rhamnose	Chem., H.Sc. रैम्नोस
Rhabdocoela	Zool.	रैब्डोसीला	<i>Rhamnus virgata</i>	Bot. रैम्नस वर्गेटा
rhabdocrepid desma	Zool.	रैब्डोक्रेपिड हेस्मा	Rhamphastidae	Zool. रैम्फैस्टिडी
Rhabdogaster	Zool.	रैब्डोगैस्टर	Rhamphodopsis	Zool. रैम्फोडॉप्सिस
rhabdolith	Zool.	रैब्डोलिथ, दंडाश्म	Rhamphorhynchoidea	Zool. रैम्फोरिकायडिया
rhabdomancy	Geol.	खनिजयष्टिसिद्धि	Rhamphorhynchus	Zool. रैम्फोरिन्कस
rhabdomere	Zool.	रैब्डोमखंड	rhamphotheca	Zool. रैम्फोथीका, चंचु आवरण
Rhabdomeson	Geol.	रैब्डोमेसॉन	rhaphide	Zool. रैफाइड, रोम लघुकंटिका
			Rhabdionema	Geol. रैफिडोनेमा

<i>Rhaphidonema macropora</i>		रैफिडोनेमा मॅक्रोपारा	rheotactic	Zool.	धारानुचलनी
rhe	Chem.	री	rheotactic receptor		धारानुचलन प्राही
Rhea	Zool.	रीया	rheotan	Chem.	रीओटेन
Rheatic bed	Bot.	रहीटिक बस्तर	rheotaxis	Bot.	धारानुचलन
Rheiformes	Zool.	राइफॉर्मीज	rheotropic	Chem, Bot, Zool.	धारानुचती
Rhenania phosphate	Chem.	रीनेनिया फास्फेट	rheotropism		धारानुचतन
Rhenanida	Zool.	रेनेनिडा	<i>Rhesus macaque</i>	Zool	रीमस मॅकॅकी
rhenanite	Chem.	रीनेनाइट	rhesus monkey	Zool	रीमस वन्दर
rhenate	Chem.	रीनेट	Rheum		रीअम
rhenic acid	Chem.	रीनिक अम्ल, रीनिक ऐसिड	rheumatic fever	H Sc	रुमेटी ज्वर
rhenite	Chem.	रीनाइट	<i>Rheum officinale</i>	Bot	रीअम आफिसिनेल
rhenium	Phy.	रीनियम	<i>Rheum palmatum</i>		रीअम पामेटम
rheobase	Zool.	अल्पिष्ठधारा	Rh factor	Bot	Rh कारक
rheobasis	Chem.	धारा-अल्पिष्ठता	<i>Rhidospirillum fulvum</i>	Bot	राइडोस्परिलम फुल्वम
rheogoniometry	Chem.	प्रवाहकोणमिति	rhigolene		रिगोलोन
rheogram	Chem.	प्रवाहलेख	rhinal fissure	Zool	नासीय विदर
rheokinesis	Zool.	धारागतिक्रम	rhinal process		नासीय प्रवर्ध
rheolaveur	Chem.	प्रवाह-प्रक्षालित्र, निऑलेवूर	rhinarium	Zool	नासानय
rheological equation of state	Math., Geog.	विरूपण प्रवाहिकीय स्थिति समीकरण	Rhinatrema	Zool.	राइनैट्रिमा
rheological instrumentation		प्रवाहिकीय साधित्रिकी	rhine, (=rean =rine)	Geog.	राइन
rheology	Math., Geog.	1. विरूपण प्रवाहिकी, प्रवाहिकी, द्रवगतिकी 2. धारा विज्ञान	rhinencephalon	Zool	राइनोसेफॅलॉन, ध्राणमस्तिष्क
rheometer		प्रवाहमापी	Rhinobatidae	Zool	राइनोबैटिडी
rheomorphism	Geol.	प्रवाही कायांतरण	Rhinoceros	Zool	राइनोसेरस (गंडा वन)
rheoplectic	Chem.	प्रवाह गाढकरणीक	rhinoceros beetle		गंडा भूग
rheopexy	Zool, Chem.	प्रवाह गाढ़ता, रिओपेक्सी	<i>Rhinoceros bicornis</i>		राइनोसिरस बाइकॉर्निस
rheophide	Bot	धारावामी, धारासपी	<i>Rhinoceros indicus</i>		राइनोसिरस इन्डिकस
rheophilous	Zool.	धारासपी	<i>Rhinoceros sondaicus</i>		राइनोसिरस सोन्डाइसस
rheophyte	Bot	धारासुम्भ	<i>Rhinoceros unicornis</i>		राइनोसिरस युनिवॉर्निस
rheoplankton	Bot.	धाराप्लवक			
rheoreceptive	Zool.	धाराप्राहीय			
rheoreceptor		धाराप्राही			
rheostat	Phy.	धारा नियत्रक			

Rhinocerotidae	Zool.	राइनोसिरोटिडी	<i>Rhizocarpon</i>		राइजोकार्पोन
Rhinocerotoidae		राइनोसिरोटॉइडिया	<i>geographicum</i>		जियोग्रेफिकम
Rhinochimaera	Zool.	राइनोकाइमेरा	rhizocaul	Zool.	प्रमूलकाण्ड
Rhinochimaeridae	Zool.	राइनोकाइमेरिडी	rhizocaulome	Zool.	राइजोकोलोम, प्रमूलस्तम्भ
rhinocoele	Zool.	घ्राणगुहा, राइनोसील	Rhizocephala	Zool.	राइजोसेफैला
<i>Rhinoderma darwini</i>	Zool.	राइनोडर्मा डारविनाई	Rhizochrysis	Zool.	राइजोक्राइसिस
Rhinodrilus	Zool.	राइनोड्रिलस	<i>Rhizochrysis</i> <i>planktonica</i>		राइजोक्राइसिस प्लान्क्टोनिका
Rhinolophus	Zool.	राइनोलोफस	rhizoclone	Geol.	राइजोक्लोन
rhinopallium	Zool.	घ्राणप्रावार	<i>Rhizoclonium</i> <i>heiroglyphicum</i>	Bot.	राइजोक्लोनियम हाइरोग्लाइफिकम
rhinophore	Zool.	घ्राणधर	rhizocrinus		राइजोक्रिनस
rhinopneumonitis	Zool.	नासाफुफ्फुसशोथ	Rhizoctonia disease	Bot.	राइजोक्टोनिया रोग
Rhinotermitidae	Zool.	राइनोटेर्मिटिडी	rhizocyst	Bot.	मूलस्व पुटी
rhinotheca	Zool.	जम्भावरक	rhizodermis	Bot.	मूलीय त्वचा, मूल त्वचा
rhinotonsillitis	Zool.	नासातुंडिकाशोथ, राइनोटॉन्सिलाइटिस	Rhizodus	Zool.	राइजोडस
rhinovirus	Zool.	नासाविषाणु, राइनोवाइरस	rhizogen	Bot.	मूलजनक
Rhipidistia	Zool.	राइपीडिस्टिया	rhizogenous cell		मूलजनक कोशिका
<i>Rhipidium</i> <i>americanum</i>	Bot.	राइपिडियम अमेरिकैनम	<i>Rhizoglyphus</i> <i>echinopus</i>	Zool.	राइजोग्लाइफस एकाइनोपस
Rhipidoglossa	Zool.	रिपीडोग्लॉसा	<i>Rhizoglyphus hyacinthi</i>		राइजोग्लाइफस हायासिन्थाइ
rhipidoglossate	Zool.	व्यजनजिह्वा	rhizoid	Bot., Geog.	मूलाभास
Rhipidomella	Geol.	रिपिडोमेल्ला	rhizoidal branch		मूलाभासी शाखा
rhipidostichous	Zool.	व्यजनांभपख	rhizoid furrow		मूलाभास गुहा
rhizanthous	Bot.	मूलजपुष्पी	rhizoid node		मूलाभास पर्वसंधि
rhizic water	Geog.	राइजिक जल	rhizoid sinuses		मूलाभास कोटर
Rhizidiaceae		राइनीडिएसी	Rhizomastigina	Zool.	राइजोमैस्टिगाइना
<i>Rhizidiomyces</i> <i>apophysatus</i>	Bot.	राइजिडिओमाइसीज एपोफाइसेटस	rhizomatiform	Bot.	प्रकंदरुपी
rhizina (=rhizine)	Bot.	मूलिका	rhizomatous	Bot.	प्रकंदी
<i>Rhizobium lupini</i>	Bot.	राइजोवियम ल्यूपिनाई	rhizome	Bot. Zool.	प्रकंद प्रमूल
Rhizoblast	Bot.	राइजोब्लास्ट	rhizomorph	Bot.	तंतुजटा
rhizocalin	Bot.	राइजोकैलिन	rhizomycelium	Bot.	मूलाभजाल
rhizocarp	Bot.	राइजोकार्प	<i>Rhizopertha dominica</i>	Zool.	राइजोपर्था डॉमिनिका
<i>Rhizocarpon</i> <i>concentricum</i>	Bot.	राइजोकार्पोन कोनसेन्ट्रिकम	Rheizophedium		राइजोफिडियम

<i>Rhizophora candelaria</i>	Bot.	राइजोफोरा कॅन्डेलेरिया	<i>rhodanine</i>	Chem.	रोडेनाइन
Rhizophoraceae	Bot.	राइजोफोरेसी	<i>rhodanizing</i>	Chem.	रोडिजम पट्टन, रोडियमन
<i>Rhizophora mangle</i>	Geog.	रीजोफोरा मेंगल	<i>rhodate</i>	Chem	रोडेट
<i>Rhizophora mucronata</i>		राइजोफोरा मुक्रोनेटा	<i>Rhodea</i>	Bot	रोडिया
rhizophore	Bot.	राइजोफोर	<i>Rhodes lace</i>	H.Sc.	रोड्स लेस
rhizophyllons	Bot	पर्णमूली	<i>rhodinal</i>	Chem	रोडिनल
rhizopin		राइजोपिन	<i>rhodling</i>	Bot, Zool	रोड्लिंग, निष्पन्न
rhizoplane	Bot	मूलतलीय	<i>rhodinal</i>	Bot	रोडिनाल
rhizoplast	Bot	राइजोप्लास्ट	<i>rhodite</i>	Chem (Met)	रोडाइट
rhizoplast band		राइजोप्लास्ट पट्ट	<i>rhodium</i>	Chem	रोडियम
Rhizopoda	Zool	राइजोपोडा	<i>rhodium alum</i>		रोडियम स्फटिका, रोडियम ऐलम
rhizopodal	Geol.	राइजोपोडीय	<i>rhodium gold</i>		रोडियम स्वर्ण
Rhizopodea	Zool.	राइजोपोडिया	<i>rhodizonate</i>		रोडिजोनेट
rhizopodium	Bot Zool.	जटापाद मूलपाद	<i>rhodizonic acid</i>	Chem.	रोडिजोनिक अम्ल
rhizopogon	Bot.	राइजोपोगान	<i>Rhodnius</i>	Zool	रोडनियम
rhizopterin	Chem.	राइजोप्टेरिन	<i>Rhodnius prolixus</i>		रोडनियस प्रोलिक्सस
Rhizopus	Bot.	राइजोपस	<i>rhodochrome chloride</i>	Chem	रोडोक्रोम क्लोराइड
rhizopus disease		राइजोपस रोग	<i>rhodochromium salt</i>	Chem.	गुलाबी-त्रोमियम लवण, रोडोक्रोमियम लवण
<i>Rhizopus nigricans</i>		राइजोपस निग्रिकेन्स	<i>rhodochrosite</i>	Geol	रोडोक्रोसाइट
<i>Rhizopus oryzae</i>		राइजोपस ओराइजी	<i>Rhodocrinus</i>	Geol	रोडोक्रिनस
Rhizopus soft rot		राइजोपस मृदु विफलन	<i>rhododendron</i>	Bot.	रोडोडेन्ड्रान, वृक्ष
<i>Rhizosolenia styliformis</i>	Geog	राइजोसोलेनिया स्टाइलोफॉर्मिस	<i>Rhododendron arboreum</i>	Bot	रोडोडेन्ड्रॉन वारयो- रिडम
rhizosphere		मूल परिवेशी	<i>Rhododendron mosaic</i>	Bot.	रोडोडेन्ड्रॉन रिमॉरि
Rhizostoma	Zool, Geol	राइजोस्टोमा	<i>rhodole</i>	Chem	रोडोल
Rhizostomeae	Zool.	राइजोस्टोमी	<i>rhodolite</i>	Geol.	रोडोनाइट
Rhizostomites		राइजोस्टोमाइटीड	<i>rhodomelina</i>	H.Sc.	रोडोमेलिना
rhizostyle	Zool.	राइजोस्टायल	<i>Rhodomelia palmata</i>	Geog.	रोडोमेलिया पैल्मेटा
rhizothrium	Bot	राइजोथ्रियम	<i>Rhodomicrobium capsulatum</i>	Bot	रोडोमाइक्रोवियम कॅप्सुलेटा
Rh negative	Bot	Rh होन	<i>rhodomycin</i>	Chem.	रोडोमाइसिन
rhodamine	Chem.	रोडॅमीन	<i>rhodomycione</i>	Chem	रोडोमाइसिओन
rhodamine series		रोडॅमीन श्रेणी	<i>Rhodomlytus tomentosa</i>	Bot.	रोडोमिल्टस टोमेन्टोमा
rhodanate	Chem	रोडॅनेट	<i>rhodonite</i>	Geol.	रोडोनाइट
rhodanese	Chem	रोडनीस			
rhodanide	Chem.	रोडॅनाइड			

Rhodophyceae	Bot.	रोडोफाइटो (लाल शैवाल कुल)	rhombohedral packing		समान्तर पट्टफलकी संकुचन
rhodophyllus	Bot.	रोडोफिलस	rhombohedral symmetry		त्रिसमनताक्ष सममिति
Rhodophyta	Bot.	रोडोफाइटा	rhombohedral system		त्रिसमनताक्ष समुदाय
<i>Rhodopseudomonas capsulata</i>	Bot.	रोडोस्प्यूडोमोनास कैप्सुलेटा	rhombohedron	Geol.	समान्तरपट्टफलक
rhodopsin	H.Sc., Bot.	रोडोप्सिन	rhombohedron of first order		प्रथम वर्गीय समान्तर पट्टफलक
rhodosamine	Chem.	रोडोसैमीन	rhombohedron of second order		द्वितीय वर्गीय समान्तर पट्टफलक
rhodoso	Chem.	गुलाबी, रोडोसो	rhombohedron of third order		तृतीय वर्गीय समान्तर पट्टफलक
rhodospermin	Bot.	रोडोस्पर्मिन	rhomboid	Math.	समान्तर अक्षम चतुर्भुज
rhodosporous	Bot.	लाल बीजाणु	rhomboidal	Zool., Bot.,	चतुष्कोणी
<i>Rhodymenia palmata</i>	Bot.	रोडीमेनिया पामेटा	rhomboidal fossa		चतुष्कोणी खात
rhoenite	Chem.	रोएनाइट	rhomboidal prism		संख्यायुक्त प्रिज्म, चतुष्कोणी प्रिज्म
rhomb		1. समचतुर्भुज 2. (Cryst.) समान्तर पट्टफलक	rhomboidal scale		चतुष्कोणी शल्क
rhombate		समान्तर अक्षम चतुर्भुजकार	rhomboidal scar		चतुष्कोणी स्कार
rhombencephalon	Zool.	रॉम्बेन्सेफलॉन	rhomboid prism	Geog.	समान्तर अक्षम चतुर्भुज प्रिज्म, राम्बॉयड प्रिज्म
rhombic	Chem., Phy., Geol.	विषमलंबाक्ष	rhomboid sinus		चतुष्कोणी कोटर
rhombic antenna	Phy., Math.	समचतुर्भुजी ऐन्टेना	rhombspar	Geol.	समान्तर पट्टफलक स्पार
rhombic crystal		विषमलंबाक्ष क्रिस्टल	rhombus	Math.	समचतुर्भुज
rhombic dodecahedron		विषमलंबाक्ष द्वादशफलक	rho ( $\rho$ ) meson	Phy.	रहो ( $\rho$ ) मेसॉन
rhombic euhedra		विषमलंबाक्ष पूर्णफलक	rhopalial ganglion	Zool.	रोपैलियमी गुच्छिका, संस्थांक गुच्छिका
rhombic net		समचतुर्भुजी जाल	rhopalial lappet	Zool.	संस्थांक पल्लवाम
rhombic sulphur		विषमलंबाक्ष गंधक	rhopalioid		संस्थांकाम
rhombic system		विषमलंबाक्ष समुदाय	rhopalium	Zool.	रोपैलियम, संस्थांक
rhombododecahedra	Chem.	समान्तर द्वादशफलक, रोम्बोडोडेकाहेड्रा	rhopalocercous	Zool.	रोपैलोकर्सक, गदापुच्छ
rhombohedra	Math., Geol.	समान्तर पट्टफलक	rhopalocoma		रोपैलोकोमा
rhombohedral	Math., Phy., Geol.	त्रिसमनताक्ष, समान्तर पट्टफलकीय	<i>Rhopalodia gibba</i>	Bot.	रोपैलोडिया गिम्बा
rhombohedral class		त्रिसमनताक्ष वर्ग, समान्तर पट्टफलकीय वर्ग	Rhopalomyces	Bot.	रोपैलोमाइसीस
rhombohedral crystal		त्रिसमनताक्ष क्रिस्टल समान्तर पट्टफलकीय क्रिस्टल	rhopaloneme	Zool.	गदामूत्र
			Rhopalostachya	Bot.	रहोपैलोस्टैक्या
			<i>Rhopalura giardii</i>	Zool.	रोपैल्युरा गियार्डिआइ

rhos	<i>Geog.</i>	रोस	<i>Rhynchonella loxia</i>		रिन्कोनेला लॉक्सिया
rhotanium	<i>Chem.</i>	रोटेनियम	<i>Rhynchonelloid</i>	<i>Geol.</i>	रिन्कोनेलाभ
rho-theta (P-o) system	<i>Phy.</i>	सर्वदिक दूरी मचानन (P-o) तंत्र	<i>Rhynchophora</i>	<i>Zool</i>	रिन्कोफोरा
rhovyl	<i>H Sc.</i>	रोविल	<i>Rhynchophorus</i>	<i>Zool</i>	रिन्कोफोरस
Rh-positive	<i>Bot.</i>	Rb-सहित	<i>Rhynchophthirina</i>	<i>Zool</i>	रिन्कोफथिरीना
rhubarb	<i>H Sc.</i>	रुबाब	<i>Rhynchopidae</i>	<i>Zool</i>	रिन्कोपिडे
rhubarb colour	<i>Geog.</i>	रुबाब वण	<i>Rhynchosaurus</i>	<i>Zool.</i>	रिन्कोसीरस
rhumbatron	<i>Phy</i>	रुम्बाट्रॉन	<i>rhyncosporous</i>	<i>Bot.</i>	चचुबीजाणुक
rhumb line	<i>Math</i>	एकदिश नौपथ, रब रेखा	<i>Rhynchostylis retusa</i>	<i>Bot</i>	रिन्कोस्टाइलिस रेदूमा
<i>Rhus coriaca</i>	<i>Bot.</i>	रस कोरिएका	<i>Rhynchota</i>	<i>Zool</i>	रिन्कोटा
<i>Rhus cotinus</i>		रस कोटाइनस	<i>Rhynchotreta</i>	<i>Geol</i>	रिन्कोट्रीटा
<i>rhus succidanea</i>		रस सक्सीडेनिया	<i>Rhynchotreta cuneata</i>		रिन्कोट्रीटा कुनिएटा
<i>Rhus vernicifera</i>		रस वनिसीफेरा	<i>rhynchus</i>	<i>Zool</i>	प्रबुध
rH value	<i>Chem</i>	धार-एच मान, rH मान	<i>Rhynia</i>	<i>Bot</i>	राइनिया
rhyacolite	<i>Geol</i>	रियाकोलाइट	<i>Rhyniella</i>	<i>Bot</i>	रीनिएला
Rhyacophilidae	<i>Zool.</i>	रायकोफिलिडे	<i>Rhynochetidae</i>	<i>Zool</i>	राइनोचेटिडे
<i>Rhyachophorus ferrugineus</i>	<i>Zool.</i>	रायकोफोरस फेरुजिनियस	<i>rhyobasalt</i>	<i>Geol.</i>	रायोबेसान्ट
Rhyncheta	<i>Zool</i>	रिन्केटा	<i>rhyocrystal</i>	<i>Geol.</i>	स्पष्टकोरी क्रिस्टल, रायोक्रिस्टल
<i>Rhynchobatus djiddensis</i>	<i>Zool.</i>	रिन्कोबेटस जाइडेन्सिस (साज)	<i>rhyodiabasic</i>	<i>Geol.</i>	रायोहायाबेमी
Rhynchobdellida	<i>Zool.</i>	रिन्काब्डेलिडा	<i>rhyolite</i>	<i>Geol.</i>	रायोलाइट
Rhynchocephalia	<i>Zool.</i>	रिन्कोचेफैलिया	<i>rhyolitic</i>		रायोलाइटी
rhynchoceol	<i>Zool.</i>	रिन्कोसेल, शुड-शुड	<i>rhyotaxitic (texture)</i>	<i>Geol</i>	प्रवाही गटन
Rhynchocyon	<i>Bot, Zool.</i>	रिन्कोसिऑन	<i>Rhysotheca australis</i>	<i>Bot</i>	राइसोथेका ऑस्ट्रेलिस
Rhynchozystis	<i>Zool</i>	रिन्कोसिस्टिस	<i>rhythm</i>		1 लय, तान 2 नेत्र आविज्ञा
<i>Rhynchozystis pilosa</i>	<i>Zool.</i>	रिन्कोसिस्टिस पाइलोसा	<i>rhythm crepe</i>	<i>H.Sc.</i>	रिद्म क्रेप
rhynchodaeum	<i>Zool</i>	रिन्कोडियम, शुडमान	<i>rhythmical contraction</i>	<i>Zool.</i>	लयबद्ध मनुचन
rhynchodemis		रिन्कोडीमस	<i>rhythmical heart beat</i>		लयबद्ध हृदय विग्नद
Rhynchodipterus	<i>Zool.</i>	रिन्कोडिप्टेरस	<i>rhythmical movement</i>	<i>H Sc.</i>	लयबद्ध गति
Rhyncholepis	<i>Zool.</i>	रिन्कोलेपिस	<i>rhythmical phenomena</i>		आवर्ती घटना
<i>Rhyncholepis parvulus</i>		रिन्कोलेपिस पारवुलस	<i>rhythmic layering</i>		आवर्ती स्तरण
Rhyncholestes	<i>Zool.</i>	रिन्कोलेस्टेस	<i>rhythmic sequence</i>		आवर्ती अनुक्रम
Rhynchonella	<i>Geol.</i>	रिन्कोनेला			
Rhynchonellacea		रिन्कोनेलेमिया			

rhythmic time signal		तालीय समय संकेत	rib knitting	H.Sc.	1. रिब बुनाई 2. उमरी बुनाई
rhythmite	Geol.	रिदमाइट, आवर्तग्राम	ribodesose	Chem.	राइबोडेसोस
rhythm pattern		लय प्रतिरूप	riboflavin	H.Sc., Chem.,Zool.	राइवोफ्लेविन
rhytidome	Bot.	राइटिडोम	ribofuranosyl	Chem.	राइवो फूरानॉसिल
Rhytisma		राइटिज्मा	ribonuclease	H.Sc.,Zool. Chem.	राइवोन्यूक्लियलएस
<i>Rhytisma acerinum</i>		राइटिज्मा ऐसेरिनम	ribonucleic acid	Biol.	राइवोन्यूक्लीइक अम्ल, राइवोन्यूक्लीइक ऐसिड
ria coast	Geog.	रीया तट	ribonucleoprotein	Bot.	रिवोन्यूक्लियोप्रोटीन
ria shoreline		रीया तटरेखा	ribonucleotide	Zool.	राइवोन्यूक्लियोटाइड
rib	Bot.,H.Sc., Zool.	1. शिरा 2. पसली, पशुका	riboside	Chem.,Zool.	राइबोसाइड
riband	Geog.	पट्टी, धारी	ribosome	Bot.	राइबोसोम
ribbed coal	Geol.	अस्थिमय कोयला	ribotide	Chem.	राइबोटाइड
ribbed open hearth	Chem.	पशुक विवृत चूल्ही	rib stitch	H.Sc.	रिब टांका
ribbon	H.Sc., Math.	रिवन	ribulose	Chem.	राइब्यूलोस
ribbon development		रिवन विस्तार	ribulose diphosphate	Bot.	रिव्यूलोस डाइफॉस्फेट
ribbon diagram		रिवन आरेख	rib velvet	H.Sc.	रिब मछमल
ribboned field	Geog.	रिवन-खेत, पट्टीदार खेत	rib weave	H.Sc.	पट्टीदार, वयन रिब वयन
ribbon-element		रिवन ऐलिमेन्ट, पट्टीदार ऐलिमेन्ट	Ricati equation		रिकेटी समीकरण
ribbon fish	Zool.	रिवनफिश, फीतामीन	Riccardia	Bot.	रिकाडिया
ribbon fish fishery		फीतामीन मात्स्यकी	<i>Riccardia indica</i>		रिकाडिया इन्डिका
ribbon jasper	Geol.	पट्टीदार जेस्पर	<i>Riccardia palmata</i>		रिकाडिया पामेटा
ribbon loud speaker		रिवन लाउडस्पीकर	Riccia	Bot.	रिक्सिया
ribbon microphone		रिवन माइक्रोफोन	Ricciaceae		रिक्सिएसी
ribbon parachute		रिवन पैराशूट	<i>Riccia himalayensis</i>		रिक्सिया हिमालयेन्सिस
ribbon process		रिवन प्रक्रम	Ricci calculus	Math.	रिची-कलन
ribbon structure	Geol.	पट्टीदार संरचना	Ricci principal directions		रिची-मुख्य दिशाएँ
ribbon worm		रिवन कृमि	Ricci's coefficient		रिची-गुणांक
ribbonzine	H.Sc.	रिबंजाइन	<i>Riccocarpus natans</i>	Bot.	रिकोकार्पस नेटेंस
riberepe	H.Sc.	रिब त्रेप	rice	H.Sc.	1. चावल, धान 2. राइस
<i>Ribes glaciale</i>	Bot.	राइबीज ग्लेसिएल	rice braid	H.Sc.	राइस ब्रेड
<i>Ribes grossularia</i>		राइबीज ग्रामुलेरिजा			
<i>Ribes nigrum</i>		राइबीज नाइग्रम			
<i>Ribes rubrum</i>		राइबीज रुब्रम			
rib fabric	H.Sc.	रिब वस्त्र			
ribitol	Chem.	राइबिटॉल			

rice case worm	Zool.	धान मूसा इल्ली	Richter's law	Chem	रिक्टर नियम
rice coal	Geol.	सूक्ष्म ऐन्धासाइट	Richthofenia		रिखोफेनिया
rice downy mildew	Bot.	चावल की मूडुरोमिल फफूंदी	ricin		राइसिन
rice dust	H Sc.	धान चूर्ण	ricing	H Sc.	धुरचना
rice earhead bug	Zool	धान बाल मत्सुण	ricinidine	Chem.	रिसिनिडीन
rice flour	H Sc.	धान आटा	ricinine	Chem.	रिसिनिन
rice grass	Geog	शान्ति घास, घान घास	ricinoleate	Chem	रिमिनोलीएट
rice-growing region	Geog.	धान उत्पादी प्रदेश	ricinoleic acid	Chem	रिमिनोलीक अम्ल, रिसिनोलीक एसिड
rice moth		धान शलभ	<i>Ricinus communis</i>	Bot	रिसिनस काम्युनिस (एरड)
rice net	H Sc.	राइस नेट	rickardite	Geol	रिक्कार्डाइट
rice nematode		धान सूत्रकृमि	Ricke diagram	Phy.	रीके आरेख
ricer	H Sc	राइसर	Ricke's equation	Chem.	रीके समीकरण
rice root nematode		धान मूल सूत्रकृमि	rickets	H Sc.	रिक्केट्स
rice skipper		धान प्लुतक	<i>Rickettsia akari</i>	Bot.	रिक्केट्सिया अकेराइ
rice starch		धान मंड	rickettsial disease	Zool	रिक्केट्सि रोग
rice stone		राइस स्टोन, धान्योपल	rickettsial infection		रिक्केट्सि संक्रमण
Rice system	Phy.	राइस विधि	rickettsial pox		रिक्केट्सि चेचक
Rice-Tiller hypothesis	Chem.	राइस टिलर परिकल्पना	rickety rosary	H Sc.	रिक्केटी गुडिनामारा
rice weevil		धान धुन	rickey	H Sc.	रिक्की
Richards and Reides experiment		रिचर्ड्स-रीड प्रयोग	rick-rack	H Sc	रिक् रैक
Richards investigation	Chem.	रिचर्ड्स अन्वेषण	<i>Ricolesia bovis</i>	Bot.	रिक्कोलेसिया बोविस
Richardson effect	Chem.	रिचर्डसन निष्पत्ति	ricolettante	Geol.	रिक्कोलेटाइट
Richards's equation		रिचर्ड्स समीकरण	ricolite	Geol	रिक्कोलाइट
rich chocolate brown	Geog.	गाढ़ा चावलेट रंग	rectal bristle (vibrissae)	Zool	जंभ शूक
rich deposit	Geol	प्रचुरराशि निक्षेप, समृद्ध निक्षेप	riddle	Chem, H.Sc	प्रचुरानी
richellite	Geol.	रिचेल्लाइट	rider (of a balance)	Chem Geol.	1 (तुला का) आरोही 2 राइडर
rich extinction (= acceleration blow out)	Phy.	त्वरणिक अणुदहन	rider arch		आरोही तोरण
Richmond green	Chem	रिचमंड हरित, रिचमंड घीन	rider carriage		राइडर वाहक
richness condition	Math	समृद्धि-प्रतिबंध	ridered		राइडरित
rich phase	Chem	समृद्ध कला, समृद्ध प्रावस्था	rider hook		राइडर हुक
rich set		समृद्ध समुच्चय	rider strip		आरोही पट्टी
rich soil	Geog.	उत्प्राकृष्ट मृदा, उर्वर मिट्टी	ridge	Geol, Zool, Geog	कटक
			ridged fissure fumarole		कटकित विदार वाष्पमूत्र



ridged wave guide		कटक युक्त तरंग पथक	Riemann integral		रीमान-समाकल
ridge fault		कटक भ्रंश	Riemann invariant		रीमान निश्चर
ridge fold		कटक बलन	Riemann n-sphere		रीमानी n-गोला-पृष्ठ
ridge line		कटक रेखा	Riemann Roch theorem		रीमान-रोच प्रमेय
ridge of high pressure		उच्चदाब-कटक	Riemann's conjecture		रीमानी अनुमान
ridge of pressure		दाब-कटक	Riemann's existence theorem		रीमानी अस्तित्व-प्रमेय
ridge pole	Geog.	रिज पोल	Riemann's mapping theorem		रीमानी प्रतिचित्रण प्रमेय
ridge system		कटक तंत्र	Riemann Stieltjes integral		रीमान-स्टील्जे समाकल
ridge terrace		कटक वेदिका	Riemann's summation		रीमानी संकलन
ridge tile		कटक खपरैल	Riemann's symbol		रीमानी-प्रतीक
ridging	H.Sc.	डोल वांघना, मेड़ वांघना	Riemann sum		रीमान-योगफल
riding glacier	Geol.	वारोही हिमानी	Riemann surface		रीमान पृष्ठ
riding party	Geog.	वश्वारोही दल	Riesensfeld-Liebhafsky	Chem.	रीजेनफेल्ड लीमास्की परीक्षण
Ridsdale's nickel steel	Chem.	रिड्सडेल निकल इस्पात	Riesz convexity theorem	Math.	रीड-अवमुखता-प्रमेय
riebeckite	Geol.	रिवेकाइट	Riesz Fisher theorem	Math.	रीड-फिशर प्रमेय
riebeckite granite		रिवेकाइट-ग्रेनाइट	Riesz's lemma	Math.	रीड-प्रमेयिका
riebungs breccia	Geol.	घर्षणी संकोणाग्र	rifle	Geol.	1. श्वखातिका 2. रिफिल
Riechert Meissl value	Bot.	राइकर्ट माइस्ल मान	rifle bank	Geol.	रिफिल पंज
Riecke's principle	Geol.	रिक्की सिद्धांत	rifle flume	H.Sc.	रिफिल फ्लूम
riegal		रीगल	riffler	Chem.	1. रिफलर 2. द्विरैत्री
Riegler's solution	Chem.	राइग्लर विलयन	rifle range	Geog.	राइफल चांदमारी
Riehle test	Chem.	रीहे निकष	rift	Geol., Geog.	1. रिफ्ट 2. अनुपाट
Riella	Bot.	रिएला	rift basin		रिफ्ट बेसिन
Riella bialata		रिएला बाइएलेटा	rift diffusion	Chem.	विदर विसरण
Riemannian affinity	Math.	रीमानी सजातीयता	rift fault		रिफ्ट भ्रंश
Riemann-Christoffel tensor		रीमान-क्रिस्टोफेल-प्रदिश	rift-line volcano		रिफ्टलाइन ज्वालामुखी
Riemannian coordinate		रीमानी निर्देशांक	rift structure		रिफ्ट-संरचना
Riemannian curvature		रीमानी-वक्रता	rift trough		रिफ्ट ट्रोंगी
Riemannian geometry		रीमानी ज्यामिति	rift valley		रिफ्ट घाटी
Riemannian globally symmetric space		रीमानी सार्वत्रिक सममित समष्टि	rift valley fever		रिफ्ट-वैली ज्वर
Riemannian homothety		रीमानी समस्थिति	rift valley lake		रिफ्ट-घाटी झील
Riemannian metric		रीमानी दूरीक			
Riemannian space		रीमानी समष्टि			
Riemannian sphere		रीमानी गोलक			
Riemannian wave		रीमानी तरंग			

R I F virus	Zool	आर० आई० एफ० विषाणु	right cylinder	सबन्धीय बेलन
rig	Geog. Chem.	रिग	right distributive law	दक्षिण बटन नियम
rigby	H.Sc.	रिग्बी	right handed	दक्षिणावर्ती
*Rigel (=β Orionis)	Astron	राइजेल (=β ओरिओनिस)	right hand prism	सब त्रिभुज
rigens	Bot	वृद्ध	right-hand rule	दक्षिणहस्त नियम
rigg	Geog.	रिग (कटक)	right hand screw	दक्षिणावर्ती पेंच
rigged H-Bomb	Phy.	निष्पिष्ट कीशो हाइड्रोजन बम	right hand side	दक्षिण पक्ष
rigger	Chem (Pet)	रिगर	right hand topology	दक्षिण सतृप्ति
rigging up	Chem (Pet)	रिगन	right Harr measure	दक्षिण हार माप
right	Math	दक्षिण	right helicoid	दक्षिण सर्पिलज
right action of Lie group	Math.	ली समूह की दक्षिण क्रिया	right ideal	दक्षिण गुणजावली
right angle	Math.	समकोण, लम्बकोण	right interior multiplication	दक्षिण आंतर गुणन
right angled block		समकोण ब्लॉक	right invariant metric	दक्षिण निश्चर दूरीक
right-angled triangle		समकोण त्रिभुज	right inverse	दक्षिण प्रतिलोम
right annihilator		दक्षिण शून्यकारी	right inverse element	दक्षिण प्रतिनोम अवयव
right anterior inter costals		दक्षिण अग्र अंतरागर्भक	right inverse operator	दक्षिण प्रतिलोम सकारक
right aortic arch		दक्षिण महाधमनी चाप	right justify	दक्षिणतो विन्यास
right apical lobe		दक्षिण अग्र पालि	right linearly independent	दक्षिण रैखिक स्वतंत्र
right artium		दक्षिण अलिद	right lung	दक्षिण फुफ्फुस
right ascension		विमुवाश, राइट असेशन	right mantle lobe	दक्षिण-प्राकार-पालि
right auricle		दक्षिण अलिद	right module	दक्षिण प्रनिरूपक
right bronchus		दक्षिण श्वगनी	right null element	दक्षिण शून्य अवयव
right cancellation law		दक्षिण अपवर्जन-नियम	right parallelepiped	सब सामान्तर पट्टक
right carotid artery		दक्षिण शोवा-धमनी	right pleural ganglion	दक्षिण पार्श्वगुच्छिका
right cerebral ganglion		दक्षिण प्रमस्तिष्क- गुच्छिका	right prism	सब त्रिभुज
right circular cone	Math	सम्ब वृत्तीय शंकु	right pulmonary aorta	दक्षिण फुफ्फुस महाधमनी
right completion		दक्षिण पूर्ति	right pulmonary artery	दक्षिण फुफ्फुस धमनी
right cone		सब शंकु	right quotient	दक्षिण भागफल
right conoid (=right helicoid)		सम्ब सर्पिलज, सम्ब शक्याम	right reading map	दक्षिण-लेखा मानचित्र
right coset		दक्षिण सहसमुच्चय	right running lode	अनुत्पन्नताक्ष शिरानिक्षेप, अनुत्पन्नताक्ष लोड
			right section	सब परिच्छेद
			right shift	दक्षिण विस्थापन
			right side	दक्षिण पक्ष
			right square prism	समवर्ण त्रिभुज
			right translation	दक्षिण स्थानांतरण

right uniformity		दक्षिण परिवेशक	rig wool	<i>H.Sc.</i>	रिग ऊन
right vector space		दक्षिण सदिश समष्टि	rilandite	<i>Geol.</i>	रिलैन्डाइट
rigid		दृढ़	Riley oxidation	<i>Chem.</i>	रिले ऑक्सीकरण
rigid base bar		दृढ़ आधार दण्ड	rill	<i>Geog.</i>	क्षुद्र सरिता
rigid body		दृढ़ पिंड	rill cut stoping	<i>Geol.</i>	रिल ऊर्ध्वखनन
rigid body motion		दृढ़ पिंड गति	rill-cut vertical stopes	<i>Geol.</i>	रिल ऊर्ध्वखनि
rigid displacement		दृढ़ विस्थापन	rille		चंद्रघाटी
rigid dynamics		दृढ़ पिंड गतिकी	rillensteine	<i>Geog.</i>	रिलेन्सटाइन, घोलगतिका
rigid fixure		दृढ़ स्थायिक	rill erosion	<i>Bot.</i>	रिल अपरदन
rigid frame		दृढ़ ढांचा	rill mark	<i>Geog., Geol.</i>	घारानु चिह्न
rigid gel		दृढ़ जेल	rillstone	<i>Geog.</i>	रिलस्टोन
rigid graver		दृढ़ ग्रेवर	riisan	<i>H.Sc.</i>	रिल्सन
rigid inclusion		दृढ़ अन्तर्वेशन	rim	<i>Geol., Geog.</i>	नेमि, किनारा, उपान्त
rigidity		दृढ़ता	rimaye	<i>Geog.</i>	रिमाये (हिमविदर)
rigidity theorem		दृढ़ता-प्रमेय	rim drive	<i>Phy.</i>	नेमिचालित, रिम चालित
rigid perfectly plastic body		दृढ़ पूर्णतः सुघट्य पिंड	rime	<i>Geog.</i>	तुहिन
rigid rock-sheet		दृढ़ शैल-परत	rime deposit		तुहिन-निक्षेप
rigid rotator		दृढ़ घूर्णक	Rimini's test	<i>Chem.</i>	रिमिनी निकप
rigid sphere model		दृढ़ गोल प्रतिरूप	rimming steel	<i>Chem.</i>	नेमीयन इस्पात
*Rigel Kentaurus (= $\alpha$ Centauri)	<i>Astron.</i>	रिजिल केन्टारस (= $\alpha$ सेन्टॉरॉइ)	rimo	<i>H.Sc.</i>	रीमो
rigmel	<i>H.Sc.</i>	रिगमल	rimose	<i>Bot.</i>	विदीर्ण
rigoleae		रिगोलीन	rimpylite	<i>Geol.</i>	रिम्पीलाइट
rigor mortis	<i>H.Sc.</i>	मृत्यूज काठिन्य	rim-rock	<i>Geol.</i>	नेमि-शैल
rigorous	<i>Geog., Chem.</i>	कठोर, दृढ़	rim of Sanio	<i>Bot.</i>	सैनियो-पट्टी
rigorous calculation	<i>Math.</i>	परिशुद्ध परिकलन	rimstone	<i>Geog., Geol.</i>	रिमस्टोन
rigorous climate		कठोर जलवायु	rimstone bar		रिमस्टोन रोधिक
rigorous derivation		परिशुद्ध व्युत्पत्ति	rimstone pool		रिमस्टोन कुंड
rigorous environment		कठोर वातावरण	rincette	<i>H.Sc.</i>	रिन्सेट
rigorous proof		परिशुद्ध प्रमाण, परिशुद्ध उपपत्ति	rind	<i>Geog. H.Sc.</i>	पपड़ी, शल्क छिलका
rigorous quotient theorem		परिशुद्ध भागफल प्रमेय	rinderpest	<i>Geog.</i>	पशु महामारी
rigorous survey		परिशुद्ध सर्वेक्षण	rine pan	<i>Geol.</i>	राइन पैन
rigorous treatment		परिशुद्ध विवेचन	ring	<i>Math., Geog.</i>	बलय, रिग
			ring adjunction		बलय सहसंबंधन

ring anchor		वृत्त बलय	ring fracture stoping		बलय-विभाग निखनन
ring automorphism		बलय स्वाकारिता	ring function (toroidal function)		बलय फलन
ring axiom		बलय अभिगृहीत	ring furche		सीतावनय
ringback key	<i>Phy.</i>	प्रतिवादन कुजी	ring gland (= Weisman's ring)		दलय-ग्रथि (वाद्बभान बलय)
ring biscuit	<i>H Sc.</i>	रिंग विस्कुट	ring head		बलय शीर्ष
ring burner		बलय ज्वालक, बलय बर्नर	ring hole		बलय छिद्र
ring canal	<i>Zool</i>	बलय नाल	ring homomorphism		बलय समाकारिता
ring chromosome		बलय गुणसूत्र	ringing	<i>Phy.</i>	1 निनाद 2 वादन 3 बलयन
ring circuit		बलय परिपथ	ringing choke		निनाद चोक
ring closure		बलय मवरण	ringing key		वादन कुजी
ring commissure		बलय सपायी	ringing method		बलयन विधि, छल्ला विधि
ring complex		बलय समिश्र	ring interchange		बलय विनिमय
ring compound		बलय शैगिक, रिंग शैगिक	ring joint		बलय सधि
ring contour		बलय-समोच्चरेखा	ring kila	<i>Geol</i>	रिंग भट्टी
ring core		बलय श्रोत्र	ring micrometer		बलय माइक्रोमीटर
ring counter		बलय गणित	ring modulator		सेतु माड्युलक
ring crusher		बलय दलित	ring mold	<i>H Sc</i>	बलय साचा
ring crush test		बलय दलन निक्षय	ring muscle		बलय पेशी
ring current		बलय धारा	ring nematode		बलय सूत्रकृमि
ring diagram		बलय-आरेख	ring net		बलय जाल
ring disc electrode		बलय चत्रिका इलेक्ट्रोड	ring of convergence		अभिसरण बलय
ring dislocation		बलयकार प्रक्षय	ring of coral		प्रवाल-बलय
ring dove		बलय पडुक	ring off indicator	<i>Phy.</i>	घटी बन्द सूचक
ring dyke		बलय डाइक	ring office		ज्वालामुखी पर्वतमाता
ring dyke complex		बलय डाइक समिश्र	ring of functions		फलन बलय
ringens	<i>Bot</i>	मुह खुला	ring of integers		पूर्णांक बलय
ringent flower		मुह खुला फूल	ring of linear transformations		रैखिक रूपांतरणो का बलय
ringer	<i>Geol.</i>	रिंगर	ring of Witt vectors		विट एडिंसो का बलय
Ringer-Locke's solution		रिंगर-लाक विलयन	ring ore		रिंग अयस्क
ring fault		बलय भ्रग	ring pattern		बलय प्रतिमान
ring fiber		बलय तंतु	ring porous wood		बलय छिद्री काष्ठ
ring finger	<i>Zool.</i>	अनामिका	ring product		बलय-गुणनफल
ring flip		बलय प्रतिवर्तन, रिंग विलय			
ring fracture		बलय-विभाग			

ring roll mill		वलय वेल्सन मिल, वलय वेल्सन पेपणी	riparian	<i>Zool., Geog., Geol.</i>	1. नदतटीय 2. तटवर्ती
ring rot		वलय विलगन	riparian area	<i>Geog.</i>	तटवर्ती क्षेत्र
rings and brushes		वलय और ब्रश	riparian power		तट-स्वामी राष्ट्र
ring scaler		वलय सोपानक	riparian rights		नदतटीय अधिकार
ring sealed valve		वलय सीलित वाल्व	riparian settlement		तटवर्ती बस्ती
ring section		वलय परिच्छेद, वलय काट	riparius	<i>Bot.</i>	नदतटीय
ring seine		वलय संपाशक	rip current		तरंगिका
ring-shaped		वलयाकार	ripe	<i>Geog.</i>	परिपक्व
ring-shaped reef		वलयाकार भित्ति	ripe bog		परिपक्व दलदल
ring-shift (= cyclic shift)		चक्रीय विस्थापन	ripen	<i>Geog.</i>	पूर्ण विकास
ring sight		वलय लक्ष्यदर्शी	ripening		पक्ववन
ring sinus		वलय कोटर	ripidolite	<i>Chem.</i>	रिपिडोलाइट
ring spinning		वलय वयन	ripple	<i>Phy., Geol., Chem.</i>	ऊमिका
ring spot		वलय लक्ष्म, वलय चित्ती	ripple drift		ऊमिका अपोढ
ring stand		वलय-बाहिका, वलय स्टैंड	ripple-drift structure		ऊमिकापोढ संरचना
ring strapping		वलय संग्रयन	rippled surface		ऊमि पृष्ठ
ring structure		संरचना वलयी	ripple finish		ऊमिका परिसज्जा
ring test		वलय परीक्षण	ripple index		ऊमिकांक
ring time	<i>Phy.</i>	निनाद काल	ripple mark		ऊमिका चिह्न
ring type nozzle		वलयी नुचु	riopple tank		ऊमिका टंकी
ring vessels		वलय-बाहिका	ripple till	<i>Geog.</i>	ऊमिल टिल, ऊमिल गोलाश्म मृत्तिका
ring with identity	<i>Math.</i>	तत्समकी वलय	repple-till belt		ऊमिल टिलपट्टी, ऊमिल गोलाश्म मृत्तिका पट्टी
ring without divisors of zero	<i>Math.</i>	शून्य के भाजकों से रहित वलय	ripple-till formation		ऊमिक टिल रचना, ऊमिल गोलाश्म मृत्तिका रचना
rinkolite	<i>Geol.</i>	रिंकोलाइट	ripplette	<i>H.Sc.</i>	रिपलेट
rinneite	<i>Geog.</i>	रिनीआइट	rippling	<i>Chem.</i>	1. (adj.) उत्तरंगिल 2. (vb.) उत्तरंगिलन
Rinnmann's green	<i>Chem.</i>	रिनमान हरित	riprapping	<i>Geog.</i>	घरुणक
rinsing	<i>H.Sc.</i>	प्रक्षालन, खंगालना	rip tide	<i>Geog.</i>	तरंगिका
R-integrable	<i>Math.</i>	R-समाकलनीय	rise (mining)	<i>Geol.</i>	ऊर्ध्वखनन
rinzu	<i>H.Sc.</i>	रिजू	rise and fall system	<i>Geog.</i>	ऊत्थान-पतन पद्धति
rio	<i>Geog.</i>	रिओ, नदी			
riola	<i>H.Sc.</i>	रिओला			

riser	<i>Chem, Geol.</i>	1 सचमुख ( <i>Met</i> ) 2. राइजर	ritual purification		अनुष्ठानिक शुद्धि
riser gating	<i>Chem.</i> ( <i>Met</i> )	सचमुखत	Ritz combination principle	<i>Chem, Phy</i>	रिट्ज संयोजन सिद्धान्त
risers	<i>Geol</i>	उर्ध्वगामी	Ritz method	<i>Math</i>	रिट्ज विधि
rise time	<i>Phy.</i>	उत्थानकाल	riyanol	<i>Chem.</i>	रिवैनाॅल
rise time correction (=transit time correction)	<i>Phy.</i>	उत्थानकाल संशोधन, गमन काल संशोधन	river		नदी
rise time distortion (=transit time distortion)	<i>Phy.</i>	स्थानांतरण काल विरूपण	riverain		नदीय, नदतटीय
rise time to gain ratio		उत्थानकाल-लाभ अनुपात	riverain port		नदतटीय पत्तन
rising bubble method	<i>Chem.</i>	उद्बुद्बुद पद्धति	riverain prediction		नदतटीय प्राग्निष्ठ (नवार)
rising coast	<i>Geol</i>	उभरता तट, उत्थानशील तट	river bar		नदी रोधिका
rising steel (blown ingot, unkilled steel)	<i>Chem.</i> ( <i>Met.</i> )	उद्गामी इस्पात	river basin		नदी बेसिन
rising sun magnetron	<i>Phy.</i>	उदय सूर्य मेग्नेट्रॉन	river basin planning		नदी बेसिन योजना
rising sun type		उदय सूर्य रूपी	river bed		नदी तल, नदी पाट
risk	<i>Math.</i>	जोखिम	river bed dune		नदी-तल टिब्बा
risk curve		जोखिम-वक्र	river borne soil	<i>Geol</i>	नदीद्वारा मृदा
risk problem situation		जोखिम समस्या स्थिति	river-borne traffic		नदी यातायात
risky research		जोखिमी अनुसंधान	river capture		नदी-अपहरण
risotto	<i>H.Sc.</i>	रिसॉटो	river channel		नदी प्रणाल
'riss-linie'	<i>Bot.</i>	बकप्रहाम, रिस-तिनी	river claim		नदी अधिपत्या, नदी-दावा
rissole	<i>H.Sc.</i>	छोटा कोपुता	river cliff		नदी भूगु, नदी-भूगु
ristocatin	<i>Chem.</i>	रिस्टोसेटिन	river craft	<i>Geog.</i>	डिगी, नदीयान
rita	<i>Zool.</i>	रीता	river crossing	<i>Geog.</i>	1 पारणस्थान 2 नदी पारण
ritex	<i>Chem.</i>	राइटेक्स	river-crossing site		नदी-पार स्थल
Ritter reaction	<i>Chem.</i>	रिट्टर अभिक्रिया	river diversion		नदी-अपवर्तन
Ritter's solution		रिट्टर-हल	river drift	<i>Geog, Geol.</i>	नदीद्वारा
rittlingerite	<i>Geol.</i>	रिट्टिन्गेराइट	river dune		नदी टिब्बा
ritual	<i>Geog.</i>	संस्कार विधि	river erosion		नदी अपरदन
ritual apparatus	<i>Geog.</i>	अनुष्ठानिक उपकरण	river erosion lake		नदी अपरदन-झील
ritual concept		सांस्कृतिक धारणा	river fishery		नदी-मात्स्यकी
ritual feeding	<i>Bot, Zool.</i>	व्रत्याशन	river flood plain swamp		नदी बाढ़ अनुप
			river floor		नदी सतह
			river front		नदी तटार
			river gabging		नदी प्रमाण
			river grade		नदी-समुचित तल
			river gradient		नदी-प्रवणता
			river ice		नदी बर्क

river icing		नदी बर्फविरण	rizopatronite	Geol.	रिजोपैट्रोनाइट
riverine *		नदीय	rizzonite	Geol.	रिजोनाइट
riverine area		नदीतट क्षेत्र	R-meter	Geol.	आर-मापी
riverine city		नदीतट शहर	r. m. s. noise	Phy.	r. m. s. रव
riverine fisheries		नदीय मात्स्यकी	RNA	Biol., Chem.	आर. एन. ए.
riverine flood		नदी बाढ़, नदी बन्धा	RNA ase		आर. एन. ए. एस
riverine village		नदी तट ग्राम	RNA replicase		आर. एन. ए. रेप्लिकेस
river level		नदी तल	RNA virus		आर. एन. ए. विपाणु
river mining		नदी तल-खनन	road	Geog.	1. सड़क, मार्ग 2. खुला पोत आश्रय
river mouth		नदी मुहाना	road aster	Geog.	रोड एस्टर, पथतारक
river of copper		ताम्र-नदी (लिम्पोपो)	Road Book		रोड बुक, मार्ग पुस्तक
river-pebble		नदी गूटिका	road bridge		सड़क पुल
river piracy		नदी-अपहरण	road crossing		सड़क क्रॉसिंग, रोड क्रॉसिंग
river pirate		नदी अपहरक	road district		सड़क क्षेत्र
river plain		नदी मैदान	road haulage		सड़क षहन
river port		नदी पत्तन, नदी बन्दरगाह	road metal		सड़क पत्थर
river profile		नदी-परिच्छेदिका, नदी प्रोफाइल	road pattern settlement	Geog.	अनुमार्ग वस्ती
riversideite	Chem.	रिवर्सीडाइट	road section		मार्ग-परिच्छेद
river-side town		नदी-तट नगर	road stead		खुला पोत आश्रय
river-site village		नदीस्थली ग्राम	road tunnel		सड़क सुरंग
river system		नदीतंत्र	roadway	Geog.	रोडवे, सड़क मार्ग
river terrace		नदी-बेदिका	roak	Chem. (Met.)	रोक
river tool		नदी साधन	roan cattle (short horn breed)	Zool.	सितारुण पशु (लघु शृंग नस्ल)
river valley		नदी-घाटी	roan horse		सितारुण अश्व
riverward boundary	Geol.	अभिनद सीमांत	roaring forties	Geog.	तूफानी चालीसा
river wear		नदी घर्षण	roaring fumarole	Geol.	गर्जक वाष्पमुख
rivet	Chem. (Met.)	कीलक, रिबेट	roasted food	H.Sc.	भुना आहार, भजित आहार
rivetting		रिबेट लगाना, कीलन	roaster	H.Sc.	भजित
riviera	Geog.	रिवैरा	roaster gas		भजन गैस
<i>Rivina humilis</i>	Bot.	रिविना हमिलिस	roasting		भूना, भजन
<i>Rivularia haematites</i>	Bot.	रिवुलेरिया हीमैटाइटीज	roasting and reaction process		भजन तथा अभिक्रिया प्रक्रम
rivularis	Bot.	नदीपार्श्वी	roasting furnace		भजन भट्टी, भूने वाली भट्टी
rivulet	Geog., Geol.	नदिका			
rizce	H.Sc.	रिजी			
rizine	H.Sc.	राइजीन			

roasting pan		भर्जन पात्र	rock		शैल, चट्टान
roast reaction	<i>H.Sc.</i>	भर्जन अभिक्रिया	rockallite	<i>Geol.</i>	रॉकालाइट
rob	<i>H.Sc.</i>	रॉब, फलरस चामनी	rock bar		शैल रोषिका, शैल भित्ति
robber crab	<i>Zool.</i>	दस्यु कर्कट	rock basin		शैल-बेसिन
robber economy	<i>Geog.</i>	लुटेरी अर्थव्यवस्था, अपहरणो अर्थव्यवस्था	rock bed		शैल-सस्तर
robber fly	<i>Zool.</i>	दस्यु भक्षी	rock bench		शैल बगार, शैल बेंच
robbings	<i>H.Sc.</i>	रॉबिंग	rock bit		वेधन शल्य
robe		रोब	rock-block field		शैलखंड क्षेत्र
robin		रॉबिन	rock body		शैल पिंड
Robin' constant	<i>Math</i>	रोबिन-नियतांक	rock borer		शैल वेधक
Robin's law		रॉबिन-नियम	rock boring		शैल वेधन
Robinson ester		राबिनसन ऐस्टर	rock burst		शैल प्रस्फोट
Robinson's synthesis		रॉबिनसन संश्लेषण	rock butter		रॉक बटर
robot	<i>Chem., Phy.</i>	रोबोट	rock cap		शैल छत्र
robotized analyzer		रोबोटीकृत विश्लेषक	rock city		शैल शहर
roccadini	<i>H.Sc.</i>	रॉकाडिनी	rock cleavage		शैल विदलन
Roccella	<i>Chem</i>	रॉकसेला	rock cliff		शैल भूग
Roccellaceae	<i>Bot.</i>	रॉकसेली	rock climb (=rock climbing)		शैल आरोहण, पर्वतारोहण
<i>Roccella fuciformis</i>	<i>Bot</i>	रॉसेला फ्यूसीफॉर्मिस	rock-climber		पर्वतारोही, शैल आरोही
rocdrumlin (=rock drumlin)	<i>Geog</i>	शैल-ड्रमलिन	rock cocoa		रॉक कोका
Roche density	<i>Math.</i>	रोशे-घनत्व]	rock core		शैल-कोर
Roche limit		रोशे-सीमा	rock conloir		शैल नूल्दा
rochelle	<i>H.Sc.</i>	रोशेल	rock cove		शैल लघुनिवेशिका
rochelle salt		रोशेल लवण	rock crab		शैल कर्कट
Roche model		रोशे-निदर्श	rock creep		शैल विसर्पण
roche moutonnees	<i>Geol.</i>	भेड पीठ शैल, रॉश मूटोने	rock crevice		शैल दर्री
rocher	<i>H.Sc.</i>	रॉचर	rock crystal	<i>Geol.</i>	स्फटिक, बिन्नीर
roches bosselées	<i>Geog.</i>	हिमज चट्टानी टीला	rock cut bench-mark		शिलाकृत तल-चिह्न
roches nirellées		हिमज चट्टानी तल	rock-cut floor		शैलकृत तल
roche wet belt machine		रोशे आर्द्र पट्टा मशीन	rock decay		शैल अपघ्न
Rochling phosphate	<i>Chem.</i>	रॉकलिंग फॉस्फेट	rock defended		शैल रक्षित
Rochon prism	<i>Chem.</i>	रोशोन प्रिज्म	rock defended terrace		शैलरक्षित वेदिका
Rochow process		रॉशोव प्रक्रम	rock desert		शैल मरुस्थल
			rock detritus		शैल अपरद



rock drum		शैल ड्रम	rocking	<i>Phy.</i>	रॉकन, संदोलन, डोलन
rocker	<i>Chem., Geol.</i>	1. संदोलित्र, रॉकर 2. संदोलनी	rocking arc furnace		संदोलन चाप भ्राष्ट्र
rocker motion	<i>Phy.</i>	डोलन गति	rocking curve		डोलनिक वक्र
rocket	<i>Math., Phy.</i>	राकेट	rocking key		डोलन कुंजी
rocket action		राकेट क्रिया	rocking-resistor furnace		संदोली प्रतिरोधक भ्राष्ट्र, संदोली प्रतिरोधक भट्टी
rocket adapter		राकेट ऐडेप्टर	rocking stone		संदोलनी प्रस्तर
rocket airplane		राकेट विमान	rocking vibration		संदोली कंपन
rocket flight		राकेट उड़ान	rock joint		शैल संघि
rocket launcher		राकेट मोचक	rock ledge		शैल फलक
rocket motor efficiency		राकेट-मोटर दक्षता	rock lobster		शैल लॉबस्टर, शैल महाचिगट
rocket powered		राकेट संचालित	rock louse		शैल यूका
rocket powered vehicle		राकेट चालित यान	rock magnetism		शैल चुंबकत्व
rocket propulsion		राकेट नोदन	rock-masonry dam		शैल-चिनाई बांध
rocketry	<i>Phy.</i>	राकेट विज्ञान	rock mass		शैल संहति
rocket ship		राकेट जहाज	rock metal (rock milk)		शैल धातु (शैल-शीर)
rocket sled		राकेट स्लेड	rock milk		शैल-शीर
rocket spectrum		राकेट स्पेक्ट्रम	rockogenin	<i>Chem.</i>	रॉकोजेनिन
rock fabric		शैल संविन्यास	rock oil	<i>Geol.</i>	पेट्रोलियम, खनिज तेल
rock facies	<i>Zool.</i>	शैल विषमवास्तक	rockoon	<i>Phy.</i>	रॉकून
rock failure		शैल नक्षमता	rockoustile	<i>Chem.</i>	रॉकोस्टाइल
rock fall		शैल पात	rock outcrop		शैल दृश्यांश
rock fall basin		शैल पात बेसिन	rock pavement vegetation		शैल पयरील वनस्पति
rock fan		शैलपंख	rock pedestal		शैल-पीठिका
rock floor		शैल तली	rock pediment		शैल पेडीमेंट
rock flour		शैल चूर्ण	rock pendent		शैल प्रालम्ब
rock flowage		शैल प्रवाह	rock phosphate		शैल-फ़ास्फ़ेट
rock form		शैल-रूप	rock plain		शैल मैदान
rock formation		शैलसमूह	rock plane		शैल तल
'rock forming' elements		शैलकारी तत्व	rock pool	<i>Geol.</i>	तैलाशय
rock forming mineral		शैलकर खनिज	rock pressure		शैलीय दाब, शैलीय निपीड
rock fracture		शैल विभंग	rock quartz	<i>Geol.</i>	रॉक क्वार्ट्ज
rock fragment		शैल खंड	rock rib		चट्टानी चमार
rock glacier		शैलखंड नदी	rock raffle		रॉक रिफ़ल
rock glacier creep		शैल खंड-नदी सर्पण	rock-rill		शैल क्षुद्रसरिता

rock-rimmed lake		शैलकगारी शील	Rockwell hardness test		रॉकवेल कठोरता निरूपण, रॉकवेल कठोरता सपरीक्षण
rockrite process (= compression forming)	<i>Chem</i>	रॉकडाइट प्रक्रम, सपीडन प्रक्रम	rockwood	<i>Geol.</i>	रॉकवुड
rock river		शैल नदी	rockwool		शैल-ऊर्ण
rock rotting		शैल अपघटन	rocky		शैलमय, शैलीय, चट्टानी, पथरोला
rock rubbish		शैल-कंकट	rocky barrier		शैलीय रोध
rock rubble		शैल रदुल	rocky channel		चट्टानी प्रणाल
rock ruby		रॉक रुबी	rocky cleft		चट्टानी विदर
rock salt	<i>Geol.</i>	खनिज नमक, सैधा नमक	rocky coast		शैलीय तट
rock sauce	<i>H.Sc.</i>	रॉक सॉस	rocky coast fauna		शैलीय तट प्राणिजात
rock sculpture		शैल तक्षण	rocky ground		शैलमय भूमि
rock sere		शैल क्रमक	rocky headland		शैलीय अतरीप
rock series		शैल श्रेणी	rocky island		चट्टानी द्वीप
rock sheet		शैल भास्तर, शैल चादर	rocky knob		शैल घुम्बो
rock shell		शैल कवची	rocky mass		शैलीय सहनि
rock slide		शैल स्खलन	Rocky mountain	<i>Geog.</i>	रॉकी पर्वत
rock-slope		शैल ढान	rocky plains		शैलमय मैदान, चट्टानी मैदान
rock soap	<i>Geol.</i>	रॉक सोंप	rocky precipice		चट्टानी दरद
rock soil		शैल मृदा, चट्टानी मिट्टी	rocky scarp		शैलीय कगार
rock steps		शैल सोपान	rocky soil		पथरोली मिट्टी
rock-stratigraphic unit		शैल स्तरिक एकक	rocky wall		चट्टानी दीवार
rock stratum		शैल स्तर	rod		शलाका, दड, छड़, सशलाका
rock stream		शिला धारा, शैल सरिता	rod and line	<i>Zool.</i>	वसी
rock surface		शैल पृष्ठ	rod border		शलाकात
rock tank		अवतन कुड	rod cells		शलाका कोशिका
rock terrace		शैल वेदिका	rod crack		छड़ विदर
rock threshold		शैल देहली	rod-deck		दड-डेक
rock trout		रॉक ट्राउट	rod-deck screen		दड-डेक छन्ना
rock turquoise	<i>Geol.</i>	रॉक टर्क्वायड	rodding		सशलाकन
rock type		शैल प्ररूप	rodding structure	<i>Geol.</i>	यष्टिक संरचना
rock-unit		शैल एकक	rod double refraction		छड़ द्वि-अपवर्तन, सशलाका द्वि-अपवर्तन
rock-wall		शैल भित्ति	rodent	<i>Zool. Geog., H.Sc.</i>	हन्तक, रोडेंट
rock-walled dolina		शैल-भित्ति शोलाइना			
rock-wastage		शैल अतिशय			
rock waste		शैल मन्वा, शैल अपरद			
rock weathering		शैल क्षयण, शैल-अपघरण			

Rodentia	Zool.	रोडेन्शिया (कृन्तकगण)	rogue	Bot.	1. अवांछित
rodenticide	Zool., Chem., H.Sc.	रोडेन्टनाशी, कृन्तकनाशी	roguing	Bot.	2. (Taxonomy) अपप्ररूप
rod feeding		शलाका भरण	Rohmann-Spitzer reaction	Bot.	अपावांछन
rodingite	Geol.	रोडिंगाइट	roily oil	Geol.	रोमान स्पित्सर अभिक्रिया
rodlet	Zool.	दंडिका	roll	Phy., Math., H.Sc.	रॉयली तेल
rod level	Geog.	रॉड लेवल (यंत्र)	roll back routine	Phy.	लोटन (T V Picture) (n.) रोल, (vb.) गोल वनाना, बेलना
rodman		रॉडमैन, दंडवाहक	roll capture		पुनरावर्ती नेमका
rod mill		छड़ पेपणी	roll coating	Chem.	लोटनी प्रग्रहण
rod mill		शलाका मिल	roll cogging		बेल्लन-आलेप, बेलन- आलेप
rod proof		शलाका निदर्श, छड़-प्रूफ, छड़-नमूना	roll compacting		बेल्लन-कॉगन, बेलन- कॉगन
Rodrigues equation	Chem.	रुद्रोगीज समीकरण	roll control		बेल्लन-सुसंहनन
Rodrigues formula	Math.	रोड्रिगेज-सूत्र	roll crusher		लोटन नियंत्रण
rods and cones		शालका और शंकु	roll cumulus		बलन-दलित
rod-shaped virus		दंडरूप विषाणु	rolled		वर्तुल पक्षाम-मेघ
rod station	Geol.	रॉड स्थान	rolled glass		बेल्लित
rod test (for temperature)		छड़ निकष	rolled-in scale		बेल्लित कांच
roe	Zool. Chem. Geog., H.Sc.	1. मीनांडक 2. रो 3. हिरणी, मृगी	rolled latex		अंतर्वेल्लित शल्क
Roelen synthesis	Chem.	रोएलन संश्लेषण	rolled pebble		बेल्लित लेटेक्स
roentgen	Phy., Chem.	रुन्टगेन	rolled profile section		बेल्लित गुटिका
roentgen equivalent		रुन्टगेन तुल्य	rolled steel		बेल्लित परिच्छेदक
roentgenographic	Zool.	रुन्टगेनलेखीय	rolled-up		बेल्लित इस्पात
roentgenography (also rontgeno- graphy)	Chem.	एक्स किरण चित्रण	roller		बेल्लित
roentgenology		रुन्टगेनिकी, एक्सकिरणचित्रणिकी	roller casting		बेलन, रोलर रोलर, चाप
roentgenotherapy		एक्सकिरण चिकित्सा, रुन्टगेन चिकित्सा	roller coating		रोलर ढालना
Roentgen rays		रुन्टगेन-किरण, एक्सकिरण	roller-coating enamel		बेल्लन आलेपन, बेलन आलेपन
Roesler process	Geol.	रोस्लर प्रक्रम	roller fading		बेल्लन-आलेपी इनेमल, बेलन आलेपी इनेमल
roe stone	Geol.	रो स्टोन	roller feeder		लोटनी अवतीव्रण
rognon	Geog.	रॉगनॉन	Roller function		बेलन संभरक
			roller mark		रोलर फलन
					बेलन चिह्न

roller mill		रोलर मिल, बेलन मिल	rolling upland	<i>Geog.</i>	ऊमिन उपरिभूमि
roller print		बेलन छाप	rolling valley		ऊमिन घाटी
roller printing		बेल्लन मुद्रण, रोलर छपाई, बेलन छपाई	roll knobbling (spellerizing)	<i>Chem.</i>	बेल्ल-अधिकन
roller printing machine		बेलन छपाई मशीन	roll-leaf-printing	<i>Chem (Plast)</i>	बेल्ल-पत्र मुद्रण
roller towel		रोलर तौलिया	roll life	<i>Chem</i>	बेल्लन आयु, बेलन आयु
roller-tube culture		बेलन-नली संवर्धन	roll neck		बेल्लन शीघ्र, बेलन शीघ्र
roll film		रोल फ़िल्म	roll oil		बेल्लन तैल
roll force	<i>Chem.</i>	बेल्ल-बल	rollof	<i>H Sc</i>	रोलॉट
roll forging	<i>Chem</i>	बेल्ल-फ़ोर्जिंग	roll-out	<i>Phy</i>	(स्मृति) त्रिलोपी-पटन
roll gap		बेल्लन-अन्तराल, बेलन अन्तराल	rollover machine	<i>Chem</i>	सब बेल्लन-अपरीन
roll grinder		बेलन चक्की	roll pass		बेल्लन पास
rolling	<i>Phy, Chem.</i>	(adj) बेलनी, लोटनी, लोटनिक (n) बेल्लन, लोटन	roll squeezer		बेल्ल निष्पीडित्र
rolling bridge		रोलिंग ब्रिज, लोटन सेतु	roll straightener		बेल्ल ऋज्वक
rolling component		लोटन घटक, बेल्लन घटक	roly-poly	<i>H Sc.</i>	रोली-पॉली
rolling curve		बेल्लन वक्र	roll sulphur	<i>Chem.</i>	गटक शलाका
rolling friction		बेल्लन घर्षण, लोटनिक घर्षण	Roman canvas	<i>H Sc</i>	रोमन कैनवास
rolling ground	<i>Geol.</i>	तरंगित भूमि	roll torque		बेल्लन-बल आयुर्ण
rolling incline-bedding		तरंगित नल संस्तर	roll wobbler		बेल्लन प्रदोलक
rolling land	<i>Geog.</i>	ऊमिल भूमि	Roman alum	<i>Chem</i>	रोमन फिटकरी, रोमन स्फटिका
rolling mill	<i>Geog.</i>	रोलिंग मिल	Roman cartography		रोमन मानचित्रकला
rolling moment		बेल्लन आयुर्ण	Roman catholicism	<i>Geog.</i>	रोमन कैथोलिकवाद
rolling movement		बेलनी गति	Roman cement	<i>Chem.</i>	रोमन सीमेन्ट
rolling off		अपबेल्लन	romanechite	<i>Geol</i>	रोमैनेकाइट
rolling pastoral	<i>Geog.</i>	ऊमिल चरागाह	Roman impluvia	<i>Geog.</i>	रोमन हौत्र, रोमन इम्प्लुविया
rolling pin	<i>H Sc.</i>	बेल्लन	Romanov	<i>H Sc</i>	रोमेनॉव
rolling plateau		ऊमिल पठार	Roman number		रोमन अंक, रोमन संख्या
rolling platform		पहिएदार मेज	Roman settlement		रोमन बस्ती
rolling sphere viscometer	<i>Chem.</i>	बेल्ल गोला श्यानतामापी	Roman steelyard		रोमन विषममूत्र तुला
rolling stock	<i>Geog</i>	चन स्टॉक, गाडियाँ	Roman town		रोमन नगर
rolling strata	<i>Geol</i>	तरंगित स्तर	Romberg integration	<i>Math.</i>	रॉम्बर्ग समाकलन
rolling surface		ऊमिल पृष्ठ	romeite	<i>Chem.</i>	रोमीयाइट
rolling total tabulator		लोटन योन-मारुणित	romerite	<i>Chem</i>	रोमराइट
			romotar	<i>Phy.</i>	रोमोटार
			romper	<i>H Sc.</i>	रोम्पर

roncal	<i>H.Sc.</i>	रॉकल	root		मूल, जड़
Ronceray runner	<i>Chem.</i>	रॉन्सरे घावक	root beer	<i>H.Sc.</i>	रूटबियर
rondowel (=rondavel)	<i>Geog.</i>	रोन्डावेल	root bend test	<i>Chem.</i>	तल बंकन निकप
rondin	<i>H.Sc.</i>	रॉन्डिन	root cap		मूल गोप
rone	<i>H.Sc.</i>	रोन	root climber		मूल रोहिणी
rongalaite	<i>Chem.</i>	रॉंगेलाइट	root cultivation	<i>Geog.</i>	कन्द-मूल कृषि
rongony	<i>H.Sc.</i>	रांगोनी	root diffusate		मूल स्राव
Rontgen equivalent physical (=rep)	<i>Phy.</i>	रेप	rooted scan	<i>Math.</i>	नियत क्रमवीक्षण
rontgenography	<i>Chem.</i>	रून्टगेन चित्रण, ऐक्स- किरण चित्रण	root-gall		मूल पिटिका
rontgenometer		रून्टगेनमापी	root gall nematode		मूल पिटिका सूत्रकृमि
roof		छत	root gatherer	<i>Geog.</i>	कन्द-मूल संग्राही
roof antenna		छत ऐन्टेना	Roothaan's equation	<i>Chem.</i>	रोटहान समीकरण
roof-drip		छत टपकन	root hair		मूल रोम
roof feature		छत लक्षण	root-hernia	<i>Zool.</i>	रोमिल मूल, मूल गंड
roofing tile		छत-टाइल, छत-खर्पूरी	root-holes		मूल-विवर
roof of cavern		कन्दरा छत	rooting		मूलोत्पत्ति
roof pendant	<i>Geog., Geol.</i>	छाद प्रालंब, छत प्रालंब	root inhibition		मूल-निरोधन
roof plank		छत फलक	root knot		मूल गांठ
roof prism (=amici prism)	<i>Phy.</i>	ऐमिती प्रिज्म	root knot nematode		मूल गांठ सूत्रकृमि
roof-shaped vault	<i>Geog.</i>	महरावी छत	root lesion nematode	<i>Bot.</i>	मूल विकृत सूत्रकृमि
roof spongework		छत छिद्रजालक	rootless slices	<i>Geol.</i>	बिमूल स्तरखंड
rookalk	<i>Geog.</i>	रूकालक	rootless vent		बिमूल द्वार
rookery	<i>Zool.</i>	काकाश्रय	rootlet	<i>Bot.</i>	मूलिका
room		कक्ष	root mean square	<i>Math.</i>	वर्ग-माध्य-मूल
room acoustics		कक्ष ध्यानिकता	root mean square error		वर्ग माध्य मूल त्रुटि
room and pillar method		कक्ष और स्तंभ विधि	root mean square value		वर्ग-माध्य-मूल मान
roominess		कक्ष विस्तार	root membrane		मूलकला, मूल झिल्ली
rooming bark	<i>Geog.</i>	विशाल नौका, विशाल पोत	root nematode		मूल सूत्रकृमि
rooming house	<i>Geog.</i>	एककक्षी निवास	root of a polynomial		बहुपद का मूल
room temperature	<i>Chem.</i>	कोष्ठ ताप, सामान्य ताप	root of congruence		समवेपता का मूल
rooster	<i>Phy.</i>	रूस्टर	root of unit		एकांक के मूल
roosting	<i>Zool.</i>	निलयन	root opening (root gap)		मूल मुव
roosting cover		निलयन आवरण	root pressure		मूलीय दाब
			root rot		मूल विगन्त

root rot complex		मूलविगलन जटिल मूलच्छद	rose	Bot., H.Sc.	गुलाब
root sheath		मूलच्छद	Roseae		रोड़ी
root skeleton		मूल कंकाल	rose bay	Geog	तगर, रोजबे
roots of mountain's theory		गिरि मूल सिद्धान्त	roseberry	H Sc	रोडबेरी
root squaring		मूल-वर्गण	rose chafer	Zool.	रोड बेफर
root-squaring process		मूल वर्गण प्रक्रम	rose comb	Zool	गुलाब ककत
root stock	Bot	प्रकट	rose copper	Chem	रोड ताम्र
root tip		मूलाग्र	Rose crucible	Chem	रोड श्रुसिदल, रोड भूषा
root trace		मूल-अनुपथ, मूल ड्रेस	rose diagram	Geol	रोड भारिख
root tuber		मूल कन्द	Rose-Gottlieb process	Chem.	रोड-गोटलीब प्रक्रम
root tubercle		मूल-गुलिका	rose finch	Zool	रोड फिच, पाटल कुलिंग
root wedging		मूल फाननिवेशन	Rose-Innes equation,	Chem.	रोड-इनेस समीकरण
root zone		मूल-क्षेत्र	Rosellinia necatrix	Bot	रोसेलिनिया निकैट्रिक्स
rope		रज्जू	rosemary	Geog, H Sc, Chem	रोजमैरी
rope machine		रज्जू यंत्र	rosemary oil		रोजमैरी तेल
rope polygon		रज्जू बहुभुज	Rose metal	Chem	रोड धातु
rope silk	H Sc.	रोप रेशम (सूत्र)	rose net	H Sc	रोड नेट
rope stitch		रोप टाका	Rosenbusch's law	Geol	रोडेनबुश-नियम
rope way		रज्जू मार्ग	Rosenheim formula	Chem	रोडेनहाइम सूत्र
rope yarn		रज्जू सूत्र	Rosenheim-Milolati theory	Chem	रोडेनहाइम मिओलाटी सिद्धान्त
ropiness		रज्जुलता	rosenite	Geol	रोडेनाइट
ropy lava		रज्जुक लावा	Rosenmund's reaction	Chem	रोडेनमुंड अभिक्रिया
ropy structure		रज्जुक संरचना	roseo	Chem	आरक्त, रोडिओ
Rosa	Bot	रोड़ा	roseo-cobaltic chloride		आरक्त कोबाल्टिक क्लोराइड, रोडियो कोबाल्टिक क्लोराइड
Rosa canina		रोड़ा कॅनाइना	roseo salt		आरक्त लवण, रोडिओ लवण
Rosaceae		रोडेसी	roseothricin	Chem	रोडिओथ्रिसिन
rosaceous		गुलाबवन्	Rose process	Chem.	रोड प्रक्रम
Rosa indica		रोड़ा इन्डिका	rose quartz	Geol.	गुलाबी स्फटिक
Rosales		रोडेसीज	rose red		गुलाबी लाल
rosaline	H Sc.	रोडालिन	rosero	H.Sc.	रोडेरो
rosary	Geog	जपमाला	rose rust	Bot.	गुलाब का रूट
rosasite	Geol.	रोडेसाइट			
Roscoea purpurea		रमकोइया परपुरिया			
roscoelite	Chem. Geol.	रोस्कोलाइट			

rosetta	<i>H.Sc.</i>	रोजेटा	Rostellaria	<i>Geol.</i>	रोस्टेलरिया
rosetta stone	<i>Geog.</i>	रोजेटा स्टोन	rostellar receptacle	<i>Zool.</i>	तुण्डक बाधान
rosette	<i>Zool.</i>	स्तव, रोजेट	rostellar muscle		तुण्डक पेशी
rosette copper	<i>Geol.</i>	रोजेट तात्र	rostellate	<i>Bot.</i>	सतुण्ड
rosette disease	<i>Bot.</i>	रोजेट रोग		<i>Zool.</i>	तुण्डकी
rosette motion	<i>Phy.</i>	रोजेट [गति, पाटलिक गति]	rostellum	<i>Zool.</i>	रोस्टेलम, तुण्डक
rosette organ	<i>Zool.</i>	स्तवांग	rosterite	<i>Geol.</i>	रोस्टेराइट
rosette polyembryony	<i>Bot.</i>	रोजेटो बहुभ्रूणता	rostoff	<i>H.Sc.</i>	रोस्टॉफ
rosette-shaped	<i>Phy.</i>	पुष्पाकार	rostral artery	<i>Zool.</i>	तुंडीय धमनी
rosette texture	<i>Geol.</i>	रोजेट गठन	rostral cavity	<i>Geol.</i>	रोस्ट्रम गुहिका
rosette tier	<i>Bot.</i>	पुंजी सोपान	rostral opening		रोस्ट्रम द्वार
rosette virus		रोजेट वाइरस	rostral plate	<i>Geol., Bot., Zool.</i>	रोस्ट्रमी-पट्टिका, तुण्ड-पट्टिका
rosetting	<i>Bot.</i>	रोजेटोमवन	rostral shield		रोस्ट्रल विशल्क, तुंड विशल्क
roseum cotton	<i>H.Sc.</i>	रोजियम कपास	rostral tube		रोस्ट्रमी नाल, तुण्ड-नाल
rose wilt		गुलाब म्लानि	rostrate	<i>Zool.</i>	रोस्ट्रमी, तुण्डो
rose water	<i>H.Sc.</i>	गुलाब जल	Rostratulidae	<i>Zool.</i>	रोस्ट्रेटूलिडी
rose wood	<i>H.Sc., Geog.</i>	रोजवुड	rostradorsal plate (mucocartilage)]		तुण्डपृष्ठ पट्टिका
rosickyite	<i>Geol.</i>	रोजिकाइट	rostro-pineal plate		रोस्ट्रमी-पिनियल पट्टिका, तुंड-पिनियल पट्टिका
rosin		गंधराल, रोजिन	rostrum	<i>Geol., Bot., Zool.</i>	रोस्ट्रम, तुंड
rosin blende	<i>Chem.</i>	रोजिन ब्लेन्ड	rosulate		रोजेटो, रोजेटोय
rosindole reaction	<i>Bot.</i>	रोजिनडोल अभिक्रिया	rosy pastor	<i>Zool.</i>	रोजी पॅस्टर, पाटल सारिक
rosinduline	<i>Chem.</i>	रोजिनड्यूलीन	rosy starling	<i>Zool.</i>	गुलाबी तिलियर
rosin sampler	<i>Chem. (Paint.)</i>	रोजिन प्रतिदर्शित्र	rot		विगलन
Rosoideae		रोजॉइडी	rota	<i>H.Sc.</i>	रोटा
Rosolic acid	<i>Chem.</i>	रोजॉलिक अम्ल, रोजॉलिक एसिड	Rotalla		रोटेलिया
Ross board	<i>Geog.</i>	रॉस बोर्ड	<i>Rotalia beccari</i>		रोटेलिया बेकराइ
Rossby diagram	<i>Geog.</i>	रॉसबी आरेख	rotaliform		रोटेलियारूपी
Rosseland mean coefficient	<i>Math.</i>	रोसलैंड माध्य गुणांक	rotameter		बकरेखामापी, रोटामापी
Rosseland's theorem		रोसलैंड-प्रमेय	Rotanev (=β Delphini)	<i>Astron.</i>	रोटानेव (=βडेलफाइनाइ)
rossia	<i>Chem.</i>	रोसिना	rotang	<i>Bot.</i>	रोटंग बेल
Rosslyn metal	<i>Chem.</i>	रोसलिन धातु	rotary		घर्णी
ross-roll grizzly	<i>Geol.</i>	क्रकनी बेलन ग्रिजली			
rostano	<i>H.Sc.</i>	रॉस्टेनो			
rostellar hook	<i>Zool.</i>	तुण्डक अंकुश			

rotary beam aerial (=rotary beam antenna)	घूर्णी किरणपुंज ऐन्टेना	rotary sulfur burner	घूर्णी सल्फर बर्नर, घूर्णी गंधक ज्वालक
rotary blower	घूर्णी ब्लोअर, घूर्णी वायुमाना	rotary type ironer	घूर्णी इस्त्री-यंत्र
rotary broaching	घूर्णी ब्रोचन	rotary washing screen	घूर्णी धावन छला
rotary calciner	घूर्णी निस्तापक	rotate	<i>Math, Phy</i> 1 (v) घूर्णन करना, घूमना 2 (adj.) चक्राकार, पहियासूची
rotary condenser	घूर्णी संघारित्र	rotating	<i>Phy, Geog</i> घूर्णी
rotary converter	घूर्णी परिवर्तित	rotating anode	घूर्णी ऐनोड
rotary cooler	घूर्णी कूलर	rotating anode tube	घूर्णी ऐनोड नलिका
rotary crusher	घूर्णी दलित	rotating assembly	घूर्णी सभासंयोजन
rotary cutting machine	घूर्णी कटन मशीन	rotating blade	घूर्णी फलक
rotary drier	घूर्णी शुष्कित	rotating coil	घूर्णी कुंडली
rotary drilling	घूर्णी वेधन	rotating contactor	घूर्णी संपर्कक
rotary drum filter	घूर्णी ड्रम फिल्टर, घूर्णी ड्रम निस्पन्दक	rotating coordinate system	घूर्णी निर्देश तंत्र
rotary dryer	घूर्णी शीपित	rotating crystal method	घूर्णी क्रिस्टल पद्धति घूर्णी स्फाटक पद्धति
rotary duster	घूर्णी प्रधूलक	rotating crystal photograph	घूर्णी क्रिस्टल फोटोग्राफ
rotary engine	घूर्णी इंजन	rotating direction finder	घूर्णी दिशा निर्धारक
rotary fault	घूर्णी भ्रंश	rotating disk	घूर्णी मंडन, घूर्णी डिस्क
rotary feeder	घूर्णी समरक	rotating disk contactor	घूर्णी चक्रिका संपर्कक
rotary file	घूर्णी सचिका	rotating electrode	घूर्णी इलेक्ट्रोड
rotary forming	घूर्णी समावन	rotating field	घूर्णी क्षेत्र
rotary furnace	घूर्णी भट्टी	rotating field aerial (=rotating field antenna)	घूर्णी क्षेत्र ऐन्टेना
rotary gap pulser	घूर्णी अंतराल स्पंदक	rotating furnace	घूर्णी भट्टी
rotary hook	घूर्णी हुक	rotating growth step	<i>Phy.</i> सविल प्ररोहण पग
rotary hopper dewaterer	घूर्णी हॉपर रिजलक	rotating joint	घूर्णी संधि
rotary inertia	घूर्णनी जडत्व	rotating loop antenna	घूर्णी पाश ऐन्टेना
rotary joint	घूर्णी संधि	rotating machine	घूर्णी यंत्र
rotary kiln	घूर्णी आराक, घूर्णी-भट्टी	rotating magnetic field	घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र
rotary machine	<i>Geog.</i> रोटरी मशीन	rotating magnet separator	घूर्णी-चुंबक पृथक्कर
rotary motion	घूर्णी गति	rotating prism camera	घूर्णी त्रिभुज कंसक
rotary movement	घूर्णी संचलन	rotating radio beacon	घूर्णी रेडियो बीकन
rotary oil pump	घूर्णी तेल पम्प	rotating sample	घूर्णी प्रतिदर्श
rotary piercing mill	घूर्णी सवेधन मिल		
rotary shears	घूर्णी बर्तरी		
rotary shoshing	<i>Geog.</i> आवनी प्रबलतरंग		
rotary spark gap	घूर्णी स्फूर्णिय अंतराल		



rotating sector	घूर्णी त्रिज्यखण्ड	rotationally symmetric solution	घूर्णतः सममित हल
rotating sector photometer	घूर्णी त्रिज्यखंडी प्रकाशमापी	rotational magnetic moment	घूर्णनी चुम्बकीय आघूर्ण
rotating sector technique	घूर्णी त्रिज्यखंड तकनीक	rotational model	घूर्णनी मॉडल
rotating shaft	घूर्णी शैफ्ट	rotational motion	घूर्णी गति
rotating shell	घूर्णी कोष	rotational multiplicity	घूर्णनात्मक बहुकता
rotating step mechanism	सपिल पग क्रियाविधि	rotational partition function	घूर्णनी सवितरण फलन
rotating vector	घूर्णी वेक्टर, घूर्णी सदिश	rotational perturbation	घूर्णन विक्षोभ
rotation	<i>Math., Phy., H.Sc.</i> 1. घूर्णन <i>Geog.</i> 2. आवर्तन	rotational quantum number	घूर्णन क्वान्टम संख्या
rotational	घूर्णी, घूर्णात्मक, घूर्णनी	rotational sampling scheme	घूर्णी प्रतिचयन योजना
rotational Alfvén-wave	घूर्णनीय ऐल्फवेन-तरंग	rotational specific heat	घूर्णनी विशिष्ट ऊष्मा
rotational analysis	घूर्णनी विश्लेषण	rotational spectrum	घूर्णन स्पेक्ट्रम
rotational bands	घूर्णात्मक पट्टी	rotational state (level)	घूर्णन-अवस्था (तल)
rotational bomb	घूर्णात्मक बम	rotational statistical weight	घूर्णनी सांख्यिकीय भार
rotational broadening	घूर्णनात्मक पृथुलन	rotational strain	घूर्णात्मक विकृति
rotational Brownian movement	घूर्णी ब्राउनिय गति	rotational symmetry	घूर्णनी सममिति
rotational discontinuity	घूर्णनीय असांतत्य	rotational temperature	घूर्णनी ताप
rotational dislocation	<i>Phy.</i> सपिल प्रभ्रंश	rotational term series	घूर्णन पद श्रेणी
rotational distortion	घूर्णन विकृति	rotational velocity	घूर्णन वेग
rotational disturbance	घूर्णकीय विक्षोभ	rotation constant	<i>Phy.</i> घूर्णनांक
rotational element	घूर्णी तत्व	rotation decreasing effect	घूर्णन ह्रास प्रभाव
rotational energy	घूर्णन-ऊर्जा	rotation element	घूर्णन तत्व
rotational fault	घूर्णी भ्रंश	rotation grass	<i>Geog.</i> आवर्तन घास
rotational fine structure	घूर्णनात्मक सूक्ष्म संरचना	rotation grassland	आवर्तन घासस्थल
rotational inertia	<i>Phy.</i> जड़त्व आघूर्ण	rotation group	घूर्णन समूह
rotational isomer	<i>Phy.</i> चक्रण समावयवी	rotationless state	घूर्णनहीन अवस्था
rotational isotope-effect	घूर्णन समस्थानिक प्रभाव	rotation matrix	घूर्णन-आव्यूह
rotational level	घूर्णन-स्तर	rotation monad	घूर्णन एकल
rotational line	घूर्णी रेखा	rotation of coordinate system	निर्देशांक निकाय का घूर्णन
rotationally symmetrical flow	घूर्णतः सममित प्रवाह	rotation of crops	सस्यावर्तन

rotation of sample		प्रतिदर्श का घूर्णन	rotocline	<i>Geol</i>	रोटोक्लीन
rotation operator		घूर्णन सकारक	rotodip	<i>Chem.</i>	घूर्ण मञ्जन
rotation oscillation method		घूर्णी दोलन पद्धति	rotofinish	<i>Chem.</i>	घूर्णन सञ्जा
rotation spectrum		घूर्णन स्पेक्ट्रम	rotograph	<i>Geog</i>	रोटोग्राफ
rotation therapy		घूर्णन चिकित्सा	roton	<i>Phy</i>	रोटॉन, घूर्ण ऊर्जा क्वाटम
rotation triad axis		घूर्णन त्रिक अक्ष	rotor		रोटर, घूर्णक
rotation vibration band		घूर्णन कपन बैंड	rotor armature		रोटर आर्मेचर
rotation vibration spectra		घूर्णन-कपन स्पेक्ट्रम	rotor field		रोटर क्षेत्र
rotation-vibration spectrum		घूर्णन कपन स्पेक्ट्रम	Rotor process		रोटर प्रक्रम
rotator	<i>Phy., Zool</i>	घूर्णी, रोटेटर	rotor speed		घूर्णक चाल
rotatory	<i>Phy., Geog.</i>	घूर्णनी, घूर्णी	rotor-spray washer		घूर्णी फुहार वाशर
rotatory current	<i>Geog</i>	परिभ्रामी धारा	rotoscope	<i>Geol</i>	रोटोस्कोप
rotatory dispersion	<i>Phy.</i>	ध्रुवण घूर्णनी वर्णविक्षेपण	roto-vibratory screen		घूर्ण-कपी छन्ना
rotatory distillation		घूर्ण-आसवन	rot-proofing	<i>Chem</i>	पूयन सहकरण
rotatory drier		घूर्णी शुष्कक	rot-resistant	<i>H.Sc.</i>	विगलन रोधी
rotatory inertia		घूर्णनी अक्षत्व	rotted ice	<i>Geog.</i>	विगलित बर्फ
rotatory motion		घूर्णन-गति	rotted rock	<i>Geog.</i>	जीर्ण शैल
rotatory power		ध्रुवण घूर्णन क्षमता	rotten ice	<i>Geol.</i>	विगलित हिम
rotatory pump		घूर्णी पम्प	rottenstone	<i>Geol , Chem</i>	विगलितारम
rotatory storm		घूर्णी सझावात, घूर्णी तूफान	rottisite	<i>Chem.</i>	रॉटिमाइट
rotelliform	<i>Geol.</i>	रोटेलारूप	rotula	<i>Geol ,Zool</i>	रोटुला
rotenone	<i>Zool , Chem</i>	रोटीनोन	rotund		गोल
rotenone insecticide		रोटीनोन कीटनाशी	rotundifolius	<i>Bot</i>	वर्तुलपर्णी
Roth-Fritz process	<i>Chem.</i>	रॉथ-फ्रिट्ज प्रक्रम	Rouche's theorem	<i>Bot</i>	रूशे-अमेय
rothofite	<i>Geol.</i>	रोथोफाइट	rouge	<i>Chem.,H.Sc.</i>	रूज
roti (recording optical tracking instrument)	<i>Phy.</i>	प्रकाशीय स्थिति अभिलेखक	rouget	<i>Zool.</i>	रूजे
rotifer	<i>Zool.</i>	चक्रघर, रॉटिफर	rough	<i>Geol ,Phy. Bot.</i>	1 रूस 2. रूयून
Rotifera	<i>Zool</i>	रॉटिफेरा (चक्रघर)	roughage	<i>Bot H Sc.</i>	1. भोटा चारा 2. रूसाअश
<i>Rotifer neptunius</i>		रोटिफर नेप्चूनियस	rough bark virus		रूस छान वाइरस
rotoblast	<i>Chem</i>	घूर्णवान्या मगोन	rough bearing		रूसूल दिग्मान
rotochute	<i>Phy.</i>	रोटोचूट	rough compilation	<i>Geog.</i>	कच्चा संकलन, साधारण संकलन
			rough diamond	<i>Geol.</i>	कीरा हीरा
			rougher	<i>Chem. H.Sc.</i>	1. रूसिन्न, रूसाक 2. रूडर
			rougher cells		उत्प्लवन रूस

rough figure		स्थूल-चित्र	rounding error	<i>Phy., Math.</i>	निकटन त्रुटि
rough firing		रुक्ष तापन	rounding off	<i>Phy., Math.</i>	निकटन (figure) निष्कोणन (curve)
rough glass		रुक्ष कांच	rounding off numbers		संख्याओं का निकटन
rough grazing		रुक्ष गोचर, रुक्ष चरागाह	round jet	<i>Math.</i>	गोल प्रधार
roughing	<i>Chem.</i>	रुक्षण	round laminar jet		गोल अप्रसुद्ध प्रधार
roughing pass		रुक्षण पास, रुक्षण पारण	roundness	<i>Geol.</i>	गोलाई, वर्तुलत्व
rough land		रुक्ष भूमि	round-nibbed pen	<i>Geog.</i>	गोल निब-पेन, गोल निब-कलम
roughly		स्थूलतः	round of angle	<i>Geog.</i>	कोण-परिक्रम
roughness	<i>Math.</i>	रुक्षता	round off error		निकटन-त्रुटि
roughoid	<i>Zool.</i>	रुक्षाम	rounds	<i>Geol.</i>	गोलशैल
rough pasture		रुक्ष चरागाह	round stone		गोल शैल
rough pipe		रुक्ष नल	round stone conglom- merate		गोल शैल गुटिकाग्रम
rough pottery		रुक्षमुद्-मांड	round trip time	<i>Phy.</i>	गमनागमन काल
rough sea	<i>Geog.</i>	प्रसुद्ध सागर	round vesicle	<i>Geog.</i>	गोल स्फोट-नातं, गोल बुलबुला
rough sketch	<i>Geog.</i>	कच्चा रेखा-चित्र	roundworm	<i>Zool.</i>	गोलकृमि
rough skin disease	<i>Bot.</i>	रुक्षत्वक् रोग	round writing pen	<i>Geog.</i>	गोल लेखन पेन
rough surface		रुक्ष पृष्ठ	<i>Rourea minor</i>	<i>Bot.</i>	रौरेखा माइनर
rough topography		रुक्ष स्थलाकृति	Rousettus	<i>Zool.</i>	राउसेटस
rough turning		रुक्ष चक्रण	Roussin's red salt	<i>Chem.</i>	रुसिन रक्त लवण
roughwater	<i>Geol.</i>	झुब्ब जल	Roussin's salt		रुसिन लवण
rough weather	<i>Geog.</i>	प्रसुद्ध मौसम	route		मार्ग
roulette	<i>Math.</i>	वेल्लज, रुलेट	route book		रूट बुक, मार्ग पुस्तिका
round billets	<i>Chem.</i>	गोल बिलेट	route-chart		मार्ग-चार्ट, रूट-चार्ट
round bottomed flask		गोल पेटे का प्लास्क	route foci		मार्ग केन्द्र
round brackets	<i>Math.</i>	घनकोष्ठक, घनबंधनी	route sampling		अनुमार्गी प्रतिचयन
round chart	<i>Chem.</i>	गोल चार्ट साधित्र	routeway	<i>Geog.</i>	मार्ग
round instrument			Routh's discriminant	<i>Math.</i>	राउथ-विविक्तकर
rounded	<i>Geol.</i>	गोल, गोलित	routine	<i>Math., Phy.</i>	नित्यक्रम, नेमका
rounded edge		गोल कोर	routine test		नेमका परीक्षण
rounded negrito head	<i>Geog.</i>	वर्तुल निग्रिटो शिरस्क	routing	<i>Math.</i>	अनुमार्गण, मार्गनिर्धारण
rounded nunatak	<i>Geog.</i>	गोल नूनाटाक	routings in production		उत्पादन में मार्गनिर्धारण
rounded off	<i>Geog.</i>	पूर्णांकित	rouvillite	<i>Geol.</i>	रुविलाइट
rounded orifice	<i>Geol.</i>	गोल विवर	rouzet	<i>H.Sc.</i>	रौज़ेट
rounded ridge		गोल कटक			
rounded spur		गोल पर्वत-स्कंध			
round grained		गोल कणित			
round-headed element		गोल कपाली लक्षण			

royalizing	<i>Chem</i>	रोवलन	royal jelly	<i>Zool.</i>	राज जेली, रॉयल जेली
rove beetle	<i>Zool.</i>	अटन भृग	royal rib	<i>H.Sc.</i>	रॉयल धारी (वस्त्र)
rover	<i>Geog.</i>	समुद्री डाकू	royal twill	<i>H.Sc.</i>	रॉयल ट्वील
rovibronic level	<i>Phy</i>	घूर्णकपट्टानीय स्तर, रोवाइब्रानिक स्तर	royalty	<i>Geog.</i>	रॉयल्टी, अधिकार शुल्क
rovibronic transition		घूर्णकपट्टानीय सक्रमण, रोवाइब्रानिक सक्रमण	Rozan process	<i>Geol.</i>	रोज़न प्रक्रम
roving	<i>Chem.</i> ( <i>Text.</i> )	1. पूनी 2. पूनी बदना, पुनियाता 3. आमोटन	Rozellopsis	<i>Bot.</i>	रोज़ेलोप्सिस
roving frame	<i>H.Sc.</i>	रोविंग फ्रेम, आमोटन यंत्र	r-related	<i>Math.</i>	r-संबंधित
row	<i>Math, H.Sc.</i>	पक्ति	r-section		r-परिच्छेद
rowan berry	<i>H.Sc.</i>	रावनबेरी,	RRK theory	<i>Chem.</i>	आर० आर० के० थार
Rowand screen	<i>Geol.</i>	रोवन्ड छला	R-scope (=R display)	<i>Phy.</i>	R-प्रदर्श
row application		पक्ति अनुप्रयोग	R-tectonite	<i>Geol.</i>	R-टेक्टोनाइट
row-by-column multiplication		पक्ति-स्तम्भ-गुणन	ruban	<i>H.Sc.</i>	रबन
row by column product		पक्ति स्तम्भ-गुणनफल	rubber		रबड़, रबर
row crop		पक्ति फसल, पक्ति शस्य	rubber blanket		रबर आवरण, रबर प्लैकेट
row dimension	<i>Math.</i>	पक्ति विमा	rubber bung		रबड़ की डाठ
row equivalence		पक्ति-तुल्यता	rubber clay		रबड़ मृत्तिका
row-equivalent		पक्ति तुल्यक	rubber coated metal		रबर आवेपित धातु
Rowland effect	<i>Math.</i>	राउलैन्ड प्रभाव	rubber core yarn		रबर कोर सूत
Rowland intensity scale		राउलैन्ड-सीरनाक्रम	rubber cork		रबर की डाठ
row line		पक्तीय रेखा, पक्ति रेखा	rubber hose		रबर होज, रबड़ नल
row matrix		पक्ति-आव्यूह	rubberised fabric		रबरकृत वस्त्र
row minima		पक्ति निम्निष्ठ	rubberizing		रबरण
row nullity		पक्तीय शून्यता	rubber lined steel		रबड़ स्तरित इस्पात
row null space		पक्तीय शून्यकारी समष्टि	rubber model		रबड़ प्रतिरूप
row operations		पक्ति सन्निया	rubber plantation		रबड़ रोपण, रबर बागान
row rank		पक्ति कोटि	rubber pressure tubing		रबर की दाबनली
row-reduced echelon matrix		पक्ति समानीत सीपान आव्यूह	rubber ring		रबड़ का छल्ला
row space		पक्ति समष्टि	rubber seed oil		रबर बीज तेल
row vector		पक्ति सदिश	rubber sheeting		रबर शीटिंग
<i>Roylea calycina</i>		रॉयलिया कैलीसाइना	rubber softner		रबर मुदर
royal green	<i>Geol.</i>	रॉयल हरित	rubber stamp		रबर मुद्र
			rubber stopper		रबड़ की डाठ
			rubber tile		रबड़ टाइल
			rubber tipped stirring rod		रबर अथ वितोहन दंड
			rubber tube		रबड़ की नलिका

rubber velvet		रबर मखमल	rubroglaucin	Bot.	रुब्रोग्लॉसिन
rubbing	Chem., H.Sc.	निघर्षण	Rubus		रुबस
rubble	Geol., Geog.	रवल	Rubus fruticosus		रुबस फुटीकोसस
rubble drift		रवल अपोड़	ruby	Geol.	पद्मराग, माणिक्य, लाल, याकृत
rubble ice		रवल हिम	ruby copper	Geol.	क्यूप्राइट, रुबी कॉपर
rubble masonry dam		रवल चिनाई बांध	ruby eye	Zool.	माणिक्य नेत्र
rubble ore		रवल अयस्क	ruby glass	Chem.	माणिक्य कांच, रुबीकांच
rubbly limestone		रवल चूनापत्थर	ruby laser		रुबी लेसर, माणिक्य लेसर
rubbone	Chem.	रबोन	ruby mica		रुबी अप्रक
rubeanic acid	Chem.	रुबिऐनिक अम्ल, रुबिऐनिक ऐसिड	ruby red		माणिक्य रक्त
rubella	Zool.	रुबेला, अरुणचर्मता	ruby silver	Geol.	रुबी सिल्वर
rubellite		रुबेलाइट	ruby spinel		रुबी स्पिनेल
Ruben-Mallory cells	Chem.	रुबेन-मैलोरी सेल	ruby tailed wasp	Zool.	मणिपुच्छ वरं
rubens	Bot.	लज्जा अरुण	*Ruchbah	Astron.	रुकबा
ruher	Bot.	लोहित, लाल	(=δ Casseopeiae)		(=δ केसिओपियाइ)
ruberythric acid	Chem.	रुवरिथ्रिक अम्ल, रुवरिथ्रिक ऐसिड	ruck sack	Geog.	रुकू संक, पीठ थैला, खुरजी
Rubiaceae	Bot.	रुबिएसी	rudaceous	Geol.	गुटिकामय, गुटिकीय
Rubia cordifolia		रुबिया कार्डिफोलिया	rudder	Phy., Geog., Zool.	रडर, दिक्नियन्त्रक, अरिन्न
Rubiales		रुबिएलीच	rudder cirri		अरिन्न कुरल
rubicelle		रुबीसेली	ruddevators	Phy.	कर्णोत्थापक
rubicolous	Bot.	क्षुपकवासी	ruderal	Bot.	कूड़ावासी
rubidium		रुबिडियम	rudiment	Biol.	आद्यांग, आद्यावशेष
rubidium-strontium method	Geol.	रुबिडियम-स्ट्रॉन्शियम विधि	rudimentary		अल्पवर्धित, आद्यांगिक
rubiginous	Bot.	जंगवर्णी, किट्टवर्णी	rudimentary bed		अल्पवर्धित तल
rubin	Chem.	रुबिन	rudimentary furca		अल्पवर्धित फ्रकां
rubin number		रुबिन संख्या	rudimentary leaf		अल्पवर्धित पत्ती
Rubinowiz relation	Chem.	रुबिनोविज संबंध	rudimentary pinna		आद्यांगिक कर्णपल्लव
rubio iron ore	Chem.	रुबियो लोह अयस्क	rudimentary service	Geog.	प्रारम्भिक सेवा
rubixanthin	Chem.	रुबिखैन्थिन	rudimentary shell		अल्पवर्धित कवच
rub off	Chem.	निघर्षण	rudistid	Geol.	रुडिस्टिड
rubrene	Chem.	रुब्रीन	rudite	Geol.	गुटिकाग्रम
rubriblast	Chem.	रुब्रिब्लास्ट	Ruellia prostrata		रुएलिया प्रोस्ट्रेटा
rubricyte	Chem.	रुब्रिसाइट	rue oil	Chem.	रु-तैल, ब्राह्मी तैल, सदापहा तैल
rubrofusanin	Bot.	रुब्रोफ्यूजेनिन			

rufescens	Bot.	रक्तोन्मूख
rufescent	Bot	आरक्त
ruff	Zool.	1. कठवेष्टन 2 भट जलरक
ruffled leaf	Bot	उत्कुचित पर्ण
ruffler	H.Sc.	चुन्ट मशीन
ruffles		झालर, चुन्ट
ruffle wool	H.Sc.	रफ्तल ऊन
ruffling	Bot.	उत्कुचन
Ruff's method	Chem.	रफ पद्धति
rufous	Bot. Zool	रक्तनाभ आरक्त
rufous backed shrike		आरक्तपृष्ठ लक्षक
rufous bellied babbler		आरक्तपेटिका कक्षपक्षिया
rufous woodpecker		आरक्त काष्ठकूट, आरक्त कठफोडा
rug	H.Sc.,Phy., Geog	रण
ruqa	Bot,Zool.	1. दमि 2 रुगा
rugby	H.Sc.	रग्बी
rugged	Geog.	नलोन्नत, असम
rugged hinterland		असम पश्चिमीभूमि
ruggedization	Phy.	सुदृढ़ीकरण
rugged land		असम भूमि
rugged mountain		असम पर्वत
rugged shoreline		असम तटरेखा
rugged slope		असम ढाल
Ruggli high dilution principle	Chem	रगली उच्च तनुता सिद्धांत
Rugosa	Geol	रुगोसा
rugose	Bot,Geol Zool.	रुग्णपृष्ठी बलित
rugosissimus	Bot.	सूक्ष्मवर्तनमय
rugosity	Bot,Zool	वर्तनवृत्ता
rug practice jammer	Phy.	रण अभ्यासी सहायक
rugula	Bot.	रुगुला, सूक्ष्मवर्तित
rugulate	Bot.	रुगामुक्त

rugulose	Bot.	सूक्ष्मवर्तनमय
Ruheman's purple	Chem.	रुहेमन नीलनीहित
ruin	Geog.	खडहर
ruined land	Geog	विनष्ट भूमि
ruin field		खडहर क्षेत्र
ruiniform	Geol	ध्वस्तरूप
ruinous intensity scale	Geol	नाशो तीव्रता मापनी
*Rukbat (=α Sagitarii)	Astron.	रुकवत ( =α-धनु, α-मंजिरेरिआइ )
rule		नियम
ruled grating	Phy	रेखांकित ग्रैटिंग
ruled grating spectrometer		रेखांकित ग्रैटिंग स्पेक्ट्रोमिटर
ruled surface	Math.	रेखज पृष्ठ
rule of combination		संयोजन-नियम
rule of false position		मिथ्यास्थिति का नियम
rule of maximum multiplicity		भूयिष्ठ बहुकता नियम
rule of mutual exclusion		अभ्योन्य अपवर्जन नियम
rule of proportionate parts		समानुपाती भागों का नियम
rule of shift		सुति नियम
rule of signs		चिह्न नियम
rule of three		तीरगणिक नियम
rule of thumb		अंगुष्ठ नियम
rule of triads		त्रिक नियम
ruler	Geog., Math,H.Sc.	रेखनी, खतर
ruling	Phy.	1 रेखांकन 2 रेखाएँ
ruling engine		रेखांकन यंत्र
ruling male	Geog.	हत्तवर्तित नर
ruling pen		रेखांकन पेन
ruling section	Chem	नियमन धातु
rulings parallel		समानतर रेखाएँ
rum	Chem	रम
romanite	Geol.	रुमनाइट
rumbling	Chem.	घर्षरण

rumen	Zool.	प्रथम आमाशय, रुमेन	run-in	Geol.	अंतः प्रवेश, अंतः प्रवेशी जल
Rumex acetosa	Bot.	रुमेक्स ऐसीटोसा	R-unit	Phy.	R-मात्रक
Rumex acetosella		रुमेक्स ऐसीटोसेला	runite	Geol.	रुनाइट
Rumex dentatus		रुमेक्स डेन्टेटस	run-lace	H.Sc.	रनलेस
Rumex hastatus		रुमेक्स हेस्टेटस	runlet	Geog.	लंघुसरिता
Rumex vesicarius		रुमेक्स वेसीकेरियस	runnel	Geol., Geog.	नदिका
ruminant	Zool.	रोमन्थी, रुमिनैन्ट	runner	Chem.	1. धावक 2. उपरिभूस्तारी
Ruminantia	Zool.	रुमिनैन्शिया	runner bar		धावक शलाका
ruminant stomach		रोमन्थी आमाशय, रोमन्थी जठर	runner box		धावक पेटी
ruminant endosperm	Bot.	चर्विताभ भ्रूणपोष	runner cut		धावक काट
ruminated endosperm		चर्विताभ भ्रूणपोष	runner extension		धावक विस्तार
rumination	Zool.	रोमन्थन	runner riser		धावक संचमुख
	Bot.	चर्विताभन	running arithmetic mean	Math.	गतिमान समांतर माध्य
rump	Zool.	कटिप्रोथ	running a traverse	Geog.	मालारेखण
rumpf (of atom)	Phy.	परमाणु क्रेड, रम्फ	running batch	Chem.	धावी घान
(=core of atom)			running board antenna	Phy.	पाद पटल ऐन्टेना
rumpfite		रुम्फाइट	running down	Chem.	अवधावन
rumple	Geol.	लघुवलन, कुंचन	running ground	Geol.	निपाती मृदा
rumpled texture	Geol.	कुंचित गठन	running mean		गतिमान माध्य
rumpometer	Chem.	रम्पोमीटर	(=moving average)		
run	Phy., Geol.	1. धाव 2. परम्परा	running of ink	Chem.	मसी विस्तरण
	Geog.	रव	running out	Chem.	अधिधावन
run and fell seam	H.Sc.	चपटी सीवन	(Met.)		
runback	Chem.	पश्च धावन	running sand	Geol.	चोर रेत
runcinate	Geog.	पश्चदंती	running stick		धावी यष्टि
rundale	Geog.	रनडेल	running stitch	H.Sc.	सादा टांका
rundale mountain		रनडेल पर्वत	running term	Phy.	धावी पद
rundhall	Geog.	रनडाल	running time	Geol.	कार्यावधि
rundorf, (=rundling)	Geog.	रनडॉर्फ, रंडलिंग	running time meter	Phy.	कार्यावधि कार्यरत कालमापी
rune	Geog.	रून	running value	Phy.	धावी मान
rune tree		रून वृक्ष	running water	Geog.	प्रवाही जल
Runge denominator	Phy.	रुन्गे-हूर	run off	Geol., Geog.	वाह
Runge-Kutta integration	Chem.	रुन्गे कुट्टा समाकलन	run off coefficient	Geol.	वाहजल गुणांक
Runge's law		रुन्गे नियम	run of mine	Geol.	अप्रसाधित अयस्क
runic inscription	Geog.	रुनिक शिलालेख			
runic texture	Geol.	वाल्लेखनय गठन			

run of ore	<i>Geol.</i>	नन अयस्कपिंड	rural habitation		ग्राम बस्ती
run-ont	<i>Chem.</i>	अधिघात	ruralis	<i>Bot.</i>	ग्राम्य
run-out table		अधिघात मंच	rurality	<i>Geog.</i>	ग्राम्यता
run proof	<i>H.Sc.</i>	रनसह	rural map		ग्राम मानचित्र
runrig	<i>Geog.</i>	रनरिग	rural non-farm population		ग्रामीण अकृषिजीवी जनता
runrig land		रनरिग भूमि	rural parish		ग्राम वैरिश्
run sequence	<i>Math.</i>	परंपरा-क्रम	rural population		ग्रामीण जनसंख्या
runs of point	<i>Math.</i>	बिंदु परंपरा	rural primary group		ग्रामीण मुख्यवर्ग
runway	<i>Geog.</i>	रनवे, घावन-पथ	rural service area		ग्राम सेवा-क्षेत्र
runway elevation		रनवे उच्चता, घावन-पथ उच्चता	rural service provision		ग्राम सेवा व्यवस्था
runway profile point		घावन पथ पारवर्तिन्दु, रनवे पारवर्तिन्दु	rural setting		ग्रामीण विन्यास
runway threshold marking		रनवे अवनमीमांकन	rural settlement		ग्रामीण बस्ती
Ruoss jig	<i>Geol.</i>	रुओस जिंग	rural site		ग्रामीण स्थान
Rupe rearrangement	<i>Chem.</i>	रूपे पुनर्विन्यास	rural social trend		ग्राम-समाज प्रवृत्ति
rupestral	<i>Bot.</i>	रुपेलासी	rural tract		ग्रामीण प्रदेश
repestris	<i>Bot.</i>	शैलीय	rural traffic		ग्रामीण यातायात
rupicoline	<i>Zool.</i>	शैलगामी	rural-urban continuum		ग्राम-नगर निरन्तरता
rupicolous		शैलवासी	rural urban fringe	<i>Geog.</i>	ग्राम-नगर सीमांत
ruptile	<i>Bot.</i>	अनियत स्फुटी	rural-urban migration		ग्राम-नगर प्रवास
ruptinervous venation	<i>Bot.</i>	अंतरित शिराविन्यास	rural use		ग्रामीण उपयोग
rupture		1. सविदार 2. सविदारण, फटना	rural village		ग्राम
rupture line		सविदारण-रेखा	rurban centre		ग्रामर केन्द्र
rupture load		सविदारण-उद्भार	rurban community		ग्रामर सम्प्रदाय, ग्रामर संप्रदाय (क्षेत्र)
rupture mechanism		सविदारण-उद्भार	rurbanisation	<i>Geog.</i>	ग्रामरीकरण
rupture stress	<i>Chem.</i>	विभेदन प्रतिबल	rurban map		ग्रामर मानचित्र
rural	<i>Geog.</i>	ग्रामीण, ग्राम्य	rush	<i>Geog./H.Sc.</i>	अलबेंत, नह, सरपट
rural area		ग्रामीण क्षेत्र	rush-covered tent	<i>Geog.</i>	अलबेंतान्वित शिवर
rural community		ग्रामीण जनसमुदाय	rush gold	<i>Geol.</i>	थोरवातिकृत स्वर्ण
rural district		ग्रामीण जनपद, ग्रामीण क्षेत्र	rush-hour traffic	<i>Geog.</i>	थोड़ के समय यातायात
rural exodus		ग्रामीण निर्गमन	rush matting	<i>H.Sc.</i>	सरपट की चटाई
rural farm population		ग्रामीण कृषिजीवी जनता	rusk	<i>H.Sc.</i>	रस्क
rural geography		ग्रामीण भूगोल			
rural growth of population		ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि			



Russel-Adams phenomenon	<i>Math.</i>	रसल ऐडम्स परिघटना	rusty mottle	<i>Bot.</i>	मोरचाभ कवंच
<i>Russelia juncea</i>		रसेलिया जन्सिया	rut	<i>Zool.</i> <i>Geog.</i>	मदकाल, पुंमद लीक
Russell mixture	<i>Math.</i>	रसेल-मिश्रण	Rutaceae	<i>Bot.</i>	रूटेसी
Russell powder		रसेल पाउडर	Ruta variation	<i>Bot.</i>	रूटा विविधता
Russell process		रसेल प्रक्रम	rute	<i>Geol.</i>	तंतुशिरा
Russell Saunders coupling		रसेल-सॉन्डर्स युग्मन	Rutgers' equation	<i>Bot.</i>	रूटजर्ज समीकरण
Russel's paradox		रसेल-विरोधाभास	ruthenate	<i>Chem.</i>	रूथीनेट
Russell's viper	<i>Zool.</i>	रसल पृदाकु, रसल घोणस	ruthenium	<i>Chem.</i>	रूथीनियम
Russian iron	<i>Chem.</i>	रूसी लोहा	ruthenium purple		रूथीनियम पर्पल, रूथीनियम नीलरवत
Russian roulette		रूसी वेल्सज, रूसी ह्लेट	ruthenium red		रूथीनियम रक्त, रूथीनियम रेड,
Russian town		रूसी नगर	ruthenocene	<i>Chem.</i>	रूथीनोसीन
Russula	<i>Bot.</i>	रसुला	rutherford (unit)	<i>Phy., Chem.</i>	रदरफर्ड
rust		1. मोरचा, जंग 2. (disease) किट्ट 3. जंग लगना, मोरचा लगना	Rutherford and Geiger apparatus		रदरफर्ड गाइगर उपकरण
rust disease		किट्ट-रोग	Rutherford coating machine (paints)		रदरफर्ड आलेपन मशीन
Rustella	<i>Geol.</i>	रूस्टेला	Rutherford scattering		रदरफर्ड प्रकीर्णन
rust fungus	<i>Bot.</i>	किट्ट-कवक	rutherfordine	<i>Chem.</i>	रदरफर्डिन
rustic house	<i>H.Sc.</i>	ग्राम्य गृह, ग्रामीण गृह	rutilans	<i>Bot.</i>	दीप्त पुष्पी
rust-inhibiting pigment		किट्ट निरोधी वर्णक	rutilantin	<i>Chem.</i>	रूटिलैन्टिन
rust inhibitive wash		किट्ट निरोधी प्रक्षालन	rutilantinone	<i>Chem.</i>	रूटिलैन्टिनोन
rustless ferro-alloy		किट्टहीन फ़ेरो मिश्रधातु, जंगहीन फ़ेरो मिश्रधातु	rutilated quartz	<i>Geol.</i>	रूटाइली स्फटिक, रूटाइली क्वाट्ज़
rustless iron		किट्टहीन लोह	rutile	<i>Geol., Chem.</i>	रूटाइल
rust of beat		चुकंदर का किट्ट	rutile structure		रूटाइल संरचना
rust of coffee		काफी का किट्ट	rutin	<i>Bot.</i>	रूटिन
rust of stone fruits		गुठलीदार फलों का किट्ट	rutinose	<i>Bot.</i>	रूटिनोस
rust- preventive		जंग-निवारक	rutt		पुंमद
rust proof		जंगरोधी, मोरचा रोधी	Ruwala	<i>Geog.</i>	रूवाला (जनजाति)
rust remover		किट्ट अपनायक, जंग अपनायक	Ruzicka large ring synthesis	<i>Chem.</i>	रूज़िका बृहत्-वलय संश्लेषण
rust resistant		जंगरोधी	R-value	<i>Phy.</i>	R-मान
rustshield		किट्ट प्रतिरक्षक	rydberg (unit of energy)	<i>Phy., Chem.</i>	रिडबर्ग
rusty gold		मोरचालिप्त स्वर्ण	Rydberg constant		रिडबर्ग नियतांक
			Rydberg number		रिडबर्ग संख्या
			Rydberg orbital		रिडबर्ग कक्षक

rye grass	राई घास	rye smut		राई का कड
rye grass pasture	राई घास चरागाह	rye whisky	H Sc.	राई ह्विस्की
rye loose smut	राई का अनावृत कड	ryephegous	Bot	मलमसी

## S

saaidam	Geog.	साइडैम	sabre tooth	Zool.	असिदन
Saarolepis (Anaspis)	Zool	सारोलेपिस (एनेस्पिस)	sabulicole	Zool	सिकनावासी, बालुकावासी
saba	H Sc	सावा	sabulicolous	Bot	बालुकावासी
sabach	Geol.	सैबेक	sabuline	Bot	रेतीला
sabal		सैबल	sac	Biol	भोगी, शैली, कोप
sabalite	Geol	सैबेलाइट	Saccammina	Geol	सैकैमिना
Sabal major	Bot.	सेबल मेजर	Saccammina fusulini- formis		सैकैमिना फ्यूसुलिनी- फॉर्मिस
Sabal palmetto		सेबल पामेटो	Saccammina sphaerica		सैकैमिना स्फ़ोरिका
Sabatier Sanderens reduction	Chem	सावाले सेन्डेरेन्स अवकरण, सावाले सेन्डेरेन्स रिडक्शन	saccamminid	Geol	सैकैमिनायम
sabdilla	Chem.	सब्डिला	Saccamminopsis	Geol	सैकैमिनोप्सिस
Sabena	Geog.	सैबीना	Saccardo classi- fication	Dot	सैकार्डो वर्गीकरण
*Sabik (=η Ophiuchi)	Astron	साबिक (=η ओफियुकाई)	saccate	Bot	समुट
sabin	Phy	सेबिन	saccharification	Bot.	शर्करीकरण
sabinene	Chem.	सैबिनीन	saccharase	Chem	शर्करेय
Sabine reverberation time	Phy.	सेबाइन अनुरणन काल	saccharic acid		सैकैरिक अम्ल, सैकैरिक ऐसिड
sable	Zool	1 श्यामक	saccharide	Chem, Bot	सैकैराइड
	H.Sc.	2 सेबुल	sacchariferous medium		शर्करायुक्त माध्यम
sable brush	Geog.	सेबुलब्रश	saccharifying enzyme		शर्कराकारी एन्जाइम
sabotage	Geog.	अन्तर्घर्ष	saccharilla mull	H.Sc.	सेकैरिमा मल
Sabouraud's medium	Bot.	साबुरो माध्यम	saccharimeter		शर्करामापी
sabre	Geog.	असि	saccharimetric method		शर्करामापी पद्धति
sabre-edged claw	Geog.	असि-धार नखर			
sabre shaped	Bot.	असिरूप			

saccharimetric value		शर्करा मापीय मान	saccule	Bot., H.Sc.	लघुकोश, कोपक, धैलिका
saccharimetry		शर्करामिति	sacculina	Zool.	सैकुलिना
saccharin	H.Sc.	सैकरीन	sacculus	Zool.	गोणिका, सैकुलस
saccharinic acid		सैकरिनिक अम्ल	sacculus rotundus		सैक्यूलस रोटंडस, वर्तुल गोणिका
saccharogenic		शर्करोत्पादक	saccus	Biol.	गोणी, धैली, कोप,
saccharogenic enzyme		शर्करोत्पादक ऐन्जाइम	saccus dorsalis	Zool.	पृष्ठ कोप
saccharogenic phase		शर्करोत्पादक अवस्था	saccus endolymphaticus		अंतर्संसीका कोप
saccharoidal	Geol.	शर्कराम	saccus vasculosus		सैकस वैस्कुलोसस, संवहन कोप
saccharometer	H.Sc.	शर्करामापी	Sacellus	Bot.	सेसिलस
Saccharomyces	Bot., Chem.	सैकैरोमाइसीज	sacerdotal order	Geog.	याजकीय संघ
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>		सैकैरोमाइसीज सेरेविसी	Sach's boring method	Chem.	जाक वेधन पद्धति
<i>Saccharomyces ludwigii</i>		सैकैरोमाइसीज लुडविगीवाइ	Sachse-Mohr theory	Chem.	सैकसे-मोर-वाद
Saccharomycetaceae		सैकैरोमाइसिटेसी	saok cloth		बोरा वस्त्र, धैला वस्त्र
saccharose	Chem., Bot.	शर्करा, सैकैरोस	sack-like coat	Geog.	बोरेनुमा कोट
saccharose group		सैकैरोस वर्ग	sack mill (universal mill)	Chem.	सैक मिल, वैल्लन मिल (यूनियवर्सल मिल)
Saccharum	Bot.	सैकरम	sack posset	H.Sc.	सैक पॉसेट
<i>Saccharum officinale</i>		सैकरम आफीसिनेल (गन्ना)	Sack's criterion	Math.	सैक-निकप
<i>Saccharum officinarum</i>		सैकरम ऑफीसिनेरम	Sackur tetraode equation	Chem.	जाकुर टेट्रोड समीकरण
<i>Saccharum sinense</i>		सैकरम साइनेन्से	sacral	Zool.	सेक्रमी, त्रिक
<i>Saccharum spontaneum</i>		सैकरम स्पॉन्टेनियम (कांस)	sacral artery		सेक्रमी धमनी, त्रिक धमनी
sacciform	Zool.	कोपरूप	sacral diapophysis		सेक्रमी द्विविध, त्रिक द्विविध
Saccocoma	Geol.	सैकोकोमा	sacral foramen		सेक्रमी रंध्र
saccoderm	Bot.	अखंडमिति, सैकोडर्म	sacral gland		सेक्रमी ग्रंथि, त्रिक ग्रंथि
Saccoglossus	Zool.	सैकोग्लॉसस	sacral nerve		सेक्रमी तंत्रिका
<i>Saccoglossus horstii</i>		सैकोग्लॉसस हॉर्स्टी	sacral parasympathetic		सेक्रमी परानुकम्पी
Saccolabium		सैकोलैवियम	sacral vein		सेक्रमी शिरा
<i>Saccopetalum tomentosum</i>	Bot.	सैकोपेटैलम टोमोन्टोसम	sacral vertebra		सेक्रमी कशेरुक
saccopharynx	Zool.	सैकोफोरिन्क्स	sacred basil	Bot.	तुलसी
saccular	Biol.	धैलारूप, कोपाकार	sacred grove	Geog.	पवित्र उपवन
saccular enlargement		कोपाकार विवर्धन	sacristain	H.Sc.	सैक्रिस्टैन
saccular gland		कोपाकार ग्रन्थि	sacrificial protection	Chem.	उत्तम रक्षण
sacculation	Zool.	कोपरचन			

sacrocaudal	Zool	त्रिकपुच्छी, सेक्रमपुच्छी	sadron's treatment	Chem.	सैड्रन उपचार
sacrococcygeal	Zool.	सेक्रमपुच्छास्थि पेशी	Saefltigen's pouch	Zool.	सीफ्टिजेन कोष्ठ
sacro-iliac ligament	Zool.	त्रिकग्रोणीय स्नायु	S A E. number	Chem.	एस ए ई. संख्या
sacrolemma	Zool	पेशी चोल, संकोनेमा	saeter, seater, seter, setr, setter	Geog.	सैटर
sacrolumbar	Zool.	त्रिककटि	safe load	Phy	निरापद लोड
sacrosciatic foramen	Zool.	सेक्रमीनितर रछ	safe- time		सुरक्षा काल
sacrospinal	Zool	त्रिकमेरु	safety	H Sc ,Phy, Chem	निरापद, सुरक्षा
sacrospinalis muscle	Zool	सेकोस्थाइनेलिस पेशी, त्रिकमेरु पेशी	safety and arming mechanism		सुरक्षा तथा सज्जा क्रिया विधि
sacrovertebral angle	Zool.	सेक्रमकशेदक कोण	safety bar		निरापद शलाका
sacrum	Zool ,H Sc	सेक्रम, त्रिक	safety circuit		सुरक्षा परिपथ
Sadachbia	Astron	सैडैत्रिव्या (= $\gamma$ कृम, $\gamma$ ऐक्वेरिआई)	safety factor		सुरक्षा-गुणक
Sadalmelik	Astron.	सैडैलमेलिक (= $\alpha$ कृम, $\alpha$ ऐक्वेरिआई)	safety fuel		निरापद ईंधन
Sadalsaud	Math.	सैडैल सुऊद (= $\beta$ कृम, $\beta$ ऐक्वेरिआई)	safety funnel	Chem	निरापद कीप, निरापद फनेल
SAD computer	Math	SAD अभिकलित (एकल पता दशमिक अभिकलित)	safety fuse (= Bickford fuse)		सुरक्षा पयुज, बिकफोर्ड पयुज
sadd	Geog	सैड	safety glass		सुरक्षा काच, निरापद काच
saddening	Chem.	1. निष्प्रभन 2. सनिविडन	safety ink		निरापद मसो
saddle	H.Sc.	1 पल्याण, वाटी 2 सैडिल	safety joint		निरापद संधि
saddle back		पल्याण पृष्ठ	safety lamp		निरापद दीप, निरापद संभ्य
saddle blanket		जीन कम्बल	safety match		निरापद दियासलाई
saddle cake		सैडिल केक	safety member		सुरक्षा अंगक
saddle felt		जीन नमदा	safety paper		निरापद कागज
saddle glacier		पल्याण हिमानो	safety plug		सुरक्षा प्लग, सुरक्षा ढाट
saddle point		पल्याण बिन्दु	safety rod		सुरक्षा छड
saddle point azeotrope		पल्याण बिन्दु स्थिर क्वाथी	safety solvent		सुरक्षा विलायक
saddle point method		पल्याण बिन्दुविधि	safety tube		सुरक्षा नलिका
saddler	Geog.	जीनसाज	safety valve		सुरक्षा वाल्व
saddle reef		पल्याण भित्ति, पल्याण रीफ	safe yield	Geol.	सुलभ प्राप्ति
saddling	Chem. 1	सैडलन	safflorite	Geol.	सैफ्लोराइट
sadin	H.Sc.	सैडिन	safflower	H Sc.	कुमुभ
sadowa	H.Sc.	सैडोवा	safflower oil	Chem., H Sc.	करबी तेल, कुमुभ तेल
*Sadr (= $\gamma$ Cygni)	Astron	साड (= $\gamma$ मिगनाई)	saffron	Bot ,H.Sc.	1. केसर 2. केसर या पीथा

saffi rock	Chem.	सैफो शील	sagittal axis	सममिताधीं अक्ष
safranin	Biol.	सैफ्रैनीन	sagittal crest	सममिताधीं कटक
safranite	Geol.	सैफ्रैनाइट	sagittal plane	सममिताधीं तल
safrole		सैफ्रोल	sagittal rays	Phy. सैजिटीय किरणें
sag	Chem., Math., Geog.	झोल, आनमन	sagittal suture	सममिताधीं सीवन
saga	Geog.	सागा, बाह्यान	sagitta method	Phy. सैजिटा विधि
sag and swell	Geol.	तरंगित टिल	Sagittarius	Astron. सैजिटैरियस, धनु
sag and swell topography	Geol.	तरंगित टिल स्पलाकृति	sagittaria	Bot. सैजिटैरिया
sag arch	Geol.	अवनमन चाप	Sagittaridae	Zool. सैजिटैरिडी
Sagartia	Zool.	सैगार्टिया	sagittate	वाणाकार
sag basin	Geog.	अवतल बेसिन	sagittifolius	Bot. वाणपर्णी
sag correction	Geog.	झोल संशोधन	sagittiform	वाणरूप
sag dome	Geol.	अवनमन गुम्बद	sagittocyst	Zool. तकुंपुटी, शरपुटी
sage	Phy.	सेज	sago	H.Sc. साबूदाना, सागू
sagebrush	Geog.	सेजब्रश	sagopalm	सागूताड़
sagebrush desert		सेजब्रश मरुस्थल	sagpond	Geog. सैग-ताल
sagebrush fence		सेजब्रश बाड़, सेजब्रश वृत्ति	sagum	H.Sc. सैगम
sage cheese	H.Sc.	सेज पनीर	saguran	H.Sc. सागूरेन
sage grass	Geog.	सेज घास	sagrandite	Geol. सैग्वैन्डाइट
sagenetic quartz	Geol.	सैगेनाइटो क्वार्ट्ज, सैगेनाइटो स्फटिक	sahara	Geog. सहारा
sagenite	Geol.	सैगेनाइट	sabaride	Geog. सहाराइड
Sagenocrinus	Geol.	सैजिनोक्रिनस	Saha's ionisation formula	Phy. साहा-आयनन-सूत्र
<i>Sagenocrinus expansus</i>		सैजिनोक्रिनस एक्सपैन्सस	sahel (=sahelian)	Geog. साहेल, साहेलियाई
Sagenodus	Zool.	सैजिनोडस	<i>Sahnia nipaniensis</i>	Bot. साहिनिया नाइपानिएन्सिस
Sagenopteris	Bot.	सैजिनोप्टेरिस	<i>Sahnianthus</i>	Bot. साहिनिएन्थस
Saggar	Chem.	सैगर, मृत्तिका पेट्टी	<i>Sahnioxylon</i>	Bot. साहिनियोक्सिलॉन
(seggar, sagger)			said	H.Sc. साइद
sagger clay	Geol.	सैगर मृत्तिका	sail	Geog. पाल
sagging	Chem.(Gl.)	आनमन (दोप)	sail boat	पाल नाव
saging	H.Sc.	साजिंग	sail cloth	पाल बस्त्र
Sagina variation	Bot.	सागिना विविधता	sail fish	Zool. ताड़मासा
*Sagitta	Astron., Zool.	सैजिटा शराश्मक, सैजिटा	sailing	Geog. जलयान
sagittal	Biol.,Geog.	सममिताधीं	sailing chart	जलयान-चार्ट, जहाजराती चार्ट
			sailing vessel	Geog. पाल जलयान, पाल जहाज

Saint	Phy.	सेंट, उपग्रह निरोधक संकेत	salatiska	H Sc.	सैलाटिस्का
Saint Gobain process	Chem.	सा गोबे प्रक्रम	salcomine	Chem., Geol.	सैल्कोमीन
Saint Elmo's fire	Geog.	संत एल्मो प्रकाश (विद्युत्)	Salcone saleite		सैल्कोमीन सैलेआइट
Saint Louis cotton	H Sc.	सेंट लुई कपास	sale	H Sc.	विषय, विक्री
Saint Luke's summer		संत ल्यूक ग्रीष्म	saleite	Geol.	सैलेआइट
Saint Martin's summer	Geog.	संत मार्टिन ग्रीष्म	salefemic	Geol.	सैल्फेमिक
Saint Venant's principle	Math.	साई वेना नियम	Salenia	Zool.	सैलेनिया
Saint Vincent	H Sc.	सेंट विनेन्ट	Salenia sculpta		सैलेनिया स्कुल्टा
*Salph (= α Orionis)	Math	साइफ (= α ओरिओनिस)	Saleniidae	Zool.	सैलेनिआइडी
saibe	Geog.	सेथ (मत्स्य)	sales agency	Geog.	विषय एजेंसी
Sakae	Geog.	शाक आति	sales agent	H Sc.	विक्री एजेंट
Sakaguchi reaction	Bot.	साकागुची अभिक्रिया	salesman	Geog.	विक्रेता
Sakai	Geog.	साकाई	sales potential	Math.	विक्रय शक्त
Sakai hut		साकाई कुटी	sales tax	H Sc.	विक्रय कर, विक्री कर
Sakal rug		साकाई रण	saleswoman	H Sc.	विक्रेत्री
sakcharon	Chem	सैक्केरॉन	sale yarn	H Sc.	सेलयार्न
sala	H Sc.	सैला	salic	Geol.	सैलिक
salad	H Sc.	सलाद	Salicaceae	Bot.	सैलीसेसी
salad cream		सलाद क्रीम	Salicales		सैलीसेलीज
salad dressing		सलाद ससाघन	salicin		सैलिसिन
sal alembroth	Chem.	सैल अलेम्ब्रॉथ	Salicornia		सैलीकोर्निया
salamana	H.Sc.	सैलामैना	Salicornia europea	Bot.	सैलीकोर्निया यूरोपिया
salamander	Zool, H Sc.	सैलामैन्डर, सरट	salicyl	Chem.	सैलिसिल
salamander's hair	Geol	ऐस्बेस्टॉस	salicyl aldehyde	Chem.	सैलिसिल ऐन्डिहाइड
Salamandra	Zool	सैलामैन्ड्रा	salicylato		सैलिसिलेटो
Salamandra atra		सैलामैन्ड्रा एट्रा	salicylic acid	Chem	सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक ऐसिड
Salamandra maculosa		सैलामैन्ड्रा मैकुलोसा	salient	Geol	बहि श्रेणी
Salamandridae		सैलामैन्ड्री	Salientia	Zool	सैलियन्शिया
salamandrine form	Zool	सरटीय रूप	salient point	Geog., Math.	विशेषता, मुख्य बिन्दु
salammoniac	Chem	नीमादर	salient pole	Phy.	क्षेत्र कुटनी ध्रुव
salammonite	Geol.	सैलामोनाइट	saliferous	Geol.	सैलिनकणधारी
salamstone	Geol.	सैलैम्स्टोन	saligenin		सैलियेनिन
salar	Geol.	सैलार	salimeter	Geol.	सलिनमापी
salary	H Sc.	वेतन, पगार	salina	Bot., Geol.	सलिनरज्ज
			salinastone	Geol.	सैलाइनास्टोन

saline		नमकीन. लवणीय, खारा	<i>Salix tetasperma</i>		सैलिकस टेट्रास्पर्मा
saline constituent		लवणीय रसक	Salkowski reaction	Chem.	सैल्कोव्स्की अभिक्रिया
saline dome		लवण गुम्बद	Salk vaccine	H.Sc.	साक वैक्सीन
saline facies		लवण संलक्षण	saller	Geol.	कार्य मंच
saline lake		लवण झील	sallow skinned	Geog.	पांडुरवर्ण
saline land		लवण भूमि	Salm (=γ Pegasi)	Astron.	सैल्म (=γ पेगासाई)
saline marsh		लवण कच्छ	<i>Salmacis bicolor</i>	Zool.	साल्मेसिस वाइकलर
saline pan		लवण पटल	<i>Salmalia insignis</i>	Bot.	सेल्मैलिया इनसिग्निस (शाल्मल, सेमल)
saline pond		खारा तालाव	Salmincola	Zool.	सैल्मिनकोला
saline residue		लवण अवशेष	Salmo	Zool.	सैल्मो
saline soil		लवण मृदा, लौनी मिट्टी	<i>Salmo fario</i>	Zool.	सैल्मो फैरिओ
saline water		लवण जल, खारा पानी	salmon	Geog., Zool., H.Sc.	सामन
saliniferous	Geol.	लवणधारी	<i>Salmonella abony</i>	Chem.	सैल्मोनेला एबोनी
salinity	Chem., Geol.	लवणता, खारापन	<i>Salmonella typhosa</i>		साल्मोनेला टाइफोसा
salinity depth curve		लवण गभीरता वक्र	salmonellosis	Zool.	साल्मनेलता
salinity sample		लवणता प्रतिदर्श	Salmon pink	Chem.	सैमन पिंक, सैमन गुलाबी
salinization	Bot.	लवणीभवन	salmonsite	Geol.	सैल्मॉन्साइट
salinometer	Chem., H.Sc.	लवणतामापी	Salmopercae	Zool.	साल्मोपर्स
salisbury	H.Sc.	सैलिसबरी	<i>Salmo salar</i>	Zool.	सेल्मो सालर
Salish	Geog.	सैलिश, सैलिश भाषा	<i>Salmo trutta</i>	Zool.	सैल्मो ट्रुटा
Salish group		सैलिश समूह	salol	Chem.	सैलॉल
salit	H.Sc.	सैलिट	salometer	Chem.	सैलोमीटर
salite	Chem.	सैलाइट	Salophen	Chem.	सैलोफीन
salitral	Geol.	लवण-अनूप	Salpa	Zool.	सैल्पा
salitrite	Geol.	सैलिट्राइट	<i>Salpa democratica</i>		सैल्पा डेमोक्रेटिका
saliva	H.Sc., Zool.	लार, लाला	salpausselka	Geog.	सल्पसिल्का
salivarium	Zool.	लालाशय	salpicon	H.Sc.	सैल्पिकॉन
salivary	H.Sc.	लाला, लार	Salpida (Desmomy- aria)	Zool.	सैल्पिडा (डेस्मोमाएरिया)
salivary canal		लार, नाल	Salpidae	Zool.	सैल्पिडी
salivary gland		लाला-ग्रंथि	Salpiglossis	Bot.	सैल्पिग्लोसिस
salivation	Zool.	लालान्त्रवण	Salpingoeca	Zool.	सैल्पिंगोका
<i>Salix alba</i>	Bot.	सैलिकस एल्बा	Salpinx	Bot.	सैल्पिक्स
<i>Salix babylonica</i>		सैलिकस बैबिलोनिका	salse	Geol.	साल्से
<i>Salix caprea</i>		सैलिकस कैप्रेआ	sal sedativum	Chem.	सैल सैडाटिवम
<i>Salix daphnoides</i>		सैलिकस डैफनॉइडीज			
<i>Salix purpurea</i>		सैलिकस परप्युरिया			

salsoline	<i>Chem</i>	सैल्सोलीन	salt dome		सलन डोम, सलन गुंबद
salt	<i>Chem, H.Sc.</i>	1. सलन 2. नमक	salted fish	<i>H.Sc.</i>	सलनित मछली
saltan	<i>Chem.</i>	साल्टन, सलन जलकुंड	salted food		सलनित खाद्य
salt and pepper sandstone	<i>Geol</i>	सितासित गठनी बालुकाश्म	salt effect	<i>Chem.</i>	सलन प्रभाव, सलन निष्पत्ति
salt and pepper set		नमक मिर्च दानी	saltern		सलन शाखा
saltant	<i>Biol</i>	उत्परिवर्तित	salt error		सलन त्रुटि
saltation	<i>Geol, Geog. Zool</i>	1. चलन 2. उत्परिवर्तन (mutation)	salt field		सलन-क्षेत्र
saltative development		बली विकास	salt formation		सलन सभवन
saltative evolution		बली परिवर्धन	salt forming		सलन सभवनकारी
Saltatoria	<i>Zool.</i>	सैल्टाटोरिजा	salt free cheese		सलनमुक्त पनीर
saltatorial	<i>Zool</i>	बन्धी	salt free diet		सलन मुक्त आहार
saltatory		बली	salt garden		सलनशाला क्षेत्र
saltatory form		बली जीव	salt gland		सलन ग्रन्थि
saltatory progression		बली गमन	salt glaze		सलन काच लेप, सलन श्लेष्म
salt brook		सलन नाली	salt glazed		सलनकाचित
salt bush		साल्ट बुश, सलन झाड़ी	salt grainer		सलन बणित
salt corrie		सलन हिमत्रय ह्वर	salticus	<i>Zool.</i>	साल्टिकस
salt-enriched water		सलन आधित्य जल	saltigrade	<i>Zool.</i>	बलगेचारी
salt glacier		सलन हिमनद	saltilla	<i>H.Sc.</i>	साल्टिली
salt balance adjuster		सलन सतुलन समजक	salt index		सलन सूचकांक
salt bath		सलन अत्रगाह	salt induced respiration		सलन प्रेरित श्वसन
salt bath furnace		सलन अत्रगाह छाट्ट	salting	<i>Chem., H.Sc.   Geol. Geog.</i>	1 सलनन 2. साल्टिंग (mining) 3 सलनभूमि, सोनाभूमि
salt bed		सलन संस्तर	salting in	<i>Chem.</i>	प्रसूदन
salt block		सलन ब्लॉक	salting on		अधिलक्षण
salt bridge		सलन सेतु, सलन रिज	salting out effect	<i>Chem</i>	सलन दोषी निष्पत्ति, सलन क्षेपी प्रभाव
salt cake	<i>Geol.</i>	साल्ट केक	salting tub		सलन टब
saltcat		सलनपिंड	salt isomerism		सलन समावयवता, सलन आरूपोपरता
salt content		सलनमात्रा, सलनशा	salt lake		खरटी झील, सलन झील
salt controllability		सलन नियंत्रणीयता	salt land		सलन भूमि
salt cote		सलन गर्त	salt licks		सलन नेहिका
salt crust		सलन परडी	salt loaf		सलन रोटी
salt cryoscopy		सलन हिमांक मापन	salt marsh		सलन बरत
salt curing	<i>Geol.</i>	सलनीय समाघन			
salt deposit		सलन निक्षेप			



salt marsh formation		लवण-कच्छ रचना	<i>Salvadora persica</i>		सैल्वेडोरा पर्सिका
saltiness		लवणता	salvarsan	Chem.	सैल्वरसन
salt of tartar	Chem	टार्टर लवण	salvation	Geog.	मुक्ति
salt out		लवण द्वारा अवक्षेपण करना	<i>Salvelinus fontinalis</i>	Zool.	सैल्वेलाइन्स फॉन्टेलिस
saltpan		1. लवण बयारी 2. लवण बेसिन	salverform		दीवटाकार
saltpetre		शोरा	salvershaped		दीवटाकार
saltpetrous bush	Geog.	शोरा झाड़ी, यवदारीय झाड़ी	Salvia	Bot.	सैल्विया
salt plug		लवण प्लग	<i>Salvia aegyptiaca</i>		सैल्विया इजिप्टियाका
salt prairie		लवण प्रेअरी	<i>Salvia coccinia</i>		सैल्विया काँक्सीनिया
salt pseudomorph		लवण कृटरूप, साल्ट स्फूटोमार्फ	<i>Salvia involucrata</i>		सैल्विया इन्वोलूक्रेटा
salt-seeding technique		लवण बीजन तकनीक	Salvinia	Bot.	सैल्वीनिया
salt sickness		लवण क्लॉसि	Salviniaceae		सैल्विनिएसी
salt solution		लवण विलयन	Salviniales		सैल्वीनिएलीज
salt spray		लवण फुहार	salvo fire	Phy.	बस्त्र फायर
salt spring		लवण स्रोत, लवण झरना	<i>Samadera indica</i>	Bot.	सामेदरा इन्डिका
salt stream		लवण सरिता	samara		समारा
salt substitution compound		लवण प्रतिस्थापन यौगिक	samardine	H.Sc.	सैमरडीन
salt tectonics		लवण विवर्तनिकी	samarium	Phy.	समेरियम
saltus	Math.	विसांतत्य	Samarkand	H.Sc.	समरकन्द
saltus function		विसांतत्य फलन	samarските	Geol.	समास्काइट
saltus on the left		वाम विसांतत्य	samaroid wing	Bot.	समाराभ पंख
saltus on the right		दक्षिण विसांतत्य	sambar (rusa)	Zool.	शम्बर, सांभर
salt water		लवण जल	<i>Sambucuo ebulus</i>	Bot.	सैम्बुकस इबूलस
salt water fish		लवणजल मीन, लवणजल मत्स्य	<i>Sambucuo nigra</i>		सैम्बूकस नाईग्र
salt water intrusion		लवणजल अंतर्वेधन	same phase	Phy.	समान कला
salt works		लवण उद्योगशाला	same sense		समान दिश
salty efflorescence		लवणीय उत्फुल्लन	Samian ware	Chem.	सैमियन मांड
salubrious		त्वास्य वधक	Samite	Chem.,H.Sc. (Met.)	सैमाइट
saluyot	H.Sc.	सैल्युयॉट	Sammel kristallisation	Geol.	सामेल क्रिस्टलन
Salvadoraceae	Bot.	सैल्वेडोरेसी	samoa	H.Sc.	सैमोजा
<i>Salvadora oleoides</i>		सैल्वेडोरा ओलिवाइडीज	Samoon, (=Samun)	Geog.	सैमूम (पवन)
			samorong	H.Sc.	सैमोरांग
			Samoyed	Geog.	सैमोइड
			Sapphire		सैम्फायर

sample	<i>Math., Geol., Phy.</i>	प्रतिदर्श, नमूना	sampling estimating procedure	प्रतिचयन आकृतन क्रियाविधि
sample approximation		प्रतिदर्श सन्निकटन	sampling fluctuations	प्रतिचयन उल्लंघन
sample census		प्रतिदर्श जनगणना	sampling for proportion	अनुपात के लिए प्रतिचयन
sample collection		प्रतिदर्श संग्रह	sampling fraction	प्रतिचयनानुपात
sample correlation coefficient		प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांक	sampling gate	प्रतिचयन द्वार
sample covariance		प्रतिदर्श सहप्रसरण	sampling inspection	प्रतिदर्श निरीक्षण
sample design		प्रतिदर्श अभिव्यक्ति	sampling inspection by attributes	गुणात्मक प्रतिचयन निरीक्षण
sample distribution		प्रतिदर्श बंटन	sampling interval	प्रतिचयन अन्तराल
sample grinder		प्रतिदर्श पेषक	sampling method	प्रतिचयन विधि
sample means		प्रतिदर्श माध्य	sampling moment	प्रतिचयी आयुर्धर्म
sample of universe		विश्व प्रतिदर्श	sampling multiplier (= averaging multiplier)	औसत वाली गुणक
sample point		प्रतिदर्श बिंदु	sampling number	प्रतिचयन संख्या
sample probability		प्रतिदर्श प्रायिकता	sampling observation	प्रतिचयन प्रेक्षण
sample quality		प्रतिदर्श गुणता	sampling of attributes	गुण प्रतिचयन
sampler (instrument)		प्रतिदर्शित्र	sampling of standing crop	घड़ी फसल का प्रतिचयन
sample size		प्रतिदर्श आमाप	sampling of variables	चर प्रतिचयन
sample size code letter		प्रतिदर्श आमाप का सांकेतिक अक्षर	sampling on successive occasions	उत्तरोत्तर अवसरों पर प्रतिचयन
sample space		प्रतिदर्श समष्टि	sampling oscilloscope	प्रतिचयन दोनदर्शी
sample standard deviation		प्रतिदर्श-मानक-विक्षलन	sampling pipette	प्रतिदर्शी पिपेट
sample survey		प्रतिदर्श सर्वेक्षण	sampling probability	प्रतिचयन-प्रायिकता
sample tube		प्रतिदर्श नली	sampling pulse generator	प्रतिचयन स्पंद जनित
sample variance		प्रतिदर्श प्रसरण	sampling ratio	प्रतिचयनानुपात
sample verification		प्रतिदर्शी जांच	sampling routine	प्रतिचयन नित्यक्रम
sampling	<i>Math., Phy.</i>	1. (adj) प्रतिदर्शी 2. (n.) प्रतिचयन	sampling survey	प्रतिदर्शी सर्वेक्षण
sampling acceptance plan		प्रतिचयन स्वीकरण आयोजना	sampling theorem	प्रतिचयन प्रमेय
sampling acceptance procedure		प्रतिचयन की स्वीकरण क्रियाविधि	sampling theory	प्रतिचयन सिद्धांत
sampling by street		सड़क आधारित प्रतिचयन	sampling tube	प्रतिदर्शी नली
sampling circuit		प्रतिचयन परिपथ	sampling unit	प्रतिचयन एकक
sampling distribution		प्रतिदर्शी बंटन	sampling variance	प्रतिचयन प्रसरण
sampling enquiries		प्रतिदर्शी पृच्छाएँ	sampling with replacement	प्रतिस्थापन सहित प्रतिचयन
sampling enumeration		प्रतिदर्शी गणना		
sampling error		प्रतिचयन-त्रुटि		

Samsam	<i>Geog.</i>	संसम	sand crepe	<i>Zool.</i>	वालू क्रेप, सैंड क्रेप
Samuel Magee radiolysis model	<i>Chem.</i>	सैम्युएल मैगी विकिरणांशान प्रतिरूप, सैम्युएल मैगी विकिरण अपघटन मॉडल	sand crusher		वालू दलित
Samydaceae	<i>Bot.</i>	सैमीडेसी	sand culture		वालुकी संवर्ध, वालुकी संवर्धन
sanaphant	<i>Phy.</i>	सैनाफेन्ट	sand dollar	<i>Zool.</i>	सैन्ड डॉलर
sanatroun	<i>Phy.</i>	सैनाट्रॉन	sand dome		वालू गुम्बद
sanborn	<i>Phy., Math.</i>	सैनबॉर्न	sand drift	<i>Geol., Geog.</i>	अपोढ़ वालू
Sanborn maps		सैनबॉर्न प्रतिचित्र	sand dune		वालू टिच्वा
sand		1. वालू, रेत, सिकता 2. रेणु	Sanderson meter	<i>Chem.</i>	सैन्डरसन मापी
sandal	<i>Geog.</i>	चन्दन	Sanderson's stability ratio		सैन्डरसन स्थायित्व अनुपात
sandalwood	<i>Bot., H.Sc.</i>	चंदन काष्ठ	sander wood	<i>Bot.</i>	चंदन काष्ठ
sandalwood dust	<i>H.Sc.</i>	चन्दन चूर्ण	sand fall		वालूपात
sandarac gum	<i>Chem.</i>	सैंडरैक गौद	sand feature		वालुकीय आकृति
sandarach	<i>Chem.</i>	सैन्डरैक	sand figure		वालुका चित्र
sand bank		वालू तट	sand flag	<i>Geol.</i>	पटिया वालुकाश्म
sand bar		वालू रोधिका	sand flat		वालू मैदान
sand bath		वालू ऊष्मक	sand flaw		वालू दरार
sandbergerite	<i>Geol.</i>	सैन्डबर्जेराइट	sand flea		वालू पिस्तू
sand binder		वालू-बंधक	sand flood		वालू बाढ़
sandblast		वालू बाल्या	sand fly		सिकता मक्षी
sand blasted		वालूघपित	sand fly fever		सिकता मक्षी ज्वर
sand blasted finish		सिकता बाल्या परिसज्ज	sand gall		वालूपूरित नाल
sand blasted surface		वालुमारित पृष्ठ	sand grain		वालू कण, रेत कण
sand blasting		वालू क्षेपण	sandgrouse	<i>Zool.</i>	भाटतीतर
sand blow		वालू गर्त	sand hill		वालू पहाड़ी, वालू टिच्वा
sand buckle		वालू आकोच	sand hill region		रेत पहाड़ी प्रदेश
sand burning		वालू पक्कन, वालू दहन	sand hole		वालू छिद्र
sand burrower	<i>Zool.</i>	रेत खिलकारी	sandhopper		सिकतावल्गी
sand cake	<i>H.Sc.</i>	सैंड केक	sandies	<i>H.Sc.</i>	सैंडीज
sand clay mixture		वालू-मृत्तिका मिश्रण	sanding	<i>Chem.</i>	वालुकायन
sand clock		रेत घड़ी	sand key (=sandkey, sand cay)		सैंड की, वालू द्वीप
sand conditions		वालू अवस्था	sand level		रेत तटबन्ध
sand control		वालू नियंत्रण	sand load		वालुका लोड
sand core process		वालुका क्रोड प्रक्रम, सिकता क्रोड प्रक्रम	sand loving vegetation		रेतप्रिय वनस्पति
sand crab		सिकता कर्कट	Sandmeyer reaction	<i>Chem.</i>	सैन्डमायर अभिक्रिया
			sand muller		वालुका मद्दिल

sandontap moulding		बालुका षचन, सैन्डोन्टैप षचन	sand wash	बालुका प्रशालन
sand paper	<i>Chem.</i>	रेगमाल	sand wave	बालू तरंग
sand pile		रेत पुज, रेत ढेर	sand wheel	सैन्ड व्हील
sand pillar		बालू स्तम्भ	sandwich	<i>Phy., H.Sc., Chem.</i> सैंडविच
sand piper	<i>Zool.</i>	जलरंग, वाटन	sandwich beam	<i>Math</i> शंतिनिविष्ट दंड
sand pit		बालू गर्त	sandwich complex	सैन्डविच समुल
sand plain		बालुका मैदान	sandwiching	<i>Phy.</i> शंतिदायन
sand plug		बालू ढाट	sandwich molecule	सैंडविच अणु, अतर्दावित अणु
sand pump		बालू पम्प	sandwich structure	सैन्डविच संरचना
sand reef		बालुकामिति	sandy area	<i>Geog.</i> बालू क्षेत्र
sand ripple		बालू उमिका	sandy beach	बलुई पुलिन
sandrock		बालुकाश्म	sandy bed	बलुई सस्तर
sand roughness		बालू-रूक्षता	sandy breccia	रेणुकीय सकोणाश्म
sand scratches		बालूदृश खींच	sandy clay	बलुई मृत्तिका
Sand's electrode	<i>Chem.</i>	सैंड इलेक्ट्रोड	sandy desert	बलुई महस्थल, रेतीला महस्थल
sand sere		सिकता क्रमक	sandy gravel	रेणुकीय बजरी
sand shadow		छाया बाल	sandy ground	बलुई भूमि
sand slinger		बालुका सेपित्र	sandy hook	बलुई हुक
sand snow	<i>Geol.</i>	चूर्ण हिम	sandy island	बलुई द्वीप
sand soil		बलुई मिट्टी, बलुई मूरा	sandy loam	बलुई दुमट
sand stalagmite		बालू स्टैलेग्माइट	sandy loess	बालुमय लोएम
sandstone		बालुकाश्म, बलुआ पत्थर	sandy ore	बालुकामय अवस्क
sandstone dyke		बालुकामय मिति	sandy ridge	बलुई बटक
sandstone injection		बालुकामय अतक्षेपण	sandy terrain	बलुई भू-भाग
sandstone lens		बालुकामय लेन्स	sandy waste	बलुई व्यर्थभूमि
sandstone oyster		बालुकामय शुकित	sanitized	<i>H.Sc., Chem.</i> सैन्डोराइज्ड
sandstone prism		बालुकामय त्रिभज	sanitizing	सैन्डोराइजिन
sandstorm		रेतीला तूफान, रेतीली बांधी	Sanger's reagent	<i>Chem.</i> सैन्गर अभिचरमंक
sand tart	<i>H.Sc.</i>	सैंड टार्ट	sanguicolous	<i>Zool.</i> रक्षिरवासी
sand tempering		बालू पावन, बालू टेपरण	sanguimotor	<i>Zool.</i> रक्षिरगतिक
sand tube		बालू नली	sanguineus	<i>Bot.</i> रक्षिरवर्णी
sandur, sandr	<i>Geog.</i>	बलुई भूमि	Sanguinolites	<i>Geol.</i> सैंगिनोलाइटोन
sandveld		सैन्डवेल्ड, बलुई वृण भूमि	Sanguinolites angustatus	सैंगिनोलाइटोन लेन्गुस्टेटस
sandvik belt	<i>Chem (Text)</i>	सैंडविक पट्टी	Sanguisorbeae	सैंगुसोर्बेई
sand volcano	<i>Geol.</i>	उद्भेदित बालू		

sanguivorous	Zool.	रुधिराहारी	sapidus	Bot.	सुस्वाद
sanidaster	Zool.	सैनिडैस्टर, दंडतारक	Sapindaceae		सैपिन्डेसी
sanidine	Geol.	सैनिडीन	Sapindales		सैपिन्डेलीज
sanidinite	Geol.	सैनिडिनाइट	Sapindus	Bot.	सैपिन्डस
sanidinite facies		सैनिडिनाइट संलक्षणी	<i>Sapindus emarginatus</i>		सैपिन्डस ईमार्जिनेटस
Sanindo (= Sanyodo)	Geog.	सैनिन्डो, सैनयोडो	<i>Sapindus laurifolius</i>		सैपिन्डस लॉरीफोलियस
Sanios Law	Bot.	सैनियो नियम	<i>Sapindus saponaria</i>		सैपिन्डस सैपोनेरिया
sanitary fitting	H.Sc.	स्वच्छता आसंजन	sap inoculable	Bot.	रस संरोप्य
sanitary latrine		स्वच्छता शौचालय	sap inoculation		रस संरोपण
sanitation		स्वच्छता	sapling	Bot.	पौध
sanitation measure	Geog.	सफाई उपाय, स्वास्थ्य वर्धो उपाय	sapogenin	Chem.	सैपोजेनिन
sanitization		स्वच्छीकरण	saponaceous	Bot.	साबुनी
sanitizer		स्वच्छकारी	<i>Saponaria officinalis</i>	Bot.	सैपोनेरिया ओफिसिनेलिस
sanitorium		आरोग्यनिवास	<i>Saponaria vaccaria</i>		सैपोनेरिया वैकेरिया
sanochrysin	Chem.	सैनोक्रिसिन	saponarin	Chem.	सैपोनेरिन
sanquinite	Geol.	सैन्क्विनाइट	saponifiable	Chem.	साबुनीकरणीय
sansabelloid ear	Geol.	संसावल्लाभ कर्ण	saponification	Chem., H.Sc.	साबुनीकरण
sansabelloid process		संसावल्लाभ प्रवर्ध	saponification value		साबुनीकरण मान
Sanson Flamstead	Geog.	सैन्सन-फलैम्स्टीड	saponified		साबुनीकृत
sinusoidal projection		सिनुसायडल प्रक्षेप	saponifier		साबुनीकारक
sans-serif letter	Geog.	सादा टाइप अक्षर	saponify		साबुन बनाना
santa ana (=santa anna)	Geog.	सेंटा ऐना (पवन)	saponin		सैपोनिन
Santalaceae	Bot.	सैन्टेलेसी	saponite	Geol.	सैपोनाइट
Santalbic acid	Chem.	सैन्टेल्विक अम्ल	sapota	Bot.	चीकू
<i>Santalum album</i>	Bot.	सैन्टेलम ऐल्वम (चंदन)	Sapotaceae		सैपोटेसी
santicizer	Chem.	सैन्टिसाइजर	sapphire	Geol., Geog.	नीलम
santonin	Chem.	सैन्टोनिन	sapphire spinel		नीला स्पिनेल
Santorinite	Geol.	सैन्टोरिनाइट	sapphire tipped		नीलम अग्री
sanukite	Geol.	सैनुकाइट	sapphirine	Geol.	सैफिरिन
sanukitoid	Geol.	सैनुकाइटाम	sapping	Geog.	अधः खनन
sap		1. रस 2. सैप	sap pressure	Bot.	रस दाब
S.A.P. (sintered aluminium powder)	Chem. (Met.)	एस० ए० पी० (सिंटरित ऐलुमिनियम चूर्ण)	saprium	Bot.	मृतोपजीवी समुदाय
sapamine	Geol.	सैपामाइन	saprobe	Biol.	मृतजीवी, पृथिवीजीवी
sap green wood	Bot.	नव हरित काष्ठ	saprogen	Biol.	मृतजीवी, पृथिवीजीवी

saprogenous		मृतजीवी, प्रतिजीवी	saraband	H.Sc.	सैराबंड
Saprolegnia		सैप्रोलेग्निया	Saracen	Geog	सैरासेन (चनवासी)
Saprolegniaceae		सैप्रोलेग्निएसी	sarah	Phy.	सैराह
Saprolegniales		सैप्रोलेग्निएलीज	sarakh rug	H.Sc.	सारख रग
saprolite	Geog, Geol	सैप्रोलाइट	saran	Chem, H.Sc.	सारन
sapromyophilous	Bot	समलकीटपरगित	sarandaz	H.Sc.	सैरंडेज
sapropel	Geol.	सैप्रोपेल, प्रतिपक	Sararanga		सैरेरगा
sapropelic	Biol. Geol.	1 मृतपकजीवी 2. प्रतिपकी	sarcenchyma	Zool	सारसेन्नाइमा, कणिकोतक
sapropelic coal		सैप्रोपेली कोयला, प्रतिपकी कोयला	sarcenchymatous		सारसेन्नाइमा, कणिकोतकीय
sapropelic torbanite		सैप्रोपेलीय टॉर्बनाइट	sarcenet	H.Sc.	सार्सेनेट
sapropelite	Geol.	सैप्रोपेली कोयला	Sarcina		सार्सीना
saprophage	Zool.	मृतभक्षी, प्रतिभक्षी	sarcinaeform		सार्सीनारूप
saprophagous	Bot	मृतभक्षी	sarcobiont	Zool.	सासजीवी
saprophilous	Bot.	हृद्यममराधी	sarcocarp	Bot	सासनाभित्त
saprophyte	Geog.	मृतजीवी, प्रतिजीवी	sarcocyst	Zool	सार्कोसिस्ट, मामपुटी
saproplankter	Zool	मृतप्लवकाण	Sarcocystus	Zool	सार्कोसिस्टिस
saproplankton	Zool.	मृतप्लवक	Sarcocystis miescheri	Zool	सार्कोसिस्टिस मीशेराइ
sapropsammite	Geol	प्रतिवालूकाश्म	sarcodictyum	Geol.	सार्कोडिक्टियम
Saprosira lepta	Bot	सैप्रोसिराइरा लेप्टा	Sarcodina	Geol, Zool.	सार्कोडिना
saprotrophic	Bot.	मृतपोषित	sarcoid	Chem.	सार्कोइड
saprotrophy	Zool.	मृतपोषिता	sarcolactic acid	Chem.	सार्कोलैक्टिक एसिड, सार्कोलैक्टिक अम्ल
saprotvore	Zool.	मृतहारी	sarcolemma	Biol.	पेशीचाल, सार्कोलेमा
saprotzole	Biol	मृतजीवी, प्रतिजीवी	sarcoma	Zool.	सार्कोमा, मांसबुंद
saprotzoic nutrition		मृतजीवी पोषण	sarcomatrix	Zool, Geol.	सार्कोमैट्रिक्स, पाचनाघात्री
saprozoite	Bot.	मृतभक्षी	sarcomere	Bot	सार्कोमिअर, विद्यताय
sapsago	H.Sc.	सैपसैगो	sarcophagid fly	Zool.	सार्कोफेगी मक्खी
sap stain	Chem.	रसदारु कलक	sarcophagous	Bot.	मांसभोजी
sap sucking insect	Zool.	रससूषक कीट	sarcophagus	Geog.	शवपेटिका, शवबुत
sap transmissibility	Bot.	रस सचरणशीलता	Sarcophilus	Zool.	सार्कोफिलस
sap transmissible		रस सचरणशील	sarcoplasm	Zool.	पेशीद्रव्य
sap wood	Bot., H.Sc.	रसदारु	sarcoplasmic membrane		पेशीद्रव्य कला
saqia (= saqiya = saqya = saqiya)	Geog	साकिया (पनचक)	sarcoplegma	Geol.	सार्कोप्लेगमा
saqia cultivation		साकिया इति	sarcoporidiosis	Zool.	सार्कोपोरिडियोसिस
saqia irrigation		साकिया सिंचाई	Sarcoptes	Zool.	सार्कोप्टीज
			Sarcoptes scabiei		सार्कोप्टीज स्कैबिआई

sarcosine (= sarcosin)	Chem.	सार्कोसीन	sase	H.Sc.	सैसे
sarcosome	Zool.	पिशितकाय	sash	H.Sc.	कनरबंद
Sarcosporidia	Zool.	सार्कोस्पोरोडिया	Sassa extensometer	Geol.	सासा दैर्घ्यवृद्धिमापी, सासा एकस्टेन्सोमीटर
sarcostyle	Zool.	पिशितदंडिका	Sassafras oil	Chem.	सासफ्रास तैल
sarcotesta	Bot.	मांसल चोल	sassoline		सैसोलीन
sard		सार्ड	sassolite	Geol., Chem.	सैसलाइट
sardine	Zool.,H.Sc.	सारडीन	sastrugi (=zastrugi)	Geog.	सैस्ट्रुगी, जैसट्रुगी (हिमलहरियाँ)
sardine fishery		सारडीन मात्स्यकी	satara	H.Sc.	सैटारा
sardine fish meal		सारडीन मत्स्य बाहार	sateen	Chem. (Text.) H.Sc.	1. वाने की मृदुला 2. सैटीन
<i>Sardinella longiceps</i>	Zool.	सारडिनेला लॉंगिसेप्स (नल्लामती, तारली)	sateen weave	H.Sc.	सैटीन बयन
sardine oil		सारडीन तैल	satellite	Geog. Geol.,Phy.	1. उपग्रह 2. (adj.) अनुपंगी, अनुगामी, सैटेलाइट
sardonix	Geol.	सार्डोनिक्स	satellite (of spectral line)	Phy.	उपरेखा
sarelon	H.Sc.	सैरेलॉन	satellite branch		अनुपंगी शाखा
Sargasso sea	Geog.	सारगोसो सागर	satellite broadening		अनुगामी विस्तरण, अनुगामी पृथुलन
Sargasso weed		सारगोसो वीड	satellite business community		अनुपंगी व्यापार समुदाय
Sargassum	Bot.	सारगोसम	satellite cell		अनुपंगी कोशिका
<i>Sargassum natans</i>		सार्गोसम नेटेन्स	satellite city		अनुपंगी शहर
Sargent curve	Chem.,Phy.	सार्जेंट वक्र	satellite elements		उपग्रह घटक
Sargent diagram		सार्जेंट आरेख	satellite island		अनुपंगी द्वीप
Sargent Malmstadt automatic titrator		सार्जेंट माल्मस्टाट स्वचालित अनुमापक	satellite line		अनुपंगी रेखा
sarkinite	Chem.	सार्किनाइट	satellite magneto- meter		अनुपंगी चुंबकत्वमापी
sarment	Bot.	भूस्तारी	satellite mark		अनुपंगी निशान, अनुपंगी चिह्न
sarmentogenin	Chem.	सार्मेन्टोजेनिन	satellite motion		उपग्रह गति
sarmentose	Bot.	भूस्तीर्ण	satellite period		उपग्रह आवर्त काल
sarn	Geog.	सार्न	satellite phenomenon		अनुपंगी घटना
sarsaparilla	Geog.	चिरायता	satellite photogr- ammetry		उपग्रह फोटोचित्रमिति
sarsasapogenin	Chem.	सैसंसैपोजेनिन	satellite pulse		अनुपंगी स्पंद
sarsasapogenoic acid		सैसंसैपोजेनोइक अम्ल	satellite settlement		अनुपंगी बस्ती
sarsasapogenone		सैसंसैपोजेनोन			
sarsasaponin	Chem.	सैसंसैपोनिन			
sarsen stone	Geog.,Geol.	सार्सेन प्रस्तर			
Sarsia	Zool.	सर्सिया			
sartorite-alpha	Geol.	सार्टोराइट ऐल्फा			
sartorius	Zool.	सार्टोरियस, जानुश्रोणि बाकोचनी			
sarung	H.Sc.	सारंग			

satellite station		अनुपगो स्टेशन, सहचारा	saturated manifold		संतृप्त प्रसममण्डि
satellite town		अनुपगो नगर	saturated mass		संतृप्त पृज
satellite transmitter	<i>Phy.</i>	उपप्रेषित	saturated molecule		संतृप्त अणु
satellite village		अनुपगो ग्राम	saturated set		संतृप्त समुच्चय
satellitic injection	<i>Geol.</i>	उपात क्षेप	saturated soil		संतृप्त मृदा
satellitic reflection		अनुपगो परावर्तन	saturated solution		संतृप्त विलयन, संतृप्त घोल
satellitism	<i>Bot.</i>	अनुपगिता	saturated subspace		संतृप्त उपसममण्डि
satelloid	<i>Phy.</i>	अल्प शक्ति उपग्रह	saturated vapour		संतृप्त वाष्प
sathrolith	<i>Geol.</i>	सैथ्रोलिथ	saturated with load	<i>Geog.</i>	भार संतृप्त
satiation	<i>Zool.</i>	परितृप्ति	saturating signal		संतृप्तक संकेत
satin	<i>Chem.</i> <i>H.Sc.</i>	साने की मुदुला साटिन, साटन	saturating tank	<i>Chem.</i>	संतृप्ति टकी
satin dice	<i>Chem.</i>	पाया मुदुला	saturation		संतृप्ति, संतृप्तिकरण
satinette	<i>Chem.</i> <i>(Text)</i>	सैटिनेट	saturation activity		संतृप्ति सक्रियता
satin finish		सैटिन परिष्कृति	saturation base		बेस संतृप्ति, क्षारक संतृप्ति
satin spar	<i>Geol.</i>	सैटिन स्फार	saturation compos- ition		संतृप्ति संघटन
Satin Sultan	<i>H.Sc.</i>	सैटिन सुल्तान	saturation constant		संतृप्ति स्थिरांक
satin weave	<i>H.Sc.</i>	सैटिन बयन, साटन बयन	saturation current		संतृप्ति धारा
satin white		सैटिन श्वेत	saturation curve		संतृप्ति वक्र
satin wood	<i>H.Sc.</i>	सैटिन वुड	saturation deficit		संतृप्ति न्यूनता
satisfactory level	<i>Math.</i>	सतोषप्रद स्तर	saturation flux density		संतृप्ति अभिवाह घनत्व
satisfactory product		सतोषप्रद उत्पाद	saturation level		संतृप्ति तल
satyrus	<i>Bot.</i>	सैत्य	saturation line		संतृप्ति रेखा
Sato's method	<i>Geol.</i>	सैटो विधि	saturation magnet- ization		संतृप्ति चुम्बकन
saturable inductor	<i>Geol.</i>	संतृप्य प्रेरक	saturation magneto- striction		संतृप्ति चुम्बकीय विकृपण
saturable transformer	<i>Phy.</i>	संतृप्य ट्रांसफार्मर	saturation point		संतृप्ति स्थिति
saturant	<i>Chem.</i>	संतृप्तक	saturation resistance		संतृप्ति प्रतिरोध
saturate	<i>Phy.</i>	संतृप्त करना	saturation strain		संतृप्ति विकृति
saturated		संतृप्त	saturation time factor		संतृप्ति काल गुणांक
saturated activity		संतृप्त सक्रियता	saturation value		संतृप्ति मान
saturated adiabatic lapse rate		संतृप्त रुद्धोष्म ह्रास दर	saturation voltage		संतृप्ति वोल्टता
saturated compound		संतृप्त यौगिक	saturation	<i>Chem.</i> <i>(Text)</i>	संतृप्ति, सैच्युरेटर
saturated hull		संतृप्त समारक			
saturated hydrocarbon		संतृप्त हाइड्रोकार्बन			



saturn	<i>Astron.</i>	शनि	saute pan	<i>H.Sc.</i>	सोटे पात्र
Saturniidae	<i>Zool.</i>	सैटर्नईडी	Sauteria	<i>Bot.</i>	सॉडटेरिआ
saturn's ring		शनि-बलय	<i>Sauteria alpina</i>		सौडटेरिया ऐल्पाइना
saturoscope	<i>Chem.</i>	संतृप्तिदर्शी	Sauter method	<i>Phy.</i>	सॉटर विधि
satyrium		सैटाइरियम	sautoir	<i>H.Sc.</i>	सॉटवार
sauvalpite	<i>Geol.</i>	सौएलपाइट	Sauveur's reagent	<i>Chem.</i> ( <i>Met.</i> )	जोवर अमिकर्मक
sauce	<i>H.Sc.</i>	सॉस	savage Malay	<i>Geog.</i>	असंस्कृत मलयवासी
sauce dish		सॉस डिश	savanna cycle	<i>Geog.</i>	सवाना चक्र
sauce pan		सॉस पैन	savannah		सवाना
saucer	<i>Geog.,H.Sc.</i>	1. सॉसर, उबला गर्त 2. प्याला प्लेट, तश्तरी 3. रंगपात्र	savanna land		सवाना प्रदेश
saucer-like hollow	<i>Geog.</i>	सॉसर सदृश गर्त	savanna region		सवाना प्रदेश
sauconite	<i>Geol.</i>	सौकोनाइट	savanna woodland		सवाना अरण्यमूमि
sauer kraut	<i>Bot.,H.Sc.</i>	खट्टी गोभी	savarin	<i>H.Sc.</i>	सावारिन
saurauiaceae	<i>Bot.</i>	सौरौयेसी	savart (unit)	<i>Phy.</i>	सवाटं
<i>Saurania roxburghii</i>	<i>Bot.</i>	सॉरैनिया रॉक्सवगाई	save all	<i>Geol.</i> <i>Chem.</i>	सेव ऑल सर्वरक्षी
saurian malaria	<i>Zool.</i>	सरीसृप मलेरिया	saving	<i>H.Sc.,</i> <i>Math.</i>	वचत
Saurichthyidae	<i>Zool.</i>	सॉरिचथिआइडी	saving-investment equation		वचत निवेश समीकरण
Saurichthys	<i>Zool.</i>	सॉरिचथिस	saving-investment equilibrium con- dition		वचत निवेश साम्यावस्था प्रतिबंध
Saurischia	<i>Zool.</i>	सॉरिस्किया	saving-investment model		वचत निवेश निदर्श
saurochore	<i>Bot.</i>	गोधिका प्रकीर्ण	sarite	<i>Geol.</i>	सैवाइट
Sauroplesura	<i>Zool.</i>	सॉरोप्ल्यूसूरा	savona carpet	<i>H.Sc.</i>	सैवोना कालीन
Sauropterygia	<i>Zool.</i>	सॉरॉप्टेरीजिया	savory (savoury)	<i>Chem.,H.Sc.</i>	सेवरी, सुस्त्रादिष्ट
sauropod	<i>Geog.</i>	सॉरोपोड, चतुरचर	savory sauce		नमकीन सॉस
Sauropoda	<i>Zool.</i>	सॉरोपोडा	saw	<i>Bot.,Chem.,</i> <i>H.Sc.</i>	आरी, आरा, क्रकच
sauropsidan	<i>Zool.</i>	सौरौप्सिडन, पक्षि सरीसृप	sawab	<i>Geog.</i>	सैवाह
sausage	<i>H.Sc.</i>	सॉसिज	saw doctor	<i>Chem.</i> ( <i>Met.</i> )	क्रकच डॉक्टर
sausage instability	<i>Math.</i>	उद्बुज संकीर्ण अस्थायित्व	sawdust	<i>Geog.</i>	बुरादा
sausage roll		सॉसिज रोल	saw fish	<i>Geol.,Zool.</i>	आरामीन, वीण
sausage spices		सॉसिज मसाले	sawing	<i>Chem.</i>	क्रकचन
saussurite	<i>Geol.</i>	सौसुराइट	sawmill	<i>Geog.</i>	आरा मशीन
saussuritization	<i>Geol.</i>	सौसुराइटन			
saustein	<i>Chem.</i> ( <i>Met.</i> )	संहत चूर्ण प्रस्तर			
sauteing	<i>H.Sc.</i>	बसा में भूनना, बसामर्जन			

saw scaled viper	Zool.	ऋकच शल्की पुदाकु, ऋकच शल्की घोंगस	scabbling	Geol	सुतलन, उपकल्पन
saw timing wave		आरादती कालमापी तरंग	scabbling hammer		उपकल्प हथौड़ा, सुतलन हथौड़ा
sawtooth current		आरादती धारा	scab-fold	Chem (Met)	मचक
saw-toothed beetle	Zool	ऋकची भृग	scabies	Zool	पामा
saw tooth voltage		आरादती चोल्दता	scabies mite		पामा चिचड़ी, स्कैच चिचड़ी
saw tooth wave	Phy	आरादती तरंग	Scabiosa atropur- purea	Bot	स्कैबिओसा एट्रोपरपुरिया
saw tooth wave form	Math	आरादती तरंग आकृति	scabious	Bot	स्कैबियम
saw tooth wave generator		आरादती तरंग जनित	scabland	Geog.	विषमभूमि, स्कैबलैंड
saxatilis	Bot.	शैलचर्ची	scabland topography		विषम स्थानाकृति
Saxegothaea	Bot	सैक्सोगोथिया	scab of gladiolus	Bot	ग्लैडिओलस कच्छु, ग्लैडिओलस स्कैच
Saxegothaea cons- picua		सैक्सोगोथिया कॉन्सपिकुआ	scabrid	Bot.	मल्प खुरदरा
saxicavous	Zool.	शैलवेधी	scabrous		खुरदरा
saxicoline	Zool	शैलवासी	scab spot	Bot	कच्छु लक्ष्म, स्कैच लक्ष्म
saxicolous		शिलावासी, शैलवासी	scalfe	Chem (Met)	स्केफ
Saxifragaceae	Bot	सेक्सिफ्रैगैसी	scalfe process	Chem. (Met)	स्केफ प्रक्रम
Saxifraga cernua		सैक्सिफ्रैगा सरन्जुआ	scala	Bot	निश्रेणी, तमैती
Saxifragales		सेक्सिफ्रैगेलोन	scalar	Geog., Math, Phy.	अदिश, स्केलर
saxonite	Geol.	सैक्सोनाइट	scalar angular velocity		अदिश कोणीय वेग
saxony	H.Sc.	सैक्सोनी	scalar calculus		अदिश कलन
saxophone	Phy.	सैक्सोफोन	scalar curvature		अदिश वक्रता
Saybolt chromometer	Chem. (Pet)	सेबोल्ड क्रोमोमीटर, सेबोल्ड वर्णमापी	scalar deflation		अदिश अपस्फीति
Saybolt viscometer		सेबोल्ड श्यानतामापी	scalar density		अदिश घनत्व
Saybolt viscosity		सेबोल्ड श्यानता	scalar fabric data		अदिश सविन्याम उपात
Sayers' squaring method	Phy.	सेयर वर्ग विधि	scalar field		अदिश क्षेत्र
say ladie	Chem (Met.)	से शक्ति	scarar force		अदिश बल
Saytzeff effect	Chem.	सैन्जेफ नियमित	Scalaria	Geol	स्कैलैरिया
Saytzeff's rule	Chem.	सैन्जेफ का नियम	scalarnform		सीशैनुमा
saza	Geog.	सैडा	scalariform conjuga- tion		सीशैनुमा मध्यमन
S-band	Phy.	S-बैंड	scalariform perfor- ation		सीशैनुमा छिद्रन
S-band air borne beacon		S-बैंड वायुवाहित बीकन	scalar interval	Math.	अदिश अंतराल
scab	Bot.	कच्छु, स्कैच			
scabbing	Chem. (Paper)	पंपटन, स्कैचन, स्कैच			

scalar invariant		बदिस निश्चर	scaled unitary notations		मापकमित ऐकिक संकेत
scalar kinetic energy		बदिस गतिक ऊर्जा	scale effect		स्केल प्रभाव
scalar matrix		बदिस आव्यूह	scale error		मापनी वशुद्धि
scalar multiple		बदिस गुणज	scale factor		स्केल गुणक
scalar multiplication		बदिस गुणन	scale forming ingredient	Chem.	शल्कोत्पादक संघटक, परतकारी संघटक
scalar multiplier		बदिस गुणक	scale height		मापक्रम ऊंचाई
scalar operator		बदिस संकारक	scale leaf		शल्क पत्र
scalar point function		बदिस बिंदु फलन	scale leaf		शल्क पत्र
scalar potential		बदिस विभव	scale model	Phy.	अनुमापी मॉडल
scalar pressure		बदिस दाब	scalene triangle	Math.	विषमबाहु त्रिभुज
scalar product		बदिस गुणनफल	scalenoehedron	Geol.	विषमत्रिभुज फलक
scalar proper function		बदिस उचित फलन	scale of two	Phy.	द्वि आधारी माप
scalar property		बदिस गुण	scale of 8	Phy.	8 का सोपान
scalar quantity		बदिस राशि	scale of earthquake intensity		भूकम्प तीव्रता स्केल
scalar triple product		बदिस त्रिक गुणनफल	scale of notation		संकेतन मापक्रम
scalation	Zool.	शल्कन, शल्कन्यास	scale of pace	Geog.	पग मापक
scala tympani	Phy. Zool.	कर्णावर्त की अर्धकुल्या मध्यकर्ण सोपान	scale of relation		संबंध क्रम
scala vestibuli	Phy. Zool.	कर्णावर्त की ऊर्ध्वकुल्या प्रघाण सोपान	scale of smallness		लघुता का मापक्रम
scald	Chem.,H.Sc. Bot.	तप्त द्रव धर्पण द्रवदाह	scale of survey		सर्वेक्षण पैमाना
scalded flat	Geog.	झुलसा सपाट	scale parameter		मापनी प्राचल
scalded plain		झुलसा मैदान	scaler	Phy.	सोपानी गणित
"scalding"	Chem.	द्रव दहन	scaler recorder		सोपानी अभिलेखित्र
scale		1. (instrument) मापनी, स्केल, पैमाना 2. (of temperature etc.) मापक्रम 3. (of fish, onion etc.) शल्क 4. (musical) स्वरग्राम 5. (of balance) पलड़ा	scale size		स्केल साइज
scale copper		शल्की ताम्र	scale socket		शल्क गतिका
scaled event	Phy.	सोपानी घटना	scale wax		स्केल मोम, शल्क मोम
scale diagram		स्केल आरेख, मापनी आरेख	scale worm		शल्क कृमि
scald pulse	Phy.	सोपानित स्पन्द	scaling	Chem.,H.Sc. Math.,Phy.	शल्कन सोपानी गणन, सोपानन
scale drawing	H.Sc.	अनुमाप आलेख	scaling circuit	Phy.	सोपानी परिपथ
			scaling factor	Phy.	सोपानी गुणक
			scaling law		सोपान नियम
			scaling off		शल्क उतरना
			scaling ratio		सोपानी अनुपात
			scaling unit		क्रम गणक एकक, सोपान एकक
			scallop	Geol. H.Sc.	स्कैलप कंगूर

scalloped	<i>Geog., Geol.</i>	स्कैलपित	scanning speed		क्रमवीक्षण चाल
scalloped upland		स्कैलपित अधित्यका	scanning spot		क्रमवीक्षण बिन्दु
scallop shore		स्कैलप तट	scanning stage		क्रमवीक्षण पद
scalp	<i>Geog.</i>	शिरोत्रक	scanning technique		क्रमवीक्षण तकनीक
scalpel	<i>Biol.</i>	स्कैल्पेज	scanning voltage		क्रमवीक्षण वोल्टता
scalpelliform		स्कैल्पेजरूपी	scanno	<i>H Sc</i>	स्कैनी
Scalpellum	<i>Zool</i>	स्कैलेनम	scan photometer		क्रमवीक्षण फोटोमीटर, क्रमवीक्षण प्रकाशमापी
<i>Scalpellum vulgare</i>		स्कैल्पेलम घल्गोयर	scan radar		क्रमवीक्षण रेडार
scalping	<i>Chem., Geol</i>	1. निकृपासन 2. गुटिका भजन	scansorial	<i>Zool</i>	झारोही
scalpriform	<i>Zool</i>	टकरूप	scansorial adaptation		झारोही अनुकूलन
scalprum	<i>Zool.</i>	टक	scansorial leg		झारोही पद
scaly	<i>H Sc., Zool., Geog.</i>	शल्की	scantling	<i>Chem</i>	घटक माप
scaly ant-eater		शल्की चींटीखोर	scant population	<i>Geog</i>	विरल जनसङ्ख्या
scaly crust		शल्की पटल, शल्की पर्यंटी	scapalis	<i>Zool</i>	प्रसन्नीभित्ति (पेशी)
scaly skin		शल्की त्वचा	scapania	<i>Bot</i>	स्कैपेनिया
scan	<i>Phy</i>	क्रमवीक्षण	scape	<i>Zool H.Sc., Bot.</i>	स्केप, प्रवृत्त पुष्पदण्ड
scandens	<i>Bot</i>	झारोही	scaphiform	<i>Bot</i>	नावाकार
scandent		झारोही	Scaphirynchus	<i>Zool</i>	स्कैफिरिन्कस
scandide	<i>Chem</i>	स्कैन्डाइड	Scaphites	<i>Geol</i>	स्कैफाइटीज
Scandinavian	<i>Geog.</i>	स्कैन्डीनेवियन	<i>Scaphites aequalis</i>		स्कैफाइटीज ईक्वलिस
scandium	<i>Chem.</i>	स्कैन्डियम	Scaphitoid		स्कैफाइटाइड
scan file	<i>Math.</i>	क्रमवीक्षणक सचिक्ता	scaphium	<i>Zool.</i>	नौवर्ष
scan fraction		क्रमवीक्षण भिन्न	scaphocephalic	<i>Zool.</i>	नौशोथं
scanner	<i>Phy</i>	क्रमवीक्षक	scaphocerite	<i>Zool</i>	नौशृंग
scanning	<i>Phy, Geog.</i>	क्रमवीक्षण	scaphognathite	<i>Geol</i>	स्कैफोग्नाथिट
scanning antenna mount		क्रमवीक्षक ऐन्टेना धारक	Scaphognathus	<i>Zool.</i>	स्कैफोग्नाथस
scanning head		क्रमवीक्षक शीर्ष	scaphold	<i>Zool</i>	नौवास्थि
scanning hole		क्रमवीक्षण छिद्र	scapholunar	<i>Zool.</i>	स्कैफोलुनार, नौवा- षट्वास्थि
scanning line		क्रमवीक्षण रेखा	scaphopod	<i>Zool.</i>	नौवापद
scanning linearity		क्रमवीक्षण रैखिकता	Scaphopoda	<i>Zool.</i>	स्कैफोपोडा
scanning microscope		क्रमवीक्षण सूक्ष्मदर्शी	scapigerous	<i>Bot.</i>	पुष्पदण्डकर, स्केपिजकर
scanning of lattice points		जालक बिन्दुओं का क्रमवीक्षण	scapiflorous	<i>Bot</i>	दण्डगुप्पी, स्केपिगुप्पी
scanning sequence interlacing		क्रमवीक्षण अनुक्रम अन्तर्व्यंजन	scapiform	<i>Bot.</i>	गुप्पीदण्डकर, स्केपिजरी
			scapolite	<i>Geol.</i>	स्कैपोलाइट
			scapolitization	<i>Geol.</i>	स्कैपोलाइटन

scapose		स्केपी	scarp face	कगार फलक, कगार पार्श्व
scapula	Zool.	स्कैपुला, अंसफलक	scarp fault	कगार भ्रंश
scapular	Geog.	धार्मिक स्कंधवस्त्र	scarpland	कगार भूमि, स्कारपलैन्ड
scapular region		अंसफलक क्षेत्र, स्कैपुला क्षेत्र	scarplet	Geog., Geol. कगारिका
scapulars (scapular feather)	Zool.	अंसपिच्छ	scarp-ridge	कगार कटक
scapulet	Zool.	प्रस्तम्भवली	scarp slope	कगार ढाल
scapulo-coracoid	Zool.	फलकांसतुंड	scarring	Geol. क्षतचिह्न
scapulus	Zool.	प्रस्तम्भक	scar suture	Geol. क्षतचिह्न सीवन
scapus	Zool.	पिच्छकाण्ड	scatter	प्रकीर्ण, प्रकीर्णन
scar	H.Sc.	क्षत चिह्न, स्कार	scatter coefficient	प्रकीर्णन गुणांक
scarabaeiform larva	Zool.	स्कैरेवियसरूप डिम्बक	scatter-diagram device	प्रकीर्ण आरेख युक्ति
Scarabaeus	Zool.	स्कैरेवियस	scattered	प्रकीर्ण
scarabizing	Chem. (Met.)	स्कैरावाइजन	scattered diagram	प्रकीर्ण आरेख
scarcement	Geol.	स्कासीमेन्ट	scattered echo	प्रकीर्ण प्रतिध्वनि
scarcity		न्यूनता, कमी	scattered group	प्रकीर्ण वर्ग
scarcity sampling	Math.	विरल वस्तु प्रतिचयन	scattered huts	विखरी झोपड़ियां, प्रकीर्ण झोपड़ियां
scarf	Chem.(Met.) H.Sc.	1. अधिकांश 2. स्कार्फ	scattered light	प्रकीर्ण प्रकाश
scarfing	Chem. (Met.)	अधिकांश कर्तन	scattered population	प्रकीर्ण जनसंख्या
scaridae	Geog.	स्कैरिडी	scattered radiation	प्रकीर्ण विकिरण
scarification	Bot.	क्षतचिह्न	scattered rain	प्रकीर्ण वर्षा
scariose	Bot.	झिल्लीनुमा	scattered scrub	प्रकीर्ण गुल्म
scarious		झिल्लीनुमा	scattered set	प्रकीर्ण समुच्चय
scarlet	Chem.	शोण (सिंदूरी)	scattered settlement	प्रकीर्ण बस्ती
scarlet colour	Geog.	सिंदूरी रंग	scattered site	प्रकीर्ण स्थल
scarlet fever	Chem.	स्कार्लेट ज्वर	scattered trees	प्रकीर्ण वृक्ष
scarlet lake		सिन्दूरी लेक	scattered wave	प्रकीर्ण तरंग
scarlet phosporus		सिंदूरी फॉस्फोरस	scatterer	प्रकीर्णक
scarlet red		सिंदूरी लाल	scattering	प्रकीर्णन
scarole	H.Sc.	स्कैरोल	scattering amplitude	प्रकीर्णन दैर्घ्य
scarp	Geog., Geol.	कगार	scattering coefficient	प्रकीर्णनांक
scarped hill		कगारी पहाड़ी	scattering cross section	प्रकीर्णन परिक्षेत्र
scarped plain		कगारी मैदान	scattering force	प्रकीर्ण बल
scarped ridge		कगारी कटक	scattering layer	प्रकीर्णन स्तर
			scattering length	प्रकीर्णन दैर्घ्य, प्रकीर्णन लम्बाई

scattering matrix		प्रकीर्णों का व्यूह	Schaeffer's acid	Chem.	शैफर अम्ल, शैफर ऐसिड
scattering of light		प्रकाश प्रकीर्णन	Schalenmantel	Bot.	पाट कवच, शालेन माटेल
scattering point		प्रकीर्णक बिन्दु	Schardinger's enzyme	Chem.	शार्डिंजर किण्व
scattering potential		प्रकीर्णन विभव	schappe	H.Sc.	शापे
scattering process		प्रकीर्णों प्रक्रम	schappe voile		शापे बॉइल
scattering system		प्रकीर्णों निकाय	scharizerite	Geol.	शरीजेराइट
scattering yield		प्रकीर्णन उत्पाद	*Scheat (=β Pegasus)	Astron	शियट (=β पैगासाई)
scatter propagation		प्रकीर्णों संचरण	*Schedar (=α Cassiopeiae)	Astron	शेडार (=α कैसिओपियाई)
scatter sounding		प्रकीर्णों परिज्ञापन	scheduled operation	Phy	युनिश्चित प्रचालन
scavengable radical	Chem.	समाजर्जनीय मूलक	scheduled tribe	Geog.	अनुसूचित जनजाति
Scaumenacia	Zool.	स्काउमेनेसिया	scheduling	Math.	अनुसूचन, नियोजन
scavenger	Zool.	अपमार्जक	scheduling assemblies		घरणावली नियोजन
scavenger beetle	Zool.	मार्जक भृग	scheduling functions		नियोजक फलन
scavenger cell		अपमार्जक कोशिका	scheduling inventories		तालिका नियोजन
scavenging	Zool.	अपमार्जन	scheduling operator		नियोजक सकारक
scavenging carrier	Chem.	समाजर्ज वाहक	Scheel and Heuses apparatus	Chem.	शैल हौइस उपकरण
scavenging stroke (=exhaust strock)	Phy.	रेषन स्ट्रोक	Scheele's green		शैले हरित
scawtite	Geol.	स्कॉटाइट	scheelite	Geol	शीलाइट
scedasticity curve		विचालिता वक्र	scheelite structure	Chem.	शीलाइट संरचना
Scelodonta strigocollis	Zool.	स्केलोडोन्टा स्ट्रिगकोलिस	scheererite	Geol.	शेरेराइट
scenary-property	Phy.	दृश्य सग्दा	schefflerite	Geol.	शेफ्लेराइट
Scenedesmus quadricauda	Bot.	स्केनडेस्मस क्वाड्रीकौडा	Scheibel column	Chem (Pet)	शाइबेल कॉलम, शाइबेल स्तंभ
scene	Phy.	दृश्य	Scheibler's tonometer	Phy	शाइब्लेनर का टोनोमीटर
Scenedesmus	H.Sc.	सीनीडेस्मस	Scheibold method	Phy.	शीबोल्ड विधि
scene lumianace		दृश्य दीप्ति	Scheibold Sauter method		शीबोल्ड साउटर विधि
scenic route	Geog.	पुरस्म्य मार्ग	Scheibel Jlg	Geol.	शाइबेल जिंग
scent	H.Sc., Zool.	वास गंध	Schellbach barrette	Chem.	शेलबैक ब्युरेट
scent brush		गंध कूर्च	Scheller reaction	Chem.	शेलर अभिक्रिया
scent gland		गंध ग्रन्थि	Schellwienella	Geol.	शेलवीनेला
scent scale		गंध कलक	Schellwienella crenistria		शेलवीनेला क्रेनिस्ट्रिया
scepter	Zool.	सेप्टर	schematic	Zool, Geog., Geol.	संस्थापन, योजनावत्
Schaal test	Chem.	शाप निकाय	schematically	Phy.	संस्थापकतः
Schaffer hydrator		शैफर उदकित्र	schematic corridor	Geog.	चित्रवत् मार्ग

schematic diagram	H.Sc.	व्यवस्था चित्र	schistose grit	शिस्टीय ग्रिट
schematic plot		व्यवस्था आलेख	schistose rock	शिस्टाभ शैल
schematic presentation	H.Sc.	विधिवत् प्रस्तुति	schistose structure	शिस्टाभ संरचना
schematic representation		व्यवस्थात्मक निरूपण	schistosity	Geol. शिस्टाभता
schematic section	Geol.	व्यवस्थित काट	schistosomule	Zool. शिस्टोसोमश्राव
scheme	Chem., H.Sc. Math.	स्कीम; अधियोजना योजना	Schistosomum	Zool. शिस्टोसोमम
scheme of hidden periodicity		गुप्त आवर्तता-योजना	<i>Schistosomum haematobium</i>	शिस्टोसोमम हीमेटोवियम
schemochrome		स्कीमोक्रोम	<i>Schistosomum japonicum</i>	Zool. शिस्टोसोमम जैपोनिकम
Schenk's sulphur monoxidé		शैन्क सल्फर मोनोक्साइड	Schizaea	Bot. स्किजिया
Scherbenkobalt		शैरबेनकोबाल्ट	Schizaeaceous plant	स्किजिएसीय वनस्पति
scheteligite	Geol.	शेटेलिगाइट	Schizaeaceous sporangia	स्किजिएसीय बीजाणुधानी
Schibbye fractionator	Chem. (Paper)	शिब्ये प्रभाजक	schizanthus	शाइजैन्थस
Schickel pot	Geol.	शिकेल पात्र	Schizaster	शाइजैस्टर
Schiemann reaction	Chem.	सीमान अभिक्रिया	<i>Schizaster durbani</i>	शाइजैस्टर डर्वेनाइ
schiffli	H.Sc.	शिफली	schizocarp	Bot. मिटुर फल
Schiff's base	Chem.	शिफ-आधारक शिफ बेस	schizocarpic	मिटुर
Schiff's reagent		शिफ अभिकर्मक	schizocoele	Zool. दीर्णगुहा
Schilippe's salt	Chem.	शिलिप्पे-सवण	schizocoelic coelom	दीर्णगुह प्रगुहा
schillerization		शिलरीभवन	schizocoelomate	Zool. दीर्णगुहिक
schiller layer	Chem.	शिलर स्तर	schizocoelous	दीर्णगुह्य
schillerspar		शिलरस्पार	schizocotyly	Bot. विभक्तबीजपत्रता
scimitar babbler	Zool.	सिमटर बैबलर, प्रियंवद	Schizocystis	Zool. शाइजोसिस्टिस
Schimperella	Geol.	शिम्परेला	schizochroism	Zool. स्कीजोक्रोइज्म
schist	Geol.	शिस्ट	schizodont	Geol. विरलदंती
Schistocerca	Zool.	शिस्टोसर्का	schizogamy	Zool. दीर्णयुग्मकता
<i>Schistocerca gregaria</i>		शिस्टोसर्का ग्रेगारिया	schizogenesis	विखंडनीय-जनन
<i>Schistocerca paranensis</i>		शिस्टोसर्का पैरानेन्सिस	schizogenous cavity	वियुनितजात गुहा
schistocyte	Zool.	खंडरक्तपु, खंडाणु	schizognathous	Zool. दीर्णहनु
Schistometopum	Zool.	शिस्टोमेटोपम	schizogonic cycle	Zool. विखंडनीजनन चक्र
schistose	Geol., Geog.	शिस्टाभ, शिस्टीय	schizogonic cyst	Geol. विखंडनजनिक पुटी
			schizogonic stages	विखंडनीजनन अवस्था
			schizogony	Zool. विखंडनीजनन
			Schizogoniaceae	Bot. शाइजोगोनिएसी
			Schizogoniales	शाइजोगोनिएलीस
			schizogregarine	Zool. शाइजोग्रिगैराइन

Schizogregarinida	Zool.	शाइजोग्रिगेराइनिडा	schleswig lacc	H Sc.	स्लेसविग लेस
schizokinete	Zool.	शाइजोकिनीट, दीर्णयुग्मज	schlicht function	Math.	पृथक्मान फलन
schizolite	Geol.	शाइजोलाइट	schlicht region		पृथक्मान प्रदेश
schizo-lysigenous	Bot.	वियुक्त लय जात	schlieren	Phy., Geol	श्लीरेन, सूत्रिल अंतर्वेश
schizomorphic	Geol.	अपखंडन रूपावली	schlicren method		श्लीरेन पद्धति
Schizonella melanogramma	Bot.	स्किजोनेला मेलेनोग्रामा	schliere (pl. schlieren)	Geol	श्लीयर सूत्रिल अंतर्वेश
Schizoneura	Bot.	स्किजोन्युरा	Schloenbachia	Geol	श्लोएनबेकिया
Schizoneura gondwanensis		स्किजोन्युरा गोंडवानेन्सिस	Schloenbachia varians		श्लोएनबेकिया वैरियन्स
schizont	Zool., Geol	शाइजॉन्ट, दीर्णक	Schlotterbeck reaction	Chem.	श्लॉटरबेक अभिक्रिया
schizonticide	Zool	शाइजॉन्टनाशी, दीर्णकनाशी	Schmick's formula	Chem.	श्मिक सूत्र
schizontoblast	Zool.	शाइजॉन्टोब्लास्ट, दीर्णकोरक	Schmidt's assumption	Chem	श्मिट अभिधारणा
schizontocyte	Zool.	शाइजॉन्टोसाइट, दीर्णकाणु	Schmidt law	Phy.	श्मिट नियम
Schizophoria		शाइजोफोरिया	Schmidt limit		श्मिट सीमा
schizophrenia	Chem.	स्किजोफ्रीनिया	Schmidt line		श्मिट रेखा
Schizophyceae		शाइजोफाइसी	Schmidt net		श्मिट जाल
Schizophycese		शाइजोफाइसेस	Schmidt's diffusion apparatus		श्मिट विसार उपकरण
Schizophyllum commune	Bot.	स्किजोफिलम कम्यून	Schmidt theorem		श्मिट प्रमेय
schizopod	Zool.	शाइजोपोड, दीर्णपाद	Schmidt trigger circuit		श्मिट ट्रिगर परिपथ
schizopod larva		दीर्णपाद डिम्बक	Schmiedel Klenke "Roller-Box"	Chem	श्मीडेल क्लेन्के रोलर बक्स
schizorbinial	Zool.	खडनासीय	Schmitt limiter		श्मिट सीमक
Schizosaccharomyces octosporus	Bot.	स्किजोसैकैरोमाइसीज आक्टोस्पोरस	Schmitzdecke	Chem	श्मिटडेक
schizothecal	Zool.	खडानरक	schmoo plotting	Phy.	शोमोप्लॉटिंग
Schizothecium anserinum	Bot.	स्किजोथेसियम एन्सेरिनम	schneebrett	Geog.	श्नीब्रेट
Schizothrix fragilis	Bot.	स्किजोथ्रिक्स फ्राजिलिस	schneebretter		श्नीब्रेटर
schizozote	Zool.	शाइजोडोट, दीर्णबन्धक	schnepp state	Chem (Photo.)	श्नेप् स्टेट
Schlafli's integral	Math.	श्लॉफली-इन्टीग्रल	Schoch process	Chem	शोच प्रक्रम
schlempe		श्लेम्पे	schoenberg color matcher	Chem.	शोएनबर्ग कलर माचर
schlerophyll	Geog.	श्लेरोफाइल	Schoenflies symbol	Phy.	शोएनफ्लिय सिंभल
schlerophyllous woodland		श्लेरोफाइली अरभ्यभूमि	schoenlte	Chem	शोनाइट
			Schoenmill	Chem. (Met)	शोन् (बेल्टन) मिल
			Schoenobius incretellus	Zool.	शोनोबियम इन्क्रेटेलस



schoepite	<i>Chem.</i>	स्केपाइट	schreinerizing	<i>H.Sc.</i>	शाइनरीकरण
scholastic achievement	<i>Math.</i>	विद्यालयी उपलब्धि	Schroder Grillo process	<i>Chem.</i>	श्रडर ग्रिलो प्रक्रम
schollendome	<i>Geol.</i>	लावास्तूप, शोलैनडोम	Schrodinger equation	<i>Math., Chem.</i>	श्रोडिन्गर समीकरण
Schollkopf's acid	<i>Chem.</i>	शोलकोफ अम्ल, शोलकोफ एसिड	Schrodinger's differential equation		श्रोडिन्गर अवकल समीकरण
Scholl reaction	<i>Chem.</i>	शॉल अभिक्रिया	Schrodinger wave equation		श्रोडिन्गर तरंग समीकरण
Schomaker Stevenson relationship	<i>Chem.</i>	शोमाकर स्टीवेन्सन संबंध	schroecklingerite	<i>Chem.</i>	श्रोर्कलिगराइट
schonfelsite	<i>Geol.</i>	शोन्फेल्साइट	Schrotter's apparatus (calcmeter)	<i>Chem.</i>	श्रटर उपकरण
schonite	<i>Chem.</i>	शोनाइट	schrund line	<i>Geog.</i>	श्रंड रेखा
school (of fishes)	<i>Zool.</i>	समूह	Schuffner's dot	<i>Zool.</i>	शुफनेर कण
school atlas	<i>Geog.</i>	स्कूल एटलस	Schuler modification	<i>Chem. (Paint)</i>	शूलर अंशांतरण
school health	<i>H.Sc.</i>	स्कूल स्वास्थ्य	Schuler pendulum (=earth pendulum)		शूलर लोलक, भूत्रिज्या लोलक
schooner		स्कूनर, द्विकपी नाव	Schuller-Chirstian syndrome		शूलर क्रिश्चियन संलक्षण
Schoop process	<i>Chem. (Met.)</i>	शूप प्रक्रम	Schultz number	<i>Chem.</i>	शुल्त्स अंक
Schorigin reaction	<i>Chem.</i>	शॉरिजिन अभिक्रिया	Schultz's acid	<i>Chem.</i>	शुल्त्स अम्ल, शुल्त्स एसिड
Schori process	<i>Chem. (Met.)</i>	शॉरी प्रक्रम	Schulze extrapolation	<i>Chem.</i>	शुल्त्से बहिर्वेशन
schorl	<i>Geol.</i>	शॉर्ल	Schulze-Hardey rule		शुल्त्से हार्डी नियम
schorlaceous	<i>Geol.</i>	शॉर्लमय	Schumann region	<i>Chem. (Photo.), Phy.</i>	शूमान-क्षेत्र
schorlomite	<i>Geol.</i>	शॉर्लोमाइट	Schumann-Runge band		शूमान रून्गे पट्टी, शूमान रून्गे बैंड
Schotten-Baumann reaction	<i>Chem.</i>	शॉटन-बोमान अभिक्रिया	Schumann ultraviolet		शूमान परावैगनी, शूमान पराजाम्ब
Schottky barrier diode	<i>Phy.</i>	शॉट्की प्राचीर डायोड	schuppen structure	<i>Geol., Geog.</i>	स्तरबंदी संरचना, स्लाइसी संरचना
Schottky defect	<i>Phy., Chem.</i>	शॉट्की दोष, शॉट्की त्रुटि	Schur theorem	<i>Math.</i>	शूर-प्रमेय
Schottky disorder		शॉट्की दुर्व्यवस्था	Schur's lemma		शूर प्रमेयिका
Schottky effect		शॉट्की प्रभाव	Schuster periodogram		शूस्टर आवर्तिता चक्र
Schottky effect		शॉट्की-निष्पत्ति	Schuster-Schwarzschild model		शूस्टर श्वार्ज्चाइल्ड निदर्श
Schottky noise (=shot noise)		शॉट रव	Schuster's law		शूस्टर नियम
schradan	<i>Chem.</i>	श्रेडैन			
schratten	<i>Geog.</i>	श्रेटेन			
schreibersite	<i>Chem.</i>	श्राइबरसाइट			
Schreier theorem	<i>Math.</i>	श्रायर प्रमेय			
schreinemekers projection	<i>Chem.</i>	श्राइनमेकर्स प्रक्षेप			

Schwann cell	Bot.	श्वान कोशिका	scintillation method		प्रस्फुरण विधि, प्रस्फुरण पद्धति
Schwarzschild's approximation		श्वार्जचाइल्ड-सन्निकटन	scintillation of stars	Geog	नक्षत्र उन्मिलन
Schwarzschild Boltzmann distribution		श्वार्जचाइल्ड बोल्त्समान वित्तन	scintillation spectrometer		प्रस्फुर स्पेक्ट्रममापी, प्रस्फुर स्पेक्ट्रोमीटर
Schwarzschild ellipsoid		श्वार्जचाइल्ड दीर्घवृत्तत्र	scintillator	Phy.	1 प्रस्फुरक 2 प्रस्फुरित
Schwarzschild's law		श्वार्जचाइल्ड नियम	scintillometer	Geog	सिन्टिलोमीटर
Schwarz-Christoffel transformation	Math	श्वार्ज क्रिस्टोफेल रूपांतरण	sciograph	Chem (Met)	घटलेख
Schwarz inequality		श्वार्ज-असमिका	scion	Bot, H Sc. Geog	कलम राजवशाज
Schwarz's law	Chem.	श्वार्ट्स नियम	Scirpophaga nivella	Zool	सर्पोफैगा निवेल्ला
Schweinfurt green	Chem.	श्वाइन्फूर्टहरित, श्वाइन्फूर्टग्रीन	Scirpus moor	Geog	सर्पस मूर
Schweitzer's reagent	Chem	श्वाइन्सर अभिकर्मक	scissoring	Chem.	कर्तरीयण
Schwinger filter	Chem	श्विन्जर फिल्टर	scissors	H Sc.	कैंची
Sciadophyte	Bot.	सिएडोफाइट	scissors fault	Geol.	कर्तनी भ्रम
sciatic	Zool.	सितीक, सितीवी	sciophilous	Bot.	छायारागी
sciatic artery		सितीक धमनी	scissor vibration	Chem.	कर्तरी कम्पन
sciatic plexus		सितीक जातक (बटि-त्रिक जातक)	Sciuromorpha	Zool	सियूरोमोर्फा
sciatic vein		सितीक शिरा	sclareol	Chem.	स्क्लैरिऑन
science		विज्ञान	sclera	Zool, H Sc.	स्कलोरा, श्वेतपटल
scientific instrument		वैज्ञानिक यन्त्र	sclerencaufous	Bot.	दृढस्तरम्भी
scientific notation		वैज्ञानिक संकेत	sclerenchyma	Bot.	दृढोत्तक
scientific programming		वैज्ञानिक प्रोग्रामन	sclerenchymous		दृढोत्तकी
Scilla indica		सिल्ला इन्डिका	sclerification		दृढीभवन
scillaren	Chem	सिल्लेरिन	sclerine	Bot	स्क्लेरिन, दुडाइन
scillaridin	Chem.	सिल्लेरिडिन	scleriotorin	Chem.	स्क्लेरिओटोरिन
Scinaria furcellata		स्किनरिइया फसिलेटा	sclerite	Zool, H Sc.	कटक
scintillation		प्रस्फुरण, प्रस्फुर	sclerobase	Zool.	दुडाघार
scintillation alpha counter		प्रस्फुरण ऐल्फा गणित्र	sclerobasidium	Bot.	स्क्लेरोबेसिडियम
scintillation beta counter		प्रस्फुरण बीटा गणित्र	sclerocoel	Zool.	स्क्लेरोसेल (दुडागुहा)
scintillation counter		प्रस्फुरण गणित्र	scleroderm	Zool.	दुडकर्म
scintillation crystal		प्रस्फुरण क्रिस्टल	Scleroderma aurantilacum	Bot.	स्क्लेरोडर्मा ओरैन्शिएकम
			Sclerodermataceae	Bot.	स्क्लेरोडर्मेटेसी
			Sclerodermatales		स्क्लेरोडर्मेटेसीज
			sclerodermite	Zool.	दुडातरण
			sclerograting	Chem (Met.)	स्क्लेरोग्राफो ग्रेटिंग

scleroma (sclerome)	Zool.	स्कलेरोमा	scolex	Zool.	स्कलेक्स, मूर्धा
Scleroparei	Zool.	स्कलेरोपैराइ	scoliodonic acid	Chem.	स्कॉलियोडॉनिक अम्ल
sclerophyll	Bot., Geog.	दृढ़पर्णी	scolite	Zool.	स्कॉलाइट, कृमिअण्ड
sclerophyllous		दृढ़पर्णी	scolithus	Geol.	स्कॉलियस
scleroprotein	Zool.	स्कलेरोप्रोटीन	scolopale	Zool.	तर्कुसंवेदिकांश
scleroscope	Geol.	कठोरतादर्शी	Scolopendrium	Bot.	स्कॉलोपेन्ड्रियम
scleroscope tester	Chem. (Met.)	कठोरतादर्शी निकपित्र, स्कलरोस्कोप निकपित्र	scolopendromorph	Zool.	स्कॉलोपेन्ड्रारूप
scleroseptum	Zool.	दृढ़पट	scolophore	Zool.	तर्कुसंवेदिका
sclerosis		दृढन	scolopidia	Zool.	तर्कुसंवेदिकाघर
sclerospatheite	Geol.	स्कलेरोस्पथाइट	scolopoid	Zool.	तर्कुसंवेदिकाम
Sclerospora graminicola	Bot.	स्कलरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला	scolops	Zool.	स्यूपक
sclerotesta	Bot., Zool.	दृढ़चोल	Scomberomorus guttatus	Zool.	स्कॉम्बेरोमोरस गटेटस (सुरमई)
sclerotic	Bot.	दृढ़ीकृत	scone	H.Sc.	स्कॉन
sclerotic bony plate	Zool.	दृढ़पटल अस्थि पट्टिका	scone flour		स्कॉन आटा
sclerotic cartilage		दृढ़पटली उपास्थि	scoop	Geol.	उद्गत
sclerotic ring		दृढ़पटल वलय	scooping	H.Sc.	गूदा निकालना, ढोखला करना
sclerotic tylosis	Bot.	दृढ़ टाइलोसिस	scooping net	Zool.	दर्वी जाल
sclerotin	Zool.	स्कलरोटिन	scoparium	Bot.	स्कॉपरियम
Sclerotinia sclerotiorum	Bot.	स्कलेरोटिनिया स्कलेरोशियोरम	scophony system	Phy.	स्कॉफोनी तंत्र
sclerotium	Zool. Bot.	दृढ़क स्कलरोशियम	Scopidae	Zool.	स्कॉपिदी
sclerotization	Bot., Zool.	स्कलरोशियमभवन दृढ़ीकरण	scopine	Chem.	स्कॉपिन
sclerotized band		दृढ़ीकृत पट्ट	scopinone	Chem.	स्कॉपिनॉन
sclerotomal sheath	Zool., H.Sc.	कशेरुकजनीय आच्छद	scopodromic	Phy.	अभिलक्षिक
sclerotome	H.Sc.	कशेरुकजनक	scopolamine	Chem.	स्कॉपोलामीन
scobiform	Bot.	बुरादारूपी, काष्ठकणरूप	scopoline	Chem.	स्कॉपोलीन
scoleciasis	Zool.	शलभाईभता, स्कॉलीसियेसिस	scopula	Zool.	स्कॉप्युला, शूकगुच्छ
scoleciform	Zool.	मूँसम	scopulariopsis	Bot.	स्कॉप्यूलैरिओप्सिस
scolecite (= Woronin's hypha)	Bot.	स्कॉलीसाइट, वोरॉनिनवंतु	scopulate	Bot.	कूचीकार
scolecodont	Geol.	स्कॉलेकोडॉन्ट, कुंठदंत	scopule	Geol.	स्कॉप्यूल
scolecospore	Bot.	कृमिरूप बीजाणु	scopulite	Geol.	पंच-क्रिस्टलाणु
scolecosporic	Bot.	कृमिरूप बीजाणवी	scorch	H.Sc., Bot.	परिवाह, झुलस
			scorched area	Geol.	दग्ध क्षेत्र
			scorching	Chem. (Met.)	परितापन
			score	Math., H.Sc.	1. समंक 2. स्कोर
			score deviation		समंक विचलन

scoria	<i>Geol., Geog., Chem</i>	1. स्कोरिया, सुषिर लावा 2 अवस्कर	scotopic	<i>Chem, Zool</i>	तिमिरानुकूलित
scoriaceous		स्कोरियाई, सुषिरलावावत्	scotopic range		तिमिरानुकूलित क्षेत्र
scoriaceous mass		स्कोरियाई सहति	scotoscope	<i>Phy.</i>	स्कोटोदर्शी
scoria cone		स्कोरिया शंकु	scots	<i>H.Sc.</i>	स्कॉट्स
scoria moraine		स्कोरिया मोरेन	Scott's apparatus	<i>Chem.</i>	स्कॉट उपकरण
scoria mound		स्कोरिया टीला	scottsonizing	<i>Chem.</i>	स्काट्सोनन
<i>Scorias spongiosa</i>	<i>Bot</i>	स्कोरिआस स्पान्जिओसा	Scott voluneter		स्कॉट आयतनमापी
scorification	<i>Chem. (Met)</i>	अवस्करण	scouleria	<i>H Sc</i>	स्काउलेरिया
scoring	<i>Chem. (Met) Math.</i>	1. अवस्करण 2 समकन	scour	<i>Chem (Plast), Geol</i>	अभिमार्जन, निघषण
scoring method	<i>Math.</i>	समकन विधि	scourand fill	<i>Geol</i>	निघषं पूरण
scorodite	<i>Geol</i>	स्कोरोडाइट	scourge	<i>Geog.</i>	महाविपत्ति
scorodose	<i>Chem.</i>	स्कोरोडोस	scouring	<i>H Sc., Chem. (Met), Geol.</i>	मार्जन, अभिमार्जन
Scorpio-Centaurus stream	<i>Math</i>	वृश्चिक सेन्टॉरस धारा	scouring loss		अभिमार्जन हानि
scorpioid cyme	<i>Bot</i>	कुटिल ससीमास	scouring powder		निघषण चूर्ण
scorpion fish	<i>Zool</i>	वृश्चिक मीन, बिच्छू मीन	scove kiln	<i>Chem.</i>	स्कोव भट्टा, स्कोव व्यापक
scorpion fly	<i>Zool</i>	वृश्चिक मक्खी, बिच्छू मक्खी	scrapping	<i>Chem. (Met)</i>	कफंगान
<i>Scorpio suammerdami</i>	<i>Zool.</i>	स्कॉपिओ स्वॅमरडॅमाई	scram	<i>Phy.</i>	स्क्रेम
*Scorpius	<i>Astron</i>	वृश्चिक, स्कापिअस	scramble	<i>Phy, H Sc.</i>	अस्क्रुटेक, स्क्रेम्बल
scortching	<i>Chem.</i>	व्यादहन	scrambled speech		अस्क्रुटित वाक्
scotch broth	<i>H.Sc.</i>	स्कॉच ब्राय	scrambler	<i>Phy.</i>	अस्क्रुटेक
scotch cambric	<i>H Sc.</i>	स्कॉच कैम्ब्रिक	scrambling	<i>Chem Bot.</i>	व्याभिधाय अनियमस्तारी
scotch hearth	<i>Chem.</i>	स्कॉच फूर्हा, स्कॉच बुली	scrambling circuit		अस्क्रुटेक परिपथ
scotch kale	<i>H.Sc</i>	स्कॉच कैल	scramming	<i>Chem. (Met.)</i>	पुनरपलब्धि
scotch mist	<i>Geog.</i>	स्कॉच वृष्टि, सघन बुहासा	scram rod	<i>Phy.</i>	स्क्रेम दण्ड
scotch pebble		स्कॉच गुटिका (अकीक, गोपेद)	scrap	<i>Chem. (Met)</i>	रन्डिष्ट, धूरचन
scotch rug	<i>H.Sc.</i>	स्कॉच रग	scrape	<i>Geog, H.Sc.</i>	धूरचना
scotch tape		स्कॉच फीता	scraper		1. धूपर्षक 2. धूरचनी
scotch tweed	<i>H.Sc.</i>	स्कॉच ट्वीड	scraper dewaterer		अपघर्षी विद्रवक
scotography	<i>Chem.</i>	मानव-चित्ररिणी	scraping	<i>Geog., Chem, Bot.</i>	तथाण, टीसन
scotopbilus	<i>Bot.</i>	सपोरापी			
scotopla	<i>Zool.</i>	चित्रमनुषून			

scrapings		खुरचन	screening factor	आवरणांक
scrap iron		रही लोहा	screening inspection	सन्निरीक्षण
scrap metal		रही धातु	screening plant	छानन संयन्त्र
scrapped	<i>Math.</i>	अपघपित, खुरचा हुआ	screening washer	छानन घावित्त, छानन वाशर
scratch	<i>Phy.</i> <i>Geog.</i>	1. खरखर (ध्वनि) 2. खरोच	screen plate	छानन पट्टिका
scratcher	<i>Chem.(Pet.)</i>	आखुरित्त	screen printing	आवरण मुद्रण, आवरण छपाई
scratch filter	<i>Phy.</i>	खर-खर फिल्टर	screen processing	स्क्रीन संसाधन
scratching	<i>H.Sc., Geog.</i>	खरोचना	screen size	छन्ना छिद्रमाप
scratch mark		खरोच चिह्न	screen type drier	छन्ना शोपक
scratch reflex	<i>Zool.</i>	खरोच प्रतिवर्त	scree slide	स्क्री स्खलन, स्क्री सर्पण
scrawl	<i>Geog.</i>	कुलेख	screw	पेंच
screaming combustion	<i>Phy.</i>	उत्क्रोश दहन	screw axis	पेंच अक्ष, स्क्रू अक्ष
scree	<i>Geol., Geog.</i>	स्क्री, ढालमलवा,	screw cap	पेंच टोपी
scree-breccia		स्क्री संकोणाश्म	screwclip	पेंचदार विलप
screeching combustion	<i>Phy.</i>	चीत्कार दहन	screw conveyor	पेंच वाहक, स्क्रू वाहक
scree material		ढाल मलवा पदार्थ	screw curvature	पेंच-वक्रता
screen	<i>Chem.</i>  <i>Phy.</i> <i>Geol.</i>	1. (n.) छन्नी, चालनी, छन्ना (vb.) चालन, छानना 2. आवरण, परदा 3. स्क्रीन	screw dia axis	पेंच द्विक् अक्ष
screen analysis		स्क्रीन विश्लेषण	screw dislocation	स्क्रू प्रभंश, पेंच प्रभंश
screen burning		परदा दहन	screwdriver	पेंचकस
screen current		आवरण धारा	screw feeder	पेंच संभरक
screened antenna		आवृत ऐन्टेना	screw gauge	स्क्रू गेज
screened field		आवृत क्षेत्र	screwing	<i>H.Sc.</i> पेंच कसना
screened indicator		स्क्रीनित सूचक	screw jack	<i>Phy.</i> स्क्रू जैक
screen factor		आवरणांक	screwnut device	<i>Chem.</i> स्क्रूनुट युक्ति
screen grid		आवरक ग्रिड	screwpine	<i>Bot.</i> केतकी, केवड़ा
screen grid modu- lation		आवरक ग्रिड मॉड्युलन	screw washer	पेंची घावित्त, पेंची वाशर
screen grid tube		आवरक ग्रिड नलिका	screw worm	<i>Zool.</i> पेंचकृमि, स्क्रूवर्म
screen grid valve		आवरक ग्रिड वाल्व	scribe coating	<i>Geog.</i> लेख विलेपन
screening	<i>Math.</i> <i>Phy.</i>	1. विविक्तिकर निरीक्षण 2. आवरण	scribe plate	<i>Geog.</i> लेखन पट्ट, लेखन प्लेट
screening constant		आवरणांक	scriber	<i>Geog.</i> स्क्राइवर, लेखन यंत्र
screening doublet		आवरणी द्विक	scriber handle	स्क्राइवर हैंडिल
screening effect		आवरण प्रभाव, स्क्रीन प्रभाव	scribing	<i>Geog.</i> लेखन
			scribing point	लेखन नोक

scribing-point holder		लेखन-नोक धारक	scrutinized	Geog.	समीक्षित
scrimp	Chem.	तान शलाका, तान दह	scud	Geog.	स्कूड, चनमेघ
scriptomatic	Math	स्क्रिप्टोमेटिक	scuffing	Chem., (Met.)	विसर्पित, पृष्ठसर्पित
scrobe	Zool.	शूर्पिर, विखाच	scuffing resistance		विसर्पित प्रतिरोध
scrobicula	Zool.	अभिघात, स्क्रॉबिक्युला	Sculda	Geol	स्कूडा
scrobicular		अभिघाती, स्क्रॉबिक्युलर	scullery	H.Sc.	मार्नेन ल्यान (बर्तनों का)
Scrobicularia	Zool.	स्क्रॉबिक्युलेरिया	scullery maid		महूरी
scrobiculatus	Bot.	गर्तमय	sculpture	Geog., H.Sc.	तक्षण, मूर्तिकला
scrobicule	Geol.	स्क्रॉबिक्युल	sculptured		तक्षित
scroll	H.Sc. Math Chem. Geog.	कुर्कलित अलंकार, स्क्रॉल अविभासनीय पृष्ठ प्रपट्ट, प्रपट्टी स्क्रॉल	sculptured rock	Geog.	तक्षित शैल
scroll meander		स्क्रॉल-विसर्प	sculpturer	H.Sc.	मूर्तिकार
scroop	Chem.	बस्त-रद सरसरारूट	scum	H.Sc. Geog.	मलफेन
Scrophularia	Bot.	स्क्रोफुलेरिया	scumbling	Chem.	बर्ष सस्करण
Scrophulariaceae		स्क्रोफुलेरिएसी	scumming	Chem.	पृष्ठ मलन
Scrophularia peregrina		स्क्रोफुलेरिया पेरेग्राइना	scurfy	Bot	पम्बोदार, शलाकृत
scrotal sac	Zool.	वृषणकोष	S-curve	Math.	S-वक्र
scrotiform	Bot	मुख्यरूप	scurry	H.Sc.	स्कर्वी
scrotum	Zool.	वृषणकोष	scutate	Zool.	1 प्रशल्की 2. शानमम
scrub	Geog Phy. Bot.	गुल्म रद्द उद्धान परीक्षण कुज	scutcher	Chem	तन्तु कपित्र
scrubbed shoot	Bot.	कुञ्चित प्ररोह	scutching	Geog. H.Sc.	1. तन्तु कर्षण 2 विघृतन 3 अयस्ताहन
scrubber	Chem., Geol.	माजंक, स्क्रबर	scute	Zool.	प्रशल्क
scrubber tower		माजंक मीनार, माजंक स्तम्भ	Scutella	Geol.	स्कुटेला
scrubbing	H.Sc.	घिसना	scutella aboralia	Geol.	अपमुख स्क्वुटेलम
scrub forest		गुल्म वन	scutella dorsalia		पृष्ठ स्क्वुटेलम
scrubland		गुल्म भूमि	scutella lateralia		पार्श्व स्क्वुटेलम
scrub-like vegetation		गुल्म सदृश्य वनस्पति	Scutella leognanensis		स्कुटेला लिओगनैन्सिस
scrub mite	Zool	स्क्रब चिचकी	scutella oralia	Geol.	अभिमुख स्क्वुटेलम
scrub tree		गुल्म वृक्ष	scutellar	Zool.	स्कुटेसमी
scrub typhus		स्क्रब टाइफस	scutellar bristle		स्कुटेसमी मूक
scrub woodland		गुल्म अरण्यभूमि	scutellaria		स्क्रूटेलेरिया
scruple	Geol.	स्क्रुपिल	scutellarien	Chem.	स्क्रूटेलेरिन
			scutella subrotunda		स्कुटेला सबरोटण्डा

scutellate	Zool.	प्रशत्करूपी	sea arch		तदीय मेहराव
scutellate reticulate		प्रशत्क जालरूपी	sea-aster	Geog.	समुद्री ऐस्टर
scutellation	Zool.	प्रशत्कीभवन	sea bass		समुद्री बैस
scutellum	Zool. Bot.	प्रशत्क, प्रढाल स्कुटेलम	sea bathing		समुद्र स्नान
scutiform	Bot.	ढालरूपी, ढालाकार	sea-blubber		समुद्री ब्लबर
scutiger	Bot.	स्कुटीजर	sea board		समुद्र तट
Scutigera	Zool.	स्कुटीजेरा	sea-board city		समुद्र तट शहर
Scutigereffa	Zool.	स्कुटीजेरेला	Seaborg' actinide theory	Chem.	सीबोर्ग ऐक्टिनाइड सिद्धांत
Scutigereffa immaculata		स्कुटीजेरेला इमैक्युलेटा	seaborne commerce		समुद्री वाणिज्य
scutum	Zool., Math., Geol.	स्कूटम	sea bottom		समुद्र तली
scutum adorale		वभिमुख स्कूटम	sea bottom fauna		समुद्र तल प्राणिजात
scutum buccale		मुखी स्कूटम	sea breeze		समुद्र समीर
scutum orale		मुखी स्कूटम	seabreeze front		समुद्रसमीराण
Scylliorhinus	Zool.	स्कीलिओराइनस	sea butterfly		समुद्री तितली
Scyllarus	Geog.	सिलेरस	sea-carrier		समुद्री वाहक
Scylla serrata	Zool.	साइला सेरेटा	sea cave		समुद्री गुफा
Scylliorhinidae	Zool.	स्कीलिओराइनडी	sea cliff		समुद्र भृगु
scyllitol	Chem.	सिलिटाल	sea clutter		समुद्री कोलाहल
scymnol	Chem.	सिमनाल	sea cluch-grass		समुद्री शायी-घास
Scymnosuchus	Zool.	सिमनोसूकस	sea cow		समुद्र गौ, समुद्री गाय
Scypha	Zool.	साइफा	sea crafts		समुद्री नौका
scyphiform	Bot., Zool.	चपकरूप	sea cucumber		समुद्री ककड़ी, सामुद्र ककड़ी
scyphiphorous	Bot.	चपकघर	sea culture		सागर संस्कृति
scyphistoma	Zool.	स्काइफीस्टोमा, चपकास्य	sea density		समुद्र घनत्व
Scyphozoa	Zool.	स्काइफोजोआ	sea depth		समुद्री गहराई
scyphozoan	Zool.	चपकजन्तु	sea disturbance		समुद्री विद्योम
Scyphus	Bot.	साइफस	sea erosion		समुद्री अपरदन, सागरी अपरदन
Scytalia	Bot.	साइटेलिया	sea-fan		समुद्री व्यजन
Scytomonas	Bot.	साइटोमोनास	sea-farer		समुद्र यात्री
Scytonema	Bot.	साइटोनेमा	sea faring		समुद्र यात्रा
Scytonema javanicum		साटोनीमा जैवैतिकम	sea-faring people		समुद्र यात्री
Scytonemine	Bot.	साइटोनेमीन	sea-feu		समुद्री पंक
s-distortion	Phy.	s-विरूपण	sea fisheries		समुद्र मात्स्यकी
sea		सागर, समुद्र	sea fishing caste		सागर मत्स्यग्राही जाति
sea anemone		समुद्री ऐनीमोन	sea-fishing craft		समुद्र मत्स्यन नौयान

sea-fishing gear		सामुद्र मत्स्यन सभार	seal skin	<i>H.Sc., Geog.</i>	शील चर्म
sea floor		समुद्र अधस्तल	seal skin cloth		शील चर्म वस्त्र
sea food		समुद्र आहार, समुद्री खाद्य	seal tank		समुद्र टकी, शील टकी
sea forest		समुद्री वन	seam	<i>H.Sc., Chem. Geol.</i>	1. सीवन 2. सस्तर
sea-fret		समुद्री फ्रेट	seam allowance		सीवन छूट
sea front		समुद्र तटाय	seaman	<i>Geog.</i>	नाविक
sea-going vessel		समुद्री जलयान, समुद्री जहाज	seamanship		नाविक कला
sea gooseberry		समुद्री गुब्बेरी	sea margin		समुद्र छोर
sea grass		समुद्री घास	sea-marsh		समुद्री कच्छ
sea hare		समुद्री खरगोश	sea mass		समुद्र संहति
sea horse		अश्वमीन, समुद्री घोड़ा	sea-mat		समुद्री मैट
sea-hunting activity		समुद्राखेटी क्रिया	seam finish		सीवन परिष्कृति
sea ice		समुद्री बर्फ	sea mile		समुद्री मील
sea kale		समुद्री केन	sea-mill		समुद्र मिल
sea knoll		समुद्र टेकरी	seaming	<i>Chem (Met)</i>	सीवनन
seal	<i>H.Sc., Chem.</i>	1. (vb) बन्द करना, मोहर लगाना, मुह बन्द करना 2 (n) शील, समुद्र सीन	sea-mist		समुद्रो कुहासा
	<i>Zool</i>		seamless steel tube		सीवनहीन इस्पात नली
sea lamprey		समुद्री लैम्प्रे	seamless tube		सीवनहीन नली
sea lavender		समुद्री लैन्ड्रिडर	seam line		सीवन रेखा
sealed	<i>H.Sc.</i>	1. बन्द किया हुआ 2 मुद्रित	seamloe	<i>H.Sc.</i>	सीमलॉक
sealed gear	<i>Chem.</i>	सीलित गिअर	sea monster	<i>Geog.</i>	समुद्री अपरूप प्राणी, समुद्री दानव
sealed relay	<i>Phy.</i>	मुद्रित रिले	sea moss		समुद्री माँस
Sealed-tube reaction	<i>Chem. (Paint)</i>	समुद्रित नाल अभिक्रिया	sea mount		समुद्री टीला, समुद्री गिरि
sealer	<i>Chem.</i>	समुद्रापक	seams	<i>Chem (Net)</i>	सीमान्त, सीवन
sea-lettuce		समुद्री काहू	sea mussel		समुद्री मसल, समुद्री शनु
sea level		समुद्र तल	seance	<i>Geog.</i>	आत्मा आह्वान बैठक
sea-level magneto- meter		समुद्रतल ध्रुवकत्वमापी	sea orange	<i>Bot.</i>	सी ऑरेंज
sea lily		समुद्री लिली	sea otter skin		समुद्री ऊदविलास चर्म
scaling surface		समुद्रण दृष्ट	sea pants		समुद्री पैंट्री
scaling wax	<i>H.Sc.</i>	मोहरी साद्य, मुद्रण नाला	sea peak		समुद्र गिरि शिखर
sea loch		समुद्र खाड़िका	sea pen		समुद्री विच्छक
			sea port		समुद्र पतन, समुद्र बन्दरगाह
			seaquake		समुद्री कम्प
			seaquarium	<i>Zool.</i>	सागरहाला



search		खोज	seasonal grazing	मीसमी पशुचारण
search antenna	<i>Phy.</i>	अन्वेषक ऐन्टेना	seasonal index	ऋतुनिष्ठ सचकांक
search argument	<i>Math.</i>	निष्कासन प्राचल	seasonal indicators	ऋतुनिष्ठ सूचक, मीसमी द्योतक
search coil	<i>Phy.</i>	अन्वेषी कुंडली	seasonal inland waters	ऋतुनिष्ठ अन्तःस्थली जलराशि
searching effort	<i>Math.</i>	खोज प्रयत्न	seasonal migration	ऋतु प्रवास, मीसमी प्रवास
searching gate	<i>Phy.</i>	अन्वेषण द्वार (स्पंद)	seasonal movement	मीसमी उतार-चढ़ाव, ऋतुनिष्ठ उच्चावचन
search light	<i>Phy.</i>	सर्चलाइट	seasonal plankton maxima	ऋतुनिष्ठ प्लवक उच्चिष्ठ
searchlighting		सर्चलाइटन, खोज प्रदीपन	seasonal pond	बरसाती ताल
search light technique		सर्चलाइट तकनीक	seasonal precipitation	मीसमी वर्षण
search problem		खोज समस्या	seasonal rainfall	मीसमी वर्षा
search radar		अन्वेषी रेडार, खोजी रेडार	seasonal societies	ऋतुनिष्ठ समाज
search receiver		खोज संकेत अभिग्राही	seasonal variation	ऋतु विभिन्नता, मीसमी विचरण
search situation		खोज स्थिति	seasonal water	बरसाती जल
search technique		खोज प्रविधि	season cracking	<i>Chem.</i> सीजन क्रीकिंग
search time		खोज काल	seasoned paper	<i>Geog.</i> पका कागज
searing	<i>Chem. (Met.)</i>	ताप चिक्कणन	seasoning (of food)	<i>Chem., H.Sc.</i> परिपक्वन, सीजनिंग, स्वादिष्ट बनाना
Searles lake brine	<i>Chem.</i>	सल्फ सरोवर ब्राइन, सल्फ सरोवर लवण जल	seasoning powder	सीजनिंग चूर्ण
sea scarp		समुद्र कगार	seasoning of wood	काष्ठ संशोषण
seaside		समुद्र तट	season of activity	सक्रियता ऋतु
seaside resort		समुद्र तट विनोदस्थल	sea spider	समुद्री लूता
seaside town		समुद्रतट नगर	sea-spray component	समुद्र-फुहार घटक
sea slug		समुद्री स्लग	sea-squirt	समुद्री स्क्वर्ट
sea smoke		समुद्री धूम	sea stack	समुद्री स्टैक
sea snake		समुद्री सर्प	sea-star	समुद्री तारा
season	<i>Geog.</i>	1. ऋतु 2. सर्वक्षण सीजन	seat cover fabric	<i>H.Sc.</i> सीट आवरण वस्त्र
seasonal		मीसमी, ऋतुनिष्ठ	seat earth	<i>Geol.</i> तल मृदा
seasonal banding		ऋतुनिष्ठ स्तरण	sea temperature	समुद्र ताप
seasonal cycle		मीसमी चक्र	seat of learning	<i>Geog.</i> शिक्षा केन्द्र
seasonal development		ऋतुनिष्ठ परिवर्धन	sea urchin	समुद्री अर्चिन
seasonal estuarine waters		ऋतुनिष्ठ ज्वारनदमुखी जल	sea voyager	समुद्र यात्री
seasonal fluctuation		ऋतुनिष्ठ उच्चावचन, मीसमी उतार चढ़ाव	sea walnut	समुद्री बालनट, समुद्री अक्षोट
seasonal forecasting		ऋतु का पूर्वानुमान		

seaward	<i>Zool., Geog., Geol.</i>	अभिसमुद्र	secondaries	<i>Zool.</i>	गौणपिच्छ
seaward boundary		अभिसमुद्र सीमांत	secondary		द्वितीयक, गौण
seaward migrant		अभिसमुद्र प्रवासी	secondary adaptation		गौण अनुकूलन
seaward migration		अभिसमुद्र प्रवहन	secondary alcohol		द्वितीयक ऐल्कोहॉल
sea-water column		समुद्री जल-स्तम्भ	secondary amoebiasis		द्वितीयक अमीबीयता
sea-water sample		समुद्री जल प्रतिदर्श	secondary annulation		द्वितीयक बलयन
sea wave		समुद्री तरंग	secondary apertural chamber		द्वितीयक छिद्री कक्षिका
seaway		समुद्री मार्ग	secondary axis		गौण अक्ष
sea weed		समुद्री शैवाल	secondary bare area		द्वितीयक अनावृत क्षेत्र
sebacamide	<i>Chem.</i>	सिबैकामाइड	secondary base		द्वितीयक क्षारक
sebacate	<i>Chem.</i>	सिबैकेट	secondary beta ray		द्वितीयक बीटा किरण
sebaceous	<i>Bot.</i>	1. वसासम 2. वसामय	secondary branchia		द्वितीयक बल्लोम
sebaceous gland	<i>Zool.</i>	सेल ग्रन्थि, वसा-ग्रन्थि	secondary branchial rod		गौण बल्लोम दंड
sebacic acid	<i>Chem</i>	सिबैसिक अम्ल	secondary bronchus		द्वितीयक श्वसनी
sebastopol	<i>H.Sc.</i>	सिबैस्टोपोल	secondary capitulum		द्वितीयक मूडक
sebific gland	<i>Zool.</i>	श्लेष्म ग्रन्थि	secondary cell		सहायक सेल, द्वितीयक सेल
sebka (=sebhka)	<i>Geog.</i>	सेबका	secondary circle	<i>Math</i>	सम्बन्धीय वृहत् वृत्त
sebum	<i>Math, Chem</i>	सीबम, त्वग्बसा	secondary circuit		द्वितीयक परिपथ
secant	<i>Math.</i>	1. छेदक, छेदक रेखा 2. सीकेन्ट, व्युत्क्रम कोटिज्या	secondary cold front		द्वितीयक शीत वाताग्र
secant conic projection	<i>Geog.</i>	छेदक शंकु प्रक्षेप	secondary concentric lattice		द्वितीयक सकेन्द्री जालक
secant law	<i>Phy.</i>	सीकेन्ट नियम	secondary constraints		गौण प्रतिबन्ध
secant line	<i>Math.</i>	छेदक रेखा	secondary consumer		द्वितीयक उपभोक्ता
secant method		छेदिका विधि	secondary covert		द्वितीयक देहपिच्छ
secateur	<i>H.Sc.</i>	कलम कैंची	secondary cranium		द्वितीयक कपाल
secluded habitat	<i>Geog</i>	एकान्तावास	secondary creep		गौण सर्पण
seco	<i>Chem.</i>	सेको	secondary crushing plant		द्वितीयक संदलन संयंत्र
secobarbital	<i>Chem.</i>	सेको-बार्बिटॉल	secondary data		गौण उपात
secohmmeter		सेकओममीपी	secondary depression		द्वितीयक अवदाब, अनु-अवदाब, उप-अवदाब
second	<i>Math, Phy.</i>	(n) सेकंड (adj) द्वितीय	secondary displacement		द्वितीयक विस्थापन
second approximation		द्वितीय सन्निकटन	secondary economic activity		गौण आर्थिक सक्रियता
			secondary eddy		द्वितीयक संवर
			secondary electrode		द्वितीयक इलेक्ट्रोड

secondary electron		द्वितीयक इलेक्ट्रान	secondary lower jaw	उप अधोहनु
secondary electron gap loading		द्वितीयक इलेक्ट्रान अंतराल लोडन	secondary maximum	गोण महत्तम
secondary emission		द्वितीयक उत्सर्जन	secondary mesentery	द्वितीयक पट
secondary emission noise		द्वितीयक उत्सर्जन रव	secondary mineral	द्वितीयक खनिज, उत्तरजात खनिज
secondary enrichment	<i>Geol.</i>	उत्तर समृद्धि	secondary non-disjunction	द्वितीयक अवियोजन
Secondary Era		द्वितीय महाकल्प	secondary optic axis	गोण प्रकाशिक अक्ष
secondary excitation		द्वितीयक उत्तेजन	secondary or steady state creep	द्वितीयक या स्थायी दशा विसर्पण
secondary extinction		द्वितीयक विलोप	secondary pairing	गोण युग्मन
secondary feature		गोण लक्षण	secondary palatal plate	गोण तालु पट्टिका
secondary flow		गोण प्रवाह	secondary permeability	द्वितीयक पारगम्यता
secondary focal length		द्वितीयक फोकस दूरी	secondary phase wavelet	द्वितीयक कला तरंगिका
secondary foliation		द्वितीयक शल्कन	secondary phloem	द्वितीयक फ्लोएम, द्वितीयक पोषवाह
secondary fumarole		द्वितीयक वाष्पमुख	secondary planet	द्वितीयक ग्रह
secondary geosyncline		द्वितीयक भू-अभिन्तति	secondary podium	द्वितीयक पद
secondary gill slits		गोण क्लोम-रंघ्र	secondary point	गोण बिन्दु
secondary grid tick		द्वितीय श्रेणी ग्रिड टिक	secondary polyp	द्वितीयक पॉलिप
secondary growth		द्वितीयक वृद्धि	secondary pore canal	द्वितीयक रंघ्रनाल
secondary hardening (secondary hardness)	<i>Chem.(Met.)</i>	उत्तर कठोरीकरण	secondary porosity	द्वितीयक सरंघ्रता
secondary host		गोण परपोषी	secondary positron	द्वितीयक पॉज़िट्रान
secondary hydrothermal deposit		द्वितीयक उष्णजलीय निक्षेप	secondary prevention	द्वितीयक निवारण, द्वितीयक निरोध
secondary identifier		गोण अभिज्ञापक	secondary product	द्वितीयक उत्पाद
secondary impedance		द्वितीयक प्रतिबाधा	secondary production	द्वितीयक उत्पादन
secondary inductance		द्वितीयक प्रेरकत्व	secondary prominence	द्वितीयक सीर ज्वाला
secondary industry		गोण उद्योग	secondary radar	गोण रेडार
secondary inoculum		द्वितीयक संरोप	secondary radiation	द्वितीयक विकिरण
secondary interstice		द्वितीयक अंतरकाश	secondary rainbow	द्वितीयक इन्द्रधनुष
secondary ionization		द्वितीयक आयनन	secondary rays	द्वितीयक किरणें
secondary lamella	<i>Zool.</i> <i>Bot.</i>	उपटल द्वितीयक पटल	secondary reaction	गोण अभिक्रिया
secondary (precision) levelling		द्वितीयक श्रेणी (परिशुद्ध) तलेक्षण	secondary recombination	द्वितीयक पुनःसंयोजन
secondary lineation		द्वितीयक संरेखण, द्वितीयक रेखता	secondary recrystallization	द्वितीयक पुनः क्रिस्टलन
secondary lobe (= minor lobe)		गोण पालि		

secondary response	द्वितीयक अनुक्रिया	secondary yolk cell	द्वितीयक पीतक कोशिका
secondary road	गोण सड़क	second axiom of countability	गणनीयता का द्वितीय अभियुद्धीत
secondary rock	द्वितीयक शैल, अवसादी शैल	second axiom space	द्वितीय अभियुद्धीत समष्टि
secondary root	द्वितीयक मूल	second boiling point	द्वितीय क्वथनांक
secondary segmen- tation	परवर्ती खडोमवन	second breakdown	द्वितीय भंग
secondary sense cell	गोण सवेदी कोशिका	second channel attenuation (=adjacent channle attenuation)	सलगन चैनल क्षोणन
secondary septum	द्वितीयक पट	second channel interference	द्वितीय चैनल व्यतिकरण
secondary septum transversum	द्वितीयक अनुप्रस्थ पट	second countable space	द्वितीय गणनीय समष्टि
secondary sexual character	गोण लैंगिक लक्षण	second cuneiform	द्वितीय कीलकास्थि
secondary sex ratio	द्वितीयक यौन अनुपात	second curvature	द्वितीय वक्रता
secondary shore line	द्वितीयक तट रेखा	second curve	द्वितीय वक्र
secondary slip	द्वितीयक स्पर्षण	second decomposition theorem	आपमन का द्वितीय नियम
secondary soil	गोण मृदा, वाहित मृदा	second derivative	द्वितीय अवकलज
secondary spectrum	द्वितीयक स्पेक्ट्रम	second derivative map	द्वितीय व्युत्पन्न, मानचित्र, द्वितीय व्युत्पन्न मैप
secondary sperm- atocyte	द्वितीयक शुक्राणुकोशिका	second dorsal fin	द्वितीय पृष्ठ पंख
secondary standard	द्वितीयक मानक	second equation of Fick	फिक द्वितीय समीकरण
secondary station with height	ऊचाई सहित गोण चांदा	second filial genera- tion ( $F_2$ )	द्वितीय सतानीय पीढ़ी ( $F_2$ )
secondary steam eruption	द्वितीयक भाप उद्गार	second focal point	द्वितीय फोकस बिंदु
secondary stratifica- tion	द्वितीयक स्तरण	second generation neutron	द्वितीय पीढ़ी का न्यूट्रॉन
secondary suspensor	द्वितीयक निलंबक	second hand furni- ture	<i>H.Sc.</i> पूर्व प्रयुक्त फर्नीचर
secondary symptom	द्वितीयक लक्षण, गोण लक्षण	second harmonic band	द्वितीय संनादी बैंड
secondary tectogene	द्वितीयक विवर्जनवन	second importance	द्वितीय श्रेणी महत्व
secondary triangula- tion	द्वितीय श्रेणी त्रिकोणीयन	second inoculated virus	द्वितीय संरोपित बाइरस, द्वितीयक संरोपित विषाणु
secondary trisomic	द्वितीयक एकरक्षिसूत्री	second law of thermodynamics	द्वितीय ऊष्मागतिकी नियम
secondary twinning <i>Geol.</i>	उत्तर दमलन	second level address <i>Phy.</i>	परोक्ष पता, गोण पता
secondary upper jaw <i>Zool.</i>	उप ऊर्ध्व हनु	second line	द्वितीय फोटि की रेखा
secondary wall	द्वितीयक भित्ति		
secondary wave	द्वितीयक तरंग		
secondary X-rays	द्वितीयक एकत्र किरणें		
secondary xylem	द्वितीयक दाह		

second minor		द्वितीय उपसारणिक	second sound	<i>Phy.</i>	अपर ध्वनि
second neighbour distance	<i>Phy.</i>	द्वितीयस्य प्रतिवेश दूरी	seconds pendulum	<i>Phy., Math.</i>	सेकेन्डी लोलक
second neighbours		द्वितीयस्य पड़ोसी	second system of pulleys		द्वितीय धिरनी निकाय
second order		द्वितीय क्रम (द्वितीय प्रकार का)	second trace echoes		द्वितीय अनुरेख प्रतिध्वनि
second order action	<i>Phy.</i>	द्विकोटि क्रिया	second vertical derivative map		द्वितीय उदग्र व्युत्पन्न मानचित्र, द्वितीय उदग्र व्युत्पन्न मैप
second order difference		द्वितीय घात अन्तर	secor	<i>Phy.</i>	संकार
second-order diurnal lunar potential		द्वितीय कोटि दैनिक चान्द्र विभव	seco silk	<i>H.Sc.</i>	सीको सिल्क
second order effect	<i>Phy.</i>	द्वितीय कोटि का प्रभाव	Secotiaceae	<i>Bot.</i>	सीकोशिएसी
second order galaxy (= hypergalaxy)	<i>Math.</i>	महामंडाकिनी	<i>Secotium agaricoides</i>	<i>Bot.</i>	सीकोशियम एगेरिकाइडीज़
second order iteration	<i>Math.</i>	द्विघाती पुनरावृत्ति	secreta	<i>Bot.</i>	संज्ञाव
second order kinetics		द्वितीय क्रम वलगतिकी	secretin	<i>Zool., Chem., H.Sc.</i>	सेक्रेटिन, स्राविन
second order layer		द्वितीय प्रकार का लीवर	secretinase	<i>Chem.</i>	सेक्रेटिनेस
second order lunar elliptic		1. द्वितीय श्रेणी चान्द्र क्रांति वृत्त 2. द्वितीय श्रेणी चान्द्र दीर्घवृत्तीय	secreting gland	<i>H.Sc.</i>	स्रावी ग्रन्थि
second order phase		द्वितीय कोटि प्रावस्था	secretion		स्राव, स्रवण
second-order phase transition		द्वितीय कोटि प्रावस्था संक्रमण	secretion theory		स्राव सिद्धान्त
second order spectrum		द्वितीय कोटि स्पैक्ट्रम	secretionary structure		स्रावी संरचना
second-order terms		द्वितीय क्रम पद	secretion granule		स्रावी कणिका
second order theory		द्वितीय क्रम सिद्धांत	secretogogue	<i>Chem.</i>	स्राववर्धक
second-order transition		द्वितीय क्रम संक्रमण	secretor gene	<i>Biol.</i>	स्रावी जीन
second order transition point		द्वितीय क्रम संक्रमण बिन्दु	secretory		स्रावी
second order triangulation		द्वितीय श्रेणी त्रिकोणीयन	secretory cycle		स्रावी चक्र
second overtone		द्वितीय अभिस्वरक	secretory duct		स्रावी वाहिनी
second polar body		द्वितीय ध्रुव पिंड, द्वितीय पोलर कोशिका	secretory globule		स्रावी गोलिका
second prothallial cell		द्वितीय प्रोथैलसी कोशिका	secretory tissue		स्रावी ऊतक
seconds	<i>Chem. (Met.)</i>	द्वितीयक	secretory turbine		स्राव नलिका
			secret society	<i>Geog.</i>	गुप्त समुदाय
			sectile		छेद
			section		1. अनुभाग, खण्ड 2. परिच्छेद, काट, सेक्शन
			sectional area		अनुभागीय क्षेत्र
			sectional curvature		परिच्छेद वक्रता

sectionalized vertical aerial (=sectionalized vertical antenna)	<i>Phy.</i>	विभागीकृत ऊर्ध्वधर ऐन्टेना	sector spectrometer		त्रिज्यखंडीय स्पेक्ट्रोमीटर
sectional line of level		परिच्छेदी वल-रेखा	sector speed		त्रिज्य खंड चक्र
sectionally continuous		खंडतः सतत	sector timing track	<i>Math.</i>	खंड काल मापन पथ
sectionally continuous function (=piece-wise continuous function)		खंडत सतत फलन	sector theory	<i>Geog.</i>	सेक्टर थार
sectionally smooth function		खंडत चित्रण फलन	secular		दीर्घकालिक, चिरतन
sectional sketch		परिच्छेद रेखाचित्र, काट रेखाचित्र	secular acceleration		दीर्घकालिक त्वरण
section cutting	<i>Biol.</i>	सेक्शन काटना	secular cooling		दीर्घकालिक शीतलन
section filter	<i>Math.</i>	खंड निस्संरक	secular determinant		दीर्घकालिक सारभिक
sectioning	<i>Geog.</i>	परिच्छेदन (तलेक्षण)	secular equation		दीर्घकालिक समीकरण
section linear		समान्तर रेखिक	secular equilibrium		दीर्घकालिक समुत्पन्न, दीर्घकालिक साम्यावस्था, चिरतन साम्य
section mill	<i>Chem.</i>	परिच्छेद मिल	secular-equilibrium value		चिरतन साम्य मान
section paper	<i>Geog.</i>	साफ पेपर	secularly stable		दीर्घकालिक स्थायी
sector	<i>Zool., Math., Geog.</i>	अवलोक, त्रिज्यखंड, सेक्टर	secular movement		चिरतन गति
sectoral horn		सेक्टरी शृंग, त्रिज्यखंडी शृंग	secular parallax		दीर्घकालिक खंडन
sector display		सेक्टर प्रदर्शन	secular perturbation		दीर्घकालिक विक्षोभ
sectored disc	<i>Phy.</i>	त्रिज्यखंडित डिस्क	secular rise		चिरतन उन्नयन
sector growth		सेक्टर वृद्धि	secular sinking		चिरतन पतन
sectorial cross vein	<i>Zool.</i>	सेक्टर अनुप्रस्थ धिरा	secular stronghold	<i>Geog.</i>	धर्मनिरपेक्ष गढ़
sectorial harmonic		सेक्टरीय हार्मोनिक	secular term		दीर्घकालिक पद
sectorial magnetic field		त्रिज्यखंडी चुम्बकीय क्षेत्र	secular trend		दीर्घकालिक उपनति
sectorial surface harmonic		सेक्टरीय पृष्ठ हार्मोनिक	secular variation		दीर्घकालिक विचरण
sectorial tooth (carnassial tooth)	<i>Zool.</i>	हारक दंत	seculum	<i>Geol.</i>	सेक्यूल
sectoring	<i>Phy.</i>	त्रिज्यखंडन	secund	<i>Bot.</i>	एकपक्षवर्ती
sector of zone	<i>Geog.</i>	कटिबंध खंड	secundibrach	<i>Zool.</i>	द्वितीयपक्षबाहु
sector pulse	<i>Math.</i>	खंड स्पंद	secundine	<i>Bot.</i>	बीजाह भ्रमरकोन
sector scanning	<i>Phy.</i>	त्रिज्य कमबीक्षण	security investment	<i>H.Sc.</i>	विनिधान सुरक्षा
sector spectrographic method		त्रिज्यखंड स्पेक्ट्रोमेट्री विधि, त्रिज्या खंड स्पेक्ट्रोमेट्रिक विधि	security paper	<i>Chem.</i>	सुरक्षा पत्र, सुरक्षा कागज
			security restriction		सुरक्षा प्रतिबंध
			sedative	<i>Chem.</i>	शामक
			Sedentaria	<i>Zool.</i>	सीडेन्टेरिया
			sedentary	<i>Zool., Geol., Geog.</i>	1. स्थानबद्ध 2. अनडू
			sedentary agriculture		स्थानबद्ध कृषि
			sedentary animals		स्थानबद्ध प्राणी
			sedentary benthos		स्थानबद्ध निजसजीव

sedentary deposit		अनूढ़ निक्षेप	sedimentary tuff		अवसादी ढ़्क
sedentary farmer		स्थानवद्ध कृपक	sedimentary vulcanism		अवसादी ज्वालामुखी क्रिया
sedentary fossil		स्थानवद्ध जीवाश्म	sedimentation	<i>Geol.</i>	अवसादन
sedentary life		स्थानवद्ध जीवन	sedimentational feature		अवसादन-लक्षण
sedentary nematode		स्थानवद्ध सूत्रकृमि	sedimentation constant		अवसादन स्थिरांक
sedentary primitive		स्थानवद्ध आदिम	sedimentation diameter		अवसादन व्यास
sedentary primitive culture		स्थानवद्ध आद्य संवर्धन, स्थानवद्ध आद्य संस्कृति	sedimentation equilibrium		अवसादन साम्य
sedentary primitive farmer		स्थानवद्ध आदिम कृपक	sedimentation flux		अवसादन फलवस
sedentary soil		अनूढ़ मृदा, स्थानवद्ध मृदा	sedimentation potential		अवसादन विभव
sedentary spore	<i>Bot.</i>	अक्षेप बीजाणु	sedimentationist	<i>Geol.</i>	अवसादविज्ञानी
sedge	<i>Geog., Bot.</i>	प्रतृण, सेज	sedimentation unit		अवसादन एकक
sedge peat		सेज पीट, प्रतृण पीट	sedimentation velocity		अवसादन वेग
Sedgwick-Rafter cell	<i>Zool.</i>	सैजविक-रैफ्टर विकोश	sedimentologist	<i>Geol.</i>	अवसादविज्ञानी
sediment		तलछट, अवसाद	sedimentology		अवसादिकी, अवसाद विज्ञान
sedimentary		तलछटी, अवसादी	sedoheptulose	<i>Chem.</i>	सीडेहेप्टुलोस
sedimentary clay		अवसादी मृत्तिका	sedormid		सेडॉर्मिड
sedimentary complex		अवसादी संमिश्र	seductory gubernaculi	<i>Zool.</i>	व्यरिक्त अपवाहक
sedimentary cycle		अवसादी चक्र	<i>Sedum spectabile</i>	<i>Bot.</i>	सीडम स्पेक्टैवाइल
sedimentary deposit		अवसादी निक्षेप	Sedum variation		सीडम विविधता]
sedimentary dyke		अवसादी डाइक	seebeck effect		जेबेक प्रभाव
sedimentary environment		अवसादी वातावरण	seed	<i>Bot., Geog. Zool.</i>	बीज पीना (fish)
sedimentary feeding	<i>Zool.</i>	निक्षेप अग्रन	seed-bag	<i>Geol.</i>	सीडबैग
sedimentary injection		अवसादी अंतः क्षेपण	seed blasting		बीज स्फोटन
sedimentary insertion		अवसादी निवेशन	seed-borne	<i>Bot.</i>	बीजोढ
sedimentary-intrusion		अवसादी अंतर्वेधन	seed-borne fungus		बीजोढ कवक
sedimentary mantle		अवसादी प्रावार	seed cake	<i>H.Sc.</i>	सीडकेक
sedimentary petrography		अवसादी शैलवर्णना	seed coat		बीजावरण
sedimentary petrological province		अवसादी शैल-क्षेत्र	seed-fern	<i>Bot.</i>	बीजी पर्णान
sedimentary petrologic province		अवसादी शैल-क्षेत्र	seed fiber		बीज तन्तु
sedimentary petrology		अवसाद-शैलिकी	seed gall		बीज पिटिका
sedimentary rock		अवसादी शैल	seed gall nematode		बीज पिटिका सूत्रकृमि
sedimentary strata		अवसाद स्तर			
sedimentary structure		अवसादी संरचना			

seed-gathering nomad		बीज-संग्राही यायावर	Seessel's pocket	Zool.	सीसेल कोटरिका
seed generation		बीज सतति	seethe	H Sc.	सिमसिमाना
seed hull		बीजावरण, बीज का छिलका	Se-fabric	Geol	Se-सविन्यास
seediness	Chem.	बीजीयता	seger cone	Chem., Geol.	सेगेर शंकु
seeding	Phy.	बीजा रोपण	segetalis	Bot	घान्य क्षेत्रीय
seeding (of cloud)	Phy., Geol	बीजायन, बीजन	seggar (saggar, sagger)	Chem	सैगर, मृत्तिका पेटो
seed lac	Zool Chem.	कण लासा, सीड लैक बीज लासा	segging	Bot.	सैगिंगरोग
seedless orange	Bot.	निर्बीज नारंगी	Seginus ( $\gamma$ -Boötis)	Astron	सिजाइनस (= $\gamma$ बोटिस)
seedling	Bot H Sc.	नवोद्भिद्, पीध, बेहन बीजू, पीद, रोप	segment	Math, H Sc., Phy	1 खंड, 2 मूचनाश
seeding blight		नवोद्भिद् शीर्णता	segmental	Zool.	खंडयुक्त, सखंड
seeding disease		नवोद्भिद् रोग	segmental blood vessel		खंडयुक्त रक्त-वाहिका
seedling stage		नवोद्भिद् अवस्था	segmental duct		खंडीय वाहिनी
seed scale complex	Bot.	बीजाण्ड शल्क सम्मिश्र	segmental gland		सखंड ग्रन्थि
seed setting		बीजस्थापन	segmental mesoderm		खंडीय मध्यजनस्तर
seed sowing		बीज बोना	segmental muscle		सखंड पेशी
seed tick		बीज किलनी	segmental organ		खंडीय अंग
seed transmitted		बीज संचारित	segmental papilla		खंडीय पिप्पल
seed volle	H Sc.	सीड वॉल	segmental plate		खंडीय पट्टिका
seed-wing		बीज-पक्ष	segmental receptor		खंडीय प्राही
seed year	Bot	बीजी वर्ष	segmental receptor organ		खंडीय प्राही अंग
Seelinger's distribution	Math.	सीलिंगर बंटन	segmental vessel		खंडीय वाहिका
Seeman spectroscopie		सीमान स्पेक्ट्रोदर्शी, सीमान स्पेक्ट्रोस्कोप	segmentation	H Sc., Zool.	खंडीभवन
seep	Geog.	सघु स्रोत	segmentation cavity		खंडीभवन गुहा
seepage		1. निस्यदन, अवस्रवण 2. निस्यदन, अवसाव	segmentation point		• खंडीभवन स्थल
seepage flow		निस्यद प्रवाह	segmentation size		खंडीभवन आमाण
seepage supply stream		निस्यद सभरण सरिता	segmented	Zool, Math.	सखंड, खंडित
seepage water		निस्यद जल	segmented animal		सखंड प्राणी
seeped land		निस्यदी भूमि	segmented worm		सखंड कृमि
seeps	Geol.	निस्यद स्थल	segmenter	Zool.	खंडक
seer	Zool.	सुरमई	segmenting movement	Zool.	खंडांज गति
seerhand	H.Sc.	सीरहैंड	segment of a curve	Phy.	वक्र खंड
seerhand muslin		सीरहैंड मडनिन	segment of an ellipse	Phy.	दीर्घवृत्त खंड
seersucker	H.Sc.	सीरसकर	segment of number sequence	Math.	सख्या अनुक्रम का खंड
seesaw	H Sc.	हैकुलो	segovia	H.Sc.	सेगोविया
			segovie	H.Sc.	सेगोवी



segregant	<i>Zool.</i>	विसंयोजक	seismic seawave	भूकम्पी सागरतरंग, भूकम्पी समुद्र तरंग
segregate	<i>Chem.</i>	संपृथकन	seismic shadow zone	भूकम्पी छाया प्रदेश
segregated ethnic group	<i>Geog.</i>	विसंयोजित मानवजातीय वर्ग	seismic surveying	भूकम्पी सर्वेक्षण
segregated oil	<i>Chem.</i> (Paint)	संपृथकित तेल	seismic vertical	भूकम्पी अनुलंब
segregation	<i>Geol.</i> <i>Biol.</i>	संपृथकन विसंयोजन	seismic wave	भूकम्पी तरंग
segregational load		विसंयोजी भार	seismogram	<i>Geol., Geog.</i> भूकम्प अभिलेख
segregation banding		संपृथकन पट्टरचना	seismograph	<i>Geol., Geog.</i> भूकम्प-लेखी
segregation of characters		लक्षण-विसंयोजन	seismographic observation	भूकम्प प्रेक्षण
segregation of craft		शिल्प-संपृथकन	seismographic station	भूकम्पलेखी केन्द्र
segregative division		विसंयोजी विभाजन	seismography	भूकम्पविज्ञान
seiche	<i>Geog., Geol.</i>	सेषा, सरतल दोलन	seismological evidence	भूकम्प सम्बन्धी प्रमाण
Seldel method	<i>Math.</i>	साइडल विधि	seismology	भूकम्पविज्ञान
Seidenberg's procedure	<i>Math.</i>	साइडनबर्ग प्रक्रिया	seismometer	भूकम्पमापी
seidlitz powder	<i>Chem.</i>	सेड्लिट्स चूर्ण	seismometer lens	भूकम्पमापी लेन्स
self	<i>Geol., Geog.</i>	सीफ	seismometer period	भूकम्पमापी अवधि
self dune		सीफ टिब्बा	seismometer spacing	भूकम्पमापी अंतराल
self-dune chain		सीफ-टिब्बा श्रृंखला	seismometer spread	भूकम्पमापी प्रसर
seignette salt	<i>Chem.</i>	सेन्येट लवण	seismometry	<i>Geol., Geog.</i> भूकम्पमिति
seignorial right	<i>Geog.</i>	सामंती अधिकार	seismonastic	कम्पानुकुंचनी
sein	<i>Chem.</i>	मत्स्य जाल, सेन	seismonasty	कंपनाकुंचन
seine net	<i>Zool.</i>	संपाशी जाल	seismoscope	<i>Geol.</i> भूकंपदर्शी, साइसमास्कोप
seine-net catches	<i>Zool.</i>	संपाशी जाल संग्रहण	seistan	<i>Geog.</i> सीस्टन (पवन)
seiner	<i>Zool.</i>	संपाशक	seizure	<i>Geog.</i> अभिग्रहण
seining		संपाशन	sejunction water	<i>Geol.</i> वक्रतलसंधि जल
seiospore	<i>Bot.</i>	सिओदोजाणु, कंप वीजाणु	sel	<i>H.Sc.</i> सेल
seism	<i>Geol., Geog.</i>	भूकम्प	selachian	<i>Zool.</i> उपास्थिमोन, सिलैकियन
seismic		भूकम्पी	Selachii	<i>Zool.</i> सिलैकिआइ
seismic area		भूकम्प क्षेत्र	selacholeic acid	<i>Chem.</i> सेलाकोलिइक अम्ल
seismic detector		भूकंप सूचक	selagine	<i>Chem.</i> सिलैजिन
seismic focus		भूकम्प उद्गमकेन्द्र	Selaginella	<i>Bot.</i> सेलाजिनेला
seismicity		भूकम्पनीयता	Selaginellales	सेलाजिनेललीज
seismic prospecting		भूकम्पी पूर्वक्षण	<i>Selaginella spinulosa</i>	सिलेजिनेला स्पाइनुलोजा
seismic reflection		भूकम्पी परावर्तन	Seleaginellites	<i>Bot.</i> सिलैजिनेलाइटीज
seismic refraction profile		भूकम्पी अपवर्तन प्रोफाइल	selagite	<i>Geol.</i> सेलैगाइट

selago condition	<i>Bot.</i>	सिलेगो अवस्था	selective mining	चरणात्मक खनन
selectance	<i>Phy.</i>	चरणानुपात, चरकत्व	selective permeability	चरणात्मक पारगम्यता
selected		चरित	selective photoelectric effect	चरणात्मक प्रकाशविद्युत् प्रभाव
selected detail	<i>Geog.</i>	विशिष्ट खुना चौरा	selective reduction	चरणात्मक अपचयन, चरणात्मक रिडक्शन
selected range indicator (= C display = C scope)		चरित परिसर सूचक, C-प्रदर्श	selective reflection	चरणात्मक परावर्तन
selection		चरण	selective sorting	चरणात्मक छटाई
selection check		चरण जांच	selective system	चरणात्मक तंत्र
selection gradient		चरण प्रवणता	selective transmission	चरणात्मक प्रेषण
selection pressure		चरण प्रभाव	selective true absorption	चरणात्मक वास्तविक अवशोषण
selection principle		चरण नियम	selective weathering	चरणात्मक अपक्षय
selection rule		चरण नियम	selectivity	<i>Math.</i> चरणशमता
selection sort		चरणात्मक छटाई	selectivity index	<i>Geol.</i> चरणात्मकज्ञातक
selective		चरणात्मक, चरणशम	selector	<i>Math.</i> चरित
selective abrasion		चरणात्मक अपचर्पण	selector circuit	<i>Phy.</i> चरणकारी परिपथ
selective absorption (= selective localization)		चरणात्मक अवशोषण	selector screen	<i>Geol.</i> सेलेक्ट्रो छन्ना
selective calling system		चरणात्मक आह्वान तंत्र	selectron	<i>Phy.</i> सेलेक्ट्रान
selective characteristics		चरणात्मक अभिलक्षण	<i>Selenarctos tibetanus</i>	<i>Zool.</i> सेलेनाक्टोस टिबेटेनस (रीछ)
selective circuit		चरणात्मक परिपथ	selenate	सेल्लिनेट
selective clarification		चरणात्मक स्वच्छन	selenic acid	<i>Chem.</i> सिल्लीनिक अम्ल, सिल्लीनिक ऐसिड
selective dispersion		चरणात्मक वर्ण विसर्पण	selenide	सेल्लिनाइड
selective diagram		चरणात्मक आरेख	seleniferous	<i>Bot, Zool.</i> सेल्लिनियमधर
selective effect		चरणात्मक प्रभाव	seleniform	<i>Zool.</i> पूर्णवन्दरूप
selective exchanger		चरणात्मक विनिमायक	selenious acid	<i>Chem.</i> सिल्लीनियस अम्ल, सिल्लीनियस ऐसिड
selective fading		चरणात्मक क्षयशील्य	selenite	<i>Geol.</i> सेल्लिनारट
selective fertilization		चरणात्मक निर्वहन	selenite plate	सेल्लिनारट पट्टिका
selective grazing		चरणात्मक चारण	Selenium	<i>Chem.</i> सिल्लीनियम
selective grinding		चरणात्मक पेषण	selenium cell	सिल्लीनियम सेल
selective jamming		चरणात्मक संबाधन	selenium oxide	सिल्लीनियम आक्साइड
selective mating		चरणात्मक मैथुन	selenzone	<i>Geol.</i> सेनेनीडोन
selective maturation		चरणात्मक परिपक्वण	seleno	<i>Chem.</i> सिल्लिनो
selective medium		चरणात्मक माध्यम	selenobismutite	<i>Geol.</i> सिल्लिनोबिस्मूटाइट
selective metamorphism		चरणात्मक कायांतरण	selenocentric	<i>Chem., Geog</i> सेंड केन्द्रिक
			selenocyanogen	<i>Chem.</i> सिल्लिनोसायनोजेन

selenodont	Zool.	शशिदंत
selenography	Geol. Geog.,Phy.	चांद्रपृष्ठीकी, चंद्रभूगोल
selenoid	Phy.	सेलेनॉइड
selenoid satellite	Phy.	भूचंद्रबद्ध उपग्रह
selenolinnacite	Geol.	सिलिनोलिनेबाइट
selenolite	Geol.	सिलिनोलाइट
selenology	Geol.,Phy.	चान्द्रिकी
<i>Selenomonas palpitans</i>	Bot.	सैलीनोमोनास पैल्पीटेंस
selenomorphology	Geog.	चन्द्र आकृतिविज्ञान
selenopentathio acid	Chem.	सिलिनोपैन्थायायो अम्ल, सिलिनोपैन्थायायो ऐसिड
selenophen	Chem.	सिलिनोफीन
selenotropism	Bot.	चन्द्रानुवर्तन
selenous acid	Chem.	सिलिनस अम्ल
selenozone	Zool.	चन्द्रमेखला
selensulfur	Geol.	सेलेनसल्फर
self		स्वतः, स्व, स्वयं, आत्म
self absorption		स्व-अवशोषण
self acting		स्वतः क्रिय
self-adjoint		स्वसंलग्न
self-adjoint algebra		स्वसंलग्न बीजावली
self-adjoint differential expression		स्वसंलग्न अवकल व्यंजक
self adjoint operator		स्वसंलग्न संकारक
self-adjusting		स्वतः समंजक
self-adjusting force		स्वसमायोजक बल
self aligning		स्वतः संरेखी
self-annealing		स्वअनीलन
self-baking electrode		स्वसंपाकी इलेक्ट्रोड
self-bias		स्वाभिनति
self capacitance		स्वधारिता
self catalysis		स्वोत्प्रेरण
self-checking code		स्व-जांच कोड
self cleaning grizzly		स्वतः शोधक ग्रिजली
self clinkering generator		स्वतः क्लिंकरण जनित

self clocking recording	स्वतः घड़ी स्पंद अभिलेखन
self collision time	स्वावलंबित संघट्ट काल
self coloured	एक समान वर्णी
self compatible	स्वनिपेच्य
self-conjugate	स्वसंयुग्मी
self-conjugate direc- tion	स्वसंयुग्मी दिशा
self conjugate nucleus	स्वतः संयुग्मी न्युक्लियस
self-conjugate points	स्वसंयुग्मी बिंदु
self conjugate space	स्वसंयुग्मी समष्टि
self-conjugate triangle	स्वसंयुग्मी त्रिभुज
self consistent field	स्वसंगत क्षेत्र
self contained	स्वयंपूर्ण
self-contained agricul- tural village	आत्मनिर्भर कृषि ग्राम
self correcting sample	स्वतः सुधाराक प्रतिदर्श
self-correlation coefficient (=reliability coefficient)	विश्वसनीयता गुणांक
self-corresponding points	स्वसंगत बिन्दु
self-damping	स्व-अवमंदन
self-differentiation	स्वतः विभेदन
self-diffusion	स्व-विसरण
self disruptive	स्वतः विघटी
self-energy	नैज ऊर्जा
self excited distur- bance	स्वोत्तेजित विक्षोभ
self excited dynamo	स्वतः उत्तेजित डायनेमो
self excited oscillation	स्वोत्तेजित दोहन
self-excited vibration	स्वोत्तेजित कंपन
self-exciting dynamo	स्वतः उत्तेजक डायनेमो
self explanatory	स्वतः स्पष्ट
self-extinguishing	स्वशमनी
self fertile	स्वनिपेच्य
self fertilization	स्वनिपेचन
self field of electron	इलेक्ट्रॉन का स्वक्षेत्र
self figure	स्वनिर्मित आकृति

self fluxing iron ore	स्व गानकी लोह अयस्क	self-organizing system	स्वय समरुन्-प्रणाली
self-focussed picture tube	स्वतः क्लोकमित चित्र नलिका	self-orthogonal	स्वताविक्र
self-generating reactor	स्वजनक रिऐक्टर	self-oscillatory valve generator	स्वत दोली वाल्व जनित
self-government	स्वायत्त शासन	self-pollination	स्वपरगण
self guided missile	स्वनिर्देशित मिसाइल	self-potential	Chem., Geol. स्वविभव, स्वजनित विभव
self hardening (= air hardening)	स्वकठोरन (वायु कठोरन)	self-potential curve	स्वजनित विभव वक्र
self hardening steel	स्वतः दृढीभवन इस्पात, स्वतः कठोरी इस्पात	self-preserving solution	स्वपरिरक्षी हल
self-healing capacitor	स्वरोपी सधारित्र	self-pressure broadening	स्वदाब पृथुलन
self-ignition temperature	स्वज्वलन ताप	self-propagating	1 स्वसंचारी 2 स्वप्रजननी
self impedance	स्वप्रतिबाधा	self-propelled oil barge	आत्म-चालित तेल बजर
self incompatible	स्व-अनिषेध्य	self-pruning	सहज पात
self indicating	स्वय सूची	self-pulse modulation	आन्तरिक स्पन्द मांडूलन
self-induced	स्वप्रेरित	self-quenched counter	स्व शामित गणित
self-induced oscillation	स्वप्रेरित दोलन	self-quenching	1 (n.) स्वशमन 2 (adj.) स्वत शामक
self induced pressure gradients	स्वप्रेरित दाब प्रवणता	self-reading rod	स्वयपाठी दण्ड
self-induced vibration	स्वप्रेरित कण	self-recording	स्वनः अभिलेखी
self-inductance	स्वप्रेरकत्व	self-recording aneroid	स्वतः अभिलेखी निर्दंड
self induction	स्वप्रेरण	self-recording mechanism	स्वतः सधो क्रियाविधि
self induction field	स्वप्रेरण-क्षेत्र	self-rectifying net work	स्वतः दिष्टकारी जाल
self infliction	आत्मपीडन	self-rectifying tube	स्वतः दिष्टकारी नलिका
self-information	निजी सूचना	self-registering anemometer	स्वतः अक्षी एनीमोमीटर, स्वतः अक्षी पवनवेगमापी
selfing	स्वनिवेचन	self-registering aneroid	स्वतः अक्षी निर्दंड
self-instructed carry	स्व-अनुदेशित हासिल	self-regulating	स्वतः नियामक
self-interaction	नेत्र अन्तः क्रिया, स्वांतः क्रिया	self regulation	स्वनियमन
self intersection	स्वप्रतिच्छेद	self regulation schedule	स्वनियमन अनुसूची
self-ionization	स्वआयनीकरण	self-renewing	स्वयुनः स्थायी
self-locking nut	स्व-अनुबधक नट	self-renewing aggregate	स्वयुनः स्थायी समूच्चय
self luminous	स्वयदीप्त	self-repair	स्वसन्निभूति
self material strip	स्वपदार्थ पट्टी	self-replacement	स्वप्रतिस्थापन
self modulation	स्वतः मांडूलन	self-replication	स्वप्रतिकरण
self-multiplying effect	स्वगुणन प्रभाव		
self-noise	स्वरव		
self organizing	स्वयं समरुन्क		

self-resetting		स्वतः पुनर्स्थापन	selling price	<i>Math.</i>	विक्रय मूल्य
self-reversal (of line)		स्व-उत्क्रमण	seltzer water	<i>H.Sc.</i>	सेलजर जल
self rising flour		स्वफुल्लक पिष्ट, स्वफुल्लक आटा	seluka	<i>Geog.</i>	सेलूका
self saturating circuit		स्वसंतर्पक परिपथ	seluka cultivation	<i>Geog.</i>	सेलूका कृषि
self-scattering		स्वतः प्रकीर्णन	selva	<i>Bot.</i>	सेल्वा
self-scavenging	<i>Chem.</i>	स्वतः संमार्जन	selvage	<i>Geol.</i> <i>H.Sc.</i>	1. मृदलेप, सेल्वेज 2. किनारा, कन्नी
self seed	<i>Bot.</i>	स्वबीजी	selvedge	<i>Geol.</i>	सेल्वेज
self-setting millstone	<i>Geog.</i>	स्वयं स्थायी पाट	Semacostomeae	<i>Zool.</i>	सिमिऑस्टोमी
self shielding		स्वपरिरक्षी	Semang	<i>Geog.</i>	सैमंग
self starting	<i>Math.</i>	स्वयं प्रारम्भी	Semang arrow		सैमंग तीर
self-sterile	<i>Bot.</i>	स्वबंध्य	Semang shelter		सैमंग आश्रय
self sterility		स्वबंध्यता	semang tribe		सैमंग जनजाति
self-stress	<i>Math.</i>	स्वप्रतिबल	semaphore	<i>Geog.</i>	सेमाफोर
self-stressed structure		स्वप्रतिबलित संरचना	sematic colour	<i>Zool., Bot.</i>	प्रबोधन वर्ण, भयबोधक वर्ण
sell stripe	<i>H.Sc.</i>	स्वनिमित धारी	sematic colouration		प्रबोधन रंजन, भयबोधक रंजन
self-sufficiency	<i>Geog., H.Sc.</i>	आत्मनिर्भरता	semen	<i>Zool.</i>	शुक्र
self-sufficient family		आत्मनिर्भर परिवार	semenlini mucilage	<i>Chem.</i>	सीमेनलिन म्यूसिलेज, सीमेनलिन श्लेष्मक
self-supporting aerial mast	<i>Phy.</i>	स्वावलम्बी ऐन्टेना मस्तूल	semilactive homing	<i>Phy.</i>	अर्धस्वक्रियं अभिलक्ष्यन
self-sustaining	<i>Phy.</i>	स्वपोषी	semilactive population	<i>Math.</i>	अल्प-अर्जक जनसंख्या
self toning paper	<i>Chem.</i>	स्व-छविकर कागज	semiamplexicaul	<i>Bot.</i>	अल्पस्तंभालिपी
self-weighting sample	<i>Math.</i>	स्वतः भारक प्रतिदर्श	semianalytic model	<i>Math.</i>	सामिन्विश्लेषिक निदर्श
self whistle	<i>Phy.</i>	स्वतः सीटी	semi-annual tide	<i>Geol.</i>	अर्धवार्षिक ज्वार-भाटा
seligenin	<i>Chem.</i>	सेलिजेनिन	semi-anthracite	<i>Chem.</i>	सामि-ऐन्थ्रासाइट कोयला, अंश-ऐन्थ्रासाइट कोयला
seligmannite	<i>Geol.</i>	सेलिग्मैनाइट	semi-aposporry	<i>Bot.</i>	अर्ध अपबीजाणुता
selinene	<i>Chem.</i>	सेलिनोन	semiaquatic	<i>Bot., Zool.</i>	अंशजलीय
selinum		सलीनम	semi-arboreal	<i>Bot., Zool.</i>	अंशवृक्षीय, अंशशाखीय
selion	<i>Geog.</i>	सेलियन, माध्यस्य भूमि	semi-arid	<i>Geog., Geol., Bot.</i>	अर्धशुष्क
Sellwanoff reaction	<i>Chem.</i>	सेलिवानॉफ अभिक्रिया	semi-arid grassland		अर्धशुष्क घासस्थल
Sellwanoff's test	<i>Chem.</i>	सेलिवानॉफ संपरीक्षण	semi-arid land		अर्धशुष्क प्रदेश
sellaeform	<i>Zool.</i>	पल्याणरूप	semi-arid soil		अर्धशुष्क मृदा
sellaeformis	<i>Bot.</i>	पल्याणरूप, काठीरूप	semiarid territory		अर्धशुष्क क्षेत्र
sellait	<i>Chem.</i>	सेलाइट	semi-arid wheat land		अर्धशुष्क गेहूं प्रदेश
sella turcica	<i>Zool.</i>	पल्याणिका			
Selleger's reagent	<i>Chem.</i>	सेलेगैर अभिकर्मक			

semiaspero	<i>H.Sc.</i>	सेमिएस्पिरो	<i>semiconductor</i>	<i>Phy.</i>	अर्धचालकी स्वीकारी
semi automatic curve	<i>Geol.</i>	अर्ध स्वरेखित वक्र	acceptor impurity		अपद्रव्य
semi-automatic electroplating	<i>Chem.</i>	अर्धआत्मचालित विद्युत् लेपन	semiconductor diode		अर्धचालक डायोड
semi-automatic press	<i>Chem.</i>	सामि आत्मचालित निषीटक, अथ आत्मचालित प्रेस	semiconductor donor impurity		अर्धचालकी दाता अपद्रव्य
semi automatic system	<i>Math.</i>	सामिस्वचालित दल,	semiconductor photodiode		अर्धचालक प्रकाशिक डायोड
semifaxis	<i>Phy.</i>	अर्धअक्ष	semiconductor rectifier diode		अर्धचालक दिष्टकारी डायोड
semi-Bantu tribe	<i>Geog.</i>	अर्धबन्तु जनजाति	semiconductor rectifier stack		अर्धचालक दिष्टकारी षट्टा
semibatch reactor	<i>Chem.</i>	सामि गण रिएक्टर, अथ गण रिएक्टर	semiconductor rectifier stack arm		अर्धचालक दिष्टकारी षट्टा भुजा
semi-bituminous coal	<i>Chem.</i>	अर्धबिटुमिनी कोयला	semiconductor type		अर्धचालक प्रकार का
semi-bolson	<i>Geog.</i>	अर्ध-बोल्सन	semi-congruent	<i>Chem.</i>	आभास-सर्वापसम
semi-calyciform	<i>Bot.</i>	अर्धचपकरूप	semi-conical	<i>Geog.</i>	अर्धशांकव
semicarbazide		सेमीकार्बेनाइड	semi-conjugate axis	<i>Math.</i>	समुन्मी अर्धअक्ष
semicarbazone	<i>Chem.</i>	सेमीकार्बेनोन	semi-continuity	<i>Math.</i>	सर्तम सातत्य
semicaudate	<i>Zool.</i>	अर्धपुच्छी	semi-continuous drum filter	<i>Chem.</i>	अथ सतत ड्रम निस्पन्दक
semicell	<i>Bot.</i>	कोशिकाध	semi-continuous function	<i>Math.</i>	सामिसंतत फलन
semichelate	<i>Zool.</i>	अधकरवी, अधकीवीय	semi-continuous mill	<i>Chem.</i>	अथ सतत मिल
semichemical pulp	<i>Chem.</i>	अर्धरासायनिक लुगदी, सामि रासायनिक लुगदी	semi-continuum	<i>Math.</i>	सामि सातत्यक
semicircle	<i>Math.</i>	अर्धवृत्त	semicontrolled mosaic	<i>Geog.</i>	अर्धनियन्त्रित मोसेक
semicircular canal	<i>Zool.</i>	अर्धवृत्ताकार नलिका	semi-convergent	<i>Math.</i>	सापेक्ष अभिसारी
semi-circular component	<i>Phy.</i>	अर्धवृत्ताकार घटक	(= conditionally convergent)		
semi-circular error	<i>Math.</i>	अर्धवृत्ताकार त्रुटि	semi-convergent series	<i>Math.</i>	सापेक्ष अभिसारी श्रेणी
semicircular wind-screen	<i>Geog.</i>	अर्धवर्तुल वातरोध	semi-cordate	<i>Bot.</i>	अर्धहृदयाकार
semi-classical		अर्धश्रेण्य	semi-crystal	<i>Chem.</i>	अर्ध-क्रिस्टल
semi-classical theory	<i>Chem.</i>	पुरासम्मत बल्यवाद	semicrystalline	<i>Chem., Geog., Geol.</i>	अथ क्रिस्टली
semiclosed interval	<i>Math.</i>	सामिसंयुक्त अन्तराल	semi-cubical parabola	<i>Phy., Math.</i>	अर्धघन परवलय, सेमी क्यूबिकल पैरबोला
semi-coke	<i>Chem.</i>	अर्ध कोक	semicurtailed inspection	<i>Math.</i>	सामि विरहित विरीक्षण
semi-compact set	<i>Math.</i>	सामिसङ्घृत समुच्चय	semicurtailed sampling	<i>Math.</i>	सामिविरहित प्रतिवचन
semicomplete (= sequentially complete)	<i>Math.</i>	सामिपूर्ण, अनुक्रमतः पूर्ण	semi-cylindrical	<i>Chem.</i>	अर्धवृत्तनाकार, अथ त्रिजिह्वाकार
semi-complex atoms		अर्धवर्तिल परमाणु	semi-dark room	<i>Geog.</i>	अर्धदीप्त कक्ष
semiconductor	<i>Phy.</i>	अर्ध चालक	semidecandrus	<i>Bot.</i>	अर्ध द्केसरी

semidefinite form	<i>Math.</i>	सामिनिश्चित समघात	semi-finished steel	<i>Chem.</i>	अंश परिसञ्जित इस्पात
semi-definite matrix		सामिनिश्चित मैट्रिक्स	semi-fixed point	<i>Math.</i>	सामिनिश्चित बिन्दु
semi-definite quadratic form		सामिनिश्चित द्विघाती समघात	semi-foaming water	<i>Chem.</i>	अंश-फोमक जल
semi-desert	<i>Geog.</i>	अर्ध-मरुस्थल]	semifossil resin	<i>Chem.</i>	अंश जीवाश्म रेजिन
semi-desert sheet		अर्ध-मरुस्थलीय शीट	semifriable	<i>Geol.</i>	अंशतः चूर्णशील, अंशतः चूर्ण्य
semi-desert upland basin		अर्ध-मरु उपरिवेसिन	semifused	<i>Chem.</i>	आंशिक गलित
semi-detached house	<i>Geog.</i>	अर्ध-विलगित घर	semifusinite	<i>Geol.</i>	अंश-पयुञ्जीनाइट
semi-diameter	<i>Geog., Math.</i>	अर्ध-व्यास	semifusion	<i>Chem.</i>	अंशसंगलन, अर्धसंगलन
semi diesel engine	<i>Phy.</i>	अर्ध डीजल इंजन	semigamy	<i>Bot.</i>	अर्धयुग्म, उपयुग्मन
semi-digitigrade	<i>Zool.</i>	अंशांगुलिचर	semi-gelatin	<i>Chem.</i>	अंश-जिलेटिन
semidine rearrangement	<i>Chem.</i>	सेमीडीन पुनर्विन्यास	semigloss	<i>H.Sc.</i>	अर्धचमक
semi-diurnal	<i>Geol., Geog., Math.</i>	अर्ध-दैनिक	semigranular		अंश कणमय
semi-diurnal features		अर्धदैनिक लक्षण	semigraphical solution	<i>Chem.</i>	अर्ध-आलेख-हल
semidiurnal lunar potential		अर्धदैनिक चांद्र विभव	semi-graphitic	<i>Chem.</i>	अंश ग्रेफाइट
semidiurnal luni-solar potential		अर्धदैनिक चांद्रसौर विभव	semigroup	<i>Math.</i>	सामिसमूह
semidiurnal motion		अर्धदैनिक गति	semi-hastatus	<i>Bot.</i>	अर्धकृताकार, अर्धभालाकार
semidiurnal solar potential	<i>Math.</i>	अर्धदैनिक सौर विभव	semiheterotypic division	<i>Bot.</i>	अर्ध-विपम विभाजन
semi-diurnal species		अर्धदैनिक प्रकार	semiheterotypic metaphase	<i>Bot.</i>	अर्ध-विपम मध्यावस्था
semi diurnal tide		अर्धदैनिक ज्वारमाटा	semihot molding	<i>Chem.</i>	अंश तप्त संचन
semi dominance	<i>Bot.</i>	आंशिक प्रभाविता	semi indirect lighting	<i>H.Sc.</i>	अल्प अप्रत्यक्षप्रकाशन
semi drying oil	<i>Chem.</i>	सामि शुष्कन तैल, अंशशुष्कन तैल	semi infinite	<i>Phy.</i>	अर्ध-अनंत
semiduplex operation	<i>Phy.</i>	अर्ध द्वैध प्रचालन	semi infinite band	<i>Math.</i>	साम्यनंत पट्ट
semi-empirical	<i>Phy., Chem, Math.</i>	सामि-आनुभविक, अर्ध आनुभविक	semi-infinite medium		साम्यनंत माध्यम
semi-empirical mass equation		सामि-आनुभाषिक संहति समीकरण	semi-infinite plane		साम्यनंत समतल
semi-empirical theory		सामि-आनुभविक सिद्धांत	semi-infinite plate		साम्यनंत प्लेट, साम्यनंत पट्ट
semien young	<i>H.Sc.</i>	सेमीन यंग	semi infinite solid		साम्यनन्त घन
semi-erect body	<i>Zool.</i>	अंश-ऊर्ध्व काय	semi infinite string		साम्यनन्त डोरी, साम्यनंत रज्जू
semi- external point	<i>Phy.</i>	अर्ध बाह्य बिन्दु	semi-integral	<i>Math.</i>	अर्ध समाकल
semifenestrate	<i>Bot.</i>	अर्ध गवासित	semi interquartile range	<i>Math.</i>	अर्ध अंतश्चतुर्थक परिसर
semifinished product	<i>Geog.</i>	सामिनिर्मित उत्पाद	semi-interval	<i>Math.</i>	साम्यंतराल
			semi-invariant	<i>Math.</i>	सामि निश्चर
			semi-inverse method	<i>Math.</i>	सामिप्रतिलोम विधि

semi killed steel	<i>Chem.</i>	अशहत इस्पात, अर्धहत इस्पात	semimicro-titrimetric analysis	<i>Chem.</i>	अर्धसूक्ष्म-अनुमापनी विश्लेषण
semi-lancolate	<i>Bot</i>	अर्ध मालाकार	semi-migratory	<i>Geog.</i>	अर्ध प्रवासी
semilatin square	<i>Math</i>	अर्ध लैटिन वर्ग	semi minor axis	<i>Math.</i>	अर्धलघु अक्ष
semilatus rectum	<i>Math.</i>	अर्धनाभि लम्ब	semimodule	<i>Math.</i>	सामिप्रतिरूपक
semi-lethal	<i>Zool.</i>	अर्धघातक	semi-monergolic	<i>Phy.</i>	वाँकमी ईधनित
semilinear	<i>Math.</i>	सामिरैखिक	seminal	<i>Zool.</i>	शुक्रिय
semi-linear constitutive equation		सामिरैखिक सरचक समीकरण	seminal bursa		शुक्रिय प्रपुट
semillon	<i>H Sc.</i>	सेमिलन	seminal glomerulus (= seminal vesicle)	<i>Zool</i>	शुक्रगुच्छ (शुक्राशय)
semi-ocular	<i>Bot</i>	अर्धकोणकी	seminal groove		शुक्रिय खाच
semi log paper	<i>Phy</i>	अर्ध-लॉग ग्राफ-पत्र	seminal receptacle (copulatory bursa)	<i>Zool</i>	शुक्राधान (संयुक्त प्रपुटी)
semi-logarithmic chart	<i>Math.</i>	अर्ध लघुगणकीय सचिद, अर्ध लघुगणकीय चाटे	seminal vesicle	<i>Zool</i>	शुक्राशय
semi-logarithmic graph paper		अर्ध-लघुगणकीय ग्राफ-पत्र	seminatural	<i>Geog.</i>	अर्ध प्राकृतिक
semilogarithmic scale		अर्धलघुगणकीय मापक्रम	semi nephrite	<i>Geol.</i>	सेमीनेफ्राइट
semilooper	<i>Zool.</i>	अर्धकुडलक	seminidicolous	<i>Zool.</i>	अशनीडाशयी
semilunar		अर्धचन्द्र	seminidifugous	<i>Zool.</i>	अशनीडापाशयी
semilunar bone	<i>Zool.</i>	नवचन्द्रास्थि	seminiferous	<i>Bot.</i>	बीजधर
semilunar membrane		अर्धचन्द्र झिल्ली	semulferous scale		बीजधर शल्क
semilunar plate		अर्धचन्द्र पट्ट	semulferous tubule	<i>Zool.</i>	शुक्रजनक नलिका
semilunar valve		अर्धचन्द्र कपाटिका, अर्धचन्द्र वाल्व	semi-nomadic Indian	<i>Geog.</i>	अर्ध-चलवासी इंडियन
semimajor axis	<i>Math.</i>	अर्ध दीर्घ अक्ष	semi-nomad pastoralist		अर्धचलवासी पशुचारक, अर्ध खानाबदोश पशुचारक
semimartingale	<i>Math.</i>	सामिमाटिंगेल	seminorm	<i>Math</i>	सामिमानक
semimathematical treatment	<i>Math.</i>	सामिमथितीय विवेचन	seminormal solution		अर्ध नॉर्मल विलयन
semimembranosus	<i>Zool.</i>	सेमीमेम्ब्रेनोस, क्लार्ड पेसी	semi notch		अर्धचन्द्र खाच
semi-metal	<i>Chem.</i>	अर्धधातु, सामिधातु	Semionotidae	<i>Zool.</i>	सेमीओनोटिडी
semimetamorphosis	<i>Zool.</i>	अर्धकायंतरण	Semionotoidea		सेमीओनोटोईडिडा
semi metaphysical	<i>Chem.</i>	तत्व मीमांसाकल्प	semilymph	<i>Zool.</i>	अशर्मरु
semi-metric space	<i>Math.</i>	सामिदूरीक समष्टि	semi-opal	<i>Geol.</i>	रुप-ओपल
semimicroanalysis	<i>Chem.</i>	अशसूक्ष्म विश्लेषण, सामिमाइको विश्लेषण	semiorbicular	<i>Bot.</i>	अर्धवर्तुल
semimicrobalance	<i>Chem.</i>	अश सूक्ष्ममापी तुला, सामिमाइको तुला	semi-order (= partial order)	<i>Math.</i>	आंशिक क्रम
semimicro burette	<i>Chem.</i>	अशसूक्ष्ममापी ब्यूरेट, सामिमाइको ब्यूरेट	semioordered set (= partially ordered set)	<i>Math.</i>	आंशिकत. क्रमित समुच्चय
			semiovsate	<i>Geol.</i>	अर्ध-अवाकार
			semioviparous	<i>Zool.</i>	अर्धवन्ध



semipalmate	Zool.	अर्धजालांगुलीय	semi-ring	Math.	सामिवलय
semiparasite	Zool.	अर्धपरजीवी	semi-ring-porous	Bot.	अर्धवलय छिद्री
semipegmatitic	Geol.	अंशपेग्माटाइटी	semi-savage people	Geog.	अर्ध-वर्बर जन
semipelagic	Zool.	अर्धवेलापवर्ती	semisedentary	Geog., Zool.	अर्धस्थानवद्ध
semipenniform	Zool.	अर्धपिच्छरूप	semi-sedentary collecting population		अर्ध-स्थानवद्ध संग्राही जन
semiperched	Geol.	आस्थित	semisimple algebra	Math.	सामिसरल बीजावली
semipermanent settlement	Geog.	अचिरस्थायी वस्ती	semisimple representation		सामिसरल निरूपण
semipermeable barrier	Geol.	अपारगम्य रोधिका	semi-simple ring		सामिसरल वलय
semipermeable membrane	Zool.	अर्धपारगम्य झिल्ली	semi-solid angle	Phy.	गोलाधर्ध घन कोण
semipermeability	Bot., Geol.	अर्धपारगम्यता, अपारगम्यता	semisolid medium	Bot.	अर्धघन माध्यम
semiperspective projection	Chem.	अंशसंदर्श प्रक्षेप	semi-sphere	Math.	गोलाधर्ध
semipetrified	Bot.	अर्धलज्जमीभूत	semisplint coal	Geol.	अल्पपटलित कोयला
semiplacenta	Zool.	अर्धखपरा	semi standard resistance	Phy.	अर्धमानक प्रतिरोध
semi-plantation agriculture	Geog.	अर्ध रोपण कृषि	semi-stationary state	Chem.	अंशस्थायी अवस्था
semiplantigrade	Zool.	पादतलांशचर	semi-steel	Chem.	अंश इस्पात
semiplume	Zool.	अर्धपिच्छक	semisterile	Zool.	अंशवर्धय
semi polar bond		अर्ध ध्रुवीय बंध	semisterility		अंशवर्धयता
semi polar double bond		अर्ध ध्रुवीय द्विवंध	semistor	Phy.	सेमिस्टर
semiporcelain	H.Sc.	अर्धपाँसलेन	semi-strong interaction	Phy.	वांशिक प्रबल बन्धोन्न क्रिया
semipositive mold	Chem.	अंशधन संच	semisymmetric connection	Math.	सामिसममित संबंधन
semiprecious stone	Geol.	अल्पमूल्य रत्न	semitabular	Geol.	अर्धसपाट
semiprotostelic	Bot.	अर्धादिर्भू	semitendinosus	Zool.	सेमीटेंडिनोसस, कडराधर्ध पेशी
semi-quantitative	Math.	सामिमात्रात्मक, सामिपरिमाणात्मक	semi-terrestrial	Zool.	अंश स्थलीय
semiquinone	Chem.	सेमी-क्विनोन	semi-theoretical	Phy.	अर्ध सैद्धान्तिक
semi-range	Math., Geog.	अर्ध परिसर	semitic blood	Geog.	सेमाइटी रक्त
semirefined	Chem.	अंशपरिष्कृत	semitone		अर्धटोन
semireflexive space	Math.	सामिस्वतुल्य समष्टि	semi transparent	H.Sc., Phy., Geog.	अर्धपारदर्शी
semiregular red star	Math.	सानिनिवमित रक्त तारा	semi-transparent mirror		अर्ध-पारदर्शक दर्पण
semiremote control	Phy.	वांशिक सुदूर नियंत्रण	semi-transverse axis	Math.	अर्ध-अनुप्रस्थ अक्ष
semireniform	Bot.	अर्धवृक्करूपी	semivagrant	Bot.	अर्ध जंगम
semi-rep	H.Sc.	सेनिरप	semi valve		अर्धचन्द्र वाल्व
semi-revolution	Geog.	अर्ध-परिक्रमण	semi vertical angle	Math.	अर्ध शीर्ष कोण

semi-verticillate	Bot.	अर्धचक्रकी	senkung	Geog.	सेकग (अवतलन)
semivolcanic eruption	Geol.	कूटज्वालामुखीय विस्फोट	senna	Chem.	सनाय, सेन्ना
semiwatergas	Chem.	अध भाप अगार गैस	senna rug	H.Sc.	सेन्ना रग
semiweighted code	Math.	सामिभारित कूट	Senn vanner	Geol.	सेन वैनर
semi wilding	Bot.	अर्ध वन्य	sens ampli	Bot.	ष्या अर्ध (ध्यापक अर्ध में)
semmel	H.Sc.	सेमेल	sensation	H.Sc., Phy.	सवेदन, सवेद
semolina	H.Sc.	सूजी	sensation level		सवेदन-सत
sempatic	Geol.	समक्रिस्टलकाची	sensation unit	Chem.	सवेदन यूनिट
Semper's rib	Zool.	सेम्पर पर्शुका	sense	Phy., Zool., H.Sc.	1 सवेद 2 हानेन्द्रिय 3. अभिदिशा
sempervirens	Bot.	नितहरित	sense antenna		अभिदिशा ऐन्टेना
semseyite	Geol.	सेम्सेयाइट	sense bud		सवेदी कलिका
senalite	Geol.	सेनाइट	sense cell		सवेदी कोशिका
senarmontite	Geol.	सेनार्मोंटाइट	sense-cell process		सवेदी कोशिकावर्ध
send	Geog.	सेंड, उदावन	sense finder		अभिदिशा प्रापक
sending-end impedance	Phy.	निवेश टर्मिनल प्रतिबाधा	sense finding		अभिदिशा प्रापण
sendout	Chem.	प्रदत्त	sense indicator		अभिदिशा सूचक
Senzimir mill	Chem.	सेन्डज़ीमीर मिल	sense of touch		स्पर्श इन्द्रिय
Senzimir process		सेन्डज़ीमीर प्रक्रम	sense papilla		सवेद विप्यन
<i>Senebiera pinnatifida</i>	Bot.	सेनेबिएरा पिनेटीफिडा	sense plate		सवेद पट्टिका
senecio		सिनेसियो	sense receptor		सवेद घाही
senecioic acid	Chem.	सिनेसियोइक अम्ल, सिनेसियोइक एसिड	sense research		अभिदिशा प्रापण
Senegal silk	H.Sc.	सेनेगल रेशम	sense switch		सवेदन स्विच
senescence		जोर्णता	sense vesicle		सवेदी बालय
senescent		जोर्णमान	<i>Senebiera roxbur-</i> <i>ghiana</i>	Bot.	सेन्सेबिएरा रॉबर्स- बर्गियाना
senescent desert	Geog.	जोर्णमान मरुस्थल	sensibamine	Chem.	सेंसिबेमीन
senile	Geog., Geol., Bot.	जोर्ण (अवस्था)	sensible atmosphere	Phy.	प्रभावी वायुमंडल
senile form		जोर्ण आकृति	sensible communica- tion of heat	Chem.	अभिद्यम्य उष्मा संचारण
senile river		जोर्ण नदी	sensible error		अभिद्यम्य त्रुटि
senile stream		जोर्ण सरिता	sensible heat	Chem.	सवेद ऊष्मा
senile topography		जोर्णस्थलाकृति	sensible horizon	Geog.	दृश्य क्षितिज
senile town		जोर्ण नगर	sensible intensity scale		सवेद-क्षेत्रता मापनी
senility		जोर्णता	sensible temperature		सवेद तापमान
senke	Geog.	गर्त	sense-impression	Math.	सवेदना
senken	Geog.	सेकन (घाबेन)			

sensillum	<i>Zool.</i>	संवेदक	sensitivity	1. सुग्राहिता, सूक्ष्मग्राहिता 2. संवेदनशीलता
sensilla	<i>Zool.,H.Sc.</i>	संवेदिका	sensitivity analysis	सुग्राहिता विश्लेषण
sensilla ampullacea		तुंबिका संवेदिका	sensitivity curve	सुग्राहिता वक्र
sensilla basiconica		शंकुवत् संवेदिका	sensitivity drift	सुग्राहिता अपवाह
sensilla chaetica		धूक संवेदिका	sensitivity of a chart	संचित्र की सुग्राहिता
sensilla coeloconica		कीलक संवेदिका	sensitivity selector-switch	सुग्राहिता वरिष्ठ स्विच
sensilla optica		पट्ट संवेदिका	sensitivity time control	1. सुग्राहिता काल नियंत्रक 2. सुग्राहिता काल नियंत्रण
sensilla placodea		दृक् संवेदिका	sensitivity to radiation	विकिरण-सुग्राहिता
sensilla pouch		संवेदिका कोष्ठ	sensitization	<i>Phy.,Chem.</i> सक्रियकरण <i>Zool.</i> संवेदनीकरण
sensilla styloconica		कृणिका संवेदिका	sensitization fluorescence	सक्रियकृत प्रतिदीप्ति
sensilla trichoidea olfactoria		घ्राण रोमाभ संवेदिका	sensitize	<i>Chem.,Phy.</i> सुग्राहीकरण
sensing elements	<i>Geol.</i>	सुग्राही अवयव	sensitized delayed fluorescence	सुग्राहित विलंबित प्रतिदीप्ति
sensing time	<i>Math.</i>	संवेदन काल	sensitizer	सुग्राहीकर
sensitised	<i>Phy.,Geog.</i>	सुग्राहीकृत	sensitizer molecule	सुग्राहीकर अणु
sensitised collodion	<i>Geog.</i>	संवेदनशील कॉलोडियन	sensitizing pulse	सुग्राहीकर स्पंद
sensitised surface		सुग्राहीकृत पृष्ठ	sensitol red	<i>Chem.</i> सेन्सिटॉल रेड, सेन्सिटॉल रक्त
sensitiser	<i>Geog.</i>	संवेदक	sensitometer	<i>Phy.,Geog.</i> सुग्राहितामापी
sensitive	<i>Phy.,Zool.</i>	सुग्राही, सूक्ष्मग्राही, संवेदनशील, संवेदी	sensitometric effect	सुग्राहितामापी प्रभाव
sensitive altimeter	<i>Geog.</i>	संवेदन-सुंगता मापी	sensitometric speed	सुग्राहितामापी क्षिप्रता
sensitive area		सुग्राही क्षेत्र	sensitometry	<i>Geog.,Phy.</i> सुग्राहितामापी, संवेदितामिति
sensitive balance		सुग्राही तुला	sensor	<i>Phy.</i> संवेदक
sensitive film		सुग्राही फ़िल्म	sensoria	<i>Zool.</i> संवेदक्षयल
sensitive flame		ध्वनिग्राही दीप शिखा, ध्वनिग्राही ज्वाला	sensorium	<i>H.Sc.</i> संवेदी क्षेत्र, संवेदनालय
sensitive index		सुग्राही सूचकांक	sensory	<i>Zool.,H.Sc., Geol.</i> संवेदी
sensitiveness	<i>Geog.</i>	1. सुग्राहिता, सूक्ष्मग्राहिता 2. संवेदनशीलता	sensory cell	संवेदी कोशिका
sensitive paper		सुग्राही पत्र	sensory cilia	संवेदी पदमाभ
sensitive plant	<i>Bot.</i>	लाजवंती, छुईमुई	sensory fibre	संवेदी तंतु
sensitive prices	<i>Math.</i>	संवेदी मूल्य	sensory hair	संवेदी रोम
sensitive reaction		सूक्ष्मग्राही अभिक्रिया	sensory lappet	संवेदी पल्लवान
sensitive strain		संवेदी विभेद		
sensitive test		सुग्राही परीक्षण		
sensitive time		सुग्राही काल		
sensitive tint		संवेदी वर्ण		
sensitive volume		सुग्राही आयतन		
sensitive zone		सुग्राही अंचल		

sensory mechanism		संवेदी क्रियाविधि
sensory nerve		संवेदी तंत्रिका
sensory nerve cell		संवेदी तंत्रिकाकोशिका
sensory neuron		संवेदी तंत्रिकाकोशिका
sensory organ		संवेदी अंग, ज्ञानेन्द्रिय
sensory path		संवेदन पथ
sensory recess		संवेदी प्रतिसार
sensory unit	H Sc	संवेदी यूनिट, संवेदी एकक
sentimental	H.Sc.	भावुक
sentinel	Phy.	प्रहरी
sentinel card		प्रहरी कार्ड
sentinel data		प्रहरी दत्त
sentinel pyrometer		सतरी उत्तममापी
sepal	Bot., H.Sc.	बाह्य दल
sepalody		बाह्यदलरूपण
sepaloid		बाह्यदलम
separability	Math., Phy., Geol.	पृथक्करणयोग्यता
separability degree		पृथक्करणीयता की मात्रा
separable		पृथक्करणीय
separable algebraic closure		पृथक्करणीय बीजीय संवरक
separable constraints		पृथक्करणीय प्रतिबंध
separable element		पृथक्करणीय अवयव
separable factor of the degree n		n की घात का पृथक्करणीय घटक
separable field extension		पृथक्करणीय क्षेत्र विस्तार
separable parameter		पृथक्करणीय पैरामीटर
separable polynomial		पृथक्करणीय बहुपद
separable space		गणनीय सघन समष्टि
separable splitting field		पृथक्करणीय विभाजक क्षेत्र
separably generated	Math	पृथक्करणीयत जनित
separated configuration	Phy	पृथक्कृत विन्यास
separated doublet		अतसली द्विक लेन्स
separated elements		पृथक्कृत अवयव
separated milk	H Sc.	सप्रेटा दूध (सघनित दूध)
separated sets		पृथक्कृत समुच्चय

separate function		पृथक् फलन
separately continuous map		पृथक् सतत प्रतिचित्र
separately equicontinuous map		पृथक् समतत प्रतिचित्र
separate outline		पृथक् रूपरेखा
separating column	Phy	पृथक्कारी स्तंभ
separating element		पृथक्कारी तत्व, पृथक्कारी अवयव
separating funnel		पृथक्कारी नीप, पृथक्कारी फनेल
separating interface		पृथक्कारी अंतरापृष्ठ
separating transcendence bases		पृथक्कारी अबीजीयता आधार
separation		1 पृथक्करण, पृथक्करण 2. पार्थक्य 3 अंतराल
separation axiom		पार्थक्य अभिगृहीत
separation coefficient		पृथक्करण गुणांक
separation condition		पार्थक्य प्रतिबंध
separation constant		पृथक्करण स्थिरांक
separation disc		पृथक्कारी डिस्क
separation energy		पृथक्करण ऊर्जा
separation factor		पार्थक्य गुणक
separation filter		पृथक्करण फिल्टर
separation loss	Phy.	अंतरालजन्य हानि
separation method		पृथक्करण विधि
separation of boundary layer		परिसीमा पृष्ठ का पृथक्करण
separation of events		घटना पृथक्करण
separation of isotopes		समस्थानिक पृथक्करण
separation of variables		चर पृथक्करण
separation potential		पृथक्करण विभव
separation symbol		पृथक्करण प्रतीक
separation theory		पार्थक्य सिद्धांत
separation velocity		पार्थक्य वेग
separative efficiency		पृथक्करण दक्षता
separative element		पृथक्करण अवयव
separative power		पृथक्करण शक्ति

separative work content		पृथकन कार्यमात्रा	septarian texture		पटीय गठन, पटमय गठन
separator	Chem., H.Sc.	पृथक्कित, पृथक्कारी	septarium	Geol.	सेप्टेरियम, पटग्रंथिका
separatory coefficient		पार्थक्य गुणांक	septasomic	Zool.	पंचाधिसूत्री
separatory funnel		पृथक्कारी फनेल, पृथक्कारी कीप	septate	Biol.	पटयुक्त
Sepia	Zool.	सीपिया	septation	Bot.	पटीकरण
<i>Sepia aculeata</i>		सिपिया एक्यूलिएटा	septet	Phy.	सप्तक
<i>Sepia cultrata</i>		सीपिया कलट्रेटा	septibranch	Zool.	पटक्लोमी
sepia negative	Chem.	सीपिया नैगेटिव	Septibranchiata	Zool.	सेप्टीब्रैकिएटा
<i>Sepia officinalis</i>		सीपिया औफिसिनेलिस	septic	Bot.,H.Sc.	पूतीभूत, सजर्म, पूति-
<i>Sepia rouxii</i>		सीपिया राँक्साइ	septicemia	Zool.	पूतिजीवरक्षता, सेप्टिसीमिया
sepia switch	Phy.	सीपिया स्विच	septicemic plague		पूतिजीवरक्षती प्लेग
sepicola	Bot.	प्राचीरवासी, वाड़ावासी	septicidal	Bot.	पट विदारक
<i>Sepiella inermis</i>	Zool.	सीपिएला इनरमिस	septic tank	Geog.	सैप्टिक टैंक
sepiolite		सीपियोलाइट	septifolious	Bot.	सप्तपर्णी
<i>Sepioteuthis , arctipinnis</i>	Zool.	सीपियोट्यूथिस आर्क्टिपिन्निस्	septifragal	Bot.	पटभंजक
sepsis	Bot.	पूतीभवन, सजभंता	septimid	Bot.	सप्तखंडीकृत
sept	Geog.	वंश	septinary number	Phy.	सप्तधाधारी संख्या
septal	Bot.,Zool., Geol.	पटीय	septmoncel	H.Sc.	सेप्टमॉसेल
septal excretory canal		पटीय उत्सर्गी नाल	septobasidium	Bot.	सैप्टोबेसीडियम
septal filament		पटीय तंतु	septode	Phy.	सेप्टोड
septal flap		पटीय फ्लैप	<i>Septogloem mori</i>	Bot.	सेप्टोग्लियम मोराइ
septal muscle		पटीय पेशी	septointestinal vessel	Zool.	पटंत्रीय वाहिका
septal neck		पटीय ग्रीवा	septo-maxillary	Zool.	सैप्टोमैक्सिलरी, पटजंभिका
septal nephridium		पटीय वृक्कक	septonephridial branch	Zool.	पटवृक्कक शाखा
septal node		पटीय पर्वसंधि	<i>Septoria piricola</i>	Bot.	सेप्टोरिया पिरिकोला
septal ostium		पटीय व्यास्य	septulum	Zool.	पटिका
septal retractor muscle		पटीय आकुंचक पेशी	septum	Bot.,Phy., Zool.,Geol.	1. पट 2. विभाजिका 3. छिद्रित झिल्लिका
sepia ovarii	Zool.	अंडाशय पट	septum lucidum		पारदर्शी पट, सेप्टम लूसिडम
septaploid	Zool.	सप्तगुणित	septum mediale	Zool.	मध्य पट
septarian structure	Geol.	पटमय संरचना, पटीय संरचना	septum primum		आदि पट
			septum principale		प्रमुख पट
			septum transversum		अनुप्रस्थ पट
			sepulchral monument	Geog.	समाधि स्मारक
			sepulchral mound		समाधि टीला

sepulchre	<i>Geog</i>	समाधि	sequentially compact	अनुक्रमशः सहत
sequanian type	<i>Geog</i>	सीक्वेनियन प्रकार	sequentially complete space	अनुक्रमतः पूर्ण समष्टि
sequence		अनुक्रम	sequential operation	अनुक्रमिक सञ्चालना
sequence chart		अनुक्रम सचित्र	sequential plan	अनुक्रमिक आयोजना
sequence checking route		अनुक्रम जाच रेषिका	sequential sampling	अनुक्रमिक प्रतिचयन
sequence of operation		सञ्चालना अनुक्रम	sequential sampling inspection plan	अनुक्रमिक प्रतिदर्शी निरीक्षण आयोजना
sequence of points		बिन्दु-अनुक्रम	sequential scanning	अनुक्रमिक क्रमबोधन, उत्तरीत्तर क्रमबोधन
sequencer	<i>Phy</i>	अनुक्रमक	sequential stochastic programming	अनुक्रमीय प्रभाव्य प्रोग्रामन
sequence relay		अनुक्रम रिले	sequential test	अनुक्रमिक परीक्षण
sequence-set		अनुक्रम समुच्चय	sequential transmission	अनुक्रमिक सञ्चरण
sequence switch		अनुक्रम स्विच	sequential zone	अनुक्रमिक जोन
sequence theory		अनुक्रम सिद्धान्त	sequent occupance	अनुक्रम अधिष्ठान
sequencer timer		अनुक्रम कालिक	sequester	<i>Chem</i> प्रच्छादन
sequencing	<i>Math, Phy.</i>	अनुक्रमण	sequestering agent	<i>Chem.</i> प्रच्छादक
sequencing pulse		अनुक्रमक स्पन्द	sequestration	<i>Chem, H Sc</i> 1 प्रच्छादन 2 विविक्तीभवन
sequencing research		अनुक्रमण अनुसन्धान	sequestrane	<i>Chem.</i> मिक्वेस्ट्रीन
sequencing theory		अनुक्रमण सिद्धान्त	S-equivalence	<i>Math.</i> S-सुल्यता
sequent	<i>Geol.</i>	अनुवर्ती	Sequoia	<i>Bot</i> मिक्वोआ
sequent geosyncline		अनुवर्ती भूअभिनति	<i>Sequoia gigantea</i>	<i>Bot.</i> सिक्वोआ जाइगेन्टिया
sequential		अनुक्रमिक	<i>Sequoia sempervirens</i>	<i>Bot</i> सिक्वोआ सेम्पर्वीरेंस
sequential-access storage		अनुक्रमिक-अभिव्ययता सञ्चय	serac	मिरेक
sequential analysis		अनुक्रमिक विरूपण, सीक्वेन्सल विरूपण	seral	क्रमकी
sequential attributes plans		अनुक्रमिक गुण आयोजना	serape	<i>H.Sc.</i> सेपे
sequential chronological scale		अनुक्रमिक कालानुक्रम भाषणी	Serber force	<i>Phy.</i> सर्वर बल
sequential colour television		अनुक्रमिक रंगीन टेलीविजन	serotimax	<i>Bot</i> क्रमोत्तरम
sequential compactness		अनुक्रमीय सहतता	serre	<i>Bot.</i> क्रमक
sequential computer		अनुक्रमिक अभिकल्पित	serch disease	<i>Bot</i> मेरे रोग
sequential control		अनुक्रमिक नियन्त्रण	sercin	<i>Geog</i> सेरेन, निरघ्न साध्यवृष्टि
sequential decision model		अनुक्रमिक निर्णय निदर्शन	serenata	<i>H Sc.</i> सेरेनाटा
sequential estimation		अनुक्रमिक आकलन	serendibite	<i>Geol.</i> मेरेन्डिबाइट
sequential form		अनुक्रमिक रूप	Serer	<i>Geog.</i> मेरर (जलमार्ग)
sequentially closed set		अनुक्रमतः सञ्चय समष्टि	serf	<i>Geog.</i> दास
			serfdom	<i>Geog.</i> दासता

Sergestes	Zool.	सर्जेंस्टीज	sericite phyllite		सेरिसाइट फाइलाइट
serge	H.Sc.	सर्ज	sericization	Geol.	सेरीसाइटन
serge yarn		सर्ज सूत्र	sericulture	Bot.,Zool.	रेशम कीटपालन
serial		क्रमिक, अनुक्रमी	series	Geog.,Phy.	1. श्रेणी
serial access		क्रमिक अभिगम		Math.,Geol.	2. माला
serial-access memory		क्रमिक अभिगम स्मृति		Chem.	3. सीरीज (मानचित्र)
serial adder		क्रमिक संकलक	series analysis		श्रेणी विश्लेषण
serial arithmetic unit		अनुक्रमी अंक-तर्क अनुभाग	series connection		श्रेणी संबंधन
serial by bit		बिट अनुक्रमी	series current		श्रेणी धारा
serial by character		संप्रतीक अनुक्रमी	series dynamo		श्रेणी कुंडलित डायनेमो
serial by word	Phy.	शब्दानुक्रमी	series expansion		श्रेणी प्रसार
serial correlation		श्रेणीगत सहसंबंध	series expansion method		श्रेणी प्रसार विधि
serial covariance	Math.	श्रेणीगत सहप्रसरण	series-fed vertical antenna		श्रेणीपोषित ऊर्ध्वाधर ऐन्टेना
serial digital computer		अनुक्रमिक अंक अभिकलित्र	series feed		श्रेणी भरण
serial homology		क्रमिक समजातता	series head		श्रेणी शीर्ष
serial map		अनुक्रम मानचित्र	series impedance		श्रेणी प्रतिबाधा
serial memory		अनुक्रमी स्मृति	series limit		श्रेणी सीमा
serial operation		अनुक्रमिक प्रचालन	series modulation	Phy.	श्रेणीवद्ध माँडुलन
serial parallel		युगपद अनुक्रमिक	series motor		श्रेणी कुंडलित मोटर
serial profile		संक्रम परिच्छेदिका	series of map		मानचित्र सीरीज
serial programming		अनुक्रमिक प्रोग्रामन, एकैक अनुदेश प्रोग्रामन	series of spectral lines		स्पेक्ट्रम रेखा श्रेणी
serial scan		क्रमिक क्रमवीक्षण	series of transfinite type		परिमितातीत श्रेणी
serial section		क्रमिक काट	series-parallel con- nection		श्रेणी-पार्श्व संबंधन
serial sorting		क्रमिक छंटाई	series peaked arrang- ement		श्रेणी शिखरित व्यवस्था
serial storage		अनुक्रमी संचय	series peaking system		श्रेणी शिखरन तंत्र
serial transfer		अनुक्रमी स्थानान्तरण	series refrigeration	Phy.	सोपानी प्रशीतन
serial transmission		अनुक्रमी संचरण	series resonance		श्रेणी अनुनाद
seriate	Bot.	1. पंक्तिवद्ध	series shunt peaked system		श्रेणी शंट शिखरित तंत्र
	Geol.	2. कणक्रमी	series spectrum		श्रेणी स्पेक्ट्रम, श्रेणी वर्णपट
seriate fabric		कणक्रमी संविन्यास	series stabillization		श्रेणी स्थायीकरण
seriate texture		कणक्रमी गठन	series term	Chem.	अचर पद
sericeous	Bot.	मृदुलीनी			
sericin	H.Sc.	सेरिसिन			
sericite	Chem.,Geol.	सेरिसाइट			

series termination effect		श्रेणी समापन प्रभाव	serpentine asbestos		सर्पेन्डीन ऐस्बेस्टोस
series termination error		श्रेणी समापन त्रुटि	serpentine crepe		सर्पेन्डीन क्रेप
series winding		श्रेणी कुडलन	serpentine form		सर्पिल आकृति
series wound		श्रेणी कुडलित	serpentine marble		सर्पेन्डीन सगमरमर
serigraph	Chem	1. कौशेय चित्र 2. कौशेय निरूपित	serpentine movement		सर्पिल गति
serigraphy		कौशेय चित्रण	serpentinite	Geol.	सर्पेन्डीनाइट
serine	Chem, Bot, H Sc.	सेरीन	serpentinization	Geol.	सर्पेन्डीनवन
Serini reaction	Chem.	सिरिनी अभिक्रिया	serpentinous	Geol.	सर्पेन्डीनी
serir	Geog.	सेरिर	serpent star	Zool	सर्प तारा
sero-amniotic connection	Zool	सीरम-उल्ब संबंध	serpex	Chem.	सर्पेस
sero-amniotic space		सीरम-उल्ब अवकाश	serpierite	Geol.	सरपिएराइट
serological	Bot, Zool	सीरमसंबंधी	serpophite	Geol	सर्पोफाइट
serological differentiation		सीरमीय विभेदन	Serpula	Geol.	सर्पुला
serologically	Zool	सीरमत	Serpula gordialis	Zool.	सर्पुला गार्डिएलिस
serological method		सीरमीय विधि	serpulle	Geol.	सर्पुलाइट
serological test		सीरमीय परीक्षण	serra = sierra	Geog.	सेरा (पर्वत श्रेणी)
serology	Bot.	सीरमविज्ञान	Serrasalmus	Zool.	सेरासेल्मस
serosa	Zool.	सिरोसा, लसीकला	serrasoid modulator		ऋकचीय मॉड्युलर
serosal cuticle		लसीकला-क्यूटिकल	serrate		ऋकची
serotilus	Bot.	विलम्ब स्फुट्टी	serrate antenna		ऋकची श्रुंगिका
serotinal	Bot	उत्तरार्द्ध	serrated lid		ऋकचित पिमान, ऋकचित ढक्कन
serotinus	Bot.	श्रद्धु अतिक	serrated pulse	Phy.	दन्तुरित स्पंद
serotonin	Chem.	सिरोटोनिन	serrated range		दन्तुर पर्वत श्रेणी
serotype	Zool.	सीरमप्रकार	serrated range rings		दन्तुरित दूरी श्रृंखला
serous	Zool., H Sc.	सीरमी	serratifolius	Bot.	ऋकचरण्णी
serous pericardium		सीरमी हृदयावरण	serration	Zool., H.Sc.	1. ऋकचन 2. सिरेसन
serozem (= slerozem)	Geog.	सेरोजेम (मरुस्थलीय मिट्टिया)	serratus	Zool.	सेरेटस, ऋकचिनी
Serpek's process	Chem.	सर्पेक प्रक्रम	serratus anterior		अग्र ऋकचिनी
*Serpens	Astron.	सर्पेस	serratus magnus		बृहत् ऋकचिनी
*Serpentarius	Astron.	सर्पेन्टेरियस	serratus posterior		पश्च ऋकचिनी
serpentine		1. सर्पेन्डीन 2. सर्पगतिक, सर्पिल	Serret-Frenet formula	Math.	सेरे फ्रेने सूत्र
			serriger	H.Sc.	सेरीजर
			serridyne	Phy.	सेरोडाइन
			serrula	Zool.	ऋकष
			serrule	Bot.	सूक्ष्मऋकष



serrulous (serrulosus)	Zool.	ककची	servo amplidyne system	Phy.	सर्वे ऐम्पलिडाइन तंत्र
Sertao	Geog.,H.Sc.	सरटाओ	servo amplifier		सर्वो प्रवर्धक
Sertao district		सरटाओ क्षेत्र	servodyne		सर्वोडाइन
Sertoli cells	Zool.	सर्टोली कोशिका	servo link		सर्वो बंधन
Sertularia	Geol.	सर्टूलेरिया	servo loop		सर्वो पाशकुंडली, सर्वोलूप
serum	H.Sc.,Zool.	सीरम	servomechanism		सर्वो यांत्रिक विधि
serum albumin	Zool.	सीरम ऐल्बुमिन	servo-motor		सर्वो-मोटर, प्रयमी मोटर
servarizing process	Chem.	सर्वरण प्रक्रम	servo-potentiometer	Geog.	सहायक विभवमापी
server	H.Sc.	परिवेपक, परोसने वाला	servo system		सर्वो तंत्र
service (foods)	H.Sc.	परिवेपण	sesame	H.Sc.	तिल
serviceability	Phy.	उपयोग्यता	sesame oil	H.Sc.	तिल तैल
service area	Geog.,Phy., Math.	व्याप्ति क्षेत्र, सेवा क्षेत्र	Sesamia inferens	Zool.	सीसेमिया इनफरेन्स
service band	Phy.	सेवा आवृत्ति बैंड	sesamin	Chem.	सेसमिन
service centre		सेवा केन्द्र	sesamoid	Zool.	वर्तुलिका
service channel		सेवा प्रणाल	sesamolin	Chem.	सेसमोलीन
service function		सेवा-कार्य	sesamum	Bot.,Geog.	तिल
service institution		सेवा-संस्था	Sesamum indicum		सिसेमम इन्डिकम (तिल)
service life		सेवा आयु	Sesbania aculeata	Bot.	सेस्वेनिया ऐकुलिएटा
service occupation		सेवा व्यवसाय	Sesbania aegyptiaca		सेस्वेनिया इजिप्टियाका
service plate		परिवेपण प्लेट	Sesbania grandiflora		सेस्वेनिया ग्रैंडीफ्लोरा
service point		सेवा बिंदु	Sesci furnace	Chem.	सेसी भट्टी
servicer	Phy.	पूर्व सज्जक	sesoxane	Chem.	सेसोक्सेन
service routine		उपकारक नेमका, सेवा नेमका	sesqui	Bot.	डेडू
service spoon		परोसने का चम्मच	sesquauramine	Chem.	सेस्वीऑरैमीन
service test		सेवा परीक्षण	sesquioxide		सेक्वीऑक्साइड
service town		सेवा नगर	sesquipedalis	Bot.	डेडूफुट
service unit		सेवा एकक	sesquisulphide	Chem.	सार्धक सल्फाइड, सेस्विक्सल्फाइड
service village		सेवा ग्राम	sesquiterpene	Chem.	सेस्वीटर्पीन
service well		सेवा कूप	sessile		1. अवृत (leaf) 2. स्थानवद्ध, स्थावर
service wire	H.Sc.	वितरण तार	sessile animal		स्थानवद्ध प्राणी, स्थावर प्राणी
servicing	H.Sc.,Phy.	1. संरक्षी सेवा 2. संचित करना			
servicing industry	Geog.	परिचरण उद्योग			
servicing time	Phy.	संरक्षण काल			
serving table	H.Sc.	सर्विंग मेज, परिवेपण मेज			

sessile barnacle		स्थानबद्ध खंभावर	set of the first category		प्रथम वर्ग का समुच्चय
sessile benthos		स्थानबद्ध नितलवासी	set of the first order		प्रथम दर्ज का समुच्चय
sessile dislocation		स्थानबद्ध प्रप्रश	set of the first species		प्रथम प्रकार का समुच्चय
'sessile' drop method	Chem.	अचल बिन्दु पद्धति	set of the second category		द्वितीय सर्वग का समुच्चय
sessile partials		स्थानबद्ध आंशिक	set of the second order		द्वितीय वर्ग का समुच्चय
sessile sporangium	Bot.	अचल बीजाणुधानी	set of the second species		द्वितीय प्रकार का समुच्चय
seton	Zool.	सप्लवक	set of the type $F_6$		$F_6$ -प्रकार का समुच्चय
set		1. समुच्चय	set of type $G_5$		$G_5$ -प्रकार का समुच्चय
		2. पवनदिशा धारा दिशा	set of zero velocity		शून्यवेग समुच्चय
		3 (v.) जम जाना, जमाना	<i>Setonix brachyurus</i>	Zool.	सेटोनिक्स ब्रैकियूरस
seta	Bot. Zool.	स्फोटिकावृत, सीटा शूक	setose appendage	Zool.	शूकमय उपांग
setaceous	Zool.	शूकमय	set product		समुच्चय गुणनफल
setacyl colour	Chem.	सेटामिल रंग	set pulse	Phy.	स्थापक स्पंद
setal sac	Zool.	शूकीय कोष	set square	Geog.	सेट स्क्वेयर
setal socket		शूक गतििका	settee	H Sc.	सेटी, छोटा सींफा
<i>Setaria italica</i>	Bot.	सेटेरिया इटैलिका	setter	Chem.	सेट्टर
setback chart	Math.	पश्च-गमन सचित्र	set theory	Math	समुच्चय सिद्धांत
seter	Geog.	सेटर	setting	Chem., Phy., Geog.	1. अस्तमन 2. व्यवस्थापन 3. विन्यासन, विन्यास 4. आनुदन
setiform	Bot.	शूकमय, शूककार	setting of town	Geol.	नगर विन्यास
setigerous	Zool., Bot., Geol.	शूकधारी	setting out party	Geog.	निर्गमन-बन्दीदल
setigerous sac		शूकधर कोष	setting rate		आनुदन दर
set lights	Phy.	स्टूडियो बत्तिया	setting tank		अथ साद टकी
set line (long-line)	Zool.	दीर्घ रज्जु, समुद्री डोरी	setting test		आनुदन निक्षण
set noise	Phy.	सेट शब्द	setting up	Geog.	स्थापन (पंज)
set of capacity zero		शून्यधारिता समुच्चय	settled agricultural life	Geog.	स्थिर कृषि जीवन
set-off	Geog.	प्रतिछाप	settled area	Geog.	स्थावर क्षेत्र
set of generators of an ideal		गुणवाच्यता का जनक समुच्चय	settled community	Geog.	स्थायी समुदाय
set of inequalities		असमिका समुच्चय	settled house	Geog.	बसा हुआ घर
set of kodaline		कोडालाइन-सेट, कोडालाइन समुच्चय	settled life		स्थायी जीवन, आवास जीवन
set of measure zero		शून्य आयाम समुच्चय	settled production	Geol.	स्थिर उत्पादन
set of points		बिन्दु समुच्चय			
set of scale	Geog.	भाषनी सेट			
set of scores		संमंक समुच्चय			

settled village		स्थायी ग्राम	several storied agriculture	Geog.	बहुस्तरीय कृषि
settle mark (=chillmark)	Chem.	कुंचन चिह्न	severance	Geol.	विभाजन
settlement	Geog.	वस्ती	severe storm	Geog.	तेज तूफान
settlement geography		वस्ती भूगोल	'severity factor'	Chem.	उग्रता कारक
settlement group		वस्ती समूह	sevilla	H.Sc.	सेविला
settlement map		वस्ती मानचित्र	'sevin'	Chem.	सेविन
settlement nuclei		वस्ती केन्द्रक	sewage	H.Sc.	वाहित मल
settlement structure		वस्ती संरचना	Sewall Wright effect	Zool.	सिवाल राइट प्रभाव
settlement survey	Geog.	बंदोबस्त सर्वेक्षण	Sewardiella	Bot.	सीवार्डियेला
settlement survey data		बन्दोबस्त सर्वे आंकड़े	Sewell's method	Geog.	सेवेल-विधि
settler	Chem.	1. निःसादक	sewer	Geog.	सीवर, मलनल
	Geog.	2. अधिवासी, उपनिवेशी	sewerage	Geog.	मल-व्यवस्था
settler colony		अधिवासी उपनिवेश	sewerpipe clay	Geol.	मलनल मृत्तिका
settling	Chem., Geol.	1. निःसादन, सादन 2. स्थिरण	sewing	H.Sc.	सिलाई
settling chamber		निःसादन बेशम	sewing machine		सिलाई की मशीन
settling curve		सादन वक्र	sewing thread		सिलाई का धागा
settlingite	Geol.	सेटलिंगाइट	sex	Biol.	सेक्स, लिंग
settling of beds		संस्तर स्थिरण	sexadecimal system	Phy.	षोडशवाधारी पद्धति
settling ratio		सादन अनुपात	sexadentate	Chem.	षट्दन्तुर
settling tank		निःसादी टंकी	sexagesimal	Geog., Math.	षाष्टिक
settling velocities		सादन वेग	sexagesimal system		षाष्टिक पद्धति
setula	Bot.	शूकक	sexavalent	Chem.	षट्संयोजी
setuliform	Bot.	शूकाकार	sex cell	Bot., Zool.	लिंग कोशिका
setulose	Bot.	शूककी	sex character		लैंगिक लक्षण
set union of manifolds	Math.	प्रसमष्टियों का समुच्चय-सम्मिलन	sex chromosome		लिंग गुणसूत्र, लिंग क्रोमोसोम
set up		1. प्रेषस्थल 2. व्यवस्थित करना, व्यवस्थापन 3. सेट अप	sex controlled inheritance		लिंग नियंत्रित वंशागति
set up cost		व्यवस्था लागत	sex determination		लिंग निर्धारण
set up time	Phy.	सज्जा काल	sex determiner		लिंग निर्धारक
setulose	Chem.	स्यूलोस	sex differentiation		लिंग विभेदन
Sevenaea serrulata		सेवेनिया सेरुलेटा	sex duct		लैंगिक वाहिनी
seven sea	Geog.	सप्त सागर	sexfarious	Bot.	षट्पंक्तिक
S-event (decay at rest)	Phy.	(विरामी क्षय) S-घटना	sex gland		लिंग ग्रंथि, सेक्स ग्रंथि
			sex hormone		लिंग हार्मोन
			sexine	Bot.	सेक्सइन

sex influenced factor		लिंगाधीन कारक	sexual mosaics		लैंगिक मोझेक, लैंगिक बिर्मीर
sexitubercular	Zool.	षट्गुलिक	sexual phase		लैंगिक प्रावस्था
sexivalent	Chem.	षट्सयोजक	sexual race		लैंगिक प्रजाति
sexivalent stage		षट्सयोजी अवस्था	sexual receptacle		लैंगिक पात्र
sexless	Bot.	लिंगहीन	sexual reproduction		लैंगिक जनन
sex limited		लिंग सीमित	sexual season		लैंगिक ऋतु
sex linkage		लिंग सहलग्नता	sexual selection		लैंगिक वरण
sex linked		लिंग सहलग्न	sexual stage		लैंगिक अवस्था
sex-linked gene		लिंग सहलग्नी जीन	sexual stimulation		लैंगिक उद्दीपन
sexifocular	Bot.	षट्कोप्यकी	sexual system		1 लैंगिक तंत्र 2 लैंगिक पद्धति
sex organ		लैंगिक अंग	sexual zooid		लैंगिक जीवक
sexpartite	Bot.	षट्घडी	sexupara	Zool.	संयुग्मपरा, पृथक्लिंगी
sex pore		लैंगिक रंध्र	sex urge	Zool.	यौन उत्तेजना
sex-promoting alleles		लिंगप्रवर्तक विकल्पी	seybertite	Geol.	सेबरटाइट
sex pyramid		लिंग पिरैमिड	Seymouria	Zool.	सैमोरिया
sex ratio		लिंग अनुपात	Seymouria morpha	Zool.	सैमोरिया मॉर्फा
sex reversal		लिंग विपर्यय	seymouriamorph skull		सैमोरियामॉर्फे बरोटि
sex sterility		लैंगिक बध्यता	Seyna-Nemloka mount	Chem.	सैयना-नेमिओका यारोह, सेयना-नेमि- ओका माउंट
sextactic point	Math.	सेक्सटैक्टिक बिन्दु	sferics	Geol.	स्फेरिक्स
*Sextans	Astron.	सेक्सटैन्स	shachiang	Geog.	शाचियांग (मूसा)
sextant	Phy.,Geog.	सेक्सटैन्ट	shack	Geog.	शैक
sextant-box		सेक्सटैन्ट बॉक्स	shackle	Chem.	निगड, पाश
sextant bubble		सेक्सटैन्ट बुलबुला	shack town	Geog.	शुटी नगर
sextet		षट्क	shad	Geog.	शैड
sextillide	Geog.	सेक्समटील्लिड, षष्टार	shadbolt	Geog.	शैडबोल्ड (पव)
sexual	Zool.,Bot.	लैंगिक, यौन	shade	Geog., Chem.	छाया
sexual attractant		लैंगिक आकर्षण	shaded	Phy.	1. अंध कर्मित 2. छायायित
sexual behaviour		लैंगिक व्यवहार	shaded drawing	Geog.	छाया रचित आरेखण
sexual cycle		लैंगिक चक्र	shaded off		छोटा
sexual dimorphism		लैंगिक द्विरूपता	shaded sand		छायायुक्त बालू
sexualje	Zool.	सेक्सज्यूएल, त्रिलिंगक	shaded satin	Chem.	छायायुक्त मुटुला
sexual generation		लैंगिक पीढ़ी	shaded slope		छायायुक्त ढाल
sexual individual		लैंगिक व्यक्ति			
sexual isolation		लैंगिक पारंपर्य			
sexually		लैंगिकरत			
sexual maturity		यौन परिपक्वता, लैंगिक परिपक्वता			
sexual mechanism		लैंगिक यंत्रावलि			

shaded twill		छायामय रेखिका, छायामय ट्वील	shaft-kiln		शैफ्ट वापाक, स्तंभ भट्टा
shaded weave		छायामय वयन	shaft louse		कांड यूका
shade form	Bot.	छायारूप	shaft mining		कूपकी खनन
shade plant		छाया प्रादप	shaft-work		शैफ्ट कार्य
shade temperature		छाया ताप.	shag	H.Sc.	शैग
shade tolerant		छायासह	shagreen	Zool., H.Sc.	शैग्रीन
shading	Phy.	छायित करना	Shainin lot plot method	Chem.	शैनीन प्रचय बालेख विधि
shading coil		गोपक कुंडली	shake		शेक
shading generator	Phy.	शेडिंग जनित	shake culture	Bot.	हल्लन संवर्ध
shadow		छाया	shakehole	Geog.	शेकहोल, विदर (=shackhole)
shadow casting		छाया क्षेपण	shakeout	Chem.	विघ्नन
shadow cone		छाया शंकु	shaker	Bot., Geol., Chem.	हल्लित, प्रकंपित
shadow effect		छाया प्रभाव	shaker culture	Bot.	दोल संवर्ध
shadowing		छायाकरण	shaker screen		हल्लित चालनी
shadow mask		छाया मास्क, द्वारक मास्क, छाया प्रच्छादन	shake test		हल्लन निकष.
shadow mask colour tube		छाया आवरण वर्ण नलिका	shaking grizzly		प्रकंपी शिखली
shadow microscope		छाया सूक्ष्मदर्शी	shaking picker		प्रकंपी चयक
shadow of earth		भू-छाया: (प्रदेश)	shaking prairie		कम्पी प्रेअरी
shadow scattering	Phy.	छायिक प्रकीर्णन	shaking screen		प्रकंपी छन्ना
shadow wall		छायामिति	shaking screen table		प्रकंप छानन टेबल, प्रकंप छानन पटल
shadow zone		छाया क्षेत्र, छाया जोन	shaking-screen washer		प्रकंपी छन्ना धावित
shaduf, shadouf, shadoof	Geog.	शदूफ (देकली)	shaking table		प्रकंपी टेबल
shady habitat		छायादार आवास	shal	H.Sc.	शाल
Shaffer and Hartman's method	Chem.	शैफर-हार्टमैन विधि	shale	Chem., Geol., Geol.	शैल
shaft	Geol. Phy. Zool.	कूपक शैफ्ट कांड	shale band		शैल पट्टी
shaft cave		कूपक गुहा	shalene	Geol.	शैलीन
shaft drier		कूपक शोपक	shale oil		शैलतैल
shaft drive		शैफ्ट चालन	shalloon twill	H.Sc.	शैलून ट्वील
shaft furnace		शैफ्ट फ्राइड, स्तंभ भट्टी	shallop	Geog.	नौका, डोंगी
shaft governer		शैफ्ट नियंत्रक	shallot	Geog.	शैलॉट
shafting	Geol.	धुरांतर	shallow	Geol., Geol.	1. उथली भूमि 2. गाघ, बगमौर, छिछला, उथला
			shallow cultivation		उथली कृषि

shallow depression		1. छिछला गर्त, उथला गर्त 2. छिछला अवदाव	Shannon-Fano encoding	Math.	शैनन फैनो कूटलेखन
shallow dome		अगभीरस्थ गुबद	Shannon Hartley law		शैनन हार्टले नियम
shallow-draft vessel		उथला भारवाही पोत	Shannon's exponential bound		शैनन का चरघाताकीय परिवध
shallow fault		अगभीर घ्न	Shannon's lower bound		शैनन का निम्न परिवध
shallow frying	H Sc	थोड़े घी में तलना	Shannon's upper bound		शैनन का उपरि परिवध
shallow-ground seepage		गाध भूमि निस्पन्द	Shantung silk	H Sc.	शांटुंग रेशम
shallow hearth		उथली मट्टी, उथली चूली	shanty town	Geog	शुद्ध नगर
shallow ionisation chamber		उथला आयनन कोष्ठ	shape		आकृति, आकार
shallow plate		छिछली रक़ावी	shape and position		स्वरूप और स्थिति
shallow respiration	H Sc.	उत्तान श्वसन	shaped beam antenna	Phy.	रूपित किरणपुंज एन्टेना
shallow salt lake		गाध सवण सरोवर	shaped beam tube		रूपित किरणपुंज नलिका
shallow shock		अगभीर प्रघात	shape dependent		आकृति बाधित
shallow sill		उथला सिल	shape dependent parameter		आकृति बाधित प्राचल
shallow spring		अगभीर झरना	shape-elastic scattering		आकृति प्रत्यास्य प्रकीर्णन
shallow strait		उथला जलडमरूमध्य	shape factor		आकृति गुणक
shallow temperature		गाध जलताप	shape independent		आकृति अनश्रित
shallow-trench latrine		उथला खात शौचस्थान	shape independent theory		आकृति निराश्रित सिद्धान्त
shallow trough		उथली श्रेणिका, उथली श्रेणी	shape parameter		आकार प्राचल
shallow water		उथला जल, गाध जल	shaping	Chem, Phy.	आकृतीयन, आकृति देना, रूपण
shallow water biotope		गाधजलीय जैवस्थानिक	shaping network		आकृति मशोषक जाद्य
shallow-water wave		उथला जल तरंग	shard	Geol, Geog	1 सावा तन्तु 2. टीकरा, टीकरी
shaly cleavage	Geol	शैलवत् विदलन	share	Math., H Sc	1. (n) अंश भाग 2. (v) भागी होना, सामी होना
shaly parting		शैलवत् विभाजन	share cropper	Geog	बटाईदार
shaly structure	Geol.	शैलीय संरचना	share cropping		सासा खेती
shamal	Geog.	शमाल (पवन)	share-tenant	Geog.	बटाई कृषक
shaman	Geog.	शामन	sharing	Chem	(n) सहभाजन, (adj) सहभाजी
shamaness	Geog.	शामनी	shark	Zool., H.Sc., Geog.	शार्क, मुरा
shamba	Geog.	शाम्बा, उद्यान	shark fins		मुरा पंख
shamble	Geog.	बधहाला			
shamoying	H Sc.	स्निग्धीकरण			
shampoo	H.Sc.	धालन, शैम्पू			
shank	Zool Geol.	1. अधा 2. (of folds) मध्यांग			
Shanks process	Geol.	शैन्क्स प्रक्रम			

shark fishery		सुरा मात्स्यकी	shash	<i>H.Sc.</i>	शैश
shark fishing		सुरा मत्स्यन	shatter belt	<i>Geog., Geol.</i>	शीर्ण मेखला, शीर्ण शैल पट्टी
shark liver oil		शाकं यकृत तेल	shatter breccia		शीर्ण संकोणाश्म
sharkovit	<i>Zool.</i>	शाकॉविट	shatter cracks	<i>Chem.</i>	विशीर्ण विदर
sharkskin pahoehoe		शाकंत्वचा-पाहोएहोए	shatter index	<i>Chem.</i>	विशरणांक, विशरण सूचकांक
sharp	<i>Geog., H.Sc.</i>	1. तीक्ष्ण 2. तीव्र	shattering effect		भंजन प्रभाव
sharp and brilliant	<i>Phy.</i>	स्पष्ट तथा प्रभावशाली	shatter test		विशरण निकप
sharp crested divide		तीक्ष्ण किरीटी विभाजक	shattuckite	<i>Geol.</i>	शैटूकाइट
sharp cut off		तीक्ष्ण अंतक	Shauder's theorem	<i>Math.</i>	शाउडर-प्रमेय
sharp cut off pentode		तीक्ष्ण अंतक पेंटोड	*Shaula (=λ Scorpii) Astron.		शाउला (=λ वृश्चिक, λ स्कापिआइ)
sharp cut off tube		तीक्ष्ण अंतक नलिका	shavings	<i>H.Sc.</i>	शेविंग्स
sharpening	<i>Chem.</i>	तीक्ष्णन	shaw	<i>Geog.</i>	शा, उपवन
sharper end point		तीक्ष्णतर अन्त्य बिंदु	shawl	<i>H.Sc.</i>	शाल
Sharples centrifuge	<i>Zool.</i>	शार्पल्स अपकेन्द्रित	shear	<i>Phy., Geog.</i>	1. अपरूपण 2. कर्तरी, कर्तन, कर्तनी
Sharples process	<i>Chem.</i>	शार्पल्स प्रक्रम	shear angle	<i>H.Sc.</i>	अपरूपण कोण
sharply-scarped ridge		तीक्ष्ण-कगारी कटक	shear centre		अपरूपण केन्द्र
sharply tuned trap		तीक्ष्ण समस्वरित ट्रैप	shear cleavage		अपरूपणी विदलन
sharp maximum		तीक्ष्ण महत्तम	shear component of stress		अपरूपण प्रतिबल घटक
sharpness	<i>Geog.</i>	तीक्ष्णता	sheared boundary		अपरूपित परिसीमा
sharpness of resonance		अनुनादकी तीक्ष्णता	sheared plate mill	<i>Chem.</i>	कर्तित पट्टिका मिल
sharpness of tuning		समस्वरणकी तीक्ष्णता	shearer	<i>Math.</i>	अपरूपक
sharp nosed sharp		पालसुरा	shear fabric	<i>H.Sc.</i>	महीन कपड़ा
sharp note		तीव्र स्वर	shear flow		अपरूपण प्रवाह
sharp peak		तीक्ष्ण शिखर	shear folding		अपरूपणी बलन
sharp pen-knife	<i>Geog.</i>	तेज जेवी चाकू	shear fracture		अपरूपणी विभंग
sharp point		तीक्ष्ण बिन्दु	shear gravity wave		अपरूपण गुरुत्व तरंग
sharp resonance		तीक्ष्ण अनुनाद	shearing	<i>H.Sc., Math.</i>	1. ऊन कटाई, ऊर्ण कर्तन 2. अपरूपण
sharp seasonal contrast		तीव्र ऋतु विपर्यास	shearing force	<i>Phy.</i>	अपरूपक बल
sharp series	<i>Phy.</i>	स्फुट श्रेणी	shearing gas		अपरूपणी गैस
sharp spur		तीक्ष्ण पर्वतस्कंध	shearing impact		अपरूपक संघट्टन
sharp stone		तीक्ष्ण शैल	shearing machine		कर्तन मशीन
sharp stone conglomerate		तीक्ष्ण शैल संगुटिकाश्म	shearing season	<i>Geog.</i>	कर्तन काल
sharp subordinate series	<i>Chem.</i>	तीक्ष्ण उपश्रेणी			

shearing strain		अपरूपण विकृति	sheep	<i>Geog., Zool.,</i> भेप, भेड <i>H.Sc.</i>
shearing strength		अपरूपण शक्ति	sheepback	भेपपीठ शैल
shearing stress		अपरूपक प्रतिबल	sheep biting louse	भेप दशक मूका
shearing wave		अपरूपण तरंग	sheep corn husbandry	भेड मक्का कृषिकर्म, भेप मक्का कृषिकर्म
shear joint		अपरूपणी संधि	sheep farmer	भेप कृषक, भेड कृषक
shear lag		अपरूपण पश्चता	sheep maggot fly	भेप अपरादक मशी
shear mark		अपरूपण चिह्न	sheepman	<i>Geog.</i> भेडपाल
shear modulus		अपरूपण गुणांक	sheep milk	भेप दुग्ध
shear motion		अपरूपण गति	sheep nostril fly	भेप नासा मशी
shear plane		अपरूपण तल	Sheep Ranch mill	<i>Geol.</i> शीप रेंच मिल
shears	<i>Chem., H.Sc.</i>	कर्तरी, कैंची	sheep region	भेड प्रदेश
shear schistosity		अपरूपण शिस्टता	sheep silver	<i>Geol.</i> धातुक
shear steel		कर्तन इस्पात	sheepskin	भेप धर्म
shear stress		अपरूपण प्रतिबल	sheep tick	भेप किलनी
shear structure		अपरूपण संरचना	sheep track	भेप पथ, भेड पथ
shear thrust		अपरूपणी क्षेप	sheep-walk	1. भेड चरागाह 2. भेप पथ
shear turbulence		अपरूपण प्रक्षोभ	sheer	<i>Chem., H.Sc.</i> 1. अशुक 2. शीर
shear wave		अपरूपण तरंग	sheer gabardine	शीर गैबार्डीन
shear zone		अपरूपण क्षेत्र	sheet	1. चादर, आस्तर, परत 2. शीट 3. प्रकोष्ठ
sheath		आच्छद	sheet calendering	चादर प्रशीकरण
sheath cell		आच्छद कोशिका	sheet deposit	चादरी निक्षेप
sheathed electrode		आच्छादित इलेक्ट्रोड	sheeted coating compound	चादरित विलेपन योगिक
sheathed pyrometer		आच्छादित उष्मापमापी	sheeted fissure	चादरी विदार
sheathing base	<i>Geog.</i>	आवरण आधार	sheeted vein	चादरी शिथ
sheath nematode		आच्छद सूत्रकृमि	sheeter	<i>Chem. (Plast.)</i> चादरित
sheave	<i>Geog.</i>	चरखी	sheeter line	चादरित रेखा
shed	<i>H.Sc.</i>	शेड	sheet erosion	परत अपरदन
shedding	<i>H.Sc.</i>	ताना-अलगन	sheet-fed press	चादर भरित प्रेस
shed line	<i>Geol.</i>	जलविभाजक रेखा	sheet flood	<i>Geog.</i> चादरीपूर, बाड़ चादर
Shedlovsky's conductivity equation	<i>Chem.</i>	शेडलोव्स्की चालकता समीकरण	sheet glass	चादर कांच
sheen	<i>Chem.</i>	दिभा	sheet gravel	बनरी परत
sheen gabardine	<i>H.Sc.</i>	शीन गैबार्डीन	sheet ice	हिम चादर
sheen glossimeter		दिभा नास्तिमापी		
sheen meter		दिभा मापी		
sheen type rug		शीननुमा रग		



sheeting	<i>Geol.</i>	1. वास्तवी विभाजन, चादरी विभाजन	shell (animal)	<i>Zool.</i>	कवची
	<i>H.Sc.</i>	2. शीटिंग	shellac	<i>Chem., H.Sc.</i>	चपड़ा; शल्क लाख
sheet iron		चादरी लोहा	shell and tube exchanger		कोश एवं नाल विनिमायक
sheet jointing		वास्तवी संधि	shell band		कवची स्तर
sheet lightning	<i>Phy.</i>	पट तड़ित्	shellbark-hickory nut	<i>Geog.</i>	शैलबाकं हिकरी नट
sheet metal		चादरी धातु	shell bead	<i>Geog.,H.Sc.</i>	शुक्ति मणिका
sheet number	<i>Geog.</i>	मानचित्र संख्या, शीट संख्या	shell bed		कवच संस्तर
sheet of drawing paper	<i>Geog.</i>	ड्राइंग पेपर शीट	shell collective model (of nucleus)		कोशीय सामूहिक मॉडल
sheet of glass		कांच की चादर	shell electron		कोश इलेक्ट्रॉन
sheet quarry		वास्तवी खदान	shellfish		कवचप्राणी
sheet rock		शीट रॉक	shellfish fisheries		कवचप्राणी मात्स्यकी:
sheet stalactite		चादरी स्टैलैक्टाइट	shell flour filler		कोश विचूर्ण भरक
sheet structure		चादरी संरचना	shell fragment		कवच खण्ड
sheet wash	<i>Geog.</i>	वृष्टि धोवन	shell-freezing		कोश हिमन
sheet web	<i>Zool.</i>	छद्मजाल	shell gland		कवच ग्रंथि
Sheffield plate	<i>Chem., H.Sc.</i>	शेफील्ड प्लेट	shelliness	<i>Chem.</i>	प्रकाशोद्यता
Sheffield smoothness tester		शेफील्ड मसृणता निकपित्त	shelling	<i>H.Sc.</i>	छिलका उतारना
sheikhdom (=sheikhdom =shaykhdom)	<i>Geog.</i>	शेख-राज्य	shell lime		कोश चूर्ण
sheldon tapestry	<i>Geog.,H.Sc.</i>	शैल्डन टेपेस्ट्री	shell marl		कवच-माल
shelf	<i>Geol.,Geog. Geog.,H.Sc.</i>	शेल्फ, उपतट खाना, शेल्फ	shell membrane		कवच कला
shelf break		शेल्फ अवकाश (भग्नतट हाल)	shell model		कोश मॉडल
shelf edge		उपतट कोर	shell money	<i>Geog.</i>	कोड़ी मुद्रा
shelf facies		उपतट संलक्षणी	shell mound	<i>Geog.</i>	शम्बुक ढेर
shelf fauna	<i>Zool.</i>	प्रक्षेप प्राणिजात	shell of flowage	<i>Geol.</i>	सुषट्यता मंडल
shelf ice		शेल्फ बर्फ, शेल्फ हिम	shell process	<i>Chem.</i>	शैल प्रक्रम
shelf life	<i>Chem. (Ink)</i>	निघानी वायु	shell sand		कवची रेणु
shelf reagent		शेल्फ-अभिकर्मक	shell star	<i>Math.</i>	सकोप तारा
shelf sea		शेल्फ समुद्र	shell tucks	<i>H.Sc.</i>	शंकाकार टुक
shell		1. कवच 2. कोश 3. छिलका 4. खोल	shell whorl		कवच चक्र
			shelly facies		कवची संलक्षणी
			shelly loop		कवच पाश
			shelly pahoehoe	<i>Geol.</i>	उत्फुल्ल पाहोएहोए
			shelter	<i>Geog.,H.Sc.</i>	आश्रय, आश्रयस्थान, गृह
			sheltered bay	<i>Geog.</i>	परिरक्षित खाड़ी

shelter-belt	<i>Geog.</i>	रक्षक भेखला	shielding	<i>Geog.</i>	1. कुटी (शीष्मकालीन) 2. शील्डिंग 3. परिरक्षण
sheltered harbour		परिरक्षित पोताश्रय	shielding effect	<i>Phy</i>	परिरक्षण प्रभाव
sheltered retreat		परिरक्षित निवर्तन	shielding parameter		परिरक्षण पैरामीटर, प्रतिरक्षण प्राचल
sheltered valley		परिरक्षित घाटी	shielding pond		परिरक्षक ताल
shelving bank	<i>Geol., Geog.</i>	मन्ददाल तट, अल्प प्रवणतट	shielding ratio		परिरक्षण अनुपात
shelving bank of stream	<i>Geog.</i>	ढलता नदी तट	shielding windows		परिरक्षक गवाक्ष
shelving elevation		मन्ददाल ऊँचाई	Shields and Thielman jig		शील्डम तथा थोलमान जिग
shelving shore		मन्ददाल तट, अल्प प्रवण तट	shield-shaped mass	<i>Geog</i>	शील्डरूपी संहति
*Shelyak (= $\beta$ -Lyrae)	<i>Astron.</i>	शेल्याक (= $\beta$ लाइरी)	shield volcano		शील्ड ज्वालामुखी, गुम्बदी ज्वालामुखी
shemakinski	<i>H Sc.</i>	शेमोकिन्स्की	shift		भूति, विस्थापन, स्थानान्तर
shepherd	<i>Geog.</i>	गडरिया	shifted junction		विस्थापित सगम
Shepherd test	<i>Chem.</i>	शेपर्ड निक्षप	shifting agriculture		स्थानान्तरी कृषि
Sheppard's correction	<i>Math.</i>	शेपर्ड ससोध्यन	shifting cultivation		स्थानान्तरी जुनाई
sherardizing		शेराडीकरण	shifting dial		स्थानान्तरी डायल
*Sheratan (= $\beta$ Arietis)	<i>Astron</i>	शेरटान (= $\beta$ शेष, $\beta$ एरिएटिस)	shifting divide		स्थानान्तरी जलविभाजक
sheriff	<i>Geog</i>	शेरिफ़	shifting of volcanic vent		ज्वालामुखी मुख विस्थापन
sherry	<i>Chem, H.Sc.</i>	शेरी	shifting operator		स्थानान्तरी सञ्चारक
sherry glass		शेरी गिलास, शेरी चपक	shifting planning horizon		स्थानान्तरी आयोजना क्षितिज
shersh	<i>H Sc.</i>	शेरा	shifting sand		स्थानान्तरी बानू
Sherwen screen	<i>Geol.</i>	शरवन छन्ना	shift of fringe		किरण का विस्थापन
shesh	<i>H Sc.</i>	शेष	shift operation		पात्ती प्रचालन, शिफ्ट प्रचालन
shetland	<i>H.Sc</i>	शेटलैंड	shift pulse		विस्थापक स्पन्द
Shewhart' bowl	<i>Math.</i>	शेवहार्ट-कटोरा	shift reaction		भूति अभिक्रिया
Shewhart control charts		शेवहार्ट नियन्त्रण चार्ट	shift register		विस्थापन पत्रो
Shewhart's normal bowl		शेवहार्ट का प्रसामान्य बरतक	shift register generator		विस्थापन पत्रो जनक
shibore	<i>H.Sc.</i>	शिवोरी	shikifugi	<i>H.Sc</i>	शिक्कीफुगी
shield		परिरक्षक, दान, शील्ड विशालक	shikimic acid	<i>Chem.</i>	शिकिमिक अम्ल
shield (antheridial)	<i>Bot.</i>	पुत्रभं	shikon		शिकोन
shield bug		दान मन्तुण	shikonin	<i>Chem.</i>	शिकोनिन
shielded box	<i>Phy.</i>	परिरक्षित बॉक्स			
shielded nuclide		परिरक्षित न्युक्लाइड			

shim	<i>Phy.</i>	वेशिका, शिम	ship-wright	<i>Geog.</i>	पोत निर्माता
shima momen	<i>H.Sc.</i>	शिमा मोमेन	shipyard	<i>Geog.</i>	पोत प्रांगण
Shimer process	<i>Phy.</i>	शाइमर प्रक्रम	shiraz rug	<i>H.Sc.</i>	शिराज रग
shim member	<i>Phy.</i>	शिम अवयव, स्थूल नियंत्रण अवयव	shire	<i>Geog.</i>	शायर
shimmer aggregate	<i>Geol.</i>	शिमर समुच्चय	shirlastain-A	<i>Chem.</i>	शिर्लास्टेन-A
shimmering layer	<i>Geog.</i>	कम्पदीप्ति स्तर	shirley cloth	<i>H.Sc.</i>	शर्ली वस्त्र
shimming	<i>Phy.</i>	वेशनी अनुकूलन, शिमी अनुकूलन	shirring	<i>H.Sc.</i>	चुन्नट डालना
shinawata	<i>H.Sc.</i>	शिनावाता	shirt	<i>H.Sc., Chem.</i>	1. कमीज 2. आस्तर, शर्ट
shiner	<i>Chem. (Paper)</i>	"चमकी"	shirting	<i>H.Sc.</i>	शर्टिंग, कमीज का कपड़ा
shingle	<i>Geog. Geol.</i>	1. समुद्री कंकड़ 2. शिगिल	shituvi	<i>Geog.</i>	शित्वी
shingle bank		शिगिल तट	shive removal	<i>Chem.</i>	रुझक निष्कासन
shingle bar		शिगिल रोधिका	shiver spar	<i>Geol.</i>	शिवर स्पार
shingle beach		शिगिल पुलिन	shoal	<i>Zool. Geog.</i>	स्तोम शोल, माघस्थल
shingle block structure		शिगिल खंड संरचना	shoaling	<i>Zool.</i>	स्तोमन
shingler	<i>Chem.</i>	शिगलक	shoaling behaviour		स्तोमन व्यवहार
shingling	<i>Geol.</i>	शिगलन	shoaling fish		स्तोमन मीन
shingly		शिगलमय	shoaling species		स्तोमन जाति
shinnery	<i>Bot.</i>	शिनेरी	shoaling water	<i>Geog.</i>	उयला जल
shioze	<i>H.Sc.</i>	शिओजे	shoal water	<i>Geog.</i>	शोल जल
ship board antenna (=ship board aerial)	<i>Phy.</i>	जहाजी ऐन्टेना	shochu	<i>H.Sc.</i>	शोचू
ship builder	<i>Geog.</i>	पोत निर्माता	shock		घक्का, प्रघात
ship building		पोत-निर्माण	shock adiabatic		प्रघात रुद्धोष्म
ship canal	<i>Geog.</i>	जहाजी नहर	shock and error model	<i>Math.</i>	स्वलन-दृष्टि निदर्श
shipment	<i>Geog.</i>	नौप्रेषण, नौभार	shock angle		प्रघात-कोण
shipping	<i>Geog.</i>	पोत परिवहन, नौ परिवहन	shock compression		प्रघाती संपीडन
shipping company		नौपरिवहन कम्पनी	shock condition		प्रघात प्रतिवन्ध
shipping lane		जहाजी मार्ग	shock cooling		प्रघात शीतलन
shipping ore	<i>Geol.</i>	निर्यात योग्य अयस्क	shock-disease	<i>Zool.</i>	स्तव्धता रोग
shipping situation		नौपरिवहन अवस्थिति	shocked model	<i>Math.</i>	क्षुब्ध निदर्श
shippon (=shippen)	<i>Geog.</i>	गोशाला, पशुशाला	shock equation		प्रघात-समीकरण
shipworm	<i>Zool., Geog.</i>	1. नौकृमि 2. शिपवर्म	shock excitation		प्रघात-उत्तेजन
			shock excited peaker		प्रघाती शिखरक
			shock front		प्रघाताग्र
			shock heating		प्रघात तापन
			shock layer		प्रघात स्तर

Shockley diode	Phy.	शाकले डायोड	shooting stage	Bot.	प्ररोहण अवस्था
shock model	Phy., Math.	स्खलन-निदर्शन	shooting star	Geol., Geog.	उल्का
shock motion		प्रघात गति	shoot inhibition	Bot.	प्ररोह रोधन
shock polar		प्रघात ध्रुवी	shoot node		प्ररोह पर्वसंधि
shock stall	Phy.	अवपीडन प्रघात	shop	Chem.	1. कर्मोद्योग 2. बर्मेचाला
shock strength		प्रघात सामर्थ्य	shopper world	Geog.	नयो-विविध
shock surface		प्रघात सृष्ट	shopping area	Geog.	पणन क्षेत्र
shock tube		प्रघात नलिका	shopping centre	Geog., H. Sc.	नय केन्द्र
shock tunnel		प्रघात सुरंग	shopping geography		नय भूगोल
shock velocity		प्रघाती वेग	shopping goods store		विक्रय वस्तु भंडार
shock wave		प्रघाती तरंग	shopping precinct	Geog.	विपणि अहाना
shock wave incident		प्रघाती तरंग आपतन	shopping street		विपणि सड़क
shock wave photography		प्रघात तरंग फोटोग्राफी	shop typhus	Zool.	विपणि टाइफस
shock wave thickness		प्रघाती तरंग मोटाई	shoran (short range navigation)	Phy., Geog., Geol.	शोरन, लघुसंचालन (लघुपरासी विमान संचालन)
shoddy	Chem.	पुनराप्त ऊर्ण	shoran operator		शोरन प्रचालक
shode-stone	Geol.	शोड-प्रस्तर	shore	Geog., Geol., Zool.	तट
shodop (short range doppler)	Phy.	शोडॉप (लघु पराम डॉप्लर)	<i>Shorea assamica</i>	Bot.	शोरिया आसामिका
shoe flower	Bot.	श्याकुमुग, मुडहल	<i>Shorea robusta</i>		शोरिया रोबस्टा (साल)
shoe peg	Chem. (Plast.)	नाल कोलक, शू कोलक	<i>Shorea siamensis</i>		शोरिया सियामेन्सिस
shoe-string claim	Geol.	सूतपट्टी दावा	<i>Shorea stellata</i>		शोरिया स्टेलेटा
shoe-string conglomerate	Geol.	सूती सगुटिकासम	shore-based radar		तटाधारित रेडार
shoe string leaves	Bot.	सूत पर्ण	shore crab		तटीय कर्कट
shoestring sands		सूती बालुकासम	shore-drift theory		तट विस्थापन सिद्धान्त
shonkinite	Chem.	शाकिनाइट	shore-dune		तटीय टिब्बा
shooda	H.Sc.	शूडा	shoreface		तटाभिमुख
Shoofery's Shielding contribution	Chem.	शूलेरी प्रतिरक्षण दत्तांश	shoreface feature		तटाभिमुख लक्षण
shoot	Bot., Geol.	1. प्ररोह 2. मूट, अयस्क विड	shoreface terrace		तटाभिमुख वेदिका
shooting	Phy., Geol.	1. कृत्रिम, उर्वि अवन 2. विस्फोट	shore fauna		तट प्राणिक्रांत
shooting brake (= television car)	Phy.	दूरदर्शन वाहन	shoreland		तटभूमि, तट प्रदेश
shooting lodge	Geog.	आश्रयन वास	shore line		तट रेखा
shooting method	Math.	प्ररोही विधि	shoreline cycle		तटरेखा चक्र
			shoreline of emergence		उभयतट-तटरेखा
			shore-line process		तटरेखा प्रक्रम

shore line sand		तटीय बालू	shortening	Chem., H.Sc.	खस्ताकार, शॉर्टनिंग, चिकनाई.
shoreline symbol		तटरेखा-चिह्न	shortening compound		खस्ताकार यौगिक
Shore monotron	Chem.	शोर मोनोट्रॉन	shorterizing (flame hardening)	Chem.	ज्वाला कठोरण, शॉर्टरिंग
shore platform		तट वेदी	Shorter process	Chem.	शॉर्टर प्रक्रम
shore profile		तट परिच्छेदिका, तट प्रोफाइल	shorter stretch		छोटी पट्टी
Shore scleroscope	Chem.	शोर कठोरतादर्शी, शोर स्केलरोस्कोप	shortest distance		लघुतम दूरी
shore seine		तट संपाशक, तटीय कोना जाल	short finish	Chem.	अवसज्जित (दोष)
shoreward migrant		अभितट प्रवासी	short frost free season		लघु तुषाररहित ऋतु
Shore zone		तट प्रदेश	short handled tool		छोटे हत्येवाला औजार
short		1. लघु (text, plast) 2. शीर्षक 3. अकर्ष्य	short head cone		लघु शीर्ष शंकु
short arm' balance		"लघु भुजा" तुला	short horned grasshopper		लघुशृंगी टिड्डा
short based cone		लघु शीर्ष शंकु	short infection feed	Bot.	अल्पावधिक संक्रमणाशन
short beam		लघु दंड	shorting plug	Phy.	लघुपथक प्लग
short black hair		काले लघु बाल	shorting stub		लघुपथक स्थूप
short bread	H.Sc.	शॉर्ट ब्रेड	short ink	Chem. (Ink)	अकर्ष्य मसी
short cake	H.Sc.	शॉर्ट केक	short ley		लघु ले
short circuit	Phy.	(n.) लघु पथ (vb.) लघुपथन, लघुपथित करना	short-ley grassland		लघु ले घासस्थल
short circuited		लघु पथित	short liquor		लघु द्राव
short circuit impedance		लघु पथ प्रतिबाधा	short lived	Chem., Phy., Biol.	अल्पायु, अल्पजीवी
short-circuiting key		लघुपथक कुंजी	short lived species		अल्पजीवी जाति
short conical net		लघु शंकवाकार जाल	short necked animal		लघु ग्रीवा जन्तु
short-crested Gaussian refraction		लघुकिरीटी गॉससीय अपवर्तन	short nosed crocodile		लघुनासीय मगर
short-crestedness		लघुकिरीटिता	short note		अल्पस्वर
short-cut method	Math., H.Sc.	लघुतर विधि संक्षिप्त विधि	short oil alkyd		लघु तैल ऐल्किड
short day plant	Bot.	अल्प प्रदीप्तकाली पौधा	short oil varnish		लघु तैल वानिश्
short distance navigation		लघुदूरी संचालन	shortometer	Chem. (Fats)	शीर्षकता मापी
short economic series		लघु आर्थिक श्रेणी	short people	Geog.	नाटे लोग, ठिगने लोग
shortened line	Phy.	लघुकृत सिरा लाइन	short period (periodic table)		लघु आवर्त
shortened velum	Geol.	सीमित गुंडिका	short period tides		लघु अवधि न्वार-भाटा
			short persistence (layer)	Phy.	अल्प धृति काल
			short radiating length		लघुविकीर्ण रेखा

short range communication		लघु परामी संचरण	shot cloth		शॉट वस्त्र
short range force		लघुपरामी बल	shot copper		शॉट ताम्र, गुलिका ताम्र
short range navigation		लघु परामी संचालन	shot effect	<i>Phy.</i>	पटपटी प्रभाव
short-range order		लघु परिसर व्यवस्था	shot-firer	<i>Geol.</i>	विस्फोटकारी
short range potential		लघु परिसर विभव	shot glass	<i>H. Sc.</i>	शॉट ग्लाम
short range stability		लघु परिसर स्थायित्व	shot hole		विस्फोट छिद्र
short range variation		लघु परिसर विचरण	shot metal		शॉट धातु
short range vibration		लघु परिसर कपन	shot noise	<i>Phy</i>	पटपट रव, पटपटाहट
short ravine		छोटे खड्ड	shot peening	<i>Chem.</i>	गुलिका प्रक्षेपण
short relaxation time		लघु विश्रान्ति-काल	shot point	<i>Geol</i>	विस्फोट बिन्दु
short run elasticity	<i>Math</i>	अल्पकालिक लोच	shot samples		शॉट प्रतिदर्श
short run model		अल्पकालिक निदर्श	shot soil	<i>Geol</i>	शॉट सॉयल
short season crop	<i>Bot</i>	अल्पकालिक फसल	shott	<i>Geog</i>	शॉट, लवण क्षील
short setting	<i>Chem</i>	लघु स्थानी	shotted urea	<i>Chem.</i>	गुलिकायित यूरिया
short shaft type crusher		लघुधुरा-दन्तित्र	shotting		गुलिकायन
short sight	<i>Phy.</i>	निकट दृष्टि	shotty gold	<i>Geol</i>	गुनिका स्वर्ण
short spacing		लघु अंतराल	shotweld	<i>Chem</i>	शॉट वेल्ड
short stopping agent		लघुरोधक	shoulder		स्कंध, कंधा, अंग
short term fluctuation		अल्पकालीन उच्चावचन	shoulder effect		अंस प्रभाव
short ternae	<i>Chem.</i>	शॉर्ट टर्न	shoulder girdle		अस मेघना
short time income		लघुकालीन आय	shoulder line		कंधे की रेखा
short time rating	<i>Phy.</i>	अल्पकाली सीमांकन	shoulder pad		स्कन्ध गद्दी
short time scale	<i>Math.</i>	अल्पकाल मापक्रम	shoved moraine	<i>Geol, Geog</i>	आघात हिमोढ़
short ultraviolet light		लघुधरणी पराबैंगनी प्रकाश	shovel	<i>Geol., Geog</i>	बेलचा, शॉवेल
short wave		लघुतरंग	shoveling	<i>Geol</i>	शॉवेलन
short wave aerial (=short wave antenna)		लघुतरंग ऐन्टेना	shovel method		शॉवेलन पद्धति
short wave length limit		लघुतरंग दैर्घ्य सीमा	shovel wheel		शॉवेल चक्र
shoshonce Indian	<i>Geog</i>	शॉशोनी इंडियन	show case		शोकेस, प्रदर्शन मञ्चा
shoshonite	<i>Geol.</i>	शोशोनार्ड	shower		बौछार, वर्षण
shot	<i>H.Sc., Chem., Geol.</i>	1. शॉट 2. (Text) बाने वा एक धारा	shower counting array		वर्षण-गणक समूह
			shower length	<i>Phy, Math.</i>	उत्ता वर्षा अवधि
			shower meteor		वर्षा उल्का
			shower of stars	<i>Math.</i>	उल्कावृष्टि उल्कावर्षा
			shower production curve		वर्षणोत्पादन वक्र
			showerproof		वर्षणगह
			shower proofing		वर्षण महारक्षण

shower unit		बौछार मात्रक	shunt	Phy.	(n.) पार्श्व पथ, शंट (vb.) पार्श्व पथन, शंट
showery precipitation		बौछारी वर्षण	shunt analysis		पार्श्वपथ विश्लेषण
show room	Geog.	प्रदर्शन कक्ष	shunt capacitance		पार्श्वपथ धारिता, शंट धारिता
showthrow	Chem.(Ink.)	पारदर्शिता	shunt capacitance loading		शंट धारिता भारण
shred	Chem., H.Sc.,Geol.	1. कतरन 2. शीर्णतंतु	shunt circuit	Phy.	पार्श्व परिपथ
shredded product		शीर्ण उत्पाद	shunt-fed vertical aerial (=shunt fed vertical antenna)		शंट पोषित ऊर्ध्वधर एन्टेना
shredded texture		शीर्णतंतुक गठन	shunt feed		शंट भरण
shredder	H.Sc.	शीर्णित्र	shunt feed system		शंट भरण तंत्र
shredding	H.Sc.	कतले काटना, काटना	shunt inductance loading		शंट प्रेरकत्व भारण
shrend	Chem.	काच कणन	shunting effect		शंट प्रभाव
shrew	Zool.	श्रू, मंजोरू	shunting stub	Phy.	पार्श्वपथक स्तूप, शंटकारी स्तूप
shrike	Zool.	श्राइक, लटूपक (लटोरा)	shunt loaded		शंट भारित, पार्श्व भारित
shrill note		तीव्र स्वर	shunt motor	Phy.	पार्श्व कुंडलित मोटर
shrimp	Zool.,Geog. H.Sc.	1. चिंगट, झींगी 2. श्रिम्प	shunt neutralization		शंट निष्प्रभावन, पार्श्वपथ निष्प्रभावन
shrimp trawler	Zool.	चिंगट आनायक	shunt peaking		शंट शिखरन
shrine	Geog.	चैत्य	shunt resistance		शंट प्रतिरोध, पार्श्व पथ प्रतिरोध
shrinkable covering	Math.	कुंचनीय आवरण	shunt stabilization		शंट स्थायीकरण
shrinkage	H.Sc., Chem.,Geol.	सिकुड़न, संकुचन	shunt trimmer capacitor		शंट सुसमंजक संधारित्र
shrinkage cavity		संकुचन कोटर	shunt wound	Phy.	पार्श्व कुंडलित
shrinkage crack		संकुचन विदर	shusu	H.Sc.	शुसु
shrinkage crack texture		संकुचन विदर गठन	shut	Chem.	शट
shrink block	Chem. (Plast.)	संकुच पिण्डक	shutdown	Math.	काम-बन्द
shrink factor	Phy.	संकोच गुणांक	shut down amplifier	Phy.	विराम प्रवर्धक
shrink proofing		संकुच सह्यन	shut down power	Phy.	विरामकालीन शक्ति
Shriver filter thickeners	Geol.	श्रिवर फिल्टर गाढ़कारी	shut-in	Geol.	संकीर्ण अध्यासित खड्ड
shriver press		श्रिवर दावक	shut-off member	Phy.	उपविरामक अवयव
shrub	Bot.,Geog., H.Sc.	झुप, झाड़ी	shutter		कपाट, शटर
shrubbery		झाड़ी, झुरमुट	shutter control		कपाट नियंत्रक, शटर नियंत्रक
shrub layer		झुप संस्तर	shutter speed		कपाट क्षिप्रता, शटर क्षिप्रता
shuffling	Geol.	समवकुलन			
Shuger film applicator	Chem.	शुगर फिल्म अनुप्रयोजित्र			

shutter test		कपाट निकष	sideband frequency		पार्श्व बैंड आवृत्ति
shuttle	<i>Phy.</i> <i>H Sc.</i>	शटल भरती, तुरी	sideband trimming		पार्श्व बैंड सुममजन
shuttle rocket		शटल रॉकेट	side basse	<i>Geol</i>	नति-अनुप्रस्थदिशा
sial	<i>Geol., Geog</i>	सिएल	side blown converter		पार्श्वधमित्र परिवर्तक
sialic acid	<i>Chem.</i>	साइएलिक अम्ल	side blown process		पार्श्वधमित्र प्रक्रम
sialic rocks	<i>Geol</i>	सिएली शैल	side board	<i>H Sc</i>	साइडबोर्ड
Sials	<i>Zool.</i>	सियालिस	side chain		पार्श्व शृंखला
siamang	<i>Zool.</i>	मियामंग	side chain compound		पार्श्व शृंखली यौगिक
siarensolic acid	<i>Chem.</i>	सिआरेनिनालिक अम्ल	side chain substitution		पार्श्व शृंखली प्रतिस्थापन
sib (sibling)	<i>Zool.</i>	सहोदर	side condition		भूजा प्रतिबन्ध
sibilant	<i>Phy.</i>	चौत्कारी (Sound)	side draw pin		पार्श्व वर्णन पिन
sibling species	<i>Zool</i>	1 समभासी जाति 2. सहोदर जाति	side equation	<i>Geog</i>	सहसमीकरण
sibljack	<i>Bot.</i>	सिबनजैक	side face		पार्श्व फलक
sib-mating		सहोदर समम	side-fired furnace		पार्श्व ज्वालित भट्टी, पार्श्व ज्वालिनी छाट्ट
siccative	<i>Chem.</i>	शुष्कता प्रेरक	side force		पार्श्व बल
siccideserta	<i>Bot</i>	शुष्क स्थल	side-hole cores		पार्श्व छिद्र कोर
siccocolous	<i>Bot.</i>	शुष्कस्थल वामी, मधुवासी	side hole sampler		पार्श्व छिद्र प्रतिदर्शक
siccus	<i>Bot</i>	रमहीन	side-lap		पार्श्व अतिव्यापित
sickening	<i>Geol.</i>	शियिलन	side line	<i>Geog</i>	उपवृत्ति
sickle		हमिया, दरारी, दात्र	side lobe echo	<i>Phy.</i>	शौण पालि प्रतिध्वनि
sickle cell anemia	<i>Zool., Chem</i>	दात्र कोशिका अरक्तता	side long reef	<i>Geol.</i>	प्रलंबी कण्ठर
sickle cell trait		दात्र कोशिका विशेषक	side payments		पार्श्व भुगतान
sickle gauge	<i>Chem.</i>	दात्र प्रमाणी, दात्र गेत्र	side-port furnace		पार्श्व द्वार भट्टी, पार्श्व द्वार छाट्ट
sickle moon	<i>Math.</i>	नखत्र	sideramine	<i>Chem.</i>	सिडरामीन
sick room	<i>H Sc.</i>	रोमी कक्ष	side-reaction		पार्श्व अभिक्रिया
sicula	<i>Zool, Geol</i>	सिकुला, अमिका	sidereal	<i>Math, Phy., Geog.</i>	नाक्षत्र
Sida	<i>Bot</i>	साइडा	sidereal coordinate system	<i>Math</i>	नाक्षत्र निर्देश तंत्र
<i>Sida acuta</i>		साइडा एक्यूटा	sidereal day		नाक्षत्र दिन
<i>Sida cordifolia</i>		साइडा कॉर्डिफोलिया	sidereal diurnal variation		नाक्षत्र आह्निक परिवर्तन
<i>Sida spinosa</i>		साइडा स्पाइनोसा	sidereal hour		नाक्षत्र घटा
side		1 पार्श्व 2. पक्ष (of an equation) 3. भुजा (of a figure)	sidereal month		नाक्षत्र मास
side-approach		पार्श्व उपागमन	sidereal noon		नाक्षत्र मध्याह्न
side band		पार्श्व बैंड	sidereal period		नाक्षत्र काल
			sidereal system		नाक्षत्र निहाय



sidereal time		नाक्षत्र समय	siderotechny	Geol.	लोहितकॅनीक, लोह प्रविधि
sidereal year		नाक्षत्र वर्ष	siderurgy	Geol.	लोहकर्म
siderite	Geol.	लोह उल्का, सिडेराइट	side-shots		पाश्वर्ष टिक्रेखा
sideritization	Geol.	सिडेराइटन	sideslip angle		पाश्वर्षसर्पण कोण
<i>Siderobacter brevis</i>	Bot.	साइडरोबॅक्टर ब्रेविस	side-slope ratio		पाश्वर्ष-डाल अनुपात
<i>Siderocapsa coronata</i>	Bot.	साइडरोकॅप्सा कार्रोनेटा	side stick	Geog.	पाश्वर्ष छड़, साइड स्टिक, पाश्वर्षीय शंकु
siderochrome	Chem.	सिडेरोक्रोम	side stream		पाश्वर्ष धारा
<i>Siderococcus communis</i>	Bot.	साइडरोकोकस कम्युनिस	side tone	Phy.	स्ववाक्
siderodot	Geol.	सिडेरोडॉट	side tube		पाश्वर्ष नली
sideroferrite	Geol.	सिडेरोफेराइट	sidewalk farmer		पाश्वर्ष मार्गी कृषक
siderography	Geol.	लोहात्कीर्णन कला	side width		पाश्वर्ष विस्तार
siderolite	Geol.	सिडेरोलाइट, लोहायम उल्का	side zero		पाश्वर्षशून्य
siderolith	Chem., Geol.	सिडेरोलिय, जैवलोहायम	siding	Chem., Geog.	पाश्विका, साइडिंग
sideromagnetic	Geol.	अनुचुंबकीय	Sidot's blende	Chem.	साइडो ब्लेंड
<i>Sideromonas duplex</i>	Bot.	साइडेरोमोनास डुप्लेक्स	sieberella		सीबेरेला
sideromycin	Chem.	सिडरोमाइसीन	siege	Chem., Geog.	1. घ्राष्ट्र तल 2. घेरा
<i>Sideronema globulifera</i>	Bot.	साइडरोनिमा ग्लोबुलीफेरा	Siegfried's carbamino reaction	Chem.	सीगफ्रीड कार्बॅमिनो अभिक्रिया
<i>Siderophacus corneolus</i>	Bot.	साइडरोफॅकस कॉर्न्योलस	Siemens-Martin process	Chem.	सीमेन्स मार्टिन प्रक्रम
siderophil	Zool.	लोहरानी	Siemens ozonizer		सीमेन्स ओजोनित्
siderophile element	Geol.	लोहरानी तत्व	sienna	Geol., Geog.	सिएना
siderophilic body		लोहरानी पिंड	sienna marble		सिएना संगमरमर
siderophilin	Chem.	सिडेरोफिलिन	sicrozem, sierosem	Geog., Geol.	सिरोजेम
siderophilous	Bot.	लोहरानी	sierra	Geog.	सिएरा (पर्वत)
siderophyllite	Geol.	सिडेरोफिल्लाइट	sierra agriculture		सिएरा कृषि
siderophyre	Geol.	सिडेरोफायर	Sieurin process	Chem.	स्यूरिन प्रक्रम
siderosa	Geol.	सिडेरोजा	sieve	Biol., H.Sc. Geol.	चालनी, छन्नी
sideroscope	Geol.	लोहदर्शी, सिडेरोस्कोप	sieve area		चालनी प्रदेश
siderose	Geol.	लोहमय	sieve cell	Bot.	चालनी कोशिका
siderosis	H.Sc.	लोहमयता	sieve map	Geog.	छन्नी मानचित्र, चालनी मानचित्र
<i>Siderosphaera major</i>	Bot.	साइडेरोस्फेरा मेजर	sieve method		चालनी विधि
siderostat	Phy.	तारक स्थिरदर्शी, साइडरोस्टॅट	sieve plate	Bot., Chem.	चालनी पट्टिका

sieve-plate column		चालनी-पट्टिका स्तम्भ	sigma molecular orbital		सिग्मा आणविक ऑर्बिटल, सिग्मा आणविक कक्षक
sieve pores		चालनी रंध्र	sigma phase		सिग्मा प्रावस्था
sieve structure		चालनी संरचना	sigma pile	Phy.	विसरण चिनि
sieve texture		चालनी गठन	(=diffusion stack)		
sieve tube		चालनी नलिका	sigmaspire		सिग्मास्पायर
sieving	Chem.	चालन	sigma tee		सिग्मा टी
Si-fabric	Geol.	Si-सक्रियता	sigmatospire	Geol.	सिग्मासर्पिल शिखर
sifter	Chem, H Sc.	विचालनी, छलनी	sigmoid		अवग्रहृणी, सिग्माकूपी
sifting	Chem (Plast)	विचालन, छटाई	sigmoidal		सिग्माभी
sigaretus		सिगरेटस	sigmoidal fold		सिग्माभी बलन
sight		1 दृष्टि 2 लक्ष्यदर्शी 3 दृष्टि चिह्न 4 लक्ष्य वाचना, अभिलिखन करना, अभिसंधान करना	sigmoidal septal filament		सिग्माभी पटततु
sight angle	Geog.	दर्श कोण	sigmoid curve		सिग्मा वक्र
sight eye horizon		दर्श क्षितिज	Sigioideomyces	Bot.	सिग्माइडिओमादमीज
sight feed lubricator		दृष्टि आभरण स्नेहक	sigmoid flexure		अवग्रहृणी आनमन
sight hole		दर्श छिद्र	sigmoid fold		अवग्रहृणी बलन
sight index		दर्श सूचक	sigmoid form		अवग्रहृणी रूप
sighting	Geog.	निशाना लेना	sigmoid notch		अवग्रहृणी खाव
sighting colour	Chem.	अभिज्ञान रंग	sigmoid type		अवग्रहृणी प्ररूप
sighting rule		दर्श रेखनी	sigmoiline	Geol.	सिग्मानिनामन
sight offset		दृष्टि अफसेट	sign		1 चिनि 2 चिह्न
sight rule		दर्श रेखनी, साइट रूल	signal	Geog., Phy, Math.	संकेत, सिग्नल
sight vane		साइट वेन, दर्श फलक	signal amplifier		संकेत प्रवर्धक
sight vane eye		दर्श फलक छिद्र	signal back light		परावर्तित संकेत प्रकाश
Sigillaria	Bot	सिजिलेरिया	signal base		संकेत आधार, सिग्नल बेस
sigillarlan axis		सिजिलेरिया अक्ष	signal complex information	Phy.	संकेत संकेत
Sigillariostrobus	Bot.	सिजिलेरिओस्ट्रोबस	signal electrode		सिग्नल इलेक्ट्रोड
sigma	Math., Chem, Phy	सिग्मा	signal generator		संकेत जनित्र
sigma complex		सिग्मा सङ्कुल	signal light		संकेत प्रकाश
sigma control limit		सिग्मा नियंत्रण सीमा	signalling	Phy, Geog.	संकेतन
sigma function		सिग्मा फन्शन	signalling organ		संकेतनायक
sigma meson		सिग्मा मेसन	signal mixer unit	Phy.	संकेत मिश्रण इकाई
			signal plate	Phy.	सिग्नल प्लेट
			signal speed		संकेत गति

signal strength (= signal intensity)		संकेत तीव्रता	signal relation		चिह्न संबंध
signal table		संकेत सारणी	sign stimulus		चिह्न उद्दीपन
signal to noise ratio	<i>Phy.</i> <i>Math.</i>	सिग्नल-रव अनुपात, संकेत वाघानुपात	sign test		चिह्न परीक्षण
signal transmission		संकेत संचारण	signum	<i>Math.</i>	चिह्न
signal velocity		संकेत वेग	signum function		चिह्न फलन
signal whistle		संकेत सीटी	sign wave		चिह्न तरंग
signature	<i>Math.</i>	सिग्नेचर, चिह्नक	sike	<i>Geog.</i>	लघु सरिता, लघु नाल
signature of a matrix		बाय्यूह का चिह्नक	sikussak	<i>Geog., Geol.</i>	सिकूसैक
signature of quadratic form		द्विघाती समघात का चिह्नक	sil		सिल
sign bit	<i>Phy.</i>	चिह्न बिट	silage		साइलेज
sign cloth	<i>H.Sc.</i>	साइन क्लॉथ	silane		सिलेन
sign combination		चिह्न समायोजन, चिह्न संयोजन	silanol	<i>Chem.</i>	सिलेनॉल
sign convention		चिह्न परिपाटी	silastic	<i>Chem.</i>	सिलेस्टिक
sign digit	<i>Math., Phy.</i>	सचिह्न अंक, चिह्ननांक	silazane	<i>Chem.</i>	सिलेजेन
signed magnitude		सचिह्न परिमाण	silazine	<i>Chem.</i>	सिलेजीन
signed measure		चिह्नित माप	silcina	<i>H.Sc.</i>	सिल्सिना
signed number		सचिह्न संख्या	silcrete	<i>Geol.</i>	सिलक्रीट
signet-ring stage	<i>Zool.</i>	मुद्रिका अवस्था	sile	<i>H.Sc.</i>	साइल
significance	<i>Math.</i>	सायंकता, अयंवत्ता	silence	<i>Phy.</i>	नीरवता
significance error		सायंकता त्रुटि	silencer	<i>Phy.</i>	रवशामक
significance level		सायंकता स्तर	silenoideae		साइलेनॉइडी
significance limit		सायंकता सीमा	silent discharge	<i>Chem.</i>	नीरव विसर्जन
significance of correlation		सहसंबंध सायंकता	silent electric discharge		नीरव विद्युत् विसर्जन
significance test		सायंकता परीक्षण	silent motion picture	<i>Phy.</i>	अवाक् चलचित्र
significant		सायंक	silent period	<i>Phy.</i>	मूक अवधि
significant contour		सायंक समोच्च रेखा	silent trading	<i>Geog.</i>	मौन वस्तुविनिमय
significant correlation		सायंक सहसंबंध	silent zone	<i>Phy.</i>	नीरव प्रदेश, ध्वनिहीन प्रदेश
significant digit		सायंक अंक	silesia	<i>H.Sc.</i>	साइलीशिया
significant digit arithmetic	<i>Math.</i>	सायंक अंक परिकलन	silesian lace		साइलीशियन लेस
significant figure		सायंक अंक	silesian method	<i>Chem.</i>	साइलीशियन निधि
sign of integration		समाकलन चिह्न	silesian process		साइलीशियन प्रक्रम
sign of structure		संरचना चिह्न	silex	<i>H.Sc.</i>	साइलेक्स
sign of zodiac	<i>Math.</i>	राशि	silexite	<i>Geol.</i>	साइलेक्सइट
			silbicon	<i>H.Sc.</i>	सिल्विकॉन
			silica	<i>Chem., Geol., Geol.</i>	सिलिका

silica brick		सिलिका इष्टिका, सिलिकाकी ईंट	siliceous sinter terraces	Geol.	गद्दबराइट वेदिका
silica crucible		सिलिका भूषा	siliceous skeleton		सिनिकामय ककाल
silica gel		सिलिका जेल	siliceous soil		मिलिकामय मृदा
silica glass		सिलिका कांच	siliceous spicule		मिलिकामय कटिका
silicam	Chem.	सिलिकेम	siliceous xenolith		मिलिकी अपराश्रम
silicane	Chem.	सिलिकेन	silicic	Chem., Geol.	1 मिलिसिलिक 2 अधिसिलिक
silicarenite	Geol.	सिलिकी रेणुकाश्रम, सिलिकएरेनाइट	silicicolous	Bot	मिलिकावासी, चकमकवासी
silica stone		सिलिकाश्रम	silicic rock		अधिसिलिक शैल
silicate	Chem.	सिलिकेट	silicide	Chem.	सिलिसाइड
silicate cotton		सिलिकेट रई	silicification	Geol., Geog	सिलिकीभवन, सिलिकायन
silicated		सिलिकेटित	silicified stump		सिलिकीभूत छूट
silicated marble		सिलिकेटिन सगमरमर	silicified wood		सिलिकीभूत काष्ठ
silicated soap		सिलिकेट साबुन	silicolith	Geol.	मिलिकी जीवाश्रम
silicate glass		मिलिकेट कांच	silicinate	Geol.	सिलिसिनेट
silicate paint		मिलिकेट पेन्ट	silicindyte	Geol.	मिलिकी गूटिकाश्रम
silicate technology		सिलिकेट शिल्प	Silicispongiae	Zool	सिलिसिस्पजी
silica thermometer	Phy.	मिलिका तापमापी	silicle		सिलिकिल
silication	Geol.	मिलिकीभवन, सिलिकीयन	silico-acetylene	Chem.	मिलिकोऐथीलीन
silicification	Geol.	सिलिकेटीभवन, मिलिकेटन	silicoblast	Zool.	सिलिकाकोरक
siliceous		मिलिकामय, मिलिकी	silicochloroform		मिलिकोक्लोरोफार्म
siliceous deposit		सिनिकामय निक्षेप	silicoethane		सिलिकोएथेन
siliceous geyser		सिनिकामय उष्णोत्स	Silicoflagellata	Zool.	मिलिकोफ्लेगेलेटा
siliceous grassland		सिलिकामय घासस्थल	silicoflagellate	Geol., Zool	सिलिकोकलामी
siliceous lava		मिलिकामय लावा	silicofluoride	Chem.	मिलिकोफ्लुओराइड
siliceous ooze		सिलिकामय निषक	silicoilmenite	Geol.	सिलिकोइलमेनाइट
siliceous quartz sandstone		मिलिकी स्फटिक बानुकाश्रम	silicol	Chem.	सिलिकॉल
siliceous radiolarian shell		मिलिकामय रेडियोलेरियन कोश	silicol process		सिलिकॉल प्रक्रम
siliceous sandstone		सिलिकी बानुकाश्रम	silicomanganese steel	Chem.	सिलिकोमैंगनीज इस्पात
siliceous shell		सिलिकामय छोल	silicomagnesiumfluorite	Geol.	सिलिकोमैग्नीशियो- फ्लुओराइट
siliceous shistus		सिलिकामय शिस्टस	silico mesoxalic acid		सिलिको मेसोऑक्सलिक अम्ल, मिलिकी मेसोऑक्सलिक ऐसिड
siliceous slate		सिलिकामय सिन्टर	silico methanol		सिलिको मॅथेनॉल
			silicomolybdate		सिलिकोमोलिब्डेट

silicon	<i>Chem.</i>	सिलिकन	silk filature	रेशम कताई, रेशम कताई घर, रेशम अटेरन, रेशम अटेरना
silicon bronze		सिलिकन कांसा, सिलिकन कांस्य	silk gland	रेशम ग्रंथि, कौशेय ग्रंथि
silicon copper		सिलिकन ताम्र	silk industry	रेशम उद्योग
silicon diode		सिलिकन डायोड	silk klay	<i>Chem.</i> सिल्कले
silicone	<i>Chem.,Phy.</i>	सिलिकोन	silk moth	रेशम कीट, कौशेयक
silicones (a family of compounds with silicones)		सिलिकोन	silkool	<i>H.Sc.</i> सिल्कल
silicon iron		सिलिकन लोहा	silk route	<i>Geog.</i> सिल्क रूट
siliconising process	<i>Chem.</i>	सिलिकन प्रक्रम	silk screen	<i>H.Sc.</i> सिल्क स्क्रीन
silicon oxalic acid		सिलिकन ऑक्सैलिक ऐसिड	silk-screen printing	रेशम आवरण छपाई, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग
silicon propane (silicopropane)		सिलिकन प्रोपेन	silk serge	सिल्क सर्ज
silicon steel		सिलिकन इस्पात	silk waste	रेशम अवशिष्ट
silicon tetrachloride		सिलिकन टेट्राक्लोराइड	silk worm	<i>Zool.</i> रेशमकीट, कौशेयक
silicon transformer steel		सिलिकन परिवर्णामित्र इस्पात	silk yarn	रेशम सूत्र
silicon wafer		सिलिकन पटलिका, सिलिकन वेफर	silkly crystal	रेशमी क्रिस्टल, रेशमी स्फाटक
silicosis	<i>Chem.</i>	सिलिकोसिस	silkly lustre	रेशमी च्युति, रेशमी चमक
silico spiegel	<i>Chem.</i>	सिलिको स्पीगेल	silkly precipitation	रेशमी अवक्षेप
silicotelic	<i>Geol.</i>	आद्यथटित, सिलिकोटेलिक	sill	<i>Geol.,Geog.</i> सिल
silico thermal process		सिलिकन ऊष्मीय प्रक्रम	sill depth	<i>Zool.</i> देहली गभीरता
silicotitanate	<i>Chem.</i>	सिलिकोट्टाइटनेट	sillimanite	<i>Geol.</i> सिलीमेनाइट
silicotungstate		सिलिकोटंगस्टेट	sillon silk	<i>H.Sc.</i> सिलॉन रेशम
silicotungstic		सिलिकोटंगस्टिक	silly putty	<i>Geog.</i> राल पट्टी
silicula	<i>Bot.</i>	सिलिक्यूल	silo	<i>Chem.,Bot.</i> साइलो, संधान कल
silicule	<i>Bot.</i>	सिलिक्यूल	silo storage	साइलो भंडार
silification	<i>Geol.</i>	सिलिकीयन	siloxane	<i>Chem.</i> सिलोक्सेन
siliflex process	<i>Chem.</i>	सिलिफ्लेक्स प्रक्रम	siloxene	<i>Chem.</i> सिलोक्सीन
silique		सिलीक	siloxicon	<i>Chem.</i> सिलोक्सिकॉन
silk		रेशम, कौशेय, सिल्क	silsin	<i>H.Sc.</i> सिल्सिन
silkaline	<i>H.Sc.</i>	सिल्कैलीन	silt	<i>Geol., Geog.</i> 1. पांगु, सिल्ट 2. गाद
silkasha	<i>H.Sc.</i>	सिल्कशा	silt bar	गादरोधिका
silk brocade		रेशमी जरी	silttil	<i>Geol.</i> सिल्टिल
			silt-laden stream	गादयुक्त सरिता
			silt laden water	गादयुक्त जल
			silt load	गाद भार
			silt loam	सिल्ट दुमट

silt shale		पाशु शेल	silver line system	रजत रेखा तंत्र
siltstone		पाशु प्रस्तर	silver method	रजन विधि
silty breccia		पाशु सकोणशम	silver nitrate	रजत नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट
silty clay		पाशु मृत्तिका	silver powder	रजन चूर्ण
silty sand	<i>Geol., Geog.</i>	पाशु बालू	silver protein	रजत प्रोटीन
silurian		सिल्यूरियन	silver reductor	रजन अपचायक, रजत रिडक्टर
Silurian period		सिल्यूरियन कल्प	silver ring	रजत अंगूठी
silurian sediment		सिल्यूरियन अवसाद	silver rod electrode	रजत रॉड इलेक्ट्रोड
Silurian system		सिल्यूरियन शैल समूह	silver sand	रजत बाल, सिल्वर सैंड
siluroid		सिल्यूरॉइड (अधाल्कमीन)	silver solder	रजत सोल्डर
silva	<i>Bot.</i>	वनवृक्षादि	silver stain	रजत अभिरंजक
silvalia	<i>H. Sc.</i>	सिल्वालिन	silver steel	रजत इस्पात
<i>Silvanus surinamensis</i>	<i>Zool.</i>	सिल्वैन्स सूरिनेमेन्सिस	silver storage battery	रजत संचायक बैटरी
silver	<i>Chem.</i>	1 चांदी, रजत, सिल्वर 2 (gl.) तनु पुत्र 3. (adj.) रजत, रजत	silver tablet	रजत पट्ट
silver amalgam	<i>Geol., Chem.</i>	पारद रजत मिश्रण	silver thaw	रजत हिमद्रव
silver argento cyanide		सिल्वर आर्जेन्टो सायनाइड	silver thiocyanate	सिल्वर थायोसायनेट
silver bar	<i>Zool.</i>	बला, करली	silver tin	रजत बग
silver belly	<i>Zool.</i>	मुल्लन	silver voltameter	रजत वोल्टामीटर
silver chloride electrode		रजन क्लोराइड इलेक्ट्रोड	silver ware	रजत भाण्ड
silver cloth		रजत वस्त्र	silverwhite	रजतश्वेत
silver copper glance		रजत ताम्र ग्लान्स	silver wire	रजत तार, चांदी का तार
silver disease		रजतन रोग	silver wool	रजत ऊर्ण, रजत बूल
silvered		रजतित	silvery	<i>Geol., Chem.</i> सफेला, रजताम, रजतीय
silvered glass		रजतित कांच	silvery iron	रजताम लोह
silver fish		रजत मीनाश, मत्स्यक	silvery pig iron	रजतीय कोल लोह
silver-free color		रजत मुक्त रंग	silvialite	<i>Geol.</i> सिलविएलाइट
silver glance		रजत ग्लान्स	silviculture	<i>Bot., Geog.</i> वनवर्धन
silver image		रजत प्रतिबिम्ब	silyl	<i>Chem.</i> सिलिन
silvering		रजतन	sim	<i>Geol. Geog.</i> सिमै
silvering disease		रजतन रोग	simal cotton	<i>H. Sc.</i> सीमल काँटन
silvering test		रजतन निरूप्य	Simaroubaceae	<i>Bot.</i> सिमारूबेसी
silver iodide		रजत आयोडाइड	simazla	<i>Chem.</i> सिमेज़ीन
silver iodide seeding technique		रजत आयोडाइड बीजन तकनीक	simblam	<i>Bot.</i> सिम्ब्लम
			simetite	<i>Geol.</i> सिमेटाइट

simgo	<i>H.Sc.</i>	सिमगो	simnel cake	<i>H.Sc.</i>	सिमनल केक
simian feature	<i>Geog.</i>	वानरी लक्षण	simoom, (=simoon)	<i>Geog.</i>	सिमूम, सिमून
simian malaria	<i>Zool.</i>	कपि मलेरिया	<i>Simocephalus sima</i>	<i>Zool.</i>	साइमोसेफैलस साइमा
simian shelf		कपि प्रक्षेप	simo chart	<i>H.Sc.</i>	साइमो चार्ट
simian virus		कपि विषाणु	simodon	<i>Bot.</i>	सिमोडोन
Simiidae	<i>Zool.</i>	सिमिआइडी	Simon Carves oven	<i>Chem.</i>	साइमन कार्वेज भट्टी
similar	<i>Math., Chem.</i>	समरूप, सदृश	simonellite	<i>Geol.</i>	सिमोनेलाइट
similar determinantal equation		समरूप सारणिकीय समीकरण	Simonini reaction	<i>Chem.</i>	सिमोनिनी अभिक्रिया
similar ellipses		समरूप दीर्घवृत्त	<i>Simonsiella crassa</i>	<i>Bot.</i>	सिमोनसिएला क्रैसा
similar figures		समरूप आकृति	simonyite	<i>Geol.</i>	सिमोनीआइट
similar folding		समरूप बलन	simple	<i>Math.</i>	सरल, साधारण, सादा
similar homographic ranges		समरूप वज्रानुपाती मालाएँ	simple algebraic extension		सरल बीजीय विस्तार
similar hyperbolas		समरूप अतिपरवलय	simple arc		सरल चाप
similarity		1. सादृश्यता 2. समरूपता	simple AVC		सरल स्वप्रति (स्वतः प्रचलता नियंत्रण)
similarity spectrum		समरूपता स्पेक्ट्रम	simple batholith	<i>Geol.</i>	एकवेधी महास्कंध
similarity theory		समरूपता सिद्धांत	simple beam		साधारण दंड
similarly situated figures		समस्थित चित्र	simple caldera	<i>Geol.</i>	एकस्फोटी ज्वालामुखी कुंड
similar matrices		समरूप आव्यूह	simple cascade		सरल सोपानी पात
similar sets		समरूप समुच्चय	simple classification		सरल वर्गीकरण
similar simply ordered aggregates		समरूप क्रमित समुच्चय	simple closed curve		सरल संवृत वक्र
similar solids		समरूप घनाकृति, समरूप ठोस	simple closed Jordan's arc		सरल संवृत जोरदां चाप
similar systems		समरूप निकाय	simple compression wave		साधारण संपीडन तरंग
similar terms		समरूप पद	simple conic projection		सरल शंकव प्रक्षेप
similiflorus	<i>Bot.</i>	समपुष्पी	simple continued fraction		सरल वितत भिन्न
similitude	<i>Math., Phy.</i>	सादृश्य	simple correlation		सरल सहसंबंध
similar	<i>Geol.</i>	सिमिलार	simple correlation coefficient		सरल सहसंबंध गुणांक
simmer	<i>Chem., H.Sc.</i>	सिमसिमाना	simple cube		सरल घन
simmering		सिमसिमाना	simple curve		सरल वक्र
simmering temperature		सिमसिमो ताप	simple cylindrical projection	<i>Geog.</i>	सामान्य बेलनाकार प्रक्षेप
simmerstat	<i>Chem.</i>	सिमरस्टाट	simple derivative		सरल व्युत्पन्न
Simmons-Smith method	<i>Chem.</i>	सिमान्स-स्मिथ पद्धति			

simple differential equation		सरल अवकल समीकरण	simple landscape		सादी दृश्यभूमि
simple discontinuity		सरल असांतत्य	simple leaf		सरल पर्ण
simple dyke		एकवेधी डाइक	simple lode		सरल लोड
simple elongation		सरल दीर्घवृद्धि	simple loop		सरल पराश
simple encounter		सरल समागम	simple lopolith		एकवेधी लोपोलिय
simple epithelium	<i>Bot., Zool.</i>	एकस्तरी उपकला	simple machine		सादी मशीन, सरल यंत्र
simple equation		सरल समीकरण	simple marble		सामान्य सगमरसर
simple equivalent pendulum	<i>Phy.</i>	तुल्यकामी सरल लोलक	simple material		सरल पदार्थ
simple extension		सरल विस्तार	simple measure		सरल माप
simple eye		सरल नेत्र	simple mechanical transmission		साधारण सम्पर्की संचारण
simple field		सरल क्षेत्र	simple merge		साधारण विलय
simple fold		सरल बलन	simple microscope	<i>Phy.</i>	आवर्धक लेन्स
simple fraction		सरल भिन्न	simple mineral	<i>Geol.</i>	एकल धनिज
simple fruit	<i>Bot.</i>	एकल फल	simple module		सरल प्रतिरूपक
simple function (schlicht function)	<i>Math.</i>	पृथक्मान फलन	simple ovary		सरल अंडाशय
simple geosyncline		सरल भूअभिन्नति	simple pegmatite		सामान्य पेग्माटाइट
simple glyceride		साधारण ग्लिसराइड	simple pendulum		सरल लोलक
simple group		सरल समूह	simple periodic wave		सरल आवर्ती तरंग
simple harmonic motion		सरल आवर्त गति	simple pint		सादा क्रीलक
simple harmonic oscillation		सरल आवर्त दोलन	simple plate		सामान्य पट्ट
simple harmonic oscillator		सरल आवर्त दोलक	simple point		सरल बिन्दु
simple harmonic progressive wave		सरल आवर्त प्रगामी तरंग	simple pole	<i>Math.</i>	एकघात अनतक
simple harmonic surface wave		सरल आवर्त पृष्ठ तरंग	simple process		सरल प्रक्रम
simple harmonic vibration		सरल आवर्त कंपन	simple process factor		सरल प्रक्रम गुणांक
simple harmonic wave		सरल आवर्त तरंग	simple proportion		सरल समानुपात
simple homogeneous system	<i>Phy.</i>	सरल समोपी तंत्र, एक प्रावस्पी तंत्र	simple protein		सरल प्रोटीन
simple injury	<i>H.Sc.</i>	सादी क्षति	simple radial distribution		सरल त्रिज्य बंटन
simple interaction		सरल अन्योन्यक्रिया	simple radiative capture		सरल विकिरणी प्रग्रहण
simple interest		साधारण ब्याज	simple random sample		सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श
simple laccolith		एकवेधी सीकोलिय	simple random sampling		सरल यादृच्छिक प्रतिचयन
			simple region (schlicht region)	<i>Math.</i>	पृथक्मान प्रदेश
			simple ring		सरल वलय
			simple root		सरल मूल



simple rotatry dispersion		सरल घूर्णन परिक्षेपण	simplex tableau		एकधा सारणी
simple salt		सरल लवण	simplex technique		एकधा प्रविधि
simple shear		सरल अपरूपण	simplex transformation		एकधा रूपांतरण
simple sill		एकवेधी सिल	simplex uterus	Zool.	सरल गर्भाशय
simple source		एकल उद्गम	simplex virus		सरल विषाणु
simple spicule		सरल कंटिका	simple zero	Math.	एकघात शून्य बिन्दु
simple spit		सरल भूजिह्वा	simplibaculate		एकल वैकुलापवितक
simple statistical hypothesis		सरल सांख्यिकीय परिकल्पना	simplices	Bot.	सिम्प्लिसीज, आद्यलक्षणी
simple steel		साधारण इस्पात	simplicial	Math.	प्रसमुच्चयी
simple stock		एकवेधी स्कंध	Simplicidentata	Zool.	सिम्पलीसिडेन्टेटा
simplest problem situation		सरलतम समस्या स्थिति	simplification	H.Sc.	सरलीकरण, सरलन
simple substitution		सरल प्रतिस्थापन	simplified map	Geog.	अनलंकृत मानचित्र, साधारण मानचित्र
simple target		सरल लक्ष्य	simplicifolius	Bot.	साधारणपर्णी
simple tissue		सरल ऊतक	simplify		सरल करना
simple topology		सरल संस्थिति	simply bounded subset		सरल परिवद्ध उपसमुच्चय
simple transcendental extension		सरल अवीजीय विस्तार	simply closed geodesic		सरलसंवृत अल्पांतरी
simple translocation		सरल स्थानान्तरण	simply connected region	Math.	एकशः संवद्ध प्रदेश
simple trial function		सरल जांच फलन	simply covered		एकशः आच्छादित
simple unbiased estimate		सरल अभिनत आकल	simply ordered		क्रमित समुच्चय, क्रमित सेट
simple uniform convergence		सरल एकसमान अभिसरण	simply ordered set (= completely ordered set)	Math.	पूर्णतः क्रमित समुच्चय
simple vein	Geol.	समांगी शिरा	simply periodic function (=singly periodic function)	Math.	एकावर्ती फलन
simple wave		सरल तरंग	simply transitive	Math.	अद्वितीयदा संक्रामक
simplex	Math. Phy. H.Sc.	प्रसमुच्चय, सिम्प्लेक्स एकमुखी सरल	Simpson's one-third rule	Math.	सिम्पसन का तिहाई नियम
simplex algorithm		एकधा कलनविधि	Simpson's three eighths rule		सिम्पसन का अष्टक नियम
simplex formula		प्रसमुच्चय सूत्र	Simroth diverticulum	Zool.	सिम्रोथ अंधवर्ध
simplex iteration		एकधा पुनरावृत्ति	simulated sampling	Math.	अनुकारित प्रतिचयन
simplex line		एकधा आवर्तक परिपथ	simulation	Phy.	अनुकरण, अनुकार
simplex method		एकधा विधि	simulation methods		अनुकार विधि
simplex operation		एकमुखी प्रचालन			
simplex problem		एकधा समस्या			
simplex sampler		साधारण प्रतिदर्शित्र			

simulation of business cycle		व्यापार चक्र अनुकार	sine galvanometer		ज्याघारामामी, साइन गैल्वेनोमीटर
simulation of queues		पवित्र-अनुकार	sine law		साइन नियम, ज्या-नियम
simulation technique		अनुकार प्रविधि	sinellic	<i>H Sc</i>	साइनेलिक
simulative network		अनुकरणात्मक जाल	sinensis	<i>Bol</i>	चीनवादी
simulator	<i>Phy</i>	अनुकारी	sine position		ज्यास्थिति, साइन स्थिति
simultan deep drawing	<i>Chem (Met)</i>	युगपत् मूकपेषण	sine potentiometer		ज्याविभव परिवर्तक
simultaneity	<i>Chem., Math</i>	युगपत्ता, युगपत्ति, समकालिकता, समझणिकता	sine transform		ज्या रूपांतर
simultaneous		समझणिक, युगपत्	sine vibration		साइन कंपन, ज्याकंपन
simultaneous access		युगपत् अभिगम	sinew	<i>Geog</i>	स्नायु
simultaneous collision		युगपत् संघट्टन	sine wave	<i>Phy, Math.</i>	साइनतरंग, ज्यातरंग
simultaneous congruence		युगपत् समशेषता	singeing	<i>H Sc</i>	धूलिसाना
simultaneous coordinates		युगपत् निर्देशांक	singhee	<i>Zool</i>	सिंधी
simultaneous differential equation		युगपत् अवकल समीकरण	singing	<i>Chem</i>	ईपद् दहन, बहिर्दहन
simultaneous displacements		युगपत् विस्थापन	singing arc lamp	<i>Phy</i>	गायक अर्क लैम्प
simultaneous double tertiary levelling		समकालिक डबल तृतीयरी तलेक्षण	singing flame		गायक ज्वाला
simultaneous equation		युगपत् समीकरण	singing sand	<i>Geog, Geol</i>	निनारी बालू, गायक बालू
simultaneous equation moded		युगपत् समीकरण निर्देश	single		एकाकी, अकेला, एकल, एक
simultaneous events		युगपत् घटनाएँ	single address	<i>Phy</i>	एकीय पता
simultaneously		युगपत्	single adsorption		एकल अधिशोषण
simultaneous nonlinear system		युगपत् आरेखिक निराय	single band		एकल बैंड
simultaneous partial differential equation		युगपत् आंशिक अवकलन समीकरण	single-base-powder		एकाधार पाउडर, एकाधार चूर्ण
sinamay	<i>H.Sc.</i>	सिनामे	single beam spectrometer		एकल त्रिकणपुंज
Sinclair Baker reforming	<i>Chem.</i>	सिंक्लेर बेकर पुन संशोधन	single bond		एक बांध
sine	<i>Math.</i>	साइन, ज्या	single celled algae		एक-कोशिय शैवाल
sine amplitude (= Sn function)	<i>Math.</i>	Sn-फलन	single cell isolation		एकल कोशिका वियोजन
sine curve	<i>Math.</i>	साइन वक्र, ज्या वक्र	single channel pulse height analyser		एकल चैनल स्पंद उच्चता विश्लेषक
			single character shift		एकल अभिलक्षण विस्थापन
			single circle		एकल वृत्त
			single colloid system		एकल कोलाइड तंत्र
			single conductor cable		एकचालक केबिल
			single crest stream		एकशिखरी सरिता, एकशृंगी सरिता

single cross	<i>Biol.</i>	एकल संकर	single ionization	एकघा आयनन
single cross over		एकल विनिमय, एकल विनिमयज	single jointed	एकसन्धिगत
single crystal comparison method		एकल क्रिस्टल तुलना विधि	single line	1. एकल रेखा 2. एकल लाइन
single crystal diffractometer		एक क्रिस्टल विवर्तनमापी	single-line fieldbook	एकरेखी क्षेत्रवही
single crystal filament		एकल क्रिस्टल तंतु	single line spectroscopic binary	एकलरेखीय स्पेक्ट्रमी युग्मतारा, एकरेखीय अभिपरीय युग्मतारा
single crystal method		एकल क्रिस्टल विधि	single-line stream	एकरेखीय सरिता
single crystal technique		एकल क्रिस्टल तकनीक	single linguistic stock	एकभाषिक वंश, एक भाषिक स्टॉक
single cusp		एकल उभयाग्र	single non integrable equation	एकल असमाकलनीय समीकरण
single cusp of the first species		प्रथम प्रकार का एकल उभयाग्र	single observer forecasting	एक प्रेक्षक पूर्वानुमानन
single cycle mountain		एकचक्री पर्वत	single operation	एकल प्रचालन
single detachment		एक डिटैचमेंट	single panel vibration	एक पैनल कम्पन
single dorsal aorta	<i>Zool.</i>	अयुग्मित पृष्ठ महाधमनी	single particle diffraction	एकल कणिका विवर्तन
single doublet		एकल द्विक	single particle shell model	<i>Phy.</i> स्वतंत्र कण कोश मॉडल
single drift hypothesis		एकल अपवाह अभिकल्पना	single phase current	एककलीय धारा
single effect evaporator		एकल प्रभात्र वाष्पित्र	single phase furnace	एकल प्रावस्था भट्टी, एकल प्रावस्था प्राट्ट
single electron jump		एक इलेक्ट्रॉनी झंप	single phase system	एक प्रावस्था तंत्र
single ended transducer		एककोरी ट्रांसड्यूसर	single phase transformer	एक कलीय ट्रांसफार्मर
single even harmonic system		एकल सम संनादी तंत्र	single point	एकल बिन्दु
single factor theory		एकल उपादान सिद्धान्त	single polarity pulse	एकध्रुवी स्पंद
single-factor map		एक उपादान मानचित्र	single pole double throw-switch	एकध्रुवी द्विलेपी स्विच
single-family house	<i>H.Sc.</i>	एक परिवार गृह	single pole single throw	एकध्रुवी एक लेपी
single-flash		एकदमक, एक-स्फुर	single pole switch	एक ध्रुव स्विच
single-goal model		एकलक्ष्य निदर्श	single process	एकल प्रक्रम
single group method		एकल समूह निधि	single pulley	एकल धिरनी
single hop		एकल प्नुति	single racial group	एक प्रजातीय वर्ग
single independent variable		एकल स्वतंत्र चर	single-roll crusher	एकरोल दलित
single infinitude		एकल अनंतता	'singles' (single particle)	एकल (कण)
single integrable equation		एकल समाकलनीय समीकरण		
single integrals		एकल समाकल		

single sampling AOQL table	एकल प्रतिचयन मा० नि० गु० सी० सारणी (एकल प्रतिचयन माध्य निर्गत गुणता सीमा सारणी)	single-toggle jaw crusher	एक टॉगल हनु चालित्र
single sampling attribute plan	एकल प्रतिचयन गुण आयोजना	singleton	एकल
single sampling inspection plan	एकल प्रतिदर्शी निरीक्षण आयोजना	single tone	एक स्त्री
single sampling lot tolerance table	एकल प्रतिचयन प्रचय सह्यता सारणी	single touch	एक स्पर्श
single sampling plan	एकल प्रतिचयन आयोजना	single touch method	एकस्पर्श विधि
single scattering	एकल प्रकीर्णन	single transmission effect	एकल संचार प्रभाव
single shear steel	एकल अपरूपण इस्पात	singlet-singlet radiative lifetime	एक-एकम विकिरणात्मक आयु, एक-एक विकिरणात्मक जीवन-काल
single shot blocking oscillator	एकस्थितिक निरोधी दोलित्र	singlet state	एकक अवस्था
single shot multivibrator	एकस्थिति बहुकंपित	singlet-triplet excitation	एक-त्रिक उत्तेजन
single shot trigger circuit	एकस्थितिक ट्रिगर परिपथ	singlet-triplet inter combination	एक-त्रिकअन्तरसंयोजन
single side band	एक पार्श्व बैंड	single turn coil	एकफेरेकी कुंडली
single side band modulation	एकपार्श्व बैंड माहूलन	single-turn coil reactor	एकफेरी कुंडली रिएक्टर
single side band transmitter	एकल पार्श्वबैंड प्रेषित्र	single valence state	एक संयोजक अवस्था
single side band transmission	एकलपार्श्व बैंड संचरण	single-valued displacement	एकमान विस्थापन
single specification limit	एकल विनिर्देश सीमा	single valued function	एकमानी फलन
single-split sampler	एकमानी प्रतिदर्शित्र	single-valued mapping	एकमान प्रतिचित्रण
single spore isolation	एकल बीजाणु विद्योजन	single-valued velocity potential	एकमान वेग-विभव
single-stage cluster sampling	एकचरण गुच्छ-प्रतिचयन	single vortex	एकल घूमिल
single stage recycle	एकल चरण पुनचक्रण	single ware	एकल तरण
single-stage rocket	एकचरण राकेट	single wire antenna	एकतार ऐन्टेना
single state	एकल अवस्था	single withdrawn method	एकल अपहरण विधि
single-step acceleration	एक चरण त्वरण	singly bounded	एक बाधयित
single-step design	एकचरण अभिकल्पना	singly form	विचित्र समघात
single strand chain	एकसूची श्रृंखला	singly infinite family of surfaces	पृष्ठों का एकलतया अनंत परिवार
singlet	एकक रेखा, एकक	singly ionised	Phy. एकघा आयनित
single tail test	एकपुच्छ परीक्षण	singly-linked block design	Math. एकल श्रृंखला खंडक अभिकल्पना
singlet linkage	एक-इनेक्ट्रॉन संयोजन		

singly periodic function	Math.	एकावर्ती फलन	sink	Math.,Phy.	1. अभिगम 2. घंत्तना, निमज्जन
singonne	H.Sc.	सिंगोन		Geol.,Geog. H.Sc.	3. विलय गर्त 4. सिक, हीदी
singular curve	Math.	विचित्र वक्र	sink and float method		निमज्जन और प्लवन विधि
singular distribution		विचित्र वंटन	sinker		निमज्जक
singular force		विचित्र बल	sink-float analysis		निमज्जन प्लवन विश्लेषण
singular form		विचित्र समघात	sink-float separation		निमज्जन प्लवन पृथक्करण
singular function		विचित्र फलन	sinkhead	Chem.	शीर्ष सिक
singular integral		विचित्र समाकल	sink hole	Geol.	घोल रंध्र, विलयन रंध्र
singularity		विचित्रता	sinking	Chem.	1. स्रवण 2. सिकन, अद्यः सादन अवप्रवाह
singularity point		विचित्रता बिन्दु		Zool.	
singular line		विचित्र रेखा	sinking coast		घंत्तता तट
singular matrix	Math.	अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स	sinking creek		निमज्जी निवेशिका
singular measure		विचित्र माप	sinking roller		सिकिंग रोलर
singular normal distribution		विचित्र प्रसामान्य वंटन	sinking speed	Math.	अवरोहण चाल
singular operator		विचित्र संकारक	sinking well		घंत्तता कूप
singular perturbation problem		विचित्र क्षोभ-समस्या	sink net	Zool.	नितल जाल
singular point		विचित्र बिन्दु	sinoatrial region	Zool.	कोटारालिद क्षेत्र
singular potential		विचित्र विभव	sinoauricular node	H.Sc.	शिरा-अलिन्द पर्व
singular series		विचित्र श्रेणी	sinomenine	Chem.	सिनामनीन
singluar simplex		विचित्र प्रसमुच्चय	sinopite	Geol.	सिनोपाइट
singular solution		विचित्र हल	sinople	Geol.	सिनोपिल
singular tangent		विचित्र स्पर्शरेखा	sinter	Phy.,Geol.	1. निसाद, सिन्टर, 2. सिन्टर करना
singular trans-formation		विचित्र रूपांतरण, व्युत्क्रमणीय,रूपांतरण	sintered conductor		सिन्टरित चालक
singular yield locus		विचित्र पराभव बिन्दु-पथ	sintered glass crucible		सिन्टरित कांच की मूपा
singulosilicate	Chem.	सिग्यूलोसिलिकेट	sintered matrix		सिन्टरित आब्यूह, सिन्टरित मैट्रिक्स
sinhalite	Chem.	सिहैलाइट	sintered powder		निसादित चूर्ण, सिन्टरित चूर्ण
sinigrin	Bot.	सिनिग्रिन	sintering plant		सिन्टरन संयंत्र
sinistral	Math., Geol.,Zool.	वामावर्त	sintering process		सिन्टरन प्रक्रम
sinistral fault		वामावर्त भ्रंश	sinuate	Bot.,Geol.	सहरदार, तरंगित
sinistral set		वामावर्त समुच्चय	sinuate gill	Bot.	कोटरी अस्पष्ट, कोटरी गिल
sinistral surface		वामावर्त पृष्ठ	sinuatus		तरंगतदी
sinistrorse curve		वामावर्त वक्र			
sinistrorsum surface		वामावर्त पृष्ठ			
sinistrose		वामावर्तित			

sinu auricular-aperture	Zool.	शिरा-अनिद छिद्र	Sipho	Geol.	साइफो
sinu-auricular node		शिरा-अनिद पर्व	<i>Siphocoryne indobrassicae</i>	Zool.	साइफोकोराइन इन्डोब्रेसिकाई
sinu-auricular valve		शिरा-अनिद कपाट	Sipho gracile		साइफोग्रेसाइल
sinuosity	Geol.	तरंगितता	siphon		साइफन विनाल, नाल
sinuous	Geog.	सहरदार, तरंगित	siphonaceous		नालीय, साइफनी
sinuous curve	Math	ज्यावकीय वक्र	Siphonales	Bot	साइफोनेतीज
sinuous ridge		सहरदार कटक	siphonal fold		साइफनी बलन
sinuous winding		सहरदार विचरं	siphonal funnel		साइफनी कोप, साइफनी फनल
Sinupalliate	Zool	साइफुपैलिएटा	siphonal lobe		साइफनी पालि
sinupalliate		वक्रप्रावारी	siphonal notch		साइफनी धौंच
sinus	Geol., Zool. H Sc.	1. कोटर, भादनम 2. शिरानाल	siphonal tube		साइफनी नाल
sinus canal		कोटर नाल	Siphonaptera	Zool.	साइफोनेप्टेरा
sinus gland		कोटर ग्रंथि	siphonapteran		विनालपक्षी
sinusoid	Phy, Math H Sc.	1. ज्यावक, साइन वक्र 2. शिरानालाभ, सिनुसाइड	<i>siphonapterologist</i>	Zool.	सिफोप्टेराविज्ञानी
sinusoidal		ज्यावकीय	siphonate	Zool	विनाली
sinusoidal displace-ment		ज्यावकीय विस्थापन	siphon barometer		साइफन वायुदावमापी, साइफन बैरोमीटर
sinusoidal flexion		ज्यावकीय आक्रोचन	siphon bottle		साइफन बोतल
sinusoidal limit-theorem		ज्यावकीय सीमा प्रमेय	siphonéin	Bot	साइफोनीन
sinusoidal modulation		ज्यावकीय मादूलन	siphonet	Zool.	विनालिका
sinusoidal oscillation		ज्यावकीय दोलन	siphon extractor		साइफन निष्कर्षक
sinusoidal projection		ज्यावकीय प्रक्षेप	siphon feeder		साइफन सभरक
sinusoidal spiral		ज्यावकीय सर्पित	Siphonia	Bot	साइफोनिया
sinusoidal type		ज्यावकीय प्रकार	<i>Siphonia tulipa</i>		साइफोनिया टुलिपा
sinusoidal vibration		ज्यावकीय कंपन	siphoning mouth parts	Zool.	साइफनी मुख्यांग, विनालीय मुख्यांग
sinusoidal wave		ज्यावकीय तरंग	siphoning system		साइफन तंत्र
sinus rhomboidalis	Zool.	चतुष्कोणीय कोटर	siphonium	Zool	साइफोनियम, सिफोनियम
sinus septum		कोटर पट	<i>Siphonocladus tropicus</i>	Bot	साइफोनोक्लोडस ट्रॉपिकस
sinus system		कोटर तंत्र	Siphonodentalium	Zool.	साइफोदोन्टैलियम
sinus terminalis		अन्तः कोटर	siphonogamous	Bot.	नालसम्पन्नी
sinus venosus		शिरा कोटर			
siotropism	Bot.	हस्तानुवर्तन			
Sloean	Geog.	सूअन			

siphonogamy	Bot.	नालयुग्मन	<i>Sirocladium</i>	Bot.	साइरोक्लेडियम
siphonoglyph	Zool.	शसिकाखांच	<i>kumaoense</i>		कुमाऊंसे
Siphonophora	Zool.	साइफोनोफोरा	<i>Sirogonium</i>	Bot.	साइरोगोनियम
siphonophoran	Zool.	साइफोनोफोरन, विनालरंध्री	<i>sticticum</i>		स्टिक्टिकम
siphonplax	Zool.	विनालपट्ट	Sirolpidaeceae	Bot.	साइरोल्पिडिएसी
Siphonopoda	Zool.	साइफोनोपोडा	sirup (= syrup)	H.Sc.	शर्वत, चाशनी
siphonosome	Zool.	विनालकाय	siruping (syruping)	Chem.	सिरपन
siphonostele	Bot.	नालरंभ	sirup-pan system	Geog.	चाशनी-कटाह प्रणाली
siphonostomatous	Bot., Geol., Zool.	विनालमुख, नालपरिमुखी	sisal	Chem., H.Sc., Geog.	सीसल रेशा
siphonostomatous peristome		विनाल परिमुख	sisal hemp		बांस केवड़ा, सीसल सन
Siphonotreta	Geol.	साइफोनोट्रेटा	sisal rug		सीसल रग
<i>Siphonotreta micula</i>		साइफोनोट्रेटा माइकूला	siscoe mill	Geol.	सिसको मिल
siphonoxanthin	Bot.	साइफोनोजैथिन	siskin green		सिस्किन हरित
siphonozooid	Zool., Geol.	साइफोनोजोवॉइड, विनालजीवक	sismondinite	Geol.	सिस्मॉन्डिनाइट
siphuncle	Geol.	साइफुकिल	sistresay	H.Sc.	सिस्ट्रेसे
Siphunculata	Zool.	साइफनकुलेटा	<i>Sitauma ponticeriana</i>	Zool.	सिटेन्मा पॉटिसेरिआना
siphunculate	Zool.	साइफंक्यूलेट, विनालक	sitaparite	Geol.	सीतापराइट
sipunculid	Zool.	साइपनकुलिड	sitasterol	Chem.	साइस्टेरोल
Sipunculida		साइपनकुलिडा	site	H.Sc., Geog.	स्थल, स्थान
Sipunculoidea		साइपनकुलॉइडिआ	site factor		स्थल कारक
Sipunculus	Zool.	साइपनकुलस	site modification		स्थल परिवर्तन
<i>Sipunculus nudus</i>		साइपनकुलस न्यूडस	sitometer	Geog.	साइटोमीटर
sipylite	Geol.	सिपाइलाइट	<i>Sitophilus granarius</i>	Zool.	सिटोफिलस ग्रेनैरियस
sire	Geog.	प्रजनक सांड	<i>Sitophilus oryzae</i>		सिटोफिलस ओराइजी
Siren	Zool.	साइरेन	sitosterol	Chem., Bot.	साइटोस्टेरॉल
siren	Phy.	साइरन	Sitotroga	Zool.	सिटोट्रोगा
Sirenia	Zool.	साइरेनिया	<i>Sitotroga cerealella</i>		सिटोट्रोगा सीरियालेला
Sirenidae	Zool.	साइरेनिडी	sitting posture	H.Sc.	आसीन स्थिति
sirenin	Bot.	साइरेनिन	situation		स्थिति
*Sirius (= $\alpha$ Canis Majoris)	Astron.	सुवृधक, सीरियस (= $\alpha$ कॅनिस मैजोरिस)	Sivapithecus	Zool.	शिवापिथेकस
sirloin	H.Sc.	सरलॉयन	Sivatherium	Zool.	शिवाथीरियम
sirocco		सिरोको	six-fold rotation	Phy.	षड्भुजा घूर्णन
			six-phase system	Phy.	षट्कालीय तंत्र
			six point assay	Math.	षट्बिन्दु आमापन
			six pole machine	Phy.	षट्ध्रुवी मशीन

six side leaflet	<i>Chem.</i>	षट्मुखी पत्रक	skein dyeing		लच्छी रञ्ज
six vector	<i>Math.</i>	षड्दिग सदिश	skein of routes	<i>Geog.</i>	मार्ग स्कीन
size		(n) साइज, आमाप (vb.) 1. साइज 2 चिक्कण करता	skein shaped	<i>Geol.</i>	कुतलरूप
size-frequency distribution		साइज वारम्बारता वटन, आमाप-वारम्बारता वटन	skeletal	<i>Zool., Bot., Geol.</i>	ककाली
size of sample		प्रतिदर्श आमाप	skeletal absorption		ककाल अवचूषण
size press		चिक्कणन प्रेस	skeletal axes		ककाल-अक्ष
sizer	<i>Geol.</i>	आमाप वर्गीकर	skeletal element		ककाली अवयव
sizing		1 आमाप वर्गीकरण 2 साइज, आमापन 3 चिक्कणन 4 भाजा लगाना	skeletal hemi-cellulose		ककाली हेमीसेल्यूलोस
sizing agent	<i>H.Sc.</i>	चिक्कणन कर्मक	skeletal lattice		ककाल जालक
sizing material	<i>Chem.</i>	छिद्रपूरक द्रव्य, साइजिंग द्रव्य	skeletal muscle		ककाल पेशी
sizing mill		आमापन मिल, साइजन मिल	skeletal plate		ककाल पट्टिका
size	<i>H.Sc.</i>	माजा	skeletal rod		ककाली दंड
S-joint	<i>Geol.</i>	S-संधि	skeletal skin		ककाली त्वचा
skar	<i>Geog.</i>	स्कार	skeletal soil	<i>Geol., Geog.</i>	अधकचरी मिट्टी
skare	<i>Geog.</i>	हिम पर्वटी	skeletal spicule	<i>Zool., Geol.</i>	ककाल कटिका
skargard	<i>Geog.</i>	स्कारगार्द	skeletal system		ककाल तंत्र
skarn	<i>Geol.</i>	स्कारन	skeletal vibrations		ककाली कंपन
skartrag	<i>Geog.</i>	स्कारट्रेग, चापानार द्रोणी	skeletogenous	<i>Zool.</i>	ककालजनक
*Skat (= 8 Aquarli)	<i>Astron.</i>	स्कैट (= 8 कुम्भ, 8 एक्वेरिआई)	skeletogenous layer		ककालजनक स्तर
skate	<i>Zool.</i>	स्केट, शकुचि	skeleto-muscular mechanism	<i>Zool.</i>	ककालपेशीय क्रियाविधि
skatole	<i>Chem.</i>	स्कैटोल	skeleton		ककाल, अभिपत्र, पत्र, घाका
skatoxyl	<i>Chem.</i>	स्कैटॉक्सिल	skeleton crystal		ककाल क्रिस्टल
skauk	<i>Geog.</i>	स्काँक, हिमबिंदर क्षेत्र	skeleton shrimp		ककाल चिंगट
skavler	<i>Geog.</i>	स्काँव्लर (हिमलहर)	skeleton tornado prominence		पत्र चिक्क मीर ज्वाल
skedophyre	<i>Geol.</i>	स्कीडोफायर	skelp	<i>Chem.</i>	इस्पान पत्ती
skedophytic	<i>Geol.</i>	प्रदीर्ण फेनोक्रिस्टी, स्कीडोफायरी	skerry	<i>Geol., Geog.</i>	स्केरी
skein	<i>Chem., Geog., H.Sc.</i>	1. लच्छी, बट्टी 2. (n) चक्कणी, स्कीन 3. (vb) चक्कणन	skerry coast		स्केरी तट
			skerry formation		स्केरी रचना
			skerry guard		स्केरी गार्ड
			skerry guard island		स्केरीगार्ड द्वीप
			sketch	<i>Geog., H.Sc.</i>	रेखाचित्र, स्केच
			sketched contour	<i>Geog.</i>	आलिखित मधोच्च रेखा
			sketch map	<i>Geog.</i>	रेखा नक्शा, रेखा मानचित्र



sketch master		स्केच मास्टर	skid	Chem.	स्किड
sketch plates	Chem.	आरूप पट्ट	skidding the rig	Chem.	रिग सर्पण, रिग फिसलन
sketch survey		स्केच सर्वे	skid row	Geog.	स्किड रो
skew	Chem., Math.	विपमतलीय, स्न्यू	skier	Geog.	स्कीयर
skew-boat form		विपमतलीय नौका रूप	skiff	Geog.	स्किफ, लघुपोत
skew derivation		विपम अवचित्रण	skillet	H.Sc.	हृत्येदार तवा
skew derivative		विपम अवचित्रज	skim	H.Sc. Chem.	1. (v.) काछना, मयना, मलाई उतारना, अपमलन
skewed distribution		विपम वंटन	skimmed milk	H.Sc.	मखनिया दूध
skewed population		विपम समष्टि	skimmed milk powder		मखनिया दूध चूर्ण
skewer	H.Sc.	सीक, शलाका	skimmer	H.Sc.	1. अपमयित्र 2. मयित्र
skew field		विपम क्षेत्र	skimming plant		मयन संयंत्र
skew-Hermitian matrix	Math.	विपम हर्मिटीय आव्यूह	skin		त्वचा, त्वक्, चर्म
skew lines		विपमतलीय रेखाएँ	skin appendages		त्वचीय अनुबंध, त्वक् अनुबंध
skewness	Math.	वैपम्य	skin bot		त्वचा तुंदमकी
skewness factor		वैपम्य गुणन	skin ceiling		चर्म अन्तरछादन
skew quadrilateral		विपमतलीय चतुर्भुज	skin cloak		चर्म चोगा, चर्म आवरण
skew ray		विपमतलीय किरण	skin colour		त्वचा वर्ण
skew roller table		विपमतल बेलन मेज	skin contamination		त्वक् संदूषण
skew ruled surface	Math.	अविकासनीय रेखज पृष्ठ	skin depth		त्वचा गहराई
skew surface		अविकासनीय पृष्ठ	skin diver		चर्म पनहुव्या
skew symmetric		विपम सममित	skin dose		त्वचीय डोज, त्वचीय मात्रा
skew symmetric matrix		विपम सममित आव्यूह	skin drying		त्वक् शुष्कन
skew symmetric tensor (=antisymmetric tensor)	Math.	प्रतिसममित प्रदिश	skin effect	Math.,Phy.	1. उपरिस्तर प्रभाव 2. त्वाचिक प्रभाव
skew symmetry		विपम सममिति	skin flotation		त्वक् उत्प्लवन
skiagram (skiagraph)	Chem.	1. विकिरण चित्र 2. मानव विकिरण चित्र	skin friction		उपरिस्तर घर्षण, त्वक् घर्षण
skiagraph (=skiograph =radiograph)		1. विकिरण चित्र, स्कायग्राफ 2. मानव विकिरण चित्र	skin frictional drag	Math.	उपरिस्तर कर्षण, त्वचीय कर्षण
skiagraphy (=skio-graphy)		1. विकिरण चित्रण 2. मानव विकिरणिकी	skin friction coefficient		उपरिस्तर घर्षण गुणांक
skiarrophyte	Bot.	जिलातलोद्भिद्	skin gill		त्वचा बलौम
skiatron	Phy.	स्कायाट्रॉन			

skin holes		त्वक् छिद्र	skip welding		स्किप संधान, उत्सव संधान
skin irritation		त्वक् क्षोभ	skirt	H.Sc.	स्कर्ट
skink	Zool	स्किनक, महमोक्षिका	skirt dipole antenna	Phy.	अक्षर द्विध्रुव एन्टेना
skin maggot		त्वचा मंगट, त्वचा अपादक	skirt lace	H.Sc.	स्कर्ट लेस
skinning	Chem (Paint)	प्रलेपन	skitteriness	Chem	कर्वरिता
skinning loam		प्रलेपन दुमट,	skiving	Chem	1 पट्टक 2 पट्टकन
skin of water	Geog	मशक	skjer. (=skjaer)	Geog	स्कर
skin reactivity		त्वचीय प्रतिक्रियात्मकता	skjergaard	Geog.	स्करगाई
skin sac		त्वचा कोष	skleropelite	Geol	स्क्लेरोपेलाइट
skin scab		त्वक् कच्छु, त्वक् स्कैब	sklodowskite	Geol, Chem	स्कलोडाउस्काइट
skin test		त्वचा परीक्षण	skogbolite	Geol	स्कोबोलाइट
skin tolerance dose		त्वचासह्य मात्रा, त्वचासह्य डोज	skolecite	Chem	स्कोलेसाइट
skin transplan- tation		त्वचा प्रतिरोपण	skolite	Geol	स्कोलाइट
skin volume		त्वाचिक आयतन	skomerite	Geol	स्कोमेराइट
skip	Chem., Geol.	1 बालटी 2. स्किप	skotophilous	Bot.	तमोरागी
skip code	Phy.	बहुअंतराली कोड	skototaxis	Zool	तमोनुचलन
skip distance	Phy.	मूक अंतराल, संधनांतराल	skull	Zool, H.Sc.	करोटि, खोपडी
skip distance phenomenon		स्किप दूरी घटना	skull foramina		करोटि रंध्र
skip holst		बालटी उत्कपित्र, स्किप उत्कपित्र	skunk	Zool.	स्कक
skip instruction (=no op instruc- tion)	Phy.	असक्रिया अनुदेश	skutterudite		स्कटरडाइट
skip jack		स्किप जैक	sky blue	Phy	आसमानी, नमोनील
skip keying	Phy.	संधन कुञ्जीयन	sky-hook type (spore trap)	Bot.	वाताकुशी (बीजाणुपाश)
skip leap twill (frog leap twill)	Chem.	मेंडक घाल रेखिका, उत्सव रेखिका	skying (skying range)	Chem.	ध्योमन
skipper	Zool.	स्किपर, प्लुवर	skylark	Zool	स्काइलार्क
skipping	Chem.	उत्सवण	skylight	Chem	शाशायन, रोशनदान (फाच)
skip tape instruction	Phy.	टैप संधन अनुदेश	sky-light polarization	Geol	ध्योमप्रकाश ध्रुवण
skip vehicle	Math., Phy.	सप्लाव यान	skyline	Geog.	प्रतिजि रेखा
skip-warp twill		मेंडक घाल रेखिका, मेंडक घाल द्विवल	skyline logging	Geog.	आकाशो लट्टा बहून
			skyloft	H.Sc.	स्काईलॉफ्ट
			sky radiation	Phy.	ध्योम विकिरण
			skyscraper	Geog, H.Sc.	समनचुम्बी भवन
			sky screen		आकाशी परदा
			sky shine	Phy	बायुस्फीअरन
			sky symbols		आकाश प्रतीक

sky wave	Geog.	व्योम तरंग	slag shortness	धातुमल शीर्षकता
sky writing		व्योम लेखन	slag stringer	धातुमल रज्जुक
slab	Geol., Geog.	पट्ट	slag top	धातुमल शीर्ष, तप्त शीर्ष
slabbing mill	Chem.	शिलायन मिल	slag trap	धातुमल विपाश
slabby	Geol.	1. पट्टित 2. (scale of fissility) पट्टविदली	slag wool	धातुमल ऊन, खनिज कर्ण
slab cake	H.Sc.	स्लैब केक	slake	Chem. बुझाना
slab dam	Geog.	शिलापट्ट बांध	slaked lime	बुझा चूना
slab glass	Chem.	शिला काच	slaker	Chem. चूना-शामित्र, स्लेकर
slab of concrete		कंक्र्रीट पट्ट	slaking	Chem. चूर्णशमन, बुझाना
slab oil	Chem.	स्लैब तैल, शिला तैल	slanetz	H.Sc. स्लैनेज
slab-pahoehoe		पट्टमय पाहोएहोए	slant	Bot., Math., तिर्यक्, तिरछा
slack	Geog., Geol.	स्लैक, स्लैक कोयला	slant distance = true distance	तिर्यक् दूरी, ययाचं दूरी
slacking down	Chem.	आशमन	slant height	तिरछी ऊंचाई
slackmelt	Chem.	अवद्राक्ण	slanting bottom bins	तिर्यक् तल बिन
slack quenching	Chem.	अवशमन	slant range	तिर्यक् परास
slack time	Math.	शैथिल्य काल	slant ray	तिरछी किरण
slack variable	Math.	न्यूनतापूरक चर	slant type	तिरछा दाइप
slack water	Geog.	मंदजल, मंदगामी जल	slash	Bot., Geog. स्लैश, द्रुमावशेष, काष्ठ छीलन
slack wax	Chem.	बाम भोम, कच्चा भोम		H.Sc. काट
slade	Geog.	स्लेड	slashing	द्रुमावशेष स्थल
slag	Chem., Geol.	कोट, धातुमल, स्लैग	slash pine	स्लश पाइन
slag bomb	Geol.	स्कोरियाई बम	slat	Geog. पट्टी
slag box		धातुमल पेटी	slate	Geol. स्लेट
slag cement		धातुमल सीमेंट	slate coal	स्लेट कोयला
slag cloud		धातुमल अन्न	slate fault	Geol. अंतस्थ स्लेट
slag-gas shielded welding		धातुमल गैस प्रतिरक्षित संधान	slate flour	स्लेट चूर्ण
slagging		धातुमलन	slater	Zool. स्लेटर
slaggy	Chem., Geog.	धातुमलयुक्त, धातुमलीय	Slater and Kirkwood's formula	स्लेटर-ककंबुड सूत्र
slag inclusion		धातुमल अंतविष्ट	Slater determinat	स्लेटर सारणिक
slag lead		स्लैग सीसा	Slater orbital	स्लेटर कक्षक, स्लेटर बॉबटल
slag notch		धातुमल द्वारक	slatestone	स्लेट प्रस्तर
slag pancake		धातुमल कटाह पपटी, स्लैग पैन केक	slatiness	Geol. स्लेटीयता
slag patch		धातुमल खंडक	slat trap	Geog. संकीर्ण पाश
slag shingle		स्लैग गिगिल	slaty cleavage	Geol. स्लेटी विदलन

slaty shale		स्लेटी शेल	Slepian's code	Math	स्लेपियन कोड
slaughter house	Geog.	कसाईखाना, बूचड़खाना	Slepian's parity check table		स्लेपियन की समता जांच सारणी
slaughter house tankage	Chem.	शूना शिष्ट, शूना टैंक	slew	Phy.	झुत धूर्णन
slaughtering plant	Geog.	घघशाला प्लांट	slice	Geol., H Sc Chem., Phy.	1 स्लाइस, स्तरी खंड 2 तराच, कतली
slave circuit	Phy.	बधीन परिपथ	slice coefficient	Chem	प्रखंड गुणांक, स्लाइस गुणांक
slave clock		अधीन घड़ी	sliced feldspar	Geol	विदलित फेल्स्पार
slave labourer	Geog.	दास श्रमिक	slicer	Phy., H Sc	1 कर्तक 2 स्लाइस बनाने का यंत्र
slave state		दास राज्य	slicing		स्लाइस करना
slave-trade		दास व्यापार	slicing knife	H Sc	कतली छुरी, कतली चाकू
slave transmitter (= repeater transmitter)	Phy	पुनरावर्तक प्रेषित, रिपीटर ट्रांसमिटर	slicing operation	Chem	प्रखंड प्रचालन, स्लाइसिंग
sled	Geog.	स्लेड	slick	Geog.	चिकना पृष्ठ
sledge	Geog.	स्लेज	slickenside		स्तरण पार्श्व
sledging	Geol	गोलाशय भजन	slicker	Chem.	प्रचिककणित
sleek	Chem Geol.	1 विदार (दोष) 2 चिककण	slicking	Geol	स्लिकिंग
sleeper	Geog.	स्लीपर	slidabrading	Chem	स्लाइडिंग, सर्पी घर्षण
sleepiness	Chem. (Paint)	निद्रानुता	slide		1 (n) स्लाइड 2 (vb.) स्थलन होना, सर्षण, सरकना, सर्षण
sleeping hammock	Geog	शयन झूला	slide box		स्लाइड बॉक्स
sleeping place		शयन स्थान	slide casing		सर्षण कोष
sleeping robe		शयन वस्त्र	slide culture		स्लाइडो संवर्धन
sleeping sickness	Zool.	निद्रानु श्वाधि	slide frame		स्लाइड फ्रेम
sleeping suit	H Sc.	स्लीपिंग सूट, शयन सूट	slide furrow		सर्षण खातिका
sleeping top		शुप्त सट्टा	slide projector		स्लाइड प्रक्षेपी
sleep movement	Bot.	नैश गति	slide rock		स्थल शैल
sleeve	H.Sc.	बाहु, आस्तीन	slide rule		स्लाइड रूल, परिचलन पट्टिका
sleeve antenna	Phy.	खोल एंटेना	slide slope		सर्षण ढाल
sleeve board		आस्तीन इस्त्री पट्ट	slide valve		सर्षी कपाट, सर्षी वाल्व
sleeved apron	Geog.	बाहुयुक्त ऐपन	slide wire bridge		सर्षण तार सेतु
sleeve dipole	Phy.	धोन द्विध्रुव	sliding angle		सर्षी कोण
sleigh	Geog.	स्ले, स्लेज	sliding friction		सर्षी घर्षण
sleigh bell		स्ले घटी	sliding growth		सर्षणी वृद्धि
sleet	Geog.	सहिम बृष्टि	sliding hump method		सर्षी बकुद विधि
slendang	H.Sc.	स्नेडॉंग			
slender build	Geog.	हृत्त सनु			
slenderness ratio	Chem., Phy.	हृत्तता अनुपात			

sliding lid		सरकवां ढक्कन	slip agent		विसर्पण कर्मक
sliding microtome	Bot.	अवसर्पी माइक्रोटोम	slip band		सर्पण बैंड
sliding motion		सर्पी गति	slip bedding		सर्पण संस्तर
sliding of sedimentary cover		अवसादी आवरण सर्पण	slip clay	Geol.	स्लेज मिट्टी
sliding plate		सरक पट्टी	slip cleavage		सर्पण विदलन
sliding resistance		सर्पी प्रतिरोधक	slip coefficient		सर्पण गुणांक
sliding shelf	H.Sc.	सरकवां शेल्फ	slip condition		सर्पण प्रतिबंध
sliding tectonics		सर्पण विवर्तनिकी	slip direction		सर्पण दिशा
sliding theory		सर्पण सिद्धान्त	slip effect		सर्पण प्रभाव
sliding tray		सरकनी ट्रे	slipe wool	Chem.	लुंच ऊर्ण, लुंच ऊन
slight intensity scale	Geol.	अल्प तीव्रता मापनी	slip face		सर्पण पाश्र्वं, सर्पण फलक
slight interference		अल्प अन्तरक्षेप	slip-face boundary		सर्पण-पाश्र्वं सीमा, सर्पण फलक सीमा
slightly ionised acid	Chem.	किंचित् आयनित अम्ल	slip fault		सर्पण भ्रंश
slight smooth sea		अल्प तरंगित सागर	slip fibre (asbestos)	Geol.	समांतर तंतुक (ऐस्बेस्टॉस)
slime	Chem., Geol.,Bot.	अवपंक	slip flow		सर्पण प्रवाह
slime flux		अवपंक बाह	slip folding		सर्पणवलन
slime fungi		अवपंक कवक	slip inhibitor		सर्पण संरोधक
slime gland	Zool.	श्लेष्माभ ग्रन्थि	slip line		सर्पण रेखा
slime mold		अवपंक फफूंदी	slip off slope	Geol.,Geog.	स्कंध ढाल
slime papillae		अवपंकी पैपिला	slip-off-slope terrace		स्कंध ढाल वेदिका
slime pore		अवपंक रंध्र	slippage		विसर्पण, फिसलन
slim hole	Geol.	तनुच्छिद्र	slippage test	Math.	अपगमन परीक्षण
slimicide		अवपंकनाशी	slipped region		सर्पणी क्षेत्र
slimmy material		अवपंकिल द्रव्य	slipper satin	H.Sc.	स्लिपर साटन
Slimonia		स्लीमोनिया	slipper shell	Zool.	स्लिपर शेल
<i>Slimonia acuminata</i>		स्लीमोनिया ऐकूमिनेटा	slippery layer	Geog.	सर्पणशील परत
slimy		अवपंकी	slipping		फिसलना
slime back	Geol.	स्लाइन बैंक	slip-plane		सर्पण तल
slinging equipment	Chem.	समाक्षेपण उपस्कर	slip resistance		विसर्पी प्रतिरोध
slinging wire		समाक्षेपी तार	slip ring		सर्पी वलय
sling psychrometer	Chem.,Zool.	दोली साइक्रोमीटर, दोली आर्द्रतामापी	slip scraper		स्लिप खुरचनी, स्लिप स्केपर
sling thermometer	Geog.	स्लिंग थर्मामीटर	slip-scratch		सर्पण खरोंच
slip		1. फिसलना, सर्पण, विसर्पण 2. स्लिप धोल	slip stream		सर्पण धारा
			slip system		सर्पण तंत्र
			slip vein		स्खलित शिरा

slit	<i>Geog., Phy., H Sc.</i>	स्लिट, रेखाछिद्र, शिरी	slop padding	<i>Chem.</i>	एकसम संचन
slit sieve		स्लिट चालनी	slop tank		स्लॉप टकी
slit sighting		दशं स्लिट, दशं शिरी	slop wax		स्लॉप मोम
slitter	<i>Chem.</i>	प्रकटित्र	sloshing (slushing)	<i>Chem. (Plastics)</i>	स्लॉसन
slitting	<i>Chem.</i>	प्रकटन, स्लिटन	slot	<i>Phy.</i>	छाचा
slit width		रेखा पृथुता	slot antenna	<i>Phy.</i>	छाचेदार ऐन्टेना
sliver	<i>Chem., H Sc (Met)</i>	1. (n) सूनी (vb.) लम्बे टुकड़े काटना 2. छिपट, प्रपट्ट	sloth	<i>Geog., Zool</i>	स्लॉथ
sliver loss		छिपटी क्षय	sloth bear	<i>Geog., Zool</i>	रीछ
sliver screen		प्रपट्ट चातनी	slotted cylinder antenna (= slotted cylinder aerial)		छाचेदार बेलन ऐन्टेना
sloam	<i>Geol</i>	स्लोम	slotted line		छाचित लाइन
slob land	<i>Geog</i>	स्लॉबलैंड, पक-भूमि	slotted spoon		छाचेदार चम्मच
sloe	<i>Chem. (Food)</i>	स्लो	slotted-templet method	<i>Geog.</i>	स्लॉटिड टेम्प्लेट विधि
sloop	<i>Geog</i>	जहाज, पोत	slotted wave guide		छाचित तरंग चयक
sloot	<i>Geog</i>	स्लूट, सकीर्ण दाहिका	slotting machine		छाचा मशीन
slop bowl	<i>H Sc.</i>	स्लॉप बोल	slot type knife		छाचेदार छुरी, छाचेदार चाकू
slope	<i>Geog., Geol.</i>	ढलान, ढाल, प्रवणता	slouching gait	<i>Zool.</i>	श्रानत चाल
slope category map		ढाल धर्ग मानचित्र	slough	<i>Geog.</i>	स्लॉज, पकिल स्थान
slope correction		ढाल सशोधन	sloughing	<i>Zool</i>	विमोचन
slope discriminator		प्रवणता विवेचक	sloughing-off box	<i>Geol.</i>	निर्मोचन पेटी
slope distance		ढाल दूरी	slow amplifier	<i>Phy</i>	मधर प्रवर्धक
slope gradient		ढाल प्रवणता	slow axis		मधर अक्ष
slope measurement		ढाल माप	slow code timing		मंद कोड काल मापन
slope of the O. C. curve		सकार्थि वक्र की प्रवणता (सक्रिया अभिलक्षण वक्र की प्रवणता)	slow convergence		मंद अभिसरण
slope-ratio assay		प्रवणतानुपात- आमापन	slow-creeping soil		मंद विसर्पी मृदा
slope resistance (= dynamic resistance)	<i>Phy.</i>	गतिक प्रतिरोध	slow divergence		मंद व्यपसरण
slope stake		ढाल छुटा	slowest factor		मंदतम कारक
slope wash		ढाल बाह	slow evaporation		मंद वाष्पन
slope water		ढाल जल	slow flowage		मंद प्रवाह
sloping	<i>Geog.</i>	ढलवां	slow frequency drift		मंद आवृत्ति बह्न
sloping edge		ढलवां किनारा	slow hydrodynamic wave		मंद द्रवगतिकीय तरंग
sloping end		ढालू धूमि	slowing down area		मदन क्षेत्र
slop oil	<i>Geol.</i>	स्लॉप तेल	slowing down density		मन्दन घनत्व
			slowing-down kernel		मदन कर्नेल घनत्व

slowing-down length		मंदन दैर्घ्य	slugging roll		लोप्टन बेलन
slowing-down power		मंदन शक्ति	sluggish ion		मंद आयन
slowing down radiation		मंदमान विकिरण	sluggish needle	Geog.	सुस्त सुई
slowing of clock		घड़ी का मंदन	sluggish stream		मंद सरिता
slow magnetic sound discontinuity		मंद चुंबक ध्वनि असांतत्व	sluggy, (= slugga)	Geog.	स्लगी
slow motion screw		मंद गति पेंच	slug test		लोप्ट संपरीक्षण
slow neutron	Phy.	अल्पभेदी न्यूट्रॉन, मंदगति न्यूट्रॉन	sluice	Geog., Geol.	जलद्वार, स्लूइस
slow operation		मंद प्रचालन	sluice box		स्लूइस बॉक्स
slow oscillation		मंद दोलन	sluice valve	Chem.	कपाट वाल्व
slow reactor		मंथर रिएक्टर	sluice way		स्लूइस मार्ग
slow run off		मंद जलवाह	sluicing		स्लूइसन
slow-sand filtration		मंद बालू निस्संदक	sluicing method	Geog.	कुल्या-खनन विधि
slow sand method		मंद बालू पद्धति	slum	Chem.	अविपंक, अवपंक
slow shock wave		मंद प्रघात तरंग	slum belt	Geog.	गन्दी वस्ती मेखला, चैरी पट्टी
slow stock		मंद स्तंभ	slum clearance		गन्दीवस्ती निमार्जन, चैरी निमार्जन
slow titration		मंद अनुमापन, मंद टाइट्रीकरण	slum-clearance area		गन्दी वस्ती निमार्जन क्षेत्र, चैरी निमार्जन क्षेत्र
'slow wave' structure		मंद तरंग संरचना	slumgullion mud flow	Geog.	स्लमगुलियाई पंकप्रवाह
slub	Chem., H.Sc.	स्लव, ग्रंथीला सूत्र	slum invasion		गन्दीवस्ती आक्रमण, चैरी आक्रमण
slubber	H.Sc.	स्लवर	slump	Geol.	अवसर्पण, अवसर्प
slubbing		स्लवन	slump bedding		अवसर्पण संस्तर
slub yarn	H.Sc.	चक्रीयित सूत्र	slump mark		अवसर्पण चिन्ह
sludge	Geog., Chem., Geol.	आर्पक	slum pocket		गन्दी वस्ती, चैरी
sludge-acid		आर्पक अम्ल	slurry	Chem.	कदम, पिच्छिल
sludge coking plant		आर्पक कोकन संयंत्र	slurrying		कदमन
sludge concentrator		आर्पक सांद्रक	slurry reactor	Phy.	पंक रिएक्टर
sludge like deposit		आर्पकवत् निक्षेप	slush	Geol., Chem.	कदम, विपंक
sludge pipe		आर्पक नली	slush casting		विपंक संचन
sludge promoter		आर्पक वर्धक	slushing compound		विपंकन मिश्र
sludge-pump		आर्पक पम्प	sluther	Geog.	स्लूथर
slug	Phy., Geol. Zool.	लोप्ट स्तंभ, कम्बु	Slutzky's theorem	Math.	स्लुत्स्की प्रमेय
slug caterpillar		स्लग इल्ली	small aeroplane symbol	Geog.	सघु हवाई जहाज-चिह्न
slugged bottom		लोप्ट अधःतल (दोष)	small angle scattering		सघुकोणी प्रकीर्णन
slugging		लोप्टन	small aspect ratio		सघु अभिमुचता अनुपात

small brackets		लघुकोष्ठक, लघु बधनी	small scale map		लघुमान मानचित्र
small circle		लघु वृत्त	small scale phenomenon		लघुमान परिघटना, छोटे पैमाने की परिघटना
small concave nose		लघु अवतल-नासिका	small settlement	<i>Geog</i>	छोटी बस्ती
small coupling (=loose coupling)	<i>Phy</i>	अल्प युग्मन	small signal condition		लघु संकेतावस्था, लघु निगमन अवस्था
small diffuse		अल्प विसारी	small smooth nozzle		छोटा चिकना चबू
small domed shelter		लघु गुम्बदाकार आश्रय	small snub-nose		छोटी उन्चाय नासिका
small domestic project		छोटा घरेलू प्रोजेक्ट	small source theory	<i>Math.</i>	लघु उद्गम सिद्धांत
small eddy		लघु भवर	smalt	<i>Chem.</i>	स्माल्ट (वर्णक)
smaller elliptic tide		लघुतर दीर्घवृत्तीय ज्वार	smalt blue		स्माल्ट नील
smaller lunar elliptic tide		लघुतर चान्द्र दीर्घवृत्तीय ज्वार	smaltine	<i>Chem</i>	स्माल्टीन
smaller lunar evection		लघुतर चांद्रकक्षीय सोम	smaltite	<i>Chem., Geol</i>	स्माल्टाइट
smaller scale		लघुतर पैमाना	smaragd	<i>Geol</i>	स्मेरेइट
smallest member		लघुतम सदस्य	smaragdite	<i>Geol</i>	स्मेरेडाइट
small field molecule		लघुक्षेत्री अणु	smart weed	<i>Bot.</i>	पॉलीगोनम
small floe		लघु बर्फखंड (प्लानी)	smash	<i>H.Sc</i>	स्मैश
small hail		लघु ओला	smear	<i>Bot, Geog.</i>	आलेप, आलेपन
small holding		लघु जोत	smear'd	<i>Chem</i>	आलेपित, आस्तृत
small industry		लघु उद्योग	smear'd out	<i>Chem.</i>	घूमिलीकृत
smalling		लघुमचन (रोग)	smear test (=wipe test)		आलेप परीक्षण
small intestine	<i>H.Sc., Zool</i>	शुद्रांत्र	smectic	<i>Chem</i>	1. स्मेक्टिक, स्तरी 2. सोपी, साबुनी, सर्पी
small lunar elliptic potential		लघु चांद्र दीर्घवृत्तीय विभव	smectic phase		सोपी प्रावस्था, सर्पी प्रावस्था, साबुनी प्रावस्था
small meshed net	<i>Zool</i>	लघुछिद्रित जाल	smectite	<i>Geog.</i>	स्मेक्टाइट
small number		लघु संख्या	Smee's cell	<i>Chem.</i>	स्मी सेल
small oscillation		अल्प दोलन	smell	<i>Chem., H.Sc.</i>	गंध
small power		लघु शक्ति	smell brain (rhinocephalon)	<i>Zool.</i>	घ्राण मस्तिष्क (राइनोसेफैलॉन)
small pox	<i>H.Sc.</i>	धेचक, मयूरिका	smelling salt	<i>Chem.</i>	स्मेलिंग सॉल्ट
small pox vaccination		धेचक टीका	smelt	<i>Chem., Geog. H.Sc.</i>	1. (n) प्रगल (v) प्रगलन, प्रगलन 2. स्मेल्ट
small pox virus	<i>Zool.</i>	शीतला विषाणु, धेचक विषाणु	smelter		प्रगलक
small run		अल्प मात्रा	smelting	<i>Chem., Geol</i>	प्रगलन
small sample		लघु प्रतिदर्श	smelting village		प्रगलन गाव
small scale enterprise		लघु उद्योग उद्यम			
small scale feature	<i>Geog.</i>	लघुमान लक्षण			
small scale industry		छोटे पैमाने का उद्योग			



Smilacaceae	Bot.	स्माइलैकेसी	smoked fish	धूमित मछली
smilagenin	Chem.	स्माइलैजेनिन	smoked surface	धूमित पृष्ठ, कज्जरित पृष्ठ
Smilax	Bot.	स्माइलेक्स	smoke formation pressure	धूमन-निर्माण दाब
<i>Smilax china</i>		स्माइलेक्स चीना	smoke fog	धूम कुहरा
<i>Smilax macrophylla</i>		स्माइलेक्स मैक्रोफिला	smoke generator	धूम जनित्र
<i>Smilax prolifera</i>		स्माइलेक्स प्रॉलीफेरा	smoke gray	धूम धूसर
<i>Smilax zeylanica</i>		स्माइलेक्स जेलेनिका	smokehouse	स्मोकहाउस, धूमगृह
Smiles rearrangement	Chem.	स्माइल पुनर्विन्वास	smoke indicator	धूम सूचक
Smilodon	Zool.	स्माइलोडोन	smoke injury	धूमज क्षति
Sminthopsis	Zool.	स्मिन्वॉप्सिस	smokeless	धूमहीन
Sminthuridae	Zool.	स्मिन्थुरिडी	smokeless fuel	धूमहीन ईंधन
smitane sauce	H.Sc.	स्मिटेन सॉस	smokeless powder	अधूम चूर्ण, अधूम पाउडर
smith	Geog.	शिल्पी, कारीगर	smoke point	धूम बिन्दु
Smith chart	Phy.	स्मिथ चार्ट	smoke ring mode	धूम बलय विधा
Smithell's cold flame	Chem.	स्मिथेल शीत ज्वाला	smoke screen	धूमपट
Smithell's flame separator		स्मिथेल ज्वाला पृथक्कारी	smoke stone	धूमिल स्फटिक, धूम स्फटिक
Smithia	Geol.	स्मिथिया	smoke test	धूम निकष
Smithies' system	Math.	स्मिथिस प्रणाली	smokiness	Chem. धूमिलता
smithite	Geol.	स्मिथाइट	smoking	धूमन
smithsonite	Geol.	स्मिथसोनाइट	smoky quartz	Geol. धूमला, धूमिल स्फटिक
Smith welding process	Chem.	स्मिथ संघान प्रक्रम	smolt	Zool. स्मोल्ड
smithy char	Chem.	लोहकार आदर्शकाल, लोहार आदर्शकाल	smooth	चिकना, मसृण
smithy coal		लोहार कोयला	smooth-bottomed valley	Geog. समतली घाटी
smithy ore		लोहार अयस्क	smooth brome-grass	चिकनी ब्रोम घास
smithy scale	Chem.	घातुकर्म शल्क, स्मिथी शल्क, लोहारी शल्क	smooth covering manifold	मसृण आवरक प्रसमष्टि
smocking	H.Sc.	स्मॉकिंग, चुन्ड, कड़ाई	smooth curve	Math.,Phy. निष्कोण वक्र
smock linen	H.Sc.	स्मॉक लिनन	smoothed series	मसृणित श्रेणी
smog	Chem.	धूम कुहरा, धूम कुहरा	smootd function	मसृण फलन
smoke	Geog.,Phy., H.Sc.	धूम, धुआं, धूम	smooth glass	चिकना कांच
smoked	Chem. (Glass)	धूमित	smoothing	मसृणीकरण
smoke detector		धूम संसूचक	smoothing condenser	ऊर्माहारी संभारित्र
			smoothing formula	मसृणन सूत्र
			smoothing function	मसृणकारी फलन
			smoothing method	मसृणीकरण विधि

smoothing of curve		वक्र का निष्कोणन, वक्र का मसूणीकरण	snake gourd	<i>Bot. H.Sc.</i>	चिचिडा
smoothing result		परिणाम मसूणन	snake headed fish	<i>Zool.</i>	मरल
smoothing of time series		काल श्रेणी का मसूणन	snake stone	<i>Geog.</i>	स्नेक स्टोन
smoothing out effect		मसूणीकरण प्रभाव	snake-venom		सर्प विष
smoothing power		मसूणीकरण क्षमता	snaking	<i>Phy.</i>	विसर्पण
smoothing roll	<i>Chem. (Plastics)</i>	मसूणन बेलन	snap	<i>Chem</i>	सनी, सदशिका
smooth muscle	<i>Zool</i>	चिकनी पेशी	snap flask	<i>Chem (Met)</i>	झट सच
smoothness of series		श्रेणी की मसूणना	snap magnet	<i>Phy</i>	झिप चुम्बक
smooth phase (of traction)	<i>Geol</i>	सम अवस्था (कर्षण)	snapping knee	<i>H.Sc.</i>	झपानू जानू
smooth sea	<i>Geog</i>	अत्यल्प तरंगित सागर	snap short	<i>Chem</i>	स्नैप शॉर्ट
smooth surface		चिकना पृष्ठ	snap shot	<i>Phy.</i>	स्नैप शॉट, आणुचित्र
smooth test		मसूणना परीक्षण	snare drum	<i>Phy.</i>	स्नैयर-ड्रम
smooth trend		मसूण उपनति	snarling	<i>Chem.</i>	सकुडलन
smooth wave		मसूण तरंग	snarl test		सकुडलन निकष
smothered arch	<i>Chem.</i>	रूढ़ आर्क, रूढ़ चाप	snarl yarn	<i>H.Sc.</i>	कुडलित सूत्र
smoulder		सुलगना	snatch block hook	<i>Chem.</i>	खुनकणी हुक
smudge	<i>Geog.</i>	1. धब्बा, कलक 2. श्याम चित्ती	snatch box	<i>Chem.</i>	घारक पेटी
smudge coal	<i>Geol.</i>	समज कोयला	S.N curve (stress number curve)	<i>Chem.</i>	एच० एन० वक्र
smudge oil		कलक तेल	Snell's law	<i>Geol.</i>	स्नेल नियम
smudging (inks)	<i>Chem, Phy.</i>	कलकन, धब्बे पड़ना	sniff valve	<i>Chem.</i>	स्निफ वाल्व
smut	<i>Bot.</i>	कृच, स्मट	snipe	<i>Zool.</i>	चाहा
smut ball		कृच-गोलिका	snippets	<i>Zool.</i>	लघुचाहा
smut fungi		कृच कवक	snipping	<i>H.Sc.</i>	सूक्ष्म कतरना
smyrna rug	<i>H.Sc.</i>	समरना रग	Snoek-damping	<i>Phy.</i>	स्नोक अवरोधन
snack	<i>H.Sc.</i>	अल्पाहार, हल्का नाश्ता	snood	<i>Geog.</i>	मत्स्यटोपी
snag	<i>Geog.</i>	जलमग्न वृक्ष, स्नैग	snoot	<i>Geol, Zool.</i>	घोष
snagging	<i>Chem.</i>	अपघ्ननचरन	snow	<i>Geog, Geol.</i>	1. हिम, तुहिन 2. स्नो
snag lake		स्नैग झील	snow and ice erosion	<i>Geol.</i>	तुहिन हिम अपरदन
snail	<i>Zool.</i>	घोंघा, शबुक	snow ball	<i>Chem.</i>	1. हिम कतुक 2. स्नोबॉल
snake	<i>Zool</i>	गर्प, साँर	snow ball design	<i>H.Sc.</i>	हिम कतुक बर्षचित्र
snake (snaking)	<i>Chem.</i>	1. प्रसर्पण 2. सविंदरण	snow barchan		हिम बरखाल
snake-bite laucent		सर्प-दंश नश्वर	snow bird mine (or shipper)	<i>Geol</i>	स्नोबर्ड शान
snake boat	<i>Geog.</i>	सर्पावृति नौका	snow blindness		हिमान्यता

snow break		हिमद्रवण	soap-consuming power		साबुन उपभोग शक्ति
snow bridge		हिम सेतु	soap dish (= soap case)		साबुनदानी
snow-clad		हिमावरित	soap film		साबुन की फ़िल्म
snow-clad peak		हिमावरित शिखर	soap-film flowmeter		साबुन फिल्म प्रवाहमापी
snow contour		हिम समोच्चरेखा	soap-film method		साबुन फिल्म विधि
snow cornice		हिम कॉर्निस	soap flake		साबुन पत्रक, साबुन पल्लक
snow-covered surface		हिमाच्छादित पृष्ठ	soaping after treatment		साबुनी पश्चोपचार
snowdrift	<i>Geog., Geol.</i>	1. हिमापोढ़ 2. वातोढहिम	soap nut	<i>H.Sc.</i>	रीठा
snow fall		हिमपात	soap powder		साबुन चूर्ण, साबुन का चूरा
snow field		हिम-क्षेत्र	soap rock	<i>Geol.</i>	सेलखड़ी
snow flake		1. हिमतूल, हिमलव 2. स्नोफ्लेक	soap solution		साबुन का घोल
snow flake crystal	<i>H.Sc.</i>	हिमतूल क्रिस्टल	soap stone	<i>Geol.</i>	सेलखड़ी
snow-flora		हिम वनस्पति जात	soap suds		साबुन के झाग
snow gauge		हिम गेज, हिम प्रमापी	soaring flight	<i>Geog., Zool.</i>	विडयन
snow limit		हिम-सीमा	soboliferous	<i>Bot.</i>	वंत: भूस्तारी घर
snow line		हिम-रेखा	sobralite	<i>Geol.</i>	सोब्रैलाइट
snow lying		हिमाच्छादित, हिमाच्छादन	sobrerol	<i>Chem.</i>	सोब्रेरॉल
snow mold		हिमाभ फ़फ़ूंदी	sobrerythritol	<i>Chem.</i>	सोब्रेरिथ्रिटॉल
snow patch		हिम चप्पा	socage	<i>Geog.</i>	जागोरदारी पट्टा
snow patch erosion		हिम चप्पा अपरदन	social	<i>Geog., H.Sc.</i>	सामाजिक
snow pattern		सुहिन पैटर्न	social activity		सामाजिक क्रिया
snow roller		हिम वेलन	social animal		सामाजिक प्राणी
snow roof		हिम छत	social area		सामाजिक क्षेत्र
snow-squall		हिम चंडवात, अल्पकालिक हिमसंज्ञा	social behaviour		सामाजिक व्यवहार
snow storm		हिम संज्ञावात, हिमसंज्ञा	social belief		सामाजिक धारणा
snow white		हिम श्वेत	social cohesion		सामाजिक संसंजन
snubber	<i>Phy.</i>	प्रधाती ऊर्जा अवशोषक	social condition map		सामाजिक दशा-मानचित्र
Snyder process	<i>Chem.</i>	स्नाइडर प्रक्रम	social custom		सामाजिक आचार, सामाजिक रीति
soak	<i>Chem., H.Sc.</i>	भिगोना, सिक्तन	social evolution		सामाजिक विकास
soaking		भिगोना	social facilitation		सामाजिक सुगंभीकरण
soaking period		सिक्तन काल	social fallow		सामाजिक परती भूमि
soaking pit		सिक्तन गर्त	social geography		सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूज्ञान
soap	<i>Chem., H.Sc.</i>	1. साबुन 2. बट्टी			

social grouping	सामाजिक समूहन, सामाजिक वर्गीकरण	socio-economic division	समाज आर्थिक खंड
social heritage	सामाजिक विरासत, सामाजिक पैतृकी	socio-economic group	समाज आर्थिक समूह
social hormone	सामाजिक हार्मोन	socio-economic grouping	समाज आर्थिक वर्गीकरण
social hub	सामाजिक नाभि	socio-geographical unit	समाज भौगोलिक एकक
social income	सामाजिक आय	socio-geographic group	समाज भौगोलिक वर्ग
social insect	सामाजिक कीट	socio-geographic structure	समाज भौगोलिक संरचना
social instinct	सामाजिक वृत्ति	sociograph	समाजलेख
social institution	सामाजिक संस्था, सामाजिक व्यवस्था	sociology	<i>Geog.</i> <i>H.Sc. Geog.</i> समाज-विज्ञान 2. समाजशास्त्र
social interaction	सामाजिक परस्पर क्रिया	socio-recreational trip	समाज बिहार पर्यटन
social intercourse	सामाजिक आदान प्रदान	sociotype	सामाजिक प्ररूप
social leader	सामाजिक नेता	socket	<i>Biol., Geol., Geog.</i> सॉकेट, गनिना
social life	सामाजिक जीवन	socket holder	सॉकेट धारक
social map	सामाजिक मानचित्र	sod	सतृण चप्पा, सतृण भुखंड
social order	सामाजिक व्यवस्था	soda	<i>Geol., Chem., H Sc.</i> सोडा
social organization	सामाजिक संगठन, समाज संगठन	soda alunite	सोडा ऐलुनाइट
social parasitism	सामाजिक परजीविना	soda ambygonite	सोडा ऐम्ब्रिगोनाइट
social pathology	सामाजिक विकृति	soda ash	धोने वा सोडा, सोडाआश
social practice	सामाजिक रीति	soda berzelite	सोडा-बर्सेलाइट
social rapport	समाज सौहार्दस्थापन	soda catapleiite	सोडा-कैटाप्लैआइट
social resource	सामाजिक साधन	soda cellulose	सोडा-सेल्युलोज
social scale (at different times)	सामाजिक क्रमस्तर	soda farr	सोडा फार्ल
social security	सामाजिक सुरक्षा	soda felspar	सोडा फेल्स्पार
social segregation	सामाजिक भूयस्करण	soda glass	सोडा काच
social species	सामाजिक जाति, सामाजिक स्पीशीज	soda lime glass	सोडा-चूना कांच
social status	सामाजिक स्थिति	sodalite	<i>Geol.</i> सोडालाइट
social structure	सामाजिक गठन	sodalite syenite	सोडालाइट सायनाइट
social superstructure	सामाजिक अधिगठन	sodalumite	<i>Geol.</i> सोडालुमाइट
social survey	सामाजिक सर्वेक्षण	soda-mesotype	<i>Geol.</i> मैट्रोलाइट
social unit	सामाजिक एकक	sodamide	<i>Chem.</i> सोडामाइड
socias	<i>Bot</i> समाजक	soda nitre	<i>Chem.</i> नोत्रा
society	<i>Geog.</i> समाज	soda orthoclase	सोडा ऑर्थोक्लेज
sociobiology	<i>Zool.</i> समाज-वैदिकी (समाज-वैदिकी)	soda pop	सोडा पॉप

soda prairie		सोडा प्रेवरी	sodium cyclamate	सोडियम साइक्लामेट
soda purpurite		सोडा परप्युराइड	sodium diacetate	सोडियम डाइऐसीटेट
sodar (sound detecting and ranging)		सोडार	sodium flame photometer	सोडियम ज्वाला प्रकाश-मापी
soda-richterite		सोडा रिक्टेराइट	sodium formate	सोडियम फॉर्मेट
soda-sarcolite		सोडा सार्कोलाइट	sodium gentisate	सोडियम जैन्टीसेट
soda sulphate process		सोडा सल्फेट प्रक्रम	sodium glucoheptinate	सोडियम ग्लुकोहेप्टिनेट
soda syenite		सोडा सायनाइट	sodium glycolate	सोडियम ग्लाइकोलेट
soda vat		सोडा वॉट	sodium graphite-reactor	सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर
soda water		सोडा वाटर	sodium ion	सोडियम आयन
sod crop	Geog.	सॉड क्रॉप	sodium lignosulphate	सोडियम लिग्नोसल्फेट
soddite (=soddyite)	Chem.	सोडाइट	sodium lysalbate	सोडियम लाइसेलेबेट
Soddy Fajans displacement rule	Chem.	सॉडी फायान्स विस्थापन नियम	sodium metavanadate	सोडियम मेटावेनाडेट
soddyite	Chem.	सॉडियाइट	sodium methyrate	सोडियम-मेथिलेट
Soddy's law	Chem.	सॉडी नियम	sodium mica	सोडियम अन्नक
Soderberg electrode	Chem.	सॉडरबर्ग इलेक्ट्रोड	sodium nitrate	सोडियम नाइट्रेट
sod flume	Geog.	सॉड नालिका	sodium pectate	सोडियम पेक्टेट
sod forming grass		सॉड निर्माणी घास	sodium phosphate	सोडियम फॉस्फेट
sod grass	Bot.	चप्पा तृण	sodium polyacrylonitrile	सोडियम पॉलिएक्रिलोनाइट्राइल
sodic rhyolite	Geol.	सोडीय रायोलाइट	sodium propionate	सोडियम प्रोपिऑनेट
sodium	Chem., H.Sc.	सोडियम	sodium protalbate	सोडियम प्रोटैल्बेट
sodium acetate		सोडियम ऐसीटेट	sodium rich magma	सोडियम बहुल भूगमा
sodium adipate		सोडियम ऐडिपेट	sodium selenate	सोडियम सेलीनेट
sodium alginate		सोडियम एल्जीनेट	sodium silicate	सोडियम सिलिकेट
sodium alizarin sulphionate		सोडियम एलिजारिन सल्फोनेट	sodium sorbate	सोडियम सॉर्बेट
sodium ascorbate		सोडियम ऐस्कॉर्वेट	sodium starch glycollate	सोडियम स्टाच ग्लाइकोलेट
sodium bearing silicates		सोडियममय सिलिकेट	sodium sulphate	सोडियम सल्फेट
sodium-bisulphite		सोडियम बाइ-सल्फाइड	sodium sulphite	सोडियम सल्फाइट
sodium borate		सोडियम बोरेट	sodium tartarate	सोडियम टार्टरेट
sodium carbonate		सोडियम कार्बोनेट	sodium tetrameta-phosphate	सोडियम टेट्रामेटाफॉस्फेट
sodium carboxy-methyl cellulose		सोडियम कार्बोक्सी-मेथिल सेल्युलोज	sodium thiosulphate	सोडियम थायोसल्फेट
sodium chloride		सोडियम क्लोराइड	sodium tongs	सोडियम चिमटा
sodium citrate		सोडियम सिट्रेट	sodium trail	सोडियम पथचिह्न
			sodium vapour lamp	सोडियम वैपूर लैम्प

sodolin	<i>H.Sc.</i>	सॉडोलिन	soft palate		कोमल तालु
sod-strip check		सॉड-स्ट्रिप चेक	soft picture		मृदु चित्र
Soest boerde	<i>Geog</i>	सोएस्ट बोर्ड	soft pitch		मृदु पिच
sofar (sound fixing and ranging)	<i>Phy.</i>	सोफार	soft radiation	<i>Phy.</i>	अल्पवेधी विकिरण
soffione	<i>Geog</i>	वाष्प रश्मि (ज्वालामुखी)	soft rag		मुलायम विषडा
soffioni	<i>Geol</i>	सोफियोनी	soft red marl		मृदु लाल मालें
sofnolite	<i>Chem</i>	सोफ्नोलाइट	soft rime		मृदु रादम, मृदु तुहिन
sofrito	<i>H.Sc.</i>	सोफ्रिटो	soft rot		मृदु विगनन
soft	<i>Geog, H.Sc.</i>	मृदु, नमं, कोमल	soft rot bacteria		मृदु विगलनी जीवाणु
soft and dull (music)		मृदु तथा नीरस	soft shale		मृदु शेल
soft black pencil		नमं काली पेन्सिल	soft shelled crab		मृदु कवची कर्कट
soft coke		सॉफ्ट कोक	soft showers	<i>Phy</i>	अल्पवेधी बौछार, सोपानी बौछार
soft component (of cosmic rays)	<i>Phy.</i>	अल्पवेधी घटक	(= cascade showers)		
soft coral		मृदु प्रवाल	soft silk		मृदु रेशम
soft cuticle		मृदु उपत्वचा	soft sized		मृदु चिक्कणित
soft drinks		मृदुपेय	soft solder		मृदु टाका
softener	<i>H.Sc.</i>	मृदुकारी	soft structure		मृदु संरचना
softening	<i>Phy.</i>	मृदुलन, मृदुकरण	soft superconductor	<i>Phy.</i>	मुद्राधिचालक
softening agent		मृदुकारक, मृदुकारी	soft target	<i>Phy</i>	अरक्षित लक्ष्य
softening point	<i>Chem. (Food)</i>	सादेव बिन्दु	soft topsoil		नमं अवनमृदा
soft facing		मृदु प्रफलकन	soft to sound		स्वमिमृदु
soft finish		मृदु परिष्कृति	soft tube (=gassy tube)	<i>Phy.</i>	अल्प निर्वात नलिका
soft fire		मृदु-अग्नि	soft tube pulser	<i>Phy.</i>	अल्पनिर्वात स्पन्दक
soft fish		मृदु मत्स्य	soft twist		मृदु लोटन
soft gap		मृदु अन्तराल	soft valve		अल्प निर्वात नलिका
soft glass		मृदु काच सुगमनीय काच	software	<i>Phy</i>	1 यन्त्रेतर सामग्री 2. मृदु सामग्री
soft hail		मृदु ओला, हिममुनिवा	soft water		मृदु जल
soft image		मृदु प्रतिबिम्ब	soft wheat		मृदु गेहूँ, नमका गेहूँ
soft iron		नमं लोहा	soft wood		मृदु हाथ
soft landing		मृदु अवतरण	soft-wood hearth		मृदु-नाष्ठ धूम्रा
soft lead		मृदु धातु	soft-X-rays	<i>Phy.</i>	अल्पवेधी ऐरम किरणें
soft lens paper		मृदु लेंस कागज	soggy	<i>Geog.</i>	अतिमिक्त
soft magnetic material		मृदु चुम्बकीय पदार्थ	soggy marsh		अतिमिक्त कच्छ
soft mud process		मृदु पद प्रक्रम	sohal		अथ मृन्मारी
soft ore		मृदु अयस्क	soil	<i>Geog, Geol, Bot.</i>	मिट्टी, मृदा, भूमि

soil acidity		मृदा अम्लता	soil formation	मृदा रचना
soil aeration		मृदा वातन	soil-forming material	मृदारचक पदार्थ
soil aggregate		मृदा समुच्चय	soil granulation	मृदा कणीभवन
soil aggregation		मृदा समुच्चयन	soil granule	मृदाकणिका
soil-air pressure		मृदा वायु दाब	soil group	मृदा वर्ग
soil association		मृदा वर्ग	soil horizon	मृदा संस्तर
soil auger		मृदा अँगर, मृदा बरमा	soil humus	मृदा ह्यूमस
soil bed		मृदा संस्तर	soil injector	भूमि अन्तःक्षेपक
soil borne		मृदोद्	soil intake	मृदा अंतर्ग्रहण
soil-building crop		मृदा निर्मापी सस्य	soil leaching	मृदा निक्षालन
soil burial test	Chem.	भूवेशन निकष	soil loss	मृदा क्षय
soil carrying splash		मृदा बाही उच्छल	soil maker	मृदा निर्माता
soil chemistry		मृदा रसायनविज्ञान	soil map	मृदा मानचित्र
soil classification		मृदा वर्गीकरण	soil mechanics	मृदा यांत्रिकी
soil climate		मृदा जलवायु	soil micro-organism	मृदा सूक्ष्मजीव
soil cluster		मृदा मूच्छ	soil moisture	मृदा आर्द्रता
soil colloid		मृदा कोलॉयड	soil-moisture range	मृदा आर्द्रता परिसर
soil column		मृदा स्तम्भ	soil-moisture tension	मृदा आर्द्रता तनाव
soil compaction		मृदा संहतीकरण	soil-muddied water	Geog. मटियारा जल
soil conditioner		मृदा अनुकूलक	soil-nourished vegetation	मृदा पोषित वनस्पति
soil conductivity		मृदा चालकता	soil penetrometer	मृदा पैनिट्रोमीटर
soil conservation		भूमि संरक्षण	soil permeability	मृदा पारगम्यता
soil creep		मृदा सर्पण	soil pest	मृदा पीड़क
soil culture		मृदीय संवर्धन, मृदीय संवर्धन	soil phase	मृदा प्रावस्था
soil deformation		मृदा विरूपण	soil physics	मृदा भौतिकी
soil-depleting crop		मृदा ह्रासिक सस्य	soil plasticity	मृदा सुषट्यता
soil deterioration		मृदा ह्रास	soil-pore space	मृदा-रंध्र आकाश
soil drought		भूमि जलभाव	soil preservation	मृदा परिरक्षण
soiled linen	H.Sc.	मलिन वस्त्र, मैले कपड़े	soil profile	मृदा परिच्छेदिका, मृदा प्रोफाइल
soil erosion		मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव	soil proper	वास्तविक मृदा
soil evaporation		मृदा वाष्पन	soil protecting crop	मृदा रक्षी सस्य
soil exhaustion		मृदा क्षय	soil removal	मृदा निष्कासन
soil extract agar	Bot.	मृत्सार ऐगार	soil reserve	मृदा निचय
soil fabric		मृदाक्रिस्टल विन्यास	soil sample	मृदा नमूना, मृदा सेम्पल
soil fauna		मृदाप्राणिजात	soil sampling tube	मृदा सेम्पलन नली
soil fertility		मिट्टी की उर्वरता, मृदा-उर्वरता	soil saving rotation	मृदा रक्षी आवर्तन

soil science		भूदा विज्ञान	solar	<i>Phy., Math.</i> , सौर <i>Geog.</i>
soil series		भूदा सीरीज़	solar activity	सौर क्रोम
soil storage method		भूदा सग्रह विधि	solararomic process	<i>Chem</i> <i>(Met)</i> सौररैमिक प्रक्रम
soil strip		भूदा पट्टी	solar apex	सौर अभिबिन्दु
soil structure		भूदा-सरचना	solar atmosphere	सौर वायुमंडल
soil suspension		भूदा निलम्बन	<i>solar atmospheric tide</i>	सौर वायुमण्डलीय ज्वार
soil temperature		भूदा-ताप	solar attachment	सौर उपाय
soil texture		भूदा गठन	solar chromosphere	सौर वर्णमंडल
soil tith		भूदा-जुनाई	solar chromospheric eruption	सौर वर्णमंडली चद्गार
soil transmission		भूदा संचारण	solar constant	सौर ऊष्मांक
soil transmitted virus		भूदा संचारित विषाणु	solar constant of radiation	सौर विकिरण ऊष्मांक
soil type		भूदा प्रकार	solar corona	सौर विरोट
soil water		भूदा जल	solar curve of growth	सौर वृद्धि वक्र
soil water belt		भूदाजल पट्टी	solar cycle	सौर चक्र
soil water system		भूदाजल तंत्र	solar day	सौर दिवस
sojourn	<i>Geog.</i>	अत्यावास	solar-diurnal variation	सौर दैनिक परिवर्तन
sokefand	<i>Geog.</i>	सोकलैंड	solar eclipse	सूर्य-ग्रहण
sol	<i>Chem.</i> <i>Biol.</i>	विनय, सॉल	<i>solar ecliptic limit</i>	सूर्य-ग्रहणिक सीमा
sola	<i>Geog.</i>	सोना	solar ejecta	सौर निष्कास
Solanaceae	<i>Bot.</i>	सोलैनेसी	solar engine	सौर इंजन
solanidine	<i>Chem.</i>	सोलैनिडीन	solar ephemeris	सौर पचास
solanine	<i>Chem.</i>	सोलानीन	solar filament	सौर तंतु
solano	<i>Geog.</i>	सोलानो	solar flare	सौर प्रख्यान
Solanum	<i>Bot.</i>	सोलनेम	solar focus	सौर फोकस
<i>Solanum incanum</i>		सोलैनेम इन्कैनम	solar furnace	सौर भ्राष्ट्र
<i>Solanum melongena</i>		सोलैनेम भेलोन्जेना (बैंगन)	solar gravitational attraction	सौर गुरुत्वाकर्षण
<i>Solanum nigrum</i>		सोलैनेम नाइग्रम (मकोय)	solar heating	सौर तापन
<i>Solanum tuberosum</i>		सोलैनेम ट्यूबरोसम (आलु)	solar hour	सौर घटा
<i>Solanum verbascifolium</i>		सोलैनेम वर्बैस्की- फोलियम	solar hour angle	सौर होरा कोण
<i>Solanum xanthocarpum</i>		सोलैनेम ज़ैन्थोकार्पम	solarigraph	विकिरण आनेत्र, सौररोशानक
			solarimeter	सौर विकिरणमापी, सौर रीमीटर



solar indices		सौर सूचकांक	solder	Chem.	(n.) टांका, झाल, सोल्डर (vb) टांका लगाना, झालना, सोल्डर करना
Solarium	Zool.	सोलैरियम	solder embrittlement		टांका भंगुरता
Solarium perspectivum		सोलैरियम पर्सपेक्टिवम	solder flow testing		टांका प्रवाह निकपन
solarization	Chem.(Gl.)	सौरियन, आतपन	soldering		झालना, टांका लगाना, सोल्डर करना
solar line intensity		सौर रेखा तीव्रता	soldering acid		टांका अम्ल, सोल्डर अम्ल
solar magnetic field		सौर चुम्बकीय क्षेत्र	soldering gun		सोल्डर गन
solar month		सौर मास	soldering iron		झालने का लोहा, कहिया
solar motion		सौर गति	soldier (insect)	Zool.	सैनिक (कीट)
solar nebula		सौर नीहारिका	soldier ant		सैनिक चींटी
solar noise		सौर रव	soldier fly		सैनिक मक्खी
solar oil	Chem.,Geol.	सोलर तैल	sole	Geog., Geol. Zool.	1. तली, सोल 2. घर्षफलक सोल
solar parallax		सौर लंबन	Solea	Zool.	सोलिया
solar particle emission		सौर कण उत्सर्जन	Solea vulgaris	Geog.	सोलिवा वल्वरिस
solar perturbation		सौर क्षोभ	soled cobble	Geol.	चिपिटतल गोलाशिमका
solar prominence		सौर ज्वाला	soledon colour	Chem.	सोलिडन रंग
solar radiation		सौर विकिरण	sole fishery		सोल मात्स्यकी
solar radiation thermometer		सौर विकिरण तापमापी	Soleinia candida	Bot.	सोलीनिया कॅन्डाइडा
solar reversing layer		सौर उल्ट्रमण परत	sole mark		तली चिह्न
solar salt		सौर लवण	Solen	Zool.	सोलिन
solar semi-annual constituent		सौर अर्धवार्षिक घटक	solenia	Zool.	प्रणालिका
solar spectrum		सौर स्पेक्ट्रम	solenial network		प्रणालिका जाल
solar stream		सौर धारा	solenial tube	Zool.	प्रणालिका नाल
solar system		सौर परिवार	Solenichthyes	Zool.	सोलैनिक्थीज
solar tide		सौर ज्वारभाटा	solenocyst		सोलैनोसिस्ट
solar time		सौर समय	solenocyte	H.Sc.,Zool.	नलोत्सर्ग कोशिका, सोलीनीसाइट
solar tractive force		सौर कर्षण बल	solenocytic protonep- hridia	Zool.	नन्कोशिक आदिवृक्कक
solar year		सौर-वर्ष	Solenodon	Zool.	सोलैनोडॉन
solasodine	Chem.	सालसोडीन	Solenodon paradoxus	Zool.	सोलैनोडॉन पॅराडॉक्सस
solasonine	Chem.	सोलसोनीन	Solenodontidae	Zool.	सोलैनोडॉन्टिडी
Solaster	Zool.	सोलैस्टर			
solation	Chem.	विज्ञान			
solatubine	Chem.	सोलैट्यूबीन			
solatunine	Chem.	सोलैट्यूनीन			

Solenogastres	Zool	सोलोनोगॅस्ट्रीज	solid fluid transition		ठोस तरल संक्रमण
solenoid	Phy.	परिनालिका	solid friction		ठोस घर्षण
solenoidal element		परिनालिकीय अवयव	solid geology	Geol	थपार्थ भूविज्ञान
solenoidal field		परिनालिकीय क्षेत्र	solid geometry		घन ज्यामिति, त्रिविध ज्यामिति
solenoidal inductor		परिनालिकीय प्रेरित	solid hemisphere		ठोस गोलार्ध
solenoidal vector		परिनालिकीय सदिश	solid homogeneous ellipsoid	Math	समग्र ठोस दीर्घवृत्तज
Solenomya	Zool	सोलोनोमिया	solidification		1 जमना, पिडन 2 जमना
solenostele	Bot	नलीरभ	solidification curve		पिडन रेखा
solenostelic		नलीरभीय	solidification range		पिडन परिसर
solenoxyllic	Bot.	नलीदाक्षक	solidified petroleum		पिडित पेट्रोलियम
sole of staff	Geog.	दह तल	solidify		जमना, पिडित होना, ठोस बनना
sole plate	H.Sc.	आधार पट्टिका	solid injection system		ठोस अंतक्षेपण तंत्र
soleus	H.Sc.	सोलियस	solid of revolution	Math	परिक्रमण घनाकृति
Soloxol continuous extraction process	Chem.	सोलोसॉल सतत निष्कर्षण प्रक्रम	solidoid		पिडाभ
Soloxol process		सोलोसॉल प्रक्रम	solid paraffin		ठोस पैराफिन
solfatara	Geol.	गैसमोची ज्वालामुखी	solid patch	Geog	अविच्छिन्न चप्पा
solfatara field		गैसमोची ज्वालामुखी क्षेत्र	solid phase reaction		ठोस प्रावस्था अभिक्रिया, पिड प्रावस्था अभिक्रिया
solfataric activity		गैसमोचीय सक्रियता	solid propellant rocket		ठोस मोदक रॉकेट
solgas	Chem (Pet)	सॉलगैस	solid protostele		घन टोमरंभ
sol gel transition	Chem.	सॉल जेल संक्रमण	solid rock		ठोस शैल
solid	Math.,Phy., Chem.	1. ठोस, पिड 2. घनाकृति	solid sectorial harmonic		घन क्षेत्रीय प्रसवादी
solid angle	Math.	घन कोण	solid shell		ठोस श्वथ
solid-angle effect		घन कोण प्रभाव	solids-not fat correction		अ-वसीय पिड संशोधन
solid blue	Geog.	अविच्छिन्न नीला पिड	solid solubility		ठोस विलयता, धातु विलयता
solid body		ठोस परिस्तीमा	solid solution		ठोस विलयन, घन विलयन
solid boundary		ठोस आवरण	solid-solution hardening		ठोस-विलयन कठोरन
solid carbon		ठोस अकार्बन	solid space		घन समष्टि
solid colour	H.Sc.	अविच्छिन्न वर्ण	solid sphere		ठोस गोला
solid cone		ठोस शंकु			
solid crust		ठोस पटल, ठोस पर्पटी			
solid cylinder		ठोस बेलन, ठोस सिलिंडर			
solid-diffusion		ठोस विसरण			
solid electrolyte		ठोस त्रिघुन-अवयव			
solid figure	Math.	घनाकृति			
solidification		मृदा संघन			

solid spherical harmonic		घन गोलीय प्रसंवादी	solubility	<i>Geol., Geol., Chem.</i>	विलेयता, विलयशीलता, धुलनशीलता
solid square		ठोस वर्ग	solubility box		विलेयता पेटी, विलेयता बक्स
solid state		ठोस अवस्था, घन अवस्था, पिंड अवस्था	solubility constant		विलेयता नियतांक
solid state computer	<i>Phy.</i>	ट्रान्जिस्ट्री अभिकलित्र	solubility curve		विलेयता वक्र
solid state delay line		घन अवस्था विलम्ब लाइन	solubility effect		विलेयता प्रभाव
solid state laser		घन अवस्था लेसर	solubility product		विलेयता गुणफल
solid state maser		घन अवस्था मेसर	solubilization		विलेयीकरण
solid tesseral harmonic		घन जालीय प्रसंवादी	solubilize		विलेयीकरण
solidus		सॉलिडस	soluble		विलेय, विलयशील
solidus curve	<i>Chem.</i>	सॉलिडस वक्र	soluble bed		विलेय संस्तर
solid zonal harmonic	<i>Math., Phy.</i>	घन कटिबंधीय हार्मोनिक	soluble equation	<i>Math.</i>	हलयोग्य समीकरण
solifluctional deposit	<i>Geol.</i>	मृदासर्पणी निक्षेप	soluble glass		विलेय कांच
Solifugae	<i>Zool.</i>	सोलीफ्यूजी	soluble group		हलयोग्य समूह
soligenous	<i>Geol.</i>	वर्षा-स्राव जनित	soluble starch		विलेय मंड
solitary		एकल	solubriol	<i>Chem.</i>	साल्युब्रिऑल
solitary animal		एकल प्राणी	solum	<i>Geol., Bot., Geog.</i>	सोलम, संमृदा
solitary ciliate		एकल पद्मभाषी	solute		विलेय
solitary coral		एकल प्रवाल	solute cloud		विलेय मेघ
solitary particle		एकल कण	solute matrix	<i>Phy.</i>	विलायक जाल
solitary phase		एकल प्रावस्था	solution	<i>Math.</i>	1. हल (result) 2. साधन (process)
solitary wave		एकशृंगी तरंग		<i>Chem.</i>	विलयन, घोल
soller (saller)	<i>Geol., H.Sc.</i>	कार्यमंच	solution basin		घोल बेसिन
solo	<i>H.Sc.</i>	सोलो	solution by radicals		करपियों द्वारा हल
solochrome dark blue	<i>Chem.</i>	सोलोक्रोम गाढ़ नील, सोलोक्रोम गाढ़ ब्लू	solution depression		घोल-गत
solod, soloth	<i>Geog.</i>	सोलोड (मृदा)	solution dyeing		घोल रंजन
solo journey	<i>Geog.</i>	सोलो यात्रा	solution gallery		घोल गैलरी
Solomon's seal		सोलोमन सील	solution grooves	<i>Geol.</i>	संक्षरण खांच
solonchak	<i>Bot., Geog.</i>	सोलनचक	solution heat treatment		विलयन ऊष्मा उपचार
solonetz	<i>Geog., Bot.,</i>	सोलोनेज	solution in series		श्रेणी रूप हल
<i>Solorina crocea</i>	<i>Bot.</i>	सोलोराइना क्रोसिया	solution matrix		हल आव्यूह
solstical colure	<i>Math., Geog.</i>	अयन उन्मंडल	solution of a triangle		त्रिभुज का निर्धारण
solstical points		अयनांत बिन्दु	solution openings		विलयन रंध्र
solstice		अयनांत, संक्रांति	solution path		हल-पथ

solution pipe		विलय नाल	solvent emulsion degreasing		विलायक पायस विघ्नोन्न
solution potential		विलयन विभव	solvent extraction		विनायक निष्कर्षण
solution pressure		विलयन दाब	solvent front		विलायक अग्र
solution residue		विलयन अवशेष	solvent medium		विलायक माध्यम
solution space		हल समष्टि	solvent power		विलायक शक्ति
solutional spring sapping		विलेय स्रोत अघ-खनन	solvent process		विलायक प्रक्रम
solution theory		विलयन वाद, घोल सिद्धांत	solvent recovery process		विनायक उपन्धि प्रक्रम
solution valley		विलय घाटी	solvent refining		विलायक परिष्करण
solution vector		हल सदिश	solvent release		विनायक विमोचन
solutizer	Chem (Pet)	विलेयतावर्धी	solvent resistance		विनायक प्रतिरोध
solutizer process	Chem.	विलेयीकरण प्रक्रम, सॉल्यूटाइजर प्रक्रम	solvent retentivity		विलायक धारणशीलता
solutizer steam regenerative process		विलेयतावर्धी वाष्प पुनर्जनन प्रक्रम	solvent shifts		विलायक मृत्ति
solutrope	Chem.	विलेयवर्त	solvent soap		विलायक साबुन
solutropic		विलेयवर्ती	solvent system theory		विनायक तंत्र सिद्धान्त
solubility of sets	Math.	समुच्चयों की साधनीयता	solvent tolerance		विलायक सहनता
solvable game		साधनीय खेल	solvolysis		विलायकासन, विलायक अपघटन
solvable group		साधनीय समूह	solvolytic		विलायक अपघटनी
solvate	Chem.	विलायक संकर	solvolytic power		विलायक अपघटनी क्षमता
solvated		विनायक संकरित	solvsbergite	Geol.	सॉल्व्सबर्गिट
solvated proton		विलायकीयित प्रोटॉन	solvus	Chem.	सॉल्वस
solvate theory		विलायक संकरवाद, सॉल्वेट वाद	solvus line		सॉल्वस रेखा
solvation		विलायकीयन, विलायक संकरण	soma	Bot, Zool.	काय
solvation energy		विलायक ऊर्जा	somaetid (radialia)	Zool	धरास्त्रिय
solvation shell		विलायकीयन कोश	somaesthesia	Zool	कायमन्वेद्यता
Solvay process	Chem.	सॉल्वे प्रक्रम	somaesthetic		कायसंवेदी
Solvay trough cell		सॉल्वे द्रोणिका सेल	somoplasm	Biol.	कायद्रव्य
solve	Math.	साधन करना, हल करना	soma ring		सोमा वलय
solvency	H.Sc.	विलेयता	somatic	Bot, Zool, H.Sc.	कायिक, दैहिक
solvent	Chem.	विलायक	somatic alternation		कायिक अवस्थापरिवर्तन
solvent blushing		विनायक छींटा	somatic apospory		कायिक रूपबीजाणुता
solvent cage		विलायक पिंजर	somatic artery		कायिक धमनी
solvent cleaning		विलायक निर्मलन	somatic cell		कायिक कोशिका
solvent degreaser		विलायक निस्लेहक	somatic ciliation		कायिक परमासन
			somatic ciliation		कायिक परमासनाच्छाद

somatic crossing over		कायिक विनिमय	somewhere dense mapping	<i>Math.</i>	कुत्रचिद् सघन प्रतिचित्रण
somatic doubling		कायिक द्विगुणन	somigliana dislocation	<i>Phy.</i>	सोमिग्लिआना प्रभ्रंश
somatic mesoderm		कायिक मध्यजनस्तर	somite	<i>Zool.,H.Sc.</i>	कायखंड
somatic motor		कायिक प्रेरक	somma	<i>Geog.,Geol.</i>	सोमा
somatic muscle		कायिक पेशी	somma crater		सोमा क्रेटर
somatic mutation		कायिक उत्परिवर्तन	sommairite	<i>Geol.</i>	सोमैराइट
somatic nucleus		कायिक केन्द्रक	somma volcano		सोमा ज्वालामुखी
somatic oesophageal muscle		कायिक ग्रसिका पेशी	Sommelet reaction	<i>Chem.</i>	सॉमैले अभिक्रिया
somatic phase		कायिक प्रावस्था	Sommerfeld's spectroscopic displacement law	<i>Chem.</i>	सोमरफैल्ड स्पेक्ट्रम विस्थापन नियम
somatic sensory column		कायिक संवेदी स्तम्भ	Sommerfeld theory		सोमरफैल्ड सिद्धान्त
somatic setae		कायिक शूक	somnambulist	<i>Geog.</i>	निद्राचारी
somatic synapsis		कायिक सूत्रयुग्मन	sonar	<i>Phy.,Zool.</i>	सोनार
somatic system		दैहिक तन्त्र, कायिक तन्त्र	sondalite	<i>Geol.</i>	सोन्डेलाइट
somatic vessel		कायिक वाहिका	sonde	<i>Geog.,Phy.</i>	सोन्ड
somatoblast	<i>Zool.</i>	कायकोरक	sone	<i>Phy.</i>	सोन
somatocoel	<i>Zool.</i>	कायगुहिका	song bird	<i>Zool.</i>	गायक पक्षी
somatocyst	<i>Zool.</i>	कायपुटी	songorine	<i>Chem.</i>	सांगोरीन
somatogamous	<i>Bot.</i>	काययुग्मनी	sonic agglomeration	<i>Chem. (Fert.)</i>	ध्वनिक पुंजन, ध्वनिक पिढन
somatogenic	<i>Zool.</i>	कायजन	sonic boom	<i>Phy.</i>	ध्वनि वूम
somatointestinal muscle	<i>Zool.</i>	काय-आंत्र पेशी	sonic depth finder		ध्वनिक गभीरतामापी
somatological	<i>Bot.,Geog.</i>	देह-विज्ञानी, कायिकीय	sonic disturbance		ध्वनिक विक्रोम
somatology		देह-विज्ञान, कायिकी, सोमेटोलॉजी	sonic edge		ध्वनिक कोर
somatoplasm	<i>Bot.,Zool.,H.Sc.</i>	कायद्रव्य	sonic energy		ध्वनि ऊर्जा
somatopleure	<i>Zool.</i>	कायस्तर, सोमेटोप्लूर	sonic flocculation		ध्वनिक ऊर्णन
somatotrophic	<i>Zool.,H.Sc.</i>	कायप्रेरक, कायपोषी	soniclean	<i>Chem. (Met.)</i>	पराश्रव्य
somatotropic hormone		कायप्रेरक हार्मोन	sonic logging		ध्वनिक संलेखन
somatotropin	<i>Chem.</i>	सोमटोट्रोपिन	sonic nozzle		ध्वनिक नॉजल
somberite	<i>Geog.</i>	सोम्बेराइट	sonic sounding		ध्वनिक मापन, ध्वनिक गभीरतामापन
sombre line	<i>Geog.</i>	कृष्ण रेखा, मलिन रेखा	sonic sounding equipment		ध्वनिक मापन उपस्कर
sombrierite	<i>Chem.</i>	सोम्ब्रेराइट	sonic speed		ध्वनिक चाल
somersaulting	<i>Zool.</i>	ऊर्ध्वपादसंघन	sonic testing		ध्वनिक निकपन
somerset town	<i>Geog.</i>	सोमरसेट नगर			
somervillite	<i>Geol.</i>	सोमरविलाइट			

sonigage	Chem. (Met)	सोनीगेज	soralium	Bot.	सोरेलियम
sonim	Chem. (Met)	सोनिम	sorb	Chem, Bot.	शोषण करना
Sonine polynomial	Math.	सोनाइन बहुपद	sorbate		शोष्य
soniscope	Chem (Met)	सोनाइन् दृशो, सोनिस्कोप	sorbed phase		शोषित अवस्था
sonizon	Chem (Met)	सोनाइन् बोटाई मापी, सोनीज़ॉन	sorbed water		शोषित जल
sonne	Phy.	सान	sorbent		शोषो
sonnenseit	Geog.	सूर्याभिमुखी	sorbic acid	Chem	सॉबिक अम्ल, सॉबिक ऐसिड
<i>Sonneratia caseolaris</i>	Bot	सोनेरेशिया केसिओलैरिस	sorbite	Geol.	सॉबिट
Sonneratiaceae		सोनेरेशिएसी	sorbbitizing	Chem. (Met)	सॉबिटन
Sonne strip camera	Geog.	सोने पट्टी कैमरा	sorbitol	Chem, Bot., H Sc.	सॉरबिटॉल
Sonninia		सोनीनिया	sorbo rubber	Chem.	सॉबो रबर
<i>Sonninia propinquans</i>		सोनीनिया प्रापिन्कुआन्स	sorbose	Bot.	सॉबोस
Soan Muller reaction	Chem	सोन् म्यूलर अभिक्रिया	sordianus	Bot.	सॉर्डियस
sonobuoy	Phy	ध्वनिबोय	sore	H Sc.	सोर, दाह
sonometer	Phy.	सोमोमीटर	soredial	Bot.	सोरीडियमो
sonorous	Phy., Geog.	ध्वनिक	sorediate		सोरीडियमो
sonorous figures		ध्वनिक आकृतियाँ, कला आकृतियाँ	soredium		सोरीडियम
sonorous title		ध्वनिक उपाधि	sore eye (eye sore)	Zool.	नेत्र दाह
soatochin	Chem	सोन्टोचिन	Sorel cement	Chem	सॉरेल सीमेन्ट
soot	Geol., H.Sc., Chem.	कालन, कालिख, कज्जल	Sorenson formal titration	Chem	सॉरेन्सन फॉर्मल अनुमानन, सॉरेन्सन फॉर्मल टाइट्रेशन
sootfall		कज्जल पात	Sorenson's buffer method		सॉरेन्सन उभयप्रतिरोधी विधि, सॉरेन्सन बकर विधि
soothsaying	Geog.	भविष्यवाणी	Soret effect	Chem.	सॉरेट प्रभाव, सॉरेट- निष्पत्ति
sooty blotch		कज्जली धना	<i>Sorex minutus</i>	Zool.	सॉरेक्स माइनुटस
sooty coal		कज्जली कोयला	sorghum	Geog.	सोरुम
sooty material		कज्जली पदार्थ	sorgo sirup	Chem., (Sugar)	सॉरगोसिरप
sooty mould		कज्जली फंगस	Soricidae	Zool.	सॉरिसिडी
sophisticated quantum mechanics	Chem.	सौंदर्यवान् क्वाण्टम मेकानिक्स	Soricoldea		सॉरिक्लोइडिया
soporific	Chem	निद्राकर	Soricomorpha	Zool.	सॉरिक्लोमोर्फा
soprano voice		सोप्रानो वादुध्वनि	sorbiferous	Bot.	सोनाशुधानीधर

sorocarp	Bot.	सोरोकार्प	sound band		ध्वनि पट्टी
soroche	Geog.	सोरोचे, पर्वत रोग	sound barrier		ध्वनि प्राचीर
sorogen	Bot.	सोरसजन	sound board		नादपट
sorophore	Bot.	सोरसधर	sound box		साउन्ड बॉक्स, नाद-पेटी
sorosis	Bot.	सोरोसिस	sound break through		ध्वनिक अतिक्रमण
<i>Sorosporium consanguineum</i>	Bot.	सोरोस्पोरियम कान्सैंगुनियम	sound camera		ध्वनिलेखी कैमरा
sorption	Chem.	शोषण, चूषण	sound carrier		ध्वनि वाहक
sort	Math.	छँटाई, शाटन	sound discontinuity		ध्वनि असांतत्व
sort digital		अंकीय छोट	sound dispersion technique		ध्वनि-विक्षेपण तकनीक
sortening technique		छांटने की तकनीक	sound energy		ध्वनि ऊर्जा
sorter	Geol., Phy., Math.	1. सार्टर यंत्र, छांट-यंत्र 2. शाटक, शाटित्र	sound energy density		ध्वनि ऊर्जा घनत्व
sort generator		छँटाई जनित्र	sound energy flux		ध्वनि ऊर्जा प्रवाह, ध्वनि ऊर्जा अभिवाह
sorting	H.Sc., Geol., Chem.	1. छँटाई, प्रवरण 2. पृथक्करण	sounder	Phy.	ध्वनित्र
sorting coefficient		छँटन गुणांक	soundex		ध्वनि अनुरूप
sorting column		छँटाई स्तंभ	sound fading device		ध्वनि मंदन युक्ति
sorting index		छँटनांक	sound field		ध्वनि क्षेत्र
sorting of hide		खल्ल प्रवरण, खल्ल छँटाई	sound film	Phy.	सवाक् फ़िल्म
sorting unit		छँटाई एकक	sound gate		ध्वनि द्वार
sorus	Bot.	बीजाणुधानी पुंज, सोरस	sound hard		ध्वनि कठोर
sosquil	H.Sc.	सॉसक्विल	sound head		ध्वनि शीप
sotch	Geog.	सॉच	sound hedgehog		ध्वनिक कंठमूप
souffle	H.Sc.	सूप्ले	sound image		ध्वनि प्रतिबिंब
sough	Geog.	स्यूफ	sounding	Geol., Phy.	1. गहराई नापना, गभीरतामापन, 2. परिज्ञापन
soum	Geog.	सूम	sounding balloon	Geog., Phy.	साउंडिंग बैलून, परिज्ञापी गुब्बारा
soumak rug	H.Sc.	सूमैक रग	sounding board	Phy.	नाद-पट
sound	Geog., Phy.	1. ध्वनि, शब्द, नाद 2. अज्ञसंयोजी	sounding electrode		परिज्ञापन इलेक्ट्रोड
sound absorber		ध्वनि अवशोषक	sounding line		गंभीरतामापी डोर
sound absorption coefficient		ध्वनि अवशोषण गुणांक	soundings	Phy.	परिज्ञप्ति
sound absorption factor (=acoustical absorption factor)		ध्वनिक अवशोषण घटक	sounding winch		गंभीरतामापी घ्राणित्र, गंभीरतामापी विच
sound absorptive material		ध्वनि अवशोषक पदार्थ	sound insulation		ध्वनिरोधन
			sound intensity		ध्वनि तीव्रता
			sound lens		ध्वनिक लेन्स

sound level		ध्वनि स्तर	source (transistor)	उद्गम इलेक्ट्रोड
sound level meter		ध्वनि स्तर मापी	source chamber	स्रोत कक्ष, उद्गम कक्ष
sound lid		ध्वनि आवरण	source data automa- tion	मूल उपात्त स्वचालन
sound line		ध्वनि लाइन	source document	मूल प्रलेख
sound locator		ध्वनिक स्थान निर्धारक	source element	उद्गम तत्व
sound mixer		ध्वनि मिश्रक	source frequency modulation	स्रोत आवृत्ति मॉड्यूलन
sound mixing (=dubbing)		ध्वनि मिश्रण	source function	स्रोत फलन
sound motion picture	<i>Phy.</i>	सवाक् चलचित्र	source material	मूल पदार्थ
sound on vision		ध्वनि आरोपित दर्शन	source of data	उपात्त-स्रोत
sound pressure		ध्वनि दाब	source of energy	ऊर्जा स्रोत
(=acoustomotive pressure)			source of light	प्रकाश स्रोत
sound producing organ		ध्वनि उत्पादक अंग	source of repulsion	प्रतिकर्षण-स्रोत
sound projector		ध्वनि प्रक्षेपक	source of river	नदी-उद्गम, नदी-स्रोत
sound proof		ध्वनिरोधी	source of sound	ध्वनि स्रोत
sound proofed booth		ध्वनिरुद्ध कोष्ठ	source program	मूल प्रोग्राम
sound proofing		ध्वनिरोधन	source range	स्रोत पराम
sound pulse		ध्वनिस्फंद	source rock	उद्गम शैल
sound radiometer		ध्वनि विकिरणमापी	source spectrum	स्रोत स्पेक्ट्रम
sound ranging		ध्वनिक परासन	sour crude oil	<i>Chem (Pet)</i> अम्ल कच्चा तैल
sound ray		ध्वनि किरण	soured cow milk	खट्टा गौ-दुग्ध
sound receptor		ध्वनिग्राही	sour gas	अम्ल गैस
sound reduction factor		ध्वनि परिवर्तन गुणांक	souring	<i>H.Sc.</i> खट्टा करना, अम्लीकरण
sound rejection		ध्वनि निराकरण	souring of ink	<i>Chem (Ink.)</i> सखी आस्कन्दन
sound second		ध्वनि सेकन्ड	souring of milk	दुग्ध आस्कन्दन
sound shadow		ध्वनिक छाया	sour milk	खट्टा दूध
sound spectrum		ध्वनिक स्पेक्ट्रम	sour salt	<i>H.Sc.</i> अम्ल लवण
sound track		ध्वनि-पट्टी	sous capitale	<i>Geog.</i> मध्यवर्ती बन्द, सू-कापिटाम
sound velocity		ध्वनि वेग	soutache	<i>H.Sc.</i> सूदाश
sound wave		ध्वनि तरंग	south	<i>Geog., Math.</i> दक्षिण
soup	<i>H.Sc.</i>	सूप	Southampton pattern	<i>Geog.</i> साउथैम्पटन प्रतिरूप
soupling	<i>Chem., H.Sc.</i>	विसंजन	Southbya	<i>Bot.</i> साउथब्या
soup spoon		सूप-चम्मच	south east	दक्षिण-पूर्व
sour	<i>Chem.</i>	खट्टा, अम्ल	southerly Barster,	<i>Geog.</i> दक्षिण बार्स्टर (पवन)
source		उद्गम, स्रोत	Southern Asia series	दक्षिणी एशिया मीरीज



southern circuit		दक्षिणी परिपथ	soyabean cyst nematode		सोयाबीन पुटी सूत्रकृमि
southern cross	<i>Geog.</i>	करक्ष, दक्षिणी क्रस	soyabean fiber		सोयाबीन तन्तु
southern hemisphere		दक्षिणी गोलार्ध	soyabean meal		सोयाबीन चूरा
southern node		दक्षिण पात	soyabean mosaic		सोयाबीन किर्मीर
south magnetic pole		दक्षिण चुम्बकीय ध्रुव	soyot	<i>Geog.</i>	सॉयोत
south margin		दक्षिणी हाशिया	spa	<i>Geog.</i>	खनिज स्रोत, स्पा
south pole		दक्षिण ध्रुव	space		1. आकाश, अंतरिक्ष, दिकस्थान, अवकाश
south seeking pole		दक्षिणोन्मुखी ध्रुव, दक्षिणमुखी ध्रुव]		<i>Geog.</i>	2. समष्टि 3. अन्नर
south solstice		दक्षिण अयनांत	$\gamma$ space		$\gamma$ आकाश
south temperature zone		दक्षिण शीतोष्ण प्रदेश	$\mu$ space		$\mu$ आकाश
southward facing slope		दक्षिणाभिमुखी ढाल	space and time		द्विकाल, आकाश और काल
Southwell plot	<i>Math.</i>	साउथवेल-आलेख	space attenuation		आकाशीय क्षीणन
south-west		दक्षिण-पश्चिम, नैर्ऋत्य कोण	space cabin		आकाशीय कैबिन
South-Wester (=Sou Wester)		दक्षिण-पश्चिमी तीव्र पवन	space centrod		आकाशीय घूर्णन-केन्द्रपथ
south wind		दक्षिणी पवन	space charge	<i>Phy.</i>	अन्तराकाशी आवेश, स्पेस चार्ज
sovaforming	<i>Chem.(Pet.)</i>	सोवासंभवन	space charge grid		अन्तराकाशी आवेश ग्रिड
sovereign gold	<i>Chem.(Met.)</i>	सॉवरैन स्वर्ण	space charge layer		अन्तराकाशी आवेश स्तर
sovereign power	<i>Geog.</i>	अधिराट् शक्ति	space charge limiting factor		अन्तराकाशी आवेश सीमक गुणांक
sovereign right	<i>Geog.</i>	प्रभुता अधिकार	space charge region		आकाशी आवेश क्षेत्र
sovkhov	<i>Geog.</i>	सावकाज, स्टेट फार्म	space charge wave		अन्तराकाशी आवेश तरंग
sow	<i>Chem.(Met.)</i>	कोली	space code	<i>Phy.</i>	एकान्तराली कोड
sowback	<i>Geog.</i>	सोवैक	space component		आकाश घटक
sowbug	<i>Zool.</i>	सोवग, वतुल मत्कुण	space configuration	<i>Chem.</i>	त्रिविम विन्यास
sowing	<i>H.Sc.</i>	बोना	space conjugate		समष्टि संयुग्मी
Soxhlet ball condenser		सॉक्सलेट कंडुक संघनित्र	space coordinates		स्थानिक निर्देशांक
Soxhlet extraction apparatus	<i>Chem.</i>	सॉक्सलेट निष्कर्षण उपकरण	space correlogram	<i>Phy.</i>	अवकाश सहसंबंध लेख
Soxhlet extractor		सॉक्सलेट निष्कर्षक	space craft		अन्तरिक्ष यान
Soxhlet's apparatus		सॉक्सलेट उपकरण	space current		आकाश धारा
soyabean	<i>Bot.,H.Sc.</i>	सोयाबीन	space curve		आकाश वक्र
soyabean agar		सोयाबीन ऐगार	spaced administrative name	<i>Geog.</i>	दूराक्षर प्रशासकीय नाम
			spaced antenna	<i>Phy.</i>	अन्तराली ऐन्टेना
			space derivative		आकाशीय अवकलज
			sapce differntiation		आकाशीय अवकलन, स्थानिक अवकलन

space dimension		समष्टि विमा	space like vector		आकाशवत् सदिश
spaced isobar	<i>Phy</i>	अन्तराली समदाब रेखा	space model		त्रिविम प्रतिरूप
space distribution		द्विविम वितरण	space of topology		सम्बन्धिता की समष्टि
space diversity		स्थान विभिन्नता	space parasite		अंतराल परजीवी
spaced name	<i>Geog.</i>	दूराक्षर नाम	space pattern		दिक् चित्रांग
space duals		समष्टीय द्वैत	space periodic function		स्थान आवेश आवर्ती फलन
space dyed yarn	<i>H Sc.</i>	अन्वमित रजित सूत्र	space permeability		आकाश प्राण्यता
space element		अवकाश अवयव	space phase		आकाशी कला
space exchange force		समष्टि विनिमय बल	space physics		अंतरिक्ष भौतिकी
space exchange operator		समष्टि विनिमय सकारक, स्पेस विनिमय सकारक	space probe		अंतरिक्ष अन्वेषी
space filtering		दिक् निरूपण	space problem		स्थान समस्या
space flight		अन्तरिक्ष उड़ान	space quantization		आकाशी क्वाण्टीकरण
space formula		त्रिविम सूत्र	spacer	<i>Phy</i>	अन्तरालक
space grating		त्रिविम घेटीय	spacer bar		अन्तरक शलाका
space group		आकाशी समूह, आकाशी ग्रुप, त्रिविम ग्रुप	space reckoning		आकाश गणना
space group extinction		आकाश समूह विलोप	space reddening		आकाशीय रक्तीकरण
space group symmetry		आकाश समूह सममिति	space reflection	<i>Phy</i>	कायिक परावर्तन
space focus		आकाशीय बिन्दु पथ	space relationship		स्थानिक संबंध
space integral		आकाशीय समाकलन, स्थानिक समाकलन	space rocket		अंतरिक्ष राकेट
space integration		समष्टि समाकलन, स्पेस समाकलन	spacer strip		अन्तरक पत्ती
space invariance		आकाशीय निश्चरता	space series		स्थानिक श्रेणी
space isobar		अन्तराली समदाब रेखा	spaceship		अन्तरिक्ष यान
space laboratory		अंतरिक्ष प्रयोगशाला	space smoothing		दिक्-समृणीकरण
space lattice		द्विविम जालक, आकाशी जालक	space spray	<i>Zool</i>	अवकाशी फुहार
space like		आकाशवत्	space station		अंतरिक्ष केन्द्र
space like coordinates		आकाशवत् निर्देशांक	space suit		अन्तरिक्ष पोशाक, अन्तरिक्ष कंबु
space like curve		आकाशवत् वक्र	space tensor		आकाश प्रदिग, आकाश टेन्सर
space like four vector		आकाशवत् चतुर्विम सदिश	space-time		दिक्काल, आकाश-काल
space like surface		आकाशवत् पृष्ठ	space time continuum		दिक्काल सतत्यक
-space like interval		आकाशवत् अन्तराल	space time coordinate		दिक्काल निर्देशांक
			space time coordinate system		दिक्काल निर्देशक-प्रणाली
			space-time correlation		दिक्-काल सम्बन्धन
			space time curvature		दिक्काल वक्रता

space time curve		आकाश काल वक्र, दिक्काल वक्र	Spalacotherium	Zool.	स्पैलेकोथीरियम
space time frame		दिक्काल तंत्र	spall	Geol.,Phy.	शल्कखंड, समुत्खंड, स्पाल
space time function		दिक्काल फलन	spallation		समुत्खंडन, स्पालन
space time geodesic		दिक्काल अल्पांतरी	spalling		1. उत्खंडन, स्पालन 2. शल्क खंडन
space time interval		दिक्काल-अंतराल	spalmandite	Geol.	स्पैल्मैन्डाइट
space time manifold	Math.	दिक्काल प्रसमष्टि	span	Math.	विस्तृति
space time measurement		दिक्काल मापन	spanandry	Zool.	पुनल्पता
space time point		दिक्काल बिन्दु	spananthous	Bot.	बल्पपुष्पी
space time region		दिक्काल प्रदेश	spandex	H.Sc.	स्पैन्डेक्स
space time symmetry		दिक्काल सममिति	spandite	Geol.	स्पैन्डाइट
space time trajectory		दिक्काल प्रक्षेप-पथ	spangle	Chem. (Met.)	चमकी
space time variation		दिक्काल विचरण	spangle gold	Geol.	पत्रक त्वर्ण
space time volume		दिक्काल आयतन	spangolite	Geol.	स्पैन्गोलाइट
space utilization		स्थान सदुपयोग	spanish fly	Zool.	स्पेनी मशी
space varying part		स्थानावर्ती भाग	spanish lace		स्पेनी लेस
space vehicle		अंतरिक्ष यान	spanish town		स्पेनी नगर
space velocity		अंतरिक्ष वेग, आकाश वेग	Spanner hydrogen porometer	Bot.	स्पैनर हाइड्रोजन रंध्यमापी
space wave		आकाश तरंग	spanning set	Math.	जनक समुच्चय
spacial		आकाशी	spanogamy	Zool.	जायाल्पता
spacing	Phy.	अंतरण, अंतराल	spanwise component	Math.	अनुविस्तृति घटक
spacing between levels		तलान्तराल	spanwise flow		अनुविस्तृति प्रवाह
spacing marker		चिह्नक अन्तराल	spanwise flow equation		अनुविस्तृति प्रवाह समी- करण
spacing of contour		समोच्चरेखा अंतराल	spar	Geol.	स्पार
spacing wave		अंतराल तरंग	Sparasis ramosa	Bot.	स्पैरैसिस रैमोसा
spacistor	Phy.	स्पेसिस्टर	Sparcatron process	Chem. (Met.)	स्पारकैट्रन प्रक्रम
spadaite	Geol.	स्पैडेआइट	sparciflorus	Bot.	अधनपुष्पी
spade	H.Sc.	फावड़ा	spares.	Chem.	अतिरिक्त भाग
spade cultivation	Geog.	कुदाल कृषि	sparganosis	Zool.	स्पारगैनोसिस
spade culture		कुदाल खेती	Sparganum	Zool.	स्पारगैनम
spade foot toad	Zool.	खनित्रपद भेक	sparingly soluble	Chem.	अल्प विलेय
spadiceus	Bot.	1. वादाम वर्षी 2. स्पेडिक्सघर	spark	Phy.,Geog.	चिनगारी, स्फूर्तिग
spadicose	Bot.	स्पैडिक्ससम	spark arrester		स्फूर्तिग रोधक
spaghetti	Geog., Chem.(Pet.) H.Sc.	स्पैगटी, मोटी सैवई	spark coil		स्फूर्तिग कुंडली
			spark discharge		स्फूर्तिग विसर्जन

spark frequency		स्फुलिंग आवृत्ति	<i>Spatangus</i>	<i>Zool</i>	स्पैटेन्गस
spark gap		स्फुलिंग अंतराल	spate	<i>Geog</i>	वाड
sparkgap modulation		स्फुलिंग अंतराल माडुलन	spathaceous	<i>Bot</i>	स्पेथी
spark gap tube		स्फुलिंग अंतराल नलिका, इलेक्ट्रोडहीन नलिका	spathe		स्पेथ
sparking distance		स्फुलिंगन अंतराल	spathe valve		स्पेथ कपाट
sparking potential		स्फुलिंग विभव	Spathiflorae	<i>Bot</i>	स्पेथीफलोरी
spark length		स्फुलिंग दैर्घ्यं	spathic iron ore	<i>Geol</i>	पटलित लोह अयस्क
spark line		स्फुलिंग रेखा	spathose iron		पटलित लोह अयस्क
sparkling plug		चिनगारी प्लग	spathulate	<i>Bot</i>	स्पैचुलाकार
spark plug		स्फुलिंग प्लग	spatial		आकाशीय, स्थानिक
spark potential		स्फुलिंग वोल्टता	spatial component		आकाशीय घटक
spark proof		स्फुलिंग-सह, स्पार्क-सह	spatial coordinates	<i>Math</i>	स्थानिक निर्देशांक, आकाशीय निर्देशांक
spark resistance		स्फुलिय प्रतिरोध		<i>Phy.</i>	स्थान निर्देशांक, त्रिविध निर्देशांक
spark spectrum		स्फुलिंग स्पेक्ट्रम, आयनित स्पेक्ट्रम	spatial correlogram		स्थानीय सहसंबंध चित्र
spark testing		स्फुलिंग निष्पन्न	spatial curvature		आकाशीय वक्रता
spark transmitter		स्फुलिंग प्रेषित्र	spatial density		आकाशीय घनत्व
sparmite	<i>Chem.</i>	स्पर्मिट	spatial differentiation		स्थानिक विभेदन
sparrow	<i>Zool.</i>	चटक, गौरैया	spatial dislocation		आकाशीय प्रक्षरण
sparry iron	<i>Chem. (Met)</i>	स्पैरी लौह	spatial diversity	<i>Zool</i>	स्थानगत विविधता
sparse	<i>Geog</i>	विरल	spatial direction		आकाशीय दिशा
sparse black prongs	<i>Phy.</i>	हल्की शाखा	spatial distribution		त्रिविध वितरण, आकाशीय वितरण, स्थानिक वितरण
sparse land		विरल प्रदेश	spatial end point		आकाशीय अंत बिंदु
sparsely		विरले	spatial effect		त्रिविध प्रभाव, त्रिविध निष्पत्ति
sparsely inhabited area		विरल आवासित क्षेत्र	spatial extension		स्थानिक विस्तार
sparse populated area		विरल वासित क्षेत्र	spatial factor		त्रिविध कारक
sparse vegetation		विरल वनस्पति	spatial Fourier Integral		आकाशीय फूरिये समाकल
sparsus	<i>Bot.</i>	अपन, दूर-दूर	spatial frequency function		आकाशीय आवृत्ति फ़ंक्शन
spartalite	<i>Geol.</i>	स्पार्टलाइट	spatial geometry		आकाशीय ज्यामिति
sparteine sulphate	<i>Chem.</i>	स्पार्टीन सल्फेट	spatial harmonic		गुणाकारी
spasmodic activity	<i>Geol</i>	आन्तराधिक सक्रियता	spatial homogeneity		आकाशीय समता
spasmoneme	<i>Zool</i>	स्पैस्मोनेम, आरपंचमूत्र	spatial impact		स्थानिक अग्रिमारा
spasticity	<i>Zool.</i>	सस्तम्भता	spatial infinite		आकाशीय अनंत
spastolith	<i>Geol.</i>	स्पास्टलैथ			
Spatangoidea	<i>Zool.</i>	स्पैटेन्गोइडिया			

spatial interlinkage		स्थानिक अंतरसंबंध	spawn and fry	Zool.	डिम पोना
spatial interval		आकाशीय अंतराल	spawner	Zool.	अंडजनक
spatial isotropy		आकाशीय समदैशिकता	spawning fish		अंडजनन मीन
spatial model		द्विविम क्षेत्र, आकाशीय मॉडल	spawning ground		अंडजनन स्थल
spatial moment		आकाशीय आघूर्ण	spawning habits		अंडजनन स्वभाव
spatial motion		आकाशी गति	spawning instinct		अंडजनन वृत्ति
spatial network		आकाशी जाल	spawning migration		अंडजनन प्रवास
spatial non-uniformity		आकाशीय नैकसमानता	spawning pool		अंडजनन ताल
spatial organisation		स्थानीय संगठन	spawning season		अंडजनन काल
spatial polar coordinates		आकाशीय ध्रुवी निर्देशांक	spawning swarm		अंडजन वृंद
spatial propinquity		स्थानिक संबंध	spawn net	Zool.	डिमजाल
spatial quantisation		दिशिक क्वाण्टमीकरण	speaking key	Phy.	बालाप कुंजी
spatial relation		स्थानिक सम्बन्ध	spear head	Geog.	शूलाग्र
spatial rotation		आकाशीय घूर्णन	spearman	Geog.	कुंतघारी
spatial structure		स्थानिक संरचना, द्विविम संरचना	Spearman-Karber method	Math.	स्पियरमैन-कार्बर-विधि
spatial summation	Zool.	स्थानगत संकलन	Spearman's foot rule		स्पियरमैन कार्यकारी सूत्र
spatial system of urban centre		नगरीय केन्द्र-स्थानिक व्यवस्था	spear nematode	Bot.	भालाकार सूत्रकृमि
spatial unit	Zool.	स्थानगत एकक	spear pyrites		कुंताग्रमासिक
spatial variable		अवकाशीय चर	special		विशिष्ट, विशेष
spatial velocity		आकाशीय वेग	special assortment		विशिष्ट वर्गीकरण
spatial volume		आकाशीय आयतन	special character		विशिष्ट लक्षण
spatiography		अवकाश विज्ञान	special community		विशिष्ट समुदाय
spa town	Geog.	स्पाटाउन, खनिज स्रोत नगर	special derivative		विशिष्ट अवकलज
spatter	Chem. (Met.)	अवकाश	special finish		विशिष्ट परिष्कृति
spatter cone	Geol.	लावालव शंकु	special function		विशिष्ट फलन
spattering	Chem.	उच्छलन	specialised dentition		विशिष्ट दन्त-विन्यास
spatter rampart		लावालव प्राचीर	specialised farming		विशिष्ट कृषि
spatula	H.Sc., Bot., Zool.	स्पैचुला	specialised marine fauna		विशिष्ट समुद्री प्राणिजात
spatulate cast	Geol.	स्पैचुला-कास्ट	specialised remnant		विशिष्ट शेष अवशेष, विशिष्ट अवशेष
Spaulding concentrator	Geol.	स्पॉलडिंग सान्द्रित्र	specialised vertebrate		विशिष्ट कशेरुकी
spawn	Zool., H.Sc., (n.) Geog.	अंड, अंडांक (v.) अंडजनन	speciality goods		विशिष्ट वस्तुएं
			specialization		विशिष्टीकरण
			special linear group		विशिष्ट रैखिक समूह
			special linear transformation		विशिष्ट रैखिक रूपांतरण

special map		विशिष्ट मानचित्र	specific acoustic reactance		विशिष्ट ध्वनिक प्रतिघात
special orthogonal group		विशिष्ट लाविक समूह	specific acoustic resistance		विशिष्ट ध्वनिक प्रतिरोध
special perturbation		विशिष्ट क्षोभ	specific action		विशिष्ट क्रिया, विशिष्ट अभिक्रिया
special principal ideal ring		विशिष्ट मूल्य गुणजावली वलय	specific activity		विशिष्ट सक्रियता
special property		1. विशिष्ट गुणधर्म 2. विशिष्ट सम्पत्ति	specific adaptation		विशिष्ट अनुकूलन
special purpose computer		विशिष्ट प्रयोजन अभिकलित्र	specific address specification		विशिष्ट पता विनिर्देश
special relativity		विशिष्ट आपेक्षिकता, विशिष्ट रिलेटिविटी	specific address specification bias		विनिर्देश अमानति
special root		विशिष्ट मूल	specific address specification for accuracy		यथायथा विनिर्देश
special sensitiveness		विशिष्ट सन्वेदिता	specific address specification limit		विनिर्देश सीमा
special symbol		विशिष्ट प्रतीक	specific address specification of map		मानचित्र विशिष्टीकरण
special theory of relativity		आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धान्त	specific address specification tolerance (= specification chart)		विनिर्देश सह्यता विनिर्देश आपेक्ष
special treaty		विशेष सन्धि	specific catalysis		विशिष्ट उत्प्रेरण
special unitary group		विशिष्ट ऐकिक समूह	specific charge		विशिष्ट आवेश
special urban settlement,		विशिष्ट नगरीय बस्ती	specific conduction		विशिष्ट चालन
speciation	Bot	जाति उद्भवन	specific conductivity		विशिष्ट चालकता
specie	Geog.	सोना-चारी	specific consumption		विशिष्ट ऊर्जा व्यय
species	Biol	जाति, स्पीशीज	specific curvature		विशिष्ट वक्रता
species area curve		जाति क्षेत्र वक्र	specific disease prevention		विशिष्ट रोग निवारण
species composition		जाति सघटन	specific dispersivity		विशिष्ट वर्ण विशेषण
species cover		जाति आवरण	specific enthalpy		विशिष्ट एन्थैल्पी, विशिष्ट पूर्णात्मा
species group		जाति वर्ग	specific epithet	Bot	जाति संकेत पद
species pure culture		जाति शुद्ध संवर्ध	specific extinction coefficient		विशिष्ट विलोपन गुणांक
species specific adaptation		जाति विशिष्ट अनुकूलन	specific force		विशिष्ट बल
specific	Math., Phy., Geog., Biol.	आपेक्षिक, विशिष्ट, विशेष, स्पीशीजी, ज्ञानीय	specific fuel consumption		विशिष्ट ईंधन खपन
specific absorption		विशिष्ट अवशोषण	specific gamma-ray emission		विशिष्ट गामा-किरण उत्सर्जन
specific acoustic capacitance		विशिष्ट ध्वनिक धारिता	specific gravity		विशिष्ट घनत्व, आपेक्षिक घनत्व
specific acoustic impedance		विशिष्ट ध्वनिक प्रतिरोध	specific gravity bottle		आपेक्षिक घनत्व बोतल

specific heat	विशिष्ट ऊष्मा	specified clearances	विनिर्दिष्ट शोधन
specific impedance	विशिष्ट प्रतिबाधा	specified fits	विनिर्दिष्ट आसंजन
specific impulse	विशिष्ट आवेग	specified limit	विनिर्दिष्ट सीमा
specific inductive capacity	विशिष्ट पारवैद्युतता	specified nominal dimension	विनिर्दिष्ट अंकित विमा
specific intensity (of radiation)	विशिष्ट तीव्रता	specified tax	विशिष्ट कर
specific internal energy	विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा	specified tolerance	विनिर्दिष्ट सह्यता
specific ionisation	विशिष्ट आयनन	specimen	<i>Chem., H.Sc., Geog.</i> प्रतिदर्श, नमूना
specificity	विशिष्टता	specimen bottle	निदर्श बोतल
specific permission	विशिष्ट अनुमति	speciosus	<i>Bot.</i> चुन्दर
specific power	विशिष्ट शक्ति	speck	<i>Zool.</i> कलंक
specific power of dissipation	विशिष्ट क्षय-शक्ति	speck dyeing	<i>Chem. (Text.)</i> अपद्रव्य रंजन
specific proper entropy	विशिष्ट उचित एन्ट्रॉपी	speckstone	<i>Geol.</i> स्पेक्स्टोन
specific program	विशिष्ट प्रोग्राम	spectabilis	<i>Bot.</i> बद्धभुत
specific propellant consumption	विशिष्ट नोदन खपत	spectacle mark	<i>Zool.</i> फण चिह्न
specific radioactivity	आपेक्षिक रेडियोएक्टिवता	spectacle stone	<i>Geol.</i> सेलिनाइट
specific rate constant	विशिष्ट दर स्थिर	spectans	<i>Bot.</i> सन्मुख
specific resistance	विशिष्ट प्रतिरोध	spectral analysis	<i>Math.</i> मानावलीय विश्लेषण
specific resistivity	आपेक्षिक प्रतिरोधकता	spectral band	<i>Phy., Chem.</i> स्पेक्ट्रमी बैंड
specific retention	आपेक्षिक धारिता	spectral circle	मानावलीय वृत्त
specific rotation	विशिष्ट घ्रुवण घूर्णन, घ्रुवण घूर्णांक	spectral class	स्पेक्ट्रमी वर्ग
specific rotatory power	विशिष्ट घ्रुवण घूर्णन क्षमता	spectral classification	स्पेक्ट्रमी वर्गीकरण
specific solution	हल विज्ञेय	spectral colour	स्पेक्ट्रमी वर्ण, स्पेक्ट्रमी रंग
specific speed	विशिष्ट चाल	spectral decomposition theorem	मानावलीय वियोजन प्रमेय
specific surface	विशिष्ट पृष्ठ	spectral density	<i>Phy. Math.</i> स्पेक्ट्रमी घनत्व, मानावली घनत्व
specific susceptibility	विशिष्ट प्रवृत्ति, द्रव्यमान प्रवृत्ति	spectral distribution	स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण
specific thrust	विशिष्ट प्रणोद	spectral distribution curve	स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र
specific viscosity	विशिष्ट श्यानता	spectral element	मानावलीय अवयव
specific volume	विशिष्ट आयतन	spectral emission	स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन
specific weight flow	विशिष्ट भार प्रवाह	spectral energy distribution	स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण
specified	विनिर्दिष्ट	spectral evidence	स्पेक्ट्रमी साक्ष्य
specified achromatic light	विनिर्दिष्ट अचरणक प्रकाश		

spectral function	मानावली फलन	spectrochemical method	स्पेक्ट्रोमी रासायनिक पद्धति
spectral hue	स्पेक्ट्रमी प्रवर्ण	spectrochemical series	स्पेक्ट्रमी-रासायनिक श्रेणी
spectral line	स्पेक्ट्रमी रेखा	spectroelectro-titrator	Chem. स्पेक्ट्रमी विद्युत अनुपापक
spectral mapping theorem	मानावलीय प्रतिचित्रण प्रमेय	spectrofluorimeter	Chem. स्पेक्ट्रमी प्रतिदीप्तिमापी
spectral measure	मानावलीय मान	spectrofluorophosphorimetry	Chem. (Photochem.) स्पेक्ट्रमी फ्लुओरो स्फुर-दीप्तिमिति
spectral norm	स्पेक्ट्रमी मानक	spectrogram	Phy., Chem. स्पेक्ट्रम चित्र
spectral period	स्पेक्ट्रमी अवधि	spectrographic analysis	Chem. स्पेक्ट्रमलेखी विश्लेषण
spectral polarization	स्पेक्ट्रमी ध्रुवण	spectroheliograph	Chem., Phy. स्पेक्ट्रम सूर्यचित्रो, स्पेक्ट्रोहीनियोग्राफ
spectral profile	स्पेक्ट्रमी परिच्छेदिका, स्पेक्ट्रमी प्रोफाइल	spectroheliroscope	Phy. स्पेक्ट्रमी सूर्यदर्शी
spectral pyrometer	स्पेक्ट्रमी उष्मापमापी	spectrometer	Phy. स्पेक्ट्रममापी, स्पेक्ट्रोमीटर
spectral radius	स्पेक्ट्रमी त्रिज्या	spectrometry	स्पेक्ट्रममिति
spectral reflectance	स्पेक्ट्रमी परावर्तितता	spectromicroscope	Phy. स्पेक्ट्रमी सूक्ष्मदर्शी
spectral reflection curve	स्पेक्ट्रमी परावर्तन वक्र	spectronic colorimeter	Chem. स्पेक्ट्रॉनिक वर्णमापी
spectral region	स्पेक्ट्रमी प्रदेश, स्पेक्ट्रमी खंड	spectrophosphorimeter	Chem. (Photochem.) स्पेक्ट्रमी स्फुरदीप्तिमापी
spectral resolution	स्पेक्ट्रमी विभेदन, वर्णपट विभेदन	spectrophotometer	Phy. स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापी
spectral sensitivity	स्पेक्ट्रमी सुग्राहिता	spectrophotometrically	Chem. स्पेक्ट्रम भासितोपय
spectral sequence	स्पेक्ट्रमी अनुक्रम	spectrophotometric observations	Geol. स्पेक्ट्रम प्रकाशमापी प्रेक्षण
spectral series	स्पेक्ट्रमी श्रेणी	spectrophotometric technique	स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापी तकनीक, स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापी प्रणाली, स्पेक्ट्रमी भ्रमापी प्रविधि
spectral set	मानावलीय समुच्चय	spectrophotometric titration	Chem. स्पेक्ट्रोफोटोमापिकी अनुमापन, स्पेक्ट्रोफोटोमापिकी टाइट्रेशन
spectral shift	स्पेक्ट्रमी स्थिति	spectropolarimeter	Chem. स्पेक्ट्रो ध्रुवणमापी
spectral singularity	मानावलीय त्रिचित्रता	spectro pyrheliometer	Phy. स्पेक्ट्रमी सूर्यतापमापी
spectral tensor	स्पेक्ट्रमी प्रदिश	spectroradiometer	Phy. स्पेक्ट्रमीमापी
spectral terms	स्पेक्ट्रमी पद	spectroradiometry	उर्जामिति
spectral theory	मानावलीय सिद्धान्त	spectroscope	Phy. स्पेक्ट्रमदर्शी, स्पेक्ट्रोस्कोप
spectral transmission curve	स्पेक्ट्रमी संचरण वक्र	spectroscopic absolute magnitude	Math. स्पेक्ट्रमी निरपेक्ष बांझमान
spectral transition	स्पेक्ट्रमी सक्रमण	spectroscopically pure	स्पेक्ट्रमविशेष शुद्ध
spectral type (of star)	स्पेक्ट्रमी वर्ण		
spectre	Geog. छाया स्पेक्टर		
spectro-bologram	Phy. स्पेक्ट्रोबोलोग्राम, स्पेक्ट्रमी तंत्रारख		
spectro-bolograph	Phy. स्पेक्ट्रोबोलोग्राफ, स्पेक्ट्रो-नेत्रलेखी		
spectro-chemical	Geol. स्पेक्ट्रमी रासायनिक		
spectrochemical analysis	स्पेक्ट्रमी रासायनिक विश्लेषण		



spectroscopic binary	स्पेक्ट्रम दर्शीय युग्मतारा	specular glass	Chem. (Paint.)	दर्पण कांति
spectroscopic chemical analysis	स्पेक्ट्रमी रासायनिक विश्लेषण	specular iron	Geol.	चमकीला लोह अयस्क
spectroscopic displacement law	स्पेक्ट्रमी विस्थापन नियम, वर्णपटीय विस्थापन नियम	specularite	Geol.	स्पैकुलैराइट
spectroscopic observation	स्पेक्ट्रमदर्शी प्रेक्षण	specular reflection	Phy.	नियमित परावर्तन
spectroscopic parallax	स्पेक्ट्रमदर्शी लंबन	specular stone	Geol.	बभ्रक
spectroscopic radial velocity	स्पेक्ट्रमी त्रिज्य वेग	speculative data	Geog.	परिकल्पित आंकड़े
spectroscopic resolving power	स्पेक्ट्रमी विभेदनक्षमता	speculum	Zool.	स्पेक्युलम
spectroscopic splitting factor	स्पेक्ट्रमी विपाटन गुणांक	speculum metal		स्पेकुलम धातु
spectroscopic twin star	स्पेक्ट्रमी युग्मतारा	speech	Phy.,H.Sc.	वाक्, भाषण
spectroscopic units	स्पेक्ट्रमी मात्रक	speech distortion		वाक् विकृति
spectroscopist	स्पेक्ट्रमिकीविद्, स्पेक्ट्रम-वैज्ञानिक	speech modulation		वाक् मांडूलन
spectroscopy	स्पेक्ट्रम-विज्ञान, स्पेक्ट्रमिकी	speech radiation spectrum		वाक् विकिरण स्पेक्ट्रम
spectro thermograph	स्पेक्ट्रमी तापलेखी	speech recogniser		वाक् अभिज्ञापित
spectrum	1. स्पेक्ट्रम 2. मानावली	speech recognition		वाक् अभिज्ञान
spectrum analysis	स्पेक्ट्रमी विश्लेषण	speech signal		वाक् संकेत, वाक् सिग्नल
spectrum luminosity diagram	स्पेक्ट्रम दीप्ति आरेख	speech spectral analysis		वाक् स्पेक्ट्रमीय विश्लेषण
spectrum luminosity relation	स्पेक्ट्रम दीप्ति संबंध	speech spectrogram		वाक् स्पेक्ट्रम चित्र
spectrum of a function	फलन की मानावली	speech threshold		वाक् देहली
spectrum of relations	संबंध स्पेक्ट्रम	speech wave		वाक् तरंग
spectrum of turbulence	प्रक्षोभ स्पेक्ट्रम	speed	Phy.,Math. Chem.	चाल जव
spectrum pressure level	स्पेक्ट्रम दाब स्तर	speed dispersion	Phy.	वेग विक्षेपण
spectrum projector	स्पेक्ट्रम प्रक्षेपित	speed distribution function		जव वितरण फलन
spectrum velocity relation	स्पेक्ट्रम वेग संबंध	speedicase	Chem. (Met.)	स्पीडिकेस
specular coal	Geol. पिच कोयला	speed of the emulsion	Phy.	इमल्शन क्षिप्रता
		speedometer	Geog.,Phy.	चालमापी
		speed regulator		चाल नियामक
		"speedy-rap" beaker cover	Chem.	द्रुत वाष्पन बीकर आवरण
		spgazzinia	Bot.	स्पीगाजिनिया
		speise	Chem.	स्याइस
		speise-smelting		स्याइस प्रगलन
		speiss	Chem.	स्याइस
		speiss cobalt		स्याइस कोबाल्ट

Spekker absorptiometer	Chem.	स्पेकर अवशोषणमापी	<i>Spermacoe stricta</i>	स्पर्मेकोके स्ट्रिक्टा
spelean	Geol.	गुह्यीय	spermaphyte	बीजीपादप
speleogen	Geol.	गुहाद्रव्यज्ञ	spermary	शुक्रप्रधि
speleolite	Geol.	गुहाश्म, स्पीलिसोलाइट	sperm aster	शुक्राणु तारक
speleologist		गुहावैज्ञानिक	spermatangium	अचल पुमणुधानी
speleology	Geol., Bot., Geog.	गुहाविज्ञान	spermatheca	शुक्रग्राहिका
speleothem		गुहा शोण निक्षेप	spermathecal aperture	शुक्रग्राहिका रंध्र
spell	Geog.	दौर, बेला	spermathecal gland	शुक्रग्राहिका ग्रन्थि
spellerizing	Chem., (Met.)	स्पेलराइज्ज	spermathecal pore	शुक्रग्राहिका रंध्र
spelle work	H.Sc.	स्पेले वर्क	spermatie ampulla	वृषण दुम्बिका
spelly wire		स्पेली तार	spermatie artery	वृषण धमनी
spelter	Chem.	स्पेल्डर	spermatie fluid	शुक्राणु द्रव
spelter solder		स्पेल्डर टाका, स्पेल्डर झालक	spermatie granule	पुमणु कणिका
spending power	H.Sc.	व्यय शक्ति	spermatie tubule	पुमणु नलिका
spending saving decisions		व्यय-वचन निर्णय	spermatie vein	वृषण शिरा
Spencerites	Bot.	स्पेन्सराइट्स	spermatid	स्पर्मेटिड, शुक्राणुपूर्व
spent acid	Chem.	भुक्तशेष अम्ल, भुक्त शेष ऐसिड	spermatidita	प्रशुक्राणु
spert fish	Zool.	अढरिक्त मीन	spermatophore	अचलपुमणुधर, स्पर्मोसियमधर
spent fuel rod		भुक्तशेष ईंधन छड	spermatium	अचलपुमणु, स्पर्मोसियम
spent lye		भुक्तशेष लाइ	spermatization	अचल पुमणु-पुमणु
spent oxide		भुक्तशेष ऑक्साइड	spermatocystidium	पुसिस्टिडियम
spent shale		भुक्तशेष शैल	spermatocyte	स्पर्मेटोसाइट, शुक्राणुकोशिका
spergenite	Geol.	स्पेर्जेनाइट	spermatogenesis	शुक्रजनन
<i>Spergula arvensis</i>	Bot.	स्पेर्गुला आर्वेन्सिस	spermatogenic	शुक्रजननीय
<i>Spergula pentandra</i>		स्पेर्गुला पेंटेन्ड्रा	spermatogenous cell	पुमणुजन कोशिका
sperm	Zool.	शुक्राणु	spermatogonial cell	शुक्राणुजननीय कोशिका
	Bot.	1. पुमणु 2. बीज	spermatogonium	पुमणुजन, स्पर्मेटोगोनियम
spermaceti	Chem.	स्पर्मसेटी	spermatophoral vesicle	शुक्राणुधर आलय
spermaceti wax		स्पर्मसेटी मोम, स्पर्मसेटी सिक्य	spermatophore	शुक्राणुधर
spermanguim	Bot.	पुमणुधानी	spermatophore sac	शुक्राणुधर कोष
<i>Spermacoe hispida</i>	Bot.	स्पर्मकोके हिस्पिडा	spermatostrote	बीजप्रकोषित
<i>Spermacoe indica</i>		स्पर्मकोके इन्डिका	spermatotoxin	शुक्राणुधर
			spermatozoid	पुमणु
			spermatozoon (spermatozoa)	शुक्राणु

spermatype	Bot.	बीजांकुर प्ररूप	spessartine	Geol.	स्पेसार्टीन
sperm blubber oil	Chem.	स्पर्म ब्लबर तैल	spessartine almandine		स्पेसार्टीन अलमेन्डीन
sperm cell	Zool.	शुक्र कोशिका	spessartite	Geol.	स्पेसार्टाइट
sperm duct		शुक्र वाहिनी	spetzli	H.Sc.	पेस्जली
sperm ductule		शुक्र वाहिनिका	spew	Geol.	स्प्यू
sperm funnel		शुक्र कीप	spewing	Chem., Geol.	उत्सवेदन
sperm groove		शुक्र खांच	speziaite	Geol.	स्पेजिएझाइट
sperm guide		शुक्र प्रदर्शक	<i>Sphacelaria bipinnata</i>	Bot.	स्फेसीलेरिया वाइपिन्नेटा
sperm head oil		स्पर्म शीपंतैल	sphaceloma	Bot.	स्फेसिलोमा
spermicide	Zool.	शुक्राणुनाशी	<i>Sphacelotheca columellifera</i>	Bot.	स्फेसिलोथीका कालमेलिफेरा
spermidium		पुमणु फलिका	Sphaeriales	Bot.	स्फेरिएलीज
spermiducal aperture	Zool.	शुक्रवाहिनी छिद्र	sphaeridium		गोलेंद्रिय, स्फिरीडियम
spermiducal funnel		शुक्रवाहिनी कीप	sphaerium		स्फिरियम
spermiducal gland		शुक्रवाहिनी ग्रंथि	Sphaerobolales	Bot.	स्फेरोबोलेलीज
spermiducal vesicle		शुक्रवाहिनी आशय	<i>Sphaerobolus grandis</i>		स्फेरोबोलस ग्रैंडिस
spermiduct		शुक्रवाहिनी	sphaerocarpus	Bot.	स्फेरोकार्पस
spermine group	Chem.	स्पर्मिन समूह	sphaeroclone	Geol.	स्फेरोक्लोन
spermiogenesis	Zool.	शुक्राणुजनन	sphaerocobaltite	Geol.	स्फेरोकोवाल्टाइट
sperm morula	Zool.	स्पर्म मोरुला, शुक्राणु तृतक	sphaerocyst	Bot.	गोलकोशिका
spermocarp	Bot.	निपिक्तांड फलिका	sphaeromagnesite	Geol.	स्फेरोमैग्नेसाइट
spermogonial nectar	Bot.	स्पर्मोगोनियमी मकरंद	sphaerome	Zool.	गोलाशय
spermogonium		स्पर्मोगोनियम, पुमणुघानी	Sphaeromyxa	Zool.	स्फिरोमिक्सा
sperm oil	Chem.	स्पर्म तैल	Sphaerophrya	Zool.	स्फिरोफ्रिया
<i>Spermophthora gossypii</i>	Bot.	स्पर्मोफथोरा गॉसिपिआई	<i>Sphaeroplea annulina</i>	Bot.	स्फेरोप्लिया ऐनुलाइना
sperm pouch	Zool.	शुक्राणु कोष्ठ	Sphaeropsidales	Bot.	स्फेरोप्सिडेलीज
sperm pump		शुक्राणु पम्प	<i>Sphaeropsis malorum</i>	Bot.	स्फेरोप्सिस मेलोरम
sperm-reservoir		शुक्रागार	Sphaerosporangium	Bot.	स्फेरोस्पोरेंजियम
sperm sac		शुक्र कोप	<i>Sphaerostilble gracilipes</i>	Bot.	स्फेरोस्टिल्वे ग्रैसिलिपीज
sperm tube		शुक्र नाल	sphagniherbosa	Bot.	स्फैग्निम शाकादि
sperm whale	Geog., Zool.	स्पर्म व्हेल, वसा तिमि	sphagnol	Bot., Geog., Geol.	स्फैग्नाल
sperone	Geol.	स्पेरोन	sphagnous swamp	Zool.	स्फैग्नुस बनूप, पोटमॉस बनूप
<i>Sperosoma biserialatum</i>	Zool.	स्पेरोसोमा वाइसिरिएटम			
Sperry cell		स्पेरी सेल			
Sperry process		स्पेरी प्रक्रम			
sperrylite	Geol.	स्पेरीलाइट			

sphagnum

sphagnum	Bot	स्फैग्नम
sphagnum bog		स्फैग्नम दलदल
sphagnum moss		स्फैग्नम माँस
sphalerite	Geol	स्फैलेराइट
spharokrystal	Geol	स्फैरोक्रिस्टल
Sphacidae	Zool	स्फोसिडी
Sphacodes	Zool.	स्फैकोडीम
sphacoid wasp	Zool	स्फैकोइड बरें
sphene	Geol	स्फेन
sphenethmoid	Zool	स्फिनेथमाइट, जवुल्लेरिका
Spheniscidae	Zool	स्फेनिसिडी
Sphenisciformes	Zool.	स्फेनिसीफोर्मोत्र
Sphenocleaceae	Bot.	स्फेनोक्लिऐसी
<i>Sphenoclea zeylanica</i>	Bot	स्फेनोक्लीआ जँलेनिका
Sphenodon	Zool.	स्फेनोडॉन
sphenoid	Geol. Zool	(adj) फानरूप स्फेनॉइड जनुक
sphenoidal		1 फानरूपी 2. स्फेनॉइडी 3 जनुकी
sphenoidal class		स्फेनॉइड-वर्ग
sphenoidal fissure		जनुक विदर
sphenoidal foramen		जनुक रछ
sphenoid of the first order		प्रथम वर्गीय स्फेनॉइड
sphenoid of the second order		द्वितीय वर्गीय स्फेनॉइड
sphenoid of the third order		तृतीय वर्गीय स्फेनॉइड
sphenolith	Geol	स्फेनोलिथ
sphenomanganite	Geol.	स्फेनोमैंगेनाइट
sphenomaxillary fissure	Zool	जनुक-जंघ विदर
sphenopalatine foramen	Zool.	जनुक तालव रछ
sphenophyll	Bot	स्फेनोफिल
Sphenophyllaceae	Bot	स्फेनोफिलेसी

Sphenophyllalean cones

Sphenophyllales

sphenophyllum

*Sphenophyllum  
angustifolium**Sphenophyllum  
cuneifolium*

sphenopsid Bot

Sphenopteridium Bot

Sphenopteris Bot

*Sphenopteris elegans*

sphenopteroid foliage Bot

sphenotic Zool

spheraster Zool

sphere Math,  
Geog, Phy

spheredop Phy.

sphere gap voltmeter

sphere graph map

spherelike space

sphere method Geog

sphere of curvature

sphere of influence Geog

sphere of interest Geog

sphere ore Geol.

sphere packing bound

spheric (texture)

spherical

spherical aberration

spherical angle

spherical area

spherical atom

spherical base

spherical Bessel  
function

spherical boss

spherical boundary

स्फेनोफिलेसीय शकु

स्फेनोफिलेसीय

स्फेनोफिलम

स्फेनोफिलम  
ऑगस्टोफिलियमस्फेनोफिलम  
व्यूनीफिलियम

स्फेनोमिड

स्फेनोप्टेरिडियम

स्फेनोप्टेरिस

स्फेनोप्टेरिस ऐलीगेन्स

स्फेनोप्टेरिसम पत्र

बण-परिवका, स्फेनोटिक

गोलनारक, स्फेरेस्टर

गोला, गोलक

गोला, गोलक

स्फेरिडॉप

गोलक अंतराल बोल्डमापी

गोलरेखा मानचित्र

गोलकवत् समष्टि

विड विधि

वक्रता-गोलक

प्रभाव क्षेत्र, प्रभाव मंडल

स्वार्थ क्षेत्र

क्षयस्वल्पित शैलघट्ट

गोला-सजुलन परिवच

गोलीय (गटन)

गोलाकार, गोलीय

गोलीय विषयन

गोलीय कोण

गोलीय धोत्रफल

गोल परमाणु

गोलीय आधार

गोलीय बेसल फलन

गोलीय बौद

गोलीय परिभाषा

spherical candle power	गोलीय कैंडिल शक्ति	spherical neighbourhood	गोलीय प्रतिवेश
spherical cap	गोलीय टोपी	spherical pendulum	गोलीय लोलक
spherical cavity	गोलीय कोटर	spherical polar	गोलीय ध्रुवी
spherical chord distance	गोलीय जीवा दूरी	spherical polar coordinate	गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक
spherical conductor	गोलीय चालक	spherical pressure waves	गोलीय दाब तरंग
spherical coordinates <i>Math.</i>	गोलीय निर्देशांक	spherical projection	गोलीय प्रक्षेप
spherical coordinate system	गोलीय निर्देशांक प्रणाली	spherical pulse	गोलीय स्पंद
spherical curvature	गोलीय वक्रता	spherical representation	गोलीय निरूपण
spherical curve	गोलीय वक्र	spherical sector	गोलीय त्रिज्यखंड
spherical diagram	गोलाकार चारेख	spherical segment	गोलीय खंड
spherical distribution	गोलीय बंटन	spherical shell	गोलीय कोश
spherical distribution function	गोलीय बंटन फलन	spherical sine theorem	गोलीय ज्या-प्रमेय
spherical earth	गोलाकार पृथ्वी	spherical spiral	गोलीय सर्पिल
spherical earth factor	गोलीय भू गुणांक	spherical sub-system	गोलीय उपनिकाय
spherical four-dimensional surface	चतुर्विध गोलीय पृष्ठ	spherical surface	गोलीय पृष्ठ
spherical front wave	गोलीय तरंगग्र	spherical symmetry	गोलीय सममिति
spherical function	गोलीय फलन	spherical triangle	गोलीय त्रिभुज
spherical geometry	गोलीय ज्यामिति	spherical triangulation	गोलीय त्रिकोणीयन
spherical harmonic analysis	गोलीय प्रसंवादी विश्लेषण	spherical trigonometric computer	गोलीय त्रिकोणमिति कम्प्यूटर
spherical indicatrix	गोलीय द्योतिका	spherical trigonometry	गोलीय त्रिकोणमिति
spherical indicatrix of scattering	गोलीय प्रकीर्णन-द्योतिका	spherical velocity	गोलीय वेग
spherical light wave	गोलीय प्रकाश तरंग	spherical virus	गोलाकार विषाणु
spherical limit	गोलीय परिसीमा	spherical vortex	गोलीय घ्रनिल
spherical line	गोलीय रेखा	spherical wave	गोलीय तरंग
spherical lines of curvature	वक्रता की गोलीय रेखाएँ	spherical wave front	गोलीय तरंगग्र
spherically symmetrical	गोलतः सममित-	spherical well	गोलीय कूप
spherically symmetry flow	गोलीय सममित प्रवाह	spherical zone	गोलीय कटिबंध
spherical mesh	गोलाकार जाल	sphericity <i>Geog., Geol.</i>	गोलकत्व
spherical mirror	गोलीय दर्पण	spherocolloid	गोल कोलॉइड, स्फैरोकोलॉइड
		sphero-conal <i>Math.</i>	गोलशंकु
		spheroconic <i>Math.</i>	गोलीय शंकु
		sphero-crystal <i>Geol.</i>	स्फैरोक्रिस्टल

spheroid	Math, Geog	गोलाभ	sphingosine	Chem.	स्फिङ्गोसिन
spheroidal		गोलाभ	sphingosyl	Chem.	स्फिङ्गोसिल
spheroidal core model		गोलाभ कोर मॉडल	Sphyaenidae	Zool.	स्फिरीनिडी
spheroidal form		गोलाभ रूप	Sphyrna	Zool	स्फिर्ना
spheroidal harmonic		गोलाभीय प्रसवादी	<i>Sphyrna zygaena</i>		स्फिर्ना जाइगीना (कोम्बुमुरा)
spheroidal jointing		गोलाभ संधि	*Spica (=α Virginis)	Astron.	चित्रा, स्पार्का (=α विजिनिस, α कन्या)
spheroidal parting		गोलाभ विभाज	spicate	Bot.	स्पार्कबी, स्पार्कधर, कणिसधर
spheroidal planet		गोलाभ ग्रह	spice box	H.Sc.	मसालेदानी
spheroidal shape		गोलाभ आकृति	spiced tea		मसालेदार चाय
spheroidal surface		गोलाभ पृष्ठ	spices		मसाले
spheroidal symmetry		गोलाभ सममिति	spickel	Bot	स्पिक्केल रोग
spheroidal triangle		गोलाभ त्रिभुज	spicula	Bot.	कटिका
spheroidal weathering		गोलाभ अपक्षय	spicular cell		कटिकानकार कोशिका
spheroid colony		गोलाभ निवह	spicular cord	Zool	कटिकीय रज्जु
spheroidisation	Chem (Met)	स्फेरोइडाइजेशन, गोलाभन	spicular muscle		कटिकीय पेशी
spheroidite	Chem	स्फेरोइडॉइट	spicular pouch		कटिकीय कोष्ठ
spheroidize cementite		स्फेरोइडॉइज सीमेन्टाइट	spicular sheath		कटिकीय आच्छद
spheroidizing		गोलाभन, स्फेरोइडाइजेशन	spicular skeleton		कटिकीय कवच
spheroids	Geol.	गोलाभक	spiculate		कटिकीय
spherometer	Phy	गोलाईमापी, स्फेरोमीटर	spiculation	Bot.	कटिकान्यास
spherop	Geol	स्फेराप	spicule	Bot, Geol.	1 कटिका 2. कणिसिका, लघुस्पार्क
spheroproteia	Chem	गोल-प्रोटीन	spicule pouch		कटिका कोष्ठ
spherosome	Bot.	स्फेरोसोम	spicule rostrum		कटिका रोस्ट्रम
spherula	Zool.	निगोनिका	spiculiiform	Zool.	कटिकारूपी
spherule	Zool.	निगोलक	spiculin	Zool.	स्पिक्युलिन
spherulite	Geol	स्फेरुलाइट	spiculofibre	Zool	कटिकातंतु
spherulitic concretion	Geol	स्फेरुलाइटी संघनन	spiculum	Bot	गिन्दाप, स्पिक्कुलम
spherulitic ore		स्फेरुलाइटी अयस्क	spider	Zool, H.Sc. Geog.	सूत्रा, मकड़ी, स्पार्कहर
spherulitic structure		स्फेरुलाइटी संरचना	spider crab		सूत्रा कर्कट
spherulite	Geol.	स्फेराइट, गुलिकारभ	spiderling	Zool.	सूत्रासाध
sphincter	Zool. H.Sc.	अवरोधनी झवरणी	spider silk		स्पार्कहर मिल्क, सूत्रा रेशम
sphingia	Chem.	स्फिङ्गोन	spider's web reticule		मकड़ी जाल तार
Sphingidae	Zool.	स्फिङ्गिडी			
sphingolipide	Chem	स्फिङ्गोलिपिड			
sphingomyelin	Chem. H.Sc.	स्फिङ्गोमाइलिन			

spider thread		मकड़ी तंतु	spilling		अधिप्लावन, छलकन
spider wasp	Zool.	लूताम वरं	spilling flow lines		अधिप्लावन प्रवाह रेखा
spider weave		स्पाइडर वयन	spilling point		अधिप्लावन बिन्दु
spider web		लूता जाल	spill slope		अधिप्लावन ढाल
spider web antenna		मकड़ी जाल एन्टेना	spillway		अधिप्लव मार्ग
spiedino	H.Sc.	स्पाइडिनो	spillway notch		अधिप्लव मार्ग खांचा, अधिप्लव खांचा
spiegeleisen	Geol.	स्पीगेलवाइजेन	Spilococcus	Zool.	स्पीलोकसकस
spiegeleisen stock	Geol.	स्पीगेलवाइजेन पुंज	Spilornis cheela	Zool.	स्पीलॉर्निस चीला (डोंगरा चील)
Spigelian lobe	Zool.	स्पीगेली पालि	spilosite	Geol.	स्पाइलोसाइट
Spigelia type	Bot.	स्पाइजेलिया प्ररूप	spin	Phy.,Math.	प्रचक्रण, स्पिन
spigot	Chem.	स्पिगॉट	spina	Zool.	कंट, स्वाइना
spigot discharge		स्पिगॉट विसर्जन	Spinacea oleracea	Bot.	स्पाइनेसिया ओलेरेसिया (पालक)
spike (=bar)	Phy.	1. परीक्षण रेखा 2. शूल 3. स्पाइक	spinach	Bot.,H.Sc.	पालक
spike	H.Sc.,Bot. Phy.	स्पाइक, कणिका (Electronics) रेडार ब्लिप	spinach blight		पालक अंगमारी, पालक शीर्षता
spike amygdule		स्पाइक वातामक	spinach mosaic		पालक किर्मार
spiked barrier	Geog.	कांटेदार रोध	spina externa	Zool.	स्पाइना एक्सटर्ना, वाह्य कटिका
spiked leaves		स्पाइकग्रस्त पर्ण	spina interna		स्पाइना इनटर्ना, आंतर कटिका
spikelet	Bot.	स्पाइकिका, कणिकिका	spinaker	H.Sc.	स्पाइनेकर
spikeaard	Geog.	जटामांसी	spinal column	Zool.	रीढ़, मेरुदंड
spike pulse		शूल स्पंद	spinal cord		मेरु रज्जु, रीढ़ रज्जु
spike rosette virus		स्पाइक रोजेट वाइरस, स्पाइक रोजेट विषाणु	spinal ganglion		मेरु गुच्छिका
spike shape		स्पाइकरूप	spinal nerve		रीढ़ तंत्रिका, मेरु तंत्रिका
spiking	Phy.,Chem.	प्रासन, स्पाइकन	spinal reflex		मेरु प्रतिवर्त
spile	Geol.	कीलनतंत्र, स्पाइल	spinal semi-moodule		मेरु सामिप्रतिरूपक
spiling	Geol.	स्पाइलिंग	spinal tract		मेरु क्षेत्र
spilite	Geol.	स्पिलाइट	spin angular momentum	Math.,Phy.	चक्रणी कोणीय वेग
spilite green stone		स्पिलाइटो हरिताश्म	spinasternum	Zool.	स्पाइनस्टर्नम, कंटाधरक
spilitic		स्पिलाइटो	spination	Zool.	शूलन
spilitic suite		स्पिलाइटो संजाति	spin conservation rule		स्पिन संरक्षण नियम, प्रचक्रण संरक्षण नियम
spill	Chem., Geol.,Geog.	(n.) अधिप्लाव, छलकन (vb.) अधिप्लावन	spin coordinates		प्रचक्रण-निर्देशांक
spill bank		अधिप्लावन तट			
spill-hollow		अधिप्लावन गर्त			
spilliness (shelliness)	Chem.	प्रकोशीयता			

spin couple		प्रचक्रण बल युग्म	spin forbidden state	प्रचक्रण वर्जित अवस्था
spin coupling		प्रचक्रण युग्मन, स्पिन युग्मन	spin-free	प्रचक्रण मुक्त
spin-decoupling		स्पिन-वियुग्मन, प्रचक्रण वियुग्मन	spinicarpous	<i>Bot</i> शूनफनी
spin-degenerate level		प्रचक्रण समूर्जी स्तर	spiniferous	शूलघर
spindle		तर्कु, तर्कुआ	spinifex desert	<i>Geog.</i> स्पिनोफेरेम महस्यल
spindle fibre		तर्कु ततु	spinifolius	<i>Bot</i> शूलपर्शी
spindle oil	<i>Geol.</i>	स्पिडल तेल	spiniform	शूलरूप
spindle shaped		तर्कुरूपी	spinigerous	शूलघर
spindle-shaped bomb		तर्कुरूपी बम	spin-lattice interaction	प्रचक्रण-जालक अन्योन्य क्रिया
spindle-shaped galaxy		तर्कुरूपी गैलैक्सी	spin magnetic moment	प्रचक्रण चुम्बकीय आघूर्ण
spindle shoot		तर्कु प्ररोह	spin magnetic rotational interaction constant	प्रचक्रण चुम्बकीय घूर्णन अन्योन्यक्रिया स्थिरांक
spindle tuber		तर्कुद (रोग)	spin moment	स्पिन आघूर्ण, प्रचक्रण आघूर्ण
spin doubling		प्रचक्रण द्विभवन	spin momentum	प्रचक्रण संवेग
spin drift wave		प्रचक्रणीय अपवाह तरंग	spinner	प्रचक्रण, घूर्णन व्यवस्था
spin dyed (=mass dyed)	<i>Chem.</i>	सहति रजित	spinner culture	प्रचक्रणी संवर्ध
spine		1. शूल (in plants) 2. अर (fin) 3. रीढ़, मेद ड (backbone) 4. ज्वालामूल (volcanology) 5. कटक (process)	spinneret	<i>Zool.</i> <i>H. Sc.</i> बयित्र स्पिनरेट
spine (of scapula)	<i>Zool.</i>	असफलक-कटक	spinnerule	<i>Zool</i> बयनिका
spin echo		प्रचक्रण प्रतिध्वनि	spinney (=spinny)	<i>Geog</i> 1. गुल्म भूमि 2. झुरमुट
spinel	<i>Geol.</i>	स्पिनेल	spinning	<i>H.Sc.</i> कताई
spineless	<i>Zool</i>	शूलहीन	spinning behaviour	<i>Zool.</i> बयन व्यवहार
spinellicids	<i>Geol.</i>	स्पिनेल समूह	spinning electron	प्रचक्रणी इलेक्ट्रॉन
spinel structure		स्पिनेल संरचना	spionia frame	कताई फ्रेम, स्पिनियम फ्रेम
spinel twin		स्पिनेल-यमल	spinning gland	बयन ग्रन्थि
spin entropy		प्रचक्रण ऐन्ट्रॉपी	spinning machine	कतौन यंत्र, कताई यंत्र
spinescence	<i>Bot</i>	शूलान्नता	spinning male	कताई इवन
spinescent		शूलापी	spinning oils	कताई तेल
spinetall	<i>Zool.</i>	कन्टपुच्छ	spinning power	चक्रण शक्ति
spin flipping		प्रचक्रण पलटव	spinning projectile	<i>Math.</i> चक्री प्रक्षेप्य
spin forbidden		प्रचक्रण वर्जित	spinning tape	कताई पट्टा
			spinning top	<i>Phy.</i> प्रचक्रमान सट्ट



spinning tube	Zool.	बयन नलिका	spinstro	H.Sc.	स्विसट्टो
spinning wheel	H.Sc.	चरखा	spin susceptibility		प्रचक्रण प्रवृत्ति
spinocerebellar tract	Zool.	मेरुअनुमस्तिष्क क्षेत्र	spin system		प्रचक्रण तंत्र
spinode	Math.	उभयाग्र	spinterometer		स्फूर्तिग मापी
"spin only" magnetic moment		प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण	spinthariscopes	Chem.	प्रस्फुरदर्शी, जगमगदर्शी, स्पिनथैरिस्कोप
spinor	Math.	स्पाइनर, संदिश	spinule	Bot.	शूलिका
spin orbit		प्रचक्रण-कक्षा	spinulose		शूलिकामय
spin orbit coupling		प्रचक्रण कक्षा युग्मन	spinulosin	Chem.	स्पिन्यूलोसिन
spin orbit interaction		प्रचक्रण कक्षा अन्योन्यक्रिया	spin uncoupling		प्रचक्रण वियुग्मन
spinoor field	Math.	स्पाइनर क्षेत्र	spin variable		प्रचक्रणी चर
spinose	Bot.	शूलमय	spin wave		प्रचक्रण तरंग
spinose megaspore		शूलमय शूल वीजाणु, शूलमय गुच्छवीजाणु	spiny	Geog.	कंटीला
spinose tick		शूलमय किल्ली	spiny anteater	Geog., Zool.	शल्य वन्राद, शूली चींटीखोर
spinose tubercle		शूलमय गूलिका	spiny cockle		कंटीला घोंघा
spinous		शूलमय	spiny jaw	Geog.	शूली जंढड़ा
spinous		शूलमय	spiny larva		कंटीला लारवा
spin-paired		प्रचक्रण युग्मित	spiny lobster		शूली महाचिगट
spin-paired complex		प्रचक्रण युग्मित संकुल	spiny rock lobster		शूली शैल महाचिगट
spin-paired configuration		प्रचक्रण युग्मित विन्यास	spiny spider crab		शूली लूताककंट
spin-parity		प्रचक्रण-समता	spiracle	Zool. Geol.	1. श्वासरंध्र, स्पाइरकल 2. सावा गैसद्वार
spin polarised		प्रचक्रण ध्रुवित	spiractor	Chem.	स्पाइरेक्टर
spin quantum number		प्रचक्रण क्वांटम संख्या	spiracular aperture	Zool.	श्वासरंध्री भुज
spin quenching		प्रचक्रण शमन	spiracular closing mechanism		श्वासरंध्र संवृत क्रिया विधि
spin relativity doublet		प्रचक्रण आपेक्षिकता द्विक	spiracular gill		श्वासरंध्री क्लोम
spin-reorientation spectrum		प्रचक्रण पुनः दिग्विन्यास स्पेक्ट्रम	spiracular segment		श्वासरंध्री खंड
spin sensitive		प्रचक्रण सुग्राही	spiracular slit		श्वासरंध्री रेखाछिद्र
spin space		प्रचक्रण समष्टि	spiracular trunk		श्वासरंध्री मेहनली
spin-spin coupling		प्रचक्रण-प्रचक्रण युग्मन	spiral		सपिल
spin-spin interaction		प्रचक्रण-प्रचक्रण अन्योन्य क्रिया	spiral angle		सपिल कोण
spin-spin magnetic interaction		प्रचक्रण-प्रचक्रण चुंबकीय अन्योन्य क्रिया	spiral arm		सपिल भुज
spin-spin splitting		प्रचक्रण-प्रचक्रण विपाटन, स्पिन-स्पिन विपाटन	spiral band		सपिल पट्टिका
			spiral canal		सपिल नाल
			spiral chamber		सपिल कोष्ठ
			spiral cleavage		सपिल विदलन

spiral concentration method		सपिल मादण- पद्धति	spiral valve		सपिन कपाड, सपिन वाल्व
spiral condenser		सपिन द्रवणिल	spiral vane		सपिन फनक, सपिन पख
spiral curve		सपिल वक्र	spiral yarn		सपिल सूत
spiral distortion	Phy	कुडलिनो विरूपण	spiral zooid		सपिल जीवक
spiral hypha		सपिल ततु	spiran	Chem.	स्पाइरन
spiraling	Zool	सपिलन	spirarthes	Bot	स्पाइरैन्थोत्र
spiral instability		सपिल अस्थायित्व	spiraster	Zool	सपिलनारक, स्पाइरैस्टर
spirillum	Geol	स्पाइरैलियम	spire	Geol Zool	सपिन शिखर ममपिन
spiral lamina		सपिन स्तरिका	Spirek furnace	Chem.	स्पाइरेक भट्टी
spiral line		सपिल रेखा	spire test	Geog.	शिखर जांच
spiralling compound curve		सपिल मिश्र वक्र	Spirifer	Geol.	स्पिरिफिर
spiralling effect		कुडलिनो प्रभाव	<i>Spirifer striatus</i>		स्पिरिफिर स्ट्रिएटस
spiral manometer		सपिल निपीडान्तरमापी, सपिन मैनोमीटर	Spiriferacea		स्पिरिफेरिया
spiral motion		सपिल गति	Spiriferina		स्पिरिफेरिना
spiral nebula		सपिल नीहारिका	<i>Spiriferina walcotti</i>		स्पिरिफेरिना वाल- कॉटाइ
spiral nebula hypothesis		सपिल नीहारिका परिकल्पना	spiriferoid		स्पिरिफेराभ
spiral nematode		सपिल सूत्रकृमि	spirillar motion		सपिल गति
spiral of Cornu		कोर्नु वा सपिल	Spirillina	Zool	स्पाइरिलिनाइना
spiral orbit		सपिन वक्रा	<i>Spirillum</i>	Geol.	स्पिरिलियम
spiral ornamentation		सपिल अलंकार	<i>desulphuricum</i>		डिमलसप्युरिकम
spiral path		सपिल पथ	spirillum		सपिलानु, स्पिरिलम
spiral pellicular groove		सपिल तनूत्वक् खात	spirit	Chem, Geog, H Sc	स्पिरिट
spiral picker		सपिल चयक	spirit blue		स्पिरिट-ब्लू
spiral prismatic dislocation		सपिल त्रिभुजिय प्रक्षम	spirit lamp		स्पिरिट-ज्वालक, स्पिरिट लैम्प
spiral pump		सपिल पम्प	spirit level		स्पिरिट लेविड
'spiral things'		सपिल वस्तु	spirit nigrosine jet		स्पिरिट नाइग्रोसीन जेट
spiral scanning		सपिल क्रमबोधण	spirit of hartshorn		स्पिरिट ऑफ हार्ट् गह्वॉर्न, शुद्ध शूग मार
spiral side		सपिल पाखर्व	spirit of salt	Chem.	सवण वा सल्ल, हारडुने- कनोतिक ऐसिड
spiral spring		सपिल क्रमान्ती, सपिल स्प्रिंग	spirit of tin	Geol.	स्टैनिड कनोगारड
spiral steamer		सपिल वाष्पित्र	spirit of vitriol	Chem	शयक-सल्ल, शयकस्युरिक ऐसिड
spiral tuner (=Induc tuner)	Phy.	श्रेणिक ममस्वरक			
spiral type		सपिल प्रकार			

spiritual affinity	Geog.	वाध्यात्मिक संबंध	spirotrichous ciliate	Zool.	सर्पिलशूक पक्ष्माभ
spiritual retreat	Geog.	साधना स्थान	Spirula	Zool.	स्पाइरुला
spiritual welfare	Geog.	वात्मिक कल्याण	<i>Spirula peronii</i>		स्पाइरुला पेरोनिजाई
spiritus ammoniac aromaticus	Chem.	स्प्रिट्स अमोनिएक एरोमैटिकस	<i>Spirulina major</i>	Bot.	स्पाइरुलाइना मेजर
spiritus volatilis		स्प्रिट	<i>Spisula subtruncata</i>	Geog.	स्पिसुला सबट्रंकेटा
spirivalve	Zool.	सर्पिलकपाटी	spitskop	Geog.	स्पिटस्कॉप
Spirobolus	Zool.	स्पाइरोबोलस	spitting of silver		चांदी का उद्भवन, रजत का उद्भवन
spirochaete		तरंगानु, स्पाइरोकीट	spitzkasten	Geol.	स्पिट्सकास्टेन
Spirochona	Zool.	स्पाइरोकोना	Splachnum	Bot.	स्प्लेकनम
spiro-compound	Chem.	स्पाइरो यौगिक	<i>Splachnum luteum</i>		स्प्लेकनम ल्यूटिअम
spirocyst	Zool.	सर्पिलपुटी	splanchnic	Zool.	अंतरंग
Spirocystis	Zool.	स्पाइरोसिस्टिस	splanchnic layer		अंतरंग स्तर
spirographis	Chem.	स्पाइरोग्राफिस	splanchnic mesoderm		अंतरंग मध्यजनस्तर
Spirogyra	Bot.	स्पाइरोगाइरा	splanchnic muscle		अंतरंग पेशी
Spirogyrales		स्पाइरोगाइरेलीज	splanchnic vessel		अंतरंग वाहिका
<i>Spirogyra neglecta</i>		स्पाइरोगाइरा नेग्लेक्टा	splanchnocoel	Zool.	स्प्लैक्नोसील, अंतरंग-पूर्वगुहा
spirogyrate	Geol.	सर्पवक्रित	splanchnocranium (viscerocranium)	Zool.	स्प्लैक्नोक्रेनियम, हनुकपाल (अंतरंगकपाल)
spiroheptane	Chem.	स्पाइरोहेप्टेन	splanohnopture		स्प्लैक्नोप्सूर
spiroketone	Chem.	स्पाइरोकीटोन	splanchnotome	Zool.	स्प्लैक्नोटोम, अंतरंगपट
Spiroloculina	Zool.	स्पाइरोलॉकुलाइना	splash	Chem., Phy., H.Sc., Geol.	बास्फालन
<i>Spiroloculina planulata</i>		स्पाइरोलॉकुलाइना प्लेनुलेटा	splash arm		बास्फालन बाहु
spiroloculine	Geol.	सर्पिलकोण्टकी	splashboard	Geog.	स्प्लाशबोर्ड
spironeme	Zool.	सर्पिलनूवी	splash cup		बास्फाल चपक
Spirorbis	Zool.	स्पाइरॉबिस	splasher		बास्फालित्र
<i>Spirorbis carbonarius</i>		स्पाइरॉबिस कार्बोनेरियस	splashing band	Geog.	चिन्नित पट्टी
<i>Spirorbis laevis</i>		स्पाइरॉबिस लेवीस	splashing in casting	Chem.	संच बास्फालन
<i>Spirorbis pusillus</i>		स्पाइरॉबिस पुसिलस	splash lubricating system		बास्फाल स्नेहक तंत्र
spirotheca	Geol.	सर्पिलप्रावरक	splash-plates		बास्फालन-पट्ट
Spirostomum	Zool.	स्पाइरोस्टोमन	splash stalagmite		बास्फाल स्टैलगमाइट
Spirotricha	Zool.	स्पाइरोट्राइका	splash voile	H.Sc.	स्प्लैश वॉयल
spirotrichous	Zool.	स्पाइरोट्राइक, सर्पिलशूक	splash yarn		स्प्लैश सूत
			splash zone		बास्फालन क्षेत्र
			splatter	Geog.	उच्छल

splay faulting	<i>Geol</i>	अपसारी भ्रंशन, स्ले भ्रंशन	split lens		विभक्त लेन्स
splays	<i>Geol.</i>	अपसारी भ्रंश, स्ले	split pea	<i>H Sc</i>	मटर दाल
spleen	<i>H Sc., Zool</i>	प्लीहा, तिल्ली	split pea flour		मटर दाल का आटा
splenectomy	<i>Zool.</i>	प्लीहाछेदन	split personality	<i>H Sc</i>	विखंडित व्यक्तित्व
splendens	<i>Bot.</i>	दीप्त	"split phase" motor		"विपाटित प्रावस्था" मोटर
splendent		दीप्त	split plot		विभक्त क्षेत्र
splennial	<i>Zool</i>	स्प्लीनियल	split plot experiment		विभक्त आलेख प्रयोग
splenic flexure	<i>H Sc.</i>	प्लीहा बंक, प्लीहा आनमन	split ring		विभक्त वलय
splenic index	<i>Zool</i>	प्लीहा सूचकांक	splitter		विपाटक
splenic organ		प्लीहा अंग	splitting		विपाटन
splenic vein		प्लीहा शिरा, तिल्ली की शिरा	splitting enzyme		विपाटन एन्जाइम
splenium	<i>Zool</i>	स्प्लीनियम	splitting factor		विपाटन गुणक
splenocyte	<i>H Sc.</i>	प्लीहाणु	splitting field		स्पलिटिंग फील्ड, विभाजनक फील्ड
splined	<i>Geol</i>	समबद्ध	splitting ratio		विभाजन अनुपात
splining		समबध्दन	spodiophyllite	<i>Geol</i>	स्पोडिओफाइलाइट
splint (coal)	<i>Geol.</i>	1 स्प्लिन्ट कोयला	spodium	<i>Chem</i>	स्पोडियम
	<i>H Sc</i>	2 स्प्लिन्ट, कुशा	<i>Spodoptera manuruttia</i>	<i>Zool.</i>	स्पोडोप्टेरा मंनुरिटिया
splintered berg	<i>Geog.</i>	खंडित बर्कमेन	spodumene	<i>Geol</i>	स्पोडुमीन
splintered fault		खंडित भ्रंश	Spoerer's law	<i>Math.</i>	स्पोएरर नियम
splintering	<i>Chem (Fert)</i>	शितखंडन	spoil	<i>Geog</i>	फानतू मिट्टी
splintery		शितखंडी	spoilage	<i>Geog., Math.</i>	विकृत पत्र
split	<i>Phy., Geol.</i>	(adj) विपाटित, विभक्त (n) विपाट, विपाटन	spoilage costs		विकृति लागत
split anode		विभक्त ऐनोड	spoilage report		विकृति प्रतिवेदन
split anode magnetron		विभक्त ऐनोड मैग्नेट्रॉन	spoiler	<i>Phy.</i>	अपहारक
split brilliant	<i>Geol.</i>	सुविपाटित	spoiling	<i>Chem.</i>	दूषण
split cavity block		विपाटित कोटर पिण्डक	spoked	<i>Geog.</i>	अरधुन, आरा सहित
split chase mold		विपाटित पत्रर संच	spoke graph		अर-आरेख
split flap		विभक्त पल्ला	sponcered television (= commercial television)	<i>Phy.</i>	व्यापारिक टेलिविजन
split-flow reactor		विभक्त प्रवाह रिएक्टर	spondee	<i>Phy.</i>	गुरु आधार द्वय
split focus		विभक्त फोकस	<i>Spondias dulcis</i>	<i>Bot</i>	स्पोन्डियस डल्सिस
split footed	<i>Zool.</i>	विभक्त पाद	spondylium	<i>Geol</i>	स्पोन्डीनियम
split-half method	<i>Math</i>	अर्धेन विधि	Spondylus	<i>Geol.</i>	स्पोन्डीनस
split image		विभक्त प्रतिबिम्ब			

sponge	<i>Geol., Zool.</i>	स्पंज	spongy	स्पंजी
sponge bath		स्पंज स्नान	spongy ground	स्पंजी भूमि
sponge biscuit		स्पंज बिस्कुट	spongy layer	स्पंजी स्तर
sponge-chert		स्पंज चर्ट	spongy pit	स्पंजी गर्त
sponge cloth		स्पंज वस्त्र	spongy platinum	स्पंजी प्लैटिनम
sponge gold		स्पंज स्वर्ण	spongy test	स्पंजी चोल
Spongelia	<i>Zool.</i>	स्पंजेलिया	spongy tissue	स्पंजी ऊतक
sponge mushroom		स्पंज छत्रक	spongy vegetable	स्पंजी वनस्पति
sponge rubber		स्पंज रबर	sponsored	प्रयोजित
sponge silk		स्पंज रेशम	spontaneous	स्वतः प्रवर्तित, स्वतः
sponge weave		स्पंज ब्युति, स्पंज बुनती	spontaneous combustion	स्वतः दहन
Spongia	<i>Zool.</i>	स्पंजिया	spontaneous crystallisation	स्वतः क्रिस्टलन
spongicolous	<i>Zool.</i>	स्पंजवासी	spontaneous decomposition	स्वतः अपघटन
Spongilla	<i>Zool.</i>	स्पंजिला	spontaneous emission	स्वतः उत्सर्जन
<i>Spongilla fragilis</i>		स्पंजिला फ्रैजिलिस	spontaneous fission	स्वतः विखंडन
<i>Spongilla lacustris</i>		स्पंजिला लैकस्ट्रिस	spontaneous generation	स्वतः जनन
Spongillida	<i>Zool.</i>	स्पंजिलिडा	spontaneous growth	स्वतः वृद्धि
Spongillidae	<i>Zool.</i>	स्पंजिलिडी	spontaneous hatching	स्वतः स्फुटन, स्वतः अंडजात्यति
spongin	<i>Geol., Zool.</i>	स्पंजिन	spontaneous magnetisation	स्वतः चुम्बकन
sponginblast		स्पंजिनकोरक	spontaneous movement	स्वतः गति
sponginess		स्पंजता	spontaneous mutation	स्वतः उत्परिवर्तन
spongin fibre		स्पंजिन तंतु	spontaneous mutation theory	स्वतः उत्परिवर्तन सिद्धांत
sponging	<i>H.Sc.</i>	स्पंज करना, प्रोच्छन	spontaneous polarisation	स्वतः ध्रुवण
sponging mouth-parts		स्पंजी मुख्भाग	spontaneous potential	स्वतः विभव
spongioblast		स्पंजिओब्लास्ट	spontaneous potential curve	स्वतः विभव वक्र
spongiocoel	<i>Zool.</i>	स्पंजगुहा	spontaneous predissociation	स्वतः पूर्व वियोजन
spongiocyte	<i>Zool.</i>	स्पंजाणु	spontaneous process	स्वतः प्रक्रम
spongioid	<i>Bot.</i>	स्पंजाभ	spontaneous regionalism	स्वतः प्रेरित वांचनिकता, स्वतः प्रेरित प्रादेशिकता
spongioplasm	<i>Bot.</i>	कोशिका-द्रव्य-जाल		
spongiosum (spongy)		स्पंजी		
spongiosus	<i>Bot.</i>	स्पंजी		
spongolite	<i>Geol.</i>	स्पंजोलाइट		
spongologist	<i>Zool.</i>	स्पंजविज्ञानी		
<i>Spongospore subterranea</i>	<i>Bot.</i>	स्पान्गोस्पोरा सवटैरेनिया		

spool	<i>Geog, Geol, H Sc.</i>	स्पूल, चरखी, रील, बलनी	spore coal	<i>Bot.</i>	स्पोर कोयला, बीजाणु कोयला
spool bin		बलनी छड	spore dissemination		स्पोर प्रकीर्णन, बीजाणु प्रकीर्णन
spool grizzly		स्पूल फ़िज़ली	spore exine		बीजाणु बाह्यकोश
spool roll		रील बेल्तन, रील बेलन	sporeling		बीजाणु अकुर
spoon	<i>Chem, H Sc.</i>	चम्मच, चमस	spore measurements		स्पोर मापन, बीजाणु मापन
spoon bill	<i>Zool.</i>	चमस चञ्चु	spore mother-cell		बीजाणु मातृ-कोशिका
spoon end		चम्मचात	spore print		बीजाणु मुद्रा
spoon gauge		चमस गेज, चमस प्रमापी	spore sac		बीजाणु पुटक
spora		बीजाणु जात, स्पोरा	spore stain		बीजाणु अभिरञ्जक
sporadic	<i>Geol, Zool, Geog.</i>	कदाचनिक, यत्नतात्रिक	spore trap		बीजाणु-पाश
sporadic E-ionisation		कदाचनिक E आयनन	sporidesemia	<i>Chem.</i>	स्पोरिडेस्मिया
sporadic invader		कदाचनिक आक्रामक	sporidium		बीजाणुक
sporadic invasion		कदाचनिक आक्रमण	sporiferous		स्पोरयुक्त, बीजाणुयुक्त
sporadic layer		कदाचनिक स्तर	sporling	<i>Bacteriology</i>	स्पोरल
sporadic meteor		कदाचनिक उल्का	sporolite	<i>Geol</i>	स्पोरलाइट
sporadic phenomenon		कदाचनिक घटना	sporoblast	<i>Zool, H Sc</i>	स्पोरोब्लास्ट, बीजाणुकोरक
sporadic radio emission		कदाचनिक रेडियो उत्सर्जन	<i>Sporobolomyces roseus</i>	<i>Bot</i>	स्पोरोबोलोमाइसीज रोजियस
sporangiial trusse	<i>Bot</i>	स्पोरैङ्गियल ट्रस	sporocarp	<i>Bot.</i>	बीजाणु-फलिका
sporangiocarp	<i>Bot</i>	बीजाणुधानी फलिका	sporocladium	<i>Bot</i>	स्पोरोक्लेडियम
sporangiocyst		पुटित बीजाणुधानी	sporocyst	<i>Bot, H Sc</i>	बीजाणु पुटी
sporangiote (sporangiolum)		बीजाणु धानिका	sporocyte	<i>Bot</i>	1. बीजाणु कोशिका
sporangiophore		बीजाणुधानीधर		<i>Mycology</i>	2. बीजाणु-आशय
sporangiophoric complex		बीजाणुधानीधरोप सम्प्लेक्स	sporoderm	<i>Bot</i>	बीजाणुचर्म
sporangiophoric type		बीजाणुधानिक प्ररूप	<i>Sporodinia grandis</i>	<i>Bot</i>	स्पोरोडिनिया ग्रैंडिस
sporangiospore		धानी बीजाणु	sporodochium	<i>Bot</i>	स्पोरोडोक्शियम
sporangiosorus		धानी समूह	sporoduct	<i>Zool.</i>	बीजाणुवाहिनी
sporangium		बीजाणुधानी	sporogelite	<i>Geol</i>	स्पोरोजेलीट
sporangium-bearing axes		बीजाणुधानीधर अक्ष	sporogenesis	<i>Bot, Zool.</i>	बीजाणुजनन
spore	<i>Bot.</i>	बीजाणु, स्पोर	sporogenous		बीजाणुजन
spore ball		बीजाणु कतुक	sporogonic cycle		बीजाणुजनन चक्र
spore bearing	<i>Bot.</i>	स्पोरधारि	sporogonites	<i>Bot.</i>	स्पोरोगोनाइट्स
spore capsule		बीजाणु सपुट	sporogony	<i>Bot.</i>	बीजाणु उद्भवन
			sporokhete	<i>Zool.</i>	खरबीजाणु
			sporomorph	<i>Geol.</i>	बीजाणुमूर्ध

sporont	Zool.	स्पोरॉन्ट, बीजाणुजन	spot height		स्थान की ऊंचाई
sporophore	Bot.	बीजाणुधर	spot inspection		बिन्दु निरीक्षण, स्थानिक निरीक्षण
sporophydium	Bot.	स्पोरोफिडियम	spot jamming	Phy.	विशिष्ट जामन
sporophyll		बीजाणुपर्ण	spot noise	Phy.	एक आवृत्तिक रव
sporophyte	Bot.	बीजाणु-उद्भिद्, स्पोरोफाइट	spot plate		बिन्दु परीक्षण पट्टिका
sporophyte generation	Bot.	बीजाणुउद्भिदी पीढ़ी	spot projection		बिन्दु प्रक्षेपण
sporoplasm	Bot.,Zool.	स्पोरोप्लास्म, बीजाणुद्रव्य	spot resistant finish	H.Sc., Chem.	दागरोधी परिष्कृति
sporopollenin	Bot.,Geol.	स्पोरोपोलेनिन	spot spectrum (of sun)	Phy.	सूर्यकलंक स्पेक्ट्रम
sporosac	Zool.	बीजाणुकोष	spotted	Geol.	चिन्तीदार, पृषत्
sporoschisma	Bot.	स्पोरोशिस्मा	spotted babbler	Zool.	बिन्दुकित कचपचिया
sporostrote	Bot.	बीजाणु प्रकीर्ण	spotted bellied	Zool.	चित्रितोदर
sporotheallus	Bot.	बीजाणुशैलस	spotted deer	Zool.	चौतल
Sporozoa	Zool.	स्पोरोजोआ	spotted fever tick		चिन्तीदार ज्वर किलनी
sporozoite	Zool.	बीजाणुज, स्पोरोजोआइट	spotted salamander	Zool.	चित्रित सैलामैन्डर, चित्रित सरट
sport	Zool.,Geog.	बाखेट	spotted slate	Geol.	पृषत् स्लेट
sport (mutation)	Bot.	उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन	spotted wilt		चिन्तीदार म्लानि
sport fishing		बाखेट मत्स्यन	spot test		बिन्दु निकप,बिन्दु संपरीक्षण
sporting area		बाखेट क्षेत्र	spot test method		बिन्दु संपरीक्षण विधि
sporting bird		बाखेटी चिड़िया	spottiness		धन्वापन
sporting estate		बाखेटी सम्पदा	spottiness limit	Math.	बिन्दूपिप्ता सीमा, अतिदोष सीमा
sport satin	H.Sc.	स्पोर्ट साटन	spotting	Zool. H.Sc.	चिह्नन दाग छुड़ाना
sporulating stage	Zool.	बीजाणुकजनन अवस्था	spotting test	Chem.	बिन्दुकन निकप
sporulation		बीजाणुकजनन	spotty	H.Sc.	चकतेदार
sporule	Zool.	बीजाणुक	spotty arc	Phy.	बिन्दोमय आर्क
spot		1. (n.) बिन्दु 2. स्थान 3. चिन्ती, धन्वा 4. (v.) पहचानना, हूँदना	spotty formations	Geol.	पृषत् शैलसमूह
spot analysis		बिन्दु विश्लेषण	spotty unit		बिन्दूपित एकक
spot application	Bot.	स्थल उपचार	spot welding		बिन्दु वेल्डन
spot bill		बिन्दु चंचु	spot wobble		बिन्दु डोलन
spot checking	Math.	मोके पर पड़ताल, स्थाने पड़ताल	spout	Chem., H.Sc.	टॉपी, बितुंड
spot diameter		बिन्दु व्यास	spout down	Chem.	अधस्तुंड
spot elevation		स्थान ऊंचाई, स्थान उच्चता	spouted bottle	Chem.	टॉपीदार बोतल
spot galvanometer		बिन्दु धारामापी, बिन्दु गैल्वानोमीटर			

spouter	<i>Geol.</i>	उद्रेकी तेलकूप, स्पाउटर	spreader		विस्तारक, विस्तारित्र
spouting	<i>Chem., Zool.</i>	1 उल्लेपण 2. विलुंडन	spreading		विस्तारण
spouting spring	<i>Geol.</i>	उद्रेकी झरना	spreading coefficient		विस्तारण गुणांक
sprabond process	<i>Chem.</i>	पृष्ठसज्जा प्रक्रम	spreading power		विस्तारक शक्ति
sprawling leg	<i>Zool.</i>	विसर्पी पाद	spreading resistance	<i>Phy.</i>	प्रक्षारी प्रतिरोध
sprawling polypus	<i>Geog.</i>	प्रभासीय बहुपाद	spread letter		प्रक्षारी अक्षर
spray	<i>Zool., Chem.</i>	फुहार, शीकर	spread of reflection		परवलन विस्तार
spray atomiser	<i>H Sc.</i>	फुहार कणित	spreads (food)		विस्तार
spray dome		फुहार गुंबज	spread velocity	<i>Phy.</i>	परिसर वेग
spray drier		फुहार शोषक	Sprengel pump	<i>Chem.</i>	स्प्रेन्जेल पंप
spray-droplet		फुहार बिन्दुक	sprigging		1 तृण रोपण 2. स्प्रिगन
spray drying	<i>Chem.</i>	शीकर शुष्कन, फुहार शुष्कन	sprill	<i>Chem.</i>	स्प्रिल
spray electrode		फुहारइलेक्ट्रोड, शीकर इलेक्ट्रोड	spring	<i>Phy., H.Sc. Geol. Geog.</i>	1. कमानी, स्प्रिंग 2. झोत, झरना, झोता 3. बसंत
sprayed fibre		फुहारित तंतु	spring alcove		स्प्रिंग एल्कोव
spray equipment		फुहार उपकरण	spring aspect		बासनी छवि
sprayer	<i>Zool., H.Sc.</i>	फुहार, स्प्रेयर, शीकरक	spring balance		कमानोदार तुला
spray-gun	<i>Chem. Geog.</i>	1. शीकर-गन 2 स्प्रेगन	spring brake		स्प्रिंग ब्रेक
spraying		1. फुहार, छिड़काव, शीकरण 2. फुहारना, छिड़कना, शीकरण करना	spring clip		कमानोदार क्लिप, स्प्रिंग क्लिप
spraying appliance		फुहारा	spring constant		कमानो स्थिरांक
spray injector		फुहार अंत छेपक	spring dwarf		बसंत बामनना
spraying injury		फुहार क्षति	spring escarpment		झोत कणार
spraying operation		फुहार सन्निया	spring gravimeter		स्प्रिंग गुरुत्वमापी
spraying reagent		शीकरी अभिकर्मक	spring-head sapping		झोत शीर्ष अध खनन
spray of linear connection		रेखिक संबधन फुहार	spring housing assembly		कमानो ढांचा संघट्ट
spray oil		शीकर तेल, फुहार तेल	springing test	<i>Chem.</i>	समृत्यतन निरूप, स्प्रिंग निरूप
spray printing		शीकर मुद्रण, फुहार छपाई	spring line		झोत रेखा
spray room		फुहार कक्ष	spring-line village		झोत रेखा ग्राम
spray solution		फुहार विलयन	spring low-water mark	<i>Geog.</i>	दीर्घ भाटा चिह्न
spray zone		फुहार क्षेत्र	spring moult		बसंत निर्मौल
spread (of energy)	<i>Phy.</i>	ऊर्जा परिसर	spring overturn		बसंत उल्लंघन
spreaded	<i>Chem.</i>	विस्तारित	spring-pen compass		स्प्रिंग पेन कम्पास
			spring rain		बसंत वर्षा
			spring rise	<i>Geog.</i>	द्वैतुम्हार उठान



spring rolls		स्प्रिंग रोल, स्प्रिंग रोल	spurious	<i>Math.</i>	मिथ्या
Spring's reaction		स्प्रिंग अभिक्रिया	spurious charge		मिथ्या आवेश
spring steel		स्प्रिंग इस्पात, समुत्पत्त इस्पात	spurious correlation		मिथ्या सहसंबंध
spring tail	<i>Zool., Geog.</i>	कुंडलपुच्छ	spurious count		मिथ्या गणनसंख्या, मिथ्या गिनती
spring thaw		वसंत हिमद्रवण	spurious dissepiment	<i>Bot.</i>	आभासी पट
spring tide	<i>Geog.</i>	बृहत् ज्वार भाटा, बृहत् ज्वार	spurious eccentricity		मिथ्या उत्केन्द्रता
springweave		स्प्रिंगबीव	spurious echoes	<i>Phy.</i>	इतर प्रतिध्वनि
spring-wheat region		वसंत गेहूं प्रदेश	spurious image	<i>Phy.</i>	इतर प्रतिबिम्ब
spring wood		वसंत दारु	spurious mode		इतर विधा
spring wool		वसंत ऊन	spurious primary	<i>Zool.</i>	प्रथम कूटपिच्छ
sprinkle	<i>H.Sc.</i>	भुरकना, छिड़कना	spurious pulse	<i>Phy.</i>	अवांछित स्पंद
sprinkler	<i>Geog.</i>	स्प्रिंकलर, सेवत्र	spurious response	<i>Phy.</i>	ध्रामक अनुक्रिया
sprinkler-head		सेवत्र शीर्ष	spurious wave		मिथ्या तरंग
sprinkler-irrigation system		सेवत्र सिंचाई प्रणाली	spurious wing	<i>Zool.</i>	कूट पिच्छ
sprocket	<i>Chem.</i>	चक्रदन्त, दन्त चक्र	spur-profile		पर्वत स्कांध परिच्छेदिका, पर्वत स्कांध प्रोफाइल
sprout cell	<i>Bot.</i>	अंकुरण कोशिका	spurred		दलपुटयुक्त, शूंडिकायुक्त
sprouted wheat	<i>H.Sc.</i>	अंकुरित गेहूं	spur remnant		पर्वतस्कांध अवशेष
sprouting		अंकुरण	spurting	<i>Chem.</i>	उत्क्षेपण
sprout mycelium		अंकुर कवकजाल	spurt pipe		उत्क्षेप नल
spruce	<i>Bot.</i>	स्प्रूस	spur trimming		पर्वतस्कांध कटन
sprue	<i>Chem.</i>	1. आनाल, स्प्रू 2. लोष्ठक	spur wheel	<i>Chem.</i>	दंतचक्र
sprue ejector pin		स्प्रू निष्कासक पिन, आनाल निष्कासक पिन	spurwinged plover	<i>Zool.</i>	कंटपक्ष टिटिहरी
sprueing	<i>Chem.</i>	उद्गिरण, स्प्रूकरण, आनालन	sputnik	<i>Phy.</i>	स्फुल्लिक
sprue lock		स्प्रू ताल, आनाल ताल	sputterer	<i>Chem.</i>	कण क्षेपक
spruit	<i>Geog.</i>	लघु नदी	sputtering		कण क्षेपण
spudding	<i>Chem.</i>	स्पडन	sputtering phase		कण क्षेपण अवस्था
spun silk	<i>H.Sc.</i>	कता रेजम, कता सिल्क	sputter point	<i>Phy.</i>	कणरंजन विन्दु
spun yarn		कता सूत	squad	<i>Geog.</i>	स्क्वैड
spur	<i>Plastics</i>	लोष्ठक, स्पूर	squadron	<i>Geog.</i>	संगठित दल, अनुदल
	<i>Bot.</i>	शूंडिका, दलपुट	squalane	<i>Chem.</i>	स्क्वालान
	<i>Geol.Geog.</i>	पर्वतस्कांध	squalene	<i>Chem.</i>	स्क्वालीन
	<i>Zool.</i>	कंट, पदकंट	squall	<i>Geog.</i>	अल्पकालिक झंझा, चंडवात
spur block		पर्वतस्कांध खंड	squall line	<i>Geog., Phy.</i>	1. शीत वाताग्र 2. चण्डवात पंथित
			squally rain		चंडवाती वर्षा, झंझा वर्षा

squally weather		चंद्रवाती मौसम	squared wave filter		वर्गित तरंग फिल्टर, वर्गित तरंग निस्पन्दक
Squaloidea	Zool.	स्क्वैलांड्रिडा	square figure		वर्ग अंक
Squaloraja	Zool.	स्क्वैलोरारा	square-grid method		वर्ग ग्रिड विधि
Squalus	Zool.	स्क्वैलस	square-grid system		वर्ग ग्रिड प्रणाली
squama	Zool., Geol.	शल्क, शल्किका	square lamina		वर्ग पटल
Squamaria	Bot.	स्क्वैमेरिया	square lattice		वर्ग जालक
Squamata	Zool	स्क्वैमेटा	square law detection		वर्गानुपाती समूचन
squamate	Bot.	शल्की	square-law half wave detection		वर्गानुपाती अर्धतरंगी समूचन
squamiferous	Bot.	शल्कधर	square law modulator		वर्ग नियम मॉड्युलर
squamiform	Bot.	शल्करूपी	square letter		वर्ग अक्षर
Squamulina	Zool.	स्क्वैम्पूलिना	square loop		वर्ग पाश
squamodisk	Zool.	शल्कविम्ब	square matrix		वर्ग आय्यूह
squamosa)	Zool.	मन्क्रारिश्, स्क्वामोसल	square measure		वर्ग-मात्रक
squamose	Bot.	शल्कसम	square method		वर्ग विधि
squamosoquadrate	Zool.	शल्कहनुसद्विका	square metre		वर्ग मीटर
squamous epithelium	Zool	शल्की चपकला, शल्की एपीथीलियम	square net		वर्ग जाल
squamous suture		शल्की सौवन	square number		वर्ग संख्या
squamule	Bot.	पलिका	square of the vector		सदिश का वर्ग
squamulose	Bot.	पलिकी	square orthogonal		वर्ग लांबिक
square	Math. Geog	1. वर्ग 2. स्क्वेयर, चौक	square-planar four coordinate zinc		वर्ग-समतली चतु समन्वयी जस्त, वर्ग समतली चतु समन्वयी यशद
square antiprism		वर्ग-प्रतिप्रिज्म	square prism		वर्ग प्रिज्म
square array		वर्ग-सरणी	square pyramid		वर्ग निर्दिष्ट
square brackets	Math.	गुरुकोष्ठक, गुरुबन्धनी	square roof	Geog	चौकोर छान, चौकोर छत्रक
square cascade	Phy.	सम सोपानी पात	square root		वर्गमूल
square cloth		वर्गदस्त्र	square-root method		वर्गमूल विधि
square contingency		वर्ग आयु	square root scale		वर्गमूल पैमाना
squared	Bot.	दृष्टि	square set		स्क्वेयर सेट
squared amplitude		वर्गित अंशोंक	square shaped flask		वर्गाकार पनाम्क
square degrees		वर्ग डिग्री	square summable function		वर्ग विधेय फलन
square dip-net	Zool.	वर्गाकार निमज्जन जाल	square wave		वर्ग तरंग
squared moditus		वर्गित मापाक	square wave voltage	Phy.	आपत तरंग वोल्टता
squared-off cascade		सम सोपानीपान समूह	square wave response		आपत तरंग अनुचिय
squared paper	Math	प्राफ कागज, वर्गिकित कागज	square well		आयु कूप
square integrable		वर्ग समावसनीय			

square-well potential		वर्ग कूप विभव
square-well structure		वर्ग कूप संरचना
squarance	<i>Math.</i>	माध्य विचलन वर्ग योग
squaring circuit		1. आयतकारी परिपथ 2. वर्गकारी परिपथ
squaring correction		वर्ग संशोधन
squaring function		वर्गकरण फलन
squarish front-apron		चौकोर जपवस्त्र
squarrosus	<i>Bot.</i>	रूक्ष
squash	<i>Chem., Geog.</i> <i>H.Sc.</i>	1. (inks) अपमर्दन 2. स्ववाश
squash bug	<i>Zool.</i>	स्क्वाश मत्कुण
squash fruit rot		स्क्वाश फल विगलन
Squatina	<i>Zool.</i>	स्क्वाटिना
Squatinae	<i>Zool.</i>	स्क्वाटिनिडी
squawk sheet	<i>Math.</i>	दोष-पत्र
squeegee	<i>Geog.</i>	(क) स्क्वीजी (ख) निष्पीडक
"squeezed" charge	<i>Chem.</i>	निष्पीडित चार्ज
squeezed fold		निष्पीडित बलन
squeezer	<i>Geog., H.Sc., Geol.</i>	निष्कर्षणी, निष्पीडक
squeeze-ups		निष्पीडन
squeezing	<i>H.Sc.</i>	निचोड़ना, निष्पीडन
squegging	<i>Phy.</i>	स्वनिरोधन
squegging oscillator		स्वनिरोधी तरंग दोलक
squelch	<i>Phy.</i>	चुपकरण
squelching effect		चुपकारी प्रभाव, निरोधी प्रभाव
squelching system		चुपकारी तंत्र
squib	<i>Phy.</i>	फुलझड़ी युक्ति
squid	<i>Zool., Geol.</i>	स्क्विड
Squilla	<i>Zool., Geog.</i>	स्क्विला
<i>Squilla mantis</i>	<i>Zool.</i>	स्क्विला मैन्टिस
squinancy-wort	<i>Bot.</i>	स्क्विनेन्सी वृटी
squint angle	<i>Phy.</i>	तियंक् कोण
squirting		घारोत्क्षेपण
squirrel	<i>Zool.</i>	गिलहरी
squirrel cage antenna	<i>Phy.</i>	पिंजर ऐन्टेना

squirrel cage motor		पिंजरी मोटर
squirting	<i>Zool.</i>	उत्क्षेपण
spravel	<i>H.Sc., Geog.</i>	स्त्रेविल
Staatsmijnen process	<i>Chem.</i>	स्टाट्समिजनेन प्रक्रम
stab	<i>H.Sc., Geog.</i>	वेधन, वेध
stabbing teeth		वेधी दन्त
stab culture		वेधन संवर्ध
stabilene	<i>Geog.</i>	स्टैविलेन
stabilene scriber		स्टैविलेन-लेखनयंत्र
stabilised	<i>Phy.</i>	स्थायीकृत
stabilised power supply (=regulated power supply)		स्थायीकृत शक्ति प्रदायी नियामित शक्ति प्रदायी
stabilising transformer		स्थायीकारी परिणामित्र, स्थायीकारी ट्रॉन्सफार्मर
stability	<i>Phy., Geol.</i>	स्थायित्व
stability coefficient		स्थायित्व गुणांक
stability constant		स्थायित्व स्थिरांक
stability curve		स्थायित्व वक्र
stability function		स्थायित्व-फलन
stability group		स्थायित्व-समूह, स्थायित्व-ग्रुप
stability test		स्थायित्व परीक्षण
stabilivolt	<i>Phy.</i>	स्टैविलिवोल्ट
stabilization	<i>Phy., Geog., H.Sc.</i>	स्थायीकरण, स्थिरीकरण
stabilization circuit		स्थायीकरण परिपथ
stabilization factor		स्थायीकरण गुणांक
stabilized glass		स्थायीकृत कांच
stabilized population	<i>Zool.</i>	स्थायीकृत जनसंख्या
stabilizer	<i>H.Sc., Phy.</i>	स्थायीकारी
stabilizing agent		स्थायीकारक
stabistor	<i>Phy.</i>	स्टैबिस्टर
stable	<i>Geog., Geol., H.Sc.</i>	स्थायी, स्थिर
stable air		स्थिर वायु
stable algorithm		स्थायी कलन-विधि
stable balance		स्थायी संतुलन
stable block		स्थिर खंड, स्थायी खंड

stable composition		स्थायी सगठन	stack vector		चिंति-सदिश
stable configuration		स्थायी विन्यास	stadia	<i>Geol. Geog.</i>	स्टेडिया
stable enol		स्थायी ईनॉल	stadial moraine	<i>Geol. Geog.</i>	स्टेडियल मोरेन
stable equilibrium		स्थायी साम्य, स्थायी सन्तुलन	stadia measurement		स्टेडिया माप
stable fly	<i>Zool.</i>	अमनबल मक्खी	stadia method		स्टेडिया-विधि
stable gas		स्थायी गैस	stadia reading		स्टेडिया पाठ्यांक
stable humus		स्थायी ह्यूमस	stadia rod		1. स्टेडिया छड़ 2. स्टेडिया यष्टि
stable island		स्थायी द्वीप, स्थिर द्वीप	stadia slide rule		स्टेडिया स्लाइड रूल
stable isotope		स्थायी समस्थानिक, स्थायी अइसोटोप	stadium (stadia)	<i>Zool</i>	अतराजस्था
stable money		स्थिर मुद्रा	stadt	<i>Geog.</i>	नगर, स्टार्ट
stable motion		स्थायी गति	Stadtchen	<i>Geog</i>	कस्बा, स्टार्टचन
stable optimal strategy		स्थायी इष्टतम युक्ति	Stadtrecht	<i>Geog.</i>	स्टार्टरेस्ट
stable orbit		स्थायी कक्षा	Staffan process	<i>Chem.</i>	स्टैफान प्रक्रम
stable oscillation		स्थायी दोलन	staff correction	<i>Geog.</i>	दृढ-समीक्षण, गज समीक्षण
stable population		स्थायी जनसंख्या	staffelite	<i>Geol</i>	स्टैफेलिट
stable price		स्थिर कीमत	staff holder		दृढ धारक, गजधारक
staccato injection	<i>Geol.</i>	असम्बद्ध अंत क्षेपण	staff notation	<i>Phy.</i>	स्टाफ स्वरनिधि
stachydrine	<i>Chem.</i>	स्टैकिड्रिन	stag	<i>Geog., Zool.</i>	महामृग
Stachyospermato- phytina	<i>Bot.</i>	स्टैकियोस्पर्मेटोफाइटिन	stag beetle		महामृग भृगु
stachyosporous	<i>Bot.</i>	अक्षय बीजाणुक	stage		1. अवस्था 2. चरण, पद 3. समुदाय (stratigraphy) 4. स्टेज
stachyospory		अक्षय बीजाणुता	stage band width		पद बैंड विस्तार
<i>Stachytarpheta indica</i>	<i>Bot.</i>	स्टैक्रीटफोटा इंडिका	stage-coach	<i>Geog.</i>	बाघी
stack	<i>Chem.</i>	1. स्तम्भ 2. चिंति	stage commination		चरण संचूर्जन
	<i>Geol.</i>	स्टैक	stage compressor		चरण-संरीक्षित
stacked dipole	<i>Phy.</i>	घनी द्विध्रुव, समरचित द्विध्रुव	stage diagram		अवस्था आरेख, चरणारंभ
stacked foil method	<i>Phy</i>	राशीकृत पन्नी विधि	stage efficiency		चरण की दक्षता
stacked head (=in line head)	<i>Phy</i>	समरेखीय शीर्ष	stage flotation	<i>Geol</i>	क्रमोन्मूलन
stacker		चाकर, स्टैकर	stage hold-up		चरण-निवृद्धी
stacker dredge		स्टैकर ड्रेज	stage mass flow (=stage circulation)		चरण संपद प्रवाह
stacking		चिंति	stage noise	<i>Phy.</i>	गज रज
stacking fault		चिंतिकरण दोष	stage of differentiation		विभेदावस्था
stacking sequence		चिंति अनुक्रम	stage of elongation		प्रायमन अवस्था
stack process		चिंति-निर्वाह, चट्टा-विधि			

stage of exhaustion		क्लान्ति अवस्था	stain resistant		धब्बा प्रतिरोधी
stage of resistance		प्रतिरोध अवस्था	stain test		वधिरंजन निकष
stage of sampling		प्रतिचयन का चरण	stair case	<i>H.Sc.</i>	सोपान, सीढ़ी
stage separation factor		चरण पृथक्करण गुणांक	staircase function		सोपान-फलन
staggered	<i>Chem., Geol.</i>	सांतरित	stair-like profile		सोपानी परिच्छेदिका
staggered arrangement		सांतरित विन्यास	staith	<i>Geog.</i>	स्टैथ
staggered circuit	<i>Phy.</i>	विभिन्न स्वरित परिपथ	stake	<i>Geog.</i>	खूंटा
staggered conformation		सांतरित संरूपण, सांतरित कॉन्फर्मेशन	stake net	<i>Zool.</i>	स्यूण जाल
staggered form		अंतरित रूप, स्टैगर्ड रूप	stalactite	<i>Geol.</i>	स्टैलेक्टाइट
staggering	<i>Phy.</i>	सांतर वितरण	stalactitic		स्टैलेक्टाइट
staggering well	<i>Geol.</i>	असंमुखी कूप	stalactitic marble		स्टैलेक्टाइट संगमरमर
stagger tuned amplifier		विभिन्न स्वरित प्रवर्धक	stalactitic mass		स्टैलेक्टाइट पिंड
stagger tuned pair		विभिन्न स्वरित युग्म	stalagmite	<i>Geol.</i>	स्टैलेग्माइट
stagger tuned stage		विभिन्न स्वरित पद	stalagmite barrier		स्टैलेग्माइट रोध
stagnant	<i>Geol., Geog.</i>	बंधा हुआ, रुद्ध	stalagmitic marble		स्टैलेग्माइट संगमरमर
stagnant fog	<i>Geog.</i>	निश्चल कुहरा	stalagmometer	<i>Chem.</i>	स्टैलग्मोमीटर, विदुमापी
stagnant water		बंधा जल, रुद्ध जल	staling	<i>Bot.</i>	(n.) पर्युपण (adj.) पर्युपित
stagnating town	<i>Geog.</i>	प्रगतिरुद्ध नगर	stalk	<i>Bot.</i>	वंत
stagnation		प्रगतिरोध	stalk cell	<i>Bot.</i>	बंध्य कोशिका, निम्नकोशिका
stagnation enthalpy		प्रगतिरोध-पूर्णता	stalked barnacle	<i>Zool.</i>	संवृत खंढावर
stagnation point		प्रगतिरोध-बिन्दु	stalked body		संवृत पिंड
stagnation pressure		प्रगतिरोध दान	stalked bud		संवृत कलिका
stagnation temperature		प्रगतिरोध-ताप	stalked gland organ		संवृत ग्रंथि-अंग
stain	<i>H.Sc.</i> <i>Zool., Bot.</i>	दाग, धब्बा वधिरंजन (v.) वधिरंजन करना	stalked sporangium		संवृत बीजाणुधानी
stainability		वधिरंजनता	stall	<i>Math.</i>	स्तंभन
stainierite	<i>Chem.</i>	स्टाइनियराइट	stalling incidence		स्तंभी आपतन
staining	<i>Biol.</i>	वधिरंजन	stalling limit		स्तंभी सीमा
staining reaction		वधिरंजन प्रतिक्रिया	stalling point		स्तंभी बिन्दु
staining tube		वधिरंजन-नली	stalling speed		स्तंभी चाल
stainless steel	<i>Chem., H.Sc.</i>	जंगरोधी इस्पात, स्टेनलेस इस्पात	stalling velocity		स्तंभी वेग
stainless steel ware		जंगरोधी इस्पात भाण्ड, स्टेनलेस स्टील भाण्ड	stalo (stable local oscillator)	<i>Phy.</i>	स्टैलो (स्थायी स्थानिक दोलक)
			stamen	<i>Bot., H.Sc.</i>	पुकेसर
			staminal corona		पुकेसरी किरिट
			staminate		पुकेसरी
			staminate disc	<i>Bot.</i>	पुंशुचक्रिका

staminate flower		पुकेसरी पुष्प	standard coordinate system	मानक निर्देशांक तंत्र
staminate sporophyll	Bot.	पुत्रीजाणु पर्ण	standard copper	मानक ताम्र
stamineus	Bot	स्पष्ट पुकेसर युक्त	standard copy	मानक प्रति
staminode	Bot	बध्य पुकेसर	standard day	मानक दिन
staminody	Bot.	पुकेसररूपण	standard derivative	मानक अवकलत्र
stamp		मुद्रा, मुहर	standard deviation	मानक विचलन
stamp copper	Geol.	स्टैम्प ताम्र	standard deviation method	मानक विचलन विधि
stamped	Chem., H.Sc.	मुद्रांकित, छपेदार	standard electrode	मानक इलेक्ट्रोड
stamped velvet		छपेदार मखमल	standard electrode potential <sup>a</sup>	मानक इलेक्ट्रोड विभव, प्रमाण-इलेक्ट्रोड विभव
stamping		मुद्रांकन	standard element	मानक अवयव
stamping compound		मुद्रा योगिक	standard error	मानक त्रुटि
stand	Chem., Bot	1 आधार, स्टैन्ड, आधानी 2 खड (as a forest)	standard Euclidean space	मानक यूक्लिडी समष्टि
standard	Bot., H.Sc., Geog.  Phy	1 (adj.) मानक, प्रमाणित 2 (n) ध्वज 3 मानक	standard flask	मानक फ्लास्क
standard affine frame		मानक सजातीय तंत्र	standard foot-note symbol table	मानक फुट-नोट प्रतीक सारणी
standard array		मानक सारणी	standard form	मानक रूप
standard atmosphere		मानक वायुमंडल	standard fraction defective	मानक दूषितानुपात
standard atom		मानक परमाणु	standard free energy	मानक मुक्त ऊर्जा, प्रमाण मुक्त ऊर्जा
standard basis		मानक आधार	standard gauge	मानक साइज
standard boundary condition		मानक परिसीमा प्रतिबंध	standard gold	मानक स्वर्ण
standard broadcast band		मानक प्रसारण बैंड	standard goods	प्रमाणिक वस्तुएं, मानक वस्तुएं
standard burette		मानक ब्यूरेट	standard gravity	मानक गुरुत्व
standard candle		मानक कैंडिल	standard hydrogen electrode	मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्रमाणक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
standard cell		मानक सेल	standard illuminant	मानक प्रदीपक
standard chamber		मानक कोष्ठ	standard inner product	मानक आंतर गुणनफल
standard climate		मानक जलवायु	standardised	मानकीकृत
standard complex structure		मानक सम्मिश्रण संरचना	standardised death rate	मानकीकृत-मृत्युदर
standard condenser		मानक संघारित	standardised flask	मानकित फ्लास्क, प्रमाणित फ्लास्क, मानकित फ्लास्क
standard condition		मानक अवस्था		
standard configura- tion		मानक विन्यास		
standard coordinates		मानक निर्देशांक		

standardised moment		मानकीकृत आघूर्ण	standard redox potential		मानक उपापचय विभव, मानक रिडॉक्स विभव
standardising solenoid		मानकीकरण परिनालिका	standard regain		मानक पुनराप्ति
standardization	H.Sc.	मानकीकरण	standard result		मानक परिणाम
standardization of death rate		मृत्युदर मानकीकरण	standard score		मानक समंक
standardization of symbol		प्रतीक-मानकीकरण	standard sea-water		मानक समुद्रजल
standardized expected value		मानकीकृत प्रत्याशित मान	standard section		मानक काट
standardized variable		मानकीकृत चर	standard sequence		मानक अनुक्रम
standard label		मानक लेबल	standard sheet		मानक शीट
standard length		मानक लम्बाई	standard shortening		मानक मोयन
standard linear solid		मानक एकघाती ठोस	standard solution		मानक विलयन
standard (coarse) machine		मानक (स्यूल) मशीन	standard state		प्रमाण अवस्था, मानक अवस्था
standard man		मानक मानव	standard steel tape		मानक इस्पात फ्रीता
standard Markov process		मानक मार्कोव प्रक्रम	standard stochastic process		मानक प्रसंभाव्य प्रक्रम
standard martingale		मानक मार्टिंगेल	standard substance		मानक पदार्थ
standard measurement		मानक माप	standard symbol		मानक प्रतीक
standard mercurial barometer		मानक पारद वायुदावमापी	standard symbol table		मानक प्रतीक सारणी
standard method of drilling		वेधन-मानक विधि	standard television channel	Phy.	अधिकृत टेलीविजन चैनल
standard noise temperature		मानक रव ताप	standard temperature		मानक ताप
standard nutrition unit		मानक पोषाहार एकक, मानक पोषाहार मात्रक	standard test		मानक परीक्षण
standard of living	H.Sc.	निर्वाह स्तर	standard time		मानक समय
standard of rest		विराम-मानक	standard unit		मानक मात्रक
standard of tolerance	Geog.	अनुमेयविसंगति-मानक अनुमेयविसंगति-सहन	standard velocity curve		मानक वेग वक्र
standard parallel		मानक अक्षांश	standard virus		मानक वाइरस मानक विषाणु
standard point group		मानक बिन्दु समूह	standard wire gauge		मानक तार गेज
standard potential		मानक विभव, प्रमाण विभव	standby generator	Phy.	आपातोपयोगी जनित
standard pressure		मानक दाब	standby time	Phy.	सज्जोत्तर काल
standard process		मानक प्रक्रम	standby transmitter		आपातोपयोगी प्रेषित
standard propagation		मानक संचरण	standby unattended time		सज्जोत्तर उपेक्षित काल
standard random variable		मानक यादृच्छिक चर	standing bath	Chem.	स्वायी अवगाह
			standing body of water	Geol.	अप्रवाही जलराशि
			standing crop	Bot.	खड़ी फसल, स्थित शस्य

standing geyser		स्थायी उष्णोत्स, स्थायी गाइजर
standing level		स्थायी तल
standing line negative		स्टैंडिंग लाइन नेगेटिव
standing magnetohy- drodynamic wave	<i>Math.</i>	अप्रगामी चुंबकद्रवगतिक तरंग
standing negative	<i>Geog.</i>	चालू प्रतिचित्र, मुद्रित प्रतिचित्र
standing operating procedure		मानक प्रचालन-प्रक्रिया
standing plate negative		स्थायी प्लेट नेगेटिव
standing stencil		स्थायी स्टेंसिल
standing surface wave		अप्रगामी पृष्ठ तरंग
standing water		अप्रवाही जल
standing wave		अप्रगामी तरंग
standing wave aerial (=standing wave antenna)		अप्रगामी तरंग ऐन्टेना
standing wave detector		अप्रगामी तरंग समूचक
standing wave ratio		अप्रगामी तरंग अनुपात
stand off operation	<i>Math.</i>	दूरवर्ती क्रिया
stand oil	<i>Chem.</i>	प्रस्थ तेल
Stangeria	<i>Bot.</i>	स्टेनजीरिया
<i>Stangeria paradoxa</i>	<i>Bot.</i>	स्टेनजीरिया पॅराडोक्स
stanium	<i>H.Sc.</i>	स्टैनिम
stannane	<i>Chem.</i>	स्टैनेन
stannary	<i>Geog.</i>	रांगे की खान, स्टनरि
stannate	<i>Chem.</i>	स्टैनेट
stannic acid	<i>Chem.</i>	स्टैनिक अम्ल, स्टैनिक ऐसिड
stannic chloride	<i>H.Sc.</i>	स्टैनिक क्लोराइड
stanniferous	<i>Geol.</i>	संगघाटी
stannine	<i>Chem.</i>	स्टैनाइन
stannite	<i>Geol.</i>	स्टैनाइट
stannizing	<i>Chem.</i>	संगन
stannochlor	<i>Chem.</i>	स्टैनोक्लोर

stannometer	<i>Chem.</i>	स्टैनोमीटर
stannous	<i>Chem.</i>	स्टैनस
stannyl chloride	<i>Chem.</i>	स्टैनिल क्लोराइड
stanol	<i>Chem.</i>	स्टैनाॅल
stans	<i>Bot.</i>	खडा, उदर
Stanton's number	<i>Math.</i>	स्टैन्टन-संख्या
stapedial artery	<i>Zool.</i>	स्टैपेडी घमनी
<i>Stapelia variegata</i>	<i>Bot.</i>	स्टैपिलिया वेरीगेटा
stapelia variegator		स्टैपिलिया वेरीगेटर
stapes or stirrup (of ear)	<i>Phy, H Sc.</i>	स्टैपेज, रत्नाव
staphograph	<i>Geog.</i>	स्टैफोग्राफ
Staphylinus	<i>Zool.</i>	स्टैफिलिनम
Staphylococcal infection	<i>Chem.</i>	स्टैफिलोकोकी संक्रमण
staphylococcus	<i>Bot.</i>	स्टैफाइलोकॉकस, गुच्छाणु
<i>Staphylococcus albus</i>		स्टैफाइलोकॉकस ऐल्बस
staple	<i>Chem, H.Sc.</i> (n) तनु, रेशा, अणुक, <i>Geog, Geol</i> (adj) प्रमुख स्टैपिल	
staple article		प्रमुख वस्तु
staple commodity		प्रमुख वस्तु
staple fibre		स्टैपिल रेशा
staple food		प्रमुख आहार
staple land		प्रमुख देश, मुख्य प्रदेश
staple port		प्रमुख बंदर
stapler		तन्तुमीचक, स्टैप्लर
staple rock		प्रमुख शैल
staple town		प्रमुख नगर
stapling machine	<i>Geog.</i>	सारबन्धी मशीन
star	<i>Phy, Math., Geog.</i>	तारा, तारक
star antimony		तारक ऐन्टिमनी
star atlas		तारा मानचित्रावली, तारा ऐटलस
starboard wing	<i>Math.</i>	दक्षिण पंज
star catalogue		तारा सारणी
starch	<i>Bot, H.Sc.</i>	मद्य, स्टार्च



starch and boric poultice		स्टार्च और बोरिक उपनाह	Stark splitting		स्टार्क विभाजन
star chain		ताराकृति शृंखला	starlike		तारावत्
star check	H.Sc.	स्टार चेक	starling	Zool.	तिलियर, स्टारलिंग
starch cellulose		स्टार्च-सैलुलोज	star map		तारा-मानचित्र
starchee organdy finish		मंडलयुक्त आरगंडी परिष्कृति	star network		तारा-जाल
starch granule		मंड-कण, स्टार्च-कण	star of high luminosity		उच्चदीप्ति तारा
starching		मंड लगाना	star of high velocity		उच्चवेगो तारा
starch iodide		स्टार्च आयोडाइड	star of low luminosity		निम्नदीप्ति तारा
starch paste		मंड पेस्ट, स्टार्च पेस्ट	star particle		तारक कण
starch plant		मंड पादप	star-photography calibration		तारा-फोटोग्राफी अंशशोधन
starch poultice		स्टार्च उपनाह	star projection		तारा प्रक्षेप
starch sheath		मंड आच्छद	star prongs		सितारा भुजाएँ, तारक भुजाएँ
starch star		मंड-तारक	starred quantity		तारांकित राशि
starch substitute		मंड प्रतिस्थापी, स्टार्च प्रतिस्थापी	star refinement		तारक-सूक्ष्मकरण
star cloud		तारा-मेघ	star shaped map		ताराकृति मानचित्र
star cluster		तारा गुच्छ	star streaming		तारा-धारा
star complex		तारा सम्मिश्र	star system		तारा निकाय
star count		तारा-गणना	starter	Geol., Phy., Bot.	प्रवर्तक, आरंभक, स्फोटक
star density		तारा-घनत्व	starter circuit		प्रवर्तक परिपथ
star density function		तारा-घनत्व फलन	starter formula		प्रवर्तक सूत्र
star diagram		तारक रेखाचित्र	starting anode		प्रवर्तक ऐनोड
star dialyser		तारापोहक	starting base		प्रारम्भ आधार
star finder		तारा स्थिति-निर्धारक, तारा अन्वेषक	starting bath		आरंभिक अवगाह
starfish	Zool., Geol.	स्टारफिश, तारामीन	starting error		आरंभिक त्रुटि
star frame dyeing		तारक-ढाँचा रजक	starting friction		आरंभिक घर्षण
star grain		तारा काट-संरचना	starting point		आरंभ बिंदु
star graph		तारा ग्राफ	starting resistance		प्रवर्तक प्रतिरोध
star group		तारा-समूह	starting sheet		आरंभिक चादर
star image		तारा प्रतिबिम्ब	starting solution		आरंभिक हल
Stark broadening	Math., Phy.	स्टार्क पृथुलन	starting station		प्रारम्भ-चौंदा
Stark effect		स्टार्क प्रभाव	starting value		आरंभिक मान
Stark effect quantum number		स्टार्क प्रभाव क्वांटम संख्या	starting vortex		आरंभी भ्रमिल
Stark modulation		स्टार्क माडुलन	star tracking		तारा अनुरेखण
			start stop multivibrator		प्रवर्तन निवर्तन बहुकंपिन्न

start time		प्रारम्भ काल	state sum		अवस्था सङ्कलन
start up procedure		प्रवर्तन विधि	state variable		अवस्था चर
start up time		प्रवर्तन काल	stathmograph	<i>Chem.</i>	स्टैथोग्राफ
starved		दुमुक्ति	static		1. स्थिर 2. स्थैतिक 3. विद्युत् स्थैतिक रव
stasigenesis	<i>Zool</i>	स्थिरविकास	<i>statistical friction</i>		स्थैतिक घर्षण
stassanization	<i>Chem</i>	स्टैसनन	statically admissible stress		स्थैतिकन श्राह्य प्रतिबल
Stassano-furnace	<i>Chem</i>	स्टैसानो भट्टी	statically admissible stress field		स्थैतिकन श्राह्य प्रतिबल क्षेत्र
stassfurtite	<i>Geol</i>	स्टास्फुर्टाइट	statically equivalent force		स्थैतिकत. तुल्यबल
Stassfurt salt	<i>Chem</i>	स्टास्फुर्ट-लवण	statical property		स्थैतिक गुणधर्म
Stassfurt salt deposit		स्टास्फुर्ट लवण निक्षेप	static atom		स्थैतिक परमाणु
statampere	<i>Phy.</i>	स्टेट्ऐम्पियर	static balanced surface		स्थैतिक सन्तुलित पृष्ठ
state	<i>Phy., Math Geog.</i>	स्थिति, अवस्था राज्य	static behaviour		स्थैतिक व्यवहार
state cluster		अवस्था गुच्छ	static characteristics		स्थैतिक ब्यभिन्नक्षण
state diagram		स्थिति आरेख	static colloid morphology		स्थैतिक कोलॉइड आकृतिविज्ञान
state function		अवस्था फलन	static deflection		स्थैतिक विक्षेप
state highway	<i>Geog</i>	राज्य महामार्ग	static deterministic model		स्थैतिक निर्धारणात्मक निदर्श
statehood		राज्यपद, राज्यत्व	static dielectric constant		स्थैतिक परावैद्युतांक
stateless person	<i>Geog.</i>	नागरिकताहीन व्यक्ति	static Einstein universe		स्थैतिक आइन्स्टाइन विश्व
state machinery		राज्य शासन व्यवस्था	static electricity		स्थिर विद्युत्
state map		राज्य मानचित्र	static electrode potential		स्थैतिक इलेक्ट्रोड विभव
statement	<i>Phy.</i>	प्रकथन	static equilibrium		स्थैतिक सन्तुलन, स्थैतिक साम्य
state of aggregation		समुच्चयावस्था	static field		स्थैतिक क्षेत्र
state of chaos (randomness)		अस्तव्यस्त अवस्था	static fring		स्थैतिक फायर
state of control		नियंत्रणावस्था	static friction		स्थैतिक घर्षण
state of equilibrium		साम्यावस्था	static gravitational field		स्थैतिक गुरुत्वीय क्षेत्र
state of ground		भू-अवस्था	static head		स्थिर शीर्ष
state of matter		द्रव्य की अवस्था	static hysterisis		स्थैतिक ह्यैसिस
state of sky		आकाश अवस्था			
state of stress		प्रतिबल अवस्था			
state of zero vibration		शून्य कंपन-अवस्था			
state-operated farm	<i>Geog.</i>	सरकारी फार्म			
state parameter		अवस्था प्राचल			
state power		राज्य शक्ति			
state's function		राज्य-कार्य, राजकार			

static keynesian model		स्थैतिक केन्स निदर्श	static unbalance		स्थैतिक असंतुलन
static level		स्थिर तल	static universe		स्थैतिक विश्व
static load		स्थैतिक भार	statiflux		स्टैटीफ्लक्स
static loading		स्थैतिक भारण	station	Geog.	1. प्रेक्षणस्थल 2. केन्द्र 3. स्थान, चांदा
static load line		स्थैतिक लोड रेखा	stationary		अचर, अप्रगामी, स्तब्ध, अचल, स्थानबद्ध, स्थायी, स्थिर, स्थायर
static machine		स्थैतिक मशीन	stationary cavity		स्तब्ध कोटर
static magnetic dipole		स्थैतिक चुंबकीय द्विध्रुव	stationary channel		अप्रगामी प्रणाल
static magnification		स्थैतिक आवर्धन	stationary charge		स्तब्ध आवेश
static margin		स्थैतिक उपांत	stationary condition		स्तब्धता प्रतिबंध
static market		स्थिर विपणि	stationary counter method		स्थिर गणित विधि
static metamorphism		स्थैतिक कायांतरण	stationary curve		स्तब्ध वक्र
static method		स्थैतिक विधि	stationary dune		स्थानबद्ध टिड्ढा
static model		स्थैतिक निदर्श	stationary electrode		स्थिर इलेक्ट्रोड
static moment		स्थैतिक आघूर्ण	stationary field		अचल क्षेत्र
static organ	Zool.	संतुलन अंग	stationary front		स्थिर वाताग्र
static plate resistance		स्थैतिक ऐनोड प्रतिरोध	stationary function		स्तब्ध फलन
static pressure		स्थैतिक दाब	stationary heat flow		स्थिर ऊष्मा प्रवाह
static pressure tube		स्थैतिक नलिका	stationary integral		स्तब्ध समाकल
static probabilistic model		स्थैतिक प्रायिकतात्मक निदर्श	stationary island		स्थानबद्ध द्वीप
static production function		स्थिर उत्पादन फलन	stationary iteration		स्तब्ध पुनरावृत्ति
static pressure		स्थैतिक दाब	stationary level (of atom)		स्थायी ऊर्जा-स्तर
static rejuvenation		स्थैतिक पुनर्युवन	stationary-magnet drum separator		स्थिर डोल पृथक्कर
static resistance		स्थैतिक प्रतिरोध	stationary material		स्तब्ध द्रव्य
static rigidity		स्थिर दृढ़ता	stationary micronucleus		अचल सधुकेन्द्रक
statics	Math.	स्थिति-विज्ञान, स्थैतिकी	stationary nebula		स्तब्ध नीहारिका
static selection of memory		स्मृति का स्थैतिक चयन	stationary net		अचल जाल
static sensitivity		स्थैतिक चुम्बकता	stationary nucleus		अचल केन्द्रक
static sphere		स्थैतिक गोला	stationary orbit		स्थायी कक्षा
static stability	Phy., Zool.	स्थिर स्थायित्व, स्थैतिक स्थायित्व	stationary oscillation		अप्रगामी दोलन
static storage component		स्थैतिक संचयन घटक	stationary particle		स्तब्ध कण
static supply function		स्थिर पूर्ति फलन			
static system		स्थैतिक निकाय			
static test		स्थैतिक परीक्षण			

stationary pattern		अचर प्रतिमान	statistical astronomy	सांख्यिकीय खगोलिकी
stationary periodic flow of heat		स्थिर आवर्ती ऊष्मा प्रवाह	statistical atlas	सांख्यिकीय मानचित्रावली
stationary phase		स्थिर प्रावस्था	statistical average	सांख्यिकीय माध्य, सांख्यिकीय औसत
stationary plane shock wave		अप्रगामी समतल प्रघात तरंग	statistical chart	सांख्यिकीय चार्ट
stationary point		स्थिर बिन्दु	statistical coefficient	सांख्यिकीय गुणांक
stationary population	<i>Math.</i>	स्थायी जनसंख्या	statistical control	सांख्यिकीय नियंत्रण
stationary procaucleus		अचल प्रोक्ल्युस	statistical cost function	सांख्यिकीय लागत फलन
stationary quanta		स्थिर क्वान्टम	statistical data	सांख्यिकीय आंकड़े
stationary random function		अचर यादृच्छिक फलन	statistical demand analysis	सांख्यिकीय माँग विश्लेषण
stationary rotational simple wave		अप्रगामी घूर्णी सरल तरंग	statistical derivative	सांख्यिकीय व्युत्पन्न
stationary screw		अचल स्क्रू, अचल पेच	statistical distribution	सांख्यिकीय बंटन
stationary sequence		स्थिर अनुक्रम	statistical economic information	सांख्यिकीय आर्थिक सूचना
stationary simple wave		अप्रगामी सरल तरंग	statistical economics	सांख्यिकीय अर्थशास्त्र
stationary state		स्थायी अवस्था	statistical engineering	सांख्यिकीय इंजीनियरी
stationary state reaction		अचर अवस्था अभिक्रिया	statistical enquiry	सांख्यिकीय अन्वेषण
stationary stock		स्थिर स्टॉक	statistical equilibrium	सांख्यिकीय सन्तुलन
stationary tangent		स्थिर स्पर्शरेखा	statistical error	सांख्यिकीय त्रुटि
stationary time series		अनुपगत काल श्रेणी	statistical estimation	सांख्यिकीय आकलन
stationary tube culture		अचल नाल संवर्धन, अचल नाल संवर्धन	statistical fluctuation	सांख्यिकीय उन्नादचन
stationary value		स्थिर मान	statistical frequency	सांख्यिकीय बारबारता
stationary wave		अप्रगामी तरंग	statistical graph	सांख्यिकीय ग्राफ़, सांख्यिकीय आलेख
stationary wave tube		अप्रगामी तरंग नलिका	statistical hypothesis	सांख्यिकीय परिकल्पना
station number	<i>Phy.</i>	केंद्र संख्या	statistical independence	सांख्यिकीय स्वतंत्रता
station pointer		केंद्र संकेत, स्टेशन प्वाइन्टर	statistical induction	सांख्यिकीय आगमन
statistic	<i>Math.</i>	प्रतिदर्शन	statistical inference	सांख्यिकीय अनुमिति
statistical	<i>Math, Geog.</i>	सांख्यिकीय	statistical investigation	सांख्यिकीय अन्वेषण
statistical acceleration		सांख्यिकीय त्वरण	statistical investigator	सांख्यिकीय अन्वेषक
statistical acceptance procedure		सांख्यिकीय स्वीकरण क्रियाविधि	statistical limit ( <i>Math.</i> ) (= stochastic limit)	प्रसङ्गात्म सीमा
statistical agglomeration		सांख्यिकीय सघनन	statistically isotropic	सांख्यिकीयतः समरैखिक
statistical analysis		सांख्यिकीय विश्लेषण	statistically significant	सांख्यिकीयतः सार्थक

statistically steady state		सांख्यिकीयतः स्थायी अवस्था	statohydral metamorphism	Geol.	स्थैतिक जलीय कार्यांतरण
statistical map		सांख्यिकीय मानचित्र	statokinetic	Zool.	संतुलनगतिक
statistical mechanics		सांख्यिकीय बल-विज्ञान, सांख्यिकीय यांत्रिकी	statolith	Zool., H.Sc.	संतुलनाश्म
statistical method		सांख्यिकीय विधि	statolith sac		संतुलनाश्म कोष
statistical methodology		सांख्यिकीय विधि-तंत्र	stator	Phy.	स्टेटर
statistical model		सांख्यिकीय निदर्श	statoreceptor	Zool.	स्थिति-संवेदग्राही
statistical parallax		सांख्यिकीय लंघन	stator windings		स्टेटर कुंडलन
statistical physics		सांख्यिकीय भौतिकी	statoscope	Geog.	1. स्टैटोस्कोप, सूक्ष्म वायुदात्रमापी (निद्रव) 2. तुंगतान्तरमापी
statistical population		सांख्यिकीय समष्टि	statospore	Bot.	वासुप्त बीजाणु
statistical potential		सांख्यिकीय विभव	stato-thermal metamorphism	Geol.	स्थैतिक तापीय कार्यांतरण
statistical quality control		सांख्यिकीय गुणता-नियंत्रण	statuary marble	Geol.	मूर्तियोग्य संगमरमर
statistical room acoustics		सांख्यिकीय कक्ष ध्वानिकता	statu-nascendi	Chem.	नवजात अवस्था
statistical series		सांख्यिकीय श्रेणी	statute mile	Geog.	मानक मील
statistical significance		सांख्यिकीय सार्थकता	staublawine	Geog.	स्टॉब्लैवाइन
statistical steady state		सांख्यिकीय स्थायी दशा	Staudinger's system of classification	Chem.	स्टाडडिन्गर वर्गीकरण पद्धति
statistical straggling		सांख्यिकीय विचरण	Staudinger's viscosity equation		स्टाडडिन्गर श्यानता समीकरण
statistical survey		सांख्यिकीय सर्वेक्षण	stauractine	Geol., Zool.	स्टॉरेक्टोन, क्रॉसबरीय
statistical table		सांख्यिकीय सारणी	Stauranderaster	Geol.	स्टॉरैण्डरैस्टर
statistical theory		सांख्यिकीय सिद्धान्त	staurastroid type	Bot.	स्टॉरेस्ट्रमसम प्ररूप
statistical theory of turbulence		सांख्यिकीय प्रलम्भ सिद्धान्त	staurolite	Geol.	स्टॉरोलाइट
statistical tolerance limit		सांख्यिकीय सह्यता सीमा	Stauromedusae	Zool.	स्टॉरोमेडूसी
statistical weight		सांख्यिकीय भार	Stauropteris	Bot.	स्टारोप्टेरिस
statistician		सांख्यिकी-विद्	stauros	Bot.	ताराभ
statistics	Math.	1. (science) सांख्यिकी 2. (data) आंकड़े	stauroscope	Geol.	स्टारोस्कोप
stat. nov. (status nova)	Bot.	नव स्तर	staurotypous	Geol.	क्रासरेखरूपी
stato-acoustic	Geol.	संतुल-ध्वनिक	stave	Chem.	काष्ठिका
statoblast	Zool.	अचलकोरक	staybrite	Chem.	स्टेनाइट (मिश्रधातु)
statocone	Zool. Geol.	संतुलनरेणु संतुलकणिका	stay brite metal	H.Sc.	स्थायी दीप्ति धातु
statocyst	H.Sc., Zool.	संतुलन-भुटी	stay time	Phy.	विश्राम काल
statocystic nerve	Zool.	संतुलनभुटीय तंत्रिका	stay wire	Phy.	ऊर्ध्वस्थापी तार
statocyte	Zool.	संतुलनाणु	steadite	Chem., Geol.	स्टिएटाइट

Stead's reagent	<i>Chem.</i>	स्टैड अभिकर्मक	steam	<i>Chem., Phy., Geog.</i>	भाप, प्रवाप्य
steady	<i>Geog., Math., Phy.</i>	अपरिवर्ती, अचर, स्थिर, स्थायी	steam bath		भापीय तापक, भापीय निमज्जक
steady current		अपरिवर्ती द्वारा	steam bubble		प्रवाप्य बुलबुला
steady cyclic condition		अपरिवर्ती चक्रीय अवस्था	steam calorimeter		भापीय ऊष्मानापी
steady deflection		स्थायी विलेप	steam cooler		स्टीम कुहर, भाप कुहर
steady drain		स्थायी निर्गम	steam distillation		भापीय जामवन
steady employment		स्थिर सेवायोजन	steamed		भाप से पका
steady flow		अपरिवर्ती प्रवाह	steamed meal		साहित अरिय चूर्ण, प्रगाथित अस्थि चूर्ण
steady flow electric calorimeter		अपरिवर्ती प्रवाह वैद्युत ऊष्मानापी	steamed pudding		भाप से पका पुडिंग
steadying pole		स्थिरकारी दंड	steam engine		भाप का इंजन
steady inviscid flow		अपरिवर्ती अश्यान प्रवाह	steamer route	<i>Geog.</i>	स्टीमर मार्ग
steady irrotational flow		अपरिवर्ती अपूर्ण प्रवाह	steamer service		स्टीमर सेवा
steady laminar flow		अपरिवर्ती अप्रसुद्ध प्रवाह	steamer signal		स्टीमर संकेत
steady mass		स्थिर भूतहति, स्थिर भूखंड	steamer station		स्टीमर स्टेशन
steady motion		अपरिवर्ती गति	steam ferry		स्टीम फेरी
steady plastic flow		अपरिवर्ती सुषट्ट प्रवाह	steam funnel		प्रवाप्य-नीप
steady rotatory motion		अपरिवर्ती घूर्णन-गति	steam heating		भापीय तापन
steady state		स्थायी दशा, स्थायी अवस्था	steaming		भाप से पकाना
steady state distribution		स्थायी दशा वितरण	steam inhalation		भाप अभिस्वसन
steady state period		स्थायी दशा अवधि	steam injector		प्रवाप्य अन्त क्षेपित्र, प्रवाप्य इजेक्टर
steady state probability		स्थायी अवस्था प्रायिकता	steam iron		भाप इस्त्री
steady state probability distribution		स्थायी अवस्था प्रायिकता वितरण	steam ironing		भाप इस्त्री करना
steady state problem		स्थायी अवस्था समस्या	steam jacket		भाप जैकेट, भाप आविष्टक
steady state solution		स्थायी अवस्था हल	steam jacketed pan		भाप जैकेटित कड़ाह
steady transport phenomenon		अपरिवर्ती अभिसमन परिघटना	steam line	<i>Phy.</i>	वाष्प-रेख-चक्र
steady trend		अपरिवर्ती उपनति	steam oven		भाप-उष्मक, भाप-तापक
steady wind	<i>Geog.</i>	समनति पवन	steam pan		वाष्प पात्र
steak	<i>II Sc.</i>	स्टीक	steam plate		प्रवाप्य पट्टिका
stealing	<i>Phy.</i>	अपहरण	steam point		भाप बिन्दु
			steam pressing		भाप इस्त्री करना
			steam purge		भाप रेच, प्रवाप्य रेच
			steam refining		प्रवाप्य परिष्करण
			steam rolls		प्रवाप्य रोलर, प्रवाप्य बेलन

steam seal		प्रवाप्य समुद्र, प्रवाप्य सील	Stedman type column	<i>Chem.</i>	स्टैडमैन भांति स्तंभ, स्टैडमन प्ररूप कालम
steamship	<i>Geog.</i>	वाप्य जलयान	steel	<i>Chem., Geol., Phy.</i>	इस्पात, फ़ौलाद
steamship line		जहाज़ मार्ग	steel band	<i>Geol., Geog.</i>	इस्पात फीता
steam stamp		भाप स्टैम्प	steel bin		स्टील बिन, इस्पात धानी
steam sterilizer		प्रवाप्य निर्जमित्त, भाप निर्जमित्त	steel casting		इस्पात संचक
steam stripper		प्रवाप्यी नग्गक, प्रवाप्यी निर्लेपक	steel combine		इस्पात-उद्योग संघ
steam trap		भाप फ़िल्टर	steel core		इस्पाती क्रोड
steam trawler		वाप्य आनायक	steel foot plate		इस्पाती पाद-पट्ट
steam turbine		भाप का टर्बाइन	steel grey		इस्पात घूसर
steam waste		स्टीम अवशिष्ट (रेज़म)	steeloscope	<i>Chem.</i>	स्टीलोस्कोप
steamy atmosphere		वाष्पीय वातावरण	steel pin	<i>Geog.</i>	जूजा
steapsin	<i>H.Sc., Zool.</i>	स्टिप्टेन्सिन	steel ribbon		इस्पाती फीता
stearate	<i>Chem.</i>	स्टिप्टेट	steel scale		इस्पात स्केल
stearated pigment		स्टिप्टेटित वर्णक	steel tank rectifier		इस्पात टंकी दिष्टकारी
stearic acid	<i>Chem.</i>	स्टिप्टेरिक अम्ल, स्टिप्टेरिक एसिड	steel tape		इस्पात फीता
stearine	<i>H.Sc.</i>	स्टिप्टेरिन	steel warp		स्टील वार्प, इस्पाती जहाज-कर्षण रस्ती
stearin pitch		स्टिप्टेरिन डामर	steel wool	<i>Chem., H.Sc.</i>	इस्पात ऊर्ण जूना
stearolic acid	<i>Chem.</i>	स्टिप्टेरॉलिक अम्ल	steel yard	<i>Math.</i>	विषमभुज तुला, स्टीलियार्ड
stearone	<i>Chem.</i>	स्टिप्टेरोन	steenstrupite	<i>Geol.</i>	स्टीन्स्ट्रुपाइट
steatite	<i>Geol., Geog.</i>	स्टीपेटाइट	steep		1. (n.) तिक्तसार 2. (n.) सीधा ढाल, खड़ा ढाल 3. (adj.) अतिप्रवण
steatitic	<i>Geol.</i>	स्टिपेटाइटी	steep ascent (of a curve)	<i>Phy.</i>	अधिक प्रवण आरोह
steatitization	<i>Geol.</i>	स्टिपेटाइटन	steep bank	<i>Geog.</i>	खड़ा किनारा
steatolytic	<i>Bot.</i>	वसांतवनी	steepest ascent design	<i>Math.</i>	प्रवणतम-आरोहण अभिकल्पना
steatopygous race	<i>Geog.</i>	स्थूलनितम्ब प्रजाति	steepest descent		प्रवणतम अवरोहण
steatopygy		स्थूलनितम्बता	steepest descent method		प्रवणतम अवरोह विधि
<i>Steatorinis caripensis</i>	<i>Zool.</i>	स्टिपेटॉनिस कैरिपेन्सिस	steep ground		अतिप्रवण भूमि
Steatornithes	<i>Zool.</i>	स्टीपेटॉनिथीज़	steep inface		खड़ा कगारमुख
steatorrhea	<i>Chem.</i>	स्टिपेटारोभा, वसापुरीय	steeping	<i>Chem., H.Sc.</i>	दुबोना, अवमज्जन
Stebbins and Whitford scale	<i>Math.</i>	स्टेबिन्स वोर विट्फोर्ड-मापक्रम			
steckel mill	<i>Chem.</i>	स्टेकल मिल			
S-tectonite	<i>Geol.</i>	S-टेक्टोनाइट			

steeping press		अवमज्जन सपीडक	Steklov's theorem		स्टेक्लोव प्रमेय
steeple	Geog.	मीनार, शिखर	<i>Stelangium muscorum</i>	Bot	स्टेलैन्जियम मस्कोरम
steep limbed fold	Geol	प्रवण पार्श्वी वलन	stele	Bot	रज
steep-sided ridge	Geog.	अतिप्रवण-पार्श्वी कटक	stellar	Math, Geog.	तारकीय
steep-sided trough		अतिप्रवण-पार्श्वी द्रोणी	stellar aberration		तारकीय अपेरेण
steep shelving		अतिप्रवण ढान	stellar association		तारकीय सस्था
steep sided valley	Geog	प्रपानी घाटी, अतिप्रवण-पार्श्वी घाटी	stellarator	Phy	स्टेलैरेटर
steep slope	Geol.	सीधा ढाल, खड़ा ढाल	stellar constitution		तारकीय रचना
steep twill	H Sc, Chem	खडित रेखिका, खडित द्वाली	stellar density		तारकीय घनत्व
steep walled valley		खडी-भित्ति घाटी	stellar dynamics		तारकीय गतिकी, तारकीय गतिविज्ञान
steerable antenna	Phy	वर्णनीय ऐन्टेना	stellar encounter		तारकीय समागम
steeringbox	Phy.	स्टीयरिंग बॉक्स	stellar energy		तारकीय ऊर्जा
Stefan Boltzmann law	Chem, Phy.	स्टेफॉन बोल्त्स्मान नियम	stellar evolution		तारकीय विकास
Stefan's apparatus		स्टेफॉन-उपकरण	stellar ganglion	Zool.	तारकित गुच्छिका
Stefan's constant		स्टेफॉन-नियतांक	stellar interferometer		तारकीय व्यतिकरणमापी
Stefan's law		स्टेफॉन-नियम	stellar interior	Math	तारातन्माय
Steffens ester process	Chem.	स्टेफेन्स ऐस्टर प्रक्रम	stellar kinematics		तारकीय शब्दगतिकीज्ञान
Steffens process		स्टेफेन्स प्रक्रम	stellar luminosity		तारकीय दीप्ति
steganopodus	Zool.	सुजालपदी	stellar magnetic field		तारकीय चुम्बकीय क्षेत्र
Stegocarpi	Bot	स्टेगोकार्पी	stellar magnitude		तारकीय परिमाण
stegocarpous	Bot.	सच्छद सपुटी	stellar map		तारकीय मानचित्र, तारकीय नक्शा
Stegocephalla	Zool.	स्टेगोसेफेन्विया	stellar matter		तारकीय द्रव्य
Stegodon	Zool	स्टेगोडॉन	stellar model		तारकीय निदर्श
<i>Stegodon ganेशa</i>		स्टेगोडॉन गनेशा	stellar opacity		तारकीय अपारदर्शिता
Stegomastodon	Zool	स्टेगोमैस्टोडॉन	stellar parallax		तारकीय सम्वन
Stegosauria	Zool.	स्टेगोसौरिया	stellar photometry		तारकीय प्रकाशमिति
Stegosaurus	Zool	स्टेगोसौरस	stellar population		तारकीय समष्टि
Stegostoma	Zool.	स्टेगोस्टोमा	stellar radius		तारकीय त्रिज्या
stellwand	Geog.	गुरुत्व ढाल	stellar rotation		तारकीय घूर्णन
Stelner viscometer	Chem.	स्टाइनर श्यानतामापी, स्टाइनर विस्कासिता- मापी	stellar spectrum		तारकीय स्पेक्ट्रम
stelnbachs	H.Sc.	ऐस्त्रेल्डॉफ	stellar structure		तारकीय संरचना
Steinlt's exchange theorem	Math.	स्टाइनिन्स का विनिमय प्रमेय	stellar system		तारकीय तन्काय
Steinmetz coefficient	Phy.	स्टाइन्मेट्ज़ गुणांक	stellar temperature		तारकीय ताप
Steklov function	Math.	स्टेक्लोव-फलन	stellar universe		तारकीय-विश्व
			stellasterol	Zool	स्टिअस्तेरोल



stellate	<i>Bot., Zool., Geol.</i>	ताराकार	stem saw fly		स्तम्भ द्वारा मक्की
stellate cell		ताराकार कोशिका	stem sickness		स्तम्भ क्लॉति
stellate chamber		ताराकार कक्ष	stem spine		स्तम्भ-शूल
stellated		तारांकित	stem stitch	<i>H.Sc.</i>	स्टेम स्टिच
stellate end cell		ताराकार अन्त्य कोशिका	stem tendril		स्तम्भ-प्रतान
stellate ganglion		ताराकार गुच्छिका	stem thorn		स्तम्भ-कंटक
stellate group		ताराकार समूह	stem tuber		स्तम्भ-कन्द
stellate nerve		ताराकार तंत्रिका	stencil		स्टेंसिल
stellate segmentation		ताराकार खंडीभवन	stencil duplicator		स्टेंसिल अनुलिपित्र
stelliform	<i>Bot.</i>	तारारूप	stencil lettering		स्टेंसिल-अक्षरलेखन
stelliformis		तारारूपी	stencil printing		स्टेंसिल मुद्रण, स्टेंसिल छपाई
stellite	<i>Geol.</i>	स्टेलाइट	Stengel ammonium nitrate process	<i>Chem.</i>	स्टेन्जेल अमोनियम नाइट्रेट प्रक्रम
St. Elmo's fire	<i>Geog.</i>	संत एल्मो-प्रदीप्ति (विद्युत्)	Stengel process		स्टेन्जेल प्रक्रम
Stelophytonta	<i>Bot.</i>	स्टिलोफाइटा	stenobaric	<i>Zool.</i>	अल्पदावी, तनुदावी
Steloxylon	<i>Bot.</i>	स्टीलॉक्सिलॉन	stenobathic	<i>Zool.</i>	अल्पगभीरी
stelznerite	<i>Geol.</i>	स्टेल्ज़नेराइट	stenobenthic	<i>Zool.</i>	अल्पनितलीय
stem	<i>Bot.</i>	स्तम्भ, तना	stenocarpous	<i>Bot.</i>	तनुफली
stem anthracnose		स्तम्भ श्यामव्रण	stenochoric	<i>Bot.</i>	तनुकीर्ण
stem blight		स्तम्भ अंगमारी		<i>Zool.</i>	अल्पविस्तारी
stem borer		तना वेधक	stenochory		तनुकीर्णता
stem correction	<i>Phy.</i>	खुली डंडी का संशोधन, अतप्रांश संशोधन	Stenocyphus	<i>Zool.</i>	स्टेनोसाइफ़स
stem end		स्तम्भ अंत	stenohaline	<i>Geog., Geol.</i>	तनुलवणी
stem end rot		स्तम्भाग्र विगलन	stenohaline animal		तनुलवणी प्राणी
stem fiber	<i>H.Sc.</i>	स्टेम रेशा	stenohaline organism		तनुलवणी जीव
stem gall		स्तम्भ पिटिका	stenohydric	<i>Zool.</i>	अल्पजलीय, तनुजलीय
stem gap		स्तम्भ अंग	stenohygric	<i>Zool.</i>	अल्पार्द्रा
stem holder		तना आधार	stenol	<i>Chem.</i>	स्टेनॉल
stem less		स्तम्भहीन, तनाहीन	stenocious	<i>Zool.</i>	अल्पावासी
stemma (stemma)	<i>Zool.</i>	चक्षुक	stenolysis	<i>Chem.</i>	केशिकांगन
stemming	<i>Geol.</i>	स्टेमन	stenonotal	<i>Zool.</i>	तनुवक्षपृष्ठकी
stem nematode		स्तम्भ सूत्रकृमि	stenopalynous	<i>Bot.</i>	अल्पत्रिध परागी
stem mottle		तना कर्बुरता	stenopetalous	<i>Bot.</i>	तनुदली
stem of the igneous rock	<i>Geol.</i>	वाग्नेयशैल-मूल	stenophagous	<i>Bot., Zool.</i>	तनुभक्षी, अल्पविधभक्षी
stem of thermometer	<i>Phy.</i>	तापमापी की नली, थर्मामीटर की नली	stenophotic	<i>Bot., Geol.</i>	तनुप्रकाशी

stenophotic organism		तनुप्रकाशी जीव	stephanite	Geol.	स्टेफ़नाइट
stenophyllism	Bot	तनुपर्णता	Stephanoceras	Geol.	स्टेफ़ेनोसिरेस
stenophyllous		तनुपर्णी	stephanocolpate	Bot.	किरीट विदरकी
stenopodium	Zool	तनुपाद	stephanokont	Bot	किरीटनशांभिका
Stenopora	Geol	स्टेनोपोरा	Stephanokontae	Bot	स्टेफ़ेनोकोन्टी
stenosis	Bot	संकोचन	stephanoporate	Bot	किरीट मुखकी
stenotele	Zool	तनुअन्त	Stephanospermum	Bot	स्टेफ़ेनोस्पर्मस
stenothermal	Zool ,Geol.	तनुतापी	Stephanospermum akenoides		स्टेफ़ेनोस्पर्मस ऐकीनिऑइड्स
stenothermic	Biol ,Geog , Geol.	तनुतापी	stephanotis floribunda	Bot	स्टेफ़ेनोटिस पलोरीबडा
stenothermic organism		तनुतापी जीव	step out	Geol.	स्टेप आउट, शक्ति विचलन
stenothermy		तनुतापना	steppe	Geog.	स्टेप
stenotopic	Zool ,Geol	तनुस्थैतिक, अल्पस्थैतिक	stepped drop		क्षोणित बिन्दु
stenotropic	Bot ,Zool	अल्पानुकूली	stepped extrusion		क्षोणित उत्सारण
stenoxenous	Bot.	तनुषोषको	steppe heath		स्टेप अजोतभूमि, स्टेपहीथ
stenter (tenter)	Chem , H Sc.	तन्नित्र, स्टेन्टर	steppenbeide	Geog	स्टेपनहीड
Stentor	Zool	स्टेन्टर	steppe vegetation		स्टेप-वनस्पति
stentorg	Geog.	स्टेन्टार्ग	stepping	Geol.	क्षोणन
step		पग, क्षोणन, चरण, पद	stepping method		क्षोणनी विधि
step attenuator		पदीय क्षोणकारी	stepping stone method	Math	क्षयमापक विधि
step by step calculation		चरणश परिकलन	step principle		क्षोणन नियम, क्षोणनी नियम
step by step method	Phy.	क्रमिक विधि	step recovery diode		क्षोणन पुनरावदन डायोड
step-cut		क्षोणनी काट	step reef		क्षोणनी रीफ
step-cutter		स्टेप कटर, पदकर्तक	step relay		क्षोणनी रिरे
step down transformer	Phy ,H.Sc.	अपचायी परिणामित्र, अपचायी ट्रान्स्फार्मर	step rocket		क्षोणनी राकेट
step fault		क्षोणनी भ्रम	step screen	Geol.	स्टेप स्क्रीन, शमबद्ध छन्ना
step faulting		क्षोणनी भ्रमन	step sector disc		पद घण्ट मण्डलक
step function		पग फलन, क्षोणन फलन	step signal		पद संकेत
step gate		क्षोणन द्वार	stepoe	Geol.,Geog.	स्टेप्टो
step gauge		क्षोणन प्रमापी, स्टेप प्रमापी	step up ratio	Phy.	उच्चयन अनुपात
stephaniacold skeleton	Geol.	किरीटी कंकाल	step up transformer		उच्चायी परिवर्णामित्र, उच्चायी ट्रान्स्फार्मर
stephanie lace	H.Sc.	स्टेफ़ेनी लेस	step vein		क्षोणनी शिरा
Stephanella	Bot	स्टेफ़ेनिएला	step voltage		क्षोणन वोल्टता
			step wave		क्षोणन तरंग

step wedge penetrometer		सोपान-फान-पेनिट्रामीटर	Stereocalaceae	Bot.	स्टीरिओकैलेसी
stepwise discharge		पदशः विसर्जनं, पदशः डिस्चार्ज	stereo-cartographer		त्रिविम-मानचित्रकार
stepwise dissociation		पदशः वियोजन	stereochemistry		त्रिविम रसायन
stepwise equilibrium		पदशः साम्य, पदशः साम्यावस्था	<i>Stereocidaris indica</i>	Zool.	स्टीरिओसाइडेरिस इन्डिका
stepwise formation constant		पदशः संभवन स्थिरांक	stereocilia	Zool.	दृढपक्ष्माभ
stepwise synthesis	Zool.	चरणगत संश्लेषण	stereocomparator	Geog.	तुलनाघनदर्शी, स्टीरिओकम्परेटर
steradian	Phy.	स्टिरेडियन	stereocomparograph	Geog.	स्टीरिओकम्पेरोग्राफ
steradiancy	Phy.	विकिरण उत्सर्जकता	stereogastrula	Zool.	घनकन्दुक
stercobilin	Chem.	स्टर्कोबाइलिन	stereogram	Geog.	त्रिविमचित्र, त्रिविम वारेख
stercobilinogin	Chem.	स्टर्कोबाइलिनोजिन	stereographic fusion		त्रिविम लयन
Stercorariidae	Bot.	स्टेरकोरैरिआइडी	stereographic projection		त्रिविम प्रक्षेप
stercorite	Geol.	स्टेरकोराइट	stereographic radial scale		त्रिविम अरोय मापक
Sterculiaceae	Bot.	स्टर्क्यूलिएसी	stereographic transformation (=stereographic projection)		त्रिविम प्रक्षेप
<i>Sterculia foetida</i>		स्टर्क्यूलिया फ्रीटिडा	stereoisomer		त्रिविम समावयवी
<i>Sterculia trichosiphon</i>		स्टर्क्यूलिआ ट्राइकोसाइफॉन	stereoisomeric form		त्रिविम समावयवी रूप
<i>Sterculia urees</i>		स्टर्क्यूलिआ यूरेन्स	stereo isomerism		त्रिविम समावयवता
<i>Sterculia villosa</i>		स्टर्क्यूलिआ विलोसा	stereokinesis	Zool.	घनगतिक्रम
sterculic acid	Chem.	स्टर्क्यूलिक अम्ल	stereoline glutinant	Zool.	स्टीरिओलाइन ग्लुटिनेट, घनसूत्र श्लेषी
stereid	Bot.	दृढ कोशिका	stereom	Bot.	अवलंबीतक
stereid bundle		दृढकोशिका-पूल, दृढकोशिका-बंडल	stereomat	Geog.	स्टीरियोमेट
stereo		स्टीरियो, त्रिविम	stereometal		स्टीरियो-धातु
stereo amplifier		स्टीरिओ प्रवर्धक, त्रिविम ध्वनि प्रवर्धक	stereometer	Geog.	स्टीरिओमीटर
stereoautograph		स्टीरियोऑटोग्राफ	stereometric theory		त्रिविममितीय सिद्धान्त
stereoblastula	Zool.	स्टीरिओब्लास्टूला, घनकोरक	stereometry		त्रिविममिति
stereo block polymer		त्रिविम खंड बहुलक	stereo-microscope		त्रिविम सूक्ष्मदर्शी
stereo broadcasting		स्टीरिओ प्रसारण, त्रिविम ध्वनि प्रसारण	stereo model		त्रिविम मॉडल
			stereo pair		त्रिविम युगल
			stereophonic effect		त्रिविम ध्वनि प्रभाव
			stereophonic recording		त्रिविम ध्वनि अभिलेखन

stereophonic reproduction	त्रिविम ध्वनि पुनरुत्पादन	stereoscopic viewing system	स्टीरियोस्कोपी दृष्टि तंत्र
stereophonic sound system	त्रिविम ध्वनि प्रक्षेप व्यवस्था	stereoscopic vision	त्रिविम दृष्टि
stereophonic system	त्रिविम ध्वनि व्यवस्था	stereospecific	त्रिविम विशिष्ट
stereophotogrammetry <i>Geog</i>	स्टीरियोफोटोग्राममिति	stereospecifically	त्रिविम-विशिष्टतः
stereo-photography	त्रिविम फोटोग्राफी	stereospecific catalyst	त्रिविम-विशिष्ट उत्प्रेरक
stereophotometer	त्रिविम प्रकाशमापी	stereospecificity	त्रिविम-विशिष्टता
stereoplanigraph <i>Geog</i>	स्टीरियोप्लैनीग्राफ	stereosphere <i>Geol</i>	स्थलमंडल
stereoplasm <i>Zool.</i>	घनद्रव्य	Stereospondyli <i>Zool</i>	स्टीरियोस्पॉन्डाइली
stereoplotter	स्टीरियो आलेखित्र, स्टीरियोप्लॉटर	stereospondylous <i>Zool</i>	स्टीरियोस्पॉन्डाइलम, मुक्तनशेहरीय
stereoplotting	त्रिविम आलेखन	stereotaxis <i>Zool</i>	घनानुचलन
stereoplotting instrument	त्रिविम आलेखन यंत्र	stereo triplet <i>Geol.</i>	त्रिविम त्रिक
stereoplotting machine	त्रिविम आलेखन मशीन	stereotropic <i>Biol</i>	घनानुवर्ती
stereo-power	त्रिविम-दर्शन-क्षमता	stereotropic response	घनानुवर्ती अनुक्रिया
stereoptics	त्रिविम चाक्षुषी	stereotropism	घनानुवर्तन
stereoregular polymer	त्रिविम-नियमित बहुलक	stereotyped behaviour <i>Zool</i>	रूढ व्यवहार
stereoscope <i>Geog.,Phy</i>	त्रिविमदर्शी, स्टीरियोस्कोप	stereotyped metal <i>Geol</i>	अनिष्टीम मुद्रण धातु
stereoscopic <i>Geol.,Phy., Geog</i>	त्रिविमी	stereotyper <i>Geog</i>	स्टीरियोटाइपर
stereoscopic camera	त्रिविम कैमरा	stereotyping	स्टीरियोटाइपिंग
stereoscopic height	त्रिविम ऊंचाई	stereovision	त्रिविम दृष्टि
stereoscopic image	त्रिविम प्रतिबिम्ब	stereum <i>Bot</i>	स्टीरियम
stereoscopic Intersection	त्रिविम प्रतिच्छेदन	steric	त्रिविमी
stereoscopic microscope	त्रिविम सूक्ष्मदर्शी	steric acceleration	त्रिविमविन्यासी त्वरण, मिटरिक त्वरण
stereoscopic model	त्रिविमदर्शी मॉडल	steric factor	1 त्रिविमविन्यास कारक, मिटरिक कारक 2. त्रिविम विन्यासी गुणक
stereoscopic pair of projection	त्रिविम प्रक्षेप युग्म	steric hindrance	त्रिविम विन्यासी बाधा
stereoscopic range	त्रिविम पराम	steric repulsion	त्रिविम प्रतिकर्षण
stereoscopic range finder	त्रिविम रेंजफाइंडर, त्रिविम दूरिज्ञ	steric specificity	त्रिविम विशिष्टता
stereoscopic telescope	त्रिविम दूरबीन, त्रिविम दूरदर्शक	sterigma <i>Bot.</i>	प्रागुन
stereoscopic television	त्रिविमदर्शी टेलीविजन	sterigmatoid	प्रागुनसम
		sterile <i>Zool.,Bot., H.Sc.</i>	1. निर्जर्म, रोगाणुरहित 2. अनुवंर 3. बध्य
		sterile bract	बध्य सहपत्र
		sterile caste	बध्य जाति
		sterile culture	निर्जर्म संवर्धन

sterile distribution		बंध्य वितरण	sternoclavicular ligament		उरोस्थिजत्रुक स्नायु
sterile immunity		बंध्य प्रतिरक्षा	sternocleidomastoid	Zool.	उरोजत्रुक कण्मूलिका
sterile sand		अनुर्वर बालू	sternohyoid	Zool.	उरोस्थि-कंठिका, स्टर्नोहाइड्राइड
sterile telome		बंध्य टीलम	sternohyoideus (abdominohyoideus)		स्टर्नोहाइड्रियस, उरोस्थिकंठिका पेशी (उरकंठिका पेशी)
sterilis		बंध्य	sternomastoid muscle	Zool.	उरोकण्मूलिका पेशी
sterilise		अनुर्वर करना	sternopleura	Zool.	अधरकपाश्वंक
sterility	Bot., H.Sc.	बंध्यता, अनुर्वरता रोगाणुहीनता	sternopleural		अधरकपाश्वंकीय
sterilization		बंध्यकरण, अनुर्वरीकरण	sternopleural muscle		अधरकपाश्वंकीय पेशी
sterilization (of instruments)		निर्जर्मकरण, रोगाणुनाशन	sternopleural region		अधरकपाश्वंक क्षेत्र
sterilize		रोगाणुरहित करना, निर्जर्म करना, बंध्य करना	sternopleurite		अधरकपाश्वंकांश
sterilized		निर्जर्मित, बंध्यीकृत	sternotracheal muscle	Zool.	उरोस्थिश्वासनली पेशी, उरोस्थिवातक पेशी
sterilizer		निर्जर्मक, रोगाणुहर	sternotribe	Bot.	अधर परागक्षेपी
sterling area	Geog.	स्टर्लिंग क्षेत्र	Stern Pirani gauge	Phy.	स्टर्न-पिरानी गेज
Sterling-Bidwell moisture apparatus	Chem.	स्टर्लिंग बिडवेल आर्द्रता उपकरण	Stern's absorption potential		स्टर्न अवचूषण विभव
Sterling's formula		स्टर्लिंग सूत्र	Stern's theory		स्टर्न सिद्धान्त
Sterling's process		स्टर्लिंग प्रक्रम	Stern's value		स्टर्न मूल्य
stem abscission	Bot.	स्तम्भ-दिगलन	sternum	Zool., Geol.	1. उरोस्थि, स्टर्नम 2. अधरक
Sterna acuticauda	Zool.	स्टर्ना ऐक्वूटीकौडा	sternutator	Chem.	छिन्नकायक
Sterna aurantia		स्टर्ना औरेंशिया (टिहरी, कुरी)	Stern Volmer reaction	Chem.	स्टर्न फॉल्मर अभिक्रिया
sternal artery	Zool.	अधरकीय धमनी	sterocholic acid	Chem.	स्टैरोकोलिक अम्ल
sternal cirri		अधरक कुरल	steroid	Chem.	स्टैरोयड
sternal rib	Zool.	उरोस्थि-पशुंका	steroid hormone		स्टैरोयड हार्मोन
sternal shield		अधरकीय ढाल	sterol	Chem., H.Sc.	स्टैरॉल
sternaspis	Zool.	स्टर्नस्पिस	sterol ester		स्टैरॉल ऐस्टर
sternebra	Zool.	उरोस्थि-बंद, स्टर्नब्रा	*Sterope (k, l, Tauri)	Astron.	स्टैरोपी (k, l वृष, k, l टॉराइ)
sternellum	Zool.	उपाधरक	sterraster		घन-तारक
sternepisternum	Zool.	स्टर्नपिस्टर्नम, अधरकाग्रपाश्वंक	sterrhophil	Bot.	मूररागी पादप
Stern-Gerlach experiment	Chem.	स्टर्न गल्लक प्रयोग	sterrhophilous		मूररागी
Stern-Grahme model	Chem.	स्टर्न-ग्रेहमे माडेल	sterri	Chem.	स्टैरी
sternite	Zool.	अधरकांग	sterro metal	Geol., Chem.	स्टैरो धातु
sterno-clavicular joint	Zool.	उरोस्थिजत्रुक सन्धि			

Sterromonads	Zool.	स्टेरोमोनास	sticking probability		अनुलगन प्रायिकता
stethoscope	Bot.	स्टेथोस्कोप	stick insect		यष्टि-कीट
Stevens rearrangement	Chem.	स्टिवेन्स पुनर्विन्यास	stick lac	Chem., Zool.	शाख लाला, स्टिक लैक
Stevenson screen	Geog.	स्टीवेंसन स्क्रीन	stickleback	Zool.	स्टिकलबैक
steviol	Chem.	स्टेवियॉल	stick or thick liquor	(Photo-Chem.)	चिपचिपा द्राव, गाढ़ा द्राव
Stewart's organ	Zool.	स्टीवर्ट अंग	stick water		स्टिक जल
Stewart-Talman effect	Math.	स्ट्यूअर्ट टालमैन प्रभाव	sticky collision	Phy.	अनुलगनी संघट्ट
stewing	Chem., H.Sc.	स्ट्यूअन, स्ट्यूकरण, स्टू करना	sticky nucleus	Phy.	अपारण न्युक्लियस, कृष्ण न्युक्लियस
stibamine	Chem.	स्टिबैमीन	(= opaque nucleus = black nucleus)		
stibiconite	Geol.	स्टिविकोनाइट	sticky solution		चिपचिपा घोल
stibine		स्टिविन	stitch regulator	H.Sc.	टाका-नियामक
stibiopalladinite	Geol., Chem.	स्टिबिओपैलेडिनाइट	Stictaceae	Bot.	स्टिकटेसी
stibium	Chem.	स्टिवियम	<i>Sticta fuliginosa</i>	Bot.	स्टिकटा फुलीजिनोसा
stibnite	Chem., Geol.	स्टिब्नाइट	Stiefel mill	Chem.	स्टीफेल मिल
stibonium base	Chem.	स्टिवोनियम बेस	Stieglitz rearrangement	Chem.	स्टीगलिट्स पुनर्विन्यास
stibophen	Chem.	स्टिबफेन	Stieltje's integral	Math.	स्टील्जे-समाकल
Stichidium	Bot.	स्टाइकीडियम	stiff	Chem., Geog., H.Sc.	कड़ा, दुर्नम्य, दृढ़, सख्त
stichobasidium	Bot.	स्टाइकोबेसिडियम	stiff bract		दृढ़ सहलग्न
stichochrome	Zool.	पञ्चितवर्ण	stiff clay		दृढ़ मृत्तिका
Stichococcus	Bot.	स्टाइकोकोक्कम	stiffening		1. सख्त 2. कठिनन, कड़ा करना
stichocytoid	Geol.	सरलवक्रित	stiffer pen		दृढ़तर लेखनी, दृढ़तर पेन
stichocyte	Zool.	पञ्चितकोशिका, स्टिकोसाइट	stiff frame		दृढ़ ढांचा
stichonematic flagellum	Zool.	स्टिकोनोमैटिक कशाप, पञ्चितमूली कशाप	stiff mod process		संदृढ़ पक्क प्रक्रम
<i>Stichopus chloronotus</i>	Zool.	स्टीकोपस क्लोरोनोटस	stiffness	H.Sc.	दुर्नम्यता, कड़ापन
stichosome	Zool.	पञ्चितकाय	stiffness constant		दुर्नम्यता गुणांक
Stichostegia	Geol.	स्टिकोस्टीगिया	stiffness reactance		दुर्नम्यता प्रतिघात
stick	Chem.	यष्टि	stiff paper		कड़ा कागज
sticker	Chem.	चिपकू, सलागी	<i>Stigeoclonium tenue</i>	Bot.	स्टाइजिओक्लोनोनियम टेनुई
sticking		संलगन			
sticking action	Phy.	अनुलगनी क्रिया			
sticking down		चिपचाना			
sticking potential		अनुलगनी विभव			

stigma	<i>H.Sc., Zool.</i>	1. दृक्बिन्दु (eye-spot) 2. श्वासछिद्र (of trachea) 3. क्लोमछिद्र (of tunicate) 4. पक्षविन्दु (of wing) 5. वृत्तिकाग्र (of flower)	<i>H.Sc., Bot.</i>	स्टिग्माफ़िलॉन सिलिएटम	stilb	<i>Phy.</i>	स्टिल्व
<i>Stigmaphyllon ciliatum</i>	<i>Bot.</i>	स्टिग्माफ़िलॉन सिलिएटम		स्टिग्माफ़िलॉन पेरोप्लोसीफ़ोलियम	Stilbellaceae	<i>Bot.</i>	स्टिल्विलेसी
<i>Stigmaphyllon periplocifolium</i>		स्टिग्माफ़िलॉन पेरोप्लोसीफ़ोलियम		स्टिग्माफ़िलॉन पेरोप्लोसीफ़ोलियम	stilbene	<i>Chem.</i>	स्टिलवीन
stigmata	<i>Bot.</i>	स्टिग्मेटिया		स्टिग्मेटिया रावटियानाइ	stilbestrol	<i>Chem.</i>	स्टिलवेस्ट्रॉल
stigmarian axes		स्टिग्मेटिया अक्ष		स्टिग्मेटिया अक्ष	stilbite		स्टिलवाइट
stigmarian rootstock		स्टिग्मेटिया प्रकंद		स्टिग्मेटिया प्रकंद	still	<i>Chem., Geog., Phy.</i>	(n.) भ्रमका, आसोत्र (adj.) अचल, अचल दृश्य
stigmaterol	<i>Chem.</i>	सत्यस्टेरॉल, स्टिग्मैस्टेरॉल		सत्यस्टेरॉल, स्टिग्मैस्टेरॉल	still art	<i>Phy.</i>	स्थिर चित्र
<i>Stigmatea robertiani</i>	<i>Bot.</i>	स्टिग्मेटिया रावटियानाइ		स्टिग्मेटिया रावटियानाइ	still birth	<i>H.Sc.</i>	मृतजन्म
stigmatic	<i>Phy. Bot.</i>	विन्दुक वृत्तिकाग्री		विन्दुक वृत्तिकाग्री	still coke		आसोत्र कोक
stigmatic cord	<i>Zool.</i>	श्वासछिद्री रज्जु		श्वासछिद्री रज्जु	stillie acid	<i>Chem.</i>	स्टिलिन्जिक एसिड
stigmatic focussing		विन्दुक फ़ोकसन		विन्दुक फ़ोकसन	still photograph		अचल चित्र, अचल फ़ोटो
stigmatic head		वृत्तिकाग्र शीर्ष		वृत्तिकाग्र शीर्ष	still photography		अचल फ़ोटोग्राफी
stigmatic scar		श्वासछिद्री चिह्न		श्वासछिद्री चिह्न	stillstand	<i>Geog.</i>	अचर, अचल
stigmatic spectrograph	<i>Phy.</i>	अविन्दुकताहीन स्पेक्ट्रोग्राफ़		अविन्दुकताहीन स्पेक्ट्रोग्राफ़	still water	<i>Geog.</i>	स्थिर जल
stigmatic system		विन्दुक तंत्र		विन्दुक तंत्र	Stilocalamites	<i>Bot.</i>	स्टाइलोकैलेमाइटीज
stigmatic tissue		वृत्तिकाग्री ऊतक		वृत्तिकाग्री ऊतक	stilpnomelane	<i>Geol.</i>	स्टिल्पनोमेलेन
stigmatiformis		वृत्तिकाग्ररूपी		वृत्तिकाग्ररूपी	stilt		स्टिल्ट, प्रवालपद
stigmatism	<i>Phy.</i>	विन्दुकता		विन्दुकता	stilt bristle	<i>Bot.</i>	अवस्तम्भ शूक
stigmatocyst	<i>Bot.</i>	मुंडकोशिका		मुंडकोशिका	stilt bug	<i>Zool.</i>	लम्बपाद मत्सुकुण
<i>Stigmatomyces baeri</i>	<i>Bot.</i>	स्टिग्मैटोमाइसीज बेअराइ		स्टिग्मैटोमाइसीज बेअराइ	stilt root		अवस्तम्भ मूल
<i>Stigmatomycetes</i>	<i>Bot.</i>	स्टिग्मैटोमाइसीटीज		स्टिग्मैटोमाइसीटीज	stilus columellae	<i>Zool.</i>	स्तम्भिका शूक
stigmatoid tissue	<i>Bot.</i>	वृत्तिकाग्री ऊतक		वृत्तिकाग्री ऊतक	stimmi	<i>Chem.</i>	स्टिमी, स्टिम्मी
stigmatopod	<i>Bot.</i>	समुंडपाद		समुंडपाद	Stimmi Anglicum (Borradaie graphite)	<i>Chem.</i>	स्टिम्मी एंग्लिकम
Stigmella	<i>Zool.</i>	स्टिग्मेल्ला		स्टिग्मेल्ला	stimulant	<i>Chem.</i>	उत्तेजक, उद्दीपक
<i>Stigonema mamillosum</i>	<i>Bot.</i>	स्टाइगोनीमा मैमीलोसम		स्टाइगोनीमा मैमीलोसम	stimulate		उद्दीपित करना
					stimulated emission		उद्दीपित उत्सर्जन
					stimulating zone		उद्दीपन-क्षेत्र
					stimulation		उद्दीपन
					stimulator		उद्दीपक
					stimulator organ		उद्दीपक अंग
					stimulus	<i>Biol., H.Sc.</i>	1. उद्दीपक 2. उद्दीपन
					stimulus response system		उद्दीपन अनुक्रिया तंत्र
					sting	<i>Zool., Phy.</i>	दंश, डंक

stinger	<i>Geol.</i>	स्टिगर	stipulated producer's risk		अनुबद्ध उत्पादक-बोझिम
stinging apparatus	<i>Geog, Zool</i>	दशन-तंत्र	stipule	<i>Bot.</i>	अनुपर्ण
stinging capsule		दशन पुटक	stipulode		अनुपर्णक
stinging cell		दशन कोशिका	stir		विनोदन करना, हिनाना
stinging coral		दशन प्रवाल	Stirling's approximation	<i>Math.</i>	स्टर्लिंग सन्निकटन
stinging insect		दक कीट	Stirling series		स्टर्लिंग श्रेणी
sting nematode		दक सूचकृमि	Stirling's formula		स्टर्लिंग सूत्र
sting-out	<i>Chem (Gl)</i>	अपज्वाल	Stirling's theorem		स्टर्लिंग प्रमेय
sting ray	<i>Zool</i>	दश-रे, दश शंकुश	stirodont	<i>Zool</i>	सबूडरती
stink fluss		स्टिन्कफ्लुस	stirrer	<i>Phy, H Sc</i>	विलोडक
stink fly	<i>Zool</i>	पूदि मसी	stirring		विलोडन
stink gland		पूति ग्रन्थि	stirrup (of balance)	<i>Chem, Ph</i>	रस्त्र
stinkhorn		पूतिकवक	<i>Stertonia obvallata</i>	<i>Bot.</i>	स्टर्टोनिया ओबवैलेटा
stinking smut	<i>Bot</i>	दुर्गन्धी कड	stitch	<i>Chem, H Sc.</i>	टाका, मीचन, स्टिच
stinkstone		पूतिप्रस्तर	stitching	<i>H Sc</i>	सिजाई
stint	<i>Zool.</i>	जलरक	stitch meal		स्टिच भोल
<i>Stipa comata</i>	<i>Bot</i>	स्टाइपा कोमेटा	stitch missing		टाका छूटना
stipe	<i>Bot, H Sc.</i>	धृत, छत्रिशावृत	stitch regulator		टाका नियामक
stipel	<i>Bot</i>	अनुपर्णिका	stitch welding		मीचन मधान
stipes	<i>Zool</i>	स्टाइपीड	<i>St. Luke's summer</i>	<i>Geog.</i>	संत लूक-शीष्म
stipital flexor muscle	<i>Zool</i>	स्टाइपिटल आकरोचनी पेनी	<i>St. Martin's summer</i>	<i>Geog</i>	संत मार्टिन-शीष्म
stipital muscle		स्टाइपिटल पेनी	Stobbe condensation	<i>Chem</i>	स्टोबे सघनन
stipitate pileus	<i>Bot</i>	वृक्षो छत्र	<i>Stobbe reaction</i>		स्टोबे अभिक्रिया
stipitatic acid	<i>Chem</i>	स्टिपिटेटिक अम्ल	stochastic	<i>Math.</i>	स्टोस्टिच, प्रसमाप्य
stipple	<i>Geog.</i>	बिन्दुचित्रण, स्टिपल	stochastic continuity		प्रसमाप्य मान्य
stippled finish	<i>H Sc.</i>	बर्चुरिन परिष्कृति	stochastic convergence		प्रसमाप्य अभिसरण
stippler		स्टिपलर, बर्चुरक	stochastic dependence		प्रसमाप्य आश्रितता
stipple roller	<i>Chem.</i>	दन्तुर बेचन	stochastic difference equation		प्रसमाप्य अंतर समीकरण
stippling technique		बिन्दुचित्रण तकनीक	stochastic differentiability		प्रसमाप्य अवकलनीयता
stipular thorn	<i>Bot</i>	अनुपर्णी वटक	stochastic differentiation		प्रसमाप्य अवकलन
stipulate		अनुपर्णी			
stipulated consumer's risk	<i>Math</i>	अनुबद्ध उपभोक्ता- बोझिम			
stipulated course		अनुबद्ध पाठ्यक्रम			
stipulated maximum number		अनुबद्ध अधिकतम संख्या			



stochastic disturbance	प्रसंभाव्य विक्षोभ	stocking	Zool. H.Sc.	1. संग्रहण 2. स्टॉकिंग
stochastic integrability	प्रसंभाव्य समाकलनीयता	stocking pond		संग्रहण-ताल
stochastic integration	प्रसंभाव्य समाकलन	stock investment	H.Sc.	स्टॉक विनिधान
stochastic limit	प्रसंभाव्य सीमा	stock line		संभारतल
stochastic linear autoregression	प्रसंभाव्य रेखिक स्वसमाश्रयण	stock map		पशुधन-मानचित्र
stochastic matrix	प्रसंभाव्य आव्यूह	stock pile	Geol.	संचित पुंज
stochastic method	स्टोकेस्टिक विधि, प्रसंभाव्य विधि	stock pot	Geog.,H.Sc.	पाक-पात्र, स्टॉकपाँट
stochastic model	प्रसंभाव्य निदर्श	stock rearing		पशु पालन
stochastic parameter	प्रसंभाव्य प्राचल	stock route		पशु मार्ग
stochastic process	प्रसंभाव्य प्रक्रम	Stock's apparatus		स्टॉक उपकरण
stochastic programming	प्रसंभाव्य प्रोग्रामन	stock shaped mass		स्कंधरूपी संहति
stochastics	प्रसंभाव्यता	stock solution		संभार विलयन, संग्रहविलयन
stochastic scheme	प्रसंभाव्य योजना	stock vat		संभार वेट
stochastic sequencing problem	प्रसंभाव्य अनुक्रमिक समस्या	stock-water pond	Geog.	जल-संग्रह ताल
stochastic term	प्रसंभाव्य पद	stockwork	Geol.	शिरिका जाल, लघुशिराजाल
stochastic variable	प्रसंभाव्य चर	stockyard	Geog.	पशु प्रांगण, स्टॉक यार्ड
stock	Bot.,Geol. Chem.(Food) Zool. Geog. H.Sc.	Stoddard solvent	Chem.	स्टॉडर्ड विलायक
	स्कन्ध सामान, स्टॉक प्रभव पशुधन स्टाक	stoichiometric coefficient	Phy.	उचित तत्त्वानुपाती गुणांक
stockade	Geog.	stoichiometric composition	Chem.	स्टॉइकियोमीट्री संघटन, रससमीकरणमितीय संघटन
	काष्ठ भित्ति, काष्ठ घेरा	stoichiometric concentration		रससमीकरणमितीय सांद्रता, स्टॉइकियोमीट्री सांद्रता
stock and share		stoichiometric proportion		स्टॉइकियोमीट्री अनुपाती
stock breeder		stoichiometric ratio		रससमीकरणमितीय अनुपात, स्टॉइकियोमीट्री अनुपात
stock concentrates		stoichiometric valency		रससमीकरणमितीय संयोजकता, स्टॉइकियोमीट्री संयोजकता
stock converter	Chem.	stoichiometry	Chem.	रससमीकरणमिति, स्टॉइकियोमीट्री
	संभार रूपांतरित, स्टॉक रूपांतरित		Phy.	उचित तत्त्वानुपातिकी
stock dyeing		stoic metal	Phy.	स्टोइक धातु
stock figure		stoke (unit of viscosity)	Chem.,Phy.	स्टोक
stock flow distributor				
stock food				
stockholder				
stock-index map	Geog.			
stockinette	H.Sc.			

Stokes' equation		स्टोक्स समीकरण	stomatal frequency		रध-बहुलता
Stokes' factor		• स्टोक्स गुणक	stomatal index		रधक
Stokes' formula		स्टोक्स सूत्र	stomatal movement		रध-गति
Stokes' law		स्टोक्स नियम	stomatal regulation		रधो नियन्त्रण
Stokes' line		स्टोक्स रेखा	stomatal slit		रध-विदर
Stokes' operator		स्टोक्स-सकारक	stomatal transpiration		रधो वाष्पोत्सर्जन
Stokes' polarization parameters		स्टोक्स ध्रुवण प्राचल	stomate		सरध
Stokes' scattering		स्टोक्स प्रकीर्णन	stomaticolons		स्टोमावासी, रधवासी
Stokes' stream function		स्टोक्स धारा-फलन	stomatiferous		रधघर
Stokes' theorem		स्टोक्स प्रमेय	stomatitis	<i>Chem (Nucl.)</i>	मुखपाक, स्टोमाटाइटिस
stol	<i>Phy</i>	स्टॉल	stomatoblastula	<i>Zool.</i>	मुखकोरक
Stolidobranchiata	<i>Zool</i>	स्टोलिडोब्रैन्कियाटा	stomatogastric	<i>Zool.</i>	मुखजठरी
Stolle isatin synthesis	<i>Chem</i>	स्टोले आइसटिन संश्लेषण	stomatogastric bridge		मुखजठर सेतु
stolon	<i>Zool. Bot</i>	देहाङ्गुर, स्टोलॉन भूस्तारी	stomatogastric nerve		मुखजठर तंत्रिका
stolonate		देहाङ्गुरी	stomatogastric nerve ring		मुखजठरीय तंत्रिका-वलय
stolon graft		भूस्तारी कलम	stomatogastric nervous system		मुखजठर तंत्रिका तंत्र
stolonifer		भूस्तारीयुक्त	stomatogastric system		मुखजठर तंत्र
stoloniferous		देहाङ्गुरधारी	stomatogenesis	<i>Zool</i>	मुखरचन
stoloniferous growth		देहाङ्गुरधारी वृद्धि	stomatogenous	<i>Zool</i>	मुखजन
stolonization		देहाङ्गुरण	stomatopod	<i>Zool.</i>	रधपद
stolotheca	<i>Zool.</i>	मूलत्रावरक	stomatopodium	<i>Bot</i>	रधगामी पाद
stolpenite	<i>Geol</i>	स्टोल्पेनाइट	stomatostyle	<i>Zool Bot.</i>	मुखशूक रधोवंत्रिका
stolzite	<i>Geol.</i>	स्टोल्जाइट	stomidium	<i>Zool</i>	रधक
stoma (pl. stomata)	<i>Bot. Zool</i>	1 रध 2. मुख, मुखक	stomium	<i>Bot</i>	रधक, मुख
stomach	<i>Zool, H Sc.</i>	जठर, आमाशय	stomodaeal depression	<i>Zool</i>	मुखभ्रीय अवनमन मुखपथीय अवनमन
stomachic ganglion		आमाशयिक गुच्छिका	stomodaeal invagination		मुखपथ तंत्रिका तंत्र
stomach insecticide		जठर कीटनाशी	stomodaeal nervous system		मुखपथ तंत्रिका तंत्र
stomach intestine		जठरंत	stomodaeum	<i>Zool. Geol., H.Sc.</i>	मुखपथ
stomach poison		जठर-विष	stomogastric	<i>Zool.</i>	मुखजठरीय
stomach stone		जठरपथ	<i>Stomopneustes variolaris</i>	<i>Zool.</i>	स्टोमोप्यूस्टीज वेरिओलेरिस
stomach worm		जठर कृमि	Stomopneustidae	<i>Zool</i>	स्टोमोप्यूस्टिडी
stomatal		रधो, स्टोमी			
stomatal apparatus		रधो तंत्र			
stomatal conductance		रधो चानवता			

Stomoxys	Zool.	स्टोमोक्सिस	stoneware clay		दृढ़भांड मृत्तिका
stone		1. प्रस्तर, पाषाण, अश्म 2. अष्टि, गूठली (in fruit) 3. दृढ़कोशिका (=stone cell) 4. अष्टिदोष (Glass) 5. अश्मरी (Physiol)	Stone Weierstrauss theorem	Math.	स्टोन-वायरस्ट्रॉस प्रमेय
stone age		पाषाण युग	stone wire		स्टोन वायर
stone age man		पाषाण-युग मानव	Stonian space		स्टोन-समष्टि
stone brash		पथरीली भूमि, प्रस्तरभूमि	stony	Bot. Geol., Geog.	अष्टिल, गूठलीदार पथरीला, आशिमक
stone butter	Geol.	स्टोन बटर	stony desert		पथरीला मरुस्थल
stone canal		अश्म-नाल	stony flood	Geog.	लावा पूर
Stone Cech compactification	Math.	स्टोन-चेक संहतीकरण	stony layer	Geol.	कठोर परत
stone cell	Bot.	दृढ़ कोशिका	stony metéorite		आशिमक उत्क्रांषिड
stone cooking pot		प्रस्तर पाक-पात्र	stony moraine		अशिमक हिमोढ़, पथरीला मोरिन
stone coral		अश्म-प्रवाल	stony pit virus	Bot.	कठोर सगत वाइरस, कठोर सगत विषाणु
stone crab		अश्म कर्कट	stony rise		अशिमक उठान
stone flax	Geol.	ऐस्वेस्टस	stony soil		पथरीली मृदा
stone fly		अश्म मध्नी	stony tuff		आशिमक टफ़
stone gall	Geol.	मृदाग्रंधि	stony waste		पथरीली व्यर्थभूमि
stone goal-post		स्टोन गोल पोस्ट, प्रस्तर गोल स्तंभ	stool	Bot.	आघात्री
stone hammer		प्रस्तर हथौड़ा	stooling	Chem. (Met.)	पीठन
stone land		उपयोगीप्रस्तर भूमि	stool stalagmite	Geol.	पीठ स्तैलग्माइट
stone lattice		प्रस्तर जालक	stooping	Zool.	आपतन, झपटना
stoneless clay		अप्रस्तर मृत्तिका	stoop-way	Geol.	नमन पथ
stone-macehead		प्रस्तर गदाशीर्ष	stop (optics)	Phy., Geog.	सोमक, रोक
stone oil		प्रस्तर तेल, पेट्रोलियम	stop bath	Phy.	विकासरोधी निमज्जकी
stone pitch		प्रस्तर पिच	stop clock	Phy.	विराम-घड़ी, स्टॉप-क्लाक
stone polygons		अश्म बहुभुज	stop cock	Chem., Phy.	रोधनी
stone pulpit		प्रस्तर मंच	stop consonants	Phy.	स्पर्श व्यंजन
stone river		पाषाण नदी	stope	Geol.	स्टोप, निखनन प्रगत
Stone's theorem		स्टोन-प्रमेय	stop-end retorts	Chem.	स्तंभ अंत रिटार्ट, निरोधक अंत रिटार्ट
stone stripe		प्रस्तर धारी	stopping (overhead stopping)	Geol.	ऊर्ध्व खनन
stone thunder	Geog.	बज्र-प्रस्तर	stopping (of magma)	Geol.	निखनन
stone track		अश्म पथचिह्न	stop motion screw	H.Sc.	गतिरोधी पेंच, गतिरोधी स्कू
stoneware	H.Sc., Chem., Geol.	दृढ़भांड, गिलाभांड	stop-off lacquer	Chem.	स्तंभक लैकर
			stopped down	Phy.	अवसीमित

stopper		1. ढाट 2. स्तम्भक	storage unit		सग्रह एकक
stoppered	<i>Chem.</i>	ढाटदार	storage vessel		सग्रह पात्र
stoppered bottle		काच ढाट बोटल	storax	<i>H.Sc.</i>	स्टोरैक्स
stopping cross-section		अवरोधन परिक्षेत्र	store		सग्रहगार
stopping equivalent		अवरोधी तुल्यता	store cattle		स्टोर पशु
stopping number		स्तम्भन संख्या, निरोधी अंक	stored energy		संचित ऊर्जा
stopping potential		निरोधी विभव	stored program		संचित प्रोग्राम
stopping power		स्तम्भनशक्ति, निरोधी शक्ति	stored program computer		संचित प्रोग्राम अभिज्ञानित
stop point		विराम बिन्दु	store house		सग्रहागार
stop screw	<i>Geog.</i>	रोक पेंच	store ship		सग्रहपोन
stop signal		विराम सिग्नल	storeyed landscape	<i>Geol.</i>	बहुनली दृश्यभूमि
stop time		विराम काल	storied cambium	<i>Bot.</i>	स्तरित एधा
stop watch		जैकी विराम घड़ी, स्टॉप वाच	storied cork		स्तरित काग, स्तरित कार्क
stopway	<i>Geog.</i>	विराम पथ	storing	<i>H.Sc.</i>	सचयन
storable propellants	<i>Phy.</i>	सचयी प्रणोदक	stork	<i>Zool.</i>	बलाक
storage		सचयन	storm	<i>Geog.</i>	झडावात, तूफान
storage battery		संचायक बैटरी	storm beach		झडा पुलिन, तूफानी पुलिन
storage camera tube (= image storing tube)	<i>Phy.</i>	प्रतिबिम्ब सचय नलिका	storm belt		झडा मेढला
storage capacity		सचय क्षमता	storm cone		तूफान शंकु (भवेत)
storage cell		संचायक सेल	stormer cone	<i>Phy. Math.</i>	स्टॉर्मेर शंकु
storage cycle		सचय आवर्तन	Stormer orbit	<i>Math.</i>	स्टॉर्मेर कक्षा
storage effect		सचयन प्रभाव	Stormer viscometer		स्टॉर्मेर च्याननामापी, स्टॉर्मेर विस्त्रासिता- मापी
storage efficiency		सचयन-दक्षता	storm patrol		झडावात गवेपक
storage entry switch		सचयन प्रवेश स्विच	storm roller	<i>Geol.</i>	स्टॉर्मेरोलर
storage excretion	<i>Zool.</i>	सग्रह-उत्सर्जन	storm serge	<i>H.Sc.</i>	स्टॉर्मेर धार्ज
storage factor (= Q factor)	<i>Phy.</i>	Q गुणक	storm surge		तूफान महीमि, झडा महीमि
storage house	<i>Geog.</i>	गोदाम	storm track		झडापथ
storage operation		सचयन सक्रिया	storm wind		झडावाती पवन
storage ratio		सचयानुपात	stormy weather		तूफानी मौसम
storage rot	<i>Bot.</i>	सचयी विगमन	story telling picture	<i>H.Sc.</i>	कथा निरूपन चित्र
storage selection		सचयन वरण	stoss	<i>Geol. Geog.</i>	अभियवन
storage tank		सग्रह-टकी	stoss and lee form		अभि-प्रतिगमन आर्तन
storage temperature		सचय ताप	stoss end		अभियवन शिष्ट

stoss-side		अभिपवन पाश्वर्	straight line		वेग का ऋजुरेखीय वंटन
Stourbridge clay	<i>Chem.</i>	स्टाउरब्रिज मिट्टी, स्टाउरब्रिज मृदा	distribution of velocity		
stout post	<i>Geog.</i>	मजबूत खम्भा	straight line flight computer		सीधी रेखा उड़ान अभिकलित
stout wooden case	<i>Geog.</i>	मजबूत काष्ठपेटी	straight line formula		रेखा-सूत्र
stovaine		स्टोवेन	straight line trend		ऋजु रेखीय उपनति
stove	<i>Phy.,H.Sc., Geog.</i>	स्टोव	straight ovary		ऋजु अंडाशय
stove coal		स्टोव कोयला	straight path sampler		ऋजु पथ प्रतिदर्शित
stove distillate		स्टोव वासुत	straight pole boundary spectrograph		ध्रुवीय ऋजु परिसीमा स्पेक्ट्रोग्राफ
stove gasoline		स्टोव गैसोलीन	straight receiver		सीधा अभिग्राही, ऋजु अभिग्राही
stove glass		स्टोव अक्षक	straight receiving set		ऋजु अभिग्राही
stove-pipe finish		स्टोव पाइप परिष्कृति	straight-run		ऋजु घाव
stoving	<i>Chem., H.Sc.</i>	संपाकन, स्टोवन	straight-run gasoline	<i>Chem.</i>	अभंजनी गैसोलीन
stowage	<i>Phy.</i>	अस्थायी संचय	straight shade	<i>Chem. (Text.)</i>	एक-रंग
stowed wind	<i>Geog.</i>	संचित वात	straight shot apparatus		ऋजु-प्रवेश उपकरण
straate	<i>Geog.</i>	स्ट्राटे, द्रोणिका	straight sided fold		ऋजु पार्श्वी वलन
straddle shot	<i>Geol.</i>	मध्यस्थ विस्फोट	straight side slip		ऋजुरेखीय पार्श्व सर्पण
straggler	<i>Zool.</i>	विपयगामी	straight vortex fila- ment		ऋजुरेखीय प्रमिल तंतु
straggling	<i>Bot.,Geog.</i>	विचरण	straiken	<i>H.Sc.</i>	स्ट्रेकेन
straggling habit		विचरण प्रकृति	strain	<i>Phy.,Geog. Geol. Biol. H.Sc.</i>	विलति, तनाव विकृति विभेद, प्रभेद (vb.) छनना
straggling suburb		विचरणी नगरोपान्त	strain ageing		विकृति कालप्रभावन
straight	<i>Math.</i>	ऋजु, सीधा, सरल	strain-amplitude dependent		विकृति-आयाम आश्रित
straight angle		ऋजु कोण	strain axes		विकृति अक्ष
straight ascension		ऋजु आरोहण	strain breaks		विकृति विदर
straight bar		सीधी छड़	strain component		विकृति-घटक
straight chain compound		ऋजु-शृंखल यौगिक	strain disk		विकृति विम्ब
straight chained		ऋजु शृंखलित	strain displacement		विकृति विस्थापन
straight edge		ऋजु कोर, सीधी कोर	strained		विकृत
straightener		ऋज्वक			
straight flight		सीधी उड़ान			
straight head		ऋजुमंजरी रोग			
straight lamellar		ऋजु पटलित			
straight line	<i>Math.</i>	सीधी रेखा, ऋजु रेखा, सरल रेखा			
straight line absorption		सरल रेखिक अवशोषण			

rain ellipse		विहृति दीर्घवृत्त, विहृति इलिप्स	Stramentum	Geol.	स्ट्रामेन्टम
rain ellipsoid		विहृति दीर्घवृत्तज	stramineous	Bot	तृणाम
rain energy		विहृति ऊर्जा	strand	Bot, Geog, Zool, H Sc	1 (vascular) सतून 2 रज्जुक 3 स्ट्राण्ड 4. तन्तु गुच्छ 5 प्रपथ 6. तार 7 लड
rain energy density function		विहृति-ऊर्जा-घनत्व-फलन			
rain energy function		विहृति-ऊर्जा-फलन			
strainer	Zool H Sc.	चाननिल छन्ना	stranded aerial (=stranded antenna)	Phy	गुम्फित ऐन्टेना
strainer core	Chem.	छिद्रित श्रोड, छन्ना कोंड	stranded cable		गुम्फित केबल
strain gauge		विहृति मापी	stranded ship	Geog.	उत्तुनित जहाज
strain increment		विहृति-वृद्धि	strandesant	Geog.	रनिम्दार कार्यालय, स्ट्राडमांट
straining apparatus	Zool.	तनाव उपकरण	strandflat	Geol	उन्धिन तटवेदिका
straining bag		छानन बैला	strandin	Chem.	स्ट्रैन्डिन
straining mechanism	Zool.	छानन साधन	strand line	Geog	गुम्फित
strain invariant		विहृति-निश्चर	strandlooper	Geog.	स्ट्रैन्डलूपर (आदिम बुगमैन)
strainless		विततिहीन, विहृतिहीन			
strainless ring		वितन वलय, तननहीन वलय	strand plain		गुम्फित मैदान
strain line	Geog.	स्ट्रेन लाइन, प्रभेद रेखा	strand wall		गुम्फित दीवार
strain matrix		विहृति आन्वूह	stranfa	H.Sc	स्ट्रान्फा
strain path		विहृति पथ	strangeness member	Chem	विचित्रता सदस्य, विचित्रता अंक
strain point		विहृति बिन्दु, वितन बिन्दु	strapped magnetron	Phy	संश्रयित मैग्नेट्रोन
strain quadric		विहृति द्विघाती	strapping		परिपट्टन, संश्रयन
strain rate field		विहृति दर क्षेत्र	strapping magnetron	Phy	संश्रयन मैग्नेट्रोन
strain ratio		विहृति-अनुपात	strap shaped		बिहृताकार
strain rosette		विहृति-रोजेट	strassendorf	Geog.	स्ट्रैसेन्डोर्फ
strain seismograph		विहृति सूचकनेत्री	strata chart	Math.	स्तरी चार्ट, पट्टीदार चार्ट
strain shadows		विहृति-छाया	stratal correlation	Geol.	स्तरीय सहसंबंध
strain sheet		विहृति आरेख	strategic	Math.	गुम्फितपूर्ण
strain-slip cleavage	Geol.	विभ्रम-विदलन	strategical	Geog.	अनुकूल अवसर, सामरिक मुयोग
strain space		विहृति-आकाश	opportunity		सामरिक साधार
strain-specificity		विभेदन-विशिष्टता	strategic base		सामरिक उपनिवेश
strain-stress curve		प्रतिदल-विहृति-वक्र	strategic colony		गुम्फित गुम्फिता
strain tensor		विहृति प्रदिग, विहृति टेन्सर	strategic equivalence		सामरिक पदार्थ
strait	Geog.	जल गदोपी, जलद्वारकण्ठ	strategic material		सहस्रपूर्ण केन्द्र
strake	Geol.	स्ट्रेक	strategic point	Geog.	

strategic point of communication	Geog.	संचार-मर्म केन्द्र	stratigraphic	Geog., Geol.	स्तरिक
strategic road-crossing	Geog.	मार्मिक सड़क चौराहा, मार्मिक मार्ग-संधि	stratigraphic age		स्तरिक युग
strategie saddle point		युक्तीय पत्याण विन्दु	stratigraphical error		स्तरिक त्रुटि
strategy		युक्ति	stratigraphical evidence		स्तरिक साक्ष्य
strategy of hunt	Geog.	बाखेट-युक्ति	stratigraphical growth		स्तरिक-वृद्धि
strath	Geol.	स्ट्रैथ	stratigraphical horizon		स्तरिक होराइजन
strath stage		स्ट्रैथ अवस्था	stratigraphical indicator		स्तरिक सूचक
strath terrace		स्ट्रैथ वेदिका	stratigraphical nomenclature		स्तरिकी-नामपद्धति
strath valley		स्ट्रैथ घाटी	stratigraphical segregation		स्तरिक पृथक्समूहन
stratic	Geol.	स्तरिक	stratigraphical sequence		स्तरिक विन्यास क्रम
stratificate	Geol.	बहुस्तरी	stratigraphical system		स्तरिक समूह
stratification	Geol.	1. स्तरण 2. स्तरविन्यास	stratigraphic distribution		स्तरिकी वितरण
stratification after sampling		प्रतिचयनोपरांत स्तरण	stratigraphic factor		स्तरिक कारक
stratification foliation		स्तरण शल्कन	stratigraphic gap		स्तरिक अंतराल
stratification plane		स्तरण-तल	stratigraphic geology		स्तरिक भूविज्ञान
stratified	Geol., Geog., Zool.	स्तरित	stratigraphic heave		स्तरिक पाषवंक्षेप
stratified cluster sampling		स्तरित गुच्छ प्रतिचयन	stratigraphic interval		स्तरिक अंतराल
stratified dry tuff		स्तरित शुष्क टफ	stratigraphic level		स्तरिक तल
stratified epithelium		स्तरित उपकला, स्तरित एपीथीलियम	stratigraphic mixing		स्तरिक मिश्रण
stratified glacial debris		स्तरित हिमनद मलचा	stratigraphic separation		स्तरिक अंतराल
stratified medium		स्तरित माध्यम	stratigraphic palaeontology		स्तरिक जीवाश्मिकी
stratified random sampling		स्तरित यादृच्छिक प्रतिचय	stratigraphic study		स्तरिक अध्ययन
stratified rock		स्तरित शैल	stratigraphic tests		स्तरिक परीक्षण
stratified sample		स्तरित प्रतिदर्श	stratigraphic throw		स्तरिक अंतराल
stratified sampling		स्तरित प्रतिचयन	stratigraphic trap		स्तरिक ट्रैप
stratified simple random sampling		स्तरित सरल यादृच्छिक प्रतिचयन	stratigraphic unit		स्तरिक एकक
stratified soil		स्तरित मिट्टी	stratigraphy	Geol.	1. स्तरिकी, स्तरक्रम-विज्ञान 2. स्तरविन्यास
stratified structure		स्तरित संरचना	<i>Stratiomyia potamida</i>	Zool.	स्ट्रेटिबोमाइया पोटामिडा
stratify		स्तरित होना	Stratiomyidae	Zool.	स्ट्रेटिबोमाइडी
stratigrapher	Geol.	स्तरिकीविद्			

<i>Stratiotes aloides</i>	Bot	स्ट्रेटियोटीज ऐलाइडीज	strawberry leaf scorch	स्ट्रॉबेरी का पत्तों परित्वाह (रोग)	
stratocumulus cloud	Geog	स्तरी-कपासी मेघ	strawberry leaf spot	स्ट्रॉबेरी पत्तों चित्ती	
stratiform cloud	Geog	स्तररूपी मेघ	strawberry nematode	स्ट्रॉबेरी सूत्रहृमि	
stratigraphic sequence		स्तरीय अनुक्रम	strawberry yellows	स्ट्रॉबेरी पीतानि	
stratopause	Phy, Geol	समताप सीमा	strawboard mill	गला मिल्, स्ट्रॉबोर्ड मिल्	
stratopelite	Geol	स्ट्रेटोपाइट	straw cellulose	Chem (Plastics)	तृण सेलुलोज
stratose	Geol.	स्तरित	straw coloured paltor	Geog	पुआलवर्णी पाण्डुरता
stratosphere	Geog, Phy, Geol	समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फियर	straw-crop		तृण-सत्य
stratospheric fall-out		समतापमंडलीय अवपात	straw-hat		तृण टोप
stratospheric flight		समतापमंडलीय उड़ान	straw matting		तृण चटाई
stratospheric ozone		समतापमंडलीय ओजोन	straw oil	Chem	स्ट्रॉ तैल
stratospheric range		समतापमंडलीय पराम	straw stalactite	Geol	नलिकी स्टैलैक्टायट
strato-volcano	Geol	स्तरित ज्वालामुखी	straw yellow		तृण-पीन
stratum		स्तर, स्ट्रेटम	stray capacity	Phy.	अवाधित धारिता
stratum compactum		निविड स्तर, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम	stray induction		अवाधित प्रेरण
stratum corneum		किण-स्तर, स्ट्रेटम कॉर्नियम	stray light		अवाधित प्रकाश
stratum germinativum		अकुरण-स्तर, स्ट्रेटम जमिनेटिवम	stray magnetic field		अवाधित चुंबकीय क्षेत्र
stratum granulosum		कणी स्तर, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम	stray radiation		अवाधित विकिरण
stratum intermedium		स्ट्रेटम इन्टरमीडियम, मध्य स्तर	stray sands	Geol	बासू
stratum layer		स्तर परत	streak	Geol	वर्णरेखा, बस, निकय रेखा
stratum lucidum		स्वच्छ स्तर, स्ट्रेटम लूसिडम	streak and scratch	Geog	रेखा और खरोंच
stratum of air		वायु-स्तर	streak culture		रेखा सवध
stratum of vortices		घ्रमिल-स्तर	streaked character	Geol	प्ररेखित लक्षण
stratum spongiosum	Zool.	स्पंज स्तर, स्ट्रेटम स्पंजियोसम	streaked fantail warbler	Zool.	रेखित नाचन कुइरी
stratus cloud	Geog.	स्तरी मेघ	streaking		रेखण, घारी पड़ना, रेखाचन
Strauss Pawlewski rule	Chem	स्ट्राउस पालेव्स्की नियम	streak lightning	Phy.	तडित रेखा, विद्युत्पलता
Strauss reaction		स्ट्राउस अभिक्रिया	streak line	Math, Geog.	वर्ण रेखा, बस रेखा, निकय रेखा
strawberry	Bot, H.Sc.	स्ट्रॉबेरी	streak plate		वर्ण रेखा-पट्ट
strawberry bunch		स्ट्रॉबेरी गुच्छ रोग	streak plate method	Bot.	रेखा जेट विधि
			streak stitch	Geol.	स्ट्रीक टाँका
			streak virus	Bot	रेखा वाइरस, रेखा विषाणु



streaky	<i>Geog.</i>	धारीदार	streamline adaptation	धारारेखी अनुकूलन
streaky structure	<i>Geol.</i>	प्ररेखिक ढनिज संरचना	streamlined	धारा रेखित
stream		1. सरिता, धारा 2. नाला	streamlined body	धारारेखी शरीर, मुप्रवाही शरीर
stream abstraction		सरिता-आदान	streamlined movement	धारारेखी गति
stream adjustment		सरिता समायोजन	stream-lined train	<i>Geog.</i> मुद्राही रेलगाड़ी
stream bank		सरिता-तीर	stream-lined tube	धारारेखां नली
stream bed		सरिता-पाट	stream line flow	धारारेखी प्रवाह
stream biocies		सरित् जीवसहवापक	stream line form	धारारेखी रूप
stream-borne stone		सरिता बरम	streamline motion	धारारेखा गति
stream clay		सरिता-मृत्तिका	streamlining	धारारेखन
stream course		सरिता-मार्ग	stream meander	सरिता विचर्ष
stream current		धारा-प्रवाह	stream pattern	सरिता प्रतिरूप, सरिता बाहृति
stream cut valley		सरिता कर्तित घाटी	stream piracy	सरिता अपहरण
stream deposit		सरिता-निक्षेप	stream retting	सरिता अपगलन, धारा अपगलन
stream development		नदी-विकास	stream surface	धारा-पृष्ठ
stream dissection		सरिता विच्छेदन	stream system	सरिता तंत्र
streamer		ज्योतिकेतु	stream thrust	<i>Phy.</i> प्रवाह प्रणोद
stream filament		धारा तंतु	stream tin	सरिता-बंग, सरिता-टिन
stream fluctuation		सरिता-ह्रासवृद्धि	stream tube	धारा नलिका
stream function		धारा-फलन	stream-vector	धारा-सदिश
stream grade		सरिता-संतुलित तल	stream velocity	धारा-वेग
stream incision		सरिता कटाव	stream wash	सरिता धावन
streaming	<i>Phy.</i>	अभिन्नावप	streamway	सरिता मार्ग
	<i>Geol.</i>	धारा धावन (adj.) प्रवाही	stream weirs	<i>Zool.</i> सरित् बंधक
streaming anisotropy	<i>Chem.</i>	प्रवाही दिपमदीगिकता	streblonemoid	<i>Bot.</i> स्ट्रेब्लोनियासम
streaming double refraction		प्रवाही द्वि-अपवर्तन	Strecker reaction	<i>Chem.</i> स्ट्रेकर अभिक्रिया
streaming factor		अभिन्नवप गुणांक	street	<i>Geog.</i> सड़क, स्ट्रीट
streaming fog		प्रवाही कुहरा	street frontage	सड़क पुरोभाग
streaming movement		प्रवाही गति	street layout	सड़क विन्यास, सड़क बाका
streaming potential		प्रवाही विभव	street village	सड़क-ग्राम
streaming velocity		अभिन्नवप वेग	strega	<i>H.Sc.</i> स्ट्रेगा
stream junction		सरिता संगम	Strenbergia	<i>Bot.</i> स्ट्रेबर्गिया
streamlet	<i>Geog.</i>	सधूसरिता	strengite	<i>Geol.</i> स्ट्रेन्गाइट
stream level		सरिता तल		
stream-line		प्रवाह-रेखा, धारा-रेखा		

strength

strength	<i>Phy., Math.</i>	1. सामर्थ्य, प्रबलता, तीव्रता 2. सांद्रता (of solution) 3. सक्रियता (of radio active substance)	streptomycin	<i>Chem, Zool.</i>	स्ट्रेप्टोमाइसिन
strength of a base		धारक प्रबलता, बेस-प्रबलता	streptomycin dependent		स्ट्रेप्टोमाइसिन आश्रित
strength of an acid		बल प्रबलता, एसिड-प्रबलता	streptoneurous	<i>Zool</i>	बलितवन्निकीय
strength of current		धारा की प्रबलता	streptoneury		बलितवन्निकीय
strength of the doublet		द्विक-सामर्थ्य	Streptophiuræ	<i>Zool</i>	स्ट्रेप्टोफ्युरी
strength of the source		उद्गम-सामर्थ्य	streptorhynchus		स्ट्रेप्टोरिन्कस
strength of vortex		घ्रमिल-सामर्थ्य	streptose	<i>Chem</i>	स्ट्रेप्टोस
strength of wave		तरंग की तीव्रता	streptospondylous	<i>Zool</i>	स्ट्रेप्टोस्पॉन्डाइलस, संवत्तगतिक
strength-weight criterion		सामर्थ्य-भार निकष	streptostyle		चलस्तभी
strepsinema	<i>Zool</i>	कुचितसूत्र, स्ट्रेप्सिनेमा	streptothricin	<i>Chem</i>	स्ट्रेप्टोथ्रीसिन
strepsitene stage	<i>Zool</i>	कुचितपट्ट अवस्था	streptovitamin	<i>Chem.</i>	स्ट्रेप्टोविटमिन
Strepsiptera	<i>Zool.</i>	स्ट्रेप्सिप्टेरा	strepyan	<i>Geog</i>	स्ट्रेपियान
strepsipteran	<i>Zool</i>	आवर्तपक्षी	stress		प्रतिबल
streptaster	<i>Zool</i>	स्ट्रेप्टेस्टर	stress analysis		प्रतिबल-विश्लेषण
streptidiae	<i>Chem.</i>	स्ट्रेप्टिडीन	stress axis		प्रतिबल अक्ष
Streptimidiae	<i>Chem.</i>	स्ट्रेप्टिमिडीन	stress component		प्रतिबल-घटक
<i>Streptobacillus caviae</i>	<i>Bot</i>	स्ट्रेप्टोबेसिलस कैविये	stress concentration		प्रतिबल-सांद्रण
streptobiosamine	<i>Chem.</i>	स्ट्रेप्टोबायोसामीन	stress concentration factor		प्रतिबल सांद्रण गुणांक
streptocarpous	<i>Bot.</i>	सपिलाकित फली	stress corrosion		प्रतिबल सघातन
<i>Streptococcus bovis</i>	<i>Bot</i>	स्ट्रेप्टोकोकस बोविस	stress cracking		प्रतिबल भंगन
streptodornase	<i>Chem.</i>	स्ट्रेप्टोडोर्नैस	stress difference		प्रतिबल अंतर
streptoduocin	<i>Chem.</i>	स्ट्रेप्टोड्यूसिन	stress director surface		प्रतिबल-निर्देशक पृष्ठ
streptokinase	<i>Chem</i>	स्ट्रेप्टोकिनेस	stress ellipsoid		प्रतिबल-दीर्घवृत्त
streptolidine	<i>Chem.</i>	स्ट्रेप्टोलिडीन	stress field		प्रतिबल-क्षेत्र
streptolin	<i>Chem.</i>	स्ट्रेप्टोलिन	stress function		प्रतिबल-फलन
streptoline glutinant	<i>Zool.</i>	बलितसूत्र श्लेषी	stress gradient force		प्रतिबल प्रवणता बल
<i>Streptomonas cordata</i>	<i>Zool.</i>	स्ट्रेप्टोमोनास कॉर्डेटा	stress-induced ordering		प्रतिबल प्रेरित व्यवस्थापन
<i>Streptomyces albus</i>	<i>Bot.</i>	स्ट्रेप्टोमाइसीज एल्बस	stress invariant		प्रतिबल निरन्तर
<i>Streptomyces scabies</i>		स्ट्रेप्टोमाइसीज स्कैबीज	stress line		प्रतिबल-रेखा
			stress matrix		प्रतिबल आव्यूह
			stress minerals		प्रतिबल-खनिज
			stress optical coefficient		प्रतिबल प्रकाशिक गुणांक
			stress plane		प्रतिबल समतल

stress point		प्रतिबल-बिन्दु	stria	<i>Chem.</i>	धारी
stress pressure		प्रतिबल दाब	striae	<i>Geol., Geog.</i>	रेखाएँ, धारियाँ, खरोंच, रेखांकन
stress quadric		प्रतिबल-द्विघाती	striate (striated)	<i>Geol., Zool.</i>	रेखित, धारीदार
stress relief annealing		प्रतिबल विसर्जनी अनीलन	striated discharge	<i>Chem.</i>	पट्टिल विसर्जन, धारीदार विसर्जन
stress rupture test		प्रतिबल विभेद निकष	striated fibre		रेखित तंतु
stress space		प्रतिबल-आकाश	striated muscle		रेखित पेशी
stress-strain diagram		प्रतिबल-विकृति आरेख	striated pebble		रेखित गुटिका
stress strain equation		प्रतिबल-विकृति-समीकरण	striated structure		रेखित संरचना, धारीदार संरचना
stress strain relation		प्रतिबल-विकृति-संबंध	striation	<i>Geol., Zool., Geog.</i>	1. रेखा, धारी 2. रेखांकन
stress-system		प्रतिबल निकाय	striation cast		रेखिल कास्ट
stress tensor		प्रतिबल-प्रदिश	striation system		रेखांकन तंत्र
stress vector		प्रतिबल-सदिश	Stricklandia	<i>Geol.</i>	स्ट्रिकलैंडिया
stretch die	<i>Chem.</i>	तननठप्पा, तनन रूपदा	Stricklandia lens		स्ट्रिकलैंडिया लेन्स
stretched	<i>Geol., Chem.</i>	तानित	strickle board	<i>Chem.</i>	स्ट्रिकल बोर्ड, संताडन पट्ट
stretched form		तानित रूपदा	strict accuracy	<i>Chem.</i>	पूर्ण यथार्थता
stretched PPT	<i>Phy.</i>	विस्तरित पी० पी० टी०	strict hyperbolicity	<i>Math.</i>	दृढ़ अतिपरवलयिकता
stretcher fluttering	<i>Chem.</i>	तानी चिपिटन	strict inclusion		पूर्ण समावेश
stretcher head		तानी शीपें	strictly bounded	<i>Math.</i>	दृढ़तः परिबद्ध
stretcher straightening		तानी संशुद्धन	strictly concave function		दृढ़तः उन्मुख फलन
stretcher strain		तानी विकृति	strictly convex function		दृढ़तः अवमुख फलन
stretch factor	<i>Phy.</i>	वृद्धि गुणक	strictly convex yield locus		दृढ़तः उत्तल पराभव-पथ
stretch forming	<i>Chem.</i>	तान संभावन	strictly decreasing	<i>Math.</i>	निरंतर ह्रासमान
stretching		तनन	strictly decreasing function		निरंतर ह्रासमान फलन
stretching energy		तनन-ऊर्जा	strictly finer	<i>Math.</i>	वस्तुतः सूक्ष्मतर
stretching force constant		तनन दल स्थिरांक	strictly hyperbolic Leray system		दृढ़तः अतिपरवलयिक लीरे-निकाय
stretching frequency		प्रतान आवृत्ति	strictly hyperbolic matrix		दृढ़तः अतिपरवलयिक आव्यूह
stretching vibration		तनन कंपन	strictly increasing		निरंतर वर्धमान
stretch mill	<i>Chem., Phy.</i>	तान मिल	strictly increasing function		निरंतर वर्धमान फलन
stretch of low ground	<i>Geol.</i>	निम्नस्थल-विस्तार			
stretch receptor	<i>Zool.</i>	वितति ग्राही			
stretch-reducing mill		तान न्यूनन मिल			
stretch reflex		वितति प्रतिवर्त			
stretch spinning	<i>H.Sc.</i>	तान कताई			
stretch thrust	<i>Geol.</i>	तान-क्षेप			
stretch yarn	<i>H.Sc.</i>	लचकदार सूत्र			

strictly monotonic function		निरन्तर एकदिष्ट फलन	striking feature	Geog	विस्मयकारी लक्षण
strictly normed space		दृढत मानकित समष्टि	striking map	Geog.	मुम्पष्ट मानचित्र
strictly parallel		दृढत समानतर	striking peculiarity		विस्मयकारी विशेषता
strict parasite	Zool	सिद्ध परजीवी	striking potential	Phy	बाह्य-प्रवर्तक विभव
strict periodicity	Math	दृढ आवृत्तिता	striking voltage		बाह्य प्रारम्भक बोल्डता, चालक प्रारम्भक बोल्डता
stricture	Bot	नलिका बाकुचन	string	Phy, Chem, Math	1 घागा, सूत 2 लट, लट्टु 3 रज्जु, डोर, डोरी 4 (Glass) रज्जुदोष
stride	Geog.	दृढगति	string along-the-road settlement	Geog	मार्ग पाषण्ड-रज्जुबस्ती
stridlag level	Geog.	आरोही लेवल	string bead		रज्जु मनका
stridulating organ	Zool.	घषण-ध्वनि अंग	string classification		रज्जु-वर्गीकरण
stridulating system		घषण-ध्वनि तंत्र	string doubling		रज्जु-द्विगुणन
stridulator	Zool	घषणध्वनिक	stringed cast-net	Zool	रज्जु क्षिप्तजाल
Striga densiflora	Bot	स्ट्राइगा डेंसीफ्लोरा	stringed instruments		तनु वाद्य
Striga orobanchiodes		स्ट्राइगा ओरोबेन्कि-आइडोज	string electrometer		तनु-विद्युत्मापी
Striga volubilis		स्ट्राइगा वोलुबिलिस	stringency	Geog.	अभावग्रस्तता
Striges		स्ट्राइजीड	stringer	Chem Geol	1 रज्जुक, स्ट्रिंगर 2 किरिका
Strigidae	Zool	स्ट्रिजिडी	stranger lode		किरिका विशेष
Strigiformes	Zool	स्ट्रिजीफॉर्मोइ	string galvanometer		तनु-धारामापी, तनु-संस्वीकरोमाटर
strigose	Bot.	नतरोमी	string rug	H Sc	स्ट्रिंग रग
strigovite	Geol.	स्ट्रिगोवाइट	strip		1 पट्टी, स्ट्रिप 2 छीजन 3 (P) विपट्टन, नगन, विलेपन
Strigulaceae	Bot.	स्ट्रिगुलेसी	strip adjustment	Geog	पट्टी समायोजन
Strigula complanata		स्ट्रिगुला कम्प्लेनेटा	strip chart instrument	Chem.	आपट्टक चाट साधित्र
strike	Chem.	आरभी-ऊर्ध्व	strip chart recorder	Phy.	पट्टिका चाट अधिनेखी
strike (direction)	Geol.	अनुदंध्य दिशा	strip coat		पट्टी लेप
strike (of a bed)	Geol, Geog.	नतिलव	strip cropped field	Geog	पट्टीदार घेनिहर क्षेत्र
strike fault		नतिलवी भ्रम	strip cropping		पट्टीदार घेनी
strike graben		नतिलव घाघेन	strip cropping system		पट्टीदार मस्य-क्रम योजना
strike joint		नतिलव संधि	strip division (of wave front)		पट्टी विभाजन
strike line		नतिलव रेखा			
strike shift		नतिलव विस्थापन			
strike slip		नतिलव सपेण			
strike slip fault		नतिलव सपेण भ्रम			
strike stream		नतिलव सरिता			
strike through	Chem.	अन्तर्बेधन			
strike valley		नतिलव घाटी			
striking	Chem.	1. आह्वन 2. आरभी निर्घेन			

stripe and curl disease	Bot.	धारी और कुंचन रोग	stripping rotation	पट्टी आवर्तन
stripe blight	Bot.	धारीदार शीर्षता, धारीदार अंगमारी	stripping yard	नग्नन प्रांगण
stripe braid	H.Sc.	धारीदार ब्रेड	strip pit	पट्टी गर्त, स्ट्रिप गर्त
striped farm	Geog.	पट्टित फार्म (सोपानी फार्म)	strip rust	धारीदार किट्ट
striped horse fly	Zool.	धारीदार घुड़मक्खी	strip survey	पट्टी सर्वेक्षण
strip field		पट्टी खेत	strip thrust	Geol. पट्ट क्षेप
strip hypothesis	Math.	पट्टी परिकल्पना	strip thrust folding	Geol. सर्पी पट्टवलन
strip kitchen	H.Sc.	पक्वित रसोईघर	strip transmission line	पट्टिका संचार लाइन
strip map		पट्टी मानचित्र	strip width (line width)	Phy. रेखा चौड़ाई
strip mapping		पट्टी मानचित्रण	stritzel	H.Sc. स्ट्रिट्जेल
strip method	Phy.	पट्टिका विधि	strobane	Chem. स्ट्रोबेन
strip mill	Chem.	आपट्टक मिल	strobe pulse	Phy. प्रतिध्वनिदर्शी स्पंद
strip mine	Geog.	विपट्टी खदान	strobila	Zool. स्ट्रोबिला, प्रशृंखल
strip mixing		विनृत खनन, विपट्टी खनन	strobilation	प्रशृंखलन, स्ट्रोबिलेशन
strip of coral	Geog.	प्रवाल-पट्टी	strobiliferous shoot	Bot. शंकुधारी प्ररोह
strip parish	Geog.	पट्टी पैरिश	strobilocercus	Zool. प्रशृंखलपुच्छक
stripped	Chem.	रेखित, धारीदार	strobiloid	Bot. शंकुवाभ
stripped atom	Chem.,Phy.	नग्नीकृत परमाणु	<i>Strobilomyces floccopus</i>	Bot. स्ट्रोबिलोमाइसीज पलोकोपस
stripped bedding plane	Geol.	अनावृत संस्तरण तल	Strobilomycetae	Bot. स्ट्रोबिलोमाइसिटी
stripped belt	Geog.	नग्नीकृत पट्टी	strobilus	Bot. शंकु Zool. प्रशृंखल
stripped plain		अनावृत मैदान	stroboscope	Chem.,Phy. स्ट्रोबोस्कोप
stripper	Phy.	विपट्टक	stroboscopic disk	स्ट्रोबोस्कोपी मंडलक
stripper plate	Chem. (Plastics)	आपट्टक प्लेट	stroboscopic flash	स्ट्रोबोस्कोपी स्फुर
stripper punch	Chem.	अपनायक छिद्रित	stroboscopic illumination	स्ट्रोबोस्कोपी प्रदीपन
stripping	Chem.,Phy.	1. निर्लेपन, विपट्टन, छीलन, नग्नन 2. अपखंडन	stroboscopic method	स्ट्रोबोस्कोपी विधि
stripping (of colours)	H.Sc.,Geog.	निर्वर्णन, स्ट्रिपिंग	stroboscopic unit	स्ट्रोबोस्कोपी एकक
stripping agent		नग्नक, निर्लेपक	strobotorch	Chem. स्ट्रोबोटार्च
stripping analysis		नग्न विश्लेषण	Stroblein method	Chem. स्ट्रोलाइन रीति
stripping compound (electrodeposition)		नग्नन यौगिक	stroke (of engine)	Phy. स्ट्रोक
stripping medium		नग्नन माध्यम	stroma	Bot.,Zool. पीठिका
stripping operation		नग्नन प्रचालन	stromatic	Bot. पीठिकीय
stripping reaction	Phy.	अंशहरण अभिक्रिया	stromatolite	Geol. स्ट्रोमाटोलाइट, शंवाल निकोपाश्म
			stromatolithic	Geol. स्तरितशिलीय

stromatology	<i>Geol., Geog.</i>	स्तरित शैलिकी	strong field quantum number		प्रबल क्षेत्री क्वान्टम संख्या
Stromatopora	<i>Geol</i>	स्ट्रोमेटोपोरा	strong focussing principle		प्रबल फोकसन सिद्धान्त
Stromatoporella	<i>Geol</i>	स्ट्रोमेटोपोरेला	strong gale		प्रबल झडा
stromatoporoïd	<i>Geog</i>	स्ट्रोमेटोपोरोइड	stronghold	<i>Geog</i>	गड
Stromatoporoïdea	<i>Zool</i>	स्ट्रोमेटोपोरोइडिया	strong initial shock		प्रबल प्रारम्भिक प्रघात
strombolian	<i>Geog, Geol</i>	स्ट्रोम्बोलीय	strong intensity scale		प्रबल तीव्रता मापनी
Strombolian activity		स्ट्रोम्बोलीय सक्रियता	strong interaction		प्रबल अन्योन्यक्रिया
Strombolian eruption		स्ट्रोम्बोलीय उद्गार	strong interaction models (S I M)		प्रबल अन्योन्यक्रिया मॉडल वर्ग
Strombolian projection		स्ट्रोम्बोलीय बहिर्बोधा	strong law of large numbers		बृहत् संख्याओं का सबल नियम
Strombus	<i>Zool</i>	स्ट्रोम्बस	strong lens		प्रबल लेन्स
<i>Strombus canarium</i>		स्ट्रोम्बस कॅनेरियम	strong level (spectral)	<i>Phy</i>	अधिमानित तल
strome		पीठिका	strong light source		प्रबल प्रकाश स्रोत
Stromer viscometer	<i>Chem</i>	स्ट्रोमर क्यान्तामापी	strong local convexity		प्रबल स्थानीय श्रवमुच्चता
stromeyerite	<i>Geol</i>	स्ट्रोमेयरइट	strong lode		बृहत् शिथलशोध, बृहत् लोड
Stromgren's principle	<i>Math</i>	स्ट्रोमग्रेन-नियम	strongly basic		प्रबल क्षारकीय
Stromholm's salt		स्ट्रोमहोम लवण	strongly continuous	<i>Math</i>	अनि सतत
stromalite	<i>Geol</i>	स्ट्रोमैलाइट	strongly degenerate	<i>Phy.</i>	अनि अपघट्ट
strong		1 प्रबल, गहरा, तेज 2 सान्द्र	strongly directed in space	<i>Chem</i>	त्रिविम प्रबलदिष्ट
strong acid pump		प्रबल अम्ल पम्प	strongly primary ideal		प्रबलतया प्राथमिक गुणात्मकनी
strong acid resin		प्रबल अम्ल रेजिन	strong monsoon		तेज मानसून
strong axis		प्रबल अक्ष	strong motion seismograph		प्रबल गति-भूकंपलेखी
strong barrier		प्रबल रोधिका	strong overlap		प्रबल अतिव्यापन
strong base resin		प्रबल-क्षारक-रेजिन	strong oxidant		प्रबल उपधायक, प्रबल-ऑक्सीकारक
strong bidual		प्रबल द्विदल	strong relative maximum		प्रबल आभाेक्षक अधिबन्धन
strong breeze		प्रबल समीर	strong relative minimum		प्रबल आभाेक्षक न्यूनतम
strong complex		प्रबल संकुल	strong relief	<i>Geog.</i>	मुग्घट्ट उच्चांक
strong convergene		प्रबल अभिसरण	strong separation		प्रबल पृथक्करण
strong converse		प्रबल विलोम	strong shock wave		प्रबल प्रघात तरंग
strong coupling model		प्रबल युग्मन मॉडल			
strong curvature		प्रबल वक्रता			
strong discontinuity		प्रबल असातत्य			
strong discontinuity wave		प्रबल असातत्य तरंग			
strong electrolyte		प्रबल विद्युत् अपघट्ट, प्रबल विद्युत्घन			
strong ergodic theorem		प्रबल अन्वतिप्राम प्रमेय			

strong solution	<i>Math.</i> <i>Chem.</i>	प्रबल हल संद्रि विलयन	structural botany	संरचनात्मक वनस्पति विज्ञान
strong top		प्रबल सट्टू	structural closure	संरचनात्मक संवृत्ति
strong transition		प्रबल संक्रमण	structural constant	संरचनात्मक स्थिरांक
strongylaster		कुठितांत तारक	structural damping	संरचनात्मक अवमंदन
strongylatid bursa	<i>Bot.</i>	स्ट्रॉन्ग्लाइलसबव् बर्सा	structural datum	संरचनात्मक पृष्ठ
strongyle	<i>Zool.</i>	कुठितांत (कांटिका), स्ट्रॉन्गिल	structural demand function	संरचनात्मक मांग फलन
strongyle-oxea		स्ट्रॉन्गिल-ऑक्सिया, तीक्ष्णकुठितांत	structural density	संरचना-घनत्व
Strongylocentrotus	<i>Zool.</i>	स्ट्रॉन्गिलोसेन्द्रोटस	structural discontinuity	संरचना असांतत्य
strongyloclad	<i>Zool.</i>	स्ट्रॉन्गिलोक्लैड, कुठितांत- बरकांटिका	structural dissymmetry	संरचनात्मक असममिति
strongyloid	<i>Zool.</i>	स्ट्रॉन्गिलान	structural dome	संरचनात्मक गुम्बद
strongylote	<i>Zool.</i>	कुठितांत	structural element	संरचनात्मक तत्व
Strongylus	<i>Zool.</i>	स्ट्रॉन्गिलस	structural elevation	संरचनात्मक उन्नयन
strontia	<i>Chem.</i>	स्ट्रॉन्गिया	structural equation	संरचनात्मक समीकरण
strontianapatite	<i>Geol.</i>	स्ट्रॉन्गियनएपेटाइट	structural exploration	संरचनात्मक अन्वेषण
strontianiferous	<i>Geol.</i>	स्ट्रॉन्गियनवारी	structural fabric	संरचनात्मक संविद्यमान
strontianite	<i>Geol.</i>	स्ट्रॉन्गिएनाइट	structural factor	संरचना गुणक
strontianocalcite	<i>Geol.</i>	स्ट्रॉन्गिएनोकैल्साइट	structural fault closure	संरचना अंगीय संवृत्ति
strontium	<i>Chem., H.Sc.</i>	स्ट्रॉन्गियम	structural features	संरचनात्मक लक्षण
strontium chloride		स्ट्रॉन्गियम क्लोराइड	structural feedback	संरचना पुननिवेश
strophia	<i>Bot.</i>	स्ट्रोफ़ा	structural formula	संरचना-सूत्र
strophanthidin	<i>Chem.</i>	स्ट्रॉफ़ेन्थिडिन	structural gene	संरचनात्मक जीन
strophanthin	<i>Chem.</i>	स्ट्रॉफ़ेन्थिन	structural geology	संरचना-भूविज्ञान
strophiole	<i>Bot.</i>	स्ट्रॉफ़िओल	structural glass	इनास्ती कांच, संरचना- कांच, निर्माण कांच
strophogenesis	<i>Bot.</i>	स्ट्रॉफ़ोजेनेसिस, प्ररोह एकान्तरण	structural group	संरचनात्मक समूह
Strophomenacea	<i>Geol.</i>	स्ट्रॉफ़ोमेनेगिया	structural high	संरचना-शीर्ष
strophomenoid	<i>Geol.</i>	स्ट्रॉफ़ोमेनाम	structural isomerim	संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक आइसोमरता
Strouhal number	<i>Phy.,Math.</i>	स्ट्रॉहल संख्या	structural landscape	संरचनात्मक दृश्यभूमि
struck string	<i>Phy.</i>	बाहत तार	structural loads	संरचना-भार
structural		संरचनात्मक	structural loosening	संरचनात्मक श्लथन
structural adaptation		संरचनात्मक अनुकूलन	structural low	संरचना-तल
structural analysis		संरचनात्मक विश्लेषण	structurally	संरचनात्मक, संरचनात्मकतः
structural basin		संरचनात्मक बेसिन		
structural bench		संरचना-बेन्च		

structurally complex		मारचनिक सम्मिश्र	structure controlled shoot		सरचना-नियंत्रित अथस्कपिड
structural material	<i>Chem</i>	निर्माण द्रव्य, इमारती द्रव्य	structure function		सरचना-फलन
structural mobility		सरचनात्मक चलिष्णुता	structure group		सरचना-समूह
structural modification		सरचना-आपरिवर्तन	structured operand		मरचिन सकार्य
structural order	<i>Math</i>	सरचनागत क्रम	structureless particle		सरचनाहीन कण
structural parameter		सरचना-प्राचल	structure of cyclone		चक्रवात-सरचना
structural petrology		सरचनात्मक शैलिकी, सरचनात्मक शैल-विज्ञान	structure-process stage		सरचना-प्रक्रम-अवस्था
structural plan		सरचनात्मक मैदान	structure unit		सरचना-एकक
structural plateau		सरचनात्मक पठार	struga	<i>Geog</i>	स्ट्रूगा
structural relationship		सरचनात्मक संबंध	struggle for existance	<i>Biol</i>	जीवन-सघर्ष
structural relief		सरचनात्मक उच्चावच	struggle for precedence		अग्रमरता-सघर्ष
structural rock bench		सरचनात्मक शैल बैंच	struma	<i>Bot.</i>	तल्पीशोथ
structural saddle		सरचनात्मक पत्याण	<i>Strumeta cucurbitae</i>	<i>Zool</i>	स्ट्रूमेटा कुकुरबिटी
structural style		सरचनात्मक शैली	strumiferous	<i>Bot</i>	तल्पीशोथयुक्त
structural superposition		सरचनात्मक अध्यारोपण	strussa	<i>H Sc.</i>	स्ट्रुसा
structural system		सरचनात्मक प्रणाली	strut	<i>Geol</i>	आलवन स्तम्भ
structural terrace		सरचनात्मक वेदिका	Struthio	<i>Zool</i>	स्ट्रूथियो
structural transformation		सरचनात्मक रूपान्तरण	<i>Struthio camelus</i>		स्ट्रूथियो कैमेलस (मनुमुंग)
structural trap		सरचना-पाश	Struthioniformes	<i>Zool</i>	स्ट्रूथियोनीफॉर्मिड
structural unit		सरचना-एकक	struthious bird	<i>Zool</i>	उट्ट पक्षी
structural uplift		सरचनात्मक उत्थान	struverite	<i>Geol</i>	स्ट्रूवेराइट
structural valley		सरचनात्मक घाटी	struvite	<i>Geol</i>	स्ट्रूवाइट
structural variation		सरचनात्मक विभिन्नता	strychnine	<i>Chem</i>	स्ट्रिक्नीन
structural ware		सरचन सामग्री	strychnic acid		स्ट्रिक्निक अम्ल
structural water		सरचनात्मक जल	strychnidine		स्ट्रिक्निडीन
structure		सरचना, बनावट	strychnine	<i>Chem, Geog, Zool.</i>	स्ट्रिक्नीन
structure amplitude		सरचना आयाम	strychnine hydrochloride		स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड
structure borne noise		वास्तु-बाहित रव	strychninolic acid		स्ट्रिक्निनोयिक अम्ल
structure constant		सरचना-स्थिरांक	strychninolone		स्ट्रिक्निनोलोन
structure contour		सरचना समोच्चरेखा	strychninonic acid		स्ट्रिक्निनोयिक अम्ल
structure contour map		सरचना समोच्चरेखी मानचित्र	strychnos alkaloid	<i>Chem.</i>	स्ट्रिक्नॉस ऐल्केलाइड
			<i>Strychnos nux-vomica</i>	<i>Bot</i>	स्ट्रिक्नॉस नक्स-वॉमिका (बुचना)



<i>Strychnos potatorum</i>		स्ट्रिक्नास पोटेटोरम	studio scenery (=still)	Phy.	अचल दृश्य
Stuart model	Chem., Math.	स्टुअर्ट प्रतिरूप	stud welding	Chem.	स्टड संधान
Stuart's instability condition		स्टुअर्ट अस्थायित्व प्रतिबंध	stuetzite	Geol.	स्टुएट्जाइट
stub	Phy., Geog.	स्थूण, ठूठ	stufa	Geol.	स्टूफा
stubachite	Geol.	स्टूबैकाइट	stuff	H.Sc.	स्टफ (बस्त)
stub antenna (=stub aerial)		स्थूण ऐन्टेना	stuffed animal	Zool.	भरा जानवर
stubble	Bot., Geog.	ठूठ	stuffed egg	H.Sc.	भरवां अंडा
stubble crop		ठूठी फसल	stuffing	Biol., Chem., H.Sc.	(n.) प्रभरण, भराव (vb.) भरना
stubble mulch		ठूठी पलवार, ठूठी मल्व	stuffing box		प्रभरण पेटिका
stubble mulch farming		ठूठीदार पलवार खेती	stull	Geol.	काष्ठस्ववेदी, स्टल
Stubb's wire gauge	Chem.	स्टब तार प्रमापी	stump	Geol., Geog.	ठूठ
stubby root nematode	Bot.	अवरुद्ध मूल सूत्रकृमि	stumpage	Bot.	काष्ठ मूल्य
stub guide		स्थूण पथ निर्धारित्र, स्थूण पथक	stump of mountain		पर्वत ठूठ
stub line		स्थूण लाइन	stump shading		ठूठ छाया रंजन
stub matched aerial		स्थूण सुमेलित ऐन्टेना	stunning	Geol.	आघात विभंजन
stub matched antenna		स्थूण सुमेलित ऐन्टेना	stunt	Bot.	स्तंभन, वृद्धिरोध
stub pen		मोटा कलम	stunt disease		स्तंभन रोग
stucco	Geog. H.Sc.	गच (पलस्तर) स्टको	stunted		स्तंभित
stud	H.Sc.	वटन	stunted population	Geog.	रुद्धविकसित जनसंख्या
studding	Chem.	स्टडन	stunted red weed	Geog.	अवरुद्ध लाल अणुतृण
"Studentisation"	Math.	"स्टूडेन्टीकरण"	stunted tree		अवरुद्ध वृक्ष
"Studentised" test		'स्टूडेन्टीकृत' परीक्षण	stunt mottle		कुंठ कुर्वरता
Student's distribution		स्टूडेन्ट वंटन	stunt nematode	Bot.	स्तंभन सूत्रकृमि
Student's test (Student's "t" test)		स्टूडेन्टी परीक्षण, (स्टूडेन्टी 'टी' परीक्षण)	stup	Geol.	स्टप
studio broadcast	Phy.	स्टूडियो प्रसारण	stupp	Chem., Geol.	स्टप्प
studio equipment		स्टूडियो उपस्कर	sturgeon	Zool., Geog.	स्टर्जियन
studio facility		स्टूडियो सुविधा	Sturge's rule		स्टर्ज नियम
studio light board		स्टूडियो प्रकाश पट्ट	Sturmian theory	Math.	स्टर्मीय प्रमेय
studio light broads		स्टूडियो प्रदीप	Sturm Liouville function	Math.	स्टर्म ल्यूविल फलन
studio pick up (=studio broadcast)		स्टूडियो प्रसारण	Sturm's chain		स्टर्म श्रृंखला
			Sturm sequence		स्टर्म अनुक्रम
			Sturm's theorem		स्टर्म प्रमेय
			Sturnidae	Zool.	स्टर्निडी

Sturtevant mill	Chem.	स्टर्टवैन्ट मिल	stylocerite	Zool	कटपानि
sturizaster		स्टुर्टजैस्टर	<i>Stylocidaris bracteata</i>	Zool	स्टाइलोसाइडेरिस ब्रैक्टिगुटा
S-twist	Chem, H.Sc.	S-मोटन, S-वेप्टन	styloglossus	Zool.	शरद्विह्विका
sty	Geog	स्टाई, खडा ढाल	stylographic pen	Geog.	स्टाइलोग्राफीय लेखनी
styens	H.Sc.	स्टाईकॉस	stylohyal	Zool	स्टाइलोहायल, शूककटिका
stygian deposit	Geol	स्टीगियन निक्षेप	styloid	Bot Zool	वतिकाम शूकाम
stylar	Bot	वतिकीय	styloid crystal		स्टाइलाइड क्रिस्टल
stylar canal		वतिका नाल	styloid process	H.Sc.	शर प्रवर्ध
Stylaster	Zool	स्टाइर्नैस्टर	styloite	Geol	स्टाइलोलाइट क्रिस्टल
Stylasterina	Zool	स्टाइर्लैस्टरिना	styloite column		स्टाइलोलाइट स्तम्भ
<i>Stylaster sanguineus</i>		स्टाइर्लैस्टर सैन्गुइनियस	styломastoid foramen	Zool	स्टाइर्लोमैस्टॉइड रंध्र
stylate	Zool. Bot	शूकधारी वतिकाधारी	Stylommatophora	Zool	स्टाइर्लोमैटोफोरा
stylate antenna		शूकधारी शृणिका	stylopid	Zool	स्टाइर्लोपिड
style	Bot Chem. Zool H.Sc.	वतिका कटिका शूक शीली	Stylopidae	Zool.	स्टाइर्लोपिडी
stylet	Zool.	शूकिका	stylopization	Zool	स्टाइर्लोप्सीकरण
stylet aperture		शूकिका छिद्र	stylopized host		स्टाइर्लोप्सीकृत परपोषी
stylet cartilage		शूकिका उपास्थि	stylopodium	Bot	वतिकापाद, स्टाइर्लोपोडियम
stylet extension		शूकिका विस्तार	Stylops	Zool	स्टाइर्लोप्स
stylet guide		शूकिका निर्देशक	stylospore	Bot.	स्टाइर्लोवीरगु, तनु बीजाणु
stylet knob		शूकिका मुंडी	stylostome	Zool.	शूकमुख
stylet protractor		शूकिका अपाकुचक	stylosus	Bot	वतिकायुक्त
stylet sac	Zool	शूक बोस	stylote	Zool.	स्टाइर्लोटे
stylet shaft	Bot. Zool	वतिका काष्ठ शूकिका काष्ठ	stylotypite	Geol.	स्टाइर्लोटाइपाइट
stylexaster	Geol	स्टाइर्नहेक्सास्टर	stylus	Bot Zool	कटिका, शूक प्रणुत
stylifer	Zool.	शूकधर	stylus		मुई (of gramophone)
styliform	Bot, Zool	शूकाकार	Styracaceae	Bot	स्टाइर्रेसी
styliform cartilage		शूकाकार उपास्थि	Styracales	Bot	स्टाइर्रेसीक
Stylinodon	Zool	स्टाइर्लिनोडॉन	styrax benzoin	Bot	स्टाइर्क्स बेंजोइ
stylinaus	Bot.	वतिकीय	<i>Styrax officinalis</i>	Bot.	स्टाइर्क्स ऑफिशिनैलिस
stylized motif	H.Sc.	कृत्वक अनुरूप	styrene	Chem	स्टाइर्निन
Stylobryon	Zool	स्टाइर्लोब्रियोन	styrofoam float	Geog.	स्टाइर्फोम फ्लोट

styron (a resin)	Chem.	स्टाइरॉन	sub-Antarctic water	Geog.	उपदक्षिणध्रुवीय जल
styryl quinoline	Chem.	स्टाइरिल क्विनोलीन	subapical	Zool.	उपशिखाग्र
<i>Suaeda fruticosa</i>	Bot.	स्वेडा फ्रुटिकोसा	subapical meristem (Algae)	Bot.	अवशीयंस्व विमज्योतक
<i>Suaeda maritima</i>		स्वेडा मैरिटिमा	subaquatic eruption	Geol.	अंधोजलीय उद्गार
*Suaelocin (= $\alpha$ Delphini)	Astron.	स्वालोसिन (= $\alpha$ डेलफाइनाइ)	subaquatic volcano		अंधोजलीय ज्वालामुखी
subabdominal	Zool.	अबोदरीय	subaqueous	Geog., Geol.	अंधोजलीय
subactive crater	Geol.	उपसक्रिय क्रेटर	subaqueous outwash plain		अंधोजलीय हिमघात मैदान
subadditive function	Math.	अवयोज्य फलन	subaqueous overwash plain		अंधोजलीय जलघात मैदान
subadditive functional		अवयोज्य फलनक	subaqueous signalling	Phy.	अन्तर्जलीय संकेतन
subadditive set function		अवयोज्य समुच्चय फलन	subaqueous surface		अंधोजलीय पृष्ठ
subaeration cell	Geol.	अधोवातन सेल	subaqueous tuff		अंधोजलीय टफ
subaeration flotation machine		अधोवातन उत्प्लवन मशीन	subarachnoid space	Zool.	अवजालतानिका अवकाश
subaerial	Geog., Geol.	भूपृष्ठीय	subarborescent fern	Bot.	अल्पवृक्षवत फर्न
subaerial erosion		भूपृष्ठीय अपरदन	sub-archesporial	Bot.	प्रप्रभूतकाधस्य
subaerial eruption		भूपृष्ठीय उद्गार	sub arctic climate	Geog.	उपध्रुवीय जलवायु
sub-aerial platform		भूपृष्ठीय वेदी	sub arctic culture		उपध्रुवीय संस्कृति
sub-aerial pothole		भूपृष्ठीय जलजगतिका	subarctic element	Bot.	उपोत्तर ध्रुवीय तत्व
subaerial relief		भूपृष्ठीय उच्चावच	subarkose	Geol.	उपवार्कोज
subaerial rocks		भूपृष्ठीय शैल	sub artesian	Geog.	उप आर्टीजियाई
subaerial valley		भूपृष्ठीय घाटी	subastral	Phy.	अधोतारकीय
subaeric tuff	Geol.	भूपृष्ठीय टफ	subatomic	Chem.	अवपरमाणुक
subaeric volcano		भूपृष्ठीय ज्वालामुखी	sub atomic particle		अवपरमाणविक कण
sub-aggregate	Math.	उपसमुच्चय	subatrial ridge	Zool.	अवकोष्ठ कटक
subahia	H.Sc.	मुवगहिया	subauricular	Zool.	अवकर्णिक
subalare	Zool.	पञ्चाधारिका, सबएलेरी	subbacteriostatic	Bot.	अल्प जीवाणुनिरोधी
subalar sclerite	Zool.	अग्रपक्ष कटक	sub band	Phy.	उप बैंड, उप पट्टिका
subalgebra	Math.	उपबीजावली	subbase	Math.	उपाधार
subalkaline	Geol.	उपक्षारीय	subbase element		उपाधार अवयव
suballuvial bench	Geog.	अधः जलोद्द वेंच	sub-bituminous coal	Geol.	उप-बिटुमेनी कोयला
sub anal fasciole	Zool., Geol.	अधोगुद फैसियोला, अधोगुद पक्षमपट्टक	sub-boreal	Zool.	उप-बोरियल
subanal podium	Zool.	अवगुद पद	sub boric acid	Chem.	सब-बोरिक अम्ल
subangular	Geol.	उपकोणित	subboundary	Phy.	उपसीमा
subangular stone		उपकोणित पत्थर	sub-branchial	Zool.	अवक्लोमी
sub-Antarctic community	Zool.	उप-एन्टार्क्टिक समुदाय	subcapillary interstice	Geol.	उपकेशिका-अंत रकाश
			subcapillary space		उपकेशिकीय अंतराल

subcapital	<i>Geog.</i>	उपराजधानी	sub-collection	<i>Math</i>	उपसमूह
subcardinal sinus	<i>Zool</i>	उपप्रमुख कोटर	sub-community	<i>Zool.</i>	उपसमुदाय
subcardinal vein		उपप्रमुख शिरा	sub compound	<i>Chem</i>	उपशौणिक, मध्यशौणिक
subcardinal vessel		उपप्रमुख वाहिका	subconchoidal	<i>Geol.</i>	उपशकाम
subcarrier	<i>Phy.</i>	उपवाहक	subconstellation	<i>Math</i>	उपतारासमूह
subcarrier amplitude		उपवाहक आयाम	subcontinental area	<i>Geog</i>	उपमहाद्वीपीय क्षेत्र
sub carrier bursts		उपवाहक प्रस्फोट	subcordate	<i>Zool.</i>	उपहृदयाकार
sub carrier discriminator		उपवाहक विभेदक	subcorneous	<i>Zool.</i>	उपशृंगी
sub carrier signal		उपवाहक संकेत, उपवाहक सिग्नल	subcortical cavity	<i>Zool.</i>	उपदन्तुकीय गुहा
subcartilaginous	<i>Zool</i>	अवोपास्थिल	subcortical crypt		उपदन्तुकीय प्रगुहिका
subcaudal pocket	<i>Zool</i>	अध पुच्छी कोटरिका	subcosta	<i>Zool</i>	उपकॉस्टा, उपपशुंका
subcaudal shield		अध पुच्छविशल्क	subcostal		उपपशुंक
subcaudate	<i>Zool</i>	अधपुच्छी	subcover	<i>Math</i>	उपआवरण
subcaulescent	<i>Bot</i>	अल्पस्तम्बी	subcota	<i>Zool.</i>	उपकक्षा
subcell		उपकोशिका	subcoxal ring		उपकक्षाधी वलय
subcellular fraction	<i>Chem.</i>	उपकोशिकीय प्रभाज	subcrenate	<i>Bot.</i>	अल्पगुठदन्ती
subcentral adductor pit	<i>Geol.</i>	उपकेन्द्रीय अभिवर्तनी गर्त	subcritical	<i>Phy, Chem</i>	उपक्रान्तिक
sub centre	<i>Geog</i>	उपकेन्द्र	subcritical annealing		उपक्रान्तिक अनिलन
subcephalic pocket	<i>Zool</i>	अध शीर्ष कोटरिका	subcritical assembly		उपक्रान्तिक समुच्चय
subcephalic setae	<i>Zool.</i>	अध शिरस्थ सूक	subcritical multiplication		उपक्रान्तिक गुणन
subcerebral gland	<i>Zool</i>	उपमस्तिष्क ग्रन्थि	subcritical operation		उपक्रान्तिक प्रचालन
subcharacteristic	<i>Math</i>	उपामिलक्षण	subcrop map	<i>Geol</i>	अधकृष्यात मानचित्र
subchela	<i>Zool</i>	उपकरज	subcrustal circulation	<i>Geol</i>	अधोभूपटलीय परिसंचरण
subchelate		उपकरजी	subcrustal convection currents	<i>Geol</i>	अधोभूपटलीय संचलन धारायें
subcheliceral	<i>Zool.</i>	अधकीलितोरीय	subcrustal deformation		अधोभूपटलीय विरूपण
subchord	<i>Geog.</i>	उपश्रीवा	sub-culture	<i>Biol</i>	उपसंवर्ध
subchordal bar	<i>Zool.</i>	उपशृङ्ग दण्ड	subculturing		उपसंवर्धन
subclass	<i>Zool.</i>	उपवर्ग, उपवर्णनाम	subcutaneous abscess (tonsillar abscess)	<i>Zool</i>	अधत्वक विद्रधि (टॉन्सिली विद्रधि)
subclavate	<i>Zool.</i>	उपमुद्गराकार	sub cuticle	<i>Bot</i>	उपतण्डुलक
subclavian artery	<i>Zool</i>	अधोशृङ्ग घमनी	subcuticular	<i>Zool</i>	अधोत्वकीय
subclavian vein		अधोशृङ्ग शिरा	subcuticular gall	<i>Zool</i>	अधोत्वकी पिष्टिका
subclavius	<i>Zool</i>	अधोशृङ्ग पेशी	subcuticular plexus		अधोत्वकी जाल
sub climax	<i>Bot.</i>	उपचरम	subcuticular striation		अधोत्वकीय रेखांकन
subclinical scurvy	<i>H.Sc.</i>	लक्षणहीन स्कर्वी	subcutis	<i>Zool</i>	उपचर्म
sub coastal plain	<i>Geol</i>	उपनदीय मैदान	subcycle	<i>Geog.</i>	उपचक्र

subcylindric		उपबेलनाकार	subepidermal plate		उपाधिचर्मी पट्टिका
subcylindrical		उपबेलनाकार	subepidermal plexus		उपाधिचर्मीय जालक
subcylindrical fishes		उपबेलनाकार मीन	subepithelium	Zool.	सदृशपिथीलियम, अवोपकला
subdelta	Geol.	उपडेल्टा	subequal	Geol.	तुल्यप्राय
subdendroid	Bot.	उपवृक्षाभ	subequilateral	Math.	उपसमबाहु
subdermal cavity	Zool.	उपचर्मीय गुहा	suberic acid	Chem.	सुवेरिक अम्ल, सुवेरिक ऐसिड
subdermal space		उपचर्म अवकाश	suberin	Bot.	सुवेरिन
subdermal trabecular net	Zool.	उपचर्म ट्रैबीक्यूलानु जाल, उपचर्म सम्बंधक जाल	suberin layer		सुवेरिन स्तर
sub determinant	Math.	अव-सारणिक	suberisation		सुवेरिनीकरण
subdiagonal matrix	Math.	अवविकर्ण आय्यूह	suberites		सुवेराइटीज
subdichotomous	Bot.	उपद्विभाजनीय	suberized		सुवेरिन्मय
subdichotomy	Math.	उपद्विभाजन	suberogenic acid	Bot.	सुवेरोजेनिक अम्ल
subdigitigrade	Zool.	उपान्गुलिचारी	subexcitation	Chem.	उप उत्तेजन
subdirect product	Math.	उपानुलोम गुणनफल	subexcitation electron	Chem.	उप उत्तेजित इलेक्ट्रॉन
subdivided	Chem.	प्रविभाजित	subfacies	Geol.	उपसंलक्षणी
subdivided bar		प्रविभाजित दंड	subfamily	Biol.	उपकुल, उपकैमिली
subdivision (state)	Chem.	1. प्रविभाजन (अवस्था) 2. प्रविभाग	subfauna	Zool.	उपप्राणिजात
subdivision of interval	Geog.	अन्तराल उपविभाजन	subfield	Math.	उपक्षेत्र
subdomain	Math.	उपप्रांत	subfluoride	Chem.	सब-फ्लुओराइड
subdominant		उपप्रभावी	subforma	Bot.	उपफॉर्मा, उपरूपभेद
subdorsal	Zool.	उपपृष्ठीय	sub formant	Phy.	उप फॉर्मंट
subdorsal nerve		अवोपृष्ठ तंत्रिका, उपपृष्ठीय तंत्रिका	sub fossil bone	Geog.	उपफॉसिल अस्थि
subdued relief	Geog.	अल्पउच्चायत्र	sub fossil deposits	Zool.	उपजीवाश्मी निक्षेप
subdued slope	Geog.	मंदढाल	subfrigid	Zool.	उपशीत
subduplicate ratio	Math.	वर्गमूलानुपात	subfrontal plate	Zool.	अवललाट पट्टिका
subdural cavity	Zool.	अवदृढ़तानिका गुहा	subfunction	Math.	उपफलन
subdwarf star	Math.	उपवामन तारा	subgalea	Zool.	उपगेलिया
sub electron	Phy.	उपइलेक्ट्रॉन	subgastral trabecular net	Zool.	अधोजठरीय ट्रैबीक्यूलानु जाल, अधोजठरीय संबंधक जाल
subendostylar coelom	Zool.	उपात्रीप्रसनी प्रगुहा	subgastrodermal muscle	Zool.	अधोजठरचर्मीय पेशी
subepidermal	Zool., Bot., Geol.	उपाधिचर्मीय, उपवाह्यत्वचीय	subgelisol	Geol.	अवतुपार भूमि, अवजैलिसॉल
subepidermal layer		उपाधिचर्मी परत	subgenital	Zool.	अवजनद
subepidermal muscle		उपाधिचर्मी पेशी	subgenital pit		अवजनद गर्त
subepidermal musculature		उपाधिचर्मी पेशीन्यास	subgenital porticus		अवजनद गुहा
subepidermal nerve		उपाधिचर्मी तंत्रिका			

subgenual organ	<i>Zool.</i>	अवजानुक अंग	subindividual	<i>Geol., Zool.</i>	उपव्यष्टि
subgenus	<i>Zool., Bot.</i>	उपवश, उपबौदस	sub infantile	<i>Geog.</i>	उपबालवत्
subgerminal cavity (blastocoel)	<i>Zool.</i>	कोरक गुहा	subinferior	<i>Bot.</i>	उपअधोवर्ती
subgiant star	<i>Math.</i>	उप बृहत् तारा, उप दानव तारा	subinfluent	<i>Bot.</i>	उपप्रभावक
subglacial	<i>Geol., Geog.</i>	अधोहिमानी	subinhibitory	<i>Bot.</i>	उपनिरोधी
subglacial eruption		अधोहिमानी उद्गार	subinoculation	<i>Bot.</i>	उपनिवेशन, उपसरोपण
subglacial moraine		अधोहिमानी हिमोद्ग	subintegumental scolophore	<i>Zool.</i>	अवअध्यावरणी तर्कमवेदिका
subglacial stream		अधोहिमानी सरिता	subinterstitial particle	<i>Geol.</i>	लघु अंतराकाशी कण
subglacial wash		अधोहिमानी अपोढ	sub-interval	<i>Math.</i>	उपांतराल
subglobular	<i>Geol.</i>	उपगोलाकार	subintestinal ganglion	<i>Zool.</i>	अवात्र गुच्छिका
sub glottal pressure	<i>Phy.</i>	श्वासद्वारीय दाब, उपकण्ठद्वारीय दाब	subintestinal vein		अवात्र शिरा
subgrain	<i>Phy., Chem.</i>	उपरणु, उपकण	subintestinal vessel		अवात्र बाहिरा
subgrain structure		उपरणु संरचना	sub isopolar		उप समध्रुवी
subgraywacke	<i>Geol., Geog.</i>	उपग्रेवैक	sublanceous	<i>Zool.</i>	आशुवर्धी
subgroup	<i>Math., Chem.</i>	उपवर्ग, उपसमूह, उपवृष	subjacent	<i>Geol., Geog.</i>	अधोलग्न
sub group averages		उपसमूह माध्य	subjacent mass		अधोलग्न पिढ
sub group dispersion		उपसमूह विशेषण	subjacent rock		अधोलग्न शैल
subgular vocal sac	<i>Zool.</i>	उपगन वाक् कोश	subjective		व्यक्तिनिष्ठ
subhalides	<i>Chem.</i>	सबहेलाइड	subjective characteristics		व्यक्तिनिष्ठ अभिनक्षण
subharmonic function	<i>Math.</i>	अवप्रसवादी फलन	subjective phenomenon		व्यक्तिनिष्ठ परिघटना
subharmonic resonance	<i>Phy.</i>	अवसनादी अनुवाद	subjective sampling		व्यक्तिनिष्ठ प्रतिचयन
subharmonics	<i>Phy.</i>	अवसनादी	subjective test		व्यक्तिनिष्ठ परोक्षण
sub head		उपशीर्षक	subjective value		व्यक्तिनिष्ठ मूल्य
sub heading		उपशीर्षक	subjective tone		व्यक्तिनिष्ठ स्वरक
subhedral	<i>Geol.</i>	अशकलकीय	subjolats	<i>Geol.</i>	उपमधि
subherbaceous	<i>Bot.</i>	उपशाकीय	subjudice		न्यायाधीन
sub-Himalayan zone	<i>Geol.</i>	अधोहिमालय प्रदेश	subjugation	<i>Geog.</i>	अधीनोकरण, अधीनता
subhornblendic	<i>Geol.</i>	अल्पहार्नब्लेंडी	subkingdom	<i>Bot., Zool.</i>	उपजनन, उपकिंगडम
subhumid		अल्पाद्रै	sublacustrine plain	<i>Geog.</i>	अध सररोवरीय मैदान
subhydrate	<i>Chem.</i>	सबहाइड्रेट	sublagoon rock platform	<i>Geog.</i>	अधीनैयून शैलवेदी
subhydrocalcite	<i>Geol.</i>	सबहाइड्रोक्साइड	sublamination	<i>Geol.</i>	उपस्तरिका
subiculum, (=subicle)	<i>Bot.</i>	अधोजाल	sublanceet	<i>Zool.</i>	उपकुलक
sub image speck	<i>Phy.</i>	अध प्रतिबिम्ब कणिका	sublattice	<i>Phy., Math.</i>	उपजालक
subimago	<i>Zool.</i>	अधपूर्णक (अधपूर्णकीट)	sublayer	<i>Math.</i>	उपरपर

sublenticular	<i>Bot.</i>	किञ्चित् मसुराकार
sublethal	<i>Zool., Bot.</i>	अवघातक
sublethal current		अवघातक धारा
sublevation	<i>Geol.</i>	तलापरदन
sublevel	<i>Geol.</i>	उपलेवेल
sub level (sub energy level)	<i>Phy.</i>	उप तल, उप ऊर्जतल
sublevel caving		उपलेवेल निपातन
sublevel stoping		उपलेवेल निखनन
sublimate	<i>Chem., Geog., Zool.</i>	(n) ऊर्ध्वपातज (vb.) ऊर्ध्वपातन करना
sublimate solution		ऊर्ध्वपातज विलयन
sublimation	<i>Chem., Geol.</i>	ऊर्ध्वपातन
sublimation curve		ऊर्ध्वपातन वक्र
sublimation nucleus		ऊर्ध्वपातन केन्द्रक
sublimation point		ऊर्ध्वपातनांक
sublimation product		ऊर्ध्वपातन-उत्पाद
sublimation vein		ऊर्ध्वपातन शिरा
sublime	<i>Chem.</i>	ऊर्ध्वपातन होना
sublinear function		उपरिद्विक फलन
sublingua	<i>Zool.</i>	अधोजिह्वा
sublingual fold	<i>H.Sc.</i>	अधोजिह्वा पुटक
sublingual gland		अधोजिह्वा ग्रंथि
sublittoral	<i>Zool., Geog., Geol.</i>	उपवेलांचली
sublittoral fringe		उपवेलांचली धारा
sublittoral zone		उपवेलांचल क्षेत्र
sublobular	<i>Zool.</i>	उपपालिकीय
submagma	<i>Geol.</i>	उपमग्मा
submalleate	<i>Zool.</i>	उपधनाकार
submandibular	<i>Zool.</i>	अवचिबुकीय
submandibular gland	<i>H.Sc.</i>	अधोहृत् ग्रन्थि
submanifold	<i>Math.</i>	उप प्रसमपिंड
submargin	<i>Zool.</i>	अवोपान्त
submarginal agricultural land	<i>Geog.</i>	उपसीमान्तीय कृषिभूमि
submarginal moraine		उपसीमान्तीय हिमोढ़

submarine		(adj.) अन्तः समुद्री, अंतःसागरी (n.) पनडुब्बी
submarine bank		अंतःसमुद्री बैंक
submarine bar		अंतःसमुद्री रोधिका
submarine bathymetry		अंतःसमुद्री गभी रतामिति
submarine cable		अंतःसमुद्री केबल
submarine canyon		अंतःसमुद्री केनियन
submarine contour		अंतःसमुद्री समोच्चरेखा
submarine eruption		अंतःसमुद्री उद्गार
submarine fumarole		अंतःसागरी वाष्पमुख
submarine geology		अधःसागरीय भूविज्ञान
submarine margin		अंतःसमुद्री किनारा
submarine mountain		अंतःसमुद्री पर्वत
submarine platform		अंतःसमुद्री वेदी
submarine profile		अंतःसमुद्री परिच्छेदिका
submarine ridge		अंतःसमुद्री कटक
submarine rock		अंतःसमुद्री शैल
submarine signalling		समुद्रगर्भा संकेतन, अंतःसमुद्री संकेतन
submarine slumping		अंतःसमुद्री अवपतन
submarine telegraph cable		अंतःसमुद्री टेलीग्राफ केबल
submarine telegraphy		अंतःसागरी तारसंचार
submarine throat (drop throat)	<i>Chem.</i>	निमज्जित कंठ
submarine valley		अंतःसागरीय घाटी
submarine volcanic action		अंतःसमुद्री ज्वालामुखी क्रिया
submarine volcanic earthquake		अंतःसागरी ज्वालामुखीय भूकम्प
submarine volcano		अंतःसमुद्री ज्वालामुखी
submarine weathering		अधःसागरीय अपक्षय
submatrix	<i>Math.</i>	उपमैट्रिक्स, उपाव्यूह
submature	<i>Zool.</i>	1. उपप्रौढ़, उपपरिपक्व 2. मितपक्व
submaxillary	<i>Zool.</i>	अधोजंभ
submaxillary gland		अधोजंभ ग्रंथि
submedian	<i>Bot., Zool.</i>	उपमाध्य

submedian caudal papilla		उपमाध्य पुच्छीय विप्लव	submorainic deposits (stratfield drift)	Geol.	उपहिमोटी निक्षेप, उपहिमोडक
submedian giant fibre		उपमाध्य महातनु	submucosa	Zool	1 अघ इलेक्ट्रिक, सबम्यूकोसा
submedian papilla		उपमाध्य विप्लव, उपमाध्य पीपेला		H Sc.	2 अवशरैत्मिक बला
submental		सबमेन्टेलिस्	submultiple	Math.	अपवर्तक
submentum	H Sc, Zool	सबमेन्टम, अघ चिबुकाग	submultiple resonance	Phy.	अपवर्तकी अनुनाद
submerged aerial	Phy.	निमज्जित ऐन्टेना	submultiplicative function	Math.	अवगुण्य फलन
submerged coast	Geog, Geol.	निमग्न तट	submuscular	Zool	उपपेशीय
submerged forest		निमग्न वन	submuscular plexus		उपपेशीय जालक
submerged glacial trough		निमग्न हिम द्रोणी	subnasal cartilage	Zool.	उपनासा उपारस्थि
submerged ice		निमग्न बर्फ	subnate	Geol	उपपंटीय
submerged maximum		निमज्जित भूविष्ट	subnational unit	Geog.	उपराष्ट्रीय एकक
submerged ridge		निमग्न कटक	subneat	Chem	सबनीट
submerged rock		निमग्न शील	subnet	Math	उपजाल
submerged sand		निमग्न बालू	subneural gland	Zool.	अघस्तत्रिका ग्रंथि
submerged stage		निमगनावस्था	subneural vessel		अघस्तत्रिका वाहिनी
submerged throat		निमज्जित कंठ	subnitrate	Chem.	सबनाइट्रेट
submerged valley		निमग्न घाटी	subnival belt	Geog.	उपनाइवल भेगला
submergence	Geog, Geol	निमज्जन	subnival region		उपनाइवल प्रदेश
submersus (= submerged)	Bot.	निमग्न	subnormal		(n) अधोनव (adj.) अवसामान्य
submetacoentric	Zool	उपमध्यकेन्द्री	subnormal dispersion	Math.	अवसामान्य विशेषण
sub metallic lustre	Chem	अन्तर्धात्विक छुति	subnormal integrals		अवसामान्य समाकल
submicron	Phy.	सबमाइक्रान	subnuclear particle	Phy.	अवनाभिक्रीय कण
submicroscopic	Bot, Zool, Phy.	1. अतिमूद्रम 2. अतिमूद्रमदर्शीय 3. उपमूद्रमदर्शीय	subnuclear physics		अवनाभिक्रीय भौतिकी
sub microscopic crystal		अतिमूद्रम क्रिस्टल	suboccipital	Zool	अवानुकपाल
submicroscopic pores		अत्युदमदर्शी रंध्र	suboceanic relief	Geog.	उपमहासागरीय उच्चावच
submillimetre wave	Phy.	अवगतिमीटर तरंग	subocular arcade	Zool.	अवगति तोरण
subminiature	Phy.	अतिव्यु	subocular arch		अवगति चाप
sub missile	Phy.	उप मिसाइल	subocular fenestra		अवगति शिवाश
submodel	Math.	उपनिदर्श	subocular shield		अवगति विशल्क
submoderate virus	Bot.	अल्पधाती वाइरस, अल्पधाती विषाणु	suboesophageal complex	Zool.	अघोपशिवा पुंज
sub modale	Math.	उपप्रतिरूपक	suboesophageal ganglia		अघोपशिका गुच्छिका
submolecular orbital	Chem,	उपार्थिवक बंधक	suboperative function	Math.	अवसकारी फलन



subopercular		अवप्रच्छदी	subpolar gyre		उपध्रुवीय वृत्ताकार गति
suboperculum		अवप्रच्छद	subpolar low		अधोध्रुवीय निम्नदाब
subophitic	<i>Geol.</i>	उपअॉफाइटी	subpolar region		अधोध्रुवीय प्रदेश
sub opposite	<i>Bot.</i>	आसम्मूख	subpopulation	<i>Zool.</i>	उपसमष्टि
suboptic	<i>Zool.</i>	अवदृक्	subporphyritic	<i>Geol.</i>	उपपॉर्फिरीय
suboptimal	<i>Bot.,H.Sc.</i>	उपानुकूलतम, उपेष्टतम	subprogramme	<i>Math.,Phy.</i>	उपप्रोग्राम
suboral	<i>Zool.</i>	उपमौख, उपमूखीय	subpubic	<i>Zool.</i>	उपजघन
suborbicular	<i>Bot.</i>	उपवृत्ताकार	subpulmonary	<i>Zool.</i>	उपफुफुसी
suborbital	<i>Zool.</i>	उपनेत्रत्र, अवाक्षिकोटर	sub quadrangular		उपचतुर्भुजी
suborder	<i>Bot.,Zool.</i>	उपगण, उपआर्डर	subquadrate	<i>Geol.</i>	उपवर्गीय
subordinal		उपगणीय	subradula commissure	<i>Zool.</i>	अधोघर्षित संघाथी
subordinate	<i>Math.</i>	अधीन	sub radular	<i>Zool.</i>	अधोरेडुली, अधोघर्षित
subordinate derivative		अधीन व्युत्पन्न	subradular ganglion		अधोघर्षित गुच्छिका
subordinate nappe	<i>Geol.</i>	गोण नापे	subradular membrane		अधोघर्षित कला
subordinate series		गोण श्रेणी	subradular organ		अधोघर्षित अंग
subordinate vent		गोण द्वार	subrange	<i>Math.</i>	उपपरिसर
subordinate volcano		गोणज्वालामुखी	subrecent	<i>Geol.</i>	प्राक्-अभिनव, प्राक्-अर्वाचीन
sub-outcrop	<i>Geol.</i>	उपदृश्यांश	subrecent eruption		प्राक्-अर्वाचीन उद्भेदन
sub oxide	<i>Chem.</i>	सब-ऑक्साइड	subrectangular	<i>Bot.,Geol.</i>	उप-आयताकार
subpallium	<i>Zool.</i>	उपप्रावार	sub region	<i>Geog.</i>	उपप्रदेश
subparallel	<i>Phy,Geog., Geol.</i>	अवसमान्तर	sub register	<i>Phy.</i>	उप-रजिस्टर
subparallel aggregate		अवसमान्तर समुच्चय	subreniform	<i>Bot.</i>	आवृक्काकार
subpartition	<i>Math.</i>	उपविभाजन	subring	<i>Math.</i>	उपवलय, उपरिंग
subpatent period	<i>Zool.</i>	उपव्यक्त काल	subrostral	<i>Zool.</i>	उपतुंडीय
subpellicle	<i>Zool.</i>	उपतनुत्वक	subrounded	<i>Geol.</i>	उपगोलित
subpentagonal	<i>Geol.</i>	उपपंचभुजीय	subroutine	<i>Phy.</i>	उपनित्यक्रम, उपनेमका
sub-period	<i>Geol.</i>	उपकल्प	sub Rydberg transition	<i>Phy.</i>	उप रिडबर्ग संक्रमण
sub petaloid	<i>Bot.</i>	उपदलाम	subsacral	<i>Zool.</i>	अनुत्त्रिक
sub petiolar	<i>Bot.</i>	पर्णवृत्ताग्रस्थ	sub sample	<i>Math.</i>	उपप्रतिदर्श
subpharyngeal ganglion	<i>Zool.</i>	अवग्रसनीय गुच्छिका	subsample means		उपप्रतिदर्श माध्य
subpharyngeal ganglionic mass		अवग्रसनी गुच्छिका संहति	sub sampling	<i>Math.</i>	उपप्रतिचयन
sub-photic	<i>Zool.</i>	उप-प्रकाशी	subsatellite	<i>Phy.</i>	उप उपग्रह, अनु-उपग्रह
subphylum	<i>Bot.,Zool.</i>	उपसंघ, उपफाइलम	subscale formation	<i>Chem.</i>	उपशल्क समचन
subplacental cavity	<i>Zool.</i>	अपरा-अग्रस्थ गुहा	subscapular artery	<i>Zool.</i>	अंसफलकाग्रस्थ धमनी
subpolar	<i>Geog.</i>	अधोध्रुवीय	subscript	<i>Math.</i>	पादांक, पादाक्षर, पादलिपि
			subscription	<i>H.Sc.</i>	अभिमदान

subscription television	<i>Phy.</i>	सशुल्क टेलिविजन	subsidiary parabole		गोण पैराबोल, गोण परवलय
subsection	<i>Math.</i>	उपपरिच्छेद	subsidiary quantum number		गोण क्वान्टम अंक
subsemigroup	<i>Math.</i>	उपसामिसमूह	subsidiary reference electrode		गोण उपनाम इलेक्ट्रोड
subsequence	<i>Math.</i>	उपानुक्रम	subsidiary series		गोण श्रेणी
subsequent	<i>Geol., Geog.</i>	परवर्ती	subsidiary station	<i>Geog</i>	उपचादा, गोण स्टेशन
subsequent course		परवर्ती मार्ग	subsidiary table		सहायक सारणी
subsequent divide		परवर्ती विभाजक	subsidiary triangulation	<i>Geog</i>	उपत्रिकोणीयन
subsequent fall		परवर्ती प्रपात	subsidiary value		गोणमान
subsequent folding		परवर्ती बलन	subsiding foundation	<i>Geog.</i>	धंसती नींव
subsequent international boundary		परवर्ती अन्तर्राष्ट्रीय सीमा	subsiding island		धंसता द्वीप
subsequent pluton		परवर्ती प्लूटॉन	subsidy war	<i>Geog</i>	परिदाती सपथे
subsequent river		परवर्ती नदी	subsilicate	<i>Geol.</i>	सवसिलोकेट
subsequent sheer thrust		परवर्ती अपरूपण क्षेप	subsilicic	<i>Geol</i>	अल्पमिलिक
subsequent stream		परवर्ती सरिता, परवर्ती धारा	subsilicic rock		अल्पमिलिक शैल
subsequent tributary		परवर्ती सहायक नदी	subsistence	<i>H Sc.</i>	जीविका, निर्वाह, गुजारा
subsequent valley		परवर्ती घाटी	subsistence crop		निर्वाह सस्य
subserve	<i>Bot.</i>	उप नसक	subsistence economy		निर्वाह अर्थव्यवस्था
subsessile	<i>Bot.</i>	अवृत्तप्राय	subsistence farming		जीविका खेती
subset	<i>Math.</i>	उपसमूच्चय	sub-social	<i>Zool</i>	अवसामाजिक, उपसामाजिक
subshell	<i>Phy.</i>	उपकोश	subsoil	<i>Bot, Geog, Geol.</i>	अवमृदा
sub shrub	<i>Bot.</i>	उपक्षुप	subsoil clay		अवमृदा मुत्तिका
subsidiation equipment	<i>Chem.</i>	अवतलन उपस्कर	subsoil farming		अवमृदा-कृषि
subsidence of a cylinder	<i>Math, Zool</i>	बेलन अवतलन	sub soiling		अवमृदा-जुताई
subsidence structure		अवतलन संरचना	subsoil irrigation		अवमृदा-सिंचाई
subsidence theory		अवतलन सिद्धान्त	subsoil water		अवमृदा-जल
subsidiary		गोण, सहायक	subsoil weathering		अवमृदा अपराय
subsidiary absorption edges		गोण अवशोषण कोर	subsolar point		अध सूर्य बिन्दु
subsidiary cathode		सहायक कैथोड	subsolidification	<i>Geol.</i>	मृदा अघ सार्थन
subsidiary condition		सहायक प्रतिबन्ध	subsolvus	<i>Geol</i>	सबसॉल्वस
subsidiary cone		गोण शंकु	subsonic	<i>Math, Phy.</i>	अवध्वानिक
subsidiary line		उपरेखा, गोण रेखा	subsonic aircraft		अवध्वानिक वायुयान
subsidiary neck		गोण ग्रीवा	subsonic diffuser		अवध्वानिक विस्तारक
subsidiary notion		गोण धारणा	subsonic edge		अवध्वानिक कोर

subsonic flow		अवध्वानिक प्रवाह	substitutional mixed crystal		प्रतिस्थापनी मिश्रित क्रिस्टल, प्रतिस्थापनी मिश्रित स्फटिक
subsonic free stream velocity		अवध्वानिक मुक्त धारा वेग	substitutional reaction		प्रतिस्थापनी अभिक्रिया
subsonic main flow		अवध्वानिक मुख्य प्रवाह	substitution group		प्रतिस्थापन समूह
subsonic region		अवध्वानिक प्रदेश	substitution method		प्रतिस्थापन विधि
subsonics	Phy.	अवध्वानिकी	substitution operator		प्रतिस्थापन संकारक
subsonic velocity		अवध्वानिक वेग	substitution principle		प्रतिस्थापन सिद्धान्त
sub-sow block	Chem.	अनुकूलक ब्लॉक	substitution product		प्रतिस्थापनिक उत्पाद, प्रतिस्थापनिक पदार्थ
subspace	Math.	उपसमष्टि	substitution solid solution		प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन
subspace topology		उपसमष्टि की संस्थिति	substitution titration		प्रतिस्थापन अनुमापन, प्रतिस्थापन टाइट्रीकरण
sub-speciation	Zool.	उपजातिमयन	substitution vein		प्रतिस्थापन शिरा
subspecies	Bot., Zool.	उपजाति, उपस्पीशीज	substitution vortex		प्रतिस्थापन भ्रमिल
subspecific		उपजातीय	substomatal cavity	Bot.	अधोरंधी गुहिका
subspheroidal	Geol.	उपगोलाभी	substomatal chamber		अधोरंधी कोष्ठ
substage condenser	Phy.	अधोमंच संग्राही	substrain	Zool.	उपविभेद
substalagmite	Geol.	सबस्टैलैग्माइट पदार्थ	substrate	Bot., Phy. H.Sc.	वहस्तर, क्रियाधार कार्यद्रव, सबस्ट्रेट
substance		पदार्थ	sub stratification	Math.	उपस्तरण
substance quotient		पदार्थ भागफल	substratum		1. (Geol.) अधःस्तर 2. आधार
substandard	Phy.	(adj.) मानकच्युत (n.) उपमानक	substructure	Chem., Phy.	उपसंरचना
substantial derivative	Math.	संपूर्ण अवकलज	substyle	Zool.	अधःकंडिका
substantial stake	Geog.	मजबूत खूंटा	subsurface character	Geol., Geog.	अधःस्तर लक्षण
substantive dye	Chem.	स्वतः रंजक	subsurface contour		अधःस्तर समोच्चरेखा, अधःपृष्ठीय समोच्चरेखा
substantivity		स्वतः रंजकता	subsurface correlation		अधःस्तलीय सहसंबंध
substellate	Bot.	अधोताराकार	subsurface exploration		अधःस्तर अन्वेषण
substeller point	Phy.	अधोतारा बिन्दु	subsurface geology		अधःस्तर भूविज्ञान
substituent	Chem.	प्रतिस्थापनी	subsurface map		अधःस्तर मानचित्र, अधःस्तर नैप
substitute	Math.	(vb.) प्रतिस्थापन करना, प्रतिस्थापित करना (n) प्रतिस्थापनी	subsurface water		अधःस्तर जल
substitute association	Bot.	अपर साहचर्य	subsurface work		अधः पृष्ठी अध्ययन
substitute F-ratio	Math.	स्थानापन्न F-अनुपात	subsutural canal	Geol.	अधः सीपनी नलिका
substitution		प्रतिस्थापन			
substitutional binary alloy		प्रतिस्थापनी द्विधातु ऐलॉय			
substitutional diffusion		प्रतिस्थापनिक विसरण			

sub synchronous	<i>Phy.</i>	अवतुल्यकाली. अपत्रवर्तक कालिक	subterranean stream	भूमिगत सरिता
subsystem	<i>Math</i> <i>Geol.</i>	उपतन्त्र, उपनिष्ठा उपसमूह	subterranean tributary	भूमिगत सहायक नदी
sub tabular	<i>Geol.</i>	अल्प सपाट	subterranean water	भूमिगत जल
subtabulation	<i>Math.</i>	उपसारणीयन	subterraneous	<i>Bot</i>
subtangent	<i>Math.</i>	अध स्पर्शी	subterraneous snake	<i>Zool.</i>
subtegminat	<i>Zool, Geol.</i>	अवप्रवार	subtertian malaria	<i>Zool</i>
subtegminal plexus		अवप्रवार जालक	subthoracic	<i>Zool</i>
subtend	<i>Bot.</i> <i>Math.</i>	कक्षातरित करना अन्तरित करना	subtilin	<i>Chem</i>
subtended	<i>Bot.</i> <i>Math.</i>	कक्षातरित अन्तरित	subtily	
subtending		कक्षातरकारी	subtopia	<i>Geog</i>
subtense bar	<i>Geog.</i>	संबर्द्धन बार	subtown	<i>Geog.</i>
subtentacular canal	<i>Zool</i>	अवस्पर्शक नान	subtract	<i>Math</i>
subterminal	<i>Bot., Geol.</i>	उपातित, उपातस्थ	subtraction	
subterminal crater		उपातस्थ क्रेटर	subtraction formula	
subterminal meristem	<i>Bot (Algal)</i>	उपातस्थ विभज्योतक	subtraction colour	
subterminal outflow		उपातस्थ बहिर्वाह	subtractive colour	
subterposition	<i>Geol.</i>	अवक्रमस्थिति	subtractive colour system	
subterrane	<i>Geol.</i>	अन्त भूमिक शैल	subtractive mixing	
subterranean	<i>Geol, Biol., Geog.</i>	अन्त. भूमिक, भूमिगत	subtractive set function	
subterranean adaptation		अन्त भूमिक अनुकूलन	subtrahend	<i>Math.</i>
subterranean animal		अन्तःभूमिक प्राणी	subtranslucent	<i>Phy.</i>
subterranean cave		अन्तःभूमिक गुफा	subtransparent	<i>Phy.</i>
subterranean cavity		भूमिगत गुहिका	subtribe	<i>Geog. Zool</i>
subterranean channel		भूमिगत प्रणाल	subtropical	<i>Geog, Zool.</i>
subterranean deficiency		अन्त भूमिक अपूर्णता	subtropical climate	
subterranean denudation		अन्तःभूमिक अनाच्छादन	subtropical convergence	
subterranean karst		भूमिगत कास्ट	subtropical country	
subterranean nest		भूमिगत नीड, अन्त- भूमिक नीड	subtropical high	
subterranean river		भूमिगत नदी	subtropical plateau	
subterranean rumbling		अन्तःभूमिक गडगडाहट	subtropical rain forest	
subterranean storage		अन्त भूमिक संचय	subtropical region	
			subtropical sea	
			subtropical soil	
			subtropical waters	
			subtuberant	<i>Geol.</i>
			subtype	<i>Zool, Phy.</i>
				उपप्रकार, अन्तःप्रकार

subtypical	<i>Zool.</i>	अवप्ररूपी	subventral nerve	उपाधर तंत्रिका
subulate	<i>Bot.</i>	सूच्यश्री	subventral oesophageal gland	उपाधर ग्रसिका ग्रंथि
subulate processes		सूच्यश्री उपांग	subvertebral	<i>Zool.</i> अवकशेरुक
subumbonal	<i>Zool.</i>	उपप्रकूट	subvertebral sinus	अवकशेरुक कोटर
subumbrella	<i>Zool.</i>	अवछन्न	subvertebral wedgebone	अवकशेरुक फानास्त्रिय
subumbrella epidermis		अवछन्न अधिचर्म	subvital	<i>Zool.</i> अवजीवनशक्त
subumbrella net		अवछन्न जाल	sub-vitreous	<i>Geol.</i> अल्पकाचीय
subumbrellar cavity		अवछन्तीय गुहा	subvolcanic rock	<i>Geol.</i> उपज्वालामुखी शैल
subumbrellar ectoderm		अवछन्तीय वहिर्जनस्तर	subvolcanic structure	उपज्वालामुखीय संरचना
subumbrellar epidermis		अवछन्तीय अधिचर्म	subvolcano	<i>Geol.</i> उपज्वालामुखी
subumbrellar funnel		अवछन्तीय कोप	subwaxy	<i>Chem.</i> उपमोमी, उपसिक्वय
subumbrellar sac		अवछन्तीय कोप	subway	<i>Geol.</i> सुरंग पथ, तलमार्ग
subuncus	<i>Zool.</i>	उपांकुश	sub zero treatment	<i>Chem.</i> अवशून्य उपचार
subunguis	<i>Zool.</i>	अवनखर	subzonal membrane	<i>Zool.</i> उपवलय कला
sub unit	<i>Phy.</i>	उप एकक	subzonation	<i>Zool.</i> उपक्षेत्रीकरण
suburb	<i>Geog.,H.Sc.</i>	उपनगर, नगरोपांत	subzone	<i>Phy.,Zool.</i> उपजोन, उपक्षेत्र
suburban		नगरोपान्तीय, नगरोपान्त, उपनगरीय	succeeding	<i>Math.</i> परवर्ती
suburban development		नगरोपान्तीय विकास	succession	अनुक्रम, अनुक्रमण
suburban fringe		नगरोपान्तीय प्रान्त	successional	अनुक्रमिक
suburbanite		नगरोपान्तिक	successional series	अनुक्रमिक श्रेणी
suburbanization		नगरोपान्तीकरण	successional species	अनुक्रमिक जाति
suburbanization of industry		उद्योग-नगरोपान्तीकरण	succession of minerals	खनिज अनुक्रमण
suburban outskirt	<i>Geog.</i>	शहरतली	successive	उत्तरोत्तर
suburban sprawl		नगरोपान्त स्वप्रसार	successive approximation	उत्तरोत्तर सन्निकटन
suburban tract		नगरोपान्ततीय क्षेत्र, नगरोपान्तीय प्रदेश	successive bisection	उत्तरोत्तर समद्विभाजन
suburban zone		नगरोपान्त कटिबंध, नगरोपान्त क्षेत्र	successive differentiation	उत्तरोत्तर अवकलन
suburbia		नगरोपान्त समूह	successive displacements	उत्तरोत्तर विस्थापन
sub value (of quantum number)	<i>Phy.</i>	प्रक्षेपित मान	successive edition	उत्तरोत्तर संस्करण
subventral	<i>Zool.,Bot.</i>	उपअधर, उपाधर	successive elimination	उत्तरोत्तर निराकरण
subventral muscle field		उपाधर पेशी क्षेत्र	successive grades	उत्तरोत्तर श्रेणियाँ
			successive images	उत्तरोत्तर प्रतिबिम्ब
			successive integration	उत्तरोत्तर समाकलन
			successively	उत्तरोत्तर

successive overrelaxation		उत्तरोत्तर अतिविश्रांति
successive reduction		उत्तरोत्तर समानयन
successive reprint		उत्तरोत्तर पुनर्मुद्रण
successive substitution		उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन
successive terms		उत्तरोत्तर पद
successive transformation		उत्तरोत्तर रूपान्तरण
successor	Math.	परवर्ती
succicolae	Bot.	श्लेष्मवासी
succinaldehyde	Chem.	सक्सिनैल्डिहाइड
succinate	Chem.	सक्सिनेट
succinato radical		सक्सिनेटो मूलक
succinic acid		सक्सिनिक अम्ल
succinic dehydrogenase		सक्सिनिक डीहाइड्रोब्रेनेस
succinimide		सक्सिनिमाइड
succinylation		सक्सिनोयलन
succinum	Chem.	सक्सिनम
succisus	Bot.	अवस्मात भत्री
succo	H.Sc.	रस
succotash	H.Sc.	सुकोटेश
succubus	Bot.	अप्रतिष्ठाप्य
succulens	Bot.	गूदेदार प्रकृति
succulent	Bot, H.Sc.	1. (adj) गूदेदार 2. (n) भांगलोद्भिन्द्
succus entericus	H.Sc.	आन्त्र रस
suck	H.Sc.	सूसना
sucker	Zool. Bot.	सूकर यतः सूसारी
suckling	Zool, Phy.	सूषण
sucking cup	Zool.	सूसी चषक
suckling disc		सूसी सिस्क
suckling louse		सूसक यक्षा, सूसक जू
suckling mouth parts		सूसण मुखान्ग
suckling organ		सूसण अंग
suckling pump		सूसण पम्प

sucking stomach		सूसण आमाशय, सूषण जठर
sucramine	Chem.	सुक्रेमीन
sucrase		सुक्रेम
sucrose	H.Sc., Chem	इसु शर्करा, सुक्रोस
sucrose feeding	Bot.	सुक्रेम अशन
sucrose gradient		सुक्रेस प्रवणता
suction	Phy.	सूसण
suction coefficient		सूसण गुणांक
suction dredge		सूसण ड्रेज
suction force		सूसण बल
suction gas producer		सूसण-गैस प्रोड्यूसर
suction hole		सूसक छिद्र
suction mold		सूसण साचा
suction process		सूसण प्रक्रम
suction pump		सूसण पम्प
suction pyrometer		सूसण उत्थापमापी
suction stroke		सूसण-चरण, सूषण स्ट्रोक
suction velocity		सूसण वेग
suction washer		सूसण धावित्र
suction washing		सूसण धावन
Suctorea	Zool.	सक्तोरिया
suctorial	Bot, Zool.	सूसण, सूषणार्थ, सूषक
suctorial apparatus		सूसण उपकरण
suctorial foot		सूसण पद
suctorial mouth		सूसक मुख
Sudan, Soudan	Geog	सूडान
sudan dye	Bot	सूडान रजक
sudan yellow	Chem.	सूडान पीत, सूडान यलो
sudburite	Geol.	सडबूरिट
sudd	Geog.	सड
sudden death disease	Bot.	सहसा मारक रोग
sudden impact		सहसा समाघात
sudden ionospheric disturbance	Phy	आश्चर्यक आयन मण्डलीय विपरीध

sudoriferous gland	Zool.	स्वेदघ्न ग्रंथि	sugar technology		शर्करा शिल्प, शर्करा प्रौद्योगिकी
sudoriparous	Zool.	स्वेदवाही	sugar valorization		चीनी मूल्य स्थिरीकरण
suds	Chem.	सकलोरिखा	sugar water		शर्करा जल
sudser	Chem.	फ्रेनकारी	Sugden's bubble pressure method	Chem.	सग्डेन बुदबुद् निपीड पद्धति
suede finish	H.Sc.	स्वेड परिष्कृति	suicidal character	Geog.	आत्महत्यात्मक प्रकृति
suede leather		स्वेड चमड़ा	Suidae	Zool.	सुइडी
suet	H.Sc.	गो-वसा, वृक्क वसा	suida extractive	Chem.	सुइडा निष्कर्षण आसवन प्रक्रम
sufficiency	Math.	पर्याप्तता	Suida process		सुइडा प्रक्रम
sufficient condition		पर्याप्त प्रतिबंध	Suiformes	Zool.	सुइफॉर्मिज
sufficiently differentiable		पर्याप्ततः अवकलनीय	Suimiri		सुइमिरी
suffione	Geog.	वाष्प-रुद्ध (ज्वालामुखीय)	Suina	Zool.	सुइना
suffix	Math.	अन्तगण	suint	H.Sc.	उजंस्वेद
suffrutescens	Bot.	उपदुषीय, क्षुपक्षेप	suit	H.Sc.	सूट
suffruticosus	Bot.	क्षुपी	suitcase farmer	Geog.	सूटकेस किसान, दूर किसान
sugar	H.Sc.	शर्करा, चीनी	suite		संज्ञाति
sugar beet	Bot., H.Sc.	चुकंदर	suiting		सूट वस्त्र
sugarbeet damping off		चुकंदर क्षाद्रपतन	sukhovei	Geog.	सूखावी (पवन)
sugarbeet nematode		चुकंदर सूक्ष्ममि	*Sulafat (=γ Lyrae)	Astron.	सूलाफाट (=γ लाइरी)
sugar cake		शर्करा केक	sulcal	Zool.	परिखीय
sugar candy		शर्करा कैंडी	sulcal septum		परिखीय पट
sugarcane	Geog., Bot., H.Sc.	गन्ना, ईख	sulcate	H.Sc.	खांचेदार
sugarcane culture		गन्ना संवर्धन, ईख संवर्धन	sulculus	Zool.	लघुपरिखा
sugarcane fiber		ईख रेशा	sulcus	H.Sc., Biol., Geol.	सल्कस, परिखा
sugar charcoal		शर्करा-कोयला	sulcus acusticus	Geol.	श्रवण परिखा
sugar fungi		शर्करा कवक	sull	Chem.	सल
sugar industry		चीनी उद्योग	sull coating		सल लेपन
sugar land	Geog.	ईख भूमि	Sullivan reaction	Chem.	सल्लिवैन अभिक्रिया
sugar loaf	Geog.	गोल आंख पहाड़ी	sulphacid	Chem.	सल्फ ऐसिड
sugar mite	Zool.	शर्करा बरुयी	sulpha drug	H.Sc.	सल्फा औषधि
sugar of lead		सीस शर्करा (सीस-ऐसीटेड, लैड ऐसीटेट)	sulphamate	H.Sc.	सल्फामेट
sugar of milk		दुग्ध शर्करा	sulphamic acid	Chem.	सल्फामिक अम्ल, सल्फामिक एसिड
sugarsop	H.Sc.	शुगरसॉप			
sugar syrup	H.Sc.	चाशानी			

<i>sulphamide</i>		सल्फामाइड	<i>sulphinyl</i>	<i>Chem.</i>	सल्फिनिल
<i>sulphane</i>	<i>Chem.</i>	सल्फेन	<i>sulphisoazole</i>	<i>Chem.</i>	सल्फिसोक्साजोल
<i>sulphanil amide</i>		सल्फैनिन ऐमाइड	<i>sulphitation</i>		सल्फाइटिकरण
<i>sulphanilic acid</i>		सल्फैनिलिक अम्ल, सल्फैनिलिक ऐमिड	<i>sulphite</i>		सल्फाइट
<i>sulph antimonide</i>		सल्फ ऐन्टिमोनाइड	<i>sulphite process</i>		सल्फाइट प्रक्रम
<i>sulph antimonite</i>		सल्फ ऐन्टिमोनाइट	<i>sulphite pulp</i>		सल्फाइट पल्प
<i>sulphanuric chloride</i>		सल्फन्यूरिक क्लोराइड	<i>sulpho antimonate</i>		सल्फो ऐन्टिमोनेट
<i>sulph arsenate</i>		सल्फ आर्सेनेट	<i>sulpho-bismuthite</i>		सल्फोबिस्मथाइट]
<i>sulph arsenite</i>		सल्फ आर्सेनाइट	<i>sulphochloride</i>		सल्फोक्लोराइड
<i>sulphatase</i>	<i>Bot.</i>	सल्फेटेस	<i>sulphocyanide</i>		सल्फोसायनाइड
<i>sulphatation</i>		सल्फेटन	<i>sulphocyanogen</i>		सल्फोसायनाोजन
<i>sulphate</i>		सल्फेट	<i>sulphonal</i>	<i>Chem.</i>	सल्फोनल
<i>sulphate of copper</i>		तांबे का सल्फेट	<i>sulphonamide</i>		सल्फोनैमाइड
<i>sulphate process</i>		सल्फेट प्रक्रम	<i>sulphonaphthalein</i>		सल्फोनैफथैलीन
<i>sulphate reductor</i>	<i>Bot</i>	सल्फेट अपचायक	<i>sulphonated coal</i>		सल्फोनेटिड कोयला
<i>sulphatic cancrinite</i>	<i>Geol.</i>	सल्फेटिक कैंक्रिनाइट	<i>sulphonated derivative</i>	<i>Chem.</i>	सल्फोनेटीइज व्युत्पन्न, सल्फोविमीइज व्युत्पन्न
<i>sulphating roasting</i>		सल्फेटन अभर्जन	<i>sulphonation</i>		सल्फोनेशन
<i>sulphatize</i>		सल्फेटिकरण	<i>sulphone</i>	<i>Chem</i>	सल्फोन
<i>sulphatizing roast</i>		सल्फेटिकरण भर्जन	<i>sulphonic acid</i>		सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक ऐसिड
<i>sulphato-cerate</i>	<i>Chem.</i>	सल्फेटोसीरेट	<i>sulphonium</i>	<i>Chem.</i>	सल्फोनियम
<i>sulphato complex</i>	<i>Chem.</i>	सल्फेटो संकर	<i>sulphoraphene</i>	<i>Chem</i>	सल्फोरैफेन
'sulphetrose'	<i>Chem.</i>	सल्फेट्रोज	<i>sulpho-salts</i>		सल्फो-संवण
<i>sulphex process</i> (=sulfur process)	<i>Chem.</i>	सल्फेक्स प्रक्रम	<i>sulphoselenide</i>		सल्फो सिलोनाइड
<i>sulph hydryl group</i>		सल्फ हाइड्रिल समूह	<i>sulpho-selenium</i>		सल्फो-सिलोनियम
<i>sulphide</i>		सल्फाइड	<i>sulpho-silicide</i>		सल्फो-सिलोसाइड
<i>sulphilimic</i>	<i>Chem.</i>	सल्फिमिमीन	<i>sulpho-stannite</i>		सल्फो-स्टैनाइट
<i>sulphimide</i>		सल्फ-इमाइड	<i>sulpho telluride</i>		सल्फो-टेल्ल्युराइड
<i>sulphinate</i>		सल्फिनेट	<i>sulphovinic acid</i>		सल्फोविनिक अम्ल, सल्फोविनिक ऐसिड
<i>sulphine</i>	<i>Chem.</i>	सल्फीन	<i>sulphoxide</i>		सल्फॉक्साइड
<i>sulphinic acid</i>		सल्फिनिक अम्ल, सल्फिनिक ऐसिड	<i>sulphoxy collection</i>		सल्फोक्सी संग्रह
<i>sulphinimide</i>		सल्फिनमाइड	<i>sulphoxylate</i>		सल्फॉक्सीनेट
<i>sulphinum</i>		सल्फिनियम	<i>sulphoxylic acid</i>		सल्फॉक्सीनिक अम्ल, सल्फॉक्सीनिक ऐसिड
			<i>sulphur</i>	<i>Chem., Il.Sc.</i>	गंधक, सल्फर



sulphur (butterfly)	<i>Zool.</i>	गंधक तितली	sumac	<i>Chem.</i>	सूर्मक
sulphuration	<i>Chem.</i>	सल्फरीकरण, गंधकीकरण	sum and difference multiplexing	<i>Phy.</i>	योगान्तरी बहुसंकेतन
sulphurator		सल्फरीकारक, गंधकीकारक	sum and difference spectrum		योग तथा अन्तर स्पेक्ट्रम
sulphuratum	<i>Bot.</i>	गंधक जीवाणु समुदाय	Sumatra	<i>Geog.</i>	सुमात्रा (चंडवात)
sulphur compound		गंधक यौगिक	Sumerian city	<i>Geog.</i>	सुमेरियाई शहर
sulphur contents		गंधक की मात्रा	sum frequency	<i>Phy., Math.</i>	योग आवृत्ति, संकलित आवृत्ति
sulphur deficiency disease		गंधक न्यूनता रोग, सल्फर अपूर्णता रोग	sum function		योग फलन
sulphur dioxide		सल्फर डाइऑक्साइड	summability		संकलनीयता
sulphur dome		सल्फर मुन्दद	summable	<i>Math.</i>	संकलनीय
sulphur dye		गंधक रंजक	summable function		संकलनीय फलन
sulphuret	<i>Geol.</i>	सल्फ्युरेट	summable integral		संकलनीय समाकल
sulphuretted.		सल्फ्यूरित	summable over A		समस्त A-में संकलनीय
sulphuric acid		सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक ऐसिड	summand	<i>Math.</i>	योगचंड
sulphuring		सल्फरन	summarization		संक्षेपण
sulphurization	<i>Geol., Chem.</i>	गंधकन, गंधकीकरण	summarization period		संक्षेपण काल
sulphurized oil		गंधकीकृत तेल	summary punch	<i>Math.</i>	सारांश छिद्रक
sulphurized vat dye		सल्फरीकृत वाट रंजक	summasilk	<i>H.Sc.</i>	सूनासिल्क
sulphur mud column		सल्फर पंक स्तंभ	summation		संकलन
sulphur mud flow		सल्फर पंक प्रवाह	summational invariant	<i>Math., Phy.</i>	संकलनात्मक निश्चर
sulphurous		गंधकी	summational tone	<i>Phy.</i>	संकलित स्वर
sulphurous compound		सल्फ्यूरस यौगिक	summation band		संकलन बैंड
sulphurous spring		गंधक झरना, गंधकी स्रोत	summation convention		संकलन-परिपाटी
sulphur print		गंधक मुद्र	summation formula		संकलन सूत्र
sulphur reaction		गंधक अभिक्रिया	summation of series		श्रेणी-संकलन
sulphur spring		सल्फर झरना	summation process		संकलन प्रक्रम
sulphur steel		गंधक इस्पात	summation sign		संकलन चिह्न
sulphur stoving		गंधक स्टोवन	summation tone	<i>Phy.</i>	संकलित स्वर
sulphur toning		गंधक उद्दीपन	summer	<i>Geog., Bot.</i>	ग्रीष्म, गरमी
sulphur yellow		गंधक पीत	summer and winter design	<i>Chem.</i>	घूप छाया डिजाइन
sulphuryl		सल्फ्यूरिल	summer camp		ग्रीष्म शिविर
sulphydryl group	<i>Chem.</i>	सल्फाइडिल समूह	summer drought		ग्रीष्म जलाभाव, ग्रीष्म सूखा
sultone	<i>Chem.</i>	सल्टोन	summer dwarf		ग्रीष्म बामन रोग
sultry weather	<i>Phy.</i>	उमसवाला मौसम	summer egg		ग्रीष्माण्ड
sulvanite	<i>Chem.</i>	सुल्वेनाइट	summer fallow		ग्रीष्म परती
sum	<i>Math.</i>	1. योगफल, जोड़, संकलन फल 2. घनराशि			

summer fallowed land		श्रीष्म परती भूमि	sun throat (submarine throat)	<i>Chem</i>	निमग्निजल ऋट
summer hogan		श्रीष्म होगन	sun rule		योग नियम
summer moiety		श्रीष्मोपदल	sun to infinity		अनन्त तक योग
summer plumage		श्रीष्म पक्षति	sun		सूर्य
summer pudding	<i>H Sc</i>	समर पुडिंग	sun beam		सूर्य किरण-पूज
summer resident		श्रीष्म वासी	sunbird	<i>Zool.</i>	शकरबोर, मौचुकी
summer settlement		श्रीष्मकालीन बस्ती	sun crack	<i>Geol</i>	आतप विदार
summer solstice	<i>Math., Geog.</i>	उत्तर अयनान	sun curing		सूर्य सहाधन
summer sporangium		शीष्मी बीजाणुघानो	<i>Suncus caeruleus</i>	<i>Zool</i>	सन्कस सिरिलियस
summer spore		शीष्मी बीजाणु	<i>Suncus etruscus</i>		सन्कस एट्रस्कस
Summer Time		श्रीष्म समय, श्रीष्म काल	<i>Suncus murinus</i>		सन्कस म्यूरिनस (छछुर)
summing amplifier	<i>Phy.</i>	सकलन प्रवर्धक	sunderban	<i>Bot.</i>	सुन्दरवन
summing network		सकलन जाल	sun dial	<i>H Sc, Phy</i>	घूप घड़ी
summing point		सकलन बिन्दु	sun dog	<i>Geog</i>	सूर्यभास
summit	<i>Geog, Geol</i>	शिखर	sun drying	<i>Zool</i>	आनपन
summit area		शिखर क्षेत्र	sunfish	<i>Zool.</i>	सूर्यमोम, मोना
summit caldera		शिखर अवाधामुखी कुड	sunflower	<i>Bot., Chem.</i>	सूरजमुखी, सूर्यमूची
summit concordance		शिखरीय समोत्थान	sunflower design		सूर्यमुखी अभिव्यक्त, सूरजमुखी डिजाइन
summit crater		शिखर क्रेटर	sunflower oil		सूर्यमूची तेल
summit effusion		शिखर नि सरण	sunflower rust		सूर्यमूची रिट्ट
summit eruption		शिखर उद्गार	sun follower		सूर्य अनुगामी तत्र
summit level		1. शिखर 2. शिखर तल	sun form	<i>Bot</i>	आनप रूप
summit overflow		शिखर आप्लावन	sunfrost	<i>H.Sc.</i>	रानफ्रॉस्ट
summit plain		शिखर मैदान	sun god		सूर्य देवता
summit plane		शिखर तल	sunbemp	<i>Bot.</i>	सनई
summit point		शिखर बिन्दु	sunken basin	<i>Geog</i>	जलमग्न बेगिन
sum of ideals in a ring	<i>Math.</i>	अन्य मे गुणजावनियों का योगफल	sunken reef		जलमग्न भित्ति
sum of sets		समुच्चय योगफल	sunk fence	<i>Geog.</i>	अग्न-बाड़
sum of submodules		उपप्रतिरूपकों का योगफल	sunk meandering		अग्न विचरण
sum of tensors		प्रदिक्त योगफल	sunk spot	<i>Chem. (Plast)</i>	अनिक रथन
sump	<i>Geol, Geog Chem (fert)</i>	कुंड, सम्य, निगत शोषण	sun lamp		सूर्य दीप
sump method		बर्दम रीति, सम्य रीति	sunlit upper zone	<i>Zool, Bot, Geol.</i>	सूर्य दीपन ऊर्ध्व क्षेत्र
sump phase		सम्य प्रावस्था, वक प्रावस्था	sunner	<i>Chem</i>	शान्ती
			sonny habitat		आनप आवास

sunny side	<i>Geog.</i>	उज्ज्वल पक्ष	superadiabatic	<i>Phy., Math., Geol.</i>	अतिरुद्धोष्म
sun opal	<i>Geol.</i>	कांत-ओपल	superadiabatic gradient		अतिरुद्धोष्म प्रवणता
sun pillar (light pillar)	<i>Geog.</i>	द्युति स्तम्भ	superaerodynamics		परावायुगतिकी
sun plant		आतप पादप	superbasal meristem		अध्याधार विभज्योत्क
sunrise		सूर्योदय	super caldera	<i>Geog.</i>	ज्वालामुखी महाकुंड
sunrise and sunset colour		सूर्योदय एवं सूर्यास्त रंग	super calendering	<i>Chem.</i>	अतिपीडन, अतिकैलेन्डरिंग
sunsatin	<i>H.Sc.</i>	सनसाटन	supercapillary interstice	<i>Geol.</i>	अतिकेशिका-अंतराकाश
sunscauld	<i>Bot.</i>	आतप द्रवदाह	supercell	<i>Phy.</i>	महाकोण्टिका, महासेल
sunscauld canker		आतप द्रवदाह कैकर, आतप द्रवदाह प्रवण	super centrifuge	<i>Bot., Geog.</i>	द्रुत अपकेन्द्रित
sunset		सूर्यास्त	supercharge method	<i>Chem.</i>	अति भार पद्धति
sun shade		सूर्य झांप, सन शेड	supercharger	<i>Phy.</i>	1. अतिआवेशित 2. उच्चदावी निवेशक
sunshine	<i>Geog.</i>	धूप	supercharging	<i>Chem.</i>	अतिभरण
sunshine catalyst	<i>Chem. (Plastics)</i>	आतप-उत्प्रेरक	super chlorination		1. अति क्लोरीनन 2. अति क्लोरीनीकरण
sunshine map		धूप मानचित्र	superciliary crest	<i>Zool.</i>	अध्यक्षि शिखर
sunshine recorder		धूप अभिलेखी	supercilium	<i>Zool.</i>	अधिपक्ष्माभ
sun's horizontal parallax	<i>Geog.</i>	सौर क्षितिज पैरेलैक्स	super city	<i>Geog.</i>	सुपर सिटी
sun spider		सूर्य लूता	super class	<i>Zool.</i>	अधिवर्ग
sun spot		सूर्य कलंक, सूर्य का धब्बा	super coat	<i>Phy.</i>	उपरिलेप
sun spot activity		सूर्य कलंक सक्रियता	super community	<i>Geog.</i>	श्रेष्ठ समुदाय
sun spot cycle		सूर्य कलंक का आवर्तकाल	supercomplex formation	<i>Chem.</i>	अतिसंकुल रचना
sunspot equilibrium		सूर्यकलंक संतुलन	superconducting metal	<i>Phy., Math.</i>	अतिचालक धातु
sunspot number		सूर्यकलंक संख्या	superconducting phase		अतिचालक प्रावस्था
sun spot prominence	<i>Math.</i>	कलंकीय सौर ज्वाला	superconducting region		अतिचालक प्रदेश
sun star		सूर्यतारा	superconducting state		अतिचालक अवस्था
sunstone		सूर्यकांत	superconducting transition point		अतिचालक संक्रमण बिन्दु
sunstroke	<i>Geog.</i>	ऊष्माघात, आतपाघात	superconductive circuit element		अधिचालक परिपथ अवयव,
sun watcher		सूर्य प्रेक्षक	superconductivity		अतिचालकता
suoidca		सुओइडिया	superconductivity current		अतिचालकता धारा
super accelerators	<i>Chem.</i>	अति त्वरक	superconductor		अति चालक
super acid solution	<i>Chem.</i>	अति अम्ल विलयन			
superadditive function	<i>Math., Phy.</i>	अतियोज्य फलन			
superadditivity		अतियोज्यता			

supercontraction	<i>Chem</i>	अनिकुचन	superficial	<i>Zool</i>	उपरि नेत्र तंत्रिका
super control points	<i>Geol.</i>	अतिनियंत्रण बिन्दु	ophthalmic nerve		
super control tube	<i>Phy</i>	अतिनियंत्रक नलिका	superficial ovarian vein		सतही बडाशय शिरा
supercooled	<i>Phy, Geol</i>	अतिशीतल	superficial placentation	<i>Bot</i>	परिभित्तीय बीजाडन्याम
supercooling		अतिशीतलन	superficial plexus		सतही जालक
super critical	<i>Phy Geol, Chem</i>	अतिक्रान्तिक	superficial segmen- tation		सतही खड़ीमदन
supercritical fluid		अतित्रातिक द्रव	superficial source		पृष्ठ स्रोत
supercritical gas		अतित्रातिक गैस	superficial stratum	<i>Zool</i>	उपरि स्तर
supercritical operation		अतित्रातिक प्रचालन	superficial structure		पृष्ठीय संरचना
Super-Deslandres- table	<i>Phy</i>	महादेवान्द्रे-सारणी	superficial vein	<i>Geol, Zool</i>	उपरिस्थ शिरा, पृष्ठीय शिरा
superdiagonal matrix	<i>Math</i>	अधिविकर्ण आव्यूह	superficial ventralis		सतही अधरिका
superdip	<i>Geol</i>	सुपरडिप	superfield	<i>Phy</i>	अधिक्षेत्र
super efficiency		अतिदक्षता	superfine	<i>Geol, H Sc</i>	अतिसूक्ष्म
super emitron camera (= Image iconoscope)	<i>Phy</i>	प्रतिबिम्ब आइकोनोस्कोप	superfine classifier		अतिसूक्ष्म वर्गीकर यंत्र
superended method		नित्तवित्त विधि	superfine cloth		अतिसूक्ष्म बस्त्र
super energy particle (Pn)		अनिउर्ध्व कण	superfluent	<i>Geol</i>	शिथिल प्रवाही
superexchange	<i>Phy, Chem.</i>	अति विनिमय, अधिविनिमय	superfluid	<i>Phy</i>	अति तरल
superfamilial	<i>Zool</i>	अधिवुत्तीय	superfluidity		अति तरलता
superfamily		अधिकुल	superfluous		अपेक्षाधिक
superfemale	<i>Zool.</i>	अधिस्त्रीया	superfluous informa- tion		अपेक्षाधिक सूचना, व्यर्थ सूचना
superficial	<i>Geol Zool.</i>	पृष्ठीय सतही	superfluous parameter	<i>Math</i>	अपेक्षाधिक प्राचल
superficial accu- mulations		पृष्ठीय संचयन	superfluous term	<i>Math</i>	अनावश्यक पद
superficial artery		सतही धमनी	superfluous variable		अपेक्षाधिक चर
superficial cleavage		1. पृष्ठीय विदलन 2. सतही विदलन	superfoetation	<i>Biol</i>	अतिविषेचन
superficial density		पृष्ठ-घनत्व	superfractionation	<i>Chem</i>	सूक्ष्म प्रभाजन, सुपर क्षेत्रजनन
superficial deposit		पृष्ठीय निक्षेप	superfunction	<i>Math.</i>	अतिफलन
superficial eruption		पृष्ठीय उद्भेदन	supergene (mineral)	<i>Geol</i>	उद्भेदनित
superficial expansion	<i>Phy.</i>	क्षेत्रीय प्रसार	supergene ore		उद्भेदनित अयस्क
superficial mass (mass per unit area)	<i>Phy</i>	पृष्ठ घनत्व	supergene sulphide enrichment		उद्भेदनित सल्फाइड समृद्धि
			supergene sulphide zone		उद्भेदनित सल्फाइड मंडल
			supergene water		उद्भेदनित जल
			supergenus	<i>Zool.</i>	अधिवंश

supergigantic		महाविशाल	superior buccal lobe		ऊर्ध्वं मुखीय पालि
superglacial till	<i>Geol., Geog.</i>	अधिहिमानी गोलाशमी मृत्तिका, अधिहिमानी- टिल	superior conjunction	<i>Math.</i>	वाह्य युति
super-halogen	<i>Chem.</i>	सुपर-हैलोजन, अति-हैलोजन	superior corona		ऊर्ध्ववर्ती किरोट
superharmonic function	<i>Math.</i>	अतिप्रसंवादी फलन	superior lateral lobe		ऊर्ध्वं पार्श्वं पालि
superheated	<i>Geol.</i>	अतितप्त	superior lobe		ऊर्ध्वं पालि
superheater	<i>Chem.</i>	अतितापित	superior longitudinal sinus (=sagittal sinus)	<i>H.Sc.</i>	अग्रपश्च शिरानाल
superheating	<i>Geol.</i>	अतितापन	superior mesenteric artery		ऊर्ध्वं आंतयोजनी धमनी
superheterodync receiver		अतिसंकरण अभिग्राही, सुपरहेटरोडाइन अभिग्राही	superior oblique		ऊर्ध्वं तिर्यक् पेशी, सुपीरियर औवलीक
superhigh frequency	<i>Phy.</i>	अति उच्च आवृत्ति	superior orbital fissure		ऊर्ध्वं नेत्रकोटर विदर
super highway	<i>Geog.</i>	सुपर महामार्ग	superior planet	<i>Math.</i>	वाह्य ग्रह
superimposed	<i>Geol., Geog.</i>	अध्यारोपित	superior race	<i>Geog.</i>	क्षेप्ट प्रजाति
superimposed contour chart		अध्यारोपित समोच्चरेखा चार्ट	superior rectus		ऊर्ध्व-ऋजुपेशी, सुपीरियर रेक्टस
superimposed drainage		अध्यारोपित अपवाह	superior segment		ऊर्ध्वं खंड
superimposed folding		अध्यारोपित बलन	superior spiral		ऊर्ध्वं सर्पिल
superimposed profile		अध्यारोपित परिच्छेदिका, अध्यारोपित प्रोफाइल	superior temporal arch		ऊर्ध्वं शंखास्थि चाप
superimposed structure		अध्यारोपित संरचना	superior umbilicus	<i>Zool.</i>	उपरि पिच्छछिद्र
superimposed valley		अध्यारोपित घाटी	superior vena cava		ऊर्ध्वं महाशिरा
superimposing	<i>Geog.</i>	अध्यारोपण	superjacent stratum	<i>Geol.</i>	अधिलग्न स्तर
superimposition	<i>Geol.</i>	अध्यारोपण	super lattice	<i>Chem. (Met.), Phy.</i>	अति जालक
superimposition of type		टाइप-अध्यारोपण	superlingua	<i>Zool.</i>	उपरिजिह्व
superincumbent	<i>Phy., Geog.</i>	उपरिवर्ती	superloy	<i>Chem. (Met.)</i>	सुपरलाय
superincumbent layer		उपरिवर्ती परत	supermale	<i>Zool.</i>	अधिनर
superincumbent strata		उपरिवर्ती स्तर	supermalloy	<i>Phy.</i>	सुपरमेलालय
superinfection	<i>Biol.</i>	अधिसंक्रमण	super market	<i>Geog.</i>	सुपर बाजार
superinterstitial particle	<i>Geol.</i>	बृहत् अंतराकाशी कण	super mild mosaic	<i>Bot.</i>	अतिमंद किर्भार, अतिमंद मोजेक
superinvar wire	<i>Geol.</i>	सुपरइनवार तार	super molecule	<i>Chem.</i>	अति अणु, महा अणु
superior		ऊर्ध्ववर्ती, ऊर्ध्वं	supermorainic deposit (stratified drift)	<i>Geol.</i>	अधिहिमोढी निक्षेप, अधिहिमोढक
superior artery		ऊर्ध्वं धमनी	supernatant	<i>Bot., Geol.</i>	अधिप्लवी
superior buccal ganglion		ऊर्ध्वं मुखी गुच्छिका	supernatant fluid		अधिप्लवी तरल

supernatant liquid		अधिप्लवी द्रव	super pressure	<i>Chem</i>	अतिदाब, अतिनिपीड
supernate		अधिप्लवी	super-refining	<i>Chem</i>	अति-परिष्कारण
supernormal dispersion (= hypernormal dispersim)		अतिप्रसामान्य विक्षेपण	super-refining process		अति परिष्करण प्रक्रम
supernova	<i>Math , Phy</i>	सुपनोवा, सुपनोवा	super refraction	<i>Geog ,Phy</i>	अति अपवर्तन परा अपवर्तन
supernova explosion		सुपनोवा विस्फोट, अधिनवतारा विस्फोट	super regeneration	<i>Phy</i>	परा पुनर्जनन
supernumerary		अधिसङ्ख्य	super regeneration detector		परा पुनर्जनन समुच्चक
supernumerary bud		अधिसङ्ख्य कलिका	super-regenerative receiver		परा पुनर्जनन अधिग्रही
supernumerary phalanx		अधिसङ्ख्य अङ्गुलास्थि	superrepressor	<i>Zool</i>	अतिदमनकर
supernumerary pollen tube		अधिसङ्ख्य परागननिका	Supersacral	<i>Zool.</i>	अधिस्रिक, अधिमैक्रम
supero marginal		उर्ध्व सीमात	supersaline water	<i>Geol.</i>	अनिलवण जल
superorder	<i>Zool.</i>	अधिगण	Supersaturated	<i>Chem ,Phy , Geol</i>	अतिसत्तृप्त
superosculating	<i>Math.</i>	अत्याश्लेपी	supersaturation	<i>Geol</i>	अतिमनृप्ति
superoxide	<i>Chem</i>	सुपर-ऑक्साइड	superscript	<i>Math.</i>	सूक्ष्म, सूक्ष्म
superpanner	<i>Geol</i>	सुपछोरक	super-scrubber	<i>Geol</i>	प्रबल मात्रक
superparasite	<i>Zool.</i>	अधिपरजीवी	supersensitive ionization gauge	<i>Phy</i>	अतिसुधाही आयननमापी
superparasitism		अधिपरजीविता	super sensitive relay		अति सुधाही रिसे
superphosphate	<i>Chem</i>	सुपर-फॉस्फेट	Supersession	<i>Geog</i>	अधिपक्षन
superphosphoric acid		सुपरफॉस्फोरिक अम्ल	superset	<i>Math</i>	अधिसमुच्चय
superposable	<i>Geol.</i>	अध्यारोपणीय	supersonic	<i>Phy ,Math</i>	पराध्वनिक
superpose	<i>Geog.</i>	अध्यारोपण करना	supersonic aerodynamics		पराध्वनिक वायुगतिकी
superposed stream		अध्यारोपित सरिता	supersonic aerofoil		पराध्वनिक एरोफॉयल
superposed valley		अध्यारोपित घाटी	supersonic edge		पराध्वनिक कोट
superposed variation		अध्यारोपित विचरण	supersonic flow		पराध्वनिक प्रवाह
superposed whorl		अध्यारोपित चक्कर	supersonic jet		पराध्वनिक जेट
superposing propagated wave		अध्यारोपित संचरण तरंग	supersonics		पराध्वनिकी
superposing weaves	<i>Chem</i>	अध्यारोपण धुति	supersonic velocity		पराध्वनिक वेग
superposition		अध्यारोपण	superspecies	<i>Zool.</i>	अधिसुपीशी, अधिसर्वाति
superposition eye		अध्यारोपण नेत्र	super speed counter	<i>Phy</i>	अतिविद्यमान गणित
superposition image		अध्यारोपण चित्र	superstratum	<i>Geol.</i>	अधिसतर
superprecipitation	<i>Chem.</i>	अति अक्षेपण	super-structure	<i>Geol.,Phy., Chem.</i>	अधिरचना
			Super structure compound		अधिरचना-सौमिक
			superstructure line		अधिरचना रेखा

superstructure phase		अधिरचना प्रावस्था	supplementary mineral		संपूरक खनिज
superstructure reflection		अधिरचना परावर्तन	supplementary projection		संपूरक प्रक्षेपण
super thickener	<i>Geol.</i>	प्रगाढ़कारी	supplementary reproductives		संपूरक जननक
supertriangularization	<i>Math.</i>	अधिलिभुजीकरण	supplementary subspace		संपूरक उपसमष्टि
superturnstile antenna	<i>Phy.</i>	अधिचक्रद्वार ऐन्टेना	supplementary survey		संपूरक सर्वेक्षण
super-undal flow	<i>Math.</i>	परागुरुत्वी प्रवाह	supplementary twin		संपूरक यमल
supervision	<i>H.Sc., Geog.</i>	तकनीकी पर्यवेक्षण, तकनीकी देखरेख	supplement	<i>Bot.</i>	समीपस्थ पूरकांग
supervisory cost		पर्यवेक्षण-लागन	supplement contiguous		
supervisory program	<i>Phy.</i>	अधीक्षक प्रोग्राम	supplemented medium	<i>Zool.</i>	संपूरित माध्यम
supervital	<i>Zool.</i>	अतिजीवनशक्त	supplements	<i>Bot.</i>	संपूरकांग
superwaxy	<i>Chem.</i>	अतिमोमी, अतिसिक्की	supply	<i>Phy., Math.</i>	संभरण, पूर्ति
superwide angle	<i>Geog.</i>	अतिविस्तृत कोण	supply condition		पूर्ति स्थितियाँ
supima	<i>H.Sc.</i>	सुपाइमा	supply curve		पूर्ति-वक्र
supination	<i>Biol., H.Sc.</i>	उत्तानन	supply-demand model		पूर्ति माँग निदर्श
supinator		उत्ताननी	supply disturbance		पूर्ति क्षोभ
supine		उत्तान	supply elasticity		पूर्ति लोच
supinus		उत्तान	supply function		पूर्ति फलन
'sup' of a function	<i>Math.</i>	फलन का उच्चक	supply meter	<i>Phy.</i>	विद्युत् ऊर्जा-मापी, विजली का मीटर
supper	<i>H.Sc.</i>	रात्रि भोजन	supply of water		जल-संभरण
supplement	<i>Math.</i>	संपूरक	supply relation		पूर्ति संबंध
supplemental	<i>H.Sc., Zool.</i>	संपूरक	supply source	<i>Phy.</i>	प्रदायी स्रोत
supplemental feeding		अनुपूरक संभरण, अनुपूरक भोजन	supply station		संभरण केन्द्र
supplemental skeleton		संपूरक कंकाल	support	<i>Phy.</i>	टेक, आधार
supplementary		संपूरक	supported point of rod		दंड का आधारित बिन्दु
supplementary angle		संपूरक कोण	supported spindle gyrotory	<i>Geol.</i>	अवलंबित तर्कु परिभ्रमी
supplementary aperture		संपूरक छिद्र	supporter of combustion	<i>Chem.</i>	दहन-पोषक
supplementary control		संपूरक नियंत्रण	supporting	<i>Math.</i>	बालम्बी
supplementary factor		संपूरक कारक	supporting axis	<i>Geog.</i>	आधार-अक्ष
supplementary lunar elliptic		संपूरक चान्द्र दीर्घवृत्तीय	supporting cell		आधार-कोशिका
supplementary mark		संपूरक चिह्न	supporting collar		आधार कॉलर
supplementary measure of angle		संपूरक कोण-माप	supporting electrolyte	<i>Chem.</i>	सहायक विद्युत् अपवद्य
			supporting hyperplane	<i>Math.</i>	आलंबक ऊनविम समतल

supporting rod		आधार दंड	supracoracoidens	Zool.	सुप्राकोरैकोइडियम, अध्यमनुडिनी
supporting roll	Chem (Plast )	सहायक रोलन	supracostal	Zool.	अधिपशुंक
support of density		घनत्व का आलव	supracoxa	Zool	उपरिकक्षाग
support of function		फलन का आलव	supracoxal sclerotization		उपरिकक्षागी स्क्लेरोटिनीभवन
suppose	Math	कल्पना करना, मान लेना	supracranial	Zool	अधिकपालीय
supposed		कल्पित	supracretaceous	Geol	सुप्राक्रेटेशम, अधिक्रेटेशम
supposition		कल्पना	supracrustal	Geol	अधिपपंतीय
suppressant	Zool	दमनक	supracrustal complex		अधिपपंतीय समवाय
supressed carrier transmission	Phy	निरुद्ध वाहन संचरण	supracrustal provincance		अधिपपंतीय उद्गम
suppressed harmonics		निरुद्ध गुणावृत्ति	supradorsal	Zool.	अधिपृष्ठक, अधिपृष्ठीय
suppression	Bot	लुप्तगता	supradorsal nerve		अधिपृष्ठीय तन्त्रिका
suppression control (= sensitivity time control)	Phy	सुप्राहित काल नियंत्रण	supraepimeron	Zool.	ऊर्ध्वएपीमेरॉन
suppression of zeros	Math.	शून्य निरोध	supraethmoid	Zool.	अधिअंत्रिका
suppressor gene	Zool.	निरोधक जीन	suprafoliar	Bot	अधिपर्ण
suppressor grid	Phy.	निरोधक ग्रिड	suprafolius		अधिपर्ण
suppressor grid modulation		निरोधी ग्रिड मॉड्यूलन	supraglacial stream	Geol	अधिहिमानी धारा
suppressor modulated class C amplifier		निरोधक ग्रिड मॉड्यूलित C वर्गीय प्रवर्धक	suprahyoid	Zool.	अधिकर्णिक
suppuration	Zool.	पूयता, पूयीभवन	supraintestinal	Zool	अध्यांत्र
supra-ambulacral ossicle	Zool.	अधिकोशि अस्थिका	supraintestinal connective		अध्यांत्र तयोजी
supra-anal	Zool.	अधिगुद	supraintestinal excretory duct		अध्यांत्र उत्सर्गी वाहिका
supra-auricular	Zool.	अधिकर्णिक	supraintestinal parietal ganglion		अध्यांत्रभित्तीय गुच्छिका
supra-axillary	Bot.	अधिकक्ष	supralabial shield	Zool.	अध्यांष्ठ विहसक
suprabranchial chamber	Zool.	अधिब्रन्चोम कक्ष	supralittoral fringe	Zool	अतिवेलांचनी छागी
suprabranchial organ		अधिब्रन्चोम अंग	supralittoral zone (supratidal spray zone)		अतिवेलांचनी क्षेत्र
suprabuccal	Zool	अधिमुञ्जीय	supramarginal	Geol	अधिमांसान
supracardinal vessel	Zool	अधिप्रमुख वाहिका	supramarginal paramedian	Zool	अध्यांगुल परामध्यक
supracaudal	Zool.	अधिपुच्छी	supramarginal spot		अध्यांगुल बिन्दु
supracerebral	Zool	अधिप्रमस्तिष्कीय	supramarine eruption	Geol	स्यलीय उद्गार
supraciliary ridge	Bot	ऊर्ध्व परमाभी षटक	supramaxillary	Zool.	अधिअभिभ्र
supraclathrum	Zool.	अधिक्लथ्रम	supramolecule	Chem	अति-अणु
supraconductivity	Phy.	अतिचालकता			
supracondyloid	Zool.	अधिअस्थि			



supramor	Chem. (Met.)	सुप्रामोर	suprasphenoid	Zool.	अधिजतुक
supranasal	Zool.	अधिनासा	supraspinal	Zool.	अधिमेरु
supra-national body	Geog.	अधिराष्ट्रीय निकाय	supraspinatus	H.Sc. Zool.	1. अर्धस पृष्ठिका 2. अर्धसपेशी
supraneural bridge	Zool.	उपरितंत्रिक सेतु	supraspinous fossa	Zool.	अधिकंठक खात
supraneural vessel		उपरितंत्रिक बाहिका	suprasternal	Zool.	अधिस्तरोस्थि
supraneuston	Zool.	अधिपटलक	suprasterol		सुप्रास्टेरॉल
supranodal	Bot.	अधिसर्वसंधिक	suprastigmal	Zool.	अतिश्वानसिद्धि
supranuclear cap	Zool.	अधिकेन्द्रकी शिखा	supratemporal arcade	Zool.	अधिबंध तोरण
supraoccipital	Zool.	अध्यनुकपाल	supratemporalis	Zool.	सुप्राटेम्पोरेलिस, अधिबंधपेशी
supraocular shield	Zool.	अधिनेत्र विशल्क	supratenuous fold	Geol.	अतितनु बलन
supraoesophageal	Zool.	अधिग्रसिका	suprathoracic	Zool.	अधिवक्षीय
supraoesophageal ganglion		अधिग्रसिका गुच्छिका	supratidal spray zone (supralittoral zone)	Zool.	अतिवेलांचली क्षेत्र
supraoesophageal vessel		अधिग्रसिका बाहिका	supratonsillar fossa	Zool.	अधिगलतुंडिका खात
supra-optimal	Bot.	अधोष्टतम	supratympanal organ	Zool.	अधिघ्रनिपटहांग
supraorbital	Zool.	1. अध्याधि (अध्यधिकोटर)	supravelate structure	Geol.	अधिगुटिका संरचना
	H.Sc.	2. अधिनेत्रगुहा	supravital staining	Bot.	अधिजैव अभिरंजन
supraorbital process		अध्यधि प्रवर्ध	supravolcano	Geol.	उपरिज्वालामुखी
supraplanchet	Geol.	अधि-पंचेत	supravolute	Bot.	संबलित
suprapharyngeal	Zool.	उपरिग्रसनीय	supremum	Math.	उच्चक
suprapharyngeal ganglion		उपरिग्रसनीय गुच्छिका	suprex	Chem.	सुप्रेक्स
supraposed	Bot.	उपरिस्थ	suq (sook, souk)	Geog.	सूक
suprarectal	Zool.	अधिमलाशयी	surab	H.Sc.	सुराह
suprarectal commissure		अधिमलाशयी संघायी	suramin	Chem.	सुरामिन
suprarenal	Zool.	अधिवृक्क	suranal	Bot., Zool., Geol.	अधिगुद
suprarenal body (=adrenal body)		अधिवृक्क ग्रंथि	suranal plate		अधिगुदपट्ट
suprarenal gland		अधिवृक्क ग्रंथि	surangular	Zool.	अधिकोणिक
suprarostreal cartilage	Zool.	अधितुंड उपास्थि	surazo	Geog.	सुराजो (शोत तरंग)
suprascapula	Zool.	अर्धसफलक, अधिस्कंधपुला	surbed	Geol.	कोरस्थित
suprasil	Chem. (Photochem.)	सुप्रानिल	surd	Math.	करणी
supraspecific	Zool.	अधिजातीय	surf	Geog. H.Sc.	1. फेनिल तरंग 2. झाग
			surface		1. पृष्ठ, 2. बहिस्तल 3. सतह, धरातल

surface-active	पृष्ठ-सक्रिय	surface duct propagation	पृष्ठ बाहिनी सञ्चरण
surface active agent	पृष्ठ-सक्रिय कारक	surface element	पृष्ठ अल्पांश
surface active disinfectant	पृष्ठ सक्रिय रोगाणुनाशी	surface energy	पृष्ठ ऊर्जा
surface adsorbate interaction	पृष्ठीय अधिचूष्य पारस्परिक क्रिया, पृष्ठीय अधिचूष्य अन्योन्य क्रिया	surface energy of nuclei	नाभिक-पृष्ठ-ऊर्जा
surface area	पृष्ठीय क्षेत्रफल	surface erosion	पृष्ठीय अपरदन
surface barrier	पृष्ठी प्राचीर	surface expansion	<i>Phy</i> क्षेत्रीय प्रसार
surface barrier transistor	पृष्ठी प्राचीर ट्रांजिस्टर	surface feature	पृष्ठीय लक्षण
surface blush	पृष्ठ वीर्य	surface film	पृष्ठीय फिल्म
surface bolometer	पृष्ठी बोलोमीटर, पृष्ठी देखभापी	surface flame	बहिस्तन ज्वाला
surface catalyst	पृष्ठी उत्प्रेरक	surface force	पृष्ठीय बल
surface cauldron subsidence	उपरि लावाकुण्ड अघोसमन	surface geology	पृष्ठ-भूविज्ञान
surface channel	पृष्ठीय प्रवाह	surface geostrophic wind	पृष्ठ भूविशेषी वायु
surface colour	पृष्ठीय रंग, पृष्ठीय वर्ण	surface grasshopper	सतही टिट्ठा
surface combustion	पृष्ठीय दहन	surface harmonic	पृष्ठ प्रसवानी
surface condenser	पृष्ठ द्ववणिक	surface haze	पृष्ठ कुहेडिका, पृष्ठ धुंध
surface conductivity	पृष्ठ चालकता	surface impedance	पृष्ठ प्रतिबाधा
surface consolidation	पृष्ठीय संपिंडन	surface imperfection	पृष्ठ अपूर्णता
surface contamination	पृष्ठ संपूषण	surface integral	पृष्ठ-समाकलन
surface cookery	पृष्ठ पाक	surface ionisation detection technique	सतह आयनन समुच्चन विधि, पृष्ठीय आयनन समुच्चन विधि
surface cookery utensil	पृष्ठपाक पात्र	surface ionisation gauge	पृष्ठीय आयनन गेज
surface crack	पृष्ठ दरार	surface irregularity	पृष्ठीय विषमता
surface creep	पृष्ठीय सर्पण	surface lamella	बहिस्तल पटलिका
surface curl of vector	सदिश का पृष्ठ बल	surface layer	पृष्ठीय स्तर
surface current	पृष्ठीय धारा	surface load	पृष्ठ भार
surface current density	पृष्ठ-धारा-घनत्व	surface map	पृष्ठ-मानचित्र, पृष्ठ मैप
surface damping	पृष्ठ अवमंदन	surface markings	पृष्ठ चिह्न
surface density	पृष्ठ-घनत्व	surface mean	पृष्ठ माध्य
surface disinfection	पृष्ठ रोगाणुनाशन	surface mining	पृष्ठ-खनन
surface dose	पृष्ठ मात्रा, सतह मात्रा	surface noise	पृष्ठ रव
surface drainage	पृष्ठीय अपवाह	surface of buoyancy	उत्प्लावन पृष्ठ
surfaced road	<i>Geog.</i> पक्की सड़क	surface of centres (= centre surface)	केन्द्र-पृष्ठ
		surface of congruence	द्विप्राधान रेखा कुल के पृष्ठ

surface of discontinuity	असंततत्व पृष्ठ	surface spring	पृष्ठ झरना
surface of emission	उत्सर्जन-पृष्ठ	surface strain	पृष्ठीय विकृति
surface of floatation	प्लवन-पृष्ठ	surface stratum	पृष्ठीय स्तर
surface offset plate	पृष्ठ ऑफसेट प्लेट	surface stream	पृष्ठीय सरिता
surface of no distortion	विकृतिरहित पृष्ठ	surface temperature	पृष्ठीय ताप
surface of no net motion	नेट-गतिहीन पृष्ठ	surface tension	पृष्ठ-तनाव
surface of revolution	परिक्रमण-पृष्ठ	surface-tension energy	पृष्ठीय तनाव ऊर्जा
surface of separation	पृथक्कारी पृष्ठ	surface tension theory	पृष्ठ तनाव सिद्धान्त
surface of striction	केन्द्रीय बिन्दु पथ पृष्ठ	surface tensor	पृष्ठीय प्रदिश
surface of strong discontinuity	प्रबल असंततत्व पृष्ठ	surface texture	पृष्ठ-गठन
surface of subsidence	अवनतलन पृष्ठ	surface topography	पृष्ठीय स्थलाकृति
surface of two sheets	द्विपटी पृष्ठ	surface transfer impedance	पृष्ठ अंतरित प्रतिबाधा
surface of unconformity	विषमविन्ध्यास पृष्ठ	surface transformation	पृष्ठीय रूपान्तरण
surface of weak discontinuity	दुर्बल असंततत्व पृष्ठ	surface treatment	पृष्ठ उपचार
surface of zero pressure	शून्यदाब पृष्ठ	surface turbulence	पृष्ठ विलोम
surface phase	पृष्ठ प्रावस्था	surface wash	पृष्ठ परिष्कार
surface photoelectric effect	पृष्ठीय प्रकाश विद्युत् प्रभाव	surface water	Geol. मृपृष्ठ जल
surface plankton	सतह प्लवक	surface wave	पृष्ठीय तरंग
surface polarisation	पृष्ठीय ध्रुवण	surface wave approximation	पृष्ठ तरंग सन्निकटन
surface potential methods	पृष्ठ विभव विधि	surface working	पृष्ठ-खनन
surface printing	पृष्ठ मुद्रण, पृष्ठ छपाई	surface zonal harmonic	पृष्ठीय कटिबंधीय प्रसंवादी
surfacers	Chem पृष्ठक	surfacing	Chem., Geol. 1. पृष्ठन 2. पृष्ठ लेपन
surface recombination velocity	Phy. तल पुनर्संयोजन वेग	surfactant	Chem. पृष्ठ सक्रियक
surface reflection field	पृष्ठ परावर्तन क्षेत्र	surfagauge	Chem. पृष्ठ रक्षता मापी
surface resistivity	पृष्ठ प्रतिरोधकता	surfascop	Chem. पृष्ठ रक्षता दर्शी
surface rock	पृष्ठ-गैल	surf boat	Geog. सर्फ-बोट
surface sizing	पृष्ठ चिक्रपन	surfing	Chem. सर्फिंग
surface soil	पृष्ठ-मृदा	surficial deposit	Geol. पृष्ठीय निक्षेप
surface spherical harmonic	पृष्ठीय गोलोय प्रसंवादी	surfufion	Chem. अधिसंगलन
		surf satin	H.Sc. सर्फ साटन
		surf washer	Geol. सर्फ धावित, सर्फ धारक
		surf zone	Geol. फैनिल तरंग मंडल
		surge	Phy., Geog., Geol. 1. महोमि 2. प्रोत्क्षेप

surge characteristic (= transient response)	<i>Phy</i>	क्षणिक अनुक्रिया
surge (non repetitive) forward current	<i>Phy.</i>	महोर्मि (अनावर्ती) अग्रधारा
surgery	<i>Zool</i>	शल्यकर्म, शल्यविज्ञान
surgetime effect		महोर्मि काल प्रभाव
surgical equipment		शल्य उपकरण
surging lap (teeming lap)	<i>Chem (Met)</i>	जलवर्ती बनी
surging movement	<i>Geog</i>	दोनायमान गति, तरंगित गति
Surinam toad	<i>Zool</i>	सुरिनम भेक
surjection	<i>Math</i>	आच्छादन
surjective		आच्छादी
surjective map		आच्छादी प्रतिचित्र
surplus stock	<i>Zool</i>	अधिशेष सग्रह
surplus variable	<i>Math</i>	आधिव्यपूरक चर
surprint		अधिमूद्रण
surprinted	<i>Geog</i>	अधिमूद्रित
surprinting		अधिमूद्रण
surrenal	<i>Zool.</i>	अधिवृत्कीय
surrounding (= entourage)	<i>Math.</i>	परिवेष्ट
surrounding barrier	<i>Geog.</i>	परिवर्ती अवरोध
surrounding country-side	<i>Geog.</i>	परिशामी क्षेत्र
surrounding region	<i>Geog</i>	परिस्थान
surveillance	<i>Phy.</i>	चीकसी
surveillance radar		चीकसी रेडार
survey	<i>Geog, Geol, Math.</i>	1 (n) सर्वेक्षण 2. (v) सर्वेक्षण करना
survey cross staff		सर्वेक्षण गुनिया
surveyed contour		सर्वेक्षित समोच्च रेखा
surveyed data		सर्वेक्षित आंकड़े
surveyed tree		सर्वेक्षित वृक्ष
survey graticule		सर्वेक्षण श्रेणिकयुक्त
surveying		सर्वेक्षण
surveying instrument		सर्वेक्षण उपकरण, सर्वेक्षण यंत्र

survey line		सर्वेक्षण रेखा
survey map		सर्वेक्षण मानचित्र
survey operation		सर्वेक्षण सक्रिया
surveyor		सर्वेक्षक
survey organisation		सर्वेक्षण संगठन
surveyor's chain	<i>Math</i>	जरीब, चेन
survey party		सर्वेक्षण पार्टी
survey planning		सर्वेक्षण-आयोजना निर्माण
survey station		सर्वेक्षण चादा, सर्वेक्षण स्टेशन
survival		उत्तरजीविता, अतिजीविता
survival curve		अतिजीविता वक्र, उत्तरजीविता वक्र
survival of the fittest		योग्यतम की उत्तरजीविता
survival probability		अतिजीविता प्रायिकता
survival value		अतिजीविता मान
survivor	<i>Geog, H Sc</i>	उत्तरजीवी
survivorship		उत्तरजीविता
survivor curves	<i>Phy</i>	अतिजीविता वक्र
susceptance		अधिरक्षित प्रवेशना, अनुप्रियता
susceptibility	<i>Chem, Phy, Bot.</i>	1 गुमाहिता 2 चुंबकीय प्रवृत्ति सह्यक्षमिन्त्व (प्रवृत्ति)
susces	<i>H Sc.</i>	समकंस
suspend	<i>Math, Phy., Chem.</i>	निलंबन, लटवना
suspended		निर्लंबित, लटका हुआ
suspended coil galvanometer		निलंबित कुइसी घाटमापी, निलंबित कुइसी गैल्वेनोमीटर
suspended drop method		निर्लंबित बिन्दु विधि
suspended magnetic system		निलंबित चुम्बक तंत्र
suspended needle galvanometer		निलंबित सूची घाटमापी, निर्लंबित गैल्वेनोमीटर

suspended spindle gyrotory crusher		निलंबित तर्कुं परिभ्रमी दलित्त	Svartholm V-I method	Math.	स्वार्थॉल्म V-I विधि
suspended transformation		निलंबित रूपान्तरण	Svedberg's ultracentrifuge	Chem.	स्वेडवर्ग द्रुत अपकेन्द्रित
suspended water (=vadose water)	Geol.	अधिभूमि जेल	Svedberg unit		स्वेडवर्ग मात्रक
suspension		निलंबन	Sveen glue process	Chem. (Paper)	स्वीन सरेस प्रक्रम
suspension bridge	Geog.	झूला-पुल	Sven Hedin's routemap	Geog.	स्वेन हैडिन मार्ग-मानचित्र
suspension bunker		निलंबन बंकर	sviatonossite	Geol.	स्विण्टोनोसाइट
suspension culture		निलंबन संवर्ध	swab	Chem. (Met.)	कूर्ची
suspension current		निलंबन-धारा	swabbing		कूर्चन
suspension feeder	Zool.	निलम्बित भोजी	swaging	Chem. (Met.)	स्वेजन, अति प्रहण
suspension fibre		निलंबन-तंतु	Swahili	Geog.	स्वाहीलि
suspension flow		निलंबन प्रवाह	Swain equation	Chem.	स्वेन समीकरण
suspension wire		निलंबन तार	Swain-Mosely Brown equation		स्वेन मोजलि ब्राउन समीकरण
suspensoid		सस्पेन्साइड	swale	Geog., Geol.	स्वेल
suspensoid process	Geol., Geog.	निलंबाप्त प्रक्रम	swallen water storing stem	Geog.	उत्फुल्लित जलसंग्राही तना
suspensor	Bot.	निलंबक	swallet	Geog.	स्वालिट, भूमिगत स्रोत
suspensorium		निलंबिका, सस्पेन्सोरियम	swallow	Zool.	अवावील, भाण्डीक
suspensory fibre		निलंबन-तंतु	swallowed shock	Phy.	ग्रसित प्रघात
suspensory ligament		निलंबन-स्नायु	swallow hole	Geol.	विलय रंध्र
sustained oscillations	Phy.	प्रतिपालित दोलन	swallowing	H.Sc.	निगलना
sustainer	Phy.	अनुवाहक	swallow-tail	Zool.	पुच्छपंख
sustenance	Geog.	निर्वाह	swallow-tail twins	Geol.	अवावील पुच्छ यमल
Sutherland's formula	Math.	सदरलैन्ड-सूत्र	swami fabric		स्वामी वस्त्र
Sutherland's viscosity constant		सदरलैन्ड श्यानता स्थिर	swamp	Geol., Zool., Geog.	अनूप
Sutton tube	Phy.	सटन नलिका	swamp animal		अनूपी प्राणी
sutural line	Zool.	सीवन रेखा	swamp clay		अनूप-मृत्तिका
suture		सीवन	swamp dweller		अनूपवासी
sutured grains	Geol.	स्यूतकण	swamp forest		अनूप वन
sutured texture		स्यूत गठन	swamp land		अनूप भूमि
suture joint		सीवन संधि	swamp-rice plantation		अनूप-धान रोपण (कृषि)
suture line		सीवन रेखा	swamp survey		दलदल सर्वेक्षण
suzani	H.Sc.	सुजैनी	swamp thicket		अनूप निकुंज
svabite	Geol.	स्वैवाइट			
S-value	Phy.	S-मान			
svanbergite	Geol.	स्वैन्बर्गाइट			

swan	Zool.	हंस	sweating* period	Bot	प्रस्वेदनकाल
Swan band	Phy.	स्वान बैंड	sweating process	(Text)	स्वेदन प्रक्रम
swan mussel		हंस भसल, हंस शनु	sweat out	Chem. (Met)	नि स्वेदन
sward	Bot., Geog.	स्वार्ड	Swedish black	Chem	स्वीडिश ब्लैक, स्वीडिश काल
swarf	Chem (Met)	घातु बुरादा	swedish lace	H Sc	स्वीडिश लेम
swarm	Zool.	दल, बृद, मूढ	sweep	Phy, Geog., Chem., Zool	1. प्रसर्प 2. मार्जन
swarm cell	Bot	चलकोशिका	sweep amplifier		प्रसर्प-प्रवर्धक
swarm earthquake	Geol.	धेणी भूकम्प	sweep back		परचप्रसर्पन
swarmer	Bot., Zool	चल-बीजाणु	sweep circuit		प्रसर्प-परिपथ
swarmer stage		चलबीजाणु अवस्था	sweep field		मार्जक क्षेत्र
swarming	Zool.	वृन्दन	sweep generator		प्रसर्प-जनित
swarming caterpillar		वृन्दीय इल्ली	sweeping coil	Phy.	विक्षेप कुहली, विशेष योक्त्र
swarming movement		वृन्दन गति	c=deflection coil =deflection yoke)		
swarm spore	Biol.	चल-बीजाणु	sweeping field		प्रसर्प क्षेत्र
swarm theory		वृद-वाद	sweep-net sample		प्रसर्प-जाल प्रतिदर्श
swarthy	Geog.	सावला	sweep oscillator		प्रसर्प दोलक
Swarts reaction		स्वार्ट्स अभिक्रिया	sweep phase		प्रसर्प कला
swash	Geog., Geol.	उद्दावन	sweep trigger		प्रसर्प प्रवर्तक
swash mark		उद्दावन चिह्न	sweep voltage		प्रसर्प वोल्टता
swash channel		उद्दावन-प्रणाल	sweet	Chem (Gl)	1. मृकर भाच 2 स्वीट, मिष्टान्न 3 (adj) मिष्ट, मीठा, मधुर
swashway		उद्दावन मार्ग	sweet clover	Geog	स्वीट क्लोवर
swatch	Chem., H.Sc.	प्रतिदर्श, प्रतिदर्श समूह	sweet corn	Chem., H.Sc.	मीठी मक्का
S-wave	Phy.	S-तरंग	sweet crude	Chem (Pet)	मधुर कच्चा तैल
S-wave resonance		S-तरंग अनुनाद	'sweetened' gasoline	Chem.	मधुरित गैसोलीन
sway	Geog.	प्रभुत्व	sweetener	H Sc.	मीठा करने वाला
swealing	Chem. (Text)	अपत्रजन, स्वीलन	sweetening	Chem. (Pet)	मधुरण
sweat box	Chem.	स्वेदन पेटी	sweetening agent		मधुरक
sweat cooled surface	Math, Phy., Chem.	स्वेदशीत पृष्ठ	Sweetland filter	Geol.	स्वीटलैण्ड फिल्टर
sweat cooling	Phy.	स्वेद शीतलन, आर्द्र शीतलन	sweet natural gas		मधु प्राकृत गैस
sweat gland	Zool	स्वेद ग्रन्थि			
sweat house	Geog.	स्वेदन गृह			
sweating	Chem., Geol.	1. (leather) जीवाणु क्रिया 2. स्वेदन			
sweating pan		स्वेदन कटाह			

sweet pea	<i>Bot.</i>	स्वीट पी	swift moth		क्षिप्र शलभ
sweet pepper	<i>H.Sc.</i>	स्वीट पैपर (फल)	Swift process	<i>Chem.</i> ( <i>Fert.</i> )	स्विफ्ट प्रक्रम
sweet potato	<i>Bot.,H.Sc.</i>	शकरकंद, शकरकंदी	swift stability test		क्षिप्र स्थायित्व निकष
sweet potato dry rot		शकरकंदी का शुष्क विगलन	swift stability tester		क्षिप्र स्थायित्व निकषित्त
sweet potato mosaic		शकरकंदी किर्मीर, शकरकंदी मोजेक	swift-water net	<i>Zool.</i>	क्षिप्रजल जाल
sweet potato ring rot		शकरकंदी का वलय विगलन रोग	swim bladder	<i>Zool.</i>	वाताशय
sweet potato soft rot		शकरकंदी मृदु विगलन	swimmeret	<i>Zool.</i>	तरणपाद
sweet potato weevil		शकरकंद घुन	swimming bell	<i>Zool.</i>	तरण घण्टिका
sweet potato white rust		शकरकंदी श्वेत किट्ट	swimming crab		तरण कर्कट
sweet William	<i>Bot.</i>	स्वीट विलियम	swimming locomotion		तरण गति
swell	<i>Geog.</i>	1. महातरंग 2. स्फीति	swimming paddle		तरण क्षेपणी
swell and swale	<i>Geol.</i>	उच्चावच मोरेन स्थलाकृति	swimming pool	<i>Geog.</i>	तैरने का तालाव, स्विमिंग पूल
swell and swale topography	<i>Geog.</i>	तरंगित स्थलाकृति	swimming-pool reactor		तरण ताल रिप्रेक्टर, पुष्करिणी रिप्रेक्टर
swelling	<i>Phy.,Chem.</i>	1. फुल्लन, फूलना 2. शोथ, सूजन	swimming reflex		तरण प्रतिवर्त
swelling agent		फुल्लन कर्मक	swimming stone	<i>Geol.</i>	प्लवी अश्म
swelling of gelatin		जिलेटिन का फूलना	swimming tub		तरण टब
swellograph		फुल्ल लेखी	swimming undulations		तरण तरंग
swell topography	<i>Geog.</i>	उभार स्थलाकृति	swine	<i>Geog.</i>	शूकर (पालतू)
swept-back wing	<i>Math.</i>	पश्चानत पक्ष	swine back	<i>Geol.</i>	स्वाइन बैक
swept gain (=sensitivity time control)	<i>Phy.</i>	सुप्राहिता काल नियन्त्रण	swine influenza virus	<i>Zool.</i>	सूकर एन्फ्लुएन्जा विषाणु
<i>Swertia chirata</i>	<i>Bot.</i>	स्वर्टिया चिराटा (चिरायता)	swine stone	<i>Geol.</i>	पूति प्रस्तर
Swetts test	<i>Chem.</i>	स्वेट निकष	swing	<i>Phy.,Geog.</i>	प्रदोल, डोल
swidden farming	<i>Geog.</i>	स्वीडेनी कृषि (स्थानान्तरी कृषि)	swing ball	<i>Geol.</i>	दोलनी गोल
Swietoslowski apparatus		स्वीटोस्लीस्की उपकरण	swing crusher	<i>Chem.</i>	दोलीय दलित्त
swift	<i>Zool.,Chem.</i> ( <i>Met.</i> )	वतासी स्विफ्ट	swing grinder		दोलीय पेपक
swift cupping test	<i>Chem.</i> ( <i>Met.</i> )	क्षिप्र चपकन संपरीक्षण	swinging	<i>Chem.</i> ( <i>Plast.</i> )	दोलायमान
			swinging balance		दोलायमान तुला
			swinging choke	<i>Phy.</i>	डोलन चोक
			'swinging equilibrium'		दोलायमान साम्य
			swing jaw		दोलनी हनु
			swing offset	<i>Geog.</i>	स्विंग ऑफसेट
			swing of wind	<i>Geog.</i>	वात-आवर्तन
			swirl	<i>Geog.</i>	मंवर
			swirl chamber	<i>Zool.</i>	ऊर्मि कक्ष
			swirl component	<i>Math.</i>	मंवर-घटक

swirling motion	<i>Geog.</i>	मवरदार गति, परिभ्रामी गति
swirling wind-gust		मवरदार वात झोका
swissair	<i>Geog.</i>	स्विस्सऐयर
swiss cheek	<i>H.Sc.</i>	स्विस्स चेक
switch	<i>H.Sc.,Phy.</i>	स्विच
switch back design (= cross-over design)		व्यत्यस्त अभिवलपना
switch board		स्विच पटल
switching circuit	<i>Phy,Math</i>	स्विचन परिपथ
switching device		स्विचन युक्ति
switching diode		स्विचन डायोड
switching network		स्विचन जाल
switchlog tree	<i>Math.</i>	स्विचवली
switch off (current)	<i>Phy.</i>	(घारा का) स्विच बंद करना, (घारा) बंद करना
switch oil		स्विच तेल
switch on (current)	<i>Phy.</i>	(घारा) का स्विच खोलना, (घारा) चालू करना
swivel	<i>Chem (Pet)</i>	1. घुमत्, घुर्णमान, घुमाऊ
	<i>H.Sc.</i>	2. घुल छल्ला
swivel chair		घुर्णमान कुर्सी
swivel graver		घुर्णमान घेवर
swivel gun		घुमराऊ तोप
swivel handle	<i>Geog</i>	फिरकी मूठ, स्वाइवल हैंडिल
swivel joint	<i>Chem (Food) Geog.</i>	चुलदार सधि, परिघुर्णी सधि, फिरकी जोड़
swivel pen		घुर्णमान पेन, घुर्णमान मेखनी
swivel truck	<i>Phy.</i>	घुर्णी गाड़ी
swollen shoot		शून प्ररोह
sword bean	<i>Bot.</i>	सेमा
sword fish	<i>Zool.</i>	अविमीन

swording	<i>Chem. (Met)</i>	खद्गन
sycamore	<i>Geog.,H.Sc.</i>	गुलर
sycite	<i>Geol</i>	साइसाइट
Sycon	<i>Zool</i>	साइकॉन
syconate chamber		साइकॉनचम कक्ष
<i>Sycon ciliatum</i>		साइकॉन सिलिएटम
<i>Sycon gelatinosum</i>		साइकॉन जिलेटिनोसम
syconium	<i>Bot.</i>	साइकोनियम, अजीरफल
syconoid	<i>Zool.</i>	साइकॉनाथ
<i>Sycon raphanus</i>		साइकॉन रैफैनुस
sycon type canal system		साइकनी नालतंत्र
syconus	<i>Bot.</i>	साइकोनुस, अजीरफल
sycosis	<i>Bot</i>	मुखलोमाति
sydnone	<i>Chem.</i>	सिड्नुन
syenite mica-trap		साइनाइट अभ्रक ट्रेप
syenite	<i>Geol</i>	साइनाइट
<i>Sylepta derogata</i>	<i>Zool</i>	साइलेप्टा डेरोगेटा
syllable	<i>Phy.</i>	अक्षर
syllabid	<i>Zool</i>	सिनीबिड
<i>Syllis ramosa</i>	<i>Zool.</i>	साइलिस रैमोसा
Sylov group	<i>Math.</i>	सिपो समूह
Sylov's theorem		सिपो-अमेय
syphon bellows	<i>Phy.</i>	सिफोन घोकनी
syranite	<i>Geol.</i>	सिल्वेनाइट
Sylvester resultant	<i>Math.</i>	सिल्वेस्टर परिणामी
Sylvester's law of inertia		सिल्वेस्टर का जड़त्व नियम
Sylvester theorem		सिल्वेस्टर प्रमेय
syvestre gas	<i>Chem.</i>	सिल्वेस्टर गैस
syvestrene		सिल्वेस्ट्रीन
syvestris	<i>Bot.</i>	बनशाही
Sylvian aqueduct	<i>Zool</i>	सिल्वियसी प्रणाल
Sylvian fissure		सिल्वियसी विद्र
sytriae		सिल्विया



sylvinite	<i>Chem.</i>	सित्विनाइट	symbolical solution		प्रतीकात्मक साधन
sylvite	<i>Geol.</i>	सित्वाइट	symbolic system		प्रतीक तंत्र
symbiont	<i>Bot., Zool.</i>	सहजीवी	sombolic table		प्रतीकात्मक सारणी
symbiont celluloclastic		सहजीवी सेलुलोसशोषक	symbolic treatment		प्रतीकात्मक उपचार
symbiontism		सहजीविता	symbolism		प्रतीक प्रयोग
symbiosis		सहजीवन, सहजीविता	symbolization	<i>Zool., Geog.</i>	प्रतीकन
symbiote (symbiont)		सहजीवी	symbol map		प्रतीक मानचित्र
symbiotic		सहजीवी	symbol table		प्रतीक सारणी
symbiotic cell		सहजीवी कोशिका	Symbranchii	<i>Zool.</i>	सिम्ब्रैन्किआइ
symbiotic character		सहजीवी प्रकृति, परस्परजीवी प्रकृति	symmedian line	<i>Math.</i>	संमाध्यिका रेखा (माध्यिका संयुग्मी रेखा)
symbiotic economy		सहजीवी अर्थव्यवस्था	symmedian point		संमाध्यिका बिन्दु
symbiotic object	<i>Math.</i>	मिश्रितघर्मी पिंड	symmetranthus	<i>Bot.</i>	सममितपुष्पी
symbiotic type		सहजीवी प्ररूप	symmetric	<i>Math.</i>	सममित
symbol		प्रतीक	symmetric affine connection		सममित सजातीय संबंधन
symbol and alignment		प्रतीक और संरेखण	symmetrical		सममित
symbol card		प्रतीक कार्ड	symmetrical anticline		सममित अपनति
symbolic	<i>Math., Phy., Zool.</i>	प्रतीकात्मक	symmetrical anticline fold		सममित अपनत बलन
symbolic address		प्रतीकात्मक पता	symmetrical development		सममित विकास
symbolic address post		प्रतीकात्मक पतांश	symmetrical distribution		सममित वंटन
symbolic adjunction		प्रतीकात्मक सहबंधन	symmetrical expression		सममित व्यंजक
symbolical representation		प्रतीकात्मक निरूपण	symmetrical flower		सममित पुष्प
symbolic derivation		प्रतीकात्मक व्युत्पादन	symmetrical fold		सममित बलन
symbolic instruction		प्रतीकात्मक अनुदेश	symmetrical function		सममित फलन
symbolic logic		प्रतीकात्मक तर्क	symmetrical laccolith		सममित लैकोलिय
symbolic model		प्रतीकात्मक निदर्श	symmetrical line element		सममित रेखा अल्पांश
symbolic operator		प्रतीकात्मक संकारक	symmetrical loading		सममित भारण
symbolic pattern notation		प्रतीकात्मक प्रतिरूप संकेत	symmetrical lode		सममित लोड
symbolic powers of a primay ideal		प्राथमिक गुणजावलियों के प्रतीकात्मक घात	symmetrically		सममिततः
symbolic product		प्रतीकात्मक गुणनफल	symmetrically magnetised		सममिततः चुंबकित
symbolic programming		प्रतीकात्मक प्रोग्रामन	symmetrical net		सममित जाल
symbolic simulation		प्रतीकात्मक अनुकरण	symmetrical nucleus		सममित अष्टि

symmetrical ordered arrangement	सममित व्यवस्थित विन्यास	symmetric relation	सममिति संबंध
symmetrical scattering	सममित प्रकीर्णन	symmetric set	सममित समुच्चय
symmetrical static field	सममित स्थैतिक क्षेत्र	symmetric tensor	सममित प्रतिश
symmetrical stress	सममित प्रतिबल	symmetric theory	सममित सिद्धांत
symmetrical stress systems	सममित प्रतिबल विन्यास	symmetric transformation	सममित रूपान्तरण
symmetrical structure	सममित संरचना	symmetrizable kernel	सममित योग्य अष्टि
symmetrical syncline fold	सममित अभिनत वलन	symmetrization	<i>Math., Phy</i> सममितोत्करण
symmetrical top molecule	सममित सट्टू परमाणु	symmetrizing operator	सममितकारी सकारक
symmetrical transistor	सममित ट्रांजिस्टर	Symmetrodonta	<i>Zool</i> सिमेट्रोडोंटा
symmetrical twinning	सममित यमनन	symmetry	<i>Math., Biol, Geol</i> सममिति
symmetricarpous	सममितफल	symmetry class	सममिति श्रेणी
symmetric bilinear form	सममित द्विरेखित समघात	symmetry element	सममिति तत्त्व
symmetric determinant	सममित सारणिक, सममित डिटरमिनेन्ट	symmetry energy	सममिति ऊर्जा
symmetric difference	सममित अंतर	symmetry factor	सममिति गुणक
symmetric dual problem	सममित द्वैत समस्या	symmetry fixed equipoint	सममिति निर्धारित समबिन्दु
symmetric expression	सममित व्यञ्जक	symmetry forbidden	सममिति वर्जित
symmetric field	सममित क्षेत्र	symmetry of fabric	सविन्यास-सममिति
symmetric game	सममित खेल	symmetry of kinetic coefficient	गतिक गुणांक की सममिति
symmetric group	सममित समूह	symmetry of movement	चलन सममिति
symmetric kernel	सममित अष्टि	symmetry operation	सममिति सञ्चालना
symmetric law	सममिति नियम	symmetry property	सममिति गुणधर्म
symmetric matrix	सममित मैट्रिक्स	symmetry theory	सममिति सिद्धान्त
symmetric member	सममित सदस्य	symmetry transformation	सममिति रूपान्तरण
symmetric modulation	सममित मॉड्यूलेशन	symmetry type (E)	सममिति प्रकार (E)
symmetric moment	सममित आघूर्ण	symmetry type or species	सममिति प्रकार, सममिति स्पीशीज
symmetric operator	सममित सकारक	symynxis	<i>Geol</i> सिमिन्सि
symmetric parameter	सममित प्राचल	Symmorium	<i>Zool.</i> सिमोरियम
symmetric polynomial	सममित बहुपद	Symons crusher	<i>Chem</i> सिमन्स क्रशर
symmetric pseudoscalar theory	सममित छद्म अदिश क्षेत्र सिद्धान्त	sympathetic branch	<i>Zool.</i> सिमपैथेटिक शाखा
		sympathetic ganglion	अनुसंधी गुच्छिका
		sympathetic ink	<i>Chem. (Inks)</i> सिमपैथेटिक स्याही

sympathetic nerve		अनुकम्पी तंत्रिका	symplassm	Bot.	संद्वय
sympathetic nervous accelerans		अनुकम्पी तंत्रिका त्वरक	symplast	Zool.	संलवक
sympathetic nervous system		अनुकम्पी तंत्रिका तंत्र	symplastic	Bot.	संमुष्टित
sympathetic vibration	Phy.	अनुनादी कम्पन	symplectic	Math.	अंतर्गुणनरक्षी, सिम्प्लेक्टिक
sympathin	Chem.	सिम्पैथिन	symplektic intergrowth	Geol.	घनिष्ठ अंतर्वृद्धि
(noradrenaline)			Symplocaceae	Bot.	सिम्प्लोकेसी
sympathoblast	Zool.	अनुकम्पीकोरक	<i>Symplocos crataegoides</i>	Bot.	सिम्प्लोकाँस केटीगाँड्डीज
sympathomimetic	Zool., Chem.	अनुकम्पीसम अनुकम्पानुकारी	<i>Symplocos racemosa</i>		सिम्प्लोकाँस रेसीमोसा
sympathol	Chem.	सिम्पैथॉल	<i>Symplocos sumuntia</i>		सिम्प्लोकाँस समन्शिया
sympathy effect	Math.	प्रसादन प्रभाव	sympod	Zool.	संपाद
sympatric population	Zool.	समस्थानिक समष्टि	sympodial		संघिताक्षी
sympatric speciation		समस्थानिक जाति उद्भवन	sympodite	Zool.	संपादांश
sympatric species		समस्थानिक जाति	sympodium	Bot.	संघित वक्ष
Sympetalae	Bot.	सिम्पेटेली	symproportionation		समानुपातन
sympetalous	Bot.	संयुक्तदली	symptom	Bot.,H.Sc., Zool.	लक्षण
sympthalangy	Zool.	युक्तगुलास्थिता	symptomatic		लाक्षणिक
sympycarpous	Bot.	संयुक्तफली	symptomatology		लक्षणविज्ञान
sympyiles	Zool.	संरागी	symptomless carrier		लक्षणहीन रोग वाहक
(sympyilines)			synacmy	Bot.	समकालपन्वता
sympyilly		संरागिता	syn-adduct	Chem.	समर्थनोत्पाद, सिनर्थनोत्पाद
sympyisis	Bot.	सम्मिलन, संलयन	Synagoga	Zool.	सिनेगोगा
sympyogenesis	Bot.	बहुतंतुजन	Synanceja	Zool.	नाइनेन्सेजा
sympyogenous		बहुतंतुज	synandrium	Bot.	संपुनंग
Sympyogyna	Bot.	सिम्फोगाइना	synandrous	Bot.	संपुनंगी
sympyony of texture		वयन सामंजस्य	syngial	Bot.	संघानी फलन
Sympyyla	Zool.	सिम्फाइला	fructification		
sympyylan		सिम्फाइलन	syngial valve	Zool.	द्व्यधमनीकांड कपाट
sympyylotriaene	Geol.	सिम्फिलोट्रायेन	syngiate structures	Bot.	संघानी रचना
sympyylotriode	Geol.	सिम्फिलोट्रायोड	syngium		1. द्व्यधमनीकांड 2. संघानी, संदीलाणुघानी
Sympyogyna	Bot.	सिम्फायोगाइना	synantectic (mineral)		वद्ववणज
sympyyleona	Zool.	सिम्फाइप्लीओना	synantherous	Bot.	युक्त परागकोशी
sympyysis	Zool., H.Sc.	संघान	synapse	Zool.,H.Sc.	सिनेप्स, अंतर्घटन
Sympyita (Chalastogastra)	Zool.	सिम्फाइटा (केलेस्टोगैस्ट्रा)			
sympiesometer	Geog.	सिम्प्यीजोमीटर			

Synapsida	Zool	सिनेप्सिडा	synchronisation		सुन्यकालन हास
<i>synapsidan skull</i>		सिनेप्सिडी कसोटि	compression		
synapsis	Zool	सूत्रयुग्मन, सिनेप्सिम	synchronise	Geog.	समकालिक होना
Synapta	Zool	सिनेप्टा	synchronised	Geog	1. समकालन 2. समकालन
<i>Synapta maculata</i>		सिनेप्टा मँब्यूलेटा	synchroniser	Phy	सुन्यकालक
synaptene stage	Zool	सपट्ट अवस्था	synchronising		सुन्यकालन
synaptic knot	Zool	सूत्रयुग्मन गाठ	synchronising generator		सुन्यकालक स्पर जनित
synaptic nervous system	Zool	असंयंत्रणी तंत्रिका तंत्र	synchronising level		सुन्यकालक स्तर
synaptic transmission		असंयंत्रणी संचरण	synchronising pulse (TV, Radar)		सुन्यकालक स्पन्द
synapticulum	Geol	पटवघ, सिनेप्टीकुलम	synchronising pulse separation		सुन्यकालक स्पन्द पृथक्करण
<i>Synaptula recta</i>	Zool.	सिनेप्टुला रेक्टा	synchronising signal		सुन्यकाल सन्केत
synartetic acceleration	Chem	समाभिगामी त्वरण	synchronising signal amplitude		सुन्यकालक सन्केत आयाम
synarthrosis	Zool ,H Sc.	युतमधि	synchronism		सुन्यकालत्व
synarthry		युतमधियता	synchronometer		सिन्क्रोमीटर, सुन्यकालमापी
synascidian	Zool.	सयुक्त ऐनिडियन	synchronous	Phy ,Geol	सुन्यकालिक, सुन्यकाली
synascus		सिनेस्कस	synchronous capacitor		सुन्यकालिक कला-परिवर्तित
syn-axial	Chem	सम-अक्षीय, सिन-अक्षीय	synchronous computer		सुन्यकालिक अभिकलित्र
syncarid	Zool	सिन्कारिड	synchronous detector		सुन्यकाली समूचक
<i>Syncarida</i>	Geol.	सिन्कारिडा	synchronous flashing		सुन्यकालिक रोषित
syncarp	Bot.	युक्ताडप	synchronously		सुन्यकालिकतः, सुन्यकाल मे
syncarpous		युक्ताडपी	synchronous motion		सुन्यकालिक गति
syncarpy		युक्ताडपता	synchronous motor		सुन्यकालिक मोटर
Syncephalastrum	Bot	सिनसिफेलेस्ट्रम	synchronous motor timer		सुन्यकालिक मोटर बाटी-गूचक
syncerebrum		सप्रमस्तिष्क	synchronous phase angle		सुन्यकालिक कलाकोण
synchin oil	Chem. (Paint)	सिन्चिन तेल	synchronous phosphoroscope		सुन्यकाली फ्लुरोस्कोपि दर्शी
synchordrosis	Zool.	अपाम्पिमधान	synchronous pluton		सुन्यकालिक प्लूटोन
synchro	Phy.	सिन्क्रो	synchronous scarring		सुन्यकाली अमकीरण
synchro control transmitter		सिन्क्रो नियंत्रण प्रेषित्र	synchronous timing		समकालिक काल-मापन
synchrocy clotron	Phy.	सिन्क्रोसाइक्लोट्रॉन	synchronous vibrations		समकालिक कंपन
synchrodyne mixer	Phy.	सिन्क्रोडायन मिश्रक			
synchrone	Math.	समकालिक वक्र			
synchronic	Zool ,Bot	समकालिक			
synchronic species		समकालिक जाति			
synchronisation	Math ,Phy.	सुन्यकालन			

synchronous working		तुल्यकालिक निस्पादन	syncytial cement gland		बहुकेन्द्रकी ज्ञेय ग्रंथि, बहुकेन्द्रकी सीमेट ग्रंथि
synchro release		तुल्यकालिक मोचन, सिन्क्रोनी मोचन	syncytial electroplax		बहुकेन्द्रकी विद्युत् पट्ट
synchroscope	Phy.	तुल्यकालदर्शी, सिन्क्रोस्कोप	syncytial mass		बहुकेन्द्रकी पिंड
synchro transmitter	Phy.	सिन्क्रो प्रेषित्र	syncytial membrane		बहुकेन्द्रकी कला
synchrotron	Phy.	सिन्क्रोट्रॉन	syncytial ovary		बहुकेन्द्रकी अंडाशय
Synchytriaceae	Bot.	सिन्किट्रिएसी	syncytial stomach		बहुकेन्द्रकी आमाशय
Synchytrium		सिन्किट्रियम	syncytial vitellarium		बहुकेन्द्रकी पीतकाशय
syncilia	Zool.	संपन्नाभ	syncytial wall		बहुकेन्द्रकी भित्ति
syncladous	Bot.	संस्तंभी	syncytium	Bot., Zool.	बहुकेन्द्रकी, सिन्सीजियम
synclastic	Math.	सदृश वक्रित	syndactyl	Zool.	युवतांगुलि
synclastic surface		सदृश वक्रित पृष्ठ	syndactylism		युवतांगुलित्व
synclinal	Geol., Chem., Geog.	1. अभिनतिक 2. अभिनत	syndactyly		युवतांगुलिता
synclinal axes		अभिनतिक अक्ष	syndepositional	Geol.	सहनिलेपणी
synclinal bowing		अभिनतिक को दण्ड	Synder sampler	Geol.	सिहर प्रतिदर्शित्र
synclinal closure		अभिनतिक संवृति	syndesmosis	H.Sc., Zool.	तन्तुसंधि, स्नायुसंधि
synclinal complex		अभिनतिक जटिल शैलसंघ	syndet	Chem., H.Sc.	संश्लिष्ट अपमार्जक
synclinal lake		अभिनतिक झील	syndesmochorial placenta	Zool.	जरायुयोजी अपरा
synclinal mountain		अभिनतिक पर्वत	syndiotactic	Chem.	एकान्तर व्यवस्थ, सिन्डायोटैक्टिक
synclinal range		अभिनतिक श्रेणी	syndrome	Chem., Biol., H.Sc.	सिन्ड्रोम, संलक्षण
synclinal ridge		अभिनतिक कटक	syndyname	Math.	समबलवक्र
synclinal strata		अभिनतिक स्तर	syneclise	Geol.	सिनेक्लाइज, वेदी- निम्नावलि
synclinal strip		अभिनतिक पट्ट	synecology	Zool., Geog.	संपारिस्वितिकी
synclinal trough		अभिनतिक द्रोणी	synectic function	Math.	स्पर्शी फलन
synclinal valley		अभिनतिक घाटी	syn-elimination	Chem.	सम-विलोपन, सिन- विलोपन
syncline	Geol.	अभिनति	Synentognathi	Zool.	सिनेन्टोग्नेथाई
synclinorium	Geol.	समभिनति	synephrine	Chem.	सिनेफ्रीन
syncoenobium	Bot.	सहसंमंडल	synepirogene	Geol.	संमहाखंडजनन
syncolpate	Bot.	युक्तविदरकी	syneresis	Biol.	संकोच पार्यंक्य
Syncoryne	Zool.	सिन्कोराइन	syneresis crack	Geol.	संकुंचन विदर
syncraniate	Zool.	संकरोटीय	synergetic		युक्तिप्रभावी
syncyanoses	Bot.	सिनसाएनोजेज	synergic	Chem.	संकर्मी
syncyte	Bot.	समेकित कोशिका	synergid	Bot.	सहाय कोशिका
syncytia	Geol.	संकोशिका			
syncytial	Bot., Zool.	बहुकेन्द्रकी, सिन्सीजियमी			

synergism	<i>Chem. Zool.</i>	सकर्म, योगवाहिता	synodical year	सयुति वर्ष
synergist		सकर्मो, योगवाही	synodic fortnightly tide	सयुति पाक्षिक ज्वार
synergistic induction		योगवाही विप्रेरण	synodic month	सयुति मास
synergized pyrethrin		योगवाहित पाइरेथ्रिन	synodic period	सयुतिकाल
synform	<i>Geol.</i>	अभिनत रूप	synoicous	<i>Bot.</i> अभिन्न शाखाश्रयो
syngameon	<i>Bot.</i>	मिनगेमिआन	Synol process	<i>Chem.</i> मिनाॅल प्रक्रम
<i>Syngamus trachea</i>	<i>Zool.</i>	सिनगॅमस ट्रॅकिआ	synonym	<i>Biol.</i> सहनाम, पर्यायनाम
syngamy	<i>Bot.</i>	युग्मक-सलयन	synonymous	पर्यायनामी
syngenesious	<i>Bot.</i>	युक्तकोशी	synopsis	<i>Geog. Bot.</i> भाराश, रूपरेखा, संक्षेप, सारसंग्रह
syngenesiis	<i>Geol.</i>	सहजनन	synoptic	<i>Geog.</i> मिनाॅप्टिक
syngenetic		सहजात	synoptical key	<i>Bot.</i> संक्षिप्त कुञ्जी
syngenetic concretion		सहजान सग्रथन	synoptical chart	मिनाॅप्टिक चार्ट
syngenetic ore deposit		सहजात अयस्क निक्षेप	synoptic-climatic method	<i>Geol.</i> गाररूप जलवायु विधि
syngenetic reproductoin		सहजात जनन	synoptic features	साररूपी लक्षण
syngenetics	<i>Bot.</i>	समुदायोत्पत्ति विज्ञान, समुदायोत्पत्तिकी	synoptic observation	मिनाॅप्टिक प्रेक्षण
syngenite	<i>Geol.</i>	सिन्जेनाइट	synoptic oceanography	मिनाॅप्टिक समुद्र विज्ञान, मिनाॅप्टिक महासागर विज्ञान
syngonic	<i>Bot.</i>	पुपूर्वी उभयलिगी	synoptic weather fronts	साररूप मौसमाश्र
syngonic female		पुपूर्वी उभयलिगी मादा	synorogene	<i>Geol.</i> सपर्वतन
syngony		पुपूर्वी उभयलिगता	synorogenic granite	सपर्वतनी ग्रेनाइट
synhibit pcess	<i>Chem. (Met)</i>	सिन्हीबिट प्रक्रम	synorogenic magmatic phase	सपर्वतनी मैग्मीय प्रावस्था
synlzeis	<i>Zool.</i>	आपुजन	synosteosis	<i>Zool.</i> अस्थियोजन
synkaryon	<i>Biol.</i>	युग्मककेन्द्रक	Synotus	<i>Zool.</i> सहनोटस
synkarite	<i>Chem.</i>	सिन्कैराइट	synovial articulation	<i>Zool.</i> स्राव संधि
synkinematic	<i>Geol.</i>	सहगतिक, सगतिक	synovial bursa	स्राव पुरी
symorphes	<i>Geol.</i>	समातर्वेश	synovial capsule	स्राव सयुट
synnematia (cephalosporine)	<i>Chem.</i>	सिनीमैटिन (सिन्फैलोस्पोरिन)	synovial cavity	स्राव गुहा
syncusis	<i>Geol.</i>	पुत्रप्लावित	synovial fluid	<i>Chem.</i> साइनोवियल तरल, साइनोवियल स्राव
Synochromonas	<i>Zool.</i>	सिनोक्रोमोनास	synovial tender sheath	स्राव कडरा-छद
synodical	<i>Geog. Math.</i>	सयुत	syn-periplanar	<i>Chem.</i> सिन्-पेरिपलनर
synodical angular momentum	<i>Math.</i>	सयुत कोणीय आघूर्ण	synpetalous	<i>Bot.</i> सयुक्तदली, छदनी
synodical coordinate system		सयुत निर्देशांक निकाय	synsacrum	<i>Zool.</i> सिन्सैक्रम, सत्रिक

synsepalous	Bot.	संयुक्त बाह्यदली, संवाह्यदली	synthetic material		कृत्रिम पदार्थ, संश्लिष्ट पदार्थ
symspermous	Bot.	संयुक्तबीजी, संबीजी	synthetic media		संश्लेषित माध्यम
symspermy		संबीजिता, संयुक्तबीजिता	synthetic medicine		कृत्रिम औषधि, संश्लिष्ट औषधि
syntactic	Chem.	व्यवस्थ	synthetic medium	Bot.	ज्ञातद्रव्य माध्यम
syntactic foams		सिन्टेक्टिक फेन, व्यवस्थ फेन	synthetic method		सांश्लेषिक विधि, संश्लेषण विधि
syntagmata	Zool.	संखंडैकक, सिन्टैग्मटा	synthetic method of prediction	Geog.	प्राग्वित सांश्लेषिक विधि
syn-tan	Chem.	संश्लेष चर्मशोधक, सिन्टैन	synthetic order (formal order)		संश्लेषी क्रम (औपचारिक क्रम)
syntax error	Math.	वाक्य रचना त्रुटि	synthetic petrol		संश्लिष्ट पेट्रोल
syntaxial	Geol.	अक्षसंधीय	synthetic process		सांश्लेषिक प्रक्रम
syntaxis		अक्षसंधि	synthetic product		संश्लिष्ट उत्पाद, कृत्रिम पदार्थ
syntectic	Geol.	सिन्टेक्टिक, संद्रवणज	synthetic region		संश्लिष्ट प्रदेश
syntectite	Geol.	सिन्टेक्टाइट	synthetic resin		कृत्रिम रेजिन, संश्लिष्ट रेजिन
syntectonic granite	Geol.	संनिवर्तनिक ग्रेनाइट	synthetic rubber		कृत्रिम रबर, संश्लिष्ट रबर
syntectonic pluton		संनिवर्तनिक प्लूटॉन	synthetic segment		संश्लिष्ट खंड
syntelome	Bot.	सिन्टीलोम	synthetic soil		कृत्रिम मृदा
syntexis	Geol.	संद्रवण	synthetic tanning		सांश्लेषिक चर्मशोधन
synthalin	Chem.	सिन्थैलिन	synthetic textile		संश्लिष्ट वस्त्र
synthesis		संश्लेषण	synthetic wax		संश्लिष्ट मोम
synthesis gas		संश्लेषण गैस	synthine process	Chem.	सिन्थाइन प्रक्रम
synthesize		संश्लेषण करना	synthofil	H.Sc.	सिन्थॉफिल
synthetase	Chem.	सिन्थेटेस	synthol	Chem.	सिन्थॉल
synthetic	Chem., Geog.,H.Sc.	संश्लिष्ट, सांश्लेषिक, कृत्रिम	synthol process		सिन्थॉल प्रक्रम
synthetic colour		कृत्रिम रंग, संश्लिष्ट रंग	syntrophoblast	Zool.	संपोपकोरक
synthetic complex method		संश्लेषी संकुल पद्धति, संश्लेषी संकुल रीति	syntropic	Zool.	सहअनुवर्ती
synthetic crude		संश्लेषी आम उत्पादन, संश्लेषी कूढ़	syntype (cotype)	Zool.,Geol.	सहप्ररूप
synthetic detergent		संश्लिष्ट अपमार्जक	synusia	Bot.	स्तर समुदाय
synthetic exchanger		संश्लिष्ट विनिमायक	synusium	Bot.	समवास संस्तर
synthetic fault	Geol.	समनतगोण फ्रंस	synxenic	Bot.	सहांगंतुक
synthetic fibre		संश्लिष्ट तंतु	synzoospore		संचलबीजाणु
synthetic flooring		कृत्रिम फर्श, संश्लिष्ट फर्श	Syracosphaera	Zool.	सिरैकोस्फीरा
synthetic geometry		सांश्लेषिक ज्यामिति	'syrgol'	Chem.	सिर्गॉल
synthetic heteroauxin		संश्लेषित विषम आक्सिन			
synthetic insecticide		संश्लिष्ट कीटनाशी			

Syringaldehyde	Bot	सिरिजेल्डीहाइड	systematic codes	Math.	व्यवस्थित कूट
<i>Syringa vulgaris</i>	Bot.	सिरिजा वर्जिनरिस	systematic distribution		क्रमबद्ध वितरण
syringe	Chem., H Sc.	शृंगक, पिचकारी, सिरिज	systematic error		क्रमबद्ध त्रुटि, नियत अशुद्धि
syringe delivery unit		सिरिज विकास एकक	systematic force		व्यवस्थित बल
syringic acid	Chem	सिरिजिनिक अम्ल	systematic geography		क्रमबद्ध भूगोल,
syringidin		सिरिजिडिन	systematic overrelaxation process		क्रमबद्ध अतिविघ्राति प्रक्रम
syrinx	Zool.	शब्दिनी	systematic position	Geog	वर्गीकृत स्थान
*Syrma (=t Virginis)	Astron	सर्मा (1=कन्या, 1 बजिनिस)	systematic random sampling	Math	क्रमबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन
symema		सहज तनु, सतनु	systematics	Biol	वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण पद्धति
syrosingopine	Chem.	सिरोसिंगोपाइन	systematic sampling	Math	क्रमबद्ध प्रतिचयन
Syrphidae	Zool.	सिर्फिडी	systematic term		क्रमबद्ध पद
<i>Syrphus nitens</i>	Zool	सिर्फस निटेन्स	systematic zoology		वर्गीकरण-प्राणिविज्ञान
syrtidophilous	Bot.	शुष्क बाबू रागी	systematisation	Chem	पद्धतीयन, क्रमबन्धन
syrup	H Sc.	शर्बत, चायनी, मिरप	systematist	Biol	वर्गीकरणविज्ञ
syrupy consistency	Chem., H Sc.	लेहीय गाढ़ता	systematists point of view	Geog.	व्यवस्थाप्रीय दृष्टिकोण, व्यवस्थावादी दृष्टिकोण
syrupy phosphoric acid	Chem.	गाढ़ फॉस्फोरिक अम्ल	systemic	Zool ,Phy	सर्वांगी; दैहिक
sysgenia	Bot.	अपर साहचर्य	systemic arch		दैहिक चाप
system	Chem., H.Sc.,Phy Geol.	1. तिकाय, पद्धति, प्रणाली 2. समूह 3. (crystallography) समुदाय	systemic artery		दैहिक धमनी
system analysis	Phy.	सत विश्लेषण, प्रणाली विश्लेषण	systemic circuit		दैहिक परिपथ
system analyst		सत विश्लेषक	systemic heart		दैहिक हृदय
systema naturae	Biol	प्राकृतिक पद्धति	systemic Insecticide		सर्वांगी कीटनाशी
systematic	Biol,Math., Phy.	क्रमबद्ध, वर्गीकरणो, वर्गीकरण-	systemic spread		सर्वांगीय प्रसार
systematic absence (= systematic extinction)	Phy.	नियमित अनुपस्थिति, नियमित विलोप	system of bodies	Math.	पिंड-निकाय, वस्तु-निकाय
systematically		वर्गीकरणतः, क्रमबद्धतः	system of chain	Geog.	शृंखला-निकाय
systematic analysis		क्रमबद्ध विश्लेषण	system of circles	Math	वृत्त-निकाय
systematic botany		वर्गीकरणो वनस्पतिविज्ञान	system of conserva- tive forces		संरक्षी बल निकाय
			system of coordinates		निर्देशक पद्धति, निर्देश सत
			system of crystal		क्रिस्टल समुदाय
			system of equations		समीकरण निकाय
			system of forces		बल-निकाय
			system of generators in a group		समूह में जनक निवार



system of generators in a space	समष्टि में जनक निकाय	systole	H.Sc., Zool.	प्रकुंचन, सिस्टोल
system of generators in a vector	सदिश में जनक निकाय	systolic pressure		प्रकुंचन दाब
system of integrals	समाकल निकाय	systox	Chem.	सिस्टॉक्स
system of involution (= involution system)	अंतर्वलन-निकाय	sympaedia	Bot.	अपर साहचर्य
system of layer	वर्णस्तर-पद्धति	sytris	Bot.	शुष्क बालू समुदाय
system of lines	रेखा-निकाय	syzygial pair	Zool.	संयुगी युग्म
system of lodes	लोड-तंत्र	syzygial suture	Geol.	युतिवियुति सीवन
system of measurements	माप-पद्धति	Syzygiella	Bot.	साइजीगिएला
system of mountains	पर्वत-तंत्र	<i>Syzygium cumini</i>	Bot.	सिज्जीजियम क्युमिना
system of nets	जाल-निकाय	<i>Syzygium jamboo</i>		सिजीजियम जम्बू (जामुन)
system of nomenclature	नाम पद्धति	<i>Syzygium malaccensis</i>		सिजीजियम मलाकेन्सिस (मलाया जामुन)
system of orthogonol functions	लॉबिक फलन-निकाय	syzygy	Math. Zool.	युति-वियुति बिन्दु संयुग
system of particles	कण-निकाय	szechwan wool	H.Sc.	जैचवान ऊन
system of pulleys	घिरनी तंत्र, कृष्णी तंत्र	Szegvari's experiment	Chem.	सेग्वरि प्रयोग
system of reference	निर्देश-पद्धति	szik soil	Geog.	जाइक मृदा
system of residues	अवशेष निकाय	Szillard-Chalmers effect		सिलार्ड चामर्स प्रभाव, सिलार्ड चामर्स निष्पत्ति
system of units	मात्रक पद्धति, मात्रक प्रणाली	Szillard-Chalmers process	Phy.	सिलार्ड चामर्स प्रक्रम
system of wedge	वेज-तन्त्र	szmikite	Geol.	स्मिकाइट

tab	<i>Phy.</i>	टैब	table of lettering	<i>Geog.</i>	अक्षरांकन सारणी
tabacicus	<i>Bot.</i>	तमाकुवणी	table of random permutations	<i>Math.</i>	यादृच्छिक क्रमचय सारणी
tabanid	<i>Zool.</i>	टैबेनिड	table reef		मच भित्ति
Tabanidae		टैबेनिडी	table of spectrometer		स्वेक्ट्रोममीपी का मच
Tabanus	<i>Zool.</i>	टैबेनस	table of trigonometrical station and point		त्रिकोणमितीय चादा-बिन्दु सारणी
<i>Tabanus maculicornis</i>		टैबेनस मैक्युलिकॉर्निस	table set	<i>Phy.</i>	मेजो टेलिविजन सेट
Tabar abraser	<i>Chem.</i>	टैबर अपघर्षी	table setting	<i>H.Sc.</i>	मेडा लगाना
tabasheer	<i>Bot.</i>	वशलोचन	table spectroscope	<i>Chem.</i>	मेज स्वेक्ट्रोमीदर्शी
tabby (gene)	<i>Zool.</i>	पीतधूसर (जीन)	table spoon		टैबुल चम्मच
tabby	<i>H.Sc.</i>	सादा बुनती	table summarizing procedure		सारणी संक्षेपण नियामिधि
tabby weave		सादा बयन	tablet	<i>Bot.</i>	पीठिका
tabernacle	<i>Geog.</i>	हेरा	<i>H.Sc.</i>	<i>H.Sc.</i>	टिफिया, वाटिका
tabescent	<i>Bot.</i>	अरकुचित	table-top	<i>H.Sc.</i>	मेजपृष्ठ, मेजतल
tabetisol	<i>Geog.</i>	टैबेटिसॉल	table ware	<i>H.Sc.</i>	भोजन के बर्तन, खाने के बर्तन
tabki	<i>Geog.</i>	टैबकी	tabling	<i>Geol., Chem.</i>	1 पटलन, मचन 2 सारणीपन
table		1 सारणी 2 टेबल, पटार 3 मच, पटल 4 मेज	taboleiro	<i>Geog.</i>	टैबोलीरो
table area		टैबल क्षेत्र, पटल क्षेत्र	taboret	<i>H.Sc.</i>	पीढ़ा, पीढ़ी, आगन्दी
tableau	<i>Math.</i>	टैब्लो, सारणी	tabreez marble	<i>Geol.</i>	टैबरीज संगमरमर
table bird	<i>Geog.</i>	घास पक्षी	tabula		टैबुला
table cloth	<i>Geog.</i>	1. टेबुल क्लाय, पटार मेधावरण	tabular	<i>Math., Geog., Geol.</i>	सारणीबद्ध सपाट
	<i>H.Sc.</i>	2 मेजपोस	tabular arrangement		सारणीबद्ध व्यवस्था
table cut	<i>Geol.</i>	सपाट शीर्षी	tabular berg		सपाट बर्तलन
table diamond		सपाट शीर्षी हीरा	tabular bone	<i>Zool.</i>	टैब्युलर अस्थि, सपाटास्थि
table headlog		सारणी शीर्षक	tabular crystal		सपाट क्रिस्टल
tableland	<i>Geog.</i>	पटार	tabular difference	<i>Math.</i>	सारणीय अन्तर
table linen		टेबल लिनन	tabulare		टेब्युलेरी
table mat		मेज चटाई, मेज पाटी	tabular form		सारणीबद्ध फार्म
tablemount	<i>Geol.</i>	समुद्रगिरि मच	tabular guide		सारणीबद्ध गाइड, सारणीबद्ध निर्देशिका
table mountain		पटारी पर्वत	tabular iceberg		सपाट बर्तलन (प्लावी)
table of altitudes	<i>Math.</i>	उन्नतांक-सारणी			
table of differences		अन्तर-सारणी			
table of integrals	<i>Math.</i>	समाकम सारणी			

tabular logarithm	Math.	सारणिक लघुगणक, सारणिक लागेरिथ्म	Tachyglossidae	Zool.	टैकीग्लोसिडी
tabular recording		सारणीबद्ध अभिलेखन	Tachyglossus		टैकीग्लोसस
tabular spar	Geol.	बोलस्टोनाइट	Tachyglossus aculeatus		टैकीग्लोसस ऐक्जुलिप्टस
tabular structure	Geol.	पटलित संरचना	Tachylina	Zool.	टैकीलिना
tabular sulphur	Chem.	टिकिया-गंधक	tachylyte	Geol.	टैकीलाइट
tabulate	Math.	सारणीबद्ध करना	tachyol	Chem.	टैकियाँल, रजत फ्लुओराइड
tabulate coral	Geog.	टैबुली प्रवाल	tachyspore	Bot.	द्रुतकीर्ण
tabulated	Math., Geog.	सारणीबद्ध	tachysporous		द्रुतकीर्णी
tabulated value		सारणीबद्ध मान	tachyseism	Geog.	द्रुत भूकम्प
tabulating equipment	Phy.	सारणी यंत्र	tachysterol	Chem.	टैकिस्टेराल
tabulation	Math.	सारणीयन	Tachysurus dussumieri	Zool.	टैकीस्युरस डसुमेरी (शिगाला)
tabulation plan		सारणीयन आयोजना	tacifron	Phy.	टैसिद्रान
tabulator	Math.,Phy.	1. सारणिक, सारणी यंत्र, 2. सारणीयक	taciturn	Geog.	बल्पमापी
tabulatus	Bot.	स्तराधिस्तर	tack (Ink)	Chem.	श्लेपिता, कौलिका
tacan	Phy.	टैकान, कुशल वैचालन	tackfree		श्लेपिताहीन
Taccaceae	Bot.	टैक्सेसी	tackifier	Chem. (Plastics)	श्लेपक
taccimeter	Chem.	श्लेपितामापी, टैकिओ- मीटर	tackifying compound		श्लेपक योगिक
Taccocua leschenaultii	Zool.	टैकोकुआ लिस्चैनौलटी (जंगली तोता)	tacking	Chem. H.Sc.	1. श्लेपण 2. कच्ची सिलाई
tacheometer (tachymeter)	Phy.,Chem., Geog.	जवमापी, टैकिओमीटर (टैकीमीटर)	tacking thread		कच्ची सिलाई धागा
tacheometric curve ranging	Geog.	टैकीमितीय वक्र सर्वेक्षण	tackle twill	H.Sc.	टैकिल ट्वील
tacheometric method		टैकीमितीय विधि	tackmeter (taccimeter)	Chem.	श्लेपितामापी, टैकीमीटर (टैकिओमीटर)
tacheometric survey		टैकिमितीय सर्वेक्षण	tackrange		श्लेपण परिसर
tachhydrite	Geol.	टैशहाइड्राइट	tacky		श्लेपी
Tachinidae	Zool.	टैकिनिडी	tac-locus	Math.	स्पर्श बिन्दु-पथ, स्पर्श पथ
tachometer	Phy.,Geog. Chem.	घूर्णवेगमापी, टैकीमीटर	tac-node	Math.	द्विक उभयाग्र
tachometer feed back control		टैकीमीटर पुनः निविष्ट नियंत्रक	taconite	Geol.	टैकोनाइट
tachydromile	Bot.	द्रुत सरिता	taconyte	Geol.	टैकोनाइट
tachygenesis	Zool.	त्वरित परिवर्धन, द्रुतवर्धन	tac plane	Math.	स्पर्श समतल
			tac-point (= tac-node)	Math.	द्विक उभयाग्र
			tactical	Math.	चातुर्यपूर्ण
			tactical map	Geog.	सामरिक मानचित्र, समरतटीय मानचित्र
			tactical radar	Phy.	समर व्यूह रेडार

tactical requirement		सामरिक आवश्यकता	taeniolite	Geol.	टीनिमोलाइट
tactical scale		सामरिक पैमाना	taconite	Chem	टैकनाइट
tactile (taxis) movement		अनुचलन गति	Taeniopteris	Bot.	टीनियोप्टेरिस
tactile cell	Biol.	स्पर्श कोशिका	tafelkop	Geog.	टेफेनकोप
tactile comb		स्पर्श कंकत	Tafels equation	Chem	टेफेन समीकरण
tactile cone		स्पर्श शंकु	tafelberg	Geog.	टेफेनबर्ग
tactile corpuscle		स्पर्श कणिका	taffeta	H Sc	टैफेटा
tactile hair		स्पर्श रोम	taffeta weave		टैफेटा बचन
tactile organ		स्पर्शोन्मुख	taffrail	Geog.	ताफरेल
tactile response		स्पर्श अनुक्रिया	tafoni	Geog.	टैफोनी (गड)
tactile rod		स्पर्श दंड	tafrogenesis	Geog.	टैफोजेनेसिस (रिफटरचना)
tactile seta		स्पर्श सूक्ष्म	Taft equation	Chem	टेस्ट समीकरण
tactile stimulus		स्पर्श उद्दीपक	tag	Geog.	टैग
tactite	Geol.	टैक्टाइट	tagatose	Chem.	टैगाटोस
tactoid	Bot.	टैक्टॉइड	Tagetes patula	Bot	टैगेटेज पेटुला (गैडर)
tactoid formation	Chem	सदृशण सम्भवन, टैक्टॉइड सम्भवन	tagged	Chem.,Phy.	1 चिह्नित, अंकित 2 सहित
tactoreceptor	Bot.	स्पर्शग्रही	tagged atom		अंकित परमाणु
tactual sensation	Zool.	स्पर्श संवेदन	tagger	Chem	टैगर
tadpole	Zool.	बैंगची, टैडपोल	tagging	Chem.	1 टैगिंग 2 अंकन 3. नत्थी करना
Taenia	Zool.	टीनिया	tagging experiment	Zool.	बचन प्रयोग
Taenia echinococcus		टीनिया एकाइनोकोकस	taglite	Geol	टैगलाइट
taenianus	Bot.	शुचदंडी	tagma (tagmata)	Zool	सदृशक
Taenia saginata		टीनिया सैजीनेटा	tagmatization		सदृशकीकरण
taeniasis		टीनियस	tagmosis	Zool	सुन्नघड
Taenia solium		टीनिया सोलियम	tahin (= taheen)	H.Sc.	साहीन
taenidium	Zool.	टीनिडियम, सपितमूत्र	Tahitian	Geog.	टाहीतीजन
Taeniellopsus orchestiae	Bot.	टीनिलोप्सिस ऑर्केस्टीई	tahite	Geol	टैहिटाइट
Taenilocystis	Zool.	टीनिओसिस्टिस	taiga	Geog.	टैगा
Taeniodontia	Zool.	टीनियोडॉन्टिया	tall		पुच्छ, पूछ
Taenoglossa	Zool.	टीनियोग्लोसा	tall area (of distribution)		पुच्छ क्षेत्र (बचन का)
taenoglossate		टीनियोग्लोसाई	tail band		पुच्छ बैंड
taenioid	Zool.	फ़ीटास	tail cavity		पुच्छ गुहिका
Taeniolabis	Zool.	टीनियोलेबिस			
taenioles	Zool.	टीनियोलेस, शटरकटक			

tail cone		पुच्छ शंकु	tail terminal		पुच्छ उपान्त
tail coverts	Zool.	पुच्छावरक	tail warning radar		पुच्छी सचेतक रेडार
tailed	Zool.	सपुच्छ	tail whorl		पुच्छ चक्र
tail-end radar detector		पुच्छस्थित रेडार-संसूचक	tainolite	Geol.	टैनोलाइट
tail fan		पुच्छ व्यजन	tainton process	Chem.	टेन्टन प्रक्रम
tail feet		पुच्छ पाद	Taiwania	Bot.	तवानिया
tail fin		पुच्छ पख	taka-diastase	Chem.	टाका डाइस्टेज
tail fold		पुच्छ बलन	take-all disease	Bot.	सर्वनाशी रोग
tail fork		पुच्छ द्विमूत्र	take-off	Geog.,Phy.	उपरितरण, उत्प्रस्थान
tail gas		पुच्छ गैस	take-off and emergency stop		उपरितरण एवं संकट विराम
tail grab		पुच्छ पकड़	take-off and landing run		उपरितरण एवं अवतरण पथ
tailing (=hangover)	Phy.	पुच्छन, दीर्घान्त	take off angles		उत्प्रस्थान कोण
tailing dams	Geol.	पछोड़न बांध	take-off distance		उपरितरण दूरी
tailing disposal		पछोड़ व्ययन	take-off run and climb to height		उपरितरण पथ और ऊंचाई आरोहण
tailing disposal devices		पछोड़ व्ययन यंत्र	take-up lever	H.Sc.	उत्तोलक
tailing down		बधोपुच्छन	takhtrawan	Geog.	तख्तावान
tailing off	Phy.	क्रमिक ह्रास	takyr	Geog.	ताकिर
tailing out	Geol.	अंतोन्मुखी	tala	Geog.	टाला, वेसिन
tailings	Geol.,Chem.	समुच्छिद्य, पछोड़न	talapoin	Geog.	टैलापोइन, बौद्ध भिक्षु
tailing sampling		पछोड़न प्रतिचयन	talara	Bot.	पलक
tailless amphibian	Geog.	विपुच्छ जलस्थलचर	talasskite	Geol.	टैलेस्काइट
tailless control	Phy.	पुच्छहीन नियंत्रण	talbot	Phy.	टैलबोट
tail lever arm		पुच्छहीन उत्तोलक भुजा	Talbot ingot process	Chem.	टालबट शिरा प्रक्रम
tail mark		पुच्छ चिह्न	Talbot's law	Chem.	टालबट नियम
tail muscle		पुच्छ पेशी	talbutal	Chem.	टैलब्यूटल
tail of a comet	Math.	धूमकेतु की पूंछ	talc	Geol.	टैल्क
tallor bird	Zool.	दलिन	talcose	Geol.	टैल्कमय
tallor-made	Chem.	तदनुकूल	talcose schist		टैल्क शिस्ट
tallor's chalk	H.Sc.	दर्जी चॉक	talc spinel		टैल्क स्पिनेल
tallor's square		दर्जी गुनिया	Talinum triangulare	Bot.	टैलीनम ट्राएंगुलैर
tall piece	Zool.	पुच्छांश	talik	Geog.	नहिमीभूत स्तर, टालिक
tall plate		पुच्छ पट्ट	talipot (palm)	Bot.	तालीपात (ताड़)
tall-quill (retrix)		पुच्छ पिच्छ	*Talitha (= t Ursae Majoris)	Astron.	टालिका (= t ऋषि १ अर्शा मैजोरिस)
tail-rope system		पुच्छ रज्जु तंत्र	talitol	Chem.	टैलिटॉल
tailrace		विसर्जन कुल्या			
tail spot		पुच्छ बिन्दु			

Talitrus		टैलीट्रस		talus cone		पादमलवा शकु, शैलमलुवा शकु
talk down system	Phy	निर्देशावतरण तंत्र		talus-conelake		पादमलुवा शकु झील, शैलमलुवा शकु झील
talker key	Phy.	आलाप कुञ्जी		talus creep		शैलमलुवा विसर्पण, पादमलुवा विसर्पण
talking beacon (=aural radiator)	Phy.	ध्वानिक बीकन		talus fan		पादमलुवा पक्षा, शैलमलुवा पक्षा
talking motion picture	Phy.	संवाक् चलचित्र		talus glacier		शैलमलुवा हिमनद, पादमलुवा हिमनद
talk-listen switch	Phy	शुन-बोल स्विच		talus slope		टैलम ढाल
talktriplite	Geol	टैलर ट्रिप्लाइट		talus sprung		पादमलुवा झरना, शैलमलुवा झरना
tall grass prairie	Bot.	बड़ी घास प्रेशरी		talweg	Geog	टैलवेग, घाटी रेखा
tallingite	Geol.	टैलिंगाइट		talwind	Geog.	उर्दंडाही घाटीवात, टालविंड
tall oil	Chem ,Geol	टाँल तेल		talysurf	Chem	टैलीसर्फ
tallow	H Sc	चरबी, पशु बसा		Tamandua	Zool	टैमेन्डूआ
tallow drop	Geol	गुम्बदी फलकन		tamarite	Geol	टैमेरेआइट
tallowiness		चरबीपन		Tamaricaceae	Bot	टैमेरिकेसी
tallow top		गुम्बदी शीर्ष		Tamaricales		टैमेरिकेलीज
talluk map	Geog	ताल्लुका मानचित्र		tamarind	Bot ,H Sc	दमली
tally	Geog ,Geol	1 टैली, अनुमेलक 2 मिलान		Tamarindus indica	Bot	टैमेरिन्डस इन्डिका (दमली)
tally keeper	Geog.	सूचीकर्ता		tamarisk	Geog	टैमेरिस्क, झाड़
tally lights (=cue lights)	Phy.	संकेत बत्ती		tamarite	Geol	टैमेराइट
tally mark	Chem	स्थिति चिह्न		Tamarix aphylla	Bot	टैमेरिक्स अफायला
talmi gold	Geol	टाल्मी स्वर्ण		Tamarix articulata		टैमेरिक्स आर्टीकुलेटा
talomer	Chem.	टैलोमर, गुल्फ बहुलक		tamed		साधित
talomerization (plastic)		टैलोमरीकरण, टैलोमरण, गुल्फबहुलकन		tame desert	Geog	योग महस्यत
talomucic	Chem.	टैलोम्यूसिक		tame pasture	Bot.	संवाधित चरागाह
talon	Zool.	1. नाद्वीतज 2. दंतज		Tammann method	Chem	तैमान विधि
talonolactone	Chem	टैलोनोलैक्टोन		Tammann's principle	Bot.	तैमान सिद्धान्त
talose	Chem.	टैलोस		tamper (=nuclear reactor)	Phy	न्यूट्रान परावर्तन
Talpa	Zool.	टैल्पा		tampling	Geol.	टैम्पन
Talpidae		टैल्पिडी		tamping bar		टैम्पन दंड
talus	Geog., Bot , Geol Zool.	1. पादमलुवा, टैलम, शैलमलुवा 2. घुटिकास्थि		tan	H.Sc	1. धर्म शासन कला, 2. कन्वर्ट रण
talus accumulation		शैलमलुवा संचय, पादमलुवा संचय				

Tanais		टैनैस	tangential section		स्पर्शरेखीय काट
tanaka-kitiro method	Geog.	टैनैका किटिरो विधि	tangential space		स्पर्शीय आकाश
tan bark		चर्म शोधन बल्क	tangential stress		स्पर्शरेखीय प्रतिबल
tandem	Phy.	अनुवद्ध	tangential velocity		स्पर्शरेखीय वेग
tandem absorber	Chem.	अनुक्रमी अवशोषक	tangent law	Math.	स्पर्शज्या नियम
tandem compressor		अनुक्रमिक संपीड़ित	tangent line		स्पर्श रेखा
tandem generator	Phy.	अनुवद्ध जनित्र	tangent modulus		स्पर्शीय गुणांक, स्पर्शीय मापांक
tandem operation		अनुवद्ध प्रचालन	tangent modulus theory		स्पर्शीय गुणांक सिद्धांत स्पर्शीय मापांक सिद्धांत
tandem process		अनुवद्ध प्रक्रम	tangent normal frame		स्पर्शी लमिलम्ब तंत्र
tandem system		अनुक्रमिक तंत्र, टांडेम तंत्र	tangent plane		स्पर्श तल, स्पर्श समतल
tandem transistor		अनुवद्ध ट्रांजिस्टर	tangent screw		स्पर्शज्या पेंच, टेंजेंट पेंच, सूक्ष्मगति पेंच
tang	H.Sc.	टैंग	tangent space	Math.	स्पर्शी समष्टि
tangeite	Geol.	टैंगोडाइट	tangle of vegetation	Geog.	वनसति-सम्मिश्रण
tangency	Math.	स्पर्शिता	tangoreceptivity	Zool.	स्पर्शग्राहिता
tangent	Math., Geog.	1. स्पर्शरेखा 2. स्पर्शी 3. स्पर्शज्या, टैन्जेंट	tangoreceptor	Zool.	स्पर्शग्राही
tangent galvanometer		स्पर्शज्या धारामापी, टैन्जेंट गैल्वेनोमीटर	tanguile	H.Sc.	टनजाइल
tangent hyperplane		स्पर्श ऊनकिम समतल	Tania Australis (= $\mu$ Ursae Majoris)	Astron.	टैनिया ऑस्ट्रेलिस (= $\mu$ ऊर्षि, $\mu$ अर्सी मेजॉरिस)
tangential		स्पर्शीय, स्पर्शरेखीय	Tania Borcalis (= $\lambda$ Ursae Majoris)		टैनिया बोरिफ्लिस (= $\lambda$ ऊर्षि, $\lambda$ अर्सी मेजॉरिस)
tangential accelera- tion		स्पर्शरेखीय त्वरण	tank	Geog.,H.Sc.	तानाक, टैंक
tangential component		स्पर्शरेखीय घटक	tank bottoms	Chem.	टैंकी ढक्कण
tangential component of stress		स्पर्शरेखीय प्रतिबल घटक	tank circuit		टैंकी परिपथ
tangential cone		स्पर्शी शंकु	tank-drive system	Geog.	टैंक चालित तंत्र
tangential coordinate		स्पर्शरेखीय निर्देशांक	tank embankment		ताल तटबंध
tangential discon- tinuity		स्पर्शरेखीय असांतत्य	tanker routing problems	Math.	टैंकर मार्ग समस्या
tangential distortion		स्पर्शरेखीय विरूपण	tank forming	Math.	कुंडिका रचना
tangential equation		स्पर्शरेखीय समीकरण	tank furnace		तटाक भापु, टैंकी भट्टी
tangential flow		स्पर्शरेखीय प्रवाह	tank glass		तटाक कांच, टैंकी कांच
tangential force		स्पर्शरेखीय बल	tank inductance		टैंकी प्रेरकत्व
tangential inter- polation		स्पर्शीय अन्तवचन	tank reactor		टैंकी रिएक्टर
tangential manifold	Math.	स्पर्शीय प्रसमाष्टि	tannage	Chem.	1. चर्म संस्करण 2. टैननडा
tangential polar form		स्पर्शीय ध्रुवी रूप			
tangential rays		स्पर्शतलीय किरणें			

Tanuidacea	Zool	टेनेइडेसिया	tap-aspirator		टोटी वृषिज
tanned elk	Geog	शोधित एल्क (चर्म)	tap bar		टोटी शलाका
tanners wool	Chem	सुचित ऊर्ण, चर्म सस्कारी ऊन	tap density		घपकी घनत्व
tannery	H Sc . Chem.	चर्मसस्कार शाला, चर्म परिष्कार शाला, चर्मसस्करणी	tape		फीता
tannic acid	Chem	टैनिक अम्ल, टैनिक ऐमिड	tape cartridge	Phy.	टैप कारतूम
tanniferous	Bot	टैनिनधारी	tape check		टैप चेक
tannin	H Sc., Bot . Geog	टैनिन	tape-controlled carriage		फीता नियन्त्रित वाहन
tannin extract		टैनिन निष्कर्ष	tape correction		फीता सञ्चोधन
tanning	Chem	चर्म सस्करण, चर्म शोधन, चमड़ा कमाना	tape deck		टैप डेक
tanning agent		चर्म सस्कारक	tape drive (= tape transport)		टैप बहन
tanning industry		चर्मशोधन उद्योग	tape gap		फीता रिक्ति
tannin-mordanted cotton	Chem.	टैनिन रंगवधित कपास	tape guides		टैप पथक
tannoform	Chem.	टैनोफॉर्म	tape lace		टैप लेस, फीता लेम
tantalate	Chem	टैन्टैलेट	tape-limited		टैप-सीमित
tantalic acid		टैन्टैलिक अम्ल	tape machine		टैप मशीन
tantalite	Geol.	टैन्टैलाइट	tape mark		फीता चिह्न
tantalum	Chem , Geog	टैन्टैलम	tape-measure		फीता-माप
tantalum carrier		टैन्टैलम वाहक	tape punch *		टैप छिद्रित
tantalus cup	Phy	वामुदेव प्याला	taper	H Sc ,Phy	त्रभसूत्रमण, टेपर
tantative structure	Chem	परिष्णत्तिक संरचना	tape reader		टैप पठित
T-antenna	Phy.	T-एन्टेना	tape recorder		टैप रेकार्डर, फीता अभिनेचित्र
tantiles	Math.	n-तमक	tape recording		फीता अभिनेधन
tantiron	Chem.	टैन्टैरायन	tapered section	Phy.	शुद्धीय भाग, टेपर भाग
Taoism	Geog	ताओवाद	tapered transmission line	Phy	टेपरित संचरण लाइन
tap	Chem , Phy.	1 (n.) टोटी, (vb) टोटीयन, अज निष्कासन, अपसादन, टैपन 2. घपकी देना, छटछटाना	tapered waveguide		टेपरित तरंग पथक
tapa	Geog ,H Sc.	टापा, छानवस्त्र	tape relay		टैप रिले
tapacloth		छानवस्त्र	tape reservoir		फीता मन्ध
			tapering	Phy., Geol	(adj) शृङ्खार, गावडुम (n.) त्रभसूत्रमण, टेपरित
			tapering distribution		शुद्धीय वितरण, टेपर वितरण
			taper sectioning	Chem.	शुद्ध परिच्छेदन
			tape signal	Math	फीता संकेत
			tapestry	Chem.	टेरिस्ट्री, चित्र यन्त्रिका



tapestry carpet		टेपिस्ट्री कालीन	tapioca starch		टैपियोका स्टार्च
tapestry cloth		टेपिस्ट्री वस्त्र	tapiolite	Chem.	टैपिओलाइट
tapestry forest		टेपिस्ट्री वन	tapir	Zool.	टैपीर
tapestry printing bright yellow		चित्र यवनिका मूद्रण दीप्त पीत, टेपिस्ट्री प्रिंटिंग ब्राइट यलो	Tapiridae	Zool.	टैपीरिडी
tapestry wool		टैपिस्ट्री ऊन	Tapiro	Geog.	टापीरो (जनजाति)
tapetic	Zool.	कुयज	Tapiroidea		टैपीरोइडिया
tapetic communities		कुयज समुदाय	Tapirus	Zool.	टैपीरस
tapetic form		कुयज रूप	Tapirus americanus		टैपीरस अमेरिकैनुस
tape transmitter		टेप प्रेषित	Tapirus indicus		टैपीरस इन्डिकस
tape transport		टेप वहन	tappet cover	Geog.	चूड़ीदार ढक्कन, चूड़ीदार आवरण
tapetum	Bot., Zool.	टेपीटम	tapping	Geog., Phy.	थपकना, खटखटाना, अंश निष्कासन
tapetum lucidum		टेपीटम ल्यूसिडम	tapping clay	Chem.	निकास-छिद्र मृदा
tape verifier		टेप सत्यापक	tapping furnace	Chem.	अपसारण भट्टी
tape worm	Zool.	फीताकृमि, टेपवर्म	tapping hole	Phy.	निकास छिद्र
tape wound core		फीता वेप्टित क्रोड	tapping key	Phy.	खट-कुंजी, दाव-कुंजी
tap funnel	Chem.	निष्कासन कीप, टोटीदार कीप	tapping pin	Chem.	निकास छिद्र पिन
taphocoenose	Geol.	टैफोसीनोज	tapping point	Phy.	अंशनिष्कासी बिन्दु
tap hole	Chem.	निकास छिद्र	tapping root	Geog.	मूसला जड़
taphonomic	Geol.	जैवसादिकीय	tappings	Phy.	निकास, निष्कास
taphonomy	Geol.	जैवसादिकी	tap root	Bot.	मूसला जड़
Taphozous melanopogon	Zool.	टैफोजोउस मेलैनोपोगोन (चमगादड़)	tap switch		अंश निष्कासन स्विच, टोटी स्विच
Taphridium	Bot.	टैफ्रिडियम	tar		डामर, बलकतरा, तारकोल, टार
Taphrina	Bot.	टैफ्राइना	Taraktogenos kurzii	Bot.	टैरेक्टोजीनास कुर्ज़ी
Taphrina deformans		टैफ्राइना डिफॉर्मैन्स	tarantula	Zool.	टैरेन्टुला
Taphrinales		टैफ्राइनेलीज	tarantula wasp		टैरेन्टुला वर
taphrium	Bot.	वाईसमुदाय, टैफ्रिडियम	taraxacum	Chem.	टैरक्सकम
taphrogenesis	Geol.	घ्रंशजनन	taraxanthin	Zool.	टैराखैन्थिन
taphrogeny	Geol.	घ्रंशजनन	Tarazed (=γ Aquilae)	Astron.	टाराजेड (=γ ऐक्विली)
taphrogeosyncline	Geol.	परिघ्रंशोभूयभिनति	tarconine	Chem.	टार्कोनीन
taphrophilous	Bot.	वाईराफी	Tardigrada	Zool.	टार्डिग्रेडा
taping	Geog.	फीतामापन	tardigrade	Zool.	मन्दचारी
tapioca	Bot., H.Sc.	टैपियोका	tare	Phy.	1. आधेय धार 2. आधेयतुलन, टैरे
tapioca powder		टैपियोका चूर्ण	tar extractor	Chem.	तारकोल निष्कर्षक

target	<i>Geog., Phy., Chem.</i>	लक्ष्य	taring device	<i>Chem.</i>	आघेय तुलन युक्ति
target acquisition		लक्ष्य अर्जन	tariric acid	<i>Chem.</i>	टैरिरिक अम्ल
target analysis		लक्ष्य विश्लेषण	tar-macadam	<i>Geog.</i>	तारकोली रोड़ी
target board		लक्ष्य चिह्नक	tarmac road	<i>Geog.</i>	तरमक सड़क
target capacitance		लक्ष्य क्षेत्त घारिता (TV)	tarmarind	<i>H.Sc.</i>	इमली
target chart		लक्ष्य चाट	tarn	<i>Geog., Geol.</i>	टार्न, गिरिताल
target complex		लक्ष्य सनिकाय	tarnac	<i>Chem.</i>	टार्नक
target cut-off voltage		लक्ष्य अटक वोल्तता	tarnish	<i>H.Sc., Chem., Geol.</i>	बदरग होना, वर्ण विवृति होना, मलिन होना
target discrimination		लक्ष्य द्विवेचन	tarnished		मलिन
target drone		लक्ष्य अक्ष्याम यान	taro	<i>Geog., H.Sc.</i>	टारो, कबालू
target exit port		लक्ष्य निर्गत द्वार	tarol	<i>Geol.</i>	टैरोल
target fade		लक्ष्य सकेत अवतीव्रण	tar paper	<i>Chem.</i>	कोलतारी कागज
target identification		लक्ष्य परख, लक्ष्य अभिनिर्धारण	tarpaulin	<i>H.Sc., Geog.</i>	तिरपाल
target material		लक्ष्य पदार्थ	tarragon	<i>H.Sc.</i>	प्रनाग
target noise		लक्ष्य शब्द	tatry liquid	<i>Chem.</i>	कोलतारी द्रव
target nucleus		लक्ष्य नाभिक, लक्ष्य न्युक्लिअम	tarsal	<i>Zool., H.Sc.</i>	गुल्फ
target profile area		लक्ष्य प्रोफाइल क्षेत्र	tarsale (= tarsal bone)	<i>Zool.</i>	गुल्फास्थि
target-range calibration		लक्ष्य दूरी अनुसन्धान	tarsal podomere		गुल्फ पादघट
target rod	<i>Geog.</i>	टार्गेट दंड	tarsal spur		गुल्फ बट
target scintillation		लक्ष्य प्रस्फुरण	Tarsiiformes	<i>Zool.</i>	टार्सिफॉर्मिज
target seeker		लक्ष्य खोजी, अभिलक्ष्यक	Tarsioides		टार्सिफॉइडिया
target signal		टार्गेट संकेत	Tarsipes	<i>Zool.</i>	टार्सिपीज
target spot		लक्ष्य स्थल (रोग)	Tarsius	<i>Zool.</i>	टार्सिपस
target staff		टार्गेट दण्ड	tarso-metatarsus	<i>Zool.</i>	गुल्फ-प्रपदिना
target theory		लक्ष्य वाद	tar spot (disease)		हामरी चकता
target timlog	<i>Phy.</i>	रेडारी पवन वेग मापन	tar still	<i>Chem.</i>	तारकोल बासोज
target voltage		लक्ष्य वोल्तता	tarsus	<i>Zool.</i>	गुल्फ, टार्सस
target vulnerability		लक्ष्य भेद्यता	tart	<i>H.Sc.</i>	टार्ट
target weight		लक्ष्य भार	tartar emetic	<i>Chem.</i>	टार्टर एमेटिक
Targionlacrae	<i>Bot.</i>	टार्जियोनिएसी	tartaric acid	<i>H.Sc.</i>	टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक ऐसिड
Targionla		टार्जियोनिया	tartine	<i>H.Sc.</i>	टार्टिन
tariff	<i>Geog.</i>	टैरिफ, प्रगुल्क	tartlet	<i>H.Sc.</i>	टार्टलेट
tariff policy		टैरिफ नीति	tartrate	<i>Chem.</i>	टार्ट्रेट
tariff wall	<i>Geog.</i>	प्रगुल्क सीमा	tartrazine	<i>Chem.</i>	टार्ट्रेजिन
			tasi	<i>Phy.</i>	टैसि

Tasmanian aboriginal	<i>Geog.</i>	तसमानी आदिवासी	taut rope	<i>Geog.</i>	खींची रस्ती
Tasmanian family		तसमानी परिवार	tavern	<i>Geog.,H.Sc.</i>	मद्यशाला
Tasmanian shelter		तसमानी आश्रयस्थल	Tavistock transit theodolite	<i>Geog.</i>	टैविस्टॉक ट्रांजिट थियोडोलाइट
Tasmanian windbreak		तसमानी वातरोध	tawny	<i>Bot.,Geog.</i>	कपिश, वज्रपीताम्भ
tasmanite	<i>Chem.</i>	टैस्मानाइट	tawny eagle	<i>Zool.</i>	कपिश उकाव, कपिश महाभयेन
tassel	<i>Zool. H.Sc.</i>	वल्सर फुंदना	Taxales		टैक्सेलीज
taste	<i>Zool.,Bot.</i>	स्वाद	taxation	<i>H.Sc.</i>	कराधान, करारोपण
taste bud		स्वाद-कलिका	tax delinquency	<i>Geog.</i>	कर अपचार
taste cell		स्वाद-कोशिका	tax-delinquent holding		कर-अपचारी जोत
taste organ		स्वादेन्द्रिय	taxiformis	<i>Bot.</i>	टैक्ससरूप
taste pore		स्वाद-छिद्र •	taxineous	<i>Bot.</i>	टैक्सिनीय
tatter-leaf	<i>Bot.</i>	जीर्ण पर्ण	taxinomie (Taxonomy)	<i>Bot.</i>	वर्गिकी
tauaetine	<i>Geol.</i>	एकोनचतुररीय	taxis	<i>Biol. *</i>	अनुचलन
Tauberian theorem	<i>Math.</i>	टाउबर प्रमेय	Taxiway	<i>Geog.</i>	टैक्सीवे
Tauber process		टाउबर प्रक्रम	Taxocrinus		टैक्सोक्रिनस
Tauber's-theorem		टाउबर प्रमेय	Taxodineae		टैक्सोडिनी
tauchhartung	<i>Chem.</i>	टाउशेर्टुंग	taxodioid pit	<i>Bot.</i>	टैक्सोडियमी गतं
tau meson	<i>Phy.</i>	टाउ मेसान, ट मेसान	Taxodium	<i>Bot.</i>	टैक्सोडियम
taung	<i>Geog.</i>	टाँग (पर्वत)	<i>Taxodium mucronatum</i>		टैग्जोडिडम म्युक्रोनेटम
taungya, (toungya)	<i>Geog.</i>	टाँग्या	taxodont	<i>Geol.</i>	वहूदंती, टैक्सोडॉन्ट
taupe (tp)	<i>Zool.</i>	नि ीत (निपी)	Taxodonta	<i>Geol.</i>	टैक्सोडॉन्टा
taurine	<i>Zool.</i>	टौरिन	taxodont dental area	<i>Geol.</i>	टैक्सोडॉन्ट दंतविन्यास
taurocholic acid	<i>Chem.</i>	टोरोकोलिक अम्ल	taxogenesis	<i>Bot.</i>	टैक्सोनोत्पत्ति
*Taurus	<i>Astron.</i>	वृष, टारस	taxon	<i>Zool.</i>	टैक्सोन, वर्गक
Tau-sagyz	<i>Chem.</i>	टाउसागीज	taxonomic affinity	<i>Geog.</i>	वर्गीकरणात्मक बन्धुता
tautness	<i>Chem.</i>	तन्यता	taxonomic analysis		वर्गिकीय विश्लेषण
tautochronous	<i>Bot.</i>	एककालिक	taxonomic bases		वर्गिकी आधार
tautological	<i>Math.</i>	पुनरावृत्ति-मात्र	taxonomic bipolarity		वर्गीकरणात्मक द्विध्रुवीयता
tautology	<i>Zool.</i>	पुनरुक्ति	taxonomic	<i>Bot.,Geol. Zool.</i>	वर्गिकीय-वर्गिकी
tautomer	<i>Chem.</i>	टॉटोमर, चलावयव	taxonomic category		वर्गिकी संवर्ग
tautomeric monoenolic form		टॉटोमरी एकइनोली रूप, चलावयवी एकइनोली रूप	taxonomic composition		वर्गिकी संघटन
tautomeride		चलावयव, टॉटोमराइड			
tautomerism		चलावयवता			
tautonym	<i>Zool.</i>	पुनर्नाम (पुनर्पदानाम)			
tautozoal face	<i>Geol.</i>	एककटिबंधीय फलक			

taxonomic distribution		वर्गिको वितरण	teapot	H.Sc.	चायदान्नी
taxonomic group		वर्गिकोय समूह	tear	Bot, Chem	1 विदारण (दोष) 2 रेजिन बिन्दु
taxonomic history		वर्गिकी इतिहास	tear-burst relation	Chem.	विदार विस्फोट सन्नध
taxonomic literature		वर्गिकीय वाङ्मय	teardrop shaped	Bot	प्रतिभालाकार
taxonomic principles		वर्गिकी नियम	tear fault		विदारण घ्रम
taxonomic species		वर्गिकी जाति	tearing resistance		विदार प्रतिरोध
taxonomic system		वर्गिकीय प्रणाली	tear length test		विदार लम्बाई तिक्रम
taxonomic treatment		वर्गिकीय विवेचन	tear ratio		विदार अनुपात
taxonomic unit		वर्गिकीय एकक	tear resistance		विदार प्रतिरोध
taxonomist		वर्गिकीविज्ञ	tear test		विदारण निकष
taxonomy		वर्गिकी, वर्गीकरण विज्ञान	tear tester		विदार निकषित्र
tax payer	H.Sc.	कर भुगतान कर्ता	teart pasture	Geog.	टीयर्ट चरागाह
tax-transfer equations	Math.	करांतरण समीकरण	teasel nematode	Bot	टीजल सूतहृमि
*Taygeta (= e Tauri)	Astron	टेइजिटा (= e वृष, e टॉराई)	teaser	Chem	टीजर
Taylor instability	Math.	टेलर अस्थायित्व	tea spoon		चाय सम्मथ
Taylor's furnace	Chem.	टेलर भट्टी, टेलर प्राष्ट	teats	Zool.	चूचुक
Taylor's process		टेलर प्रक्रम	tea yellow disease		चाय का पीत रोग
Taylor's theorem		टेलर प्रमेय	techacetate	Chem.	टेक्नीटेट
tazettine	Chem.	टाजेटीन	technetium	Chem	टेक्नीशियम
Tchebychev metric		शेवोशेव दूरीक	technical		तक्नीकी, प्राविधिक
tcheremkhite	Geol	शेरेमखाइट	technical constant		प्राविधिक स्थिरांक
tcid (tissue culture infective dose)	Bot.	ऊससमा (ऊतक सवधे मकामक मात्रा)	technical direction		तक्नीकी निदेशन
t-distribution	Math	टी-बटन	technical director		तक्नीकी निदेशक
tea	H.Sc., Geog.	चाय	technical efficiency		तक्नीकी दक्षता
tea culture		चाय सवधेन	technical equation		प्राविधिक समीकरण
tea farming		चाय खेती	technical iron	Chem.	औद्योगिक लोह
tea growing area		चाय उत्पादी क्षेत्र	technical neon		औद्योगिक नियॉन
teak	Geog.	सागीन, टीक	technical personnel		तक्नीकी कर्मचारी
teak forest		टीक वन	technical purpose		तक्नीकी उद्देश्य
teal	Zool	टील, ह्मक	technical scale		व्यापारिक परिमाण
Tealia	Zool.	टिएलिया	technical skill		तक्नीकी कुशलता
Tealia erassicornis		टिएलिया कॅसिकॉनिस	technical treatment		तक्नीकी विवेचन
teallite	Geol.	टीलारट	technichrome process	Chem	टेक्नीक्रोम प्रक्रम
			technician		तक्नीकरज, प्राविधिकज्ञ

technique		तकनीक, प्रविधि -	tectonic lake		विवर्तनिक झील
technological coefficients		औद्योगिकीय गुणांक	tectonic melange		विवर्तनिक संमिश्र
technological development		शिल्प विज्ञानी विकास	tectonic moraine		विवर्तनिक मोरेन
technological relation		औद्योगिकीय संबंध	tectonics	Geol.	विवर्तनिकी
technologist		शिल्प वैज्ञानिक	tectonic scarp		विवर्तनिक कगार
technology		शिल्प विज्ञान	tectonic structure		विवर्तनिक संरचना
Teck-Hughes mill	Geol.	टेक ह्यूजेज मिल	tectonic style		विवर्तनिक शैली
Teclu burner	Ghem.	टैक्लू ज्वालक, टैक्लू बर्नर	tectonic termination		विवर्तनिक अंत
tecnetron	Phy.	टैक्नेट्रॉन	tectonic transport		विवर्तनिक परिवहन
tectate	Bot.	सततच्छदी	teatonic valley		विवर्तनिक घाटी
tectibranch	Zool.	छदिक्लोम	tectonism	Geol.	विवर्तनिकता
Tectibranchia	Zool.	टेक्टोब्रैकिया	tectonite	Geol.	टेक्टोनाइट
tectin	Zool.	टेक्टिन	tectonized region	Geol.	विवर्तनित प्रदेश
tectinous	Zool.	टेक्टिनोय	tectonosphere	Geol.	विवर्तन मंडल
tectite (tektite)	Chem.	टेक्टटाइट	tectoparatype	Bot.	अंशापर प्ररूप
tecto-cerebellar tract	Zool.	अनुमस्तिष्क छदि क्षेत्र	tectorial membrane	Zool.,Phy.	छादक झिल्ली, छदीय कला
tectofacies	Geol.	विवर्तनी संलक्षणी	tectorium	Geol.	टेक्टोरियम
tectogene	Geog., Geol.	विवर्तनजन	tectosequent	Geog.	विवर्तन अनुवर्ती
tectogenesis	Geol.	विवर्तनजनन	tectotype	Bot.	अंशाप्ररूप
tectomorphic	Geol.	भेगमारूपांतरी	tectrices (wing covert)	Zool.	पसावरक
Tectona grandis	Bot.	टेक्टोना ग्रैन्डिस (सागीन)	tectum	Geol.	टेक्टम
tectonic	Geol., Geog.	विवर्तनिक	tectum opticum	Zool.	दृक्छंद
tectonic axis		विवर्तनिक अक्ष	teeming	Chem.	अवपातन
tectonic breccia		विवर्तनिक संकोपाश्म	teeming lap	Chem.	अवपात बलि
tectonic cause		विवर्तनिक कारण	teepol detergent	Chem.	टीपॉल अपमार्जक, टीपॉल डिटर्जेंट
tectonic conglomerate		विवर्तनिक संगुटिकाश्म	teeter	Geol.	टीटर
tectonic culmination		विवर्तनिक चरमावस्था	teeth	Zool., Geol.	दंत, दांत
tectonic denudation		विवर्तनिक अनाच्छादन	teeth apparatus	Bot.	कपाटीय उपकरण
tectonic depression		विवर्तनिक गर्त	teflon	Chem., H.Sc.	टेपलॉन
tectonic earthquake		विवर्तनिक भूकम्प	taflon stopcock		टेपलॉन रोधनी
tectonic fault graben		विवर्तनिक भ्रंश प्रावेन	tegal	Geog.	टेगल
tectonic feature		विवर्तनिक लक्षण	tegelen	Geog.	टेगेलिन
tectonic force		विवर्तनिक बल	tegillate	Bot.	टेजिलमी
tectonic form		विवर्तनिक रूप	tegillum	Bot.	टेजिलम
tectonic inclusion		विवर्तनिक अंतर्वेश	tegmén	Biol., Geol.	टेगमेन, प्रवार

tegmentum	Zool.	आच्छद	teleconference	Phy.	टेलि सम्मेलन
Tegmine (=Ξ Cancri)	Math.	टैग्मिनी (Ξ कर्क, Ξ कर्कई)	teleconnection	Geog.	दूरसंयोजन
Tegula	Zool	टेगुला	telecontrol	Phy.	दूरनियंत्रण
tegula elecentric system		दूर केन्द्रिक तंत्र	teledendria	Zool.	दृमान्त
tegulicolous	Bot.	घपरंतलवासी, टाइलवासी	telemagmatic deposit	Geol.	टेलिफिल्म, फ़िल्म पिकअप
tegment	Bot.	अध्यावरण	telemeter	Geog.,Phy.	दूरमापी
tegmental cuticular gland		अध्यावरक उपत्वचीय ग्रंथि	telemetering	Phy,Geol	दूरमापन
tegmentary		अध्यावरणीय,	telemetering pick up		दूरमापन पिक-अप
tegmentary nerve		अध्यावरक तंत्रिका	telemetering premodulation		दूरमापन पूर्वमॉडुलन
teichoic acid	Chem.	टाइकोइक अम्ल	telemetering stations		दूरमापन केन्द्र
teilzone	Geol	टाइलज़ोन	telemetry	Phy	दूरमिति
tektite	Geol,Geog	टेक्टाइट	telemicroscope	Phy.	दूरसूक्ष्मदर्शी
tela	Bot. H.Sc.	1. मौलिकोतक 2. टेला	telencephalon	Zool.	उन्मस्तिष्क, टेलेंसेफैलॉन
tela chorioidea	Zool.	रक्तक स्तर	telenget	Geog	टेलेंगेट (प्रजाति)
Telain	Bot.	टिलेन	teleological	Zool.	उद्देश्यवादी
telamon	Bot.	अघोक्दिका, टेलामोन	teleology	Zool	टेलियोलॉजी, उद्देश्यवाद
tela subcutanea	Zool.	अवत्वचीय कला	teleoptile	Zool	प्रोइपिन्थ
telautograph	Phy.	सुदूर स्वन लेखी	teleost	Zool	टेलियोस्ट
tele	Geog	टेलि	Teleostel	Zool.	टेलियोस्टिडआई
Telea	Zool.	टीलिया	teleost otolith		टेलियोस्ट बर्णागम
teleaform larva		टीलियारूप डिम्बक	telephanto	Phy.	टेलीफेन्टो
teleammeter	Phy.	टेलि एम्मापी	telephone	Phy.,Geog.	टेलीफोन
telebrineller	Chem.	त्रिनेल बठोरतामापी, टेलिब्रिनलर	telephone exchange		टेलीफोन-बेन्ड, टेलीफोन- एक्सचेंज
telecamera	Phy.	टेलिकैमरा	telephone line		टेलीफोन लाइन
telecasting	Phy.,Geog.	टेलिविज़न प्रसारण	telephone receiver		टेलीफोन अविग्राही
telecasting technique		टेलिविज़न प्रसारण तकनीक	telephone relay		टेलीफोन रिले
telechemic	Geol.	बाद्यपटिन	telephone ringer		टेलीफोन रणक
telechrome	Phy.	टेलिच्रोम			
telecine (=television cinema)	Phy.	दूरदर्शन चलचित्र			
telecine projector		दूर (दर्शन) चलचित्र प्रक्षेपी			
telecommunication	Geog.,Phy.	दूरसंचार			

telephone transmitter		टेलीफोन प्रेषित्र	teleutosorus	Bot.	टेल्यूटोसोरस, टेल्यूटो- बीजाणुधानी पुंज
telephony		टेलीफोनी, टेलीफोन तंत्र	teleutospore		टेल्यूटोबीजाणु
telephoto attachment	Geog.	दूरचित्रक संलग्नी, टेलीफोटो अटैचमेंट	televiwer	Phy.	टेलिविजन दर्शक
telephotography	Geog.	दूरचित्र फोटोग्राफी	televise	Phy.	दूरदर्शित करना, टेलिविजित करना
telephoto lens		दूरचित्रक लेन्स	televised	Geog.	दूरदर्शनी प्रसारित, टेलीविजित
teleprinter	Phy.	तारलेखी, टेलीप्रिन्टर	televised scene		टेलिविजित दृश्य, रेडियोवीजित दृश्य,
teleran (=television radar navigation)	Phy.	टेलीविजन रेडार संचालन, टेलीरेन	television	Phy.,H.Sc.	दूरदर्शन, टेलीविजन
telescope	Phy.,Geog., Geol.	दूरबीन, दूरदर्शक, टेलीस्कोप	television band		दूरदर्शन प्रसारण बैंड
telescope axis clamp		दूरबीन अक्ष क्लैम्प	television broadcas- ting		टेलीविजन प्रसारण
telescoped deposit	Geol.	अंतविद्ध निक्षेप	television broadcast station		दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र
telescope focussing ring		दूरबीन फोकसन वलय	television camera		दूरदर्शन कैमरा
telescope-level tube		दूरबीन-स्तर नली, दूरबीन स्तर ट्यूब	television car (= shooting brake)		दूरदर्शन वाहन
telescopic alidade		दूरदर्शीय ऐलिडेड	television channel		दूरदर्शन प्रणाल, टेलिविजन चैनल
telescopic eye	Zool.	अन्तःसर्पी नेत्र	television cinema (= telecine)		दूरदर्शन चलचित्र
telescopic hand level		दूरदर्शक हैंड लेवल	television field		टेलीविजन क्षेत्र
telescopic series		अन्तःसर्पी श्रेणी	television radar navigation (=teleran)		टेलीविजन रेडार संचालन, टेलिरेन
telescopic system		दूरबीन तंत्र	television receiver (=television set)		दूरदर्शन अभिग्राही, टेलिविजन सेट टेलीविजन अभिग्राही
teleseism	Geog.,Geol.	दूरभूकंप	television reconnassance		टेलिविजन टोह
telesitemeter	Phy.	टेलीसाइटमीटर	television repeat (=back guidance)		दूरदर्शन पुनरादेश
telespectroscope	Phy.	दूरबीनी स्पेक्ट्रमदर्शी, टेलीस्पेक्ट्रोस्कोप	television signal (= vision signal = visual signal)		दूरदर्शन संकेत, टेलिविजन सिग्नल
telesynd	Phy.	टेलिसिंड (स्थिति चाल पुल्यकाली दूरमापी)	television station link		दूरदर्शन शृंखला
teletherapy	Chem.	दूरचिकित्सा	television studio		टेलिविजन स्टूडियो
telethermal	Phy.,Geol.	दूरतापीय	television transmitter		दूरदर्शन प्रेषित्र
telethermal deposit		दूरतापीय निक्षेप	television wave form		दूरदर्शन तरंगरूप
telethermometer	Phy.	दूरतापमापी	televoltmeter	Phy.	टेलीवोल्टमापी
teletype	Phy.,Geol.	टेलिटाइप, दूरटकन			
teletype reperforators		टेलिटाइप रिपरफोरेटर, दूरटाइप प्रतिरन्ध्र			
teletype transmitter		दूरटाइप प्रेषित्र, टेलिटाइप ट्रांसमीटर			
teletype writer		टेलीटाइप मशीन			

telewattmeter	Phy.	टेलीवाटमापी	telogonia	Bot	अन्त्यजनद
teliospore	Bot.	टेल्युटोबीजाणु	teloidine	Chem.	टेनॉइडीन
Teliosporeae		टीनिओस्पोरी	telolecithal	Zool., H.Sc.	गोलाघंषीतकी, टेलोलेसीथल
telium	Bot.	टीलियम	telolecithal ovum		गोलाघंषीतकी अंडाणु
teller	Geog.	गणक	telolecithality	Zool	गोलाघंषीतवता
Teller Radlich product rule	Chem.	टेलर रेडलिक गुणन नियम	telome	Bot	टीलोम
telloy	Chem.	टैलाय, क्षणित टैल्यूरियम	telomer	Chem	अन्त्यमक, टैलोमर
tell-tale pointer	Geog.	सचेतक	telomere	Zool	अनघड
tell tales	Geol.	सूटिमूचक	telomerization	Chem.	अन्त्यमकन, टैलोमरण
tellurate	Chem.	टैल्युरेट	telomic concept	Bot	टीलोम संकल्पना
tellurato-	Chem	टैल्युरेटो-	telophase	Zool., H.Sc.	अत्यावस्था, टेलोफेज
telluric acid	Chem.	टैल्युरेटो अम्ल, टैल्युरिक एसिड	telophragma	Zool.	अन्त्यवृत्ति
telluric bismuth	Chem., Geol.	टैल्यूरियमी बिस्मथ	telophyll	Bot.	टीनोफिल
telluric current	Geol., Phy	पार्थिव धारा	telopodite	Zool.	अन्त्यपादांश
telluric lines		पार्थिव रेखायें	telorasin	H.Sc.	टेलोर आसिन
telluride	Chem.	टैल्युराइड	telorhabdions	Bot.	अन्त्यओष्ठगुहा भित्ति
telluriferous	Geol.	टैल्यूरियमधारी	Telosporidia	Zool.	टीलोस्पोरीडिआ
tellurite	Chem., Geol.	टैल्युराइट	telostom	Bot	अन्त्यमुख
tellurium	Chem	टैल्यूरियम	telotaxis	Bot.	प्रत्यनुचलन
tellurium glance	Geol.	नेगियामाइड	Telotremata	Geol.	टैलीट्रिमेटा
tellurnickel	Geol	टैल्यूरिनिकेल	telotrichous	Zool.	अन्त्यशूक
telluro	Chem	टैल्युरो	telotroch	Zool	गुदपूर्वगुच्छ
tellurometer	Geol	टेलुरोमीटर	telotrophic ovariole	Zool	शोयंशोषी अंडाणयक
telluropentathionic acid		टैल्युरोपेन्टाथायोनिक अम्ल	telson	Zool., Geol.	पुच्छघड, टेलसन
tellurous acid	Chem	टैल्युरम अम्ल, टैल्युरम एसिड	tembo	H.Sc.	टेम्बो
telmathlum	Bot.	भाइंशाइल समुदाय	TE <sub>m,n</sub> mode	Phy.	TE <sub>m,n</sub> विधा
telmicolous	Bot.	अधार कच्छवासी, अलवण कच्छवासी	Temnocephala	Zool	टेम्नोसेफला
teloblast	Zool.	अंतकोरक	Temnocephala minor		टेम्नोसेफला माइनर
teloblastic band		अंतकोरकी पट्ट	Temnocephalida		टेम्नोसेफलिडा
teloblastic mesoderm		अंतकोरकी मध्यजनतर	Temnocephalidae		टेम्नोसेफैलिडी
telocentric	Bot., Zool.	अन्तकेन्द्री	Temnopleuridae	Zool	टेम्नोप्लूरिडी
telogen	Chem.	अन्त्यजन, टैलोजन	Temnopleurus torumaticus		टेम्नोप्लूरम टोरुमैटिकस
			temnospondylus	Zool.	अयुक्त शोयकीय, टेम्नोस्पॉन्डिलस
			TE <sub>m,n</sub> wave		TE <sub>m,n</sub> तरंग



temper	<i>Chem., Geol.</i>	पायन, पानी चढ़ाना, टेंपर	temperature dependence	तापाश्रय
tempera	<i>H.Sc.</i>	टेम्परा	temperature derating	ताप अवसीमनांक
temperament (of musical scale)	<i>Phy.</i>	संस्कार	temperature difference	तापांतर
temperate climate	<i>Geog., Zool.</i>	शीतोष्ण जलवायु	temperature efficiency	ताप क्षमता, ताप प्रभावन
temperate crop		शीतोष्ण फसल	temperature element	ताप संवेदक
temperate fauna		शीतोष्ण प्राणिजात	temperature function	ताप फलन
temperate forest		शीतोष्ण वन	temperature gradient	ताप प्रवणता
temperate grassland		शीतोष्ण घासस्थल	temperature indicating pigment	ताप सूचक वर्णक
temperate lake		शीतोष्ण झील	temperature jump	ताप झंप
temperate land		शीतोष्ण प्रदेश	temperature limited current	ताप सीमित धारा
temperate life zone		शीतोष्ण जीव कटिबंध	temperature logging	ताप संलेखन
temperate phage		संयत विभोजी	temperature map	तापमान मानचित्र
temperate rain-forest		शीतोष्ण वर्षावन	temperature of calibration	अंशसंशोधन तापमान
temperate-sensitive Daphnia		संयत संवेदी डैफिनिया	temperature parameter	ताप प्राचल
temperate-storm belt		शीतोष्ण झंझा-मेखला	temperature perception	ताप अवगम
temperate zone		शीतोष्ण कटिबंध	temperature programming	ताप प्रोग्रामन, ताप कार्यक्रमण
temperature	<i>Phy.</i>	ताप, तापमान, टेम्परेचर	temperature range	ताप परिसर
temperature-activated hysteresis		ताप सक्रियित शैथिल्य, ताप सक्रियित हिस्टेरिसिस	temperature recovery factor	ताप उपलब्धि गुणक
temperature anomaly		ताप असंगति	temperature response	ताप अनुक्रिया
temperature coefficient		ताप गुणांक	temperature salinity diagram	ताप लवणता आरेख
temperature coefficient of reactivity		अपक्रांतिकता ताप गुणांक, अपक्रांतिकता तापांक	temperature salinity sigma	ताप लवणता सिग्मा
temperature compensated		ताप प्रतिकारित	temperature saturation	तापीय संतृप्ति
temperature controlled crystal unit		ताप नियंत्रित क्रिस्टल एकक	temperature scale	तापक्रम
temperature correction		ताप संशोधन	temperature seiche	ताप शोश
temperature curve		ताप वक्र	temperature spike	ताप स्पाइक
temperature cycle		ताप चक्र	temperature wave	ताप तरंग
temperature cycling		ताप चक्रण	temperature zone	तापमंडल
temperature density		ताप घनत्व	temper colour	<i>Chem.</i> पायन रंग, टेम्परा रंग
			tempered glass	<i>Chem.</i> पायित काच, टेम्परी काच

tempered scale	<i>Phy.</i>	संस्कारित स्वरप्राम	temporal mean value	कालिक माध्य मान
tempered steel		पायित इस्पात	temporal relationship	कालिक सम्बन्ध
tempering oil	<i>Chem., Geol.</i>	टेम्परी तेल	temporal shield	शब्द विशिष्टक
temperite	<i>Chem.</i>	टेम्पराइट	temporal summation	कालिक सम्मेलन
temper of leather	<i>Chem.</i>	चर्मशील, चर्म टेम्पर	temporal transgression	कालिक अतिक्रमण
temper stressing		पायनी प्रतिबलन	temporal vacuity	शब्द रिक्ति
tempest	<i>Geog.</i>	तूफान, झमा	temporal variable	कालिक चर
tempestuous	<i>Geog.</i>	झमावात, प्रचण्ड	temporal vein	शब्द शिरा
tempilac	<i>Chem.</i>	टेम्पोलेक	temporarily with- drawal of monsoon	<i>Geog.</i> मानसून अस्थायी निवर्तन
tempil pellet	<i>Chem.</i>	तापदशी गुटिका	temporary	अल्पकालिक, अस्थायी, अल्पस्थायी
tempil stick		तापदशी यष्टि	temporary bench- mark	अस्थायी तन-चिह्न
template	<i>Geog.</i> <i>Geol., Chem.</i>	फर्मा, टेम्पलेट टेम्पलेट, रूपदा	temporary grass	अस्थायी घास
template pin		टेम्पलेट पिन	temporary hardness	अस्थायी कठोरता
template stand		टेम्पलेट स्टैंड	temporary house	अस्थायी गृह
temple	<i>H Sc.</i>	टेम्पल	temporary hut	अस्थायी कुटी, अस्थायी शौचशाला
temple marks		टेम्पल चिह्न	temporary parasite	अस्थायी परजीवी
tempo	<i>Phy.</i>	लय	temporary settlement	अस्थायी बस्ती
tempo brazing	<i>Chem.</i>	टेम्पो ब्रेजिंग	temporary solfatara	अस्थायी गैसमोची ज्वानामुखी
temporal	<i>Math., Geol.</i> <i>Zool.</i>	कालिक 1. शब्द 2. कालगत	temporary star	अल्पकालिक तारा
temporal arcade		शब्द कमान	temporary sterility	अस्थायी बन्धुयता
temporal artery		शब्द धमनी	temporo-masseteric muscle	<i>Zool.</i> शब्द-चर्वणी पेशी
temporal component		कालिक घटक	TEM Wave	<i>Phy.</i> TEM तरंग
temporal coordinates		कालिक निर्देशांक	tenacious	<i>H Sc.</i> समिष्ट
temporal crest		शब्द शिखर	tenacious clay	<i>Geol.</i> दृढ़-मृत्तिका
temporal distribution		कालगत वितरण	tenacity	<i>Geol.</i> समिष्टता
temporale		टेम्पोरेल (कालिक वात)	tenaculum	<i>Bot.</i> सम्बन्धक
temporal fossa	<i>Zool.</i>	शब्दास्थि खात	tenant farmer	<i>Geog.</i> कालकृषी
temporal gland		शब्द ग्रन्थि	tenasco	<i>H.Sc.</i> टेनास्को
temporal interval		कालिक अन्तराल	ten-channel recorder	<i>Phy.</i> दस चैनल अभिलेखी
temporalis	<i>Zool.</i>	शब्दपेशी, टेम्पोरेलिस	tend (to)	<i>Math.</i> (को बोर) प्रवृत्त होना
temporal lobe		शब्द पालि	tendel	<i>H.Sc.</i> टेन्डेल
temporarily homogeneous process		कालिक एकसमान प्रक्रम	tendency	<i>Math.</i> प्रवृत्ति

tendency of V		V की प्रवृत्ति	tensiometer	<i>Chem.,Phy.</i>	पृष्ठतनावमापी, पृष्ठतननमापी
tendency test		प्रवृत्ति परीक्षण	tension		तनाव
tender-foot	<i>Geol.</i>	टेन्डर फुट	tension adjusting nut		तनाव नियामक टिचरी
tendering	<i>Chem. (Text.)</i>	दुर्बलन	tensional		तनाव-मूलक
tendering effect		दुर्बलन प्रभाव	tensional feature		तनाव लक्षण
tenderizing	<i>Bot.</i>	मृदूकरण	tensional force		तनाव-बल
tenderness	<i>H.Sc.</i>	दाववेदना, स्पर्शासह्यता	tensional strain		तनाव विकृति
'Tender rays' process	<i>Chem. (Food.)</i>	'टेन्डर रे' प्रक्रम	tensional stress		तनाव प्रतिबल
tendinous linea alba	<i>Zool.</i>	कंडरीय श्वेत रेखा	tensional theory		तनाव सिद्धान्त
tendo Achillis	<i>Zool.</i>	एकिलिस कंडरा	tension belt		तनाव भेखला
tendon	<i>H.Sc.,Zool.</i>	कण्डरा	tension crack		तनाव दरार
tendon jerk		कण्डरा प्रतिक्षेप	tension fault		तनाव भ्रंश
tendril	<i>H.Sc.,Bot.</i>	प्रतान	tension fissure		तनाव विदार
tendron	<i>H.Sc.</i>	टेन्ड्रॉन	tension fracture		तनाव विभंग
Tenebrio	<i>Zool.</i>	टेनीब्रियो	tension joint		तनाव संधि
<i>Tenebrio molitor</i>		टेनीब्रियो मॉलितर	tension moisture curve		तनाव नमी वक्र
Tenebrionidae	<i>Zool.</i>	टेनीब्रियोनिडे	tension receptor		तनाव ग्राही
<i>Tenebroides mauritanicus</i>	<i>Zool.</i>	टेनीब्राइडीज मॉरिटैनिकस	tension spring		तनाव कमानी
tenellus	<i>Bot.</i>	मुकोमल	tension spring regulator		तनाव नियामक
tenent hairs	<i>Zool.</i>	संजी रोम	tension wood		तनाव दारु
tengusu	<i>H.Sc.</i>	टेंगुस्	tensiostat	<i>Chem. (Met.)</i>	तननस्थापी
tenite	<i>Chem.</i>	टेनाइट	teniolite	<i>H.Sc.</i>	टेंसोलाइट
tennantite	<i>Geol.</i>	टेनेन्टाइट	tensometer	<i>Chem. (Met.)</i>	तननमापी
tennis cloth	<i>H.Sc.</i>	टेनिस् वस्त्र	tensor	<i>Math.</i>	प्रदिश, टेन्सर
tenon end	<i>Chem. (Met.)</i>	चूल अंत	tensor accessorius	<i>Zool.</i>	सहायक आतानक पेशी
tenor	<i>Geol.</i>	बौसत्त प्रतिशत	tensor algebra		प्रदिश बीजगणित
tenorite	<i>Geol.</i>	टेनोराइट	tensor analysis	<i>Math.</i>	प्रदिश विश्लेषण
tensile strain	<i>Phy.,H.Sc.</i>	तनन-विकृति	tensor brevis	<i>Zool.</i>	लघु आतानक पेशी
tensile strength		तनन-सामर्थ्य	tensor calculus	<i>Math.</i>	प्रदिश कलन
tensile stress		तनन-प्रतिबल	tensor charactor		प्रदिश अभिलक्षण
tensile yield force		तनन-परामव-बल	tensor density		प्रदिश घनत्व
tensile yield limit		तनन-परामव-सीमा	tensor divergence		प्रदिश अपसृतक
tensility	<i>Phy.</i>	तन्व्यता	tensor ellipsoid	<i>Math.</i>	प्रदिश दीर्घवृत्तज, टेन्सर दीर्घवृत्तज
tensimeter	<i>Phy.</i>	वाष्पदावमापी			

tensor field		प्रदिश-क्षेत्र	tentaculocyst	Zool.	स्पर्शकपुटी
tensor force		टेन्सर बल	tentaculoid	Zool.	स्पर्शकाभ
tensorial form		प्रदिशीय रूप	tentaculozooid	Zool.	स्पर्शजीवक
tensor function		प्रदिश फलन	tentaculum	Zool.	स्पर्शिका
tensor interaction		प्रदिश अन्वोन्यक्रिया	tentative formulation	Math	अस्थायी भरूपण
tensor longus	Zool.	दीर्घ आतानक पेशी	tentative hypothesis		तात्कालिक परिकल्पना
tensor manipulation		प्रदिश समानुक्ति	tent-caterpillar	Zool	टण्डुल इल्ली
tensor membranæ posterioris alae	Zool	पक्ष पश्चकला आतानक पेशी	tent cloth	H Sc	तम्बू बपहा
tensor notation		प्रदिश संकेतन	tenter (stemter)	Chem, H Sc (Text)	टेन्टर, तनित्र
tensor of rank zero		शून्यकोटि टेन्सर, शून्यकोटि प्रदिश	tenter frame		टेन्टर फ्रेम
tensor patagium	Zool.	चर्मप्रसर आतानक	tentergin	Chem, H Sc	1. प्रलवन 2. माननन
tensor permeability		टेन्सरी पारगम्यता	ten-test	Geol.	टेन-टेस्ट
tensor product	Math.	प्रदिश गुणनफल	tent hill	Geog	टेन्ट हिल, तम्बू-पहाड़ी
tensor relation		प्रदिश संबंध	tenth normal	Chem	दशाश नॉर्मल
tensor space		प्रदिश समष्टि	Tenthredinidae	Zool	टेन्थ्रीडिनिडी
tensor transformation		प्रदिश-रूपान्तरण	tenth value thickness	Phy.	दशाश मान मोटाई
tensor transformation rule		प्रदिश रूपान्तरण नियम	tentillum	Zool	स्पर्शशाखा
tensor tympani	Phy	मध्यकण तानिका	tentorial arm	Zool.	छदिशाखा
tensor tympani muscle	Zool	नर्णपट्ट तानिका पेशी	tentorial nerve		छदि तन्त्रिका
tensor veli palatini		विच्छद तालक तानिका	tentorial pit	Zool.	मस्तिष्कछदि-गर्त
tentacle	H.Sc., Geog, Zool.	स्पर्शक, टेन्टेबल	tentorium	H.Sc.	मस्तिष्कछदि
tentacle pouch		स्पर्शक कोष्ठ	tent-pole	Bot	टेन्टपोल, मिस्त्रिदण्ड
tentacle root		स्पर्शक मूल	tent stitch	H Sc.	टेन्टस्टिच (टाका)
tentacle sheath		स्पर्शक आच्छद	tennifolius	Bot.	तनुपर्णी
tentacular apparatus		स्पर्शक उपकरण	teculnucellate	Bot.	तनुबीजाणुकापी
tentacular bulb		स्पर्शक बन्द	tenirostral	Zool.	स्यूतचचु
tentacular canal		स्पर्शक नाल	tenuis stage	Zool.	टेनुइस अवस्था
tentacular eye		स्पर्शक नेत्र	tenuity factor	Geog.	विरलता-कारक
tentacular growth	Geog.	टेन्टाकुलर वृद्धि, स्पर्शनी वृद्धि	tenulia	Chem.	टेन्गुलिन
tentacular polyp	Zool.	स्पर्श-पॉलिप	teocalli	Geog.	टीओकॉली
Tentaculata	Zool.	टेन्टेकुलेटा	tepal	Bot.	परिदल
tentaculiferous	Zool.	स्पर्शकधर	tepetate	Geol.	टेपेटेट
tentaculiferous lobè		स्पर्शकधर पानि	tephigram	Geog.	तेफ्रीग्राम
tentaculifortu	Zool.	स्पर्शकक्षय	tephra	Geog., Geol.	टेफ्रा
			tephroid	Geol.	टेफ्राइटाभ
			tephreus (= tephrus)	Bot.	भस्मवर्ण

tephrite	Geol.	टेफ्राइट	terebratorium	Zool.	प्रवेधक
tephrochronology	Geol.	टेफ्रोकोलानुक्रम	Terebratula	Geol.	टेरेब्रेटुला
tephroite	Chem. (Met.)	टेफ्रोनाइट	Terebratula bisinuata		टेरेब्रेटुला वाइसिनुएटा
Tephrosia purpurea	Bot.	टेफ्रोसिया परपुरिया	Terebratulacea	Geol.	टेरेब्रेटुलेसिया
tephrosin	Chem.	टेफ्रोसिन	Terebratulina	Geol.	टेरेब्रेटुलिना
tepid	H.Sc.	गुनगुना, अल्पोष्ण	Terebratulina striata		टेरेब्रेटुलिना स्ट्रिएटा
tepid water		गुनगुना जल	Teredo	Zool.	टेरीडो
tepis	H.Sc.	टेपिस	terephthalate	Geog.	टेरेफथैलेट
tequila	H.Sc.	टेकीला	terephthalic acid	Chem.	टेरेफथैलिक अम्ल, टेरेफथैलिक ऐसिड
tera	Chem.,Phy.	टेरा	teres major muscle	H.Sc.	बृहत् अंसाभिर्वतिका पेशी
terabic acid		टेरेबिक अम्ल, टेरेबिक ऐसिड	teres minor muscle		लघु अंसाभिर्वतिका पेशी
teras	Geog.	टेरस, कृत्रिम कटक	terete	Bot.	मूसलाकार
teratogeny	Bot.	विरूपजनन, विरूपोत्पादन	tergal	H.Sc.	टेरगल
teratological		विरूपात्मक	tergal articulation	Zool.	पृष्ठकीय संधि
teratological form	Zool.	विरूप	tergal promotor		पृष्ठकीय अग्रवर्तनी
teratological phenomenon	Geol.	वैरूपिकीय घटना	tergal remotor		पृष्ठकीय प्रत्यावर्तनी
teratological variation		वैरूपिकीय विविधता	tergal shield		पृष्ठक ढाल
teratology	Biol.	विरूपताविज्ञान, वैरूपिकी	tergite	Zool.,Geol.	पृष्ठकांक्ष
teratomata		विरूपसंरचना	tergocoxal	Zool.	पृष्ठकक्षांगी
teratomorphic		विरूपी	tergopleural	Zool.	पृष्ठकपाश्वर्कीय
teratophthalmic	Zool.	विरूपाक्षि	tergopleural muscle		पृष्ठकपाश्वर्क पेशी
terbium		टर्बियम	tergosternal	Zool.	पृष्ठकाधरकीय
terbium earths		टर्बियम मृदा	tergosternal muscle		पृष्ठकाधरक पेशी
terce	Geog.	पूर्वाह्निका	tergum	Geol.,Zool., H.Sc.	पृष्ठक
tercentesimal scale	Geog.	त्रिंशतिक स्केल, टेरसेंटेसीमल स्केल	terlenka	H.Sc.	टेरलेन्का
tercine	Bot.	तृतीयावरण	terlice	H.Sc.	टेलिस
tercovalent		त्रि-सहसंयोजी	term	Math.	पद
Terebella	Zool.	टेरेबेला	term designation	Phy.	पदनाम
Terebellidae		टेरेबेलिडी	term insurance	H.Sc.	अवधि बीमा
terebinthinate	Chem.	टेरबिन्थिनेट	ter-mensual	Geog.	त्रैमासिक
terebra	Zool.	वेधनी	termes	Zool.	टर्मीस
Terebra	Zool.	टेरब्रा	Ter Meulen method	Chem.	टर म्यूलैन विधि
Terebra oculata		टेरेब्रा ऑक्युलेटा	terminal		1. सिरा, टर्मिनल 2. अंतस्य, अन्तिम
terebrate	Bot.	विकीर्ण रन्ध्री	terminal adhesive tube		अन्तस्य आसंजी नली

terminal analogues of vocal mechanism	Phy.	स्वर क्रिया विधि के सीमांत तुल्यरूप	<i>Terminalia citrura</i>	टर्मिनेलिया सिट्रिना
terminal area	Phy.	टर्मिनली क्षेत्र	<i>Terminalia crenulata</i>	टर्मिनेलिया क्रैन्यूलेटा
terminal body	Zool.	अन्त्य काय	<i>Terminalia myriocarpa</i>	टर्मिनेलिया मीरिडोकार्पा
terminal branch		अन्तिम शाखा, अन्तस्थ शाखा	<i>Terminalia procera</i>	टर्मिनेलिया प्रासेरा
terminal branch microzooid		अन्तस्थ शाखी सूक्ष्मजीवक	<i>Terminalia tomentosa</i>	टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा
terminal bronchiole		अन्तिम श्वसनिका	terminal impedence	टर्मिनली प्रतिबाधा
terminal bud		अन्तस्थ कलिका	terminalization	Zool उपात्तोभवन
terminal building		टर्मिनस बिल्डिंग	terminal leaflet	अन्तस्थ पत्रक
terminal bulb		अन्त्य विकन्द	terminal loop	Phy. सीमान्त पाश
terminal capsule		अन्त्य सपुट	terminal macrozooid	अन्तस्थ सूक्ष्मजीवक
terminal cell	Phy. Biol.	अन्तिम सेल अन्त्य कोशिका	terminal marking	अन्तिम चिह्न
terminal centre		अन्तस्थ केन्द्र	terminal maxima	सीमांत उच्चिष्ठ
terminal condition	Math.	अन्त्य प्रतिबंध	terminal microzooid	अन्तस्थ सूक्ष्मजीवक
terminal couple	Math.	चर बलयुग्म	terminal moraine	अन्तस्थ मोरेन, अन्तस्थ हिमोढ़
terminal curvature		अन्त्य वक्रता	terminal nephridial duct	अन्तस्थ वृक्कक शक्तिनी
terminal data	Phy.	आद्यन्त दत्त	terminal number	अन्त्य सख्या
terminal decision	Math.	समापन निर्णय	terminal ossicle	अन्तस्थ अस्थिका
terminal duct		अन्त्य वाहिनी	terminal phalanx	अन्तिम अंगुलारिय
terminal electrode effect		अन्तिम इलेक्ट्रोड प्रभाव	terminal phase	अन्तिम प्रावस्था
terminal filament		अन्त्य तनु	terminal point	अन्तिम बिन्दु
terminal fissure		अन्तिम विदार	terminal pore	अन्त्य रंध
terminal full-stop		अन्तिम विराम, अन्तिम फुलस्टॉप	terminal spine	अन्तस्थ शूल
terminal ganglionic mass		अन्तस्थ गुच्छिका सहित	terminal station	अन्तिम छादन, अन्तिम स्टेशन
terminal group		अन्तिम समूह	terminal synchroie	अन्तिम समकालिक दृक्
terminal guidance		अन्तिम निर्देशन	terminal tentacle	अन्तस्थ शार्शक
terminal hinge teeth		अन्तस्थ हिन्ज दंत	terminal trade centre	अन्तस्थ व्यापार केन्द्र
terminalia	Zool., Geol	उपात्तक	terminal velocity	अन्तिम वेग
<i>Terminalia arjuna</i>	Bot.	टर्मिनेलिया अर्जुन (= अर्जुन)	terminal velocity dive	अन्तिम वेग निमग्नन
<i>Terminalia biflora</i>		टर्मिनेलिया बाएलेटा	terminal vesicle	अन्तस्थ बाधक
<i>Terminalia chebula</i>		टर्मिनेलिया चेत्रुला	terminal voltage	टर्मिनल वोल्टेज
			terminal vor (tror)	Phy. उपांत वोर
			terminate	Math. (adj.) संहत
			terminated line	Phy. अन्तवृत्त सांख्य

terminating decimal	<i>Math.</i>	सांत दशमलव	ternate	<i>Bot.</i>	त्रिपणकी, त्रिकविन्द्यासी
terminating fraction		सांत भिन्न	terne plate	<i>Chem.</i> ( <i>Met.</i> )	टर्न प्लेट, टर्न पट्टिका
termination	<i>Chem.</i> <i>Phy.</i>	समापन अंतस्थ भार, टर्मिनल लौड	ternovskite	<i>Geol.</i>	टर्नोव्सकाइट
terminator		दीप्ति-सीमांत	teron	<i>H.Sc.</i>	टेरॉन
term interval	<i>Phy.</i>	पद अन्तराल	terp	<i>Geol.</i>	टर्प, टीला
terminus	<i>Geog.</i>	टर्मिनस	terpitzite	<i>Geol.</i>	टर्पिट्साइट
termitarium	<i>Zool.</i>	दीमकगृह, बल्मीक	terpene	<i>Chem.</i>	टर्पीन
termite nest	<i>Zool.</i>	दीमक नीड	terpenylic acid	<i>Chem.</i>	टर्पीनिलिक अम्ल, टर्पीनिलिक ऐसिड
termiticole	<i>Bot., Zool.</i>	बल्मीकवासी	terpilene	<i>Chem.</i>	टर्पिलीन
Termitidae	<i>Zool.</i>	टर्मिटिडी	terpin	<i>Chem.</i>	टर्पिन
termitiphile	<i>Zool.</i>	दीमकरागी, बल्मीरागी	terpinene		टर्पिनीन
termitogeton	<i>Zool.</i>	टर्मिटोजीटॉन	terpineol	<i>Chem.</i>	टर्पिनिवॉल
termitophilous	<i>Zool.</i>	दीमकरागीय	terpinolene	<i>Chem.</i>	टर्पिनोलीन
term manifold	<i>Phy.</i>	पद समूह	terpositive	<i>Chem.</i>	त्रिधन
termolecular attack	<i>H.Sc.</i>	त्रिआणविक आक्रमण	terpyridyl	<i>Chem.</i>	त्रिपिरीडिल
termolecular collision		त्रिआणविक संघट्ट	terra cariosa	<i>Geol.</i>	ट्रिपोली, टेरा कैरिओसा
termolecular reaction		त्रिआणविक अभिक्रिया	terrace	<i>H.Sc.,</i> <i>Geog., Geol.</i>	वेदिका
termone	<i>Zool.</i>	टर्मोन	terrace building		वेदिका इमारत
term quantum number	<i>Phy.</i>	पदोय क्वांटम संख्या	terrace convergence		वेदिका-अभिसरण
term series	<i>Phy.</i>	पद श्रेणी	terrace cultivation		वेदिका-कृषि
terms of trade	<i>Geog.</i>	व्यापार-निवन्धन, व्यापार शर्त	terraced	<i>Geol.</i>	वेदिकायुक्त, वेदीकायित
term values		पद मान	terrace divergence		वेदिका-अपसरण
termwise differentiation	<i>Math.</i>	पदशः अवकलन	terraced slope	<i>Geog.</i>	सोपानी ढाल
termwise integration		पदशः समाकलन	terraced stalactite		वेदिकायित स्टैलैक्टाइट
tern	<i>Zool.</i>	गंगाचील, कुररी	terraced upland		सोपानी उपरिभूमि
ternary	<i>Geol.</i> <i>Math., Phy.</i>	त्रिअंगी त्रिआधारी	terrace epoch		वेदिका युग
ternary alloy		त्रिअंगी मिश्रधातु	terrace farm		वेदिका फार्म
ternary composition	<i>Math.</i>	तृतीय संयोजन	terrace gravel		वेदिका बजरी
ternary encounter	<i>Phy.</i>	तृतीय संघट्ट	terrace housing		वेदिका गृह-निर्माण
ternary fission	<i>Phy.</i>	त्रिभागी विखंडन	terrace intersection		वेदिका प्रतिच्छेद
ternary magma		त्रिअंगी मैग्मा	terrace meander		वेदिका त्रिसर्प
ternary name	<i>Bot.</i>	तृतीय नामपद	terrace plain		वेदिका-मैदान
ternary notation		त्रि-आधारी संकेतन,	terracer blade	<i>Geog.</i>	टेरेसर ब्लेड
ternary quantic	<i>Math.</i>	त्रिचर समघात	terrace slope		वेदिका ढाल
			terracette	<i>Geog.</i>	लघुवेदिका, मेपपव

terracing	<i>Geog.</i>	वेदिकाकरण	terrestrial atom	पार्थिव परमाणु
terracotta	<i>Geog., Geol.</i>	टेराकोटा	terrestrial community	स्थलीय समुदाय
terracotta clay		टेराकोटा मृत्तिका	terrestrial deposit	पार्थिव निक्षेप, भौमिक निक्षेप
terracotta figurine		टेराकोटा लघुमूर्ति	<i>terrestrial ecology</i>	स्थलीय पारिस्थितिकी
terra firm	<i>Geog.</i>	टेरा फर्म (उपरि भूमि)	terrestrial element	भौम तत्व
terrain	<i>Geol., Phy.</i>	1. भूभाग (Physiography) 2. शैलप्रदेश (Stratigraphy)	terrestrial equator	भूमध्यरेखा, निरक्ष, विषुवत् रेखा
terrain clearance indicator (= F.M. radioaltimeter)		भूभाग अंतर सूचक, F. M. रेडियो तुल्यतामापी	<i>terrestrial exposure method</i>	पार्थिव जन्मासन विधि
terrain clearance warning indicator		भूभाग अंतर चेतावनी सूचक	terrestrial force	पार्थिव बल
terra incognita	<i>Geog.</i>	अज्ञात देश	terrestrial globe	<i>Geog.</i> पृथ्वी गोलक
terrain correction		भूभाग संशोधन	terrestrial gravitation	पार्थिव गुरुत्वाकर्षण
terrain diagram		भूभाग आरेख	terrestrial gravitational effect	पार्थिव गुरुत्वाकर्षण प्रभाव
terrain error		भूभाग त्रुटि	terrestrial latitude	<i>Math., Phy.</i> अक्षांश
terrain model		भूभाग प्रतिरूप	terrestrial light source	पार्थिव प्रकाश स्रोत
terral	<i>Geog.</i>	टेराल (समीर)	terrestrial loading	स्थलीय भारोपण
terramara	<i>Geog.</i>	टेरामारा (संस्कृति)	terrestrial longitude	<i>Math., Phy.</i> रेखांतर, देशांतर
terrapin	<i>Zool.</i>	कमठ	terrestrial magnetism	पार्थिव चुंबकत्व
terra ponderosa	<i>Geol.</i>	टेरा पॉन्डेरोसा	terrestrial matter	पार्थिव द्रव्य
Terrar		टेरार	terrestrial meridian	<i>Math., Phy.</i> भूयाभ्योत्तर
terrarium	<i>Zool.</i>	फलशाला (फलजीव शाला)	terrestrial mold	स्थलीय फफूंदी
terra rossa	<i>Geol.</i>	टेरा रोसा	terrestrial object	पार्थिव वस्तु
terra roxa	<i>Geog.</i>	टेरा रोजा (मृदा)	terrestrial observatory	पार्थिव वेधशाला
terra sienna	<i>Geol.</i>	टेरा सिएना	terrestrial organism	स्थलीय जीव, पार्थिव जीव
terra ware	<i>H Sc.</i>	पत्थरी मिट्टी के बर्तन	terrestrial photogrammetry	पार्थिव फोटोग्राममिति
terrazzo	<i>H Sc.</i>	टेराज़ो	terrestrial radiation	पार्थिव विकिरण
terreic acid	<i>Chem.</i>	टैरेइक अम्ल, टैरेइक ऐसिड	terrestrial radiation thermometer	पार्थिव विकिरण तापमापी
terreplein	<i>Geol.</i>	भूदातद्वेष	terrestrial reference guidance	<i>Phy.</i> भू-सांसागिक निर्देशन
terrestrial		स्थलीय, पार्थिव, भौमिक	terrestrial refraction	पार्थिव अपवर्तन
terrestrial abundance		भौमिक बाहुल्य	terrestrial space	<i>Phy.</i> भू-आकाश
terrestrial adaptation		स्थलीय अनुकूलन	terrestrial spheroid	<i>Geog.</i> भू-गोलाकार
terrestrial air		पार्थिव वायु	terrestrial telescope	पार्थिव दूरबीन, पार्थिव दूरदर्शक
terrestrial animal		स्थलचर	terricole	<i>Zool.</i> भूवासी



terricolous	<i>Bot.</i>	भूमिस्थयी, भूमिवासी	terry cloth	<i>H.Sc.</i>	टेरी वस्त्र
terrier (=terrar)	<i>Geog.</i>	भू-विवरणिका, खसरा	tertials (feather)	<i>Zool.</i>	तृतीय पिच्छ (त्रिपिच्छ)
terriigenous	<i>Geog., Geol., Zool.</i>	स्थलजात	tertian ague	<i>Zool.</i>	तृतीयक शीतज्वर
terriigenous deposit		स्थलजात निक्षेप	tertian infection		तृतीयक संक्रमण
terriigenous environment		स्थलजात वातावरण	tertian malaria		तृतीयक मलेरिया
terriigenous mineralogical province		स्थलजात खनिज-क्षेत्र	tertiary		1. तृतीयक, तृतीय, तरशियरी 2. तृतीयकल्पी
terriigenous ooze		स्थलजात निपंक	tertiary alcohol		तृतीयक ऐल्कोहल
terriherbosa	<i>Bot.</i>	स्थल शाकादि	tertiary base		तृतीयक क्षारक
terrine	<i>H.Sc.</i>	टेरीन	tertiary bed		तृतीय संस्तर
territorial acquisition	<i>Geog.</i>	प्रादेशिक अर्जन	tertiary bench mark		तरशियरी तल चिह्न
territorial		प्रादेशिक	tertiary consumer		तृतीयक उपभोक्ता
territorial aggrandisement		प्रादेशिक विवर्धन	tertiary creep (=accelarated creep)		तृतीयक विसर्पण, त्वरित विसर्पण
territorial area		प्रादेशिक क्षेत्र	Tertiary era		तृतीय महाकल्प
territorial base		प्रादेशिक आधार	tertiary flora		तृतीयक फलोरा, तृतीयक वनस्पति-जात
territorial differentiation		प्रादेशिक विभेदन	tertiary fumarole		तृतीयक वाष्पमुख
territorial expansion		प्रादेशिक प्रसार, प्रादेशिक विस्तार	tertiary land-link		तृतीयक स्थलयोजक
territorial fabric		प्रादेशिक विन्यास	tertiary levelling		तरशियरी तलेक्षण
territorial framework		प्रादेशिक ढांचा	tertiary mesentery		तृतीयक पट
territorial group		प्रादेशिक वर्ग, आंचलिक वर्ग	tertiary occupation		तरशियरी व्यवसाय
territorial imperialism		प्रादेशिक साम्राज्यवाद	Tertiary period		तृतीय कल्प
territoriality	<i>Zool., Geog.</i>	प्रादेशिकता	tertiary photoelectron		तृतीयक फोटोनज इलेक्ट्रॉन
territorial power		प्रादेशिक शक्ति	tertiary podium		तृतीयक पद
territorial right		प्रादेशिक अधिकारी	tertiary prevention		तृतीयक निवारण
territorial sea		प्रादेशिक सागर	Tertiary province		तृतीयकल्पी शैल क्षेत्र
territorial sense		प्रदेश बोध	tertiary recrystallization		तृतीयक पुनःक्रिस्टलन
territorial waters	<i>Geog.</i>	सीमांतगत जलक्षेत्र, उपसीमा जलक्षेत्र, भूभागीय समुद्र	tertiary septum		तृतीयक पट
territory	<i>Geog.</i>	प्रदेश, क्षेत्र	tertiary service		तरशियरी सेवा
terry	<i>H.Sc., Phy.</i>	टेरी	tertiary sex ratio		तृतीयक यौन अनुपात
			tertiary triangulation		तरशियरी त्रिकोणीयन
			tertiary trisomic		तृतीयक एकाधिसूत्री
			tertiary vacuole		तृतीयक रसधानी
			tertibrach	<i>Zool.</i>	तृतीयकबाहु

<i>tervalent</i>	<i>Chem.</i>	त्रि-संयोजक
terylene	<i>H Sc., Chem</i>	टैरीलीन
terzolo	<i>H Sc.</i>	टेरज़ोलो
teschemacherite	<i>Geol.</i>	टेशेमेकेगाइट
teschenite	<i>Geol.</i>	टेशेनाइट
teschenitic		टेशेनाइटी
teshike	<i>H Sc.</i>	टेशिके
tesia	<i>Phy., Chem.</i>	टेशला
tesla coil		टेशला कुंडली
tessellate	<i>Bot.</i>	चतुरभु
tessellated	<i>Zool.</i>	कुट्टिमचित्रित
tessellated pattern	<i>Geol.</i>	खचित पैटर्न
Tessellina	<i>Bot.</i>	टेशेलाइना
tessera		सोनीय आयत
tesseral harmonic	<i>Math</i>	जालीय प्रसवादी
tesseral harmonic function		जालीय प्रसवादी फलन
tesseral surface harmonic		जालीय पृष्ठ प्रसवादी
tesseral system		टेशरल समुदाय
test	<i>Biol.</i>	1 परीक्षण, परख, सपरीक्षण 2. चीज
testa		बीज कोल
Testacea	<i>Zool.</i>	टैस्टेशिजा
testaceous	<i>Bot.</i>	दृष्टिकावर्णी
test charge		परीक्षण चार्ज, परीक्षण आवेश
test chart (= definition chart = resolution pattern)	<i>Phy.</i>	स्पष्टता परीक्षण चार्ट
test cross	<i>Biol.</i>	परीक्षार्थ संकरण
test crossing		परीक्षार्थ संकरण
test cross population		परीक्षार्थ संकर समष्टि
test cross ratio		परीक्षार्थ संकर अनुपात
test data		परीक्षण दत्त
test efficiency		परीक्षण दक्षता
tester (instrument)		परखी, सपरीक्षित्र

<i>test film</i>		परीक्षण फिल्म
test fixing	<i>Geog.</i>	पड़ताल स्थिति-निर्धारण
test flight (= experimental flight)	<i>Phy.</i>	प्रायोगिक उड़यन
test for homogeneity of variances		प्रसरण समागता का परीक्षण
test for interaction		अन्योन्यक्रिया परीक्षण
test for row effect		पक्ति प्रभाव परीक्षण
test function		परीक्षण फलन
test glass		परीक्षण-काच, परख-काच
test hole		परीक्षण-छिद्र
test hours		परीक्षण घंटे
testicular cyst cell	<i>Zool.</i>	वृषण पुटी कोशिका
testicular follicle		वृषण पुटक
testicular nephridium		वृषण वृक्कक
testing machine		परीक्षण यंत्र, परीक्षण मशीन
testis	<i>H.Sc., Zool.</i>	वृषण
testis lobe		वृषण पालि
testis sac		वृषण कोश
test kitchen		परीक्षण रसोईघर
test lead		परीक्षण प्रणायक
test meal	<i>H.Sc.</i>	प्रयोग आहार
test of hypothesis		परिकल्पना-परीक्षण
test of significance		सांख्यिकता-परीक्षण
test order		परीक्षण क्रम
testosterone	<i>Zool., H.Sc.</i>	टेस्टोस्टेरोन
testosterone propionate		टेस्टोस्टेरोन प्रोप्रियोनेट
test outfit	<i>Chem.</i>	निकष सभार
test paper		परीक्षण पत्र, परख कागज
test particle		परीक्षण कण
test pattern		परीक्षण चित्रांश
test pattern beam (= holding beam)		परीक्षण चित्रांश धारणपुत्र
test performance		परीक्षण निष्पादन
test pit		परीक्षण गर्त
test print		परीक्षण छाप

test programme		परीक्षण प्रोग्राम	<i>Tetracerus</i>	Zool.	टेट्रासेरस
test reactor		परीक्षण रिऐक्टर	<i>quadricornis</i>		क्वाड्रीकोर्निस (चौसिधा)
test record		परीक्षण रेकॉर्ड	tetrachloride	Geol.	टेट्राक्लोराइड
test-retest method		परीक्षण पुनः परीक्षण विधि	tetrachoric	Math.	चतुष्कोष्ठिक
test routine		परीक्षण नेमका	tetrachoric coefficient		चतुष्कोष्ठिक गुणांक
test shot		परीक्षण शॉट	tetrachoric correla- tion		चतुष्कोष्ठिक सहसंबंध
test stand		परीक्षण स्टैन्ड	tetrachoric correla- tion coefficient		चतुष्कोष्ठिक सहसंबंध गुणांक
test statistic		परीक्षण-प्रतिदर्शज	tetrachloro cuprate		टेट्राक्लोरो क्यूप्रेट
test tube		परखनली, परीक्षण नली	tetrachloro iodide	Chem.	टेट्राक्लोरो आयोडाइड
test tube holder		परखनली संदशिका, परखनली संदशी	tetrachord	Phy.	1. चौतारा 2. चतुःस्वरसंघात
test tube stand		परखनली स्टैन्ड	tetrachotomous	Bot.	चतुर्भाजनीय
<i>Testudo elegans</i>	Zool.	टैस्ट्युडो ऐलिगॅन्स	tetrachotomy		चतुर्भाजन
tetanic	Zool.	धनुस्तम्भी	<i>Tetrachytrium triceps</i>	Bot.	टेट्राकिट्रियम ट्राइसेप्स
tetanic contraction		धनुस्तम्भी संकुंचन	<i>Tetraclaenodon</i>	Zool.	टेट्राक्लेनोडॉन
tetanus	Zool.	धनुस्तम्भ, टिटेनस	tetracclone	Geol.	टेट्राक्लोन
tetany	H.Sc.	अपतानिका	tetracococcus	Bot.	चतुःफलशांकी
tetartohedral	Geol.	चतुर्थांशफलकीय	tetracoral	Geog.	चतुष्प्रवाल
teter	Bot.	दुर्गन्धी	tetracosahexaenoic acid	Chem.	टेट्राकोसाहेक्साइनाइक अम्ल
Tetervin and Lin's method	Math.	टेटेविन और लिन विधि	tetracosane 1-ol.		टेट्राकोसने 1-ऑल
Tethys	Geol., Geog.	टैथिस	tetracosenoic acid	Chem.	टेट्राकोसेनोइक अम्ल
tetmosol		टेटमोसाल	tetracrepid	Zool.	सूक्ष्म चतुररीय
Tetonus		टेटोनियस	tetracrepid desmome	Geol.	टेट्राक्रेपिड डेस्मोम
tetrabase (reagent)	Chem.	टेट्राबेस (अभिकर्मक)	tetract	Zool.	चतुर्दिशिका, टेट्रेक्ट
tetrabasic	Chem.	चतुःक्षारकी	tetractine (tetractinal)	Zool., Geol.	समचतुररीय
tetrabenazine	Chem.	टेट्राबेनाजीन	tetractinellid	Zool.	टेट्रेक्टिनेलिड
tetra borate		टेट्राबोरेट	<i>Tetractinellida</i>	Geol.	टेट्रेक्टिनेलिडा
tetraboric acid		टेट्राबोरिक ऐसिड, टेट्राबोरिक अम्ल	tetractinose	Zool.	टेट्रेक्टिनोज, चतुर्दिशीय
tetrabranh	Zool.	चतुष्प्रलोम	tetracuspitate	Zool.	चतुर्दंताग्र
Tetrabranhiata	Zool.	टेट्राब्रैन्किएटा	tetracyclic	Bot., Math., Chem.	चतुश्चक्री
tetrabranhiate		चतुष्प्रलोमी	tetracyclic coordinates		चतुश्चक्रीय निर्देशांक
tetracene	Chem.	टेट्रासीन	tetracycline	Zool.	टेट्रासाइक्लीन
<i>Tetracera scandens</i>	Bot.	टेट्रासेरा स्केन्डेन्स	tetracyte	Bot.	चतुर्बीजाणु
tetracerous	Zool.	चतुश्शृंगी		Zool.	चतुरणु

tetrad	<i>Math, Phy, Zool.</i>	चतुष्टय, चतुष्क	<i>Tetragraptus quadribrachiatus</i>	टेट्राग्रेप्टस क्वाड्रीब्रेकिएटस
tetradactyl	<i>Zool.</i>	चतुरभुलि	tetragynous	<i>Bot</i> चतुर्जायागी
tetradactyly		चतुरभुलितता	tetrahedral	चतुष्फलकीय
tetrad analysis		चतुष्क विश्लेषण	tetrahedral angle	चतुष्फलकीय कोण
tetradecane		टेट्राडेकेन	tetrahedral hypothesis	चतुष्फलकीय परिकल्पना
tetradecenoic acid	<i>Chem</i>	टेट्राडेसेनोइक अम्ल	tetrahedral theory	चतुष्फलकीय सिद्धान्त
tetradelloid form	<i>Geol.</i>	टेट्राडेल्लाम रूप	tetrahedrite	<i>Geol</i> टेट्राहेड्राइट
tetradelphous	<i>Bot</i>	चतु संधी	tetrahedron	<i>Geol, Phy.</i> चतुष्फलक
tetradynamous	<i>Bot</i>	चतुर्दीर्घी	tetrahexahedron	<i>Geol</i> चतु षट्फलक
tetradymite	<i>Geol</i>	टेट्राडिमाइट	tetrahydrate	<i>Chem</i> ( <i>Fert</i> ) चतु हाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट
tetraedron stage		टेट्रीड्रॉन अवस्था	tetrahydrofuran	<i>Chem.</i> टेट्राहाइड्रोफ्यूरन
tetraethyl	<i>Chem.</i>	टेट्राएथिल	tetrahydroxyfuran	<i>Chem.</i> टेट्राहाइड्रोसिल्वन
tetraethyl ammonium pyrosulphite		टेट्राएथिल अमोनियम पाइरोसल्फाइट	tetrahymenal	<i>Zool.</i> चतुष्कलीय
tetraethyl lead (T.E.L.)		टेट्राएथिल लीड (टी० ई० एल०)	tetraiodate	<i>Chem.</i> टेट्राआयोडेट, चतु-आयोडेट
tetraflagellate	<i>Bot., Zool</i>	चतुःकशाभी	tetraikaidecahedron	<i>Bot.</i> चतुर्दशफलक
tetrafolius	<i>Bot.</i>	चतुष्पर्णी	tetrahis	<i>Chem.</i> चतुष्ट
tetragene salt	<i>Chem.</i>	चतुराक्षनी लवण	tetrahkont	<i>Zool</i> चतुष्कशाभी
tetragenic	<i>Zool</i>	चतुर्जीवी	tetralin	<i>Chem.</i> टेट्रालिन
tetragonal	<i>Phy, Geol.</i>	द्विसमलबाध	tetralol	<i>Chem</i> टेट्रालॉल
tetragonal I		द्विसमलबाध I	tetralone	<i>Chem</i> टेट्रालोन
tetragonal P		द्विसमलबाध P	Tetralophodon	<i>Zool.</i> टेट्रालोफोडॉन
tetragonal crystal		द्विसमलबाध क्रिस्टल	tetralophodont	<i>Geol.</i> चतुर्बटकी (चतुष्पङ्क), टेट्रालोफोडॉन्ट
tetragonal disphenoidal		द्विसमलबाध द्विस्फीनाइडी	tetralophous	<i>Zool.</i> टेट्रालोफस, चतुर्शिखर
tetragonally disturbs		चतुष्कोणीय विकृति	'tetram'	<i>Chem.</i> टेट्रम
tetragonal sphenoidal		द्विसमलबाध स्फीनाइडी	tetramer	<i>Chem.</i> चतुष्टय, चतुष्टयाणु
tetragonal symmetry		द्विसमलबाध सममिति	tetrameral	<i>Geol</i> चतुष्टयी
tetragonal system		द्विसमलबाध निकाय	tetrameros	<i>Geol, Zool.</i> चतुष्टयी
<i>Tetragonia tetragonioides</i>	<i>Bot.</i>	टेट्रागोनिया टेट्रागोनिओइडोज	tetrameros body	चतुष्टयी पिंड
tetragophosphite	<i>Geol.</i>	टेट्रागोफॉस्फाइट	tetrameros symmetry	चतुष्टयी सममिति
Tetragraptus	<i>Bot.</i>	टेट्राग्रेप्टस	tetramethyl	<i>Chem.</i> टेट्रामेथिल
<i>Tetragraptus denticulatus</i>		टेट्राग्रेप्टस डेंटिकुलेटस	tetramethyl base	<i>Chem.</i> टेट्रामेथिल बेस
			tetramise	<i>Chem.</i> टेट्रमीन, चतु ऐमीन
			tetramine platinum chloride	<i>Chem.</i> टेट्रमीन प्लैटिनम क्लोराइड

Tetramitus	Zool.	टेट्रामाइडस	tetraseriata	Zool.	चतुष्पंक्तिक
tetrammoniate	Chem.	टेट्रैमोनिएट	tetrasilane	Chem.	टेट्रासिलेन
tetrandrous	Bot.	चतुःपुकेसरी	tetrasomic	Zool.	द्विबन्धसूत्री
tetranitrosyl	Chem.	टेट्रानाइट्रोसिल	tetrasomic inheritance		द्विबन्धसूत्री वंशागत
tetrantoin	Chem.	टेट्रान्टाइन	Tetraspora	Bot.	टेट्रास्पोरा
Tetraonidae	Zool.	टेट्राओनिडी	Tetrasporales		टेट्रास्पोरेलीज
tetranuclear	Chem.	टेट्रान्यूनकीय, चतुर्नाभिकीय	<i>Tetraspora lubrica</i>		टेट्रास्पोरा लुब्रिका
tetranuclear aromatic	Chem.(Pet.)	चतुर्नाभिकीय ऐरोमैटिक	tetrasporangium	Bot.	चतुष्कीबीजाणुधानी
tetranucleate	Zool.	चतुष्केन्द्रकी	tetraspore		चतुष्कीबीजाणु
tetranucleate schizont		चतुष्केन्द्रकी शाइजॉन्ट	tetrasporic		चतुष्कीबीजाणुज, टेट्रास्पोरीय
tetranucleotide	Bot.	टेट्रान्यूनूक्लियोटाइड	Tetraslemma	Zool.	टेट्रास्टेमा
<i>Tetranychus telarius</i>	Zool.	टेट्रानिकस टेलैरियस	tetrastichous	Bot.,Zool.	चतुरावलिक, चतुष्पंक्तिक
tetra-oxo acid	Chem.	टेट्राऑक्सो अम्ल	tetrataxic	Zool.	चतुरनुचलनी
tetrapartite	Zool.	चतुर्खंडी	tetrathionate	Chem.	टेट्राथायोनेट
tetrapetalous	Bot.	चतुर्दली	tetrathyridium	Zool.	टेट्राथाइरिडियम
tetraphenyl arsonium chloride		टेट्राफेनिल आर्सोनियम क्लोराइड	tetratomic	Chem.	चतुष्परमाणुक
tetraphenyltin	Chem.	टेट्राफेनिल्टिन	tetratype	Zool.	चतुष्प्ररूप
Tetraphis	Bot.	टेट्राफिस	tetravalent	Chem.	चतुःसंयोजक
Tetraphyllidea	Zool.	टेट्राफिलीडिया	tetraxial	Zool.	समचतुरक्षीय
tetraphyllous	Bot.	चतुष्पर्णी	tetraxon	Geol.,Zool.	समचतुररी
tetraploid	Biol.	चतुर्गुणित	tetrazolium reduction method	Bot.	टेट्राजोलियम अपचयन विधि
tetraploid mutant		चतुर्गुणित उत्परिवर्ती	tetrazolium test		टेट्राजोलियम परीक्षण
tetrapod	Zool., Geog.,Geol.	चतुष्पाद	tetrazooid	Zool.	चतुष्कजीवक
tetrapolar	Bot.	चतुर्ध्रुवीय	Tetrigidae (Tetrigidae)	Zool.	टेट्रिजिडी (टेट्रिजिडी)
tetrapolarity		चतुर्ध्रुवता	tetrode	Geol.,Phy.	टेट्रोड
tetrapositive	Chem.	चतुःधन, चतुर्धन	tetrode transistor		टेट्रोड ट्रांजिस्टर
tetrapterous	Bot.,Zool.	चतुष्पत्नी	tetronal		टेट्रोनेल
tetraquetrous	Bot.	चतुस्तली	tetronic acid	Chem.	टेट्रोनिनिक अम्ल
tetrradiate spicule	Zool.	चतुररिक्त कटिका	tetrose	Chem.	टेट्रोस
tetrarch	Bot.	चतुरादिदारक	tetroxide	Chem.	टेट्रोक्साइड
Tettrarthynchidea	Zool.	टेट्रार्थिन्काइडिया	tetryl	Chem.	टेट्रिल
Tettrarthynchus	Zool.	टेट्रार्थिन्कस	Tettigonia	Zool.	टेट्टिगोनिया
tetrasaccharide		टेट्रासैकेराइड	<i>Tettigonia viridissima</i>		टेट्टिगोनिया विरिडिसिमा
tetrasepalous	Bot.	चतुर्वाह्यदली			

Tettigonidae (Locustidae)	Zool	देट्टिगोनीडी (लोकस्टिडी)	Thais	Zool.	थाइस
Tettigoniodea		देट्टिगोनियाँडिडिया	Thais bufo		थाइस ब्यूफो
Teutonic tribe	Geog	ट्यूटनी जनजाति	Thais rudolphi		थाइस रुडॉल्फी
teviron	H.Sc.	टेविरॉन	thalamencephalon	Zool.	थैलामेन्सेफैलॉन
Tewarik	Geog.	टेवारिक (जनजाति)	thalamus	Zool.	1. चेतक (कशेरुकी) 2. बेरम (श्वशेरुकी)
tex	Chem. (Text)	टेक्स (मूल गणना की एक पद्धति)		Bot. H Sc.	पुष्पासन थैलेमस
Texas fever (red water fever)	Zool	टेक्सस ज्वर (साल जल ज्वर)	thalassic	Geog., Geol	समुद्री, सागरी
texel	H Sc., Geog.	टेक्सेल	thalassin	Zool	थैलैसिन
textile	H Sc., Chem	1. वस्त्र 2. तातुक (adj) 3. तातुकी (n)	thalassium	Bot	सागरी समुदाय
textile assistant		तातुक सहायक	thalassocrator	Geol.	चिरसमुद्रकेंद्रॉन, चिरसागरकेंद्रॉन
textile fibre		वस्त्रतन्तु	thalassography	Geog.	समुद्रविज्ञान, सागरिकी
textile filler		तातुक भरक	thalassophile element	Geol.	समुद्ररागी तत्व
textile finishing		तातुक सज्जा, वस्त्र परिसज्जा	thalassophilous	Bot.	सागररागी
textile industry		वस्त्र उद्योग	thalassoplankton	Zool	समुद्रप्लवक
textile manufacturing		वस्त्र-विनिर्माण	thalassostatic	Geog.	समुद्र स्थिरतलीय काल
textile printing		तातुक मुद्रण, तातुक छपाई	thalassoxene element	Geol	समुद्रैतर तत्व
textile technology		वस्त्र शिल्प-विज्ञान	thalattoeratic	Geol	जलिसमुद्री
textile town		वस्त्र-उद्योग नगर	thalline margin	Bot.	सशैवाल तट
textone		टेक्नटोन	thallite	Geol	थैलाइट
textularid	Zool.	टेक्स्टुलेरिड	Thallites	Bot	थैलाइटीड
textularid chamber		टेक्स्टुलेरिड कोष्ठ, टेक्स्टुलेरिया कोष्ठ	thallium	Chem., Geol	थैलियम
textural maturity	Geol.	गठन-पक्वता	thallium glass		थैलियम काच
textural pillar		गठन स्तम्भ	thalloid	Bot.	थैलसाम
texture		1. संव्युति, बुनावट 2. गठन	thalloid compression		थैलसाम सपीछायम
textured yarn (bulked yarn)		संव्युति तन्तु (प्रकाशित तन्तु)	Thallophyta	Bot	थैलीफाइटा
texture of rock		शील गठन	thallospore	Bot.	थैलसपोरानु
texture of urban community.		नगरीय समुदाय-गठन	thallous	Chem.	थैलस
texturized pigment		संव्युतित वर्णक	thallus	Bot.	थैलस
'T' draw*	Geog.	'टी' क्रैम	thaloxide	Chem.	थैलीऑक्साइड
			thalweg (valley line)	Geog., Geol.	थालवेग, घाटीरेखा
			thameng	Zool.	थामेन्ग, अंतुसभूरी
			Thamnidium elegans	Bot.	थैम्नोडियम एलीगेंस
			Thamnia	Bot.	थैम्नोनिआ
			vermicularis		वर्मिकुलेरिस

Thamnopteris	Bot.	थैम्नोप्टेरिस	theelin (estrone)	Chem., Zool.	थीलिन (ऐस्ट्रॉन), जायिन
thanatocoenose	Geol.	मरणोत्तर समुच्चय	theelol (estriol)	Chem.	थीलॉल (ऐस्ट्रिऑल)
thanatocoenosis	Geol.	मरणोत्तर समुच्चय	*Themim (= $U^1-U^2$ ) Eridani)	Math.	थीमिन (= $U^1-U^2$ इरिडानाइट)
thanatosis	Zool.	मरणाभास	Theileria	Zool.	थीलेरिआ
thanite	Geol.	थैनाइट	Theileria parva		थीलेरिआ परवा
thann	H.Sc.	थैन	theileriasis	Zool.	थीलेरियाता
Thann process		थान-प्रक्रम	theine	H.Sc.	थीन
thapsic acid	Chem.	थैप्सिक अम्ल	Thelebolus stercoreus	Bot.	थीलीवोलस स्टेकोरियस
thartveitite		थार्टवाइटाइट	Thelen pan	Chem.	थीलेन कटाह, थीलेन पैन
thatch like wall	Geog.	तृण-भित्ति	Thelephoraceae	Bot.	थेलेफोरेसी
thaumasite	Geol.	थोमासाइट	Thelephora terrestris		थेलेफोरा टेरेस्ट्रिस
thaw	Geog., Geol.	हिमद्रवण, हिमस्तरण	thelephoric acid	Chem.	थेलेफोरिक अम्ल
thaw depression		हिमद्रवण-गर्त	Thelodus	Zool.	थीलोडस
thawing		हिमद्रवण	Thelotremales	Bot.	थेनोट्रीमेलीज
thaw lake		हिमद्रव झील, हिमस्तर सरोवर	thelytoky (thelyotoky)	Zool.	अनिपेकस्त्रीजनन
thaw melt method		था-मैल्ट पद्धति, गलन पिंड विधि	thelytonic	Bot.	अनिपेकजननीय
thaw point	Chem.	संद्रवण बिन्दु	thematic map	Geog.	थिमैटिक मानचित्र
thaw sink		हिमद्रव सिंक	thenardite	Geol.	थेनार्डाइट
Theaceae	Bot.	थीएसी	Thenard's blue	Chem.	थिनाइंड ब्लू, थिनाइंड नील
Theales		थीएलीज	Thenard's process		थिनाइंड प्रक्रम
Thea sinensis	Bot.	थिआ साइनेन्सिस	Thenea	Zool.	थीनिया
theatre		अभिनयशाला	thenoyl	Chem.	थेनॉयल
thebainone	Chem.	थीबेनोन	thenoyl trifluoroacetate	Chem.	थेनॉयल ट्राइफ्लूओर- ऐसीटेट
thebenine	Chem.	थिबेनीन	Thenus orientalis	Zool.	थेनस ओरिएण्टेलिस
theca	Zool., Geol.	प्रावरक	Theobroma cacao	Bot.	थियोब्रोमा काकाओ
theca externa		बाह्य प्रावरक	theobromine	Bot.	थियोब्रोमीन
theca interna		बांतर प्रावरक	theocratic		धर्मशासित
Thecamoeba	Zool.	थीकैमीबा	theodolite	Geol., Phy. Geog.	थियोडोलाइट
thecium		थीसियम	theodolite interpola- tion		थियोडोलाइट अन्तर्वेशन
thecodont	Zool., Geol.	गर्तदंती	theodolite traverse		थियोडोलाइट मासारेखा
Thecodontia	Zool.	थीकोडॉन्टिया	theogony	Geog.	देवोत्पत्ति
Thecosmilia	Geol.	थीकोस्मीलिया	theophylline		थियोफिलीन
Thecosmilia annularis		थीकोस्मीलिया एनूलैरिस			

theorem	Math	प्रमेय	theoretically	सिद्धान्त, सिद्धांत रूप से, सिद्धान्त के अनुसार
theorem egregium (= Gauss characteristic theorem)		गाउस अभिलक्षणिक प्रमेय	theoretical model	सैद्धान्तिक निदर्शन
theorem of Bezout		बेजू प्रमेय	theoretical motion	सैद्धान्तिक गति
theorem of Burnside		बर्नसाइड प्रमेय	theoretical orbit	सैद्धान्तिक कक्षा
theorem of Dedekind		डेडकिन्ड प्रमेय	theoretical thrust	सैद्धान्तिक प्रणोद
theorem of Hardy and Littlewood		हार्डी तथा लिटिलवुड का प्रमेय	theoretical treatment	सैद्धान्तिक निरूपण
theorem of Hazzidakis		हेजिडेकिस प्रमेय	theoretical unit	सैद्धान्तिक मात्रक
theorem of Klinkerfues		क्लिंकरफ्यूस-प्रमेय	theoretician	सिद्धांतो
theorem of Maschke		मान्के-प्रमेय	theory	सिद्धान्त, वाद
theorem of moments		आघूर्णों का प्रमेय	theory and practice	सिद्धान्त और प्रयोग
theorem of Neother		नोथेर प्रमेय	theory of absolute reaction rates	निरसोप अभिक्रिया अर्थवाद
theorem of parallel axes		समांतर अक्षों का प्रमेय	theory of accretion	अभिवृद्धि सिद्धान्त
theorem of parallelism		समांतरता-प्रमेय	theory of acrofoils	एरोफायल-सिद्धान्त
theorem of residues		व्यशेषाद्य प्रमेय	theory of animal exclusion	प्राणि वर्जन सिद्धान्त
theorem of splitting		विपाटन प्रमेय	theory of axisymmetric turbulence	अक्षममित-प्रक्षोप-सिद्धान्त
theorem of three moments		त्रिआघूर्ण-प्रमेय	theory of Bossick	बोसिक वाद
theorem of vanishing flux		लोपशील अतिवाह प्रमेय	theory of capillary waves	पृष्ठतनावी तरंग सिद्धान्त
theoretical		सैद्धान्तिक	theory of carapel polymorphism	अल्प बहुरूपता वाद
theoretical demand function		सैद्धान्तिक माँग फलन	theory of catastrophists	प्रलय वाद
theoretical discrete distribution		सैद्धान्तिक असतत वंटन	theory of combustion	दहन-सिद्धान्त
theoretical error		सैद्धान्तिक त्रुटि	theory of continuity of germ plasm	जनितद्रव्य का सान्ध्यवाद
theoretical exhaust velocity		सैद्धान्तिक निष्कासन वेग	theory of Debye and Huel	डेबाई-हुकल-सिद्धान्त
theoretical fit		सैद्धान्तिक समजन	theory of dimensions	विमात्रों का सिद्धान्त
theoretical formulation		सैद्धान्तिक सूरूपण	theory of dislocation	स्फाट भ्रम सिद्धान्त
theoretical frequency		सैद्धान्तिक बारंबारता	theory of electrocapillarity	विद्युत् बोशिवान्य सिद्धान्त
theoretical function		सैद्धान्तिक फलन	theory of equations	समीकरण सिद्धान्त
theoretical geometry		सैद्धान्तिक ज्यामिति	theory of equipartition of energy	ऊर्जा समविभाजन सिद्धान्त
theoretical intensity		सैद्धान्तिक तीव्रता		



theory of error and observation		प्रेक्षण-अशुद्धि सिद्धांत	theory of spectra		स्पेक्ट्रम का सिद्धांत
theory of errors		दृष्टि सिद्धांत	theory of stability		स्थायित्व वाद
theory of estimation		वाकलन सिद्धांत	theory of strainless ring		विततिहीन बलय सिद्धांत
theory of evolution		विकासवाद	theory of substitution		प्रतिस्थापन सिद्धांत
theory of exchange		विनियम सिद्धांत	theory of transformation		रूपांतरण सिद्धांत
theory of ferroelectricity		लोह विद्युत् सिद्धांत	theory of waiting lines (=queuing theory)		पंक्ति सिद्धांत
theory of finite disturbances		परिमित विक्रोम-सिद्धांत	theory of wave guides		तरंग पथ-निर्धारक सिद्धांत
theory of Fuchs		फुक्स वाद	theory of waves		तरंग सिद्धांत
theory of functions		फलन सिद्धांत	theory of wealth		धन सिद्धांत
theory of games		खेल सिद्धांत	theory of Wiener		वीनर वाद
theory of Gouy and Chapman		गूय-चैपमन वाद	thermalite	<i>Geol.</i>	थेरालाइट
theory of gravitation		गुरुत्वाकर्षण-सिद्धांत	thermalitic		थेरालाइट
theory of imputed value		आरोपित मान सिद्धांत	therapeutic	<i>Chem., Zool. H.Sc.</i>	चिकित्सीय
theory of information		सूचना सिद्धांत	therapeutic diet		उपचारार्थ आहार, चिकित्साार्थ आहार
theory of invariants		निश्चर-सिद्धांत	therapeutic drug		चिकित्सीय औषध
theory of lateral secretion		पार्श्व स्रवण सिद्धांत	therapeutic efficiency		चिकित्सीय दक्षता
theory of Lewis and Sidgwick		लूइस सिजविक वाद	therapeutics		चिकित्सा शास्त्र
theory of lubrication		स्नेहन सिद्धांत	therapeutic use		चिकित्सीय उपयोग
theory of mechanical similitude		यांत्रिक सादृश्य सिद्धांत	therapsid	<i>Zool.</i>	स्तनी-नरीसृप
theory of metagames		बध्मिखेल सिद्धांत	Therapsida	<i>Zool.</i>	थेरैप्सिडा
theory of natural selection		प्राकृतिक चरणवाद	therapy	<i>H.Sc., Bot.</i>	उपचार, चिकित्सा
theory of Onsager		ओन्सागर वाद	Therevidae	<i>Zool.</i>	थेरैविडी
theory of polytropic spheres		अनुपाती गोला सिद्धांत	Theria	<i>Zool.</i>	थीरिया
theory of relation structure		संबंध संरचना सिद्धांत	Theridion	<i>Zool.</i>	थीरिडिऑन
theory of replacement (=theory of failure)		प्रतिस्थापन सिद्धांत	theriodont	<i>Zool.</i>	थीरिओडॉन्ट
theory of runs	<i>Math.</i>	परम्परा सिद्धांत	Theriodontia		थीरिओडॉन्गिया
theory of sets		समुच्चय-सिद्धांत	therm (unit)	<i>Phy.</i>	थर्म
theory of small disturbances		लघु विक्रोम सिद्धांत	thermal		1. ऊष्मीय (heat) 2. तापीय (temperature)
			thermal acceptor		तापीय स्वीकारो
			thermal agitation		तापीय प्रक्षोभ
			thermal analog		ऊष्मीय अनुरूप
			thermal anomaly		तापीय असंगति

<i>thermal anticyclone</i>	तापीय प्रतिचक्रवात	<i>thermal dissociation</i>	तापीय विद्योत्पन्न
<i>thermal balance</i>	ऊष्मीय सतुलन	<i>thermal efficiency</i> (of a heat engine)	ऊष्मीय दक्षता
<i>thermal barrier</i>	तापीय उपरोध	<i>thermal effusion</i>	तापीय निस्सरण
<i>thermal battery</i>	तापीय बैटरी	<i>thermal embrittlement</i>	ऊष्मीय भंगुरणबुद्धि
<i>thermal belt</i>	तापीय मेखला	<i>thermal emission</i>	तापोत्सर्जन
<i>thermal black</i>	ऊष्मीय कृष्ण, धर्मल ब्लैक	<i>thermal endurance</i>	ऊष्मा सह्यता
<i>thermal boundary layer</i>	तापीय परिसीमा पृष्ठ	<i>thermal energy</i>	ऊष्मीय ऊर्जा
<i>thermal breakdown</i>	तापीय भंग	<i>thermal equator</i>	तापीय मूमध्य रेखा
<i>thermal breeder reactor</i>	तापीय प्रजनक रिएक्टर	<i>thermal equilibrium</i>	तापीय साम्य, तापीय सतुलन
<i>thermal capacity</i>	ऊष्मा धारिता	<i>thermal equivalent</i>	ऊष्मीय तुल्यमान
<i>thermal coefficient</i>	ऊष्मीय गुणांक	<i>thermal excitation</i>	ऊष्मीय उत्तेजन
<i>thermal column</i>	तापीय स्तम्भ	<i>thermal expansion</i>	तापीय प्रसार
<i>thermal conductivity</i>	ऊष्मा चालकता	<i>thermal expansion coefficient</i>	तापीय प्रसार गुणांक
<i>thermal conductivity tensor</i>	ऊष्मा चालकता प्रदिश	<i>thermal expansivity</i>	ऊष्मा प्रसरणीयता
<i>thermal conductor</i>	ऊष्मा चालक	<i>thermal fission</i> (=slow neutron fission)	तापीय विखंडन, मथर न्यूट्रॉन विखंडन
<i>thermal constriction mechanism</i>	ऊष्मीय संकीर्णन क्रिया-विधि	<i>thermal flasher</i>	तापीय दमनकारी
<i>thermal contact</i>	तापीय सम्पर्क, ऊष्मीय सम्पर्क	<i>thermal gradient</i>	तापीय प्रवणता
<i>thermal convection</i>	ऊष्मा-संवहन	<i>thermal hysteresis</i>	तापीय शैथिल्य
<i>thermal cracking</i>	तापीय भजन	<i>thermal inactivation point</i>	तापीय निष्क्रियण बिन्दु
<i>thermal creep</i>	तापीय सर्पण	<i>thermal inertia</i>	तापीय जड़त्व
<i>thermal cross section</i>	तापीय परिक्षेत्र	<i>thermal insulating cement</i>	ऊष्मा रोधी सीमेन्ट
<i>thermal cut out</i>	तापीय विच्छेदक	<i>thermal instability</i>	तापीय अस्थिरता
<i>thermal death point</i>	तापीय मृत्यु बिन्दु	<i>thermal insulation</i>	ऊष्मा रोधन
"thermal death time"	"ऊष्मीय मृत्यु समय"	<i>thermal ionization</i>	तापिक आयनन
<i>thermal decomposition</i>	ऊष्मा अपघटन	<i>thermalisation</i>	Phy. तापीयन
<i>thermal demagnetization</i>	ऊष्मीय विचुम्बकन	<i>thermal leakage factor</i>	Phy. तापोर्जा न्यूट्रॉन हारणांक
<i>thermal depression</i>	तापीय अवनमन	<i>thermal low</i>	तापीय न्यून दाब
<i>thermal diffusion</i>	तापीय विसरण	<i>thermally activated</i>	ताप सक्रियित
<i>thermal diffusion length</i>	तापीय विसरण दूरी	<i>thermally sensitive resistor</i>	ताप सुग्राही प्रतिरोधक
<i>thermal diffusion method</i>	तापीय विसरण विधि	<i>thermal meter</i>	तापीय मापी
<i>thermal diffusivity</i>	तापीय विसरणशीलता		

thermal mixing thickness	तापीय मिश्रण स्थूल्य, तापीय मिश्रण मोटाई	thermal stress	तापीय प्रतिबल
thermal motion	तापीय गति	thermal structure	ऊष्मीय-संरचना
thermal movement	ऊष्मीय संचलन	thermal switch	तापीय स्विच
thermal neutrality	ऊष्मीय उदासीनता	thermal transpiration	तापीय वाष्पोत्सर्जन
thermal neutron	तापीय न्यूट्रॉन	thermal treatment	तापीय अभिक्रिया
thermal noise	तापीय रव	thermal tuner	तापीय समस्वरक
thermal nuclear reactor	तापीय न्यूट्रॉन न्यूक्लीय रिएक्टर	thermal tuning	तापीय समस्वरण
thermal optical properties	ताप प्रकाशिक गुणधर्म, ताप-चाक्षुष गुणधर्म	thermal tuning time	तापीय समस्वरण काल
thermal phosphate	ऊष्मीय फॉस्फेट	thermal unit	ताप मात्रक
thermal point defect	तापीय बिन्दु त्रुटि	thermal utilization factor	तापीय उपयोगन गुणक, तापिक उपयोग गुणक
thermal polymerisation (Unitary thermal polymerisation)	ऊष्मीय द्रवुकन	thermal value (of fuel)	ऊष्मीय मान
thermal potential	तापीय विभव	thermal velocity	तापीय वेग
thermal power breeder	ऊष्मीय शक्ति प्रजनक	thermal vibration	ऊष्मीय कंपन
thermal process	ऊष्मीय प्रक्रम	thermal wind	तापीय पवन
thermal radiation	ऊष्मा विकिरण	thermal zone	ताप क्षेत्र
thermal radio emission	तापीय रेडियो उत्सर्जन	thermel	<i>Chem.</i> तापविद्युत्तिका, थर्मेल
thermal reactor	तापीय रिएक्टर	thermic axis	<i>Phy.</i> ऊष्मिक अक्ष
thermal reforming	ऊष्मीय पुनःसंभावन	thermindex	<i>Chem.</i> ( <i>Met.</i> ) ताप सूचिका
thermal regeneration	ऊष्मीय पुनर्योजन	thermion	<i>Phy., Math., Chem.</i> तापायन
thermal resistance (of a semiconductor device)	तापीय प्रतिरोध	thermionic characteristics	तापायनी अभिलक्षणिक
thermal resistivity	ऊष्मा-प्रतिरोधकता	thermionic current	तापायनिक धारा
thermal response	तापीय अनुक्रिया	thermionic detector	तापायनिक संसूचक
thermal runaway	तापीय स्वचलन	thermionic effect	तापायनी प्रभाव
thermal shield	ऊष्मा परिरक्षक	thermionic emission	तापायनिक उत्सर्जन
thermal spectrum	तापीय स्पेक्ट्रम	thermionic relay	तापायनिक रिले
thermal speed	तापीय चाल	thermionics	तापायनिकी
thermal spike	तापीय शूक	thermionic valve	तापायनिक वाल्व
thermal spring (hot spring)	गरम झरना, गरम चश्मा	thermionic voltmeter	तापायनिक वोल्टमापी
thermal state	ऊष्मावस्था	thermionic work function	तापायनिक कार्य-फलन
thermal stratification	तापीय स्तरण	thermistor	तापी प्रतिरोधक, थर्मिस्टर ऊष्म प्रतिरोधक
		thermistor bolometer	ऊष्म प्रतिरोधी तेजमापी
		thermistor bridge	थर्मिस्टर सेतु

thermit combined weld (pressure thermit weld)	<i>Chem.</i>	दाब थर्मिट संधान	thermodynamic convention	ऊष्मागतिक हति
thermite	<i>Geol.</i>	थर्मोइट	thermodynamic coordmate	ऊष्मागतिक निर्देशांक
thermite process		थर्मोइट विधि, थर्मोइट प्रक्रम	thermodynamic cycle	ऊष्मागतिक चक्र
thermit mixture	<i>Chem.</i>	थर्मिट मिश्रण	thermodynamic data	ऊष्मागतिक आंकड़े
Thermix collector	<i>Geol</i>	थर्मिक्स संग्राहित्र	thermodynamic derivation	<i>Chem.</i> ऊष्मागतिक व्युत्पत्ति
Thermix dust collector		थर्मिक्स धूलि संग्राहित्र	thermodynamic derivative	<i>Math</i> ऊष्मागतिक अवकलज
thermocammeter	<i>Phy.</i>	तापविद्युत ऐमीटर	thermodynamic diagrams	ऊष्मागतिक आरेख
thermobalance	<i>Chem</i>	थर्मोबैलैन्स	thermodynamic dissociation constant	ऊष्मागतिक वियोजन स्थिरांक, थर्मोडिसोसिएशन वियोजन स्थिरांक
thermochemical calorje	<i>Chem, Phy.</i>	ऊष्मरासायनिक कैलोरी	thermodynamic efficiency	ऊष्मागतिक दक्षता
thermochemical constant		ऊष्मरासायनिक स्थिरांक	thermodynamic equilibrium	ऊष्मागतिक साम्य, ऊष्मागतिक सतुलन
thermochemical equation		ऊष्मरासायनिक समीकरण	thermodynamic fluctuations	ऊष्मागतिक उल्कावचन
thermochemical laws		ऊष्मरासायनिक नियम	thermodynamic identity	ऊष्मागतिक सर्वसमिका
thermochemical radius		ऊष्मरासायनिक त्रिज्या	thermodynamic inequality	ऊष्मागतिक असमिका
thermochemical unit		ऊष्मरासायनिक मात्रक	thermodynamic perturbation theory	ऊष्मागतिक लोप सिद्धांत
thermochemical value		ऊष्मरासायनिक मान	thermodynamic potential	ऊष्मागतिक विभव
thermochemistry	<i>Chem.</i>	ऊष्मरासायन	thermodynamic probability	ऊष्मागतिक प्रायिकता
thermochronism	<i>Chem.</i>	ऊष्मवर्णकता	thermodynamic property	ऊष्मागतिक गुणधर्म
thermoeleistogamy	<i>Bot</i>	ताप अनुन्वीन्य परागण	thermodynamic quantity	ऊष्मागतिक राशि
thermocline	<i>Geog, Zool</i>	1 ताप-प्रवणता 2 तापप्रवणस्तर	thermodynamic reversibility	ऊष्मागतिक उत्क्रमणीयता
thermocolours	<i>Chem.</i>	ताप रंग	thermodynamics	<i>Phy.</i> उष्मागतिकी, ऊष्मागतिक विज्ञान
thermocompression	<i>Phy.</i>	ताप सपीडन	thermodynamic scale of temperature	ऊष्मागतिक तापक्रम
thermocompression bonding (=T-c bonding)		ताप सपीडन बंधन	thermodynamic system	ऊष्मागतिक तंत्र
thermo-couple	<i>Phy, Chem.</i>	ताप-वैद्युत युग्म		
thermocouple well		ताप-वैद्युत रूप		
thermo-diffusion	<i>Chem, Phy</i>	तापीय विसरण		
thermoduric bacteria	<i>Bot.</i>	तापसह जीवाणु		
thermodynamic	<i>Phy., Chem Math.</i>	ऊष्मागतिक		
thermodynamically reversible		ऊष्मागतिकत उत्क्रमणीय		

thermodynamic variable		ऊष्मागतिक चर	thermoelement (thermoelectric junction)	Phy.	ताप विद्युतक, थर्मोएलिमेंट
thermoelastic	Phy., Math., Chem.	तापप्रत्यास्य	thermofax process	Chem.	परिशुष्क प्रक्रम, थर्मोफक्स प्रक्रम
thermoelastic damping		तापप्रत्यास्य अवमंदन	thermoflux		थर्मोफ्लक्स
thermoelastic problem		तापप्रत्यास्यता-समस्या	thermofor catalytic cracking	Chem.	ऊष्मसंभावी उत्प्रेरक भंजन, थर्मोफोर उत्प्रेरक भंजन
thermoelectric	Phy.	ताप-वैद्युत	thermofor continuous percolation		थर्मोफोर सतत अंतःस्रवण, ऊष्मसंभावी सतत अंतःस्रवण
thermoelectric coefficient		ताप-वैद्युत गुणांक	thermofor kiln		थर्मोफोर बापाक, ऊष्मसंभावी बापाक
thermoelectric current		ताप-वैद्युत धारा	thermogalvano-magnetic effect		ताप-वैद्युत चुम्बकीय प्रभाव
thermoelectric diagram		ताप-वैद्युत आरेख	thermo-galvanometer		ताप-वैद्युत धारामापी
thermoelectric disturbance		ताप-वैद्युत क्षोभ	thermogenic	Zool., Bot.	तापजनक, ऊष्मोत्पादक
thermoelectric effect		ताप-वैद्युत प्रभाव	thermogram	Chem., Geog.	थर्मोग्राम, तापजालेख
thermoelectric function		ताप-वैद्युत संघि	thermograph	Phy., Chem.	1. तापलेखी 2. ऊष्मलेखी
thermoelectric galvanometer		ताप-वैद्युत धारामापी	thermography		ऊष्मलेखन
thermo-electric inversion		ताप-वैद्युत प्रतिलोमन	thermogravimetric method	Chem.	तापभारात्मक पद्धति
thermoelectricity	Phy.	ताप-विद्युत्	thermohaline	Geog.	थर्मोहैलाइन
thermoelectric microrefrigerator		ताप-विद्युत् सूक्ष्म प्रशीतित्र	thermo-hydromechanical effect	Phy.	तापीय द्रव-यांत्रिक प्रभाव
thermoelectric module		ताप-विद्युत् माँड्यूल	thermo-hygrograph	Geog.	ताप आर्द्रतालेखी यंत्र
thermoelectric phenomenon		ताप-वैद्युत परिघटना	thermoisopleth diagram	Geog.	तापसममानरेखा आरेख, थर्मोआइसोप्लेथ आरेख
thermoelectric power		ताप-वैद्युत शक्ति	thermojet	Phy.	ताप जेट
thermoelectric series		ताप-वैद्युत अनुक्रम	thermojunction	Geol. & Phy.	तापसंघि
thermoelectric tensor		ताप-वैद्युत प्रदिश	thermocarst	Geog.	थर्मोकार्स्ट
thermoelectric thermometer		ताप-वैद्युत तापमापी, ताप वैद्युत-थर्मामीटर	thermocarstic process		थर्मोकार्स्टीय प्रक्रम
thermoelectric thermometry		ताप-वैद्युत-तापमिति	thermolabile	Bot., Chem., Zool.	तापजलस्विर (तापस्थिर)
thermoelectric valve manometer		ताप-वैद्युत वाल्व निपीडांतर	thermolability		तापअस्थिरता
thermo-electromotive force		ताप-विद्युत् बाहक बल	thermolizing	Chem.	थर्मोलाइजन
thermo electron	Phy.	तापिक इलेक्ट्रॉन, तापन इलेक्ट्रॉन	thermoluminescence	Geol., Phy.	तापसंदीप्ति
			thermoluminescent		तापसंदीप्तिशील
			thermolysis	Chem.	ताप-अपघटन, तापांशन

thermomagnetic	<i>Phy.</i>	ताप चुंबकीय	thermophilic species		तापरागी जन्ति
thermo-magnetic effect		ताप चुंबकीय प्रभाव	thermophilous	<i>Bot.</i>	तापरागी
thermomechanical effect	<i>Chem.</i>	ऊष्मा यान्त्रिक प्रभाव	thermophily		तापरागिता
thermometer	<i>Phy, Chem.</i>	तापमापी, थर्मामीटर	thermophone	<i>Phy.</i>	थर्मोफोन
thermometric conductivity		तापमापीय चालकता	thermophosphorescence	<i>Phy</i>	तापस्फुरदीप्ति
thermometric lag		तापमापीय परन्तता	thermophylite	<i>Geol</i>	थर्मोफाइलाइट
thermometric scale		ताप-मापक्रम	thermopile	<i>Phy</i>	ताप-वैद्युत पुंज, ताप-वैद्युत पाइल
thermometric substance		तापमापीय पदार्थ	thermoplastic	<i>Phy, H Sc</i>	तापमुनम्प, तापसुषट्य
thermometric titration		तापमितीय अनुमान, तापमितीय टाइट्रीकरण	thermoplasticity	<i>Chem</i>	तापसुषट्यता, तापमुनम्पता
thermometrograph	<i>Phy.</i>	तापलेखी	thermopleion	<i>Geog.</i>	थर्मोप्लेईऑन
thermometry	<i>Phy.</i>	तापमिति	thermo-reactive	<i>Chem.</i>	ऊष्माभिक्रिय
thermomill	<i>Geol</i>	तापमिल	thermoreceptor	<i>Zool, Phy</i>	ऊष्मा ऊष्माही
thermo molecular pressure	<i>Phy.</i>	ताप अणुक दाब	thermorecording balance	<i>Chem</i>	उत्ताप अभिलेखी तुला
thermomotive force	<i>Phy.</i>	ऊष्मीय चालक बल	thermoregulation	<i>Bot, Phy, Chem.</i>	ताप-नियमन
thermonastic		ताप-अनुकुचनी	thermo-regulator		ताप-नियामक
thermonasty		ताप-अनुकुचन	thermoregulator head		ताप-नियामक शीर्ष
thermonatrite	<i>Chem.</i>	थर्मोनेट्राइट	thermoregulatory mechanism		ताप-नियमन क्रियाविधि
thermoneutrality	<i>Zool.</i>	तापनिरपेक्षता	thermorelay	<i>Phy.</i>	तापीय रिंले
thermonuclear apparatus	<i>Phy., Chem.</i>	तापनाभिकीय उपकरण, ताप न्यूक्लीय उपकरण	thermo-remnant	<i>Geog., Geol</i>	तागावशिष्ट, ऊष्मावशिष्ट
thermonuclear bomb		तापनाभिकीय बम, ताप न्यूक्लीय बम	thermo-remnant magnetization		ऊष्मावशिष्ट चुम्बकन, तागावशिष्ट चुम्बकन
thermonuclear energy		तापनाभिकीय ऊर्जा, ताप न्यूक्लीय ऊर्जा	thermo-resistometer	<i>Chem. (Food)</i>	ऊष्म-प्रतिरोधमापी
thermo-nuclear reaction		तापनाभिकीय अभिक्रिया, ताप न्यूक्लीय अभिक्रिया	thermos	<i>Phy.</i>	थर्मस
thermoperiodism	<i>Biol.</i>	तापकालिता	thermos bottle	<i>H.Sc.</i>	थर्मस बोतल
thermophil (thermophilic)	<i>Zool. Chem.</i>	तापरागी ऊष्मस्नेही	thermoscope	<i>Phy.</i>	तापदर्शी
thermophile	<i>Zool. Bot.</i>	तापरागी अधिकतापप्रिय	thermoscopic	<i>Zool.</i>	तापबोधक
thermophilic bacteria		ऊष्मस्नेही जीवाणु	thermoscal	<i>Chem.</i>	थर्मोस्केल
thermophilic organism	<i>Chem.</i>	ऊष्मस्नेही जीव, ऊष्म स्नेही अणु	thermo-sensitive	<i>Zool.</i>	तापसुषाही
			thermoset extrusion molding	<i>Chem.</i>	तापदृढ़ बहिर्बोरो संवन
			thermosetting material	<i>Phy, H.Sc.</i>	ताप दृढ़-पदार्थ
			thermosetting plastic		ताप दृढ़ प्लास्टिक

thermos flask		थर्मस फ्लास्क	theta function	Math.,	थीटा-फलन
thermosol dyeing	H.Sc.	थर्मोसॉल रंजन	theta meson (meson)		थीटा मेसॉन, $\theta$ मेसॉन
thermosorter	Chem.	रूपनचायक	theta-temperature		थीटा-ताप
thermosphere	Geog.,Phy.	थर्मोस्फीयर, बाह्य वायुमंडल	Thevenin's theorem	Phy.	थेवेनिन प्रमेय
thermostable	Zool.,Bot.	तापस्थिर, तापस्थायी	Thevetia nerifolia	Bot.	थेवेटिया नेरीफोलिया (पीला कनेर)
thermostable catalase		तापस्थायी कॅटेलेज	thetvetigenin	Chem.	थिवीटिजेनिन
thermo-stage	Bot.	तापापेक्षी अवस्था	thevitin	Chem.	थेवीटिन
thermostat	Phy.,Zool.	तापस्थापी	thia-adamantane	Chem.	थाया-ऐडमन्टेन
thermo-state	Bot.	तापापेक्षी अवस्था	thiamenase	Chem.	थायामिनेस
thermostatic		ताप स्थैतिक	thiamine	Chem.,H.Sc.	थायामीन
thermostatically controlled	Phy.	तापस्थापी नियंत्रित, तापस्थापीयतः नियंत्रित	thiamin-omitted medium	Bot.	थायामिन रहित माध्यम
thermostatic control	Zool.	रूपनस्थैतिक नियंत्रण	thianthren	Chem.	थायेंथ्रेन
thermostatic problem	Math.	तापस्थैतिक समस्या	thiantoin	Chem.	थायान्टोइन
thermostaties	Phy.	रूपनस्थैतिकी	thiazolidine	Chem.	थायान्जोलिडीन
thermostatic switch		ताप स्थिरक स्विच	thiazyl	Chem.	थाइऐज़िल
thermostat material		ताप स्थिरक पदार्थ	thibaude	H.Sc.	थाइबाउडे
thermostat relay		ताप स्थिरक रिले	thick-averted lip	Geog.	स्थूल परिपत्य ओष्ठ
thermotaxis	Phy.	ताप अनुचलन	thickbilled flower-pecker	Zool.	स्थूलबच्चु पुष्पचूषी
thermotropic	Bot.	तापानुवर्तनी	thick dipole	Phy.	मोटा द्विध्रुव
thermotropic curvature		तापानुवर्ती वक्रता	thickened	Geog.	स्थूल
thermotropism		तापानुवर्तन	thickened contour		स्थूल समोच्चरेखा
thermoviscosimeter	Chem.	तापीय श्यानतामापी, थर्मोविस्कोमीमीटर	thickener	Zool.,Geol.,H.Sc.	1. स्थूलक 2. प्रगाढ़कर
thermovoltmeter	Phy.	ताप-वैद्युत चोत्समापी	thickening	Geol.,H.Sc.,Chem.	1. स्थूल होना, मोटा होना 2. प्रगाढ़न
thermoxene	Bot.	तापसह	thickening agent		प्रगाढ़क
Therocephalia	Zool.	थीरोसेफैलिया	thickening cones	Geol.	प्रगाढ़कारी शंकु
Therodontia	Zool.	थीरोडॉन्टिया	thickening of epidermis	Geog.,H.Sc.	वर्धित स्तूलन
theromorphous condition	Zool.	थीरोमॉर्फो अवस्था	thickening of strata		स्तर स्थूलन
Theromyzon	Zool.	थीरोमाइज़ॉन	thicket	Bot.,Geog.	निक्षुब्ध, क्षुरमूट
theronte	Zool.	थीरोन्ट	thick fog	Geog.	निदिह कुहरा
therophyte	Bot.	एकश्रुत पादप, श्रुतभिद्	thick lens	Phy.	मोटा लेन्स
Theropoda	Zool.,Geol.	थीरोपोडा	thickly settled area		घना घना क्षेत्र
thesocyte	Zool.	थेसोसायु			
Thespesia macrophylla	Bot.	थेस्पेसिया मॅक्रोफिल्ला			

thick mirror	Phy	थोटा दर्पण	thinawa	H.Sc.	थिनावा
thick mist	Geog	घना कुहासा	thin bedded	Geol.	1 तनु सलरित 2 (scale of fissility) तनुविदली
thickner	Chem., H.Sc.	प्रगाढ़क	thin fabric	H.Sc.	महीन वस्त्र
thickness		थोटाई, स्थूलता	thin film	Geog., Chem., Phy.	तनुफिल्म, पतली परत
thickness of M-crust		एम-कपटी स्थूलता	thin film circuit		तनुफिल्म परिपथ
thickness ratio		थोटाई अनुपात	thin film transistor		तनुफिल्म ट्रांजिस्टर
thickset	H.Sc.	थिकसेट	thinfolious	Bot.	अस्थिरबालुनावासी
thickset people	Geog	नाटे लोग	thinning		विरलन, छितरना
thick sheet		स्थूल शीट	thin ionisation	Phy	विरल आयनन
thick source	Phy	स्थूल स्रोत	thin lens	Phy	पतला लेंस
thick-spike	Geog	थिकस्पाइक (घास)	thinly bedded	Geol.	तनु सलरित
thick subgroup	Math	घना उपसमूह	thinly inhabited part	Geog	विरल आवास भाग
thick subset		घना उपसमुच्चय	thinly peopled state	Geog	न्यूनावास राज्य
thick target		स्थूल लक्ष्य	thinly settled area	Geog.	विरल बसा क्षेत्र
<i>Thelaviopsis paradoxa</i>	Bot	थीलेविऑप्सिस पैराडॉक्सिस	thin magnetic field	Math	क्षीण चुंबकीय क्षेत्र
thiele sliik	H.Sc.	थीलेमिल्क	Thiinfeldia flora	Bot	थिनफेल्डिया फ्लोरा
Thiele's theory	Chem	थीले सिद्धान्त	thinning		1 विरलन 2 तनुभवन
Thiele tube	Chem	थीले-नली, थीले नलिका	thinning of strata		स्तर तनुभवन
thienylalanine	Chem	थायोनिलैलैनीन	Thinocoridae	Zool	थिनोकोरिडी
thigh	H.Sc., Zool.	ऊरु	thinolite	Geol.	थिनोलाइट
thigh bone	Geog.	ऊर्वस्थि	thinolithic tufa		थिनोलाइट टूफा
thigmocyte	Zool.	स्पर्शाणु	thin out	Geol	तनुभवन
thigmokinesis	Zool	स्पर्श गतिक्रम	thin pasture	Geog	विरल चरागाह
thigmomorphosis	Bot	स्पर्शरूपान्तरण	thin picture tube	Phy	तनु चित्र नलिका
thigmotactile bristle	Zool	स्पर्शानुचलनी शूक	thin plate		पतली पट्टिका
thigmotactile cilia		स्पर्शानुचलनी पशुमास	thin source		तनु स्रोत
thigmotaxis	Bot, Zool	स्पर्शानुचलन	thin target		तनु लक्ष्य
thigmotropic		स्पर्शानुवर्तनी	thio-acid	Chem.	थायो-अम्ल, थायो-थैथिड
thigmotropism	Bot.	स्पर्शानुवर्तन	thio-alcohol		थायो-एल्कोहॉल
thimble		अगुस्ताना, अगुलकाश, अगुलिक	thioamylal		थायो-एथिलस
thimble berry	H.Sc.	थिम्बल बेरी	thioanhydride		थायो-थैनाइड्राइड
thimble ionization chamber		अगुलिक आयनन कोष्ठ	thio-antimonate		थायो-थैन्टिमोनेट
thimble shape		अगुस्ताना रूप	thioantimonite		थायोथैन्टिमोनाइट
thin aerofoil	Math	तनु एरोफोइल	thio-arsenate		थायो आर्सेनेट



thio-arsenious acid		थायो-आर्सेनियस अम्ल, थायोआर्सेनियस एसिड	thiokinase	Chem.	थायोकाइनेस
thio-arsenite		थायो-आर्सेनाइट	thiokol	Chem.	थायोकॉल
<i>Thiobacillus novellus</i>		थायोवैसिलस नोवेलस	thiolase	Chem.	थायोलेस
<i>Thiobacterium bovista</i>		थायोवैक्टीरियम वोविस्टा	thiol-ester	Chem.	थाइथोल एस्टर
thiobendazole	Chem.	थायोबेन्डेजोल	thiol-histidine	Chem.	थाइथोल हिस्टिडीन
<i>Thiobroma cacao</i> (cocoa)	Chem.	थायोब्रोमा कोकाउ (कोको)	thio-lutin	Chem.	“थायोत्यूटिन”
thiobromine	H.Sc.	थायोब्रोमीन	thion	H.Sc.	थाइऑन
<i>Thiocapsa floridana</i>	Bot.	थायोकैप्सा फ्लोरिडेना	thionalide	Chem.	थायोनाइलाइड
thio-carbamate	Chem.	थायो-कार्बोमेट	thionex	Chem.	थायोनेक्स
thiocarbamide		थायोकार्बोमाइड	thion hudor	Chem.	थायॉन ह्यूडर
thio-carbanilide		थायो-कार्बोनाइड	thionuric acid	Chem.	थायोनयूरिक अम्ल, थायोनयूरिक एसिड
thio-carbonate		थायो-कार्बोनेट	thionyl	Chem.	थायोनिल
thiocarbonic acid		थायोकार्बोनिंक अम्ल	<i>Thiopedia rosea</i>	Bot.	थायोपीडिया रोजिया
thio-chloride		थायो-क्लोराइड	thiophane	Chem.	थायोफेन
thiochrome		थायोक्रोम	thiophanic acid		थायोफेनिक अम्ल
thiochrome method	Bot.	थायोक्रोम विधि	thiophene	Chem.	थायोफीन
thiochromite		थायोक्रोमाइट	thiophenol		थायोफीनॉल
thioctic acid		थायोक्टिक अम्ल	thiophil		सल्फाइडरागी
thiocuprite		थायोक्वूप्राइट	thiophile element		सल्फाइडरागी तत्व
thiocyanate	H.Sc.	थायोसायनेट	thiophilic	Zool.	सल्फाइडरागी
thiocyanation		थायोसायनीकरण	<i>Thioploca minima</i>	Bot.	थायोप्लोका मिनिमा
thiocyanato		थायोसायनेटो	<i>Thiopolycoccus ruber</i>	Bot.	थायोपॉलीकोकस र्यूवर
thio-cyanide		थायो-सायनाइड	<i>Thiosarcina rosea</i>	Bot.	थायोसर्सिना रोजिया
thio-cyanite		थायो-सायनाइट	<i>Thiospera bipunctata</i>	Bot.	थायोस्पेरा वाइपंक्टेटा
thio-cyanogen		थायोसायनोजन	<i>Thiospirillopsis floridana</i>	Bot.	थायोस्पिरिलॉप्सिस फ्लोरिडेना
thiocyanogen number		थायोसायनोजन संख्या	<i>Thiospirillum crassum</i>	Bot.	थायोस्पिरिलम क्रैसम
thiocyanogen value		थायोसायनोजन मान	thio-stannate	Chem.	थायो-स्टेनेट
<i>Thiocystis rufa</i>	Bot	थायोसिस्टिस रूफा	thio-sulphate		थायो-सल्फेट
<i>Thiodictyon elegans</i>	Bot.	थायोडिक्टिऑन इलीगेंस	thio-sulphuric		थायो-सल्फयूरिक
thioelaterite	Geol.	थायोएलैटेराइट	<i>Thiothrix anulata</i>	Bot.	थायोथ्रिक्स एन्यूलेटा
thioethanolamine	Chem., Bot.	थायोइथेनॉलऐमीन	thiotriithiazyl chloride	Chem.	थायोट्राइथाइ-ऐजिल क्लोराइड
thio-ether	Chem.	थायो-ईथर			
thio germanate		थायोजर्मनेट			

thiouracil	Chem.	थायोयूरेसिल	Thomson coefficients of scattering		प्रकीर्णन का टॉमसन गुणांक
thiourea		थायोयूरिया	thomsonite	Geol.	टॉमसोनोलाइट
thiovit	Zool.	थायोविट	Thomson's apparatus	Chem.	टॉमसन उपकरण
<i>Thiovulum majus</i>	Bot	थायोवुलम मेजस	Thomson's formula		टॉमसन का सूत्र
thiozole-feeding	Bot	थायोत्रोल-अन्न	Thom's transversability theorem	Math	टॉम उत्क्रमणीयता प्रमेय
thiram	Chem	थाइरैम	thonne	H Sc.	थोन
third moment coefficient	Math.	तृतीय आघूर्ण गुणांक	thonzylamine	Chem.	थोन्ज़िलैमीन
third order		तृतीय कोटि	thoracic	Zool.	वक्षीय
third order action		तृतीय कोटि क्रिया	Thoracica	Zool.	थोरेसिका
third order theory	Phy.	त्रिपाती निश्चल	thoracic aorta		वक्षीय महाधमनी
third quartile		तृतीय चतुर्थक	thoracic duct		वक्षीय वाहिनी
<i>third ventricle</i>		तृतीय बेसम, तृतीय निलय	thoracic flight muscle		वक्षीय उड़कन पेशी
thistle funnel	Chem.	थिसेल-फ़ोन, थिसेल फनेल	thoracic ganglionic mass		वक्षीय गुच्छिका पुंज
thiuram	Chem.	थाइयूरैम	thoracic gland		वक्षीय ग्रन्थि
thixotropic	Zool.	कथानुवर्ती	thoracic nerve		वक्षीय तंत्रिका
thixotropy		कथानुवर्तित्व	thoracico-abdominal rudiment	Zool.	वक्ष-उदर आद्यावशेष
<i>Thladiantha calcarata</i>	Bot.	थ्लैडिऐन्था कैलकैरेटा	thoracic pleura		वक्षीय पार्श्वक
tholeiite	Geol	थोलीआइट	thoracic plexus		वक्षीय जालिका
tholeiitic flood basalt		थोलीइआटी प्लाव बेसाल्ट	thoracic pulsatile organ		वक्षीय स्पन्दकारी अंग
tholoid	Geol, Geog.	थोलॉयड	thoracic rib		वक्षीय पर्शुका
Thomas Gilchrist process	Chem.	टॉमस गिलक्रिस्ट प्रक्रम	thoracic spiracle		वक्षीय श्वासरंध्र
thomasite	Geol.	टॉमिसाइट	thoracic terga		वक्षीय पुच्छक
Thomas meal	Chem.	टॉमस पिष्ट	thoracic trachea		वक्ष श्वास प्रणाल
Thomas phosphate		टॉमस फॉस्फेट	thoracic vein		वक्षीय शिरा
Thomas-Reiche-kuhn rule		टॉमस राइक कुन नियम	thoracic vertebra		वक्षीय कशेरुक
thompsonolite	Geol.	टॉम्पसेनोलाइट	thoraco-abdominal diaphragm	Zool.	वक्षोदर मध्यपट
Thompson classifier (paints)	Chem.	टॉमसन वर्गीकारित्र	thoraco-abdominal shield		वक्षोदर षर्म
Thompson stewart process		टॉमसन स्टुअर्ट प्रक्रम	thoracodorsal artery	Zool.	वक्ष-पृष्ठ धमनी
Thomsen Bertholet Principle	Chem.	तामसन बेर्तोले निश्चल	thoracolumbar region	Zool.	वक्षकटि क्षेत्र
thomsenolite	Geol.	टॉम्सेनोलाइट	Thoracostei	Zool	थोरकोस्टिआई
Thomson coefficient	Math.	टॉमसन गुणांक	thoran	Chem. (Met)	थोरेन
			thorate	Chem.	थोरेट

thorax	<i>Zool., H.Sc.</i>	बक्ष	threadbare garb	<i>Geog.</i>	जीर्ण आवरण
thoreaulite	<i>Geol.</i>	थोरियुलाइट	thread-blight		सूत्री अंगमारी, सूत्री शीर्णता
thorex process	<i>Chem.</i>	थोरेक्स प्रक्रम	thread capsule		सूत्र संपुट
thoria	<i>Chem.</i>	थोरिया	thread cutter		घागा कर्त्तक
thorianite	<i>Chem. (Nucl)</i>	थोरिबानाइट	thread fin		सूत्रपख, सूत्रवाज
thoriated	<i>Chem.</i>	थोरियायुक्त	thread-gold		सूत्र स्वर्ण
thoride	<i>Chem.</i>	थोराइड	threading	<i>H.Sc.</i>	सूत्रण, घागा डालना
thorite	<i>Chem., Geol.</i>	थोराइट	thread like molecule		सूत्रवत् अणु
thorium	<i>Chem., Phy.</i>	थोरियम	thread of a screw		पेंच की चूड़ी
thorium phenyl arsonate		थोरियम फेनिल आर्सोनेट	thread of maximum velocity	<i>Geol.</i>	उच्चतम वेग-रेखा
thorium series		थोरियम श्रेणी	thread tension		घागे का तनाव
thorn		कंटक, कांटा	thread worm	<i>Bot., Zool.</i>	सूत्रकृमि
thorn apple	<i>Bot.</i>	घतूरा	threarcic acid	<i>Chem.</i>	थ्रिएरिक अम्ल
thorn climber		कंटकारोही	three-body collision	<i>Phy., Geol.</i>	त्रि-पिंड संघट्ट
thorn forest		कंटक वन, कंटीला जंगल	three-body recombination		त्रिपिंड पुनः संयोजन
thorn scrub		कंटीली झाड़ी	three-centre bond	<i>Chem.</i>	त्रि-केन्द्र आवन्ध
thorn woodland	<i>Bot.</i>	कंटकी वनस्थली	three centre displacement reaction		त्रिकेन्द्र विस्थापन अभिक्रिया
thorogummite	<i>Geol.</i>	थोरोगूमाइट	three centre reaction		त्रिकेद्री अभिक्रिया
thoron	<i>Chem.</i>	थोरोन	three circles theorem	<i>Math.</i>	त्रिवृत्त प्रमेय
thorotungstite	<i>Geol.</i>	थोरोटंगस्टाइट	three colour picture tube	<i>Phy.</i>	त्रिवर्ण चित्र नलिका
Thorpe-Ingold effect		थोर्पे-इंगोल्ड निष्पत्ति	three colour system		त्रिवर्ण तंत्र
Thorpe's reaction	<i>Chem.</i>	थोर्पे अभिक्रिया	three dimensional	<i>Math.</i>	त्रिविम
Thorpe Zeigler reaction		थोर्पे-जीगलर अभिक्रिया	three dimensional flow	<i>Math.</i>	त्रिविम प्रवाह
thortveitite	<i>Geol.</i>	थॉर्ट्वाइटाइट	three dimensional frame-work		त्रिविम पंजर
Thoulet solution	<i>Geol.</i>	टूले विलयन	three dimensional frond		त्रिविम पर्णांग पत्र
thourin (= tourin)	<i>H.Sc.</i>	थौरिन	three dimensional graph		त्रिविम ग्राफ
Thracia	<i>Bot.</i>	थ्रेसिया	three dimensional grating		त्रिविम ग्रेटिंग
<i>Thracia pubescens</i>	<i>Bot.</i>	थ्रेसिया प्यूबेसेन्स	three dimensional oscillator		त्रिविम दोलित्र
thrall	<i>Geog.</i>	दास, दासता	three dimensional space	<i>Math.</i>	त्रिविम आकाश
Thraustochytriaceae	<i>Bot.</i>	थास्टोकिट्रिएसी			
<i>Thraustotheca primoachlya</i>	<i>Bot.</i>	थ्रास्टोथेका प्राइमोऐक्लाया			
thread	<i>H.Sc., Chem. Zool. Phy.</i>	सूत्र, घागा चूड़ी (पेंच की)			

three dimensional stationary Gaussian process		त्रिविम अचल गाउसीय प्रक्रम	three phase type		त्रि-प्रावस्था प्ररूप
three dimensional vector analysis	Math	त्रिविम सदिश विश्लेषण	three-point cross	Zool, Phy, Math	त्रिविन्दु विविमय
three electrode lens	Phy	त्रि-इलेक्ट्रोडी लेन्स	three point problem		त्रिविन्दु समस्या
three electron bond	Chem.	त्रि-इलेक्ट्रॉन आवन्ध	three quantum atom	Phy	त्रि-क्वांटम परमाणु
three element antenna (= three element aerial)	Phy.	त्रि अंगी ऐन्टेना	three quantum state	Phy	त्रि-क्वांटम अवस्था
three element viscous model	Math	त्रिअवयव श्यान निदर्श	three-quarter clouded	Geog	तीन चौथाई मेघी
three factor interaction (= triple interaction)	Math	त्रिक अन्योन्य क्रिया	three-salt solution		त्रिलवणी घोल
three field system	Geog	त्रिघ्नेन तन्त्र, तीन घेन पद्धति	three series theorem	Math	त्रि-श्रेणी प्रमेय
three finger Morra	Math	त्रिअंगुलि मोरा	three stage compressor	Chem	त्रिचरण संपीडित्र
three fold point symmetry	Phy	त्रिधा विन्दु सममिति	three stage process		त्रिचरण प्रक्रम
three gun colour picture tube	Phy.	त्रिगुन रंगीन चित्र नलिका	three-strain cross	Zool	त्रिविभेद सकर
three high mill	Chem	त्रिबेलन मिल	three swing cusp	Geog	त्रिदोली उभयाप
three-H transition state	Chem	त्रि-एच सक्रमण अवस्था	three-way classification	Math.	त्रिधा वर्गीकरण
three-jointed paip	Zool	त्रिसन्धित स्पर्शिका	three-way stopcock	Chem, Phy, H Sc	त्रिपथ-रोधनी
three junction transistor	Phy	त्रिसन्धि ट्रांजिस्टर	three way switch		त्रिपथी स्विच, द्विदिश स्विच
three lead method	Phy	त्रिप्रणायक विधि	three way tubing		त्रिपथ नली
three level maser	Phy.	त्रिस्तरीय मेसर	three wire system	Phy	त्रितार प्रणाली, त्रितार यंत्र
three lobed stele	Bot	त्रिपालि रज्ज	threo-compound	Chem.	थ्रियो-यौगिक
three-membered ring	Chem	त्रिमदस्य वलय	$\alpha$ -threonic acid	Chem	$\alpha$ -थ्रीऑनिक अम्ल
three necked flash	Chem.	त्रिधोत्र फ्लास्क	threonine	Chem, Zool.	थ्रिऑनीन
three-phase alternator	Phy.	त्रिकल प्रत्यावर्तित	thresher	Bot, Zool	थ्रेशर
three-phase current	Phy.	त्रिकल धारा	threshing ground	Geog.	थ्रिशियान
three phase equilibrium	Geol, Phy, Chem	त्रि प्रावस्था साम्य, त्रि-प्रावस्था सन्तुलन	threshing machine	Geog	थ्रेशिंग मशीन
three phase medium	Math.	त्रिचरण माध्यम	Threshkornithidae	Zool.	थ्रेशिऑनिथिडी
three phase system	Math, Geol., Phy.	त्रिप्रावस्था प्रणाली, त्रिप्रावस्था तन्त्र, त्रिकल तन्त्र	threshold		देहली, प्रभावसीमा
			threshold concentration		देहली साम्प्रता
			threshold detector		देहली संयुचक
			threshold dose		देहली मात्रा, देहली डोज
			threshold elevation		देहली उन्नता
			threshold energy		देहली ऊर्जा
			threshold frequency		देहली आवृत्ति
			threshold-intensity		तीव्रता देहली

threshold Jacobi method		देहली जैकोबी विधि	Thrope's reaction	Chem.	थॉपे अभिक्रिया
threshold of audibility		श्रव्यता की देहली	throttle valve (throttling)	Chem.,Phy.	उपरोधी वाल्व
threshold of discomfort		असुस्थता की देहली	throttling process		उपरोधी प्रक्रम
threshold of feeling		संवेदन की देहली	through flowing stream	Phy.	सतत प्रवाही धारा
threshold of hearing		श्रवण की देहली	through operator		सतत प्रचालक
threshold of pain		वेदना की देहली	through-put	Chem.	संवेश प्रवाह
threshold potential		देहली विभव	through traffic	Geog.	सीधा यातायात
threshold tube (=clipper tube)		देहली नलिका, कर्तन नलिका	throw	Phy. Geol.	प्रक्षेप पात
threshold value		देहली मान	thrower's wheel	Chem.	कुलाल चक्र
thribbles	Geol.	त्रिक	throwing	Chem.	1. कुलालन 2. कौशेयन 3. क्षेपण 4. उद्घेपन
Thripidae	Zool.	थ्रिपिडी	'throwing power'		क्षेपण शक्ति
thrips (woodworm)	Zool.	रसाद, थ्रिप्स (काष्ठकीट)	thrum	Chem., H.Sc.	सूत्रापक्षेप धम
Thrips tabaci	Zool.	थ्रिप्स टैबैसी	thruray	Chem. (Met.)	थूरे
Thrissoctes purava (Engraulis purava)	Zool.	थ्रिसोक्लीस पुरावा (पीरवा)	thrush	Zool.	शारालि
throat		कंठ	thrust		1. प्रणोद 2. क्षेप
throat bag		कंठ कोश	thrust augmentation		प्रणोद वर्धन
throat depth		कंठ गभीरता	thrust block mountain		क्षेप-ब्लॉक पर्वत
throat microphone		कंठ माइक्रोफोन	thrust chamber		प्रणोद कोष्ठ
throat plane		कंठ तल	thrust coefficient	Math.	प्रणोद गुणांक
throat plume		कंठ पिच्छक	thrust correction factor		प्रणोद शुद्धि गुणांक
throe	H.Sc.	प्रसववेदना, वेदना	thrust decay		प्रणोद क्षय
thrombase	Chem.	थ्रॉम्बेस	thrust deformation		क्षेप विह्वलन
thrombin	H.Sc.	थ्रॉम्बिन	thrust equalizer		प्रणोद समकारी
thrombocyte	H.Sc.,Zool.	1. विम्बानु 2. थ्रॉम्बिनानु, थ्रॉम्बोसाइट	thrust fault		क्षेप-त्रंज
thrombocytopenia	Chem.	थ्रॉम्बोसाइटोपीनिया, विम्बानुशून्यता	thrust gauge		प्रणोद प्रमापी
thrombogen	Zool.,H.Sc.	थ्रॉम्बोजन	thrusting	Geol.	क्षेपण
thrombokinase	Zool.,H.Sc.	थ्रॉम्बोकाइनेस	thrust loading		प्रणोद भारण
thromboplastic	Chem.	थ्रॉम्बोप्लास्टिक	thrustmeter		प्रणोद मापी
thromboplastin	Chem., H.Sc.	थ्रॉम्बोप्लास्टिन	thrust misalignment		प्रणोद असंरेखण
thrombosis	H.Sc.,Zool., Chem.	घनालता, थ्रॉम्बोसिस			

thrust nappe		क्षेप-नापे	thunderheads	Geol.	तडितप्रज्ञा
thrustorg		प्रणोद-बल-आघूषणमापी, अस्टार्क	thunder shower		गरज के साथ वर्षा
thrust output		प्रणोद निर्गम	thunder stone	Geol., Geog	थन्डरस्टोन, थन्डरप्रस्तर
thrust plane		क्षेप तल	thunder storm	Phy, Geog	तडित्त प्रज्ञा
thrust reversal		प्रणोद उत्क्रमण	thurible	Geog.	धूपदान
thrust slice		क्षेप स्लाइस	Thuringer sausage	H Sc	थुरिंजर ससिज
thrust spoiler		प्रणोद अपघटक	thuriting	Chem	सताशानुशीतन
thrust structure		प्रणोद संरचना	thurm	Geol	सन्तर भ्रश, घर्म
thrust termination equipment		प्रणोद अंतक उपस्कर	Thursius	Zool	थसिअस
thrust zone		क्षेप क्षेत्र	Thursophyton shoot	Bot	यसॉफाइटॉन प्ररोह
thryptogen	Bot.	दुर्बलकारी	Thyestes	Zool	थीस्टीस
thryptophyte	Bot.	दुर्बलकारी पादप	Thylacinal	Zool	थाइलेसाइनिनी
thrysogonidium	Bot.	पीत गोनिडियम	Thylacinus	Zool.	थाइलेसाइनस
*Thuban (=α Draconis)	Astron	थूबन (=α ड्रेकोनिस)	Thylacinus cynocephalus		थाइलेसाइनस साइनोसिफेलस
thucholite	Geol.	थुकोलाइट	Thylacis	Zool.	थाइलेमिस
Thuja	Geog.	थूजा	Thylacolenidae	Zool	थाइलेकोनिदिही
thujaketone	Chem	थूजाकीटोन	Thylacoleo	Zool	थाइलेकोलियो
Thuja occidentalis	Bot.	थूजा आक्सीडेन्टैलिस	Thylacoleo carnifex		थाइलेकोलिओ कार्नीफेक्स
Thujone	Chem	थूजोन	Thylacosmilus	Zool	थाइलेकोस्मिलस
Thule culture	Geog.	थूली संस्कृति	Thylecomys	Zool	थाइलेकोमिस
thulla	Chem	थूलिआ	Thylox process	Chem	थाइलॉक्स प्रक्रम
thulite	Geol.	थूलाइट	Thylox system		थाइलॉक्स तंत्र
thalite stone		थूलाइट प्रस्तर	thyme	H Sc.	थर्नामी, अत्रवाइन
thulium	Chem.	थूलियम	thymectomy	Zool.	थाइममोक्टेमी
thumb	Zool.	अंगुष्ठ, अंगूठा	Thymeliaceae	Bot	थाइमीलिएमी
thunbergene	Chem	थन्बर्जीन	thymine	Zool	थायमीन
Thunbergia alata	Bot.	थन्बर्जिया ऐलेटा	thymocyte	Zool.	थाइमोसाइट, थाइमसाणु
Thunbergia fragrance		थन्बर्जिया फ्रेग्रेंस	thymol blue	Chem.	थाइमोल ब्लू, थाइमॉन गोन
Thunbergia grandiflora		थन्बर्जिया ग्रैंडीफ्लोरा	thymol phthalein		थाइमोल थैलीन
thunder	Geog.	मेघगर्जन, गरज	thymol phthaloxone		थाइमोल थैलीऑन
thunderbolt	Geol.	थन्डरबोल्ट	thymophthlein	Chem.	थाइमोफ्थलीन
thunder cloud		गर्जन मेघ	thymoquinone	Chem.	थाइमोक्विनोन
			(thymus nucleate,	Chem.	थाइमस न्युक्लियेट

thymus	Chem.	थाइमस	thyrsula	Bot.	धसुंला
thymus gland	Zool.	थाइमस ग्रंथि	Thysanopoda	Zool.	थाइसेनोपोडा
Thyone	Zool.	थीऑन	Thysanoptera	Zool.	थाइसेनोप्टेरा
thyratron	Chem.,Phy.	थाइरेट्रॉन	thysanopteran	Zool.	अंचलपंखी
thyratron inverter		थाइरेट्रॉन प्रतीपक	Thysanura	Zool.	थाइसेनूरा
thyratron time base		थाइरेट्रॉन समयवाधार	thysanuran	Zool.	अंचलपुच्छी
thyracophytoid	Bot.	थसॉफाइटॉन-सम	tia maria	H.Sc.	टिआ मेरिया
thyriothecium	Bot.	थीरियोथीसियम	tian	H.Sc.	टिआन
thyristor	Phy.	थाइरिस्टर	tiara	Geog.	टिआरा, त्रिमुकुट
thyroglobulin	Chem., H.Sc.,Zool.	थायरोग्लोबूलिन	tibia	H.Sc.,Zool.	टिबिया, अन्तर्जंघिका
thyroglossal duct	Zool.	अवटुजिह्वा वाहिनी	Tibia	Geol.	टिबिया
thyrohyals	Zool.	अवटुकणिका	tibial artery	Zool.	अन्तर्जंघिका धमनी
thyroid	Bot. Zool.	(adj) छत्राकार (n) थाइराइड, अवटुग्रंथि	tibiale	Zool.	अन्तर्गुल्फिका, टिबिएली
thyroid adenoma	Zool.,H.Sc.	अवटु ग्रंथ्यदुंद	tibialis anterior	Zool.	अग्रअन्तर्जंघिका धमनी, टिबिएलिस ऐंटीरियर
thyroid artery		अवटु धमनी, थाइराइड धमनी	tibial spur		अन्तर्जंघिका कंट
thyroid cartilage		अवटु उपास्थि, थाइराइड उपास्थि	Tibia lucida		टिबिया लुसिडा
thyroidectomy	Zool.	अवटुच्छेदन	tibiofibula	Zool.,H.Sc.	अंतःअहिर्जंघिका, टिबियो-फीबुला
thyroid gland		अवटु ग्रंथि, थाइराइड ग्रन्थि	tibio fibular joint		अन्तःअहिर्जंघिका सन्धि, टिबियोफिबुलर सन्धि
thyroid secretion		थाइराइड लाव, अवटु लाव	tibiotarsal organ	Zool.	अन्तर्जंघिका गुल्फी अंग
thyroid vein		अवटु शिरा	tibiotarsal segment		अन्तर्जंघिगुल्फिका खंड
thyrotoxicosis	H.Sc.	अवटु व्याधिपालुता, थाइरोटॉक्सिकोसिस	tibiotarsus	Zool.	टिबियोटार्सस, अन्त- जंघगुल्फिका
thyrotrophic (=thyrotropic)	Zool.	थाइरोट्रॉफिक, अवटुद्रोपक, अवटुप्रभावी	tick	Zool.	कुटकी, किलनी
thyrotropic hormone		अवटुप्रभावी हार्मोन	tick bird		किलनी पक्षी
thyrotropin	Chem., Zool.	थाइरोट्रॉपिन	ticking	Zool.	प्रॉकन
thyroxin	Zool.,H.Sc.	थायरॉक्सिन	tickle	Geol.	टिकल
thyrse	Bot.	धसुं	ticklenburg	H.Sc.	टिकलेनबर्ग
thyrseiferous		धसुंघर	tickler coil	Phy.	पुनर्निवेशी कुंडली
thyrseiflorous		धसुंपुष्पी	tickler field (=perturbing field)	Phy.	अल्पजोभी क्षेत्र
thyrseiform		धसुंरूप	tickorium	Zool.	किलनीशाला
thyrseoid	Bot.	धासुंशाखी	tick typhus		किलनी टाइफस
			tidal	Geog.,Zool., Geol.	ज्वारीय
			tidal amplitude		ज्वारीय लायाम

tidal area	ज्वारीय क्षेत्र	tidal range	ज्वार परिसर
tidal arrow	ज्वारीय बाण	tidal rhythm	ज्वारीय लय
tidal bench mark	ज्वारीय तल चिह्न	tidal river	ज्वारीय नदी
tidal bulge	ज्वारीय उभार	tidal section	ज्वारीय क्षेत्र
tidal coefficient	ज्वारीय गुणांक	tidal species	ज्वारीय स्पीशीज
tidal component	ज्वारीय घटक	tidal station	ज्वारीय चाँदा
tidal constant	ज्वारीय स्थिरांक	tidal stream	ज्वार धारा
tidal (force) correction	ज्वारीय (बल) सतोषन	tidal stress	ज्वारीय प्रतिबल
tidal creek	ज्वारीय सँकरी खाड़ी	tidal theory	ज्वारीय विद्वान्त
tidal current	ज्वारीय धारा	tidal undulation	ज्वारीय तरंगन
tidal delta	ज्वारीय डेल्टा	tidal variation	ज्वारीय परिवर्तन
tidal divide	ज्वारीय विभाजक	tidal water	ज्वारीय जल
tidal ellipsoid	ज्वारीय दीर्घवृत्तज	tidal wave	ज्वारीय तरंग
tidal estuary	ज्वार नादमुख	tidal wedge	ज्वारीय बाहिका
tidal field	ज्वार क्षेत्र	tidal weir (barrier net)	Zool. रोध जाल
tidal flat	ज्वारीय सपाट	tidal zone	ज्वारीय क्षेत्र
tidal flat area	ज्वारीय सपाट क्षेत्र	tide	Geog. Math. ज्वार, ज्वार घाटा
tidal forest	ज्वारीय वन	tide crack	ज्वार दरार (वर्ष)
tidal friction	ज्वारीय घर्षण	tide-gauge	ज्वार-भाटा प्रमाणी, ज्वार-भाटा नेत्र
tidal gauge	ज्वारमापी	tide-gauge bed plate	ज्वार प्रमाणी बाधापर पट्ट
tidal glacier	ज्वारीय हिमानी	tide gauge observation	ज्वारप्रमाणी प्रेक्षण
tidal graph	ज्वारीय ग्राफ, ज्वारीय लेखाचित्र	tide gauge records	ज्वार प्रमाणी अभिलेख
tidal harmonic	ज्वारीय हार्मोनिक	tide-gauging station	ज्वार-मापन वेन्द्र
tidal inlet	ज्वारीय निवेशिका	tide generating force	ज्वार-भाटा जनक बल
tidal lag	ज्वारीय पश्चाना	tide height	ज्वार-भाटे की ऊँचाई
tidal lamination	ज्वारीय स्तरण	tide land	ज्वार भूमि
tidal marsh	ज्वारीय कच्छ	tide mark	ज्वार-चिह्न
tidal mouth	ज्वार मुहाना	tide mill	ज्वार-चक्की
tidal mudflat	ज्वारीय पक मैदान	tide pole	ज्वार दंड
tidal observatory	ज्वार वेधशाला	tide pool	ज्वार ताल
tidal paradox	ज्वारीय विरोधाभास	tide potential	ज्वार विभव
tidal pool	ज्वारीय कुंड	tide predicting machine	ज्वार-भाटा प्रागुक्ति मशीन
tidal power	ज्वार-शक्ति	tide producing force	ज्वार उत्पन्न बल
tidal prism	ज्वारीय प्रिज्म	tide raising force	ज्वार-उन्नतन बल
tidal propagation	ज्वार प्रसार		
tidal race	ज्वारीय धाव		



tide-rip		ज्वार जमिका	tige	Bot.	स्तंभक
tide table		ज्वार सारणी	tigellatus	Bot.	वृन्तकी
tidewater glacier		ज्वारजल स्पर्शी हिमनद	tigelle (=tigellum)	Bot.	लघु स्तंभ
tideway		ज्वार-प्रणाल	tigelula		लघु स्तम्भ
tie and dye style	Chem.	बंधन और रंजन शैली	tiger	Zool.	वाघ, व्याघ्र
tie bar	Geol.	संयोजी रोधिका	tiger beetle		व्याघ्र भृंग
tied arch	Math.,Phy.	सहवद्ध चाप	tigering	Chem.	टाइगरन
Tiedemann's bodies	Zool.	टीडेमान पिंड	tiger moth		व्याघ्र शलभ
Tiedemann's diverticulum		टीडेमान अंधवर्ध	tiger salamander		व्याघ्र सैलामैन्डर, व्याघ्र सरट
tiedown point	Phy.	आवृत्ति निदेश बिंदु	tiger shark	Zool.	पुली सुरा, वागवीर
tied rank		सहवद्ध कोटि	tight alignment	Phy.	गाढ़ सुयोजन
tie-dyeing	H.Sc.	बंधन-रंगाई	tight binding approximation	Phy.	दृढ़ बंधन सन्निकटन
tie line	Chem., Geog.	टाइ रेखा, बंधी रेखा, संयोग रेखा	tight coupling (=heavy coupling)	Phy.	गाढ़ युग्मन
tiemannite		टीमेनाइट	tight crawl passage	Geol.	प्रसर्पण मार्ग
Tieman reaction	Chem.	टीमान अभिक्रिया	tight emulsion	Chem.	संनिबद्ध पायस
tier		सोपान	tightened inspection	Math.	दृढीकृत निरीक्षण
terce	Geol.	टियर्स	tightened sampling inspection	Math.	दृढीकृत प्रतिचयन निरीक्षण
tiering table	Chem.	चल भेज, चल मंच	tight fold	Geol.	संवृत चलन
tier of canopy	Geog.	वितान-स्तर	tightly bound state	Phy.	दृढ़ बद्ध अवस्था
tierra	Geol.	अयस्क्री धूलि	tight rock	Geol.	संकुष्ट शैल
tierra caliente	Geog.	ऊष्ण प्रदेश	tight sand		संकुष्ट बालू
tierra fria		शीत प्रदेश	tiglic acid	Chem.	टिग्लिक अम्ल, टिग्लिक ऐसिड
tierra templada		शीतोष्ण प्रदेश	tignard	H.Sc.	टिगनार्ड
ties	Geog.	योजक रेखा	tigogenone	Chem.	टिगोजिनोन
tie silk	H.Sc.	टाई रेशम	tigonin	Chem.	टिगोनिन
tie station		योजक चांदा, योजक स्टेशन	tikhvinite	Geol.	टिखवीनाइट
Tietze's theorem	Math.	टीत्से-अमेय	tikug	H.Sc.	टिकुग
tie wire	Phy.	बंधक तार, योजक तार	tilaite	Geol.	टिलेआइट
tiff	Geol.	टिफ	Tilapia	Zool.	टाइलैपिया
tiffany	H.Sc.	टिफेनी	tilde	Math.	अन्तर-चिह्न
tiffany finish	Chem. (Paint)	टिफेनी परिसज्जा	tile	Geog.	खपरैल
tiffanyite	Geol.	टिफेनिआइट	tile ore	Chem.,Geol.	टाइल अयस्क
Tiffeneaw rearrangement	Chem.	टिफेनी पुनर्विन्यास	tile spacing formula		खपरैल अंतराली सूत्र
tiffin	H.Sc.	टिफिन			

till-trenching machine		खपरल गूलखोदक मशीन	tilted axis		नत अक्ष
<i>Tilia americana</i>	Bot	टिलिया अमेरिकाना	tilted block		नत खड
Tiliaceae	Bot	टिलिएसी	tilted electroscope		नत विद्युत्दर्शी
Tiliales	Bot	टिलिएसीज	tilted fault block		नत भ्रम-खंड, भ्रमज नतखड
tillkerodite	Geol.	टिल्केरोडाइट	tilted plain		नत मैदान
till	Geol., Geog.	गोलाग्रमी मृत्तिका, टिल	tilted strata		नत स्तर
tillage	H.Sc., Geog.	कृषण, जोत, जुताई	tilted terrace		नत वेदिका
tillage tool		जुताई औजार	tilth	Geog	जुताई, जोतीभूमि
tilled land		जोत भूमि	tilting	Phy.	अभिनमन
tiller		1 कृषक, किसान, काशनकार 2 दोजी, तलशाखा, टिलर	tilting box sampler		नत पेटी प्रतिदर्शित
tillering		1 दोजी लगना 2 तल शाखन	tilting furnace		आनमन भट्टी, आनमन भ्रातृ
tillering stage		दोजी अवस्था, तलशाखन अवस्था	tilting level	Geog.	टिल्टिंग लेवल
Tilletia	Bot	टिलेशिया	tilting pattern	Chem	आनमन प्रतिमान
<i>Tilletia foetida</i>		टिलेशिया फीटिडा	tilting screw		टिल्टिंग पेंच
tilleyite	Geol.	टिलीवाइट	tiltmeter	Geog., Geol.	टिल्टमापी
tilling	Geog. Math.	जोतना प्ररेखन	tilt mixer	Phy.	अभिनति शोधक
tillite	Geol., Geog.	टिलाइट	t-image (transformation Image)	Phy.	t-प्रतिबिम्ब
till moraine	Geog.	गोलाग्रमी मृत्तिका मोरेन	timazite	Geol.	टिमजाइट
Tillodontia	Zool.	टिलोडॉन्शिया	timbal (tymbal)	Zool	भदल
tilloid	Geol	टिलॉयड	timbale	H.Sc.	टिम्बेल
tillot	H.Sc.	टिलॉट	timbered country	Geog.	प्राकाण्टक प्रदेश
Tillotherium	Zool	टाइलोथेरियम	timber lme	Bot, Geog.	वृषासीमा
till plain		टिल-मैदान	timber-pile Jetty	Geog	टिम्बर-पाइल घाट, सकरी सट्टा घाट
till-plain topography		टिल-मैदान स्थलाकृति	timbre	Phy.	ध्वनि-स्वरूप, ध्वनि-गुणता
till sheet		टिल चादर	time		समय, काल, अवधि
till stone		टिल प्रस्तर	time-activity product		काल-सक्रियता गुणनफल
tilt	Geog.	झुकाव, नति	time and motion study		समय-चरि अध्ययन
tilt block		नत खड	time and tide instnct		काल-ज्वार वृत्ति
tilt boundary	Phy.	प्रणति सीमा	time and time-keeping		काल और कालमापन
tilt component		नति घटक	time antithesis		काल-व्युत्क्रमण-मूल
tilted		नत	time average		कालिक माध्य
tilted aerial (=tilted antenna)		नत ऐन्टेना	time axis		काल-अक्ष
			time average		काल औसत

time base	समयाधार	time jitter	काल जिटर
time base generator	समयाधार जनित्र	time keeper	कालमापी, घड़ी
time chart	समय-चार्ट	time lag	काल पश्चता, समय पश्चता
time comparability factor	काल तुलनीयता गुणक	time-like coordinates	समयवत् निर्देशांक
time-component	समय घटक	time-like curve	समयवत् वक्र
time constant	कालांक	time-like four vector <i>Math.</i>	समयवत् चतुर्विम सदिश
time control pulse (= trigger timing pulse)	कालनियंत्रक स्पंद	time-like interval	समयवत् अंतराल
time-coordinate	समय निर्देशांक	time line	काल-रेखा
time delay characteristics	काल विलम्बी अभिलक्षणिक	time management	समय व्यवस्थापन
time delay effect	काल विलम्बी प्रभाव	time marker	समय चिह्नित
time delay relay	काल विलम्ब रिले	time-marking relay	समयांकन रिले
time dependence	कालाश्रितता	time-metering	अवधि मापन
time dependent	कालाश्रित	time-modulation (= pulse time modulation)	<i>Phy.</i> स्पंद समय माडुलन
time-dependent constitutive equation	कालाश्रित संरचक समीकरण	time multiplex	काल बहुसंकेत
time-dependent process	कालाश्रित प्रक्रिया	time multiplexed signal	काल विभाग बहुसंकेत
time-dependent properties	कालाश्रित गुणधर्म	time multiplexing	काल बहुसंकेतन
time dependent velocity	कालाश्रित वेग	'time-of-flight' instrument	'उड्डयन काल' साधित्र
time derivative <i>Math.</i>	समय अवकलज	time of flight method	उड्डयन काल विधि
time dilation	काल वृद्धि	time of flight spectrometer <i>Phy.</i>	उड्डयन काल स्पेक्ट्रोममापी, उड्डयन काल स्पेक्ट्रोमीटर, उड्डान काल स्पेक्ट्रोमीटर
time distance curve	काल दूरी वक्र	time of relaxation	विश्रान्ति काल
time division	कालांतरण	time of relaxation effect	विश्रान्ति काल प्रभाव
time division multiplexing	काल विभाग बहुसंकेतन	time of reverberation	अनुरणन काल
time estimate	समय आकलन	time of vibration	कंपन काल
time gap	समयांतराल	time path	काल पथ
time gate	समय द्वार, समय गेट	time phase	सामयिक कला
time independent	काल स्वतंत्र, काल अनाश्रित	time plan	समय योजना
time-independent term	समय-निरपेक्ष पद	time quenching	काल शमन
time integral	समय-समाकलन	timer <i>H.Sc., Phy., Geol.</i>	कालद, कालमापित्र समय नियंत्रक, टाइमर
time interval	काल अंतराल	time-rate	समय-दर
		time-reckoning	काल-गणना

time-reduction curves		काल लघुकरण वक्र	timing track		काल-मापन पथ
time-retardation		समय-मंदन	timing unit		काल समञ्जक एकाक
time-reversal invariance		काल-विपर्यय निरन्तरता	Timken lubricant tester	<i>Chem. (Pet)</i>	टिमकेन स्नेहक निकषित
time reversal operation		कालोत्क्रमण सञ्चालना	Timmermans law of convergence	<i>Chem.</i>	टिमरमान अभिसरण नियम
time reversal test		कालोत्क्रमण परीक्षण	tinodonic acid	<i>Chem.</i>	टिमनोडोनिक अम्ल
time rigor		काल स्थिरता	timothy	<i>Geog.</i>	घास-चारा, टिमोथी
time rock span		शैल काल अन्तर	timothy redtop mixture		टिमोथी रेडटॉप मिश्रण
time-rock unit		शैल काल इकाई	tin	<i>Chem., Geog.</i>	(n) रौंदा, टिन, बग (v) कलई करना
time-scale		समय मापनम	tinaja	<i>Geog.</i>	टिनाया
time-sequence		समय-अनुक्रम	tinajita	<i>Geog.</i>	टिनायिता
time-series		काल श्रेणी	Tinamiformes		टिनमीफॉर्मिज
time-series aggregate		काल श्रेणी समुच्चय	tinampi	<i>H Sc.</i>	टिनामिपी
time series analysis		कालश्रेणी विश्लेषण	tinca	<i>H Sc.</i>	टका, सोहाणा
time-series data		काल श्रेणी न्यास	tincaconite	<i>Geol.</i>	टिन्कॉकोनाइट
time-series estimate		काल श्रेणी आकलन	tinconal (alloy)	<i>Phy.</i>	टिन्कोनल
time-series sample		काल श्रेणी प्रतिदर्श	tinctorial value	<i>Chem. (Text)</i>	सरजन मान
time sharing system		कालभागी तंत्र	tincture	<i>H.Sc.</i>	टिङ्कर
time smoothing		समय मसुणीकरण	tind	<i>Geog.</i>	टिङ
time-step		काल-चरण	tinder ore	<i>Geol.</i>	टिन्डर अयस्क
time-stratigraphic unit		कालस्तरीक एकाक	tin disease		बग रोग, टिन रोग
time study		काल अध्ययन	tin flower		बग पुष्प, टिन पुष्प
time unit		काल इकाई	tin foil		बग-पन्नी, टिन की पन्नी
time value	<i>Geol.</i>	कालांतरान मान	tinge		शतक
time variation of entropy		एन्ट्रॉपी का समय-विचरण	Tingiae	<i>Bot.</i>	टिन्जिई
time varying motion		समय-परिवर्ती गति	tingualte	<i>Geol.</i>	टिगुआल्टे
time zone	<i>Geog.</i>	टाइम जोन, काल क्षेत्र	tingualtic		टिगुआल्टी
timing		1. काल मापन 2. काल समयन	tin island		बग द्वीप, टिन द्वीप
timing circuit		काल समञ्जक परिपथ, काल समायोजक परिपथ	tinker	<i>Geog.</i>	कलईगर, शपाईगर
timing mechanism		काल नियंत्रण यंत्रावली	tin-lined case		टिन से ढके बेल
timing ring		कालमापन शृङ्खला	Tintinnidium	<i>Zool.</i>	टिन्टिनीडियम
timing signal	<i>Phy.</i>	कालन सिग्नल	tin liquor		बग लिक्वर
			tin lode		टिन सोड
			tinned	<i>H.Sc.</i>	कलईशर
			tinned food	<i>H.Sc.</i>	डिब्बाबंद खाद्य

tinned sheet iron		वंग लेपित लोह चादर	tin organism		लघु जीव
tinned ware		कलईदार बर्तन	tinzenite	Geol.	टिन्जेनाइट
tinning		कलई करना	tiolan	H.Sc.	टिओलन
tinning stack		वंगन चिति	tip	Geol.	टिप
tinopal	H.Sc.	टिनोपाल	tip blight	Bot.	अग्रांगमारी, अग्र शीर्षता
tin opener		टिन उन्मुद्रक	tip-blight virus		अग्रांगमारी वाइरस, अग्र शीर्षता विषाणु
tin ore	Geol.	कैसिटेराइट	tip burn	Bot.	दग्धप्र
<i>Tinospora cordifolia</i>	Bot.	टिनोस्पोरा कार्डीफोलिया	tip-heap	Geog.	कवाड़ पुंज
tin-plate		टिन प्लेट	tiphicolous	Bot.	तटाकवासी
tin plating		कलई करना, रांगा चढ़ाना	tiphium	Bot.	ताल समुदाय
tin pyrite		टिन पाइराइट, वंग मासिक	tipi	Geog.	टीपी (तम्बू)
tinsel	Phy.,H.Sc.	टिन्सेल	tip-off	Phy.	बणि उत्थान
tinsel type	Bot.	कूर्च प्रकार	tipped	Chem.(Text.)	अग्र रंजित
tinsel yarn		टिन्सेल सूत्र	tipped		अग्र
Tinsley potentiometer	Chem.	टिन्सेले विभवमापी	tipper test	Chem.	टिपर निकष
tinstone (cassiterite)		वंग प्रस्तर (कैसिटेराइट)	tippling		अग्रण संधान
tint	H.Sc., Chem. (Plast.)	बाभा	tippling box sampler	Geol.	टिपिंग बॉक्स प्रतिदर्शित्र
tinted site	Geog.	रंजित स्थल	tipple	Geol.	1. रिक्तन 2. रिक्तक स्थान
tinting	Geog.,H.Sc.	बाभायन, बाभाकरण	tippler		रिक्तक
tinting colour		बाभायन रंग	tippy wool	Chem. (Text.)	सताग्र ऊर्ण
tinting power		बाभायन शक्ति	tip rake	Phy.	बणि नमन
tinting strength		बाभायन सामर्थ्य	tipsy (ti)	Zool.	प्रमत्त (प्रन)
tint map	Geog.	रंगक मानचित्र	tipsy cake	H.Sc.	टिप्पी केक
tint method		रंगक विधि	Tipula	Zool.	टिपुला
tint of colour	H.Sc.	वर्णान्ना	Tipulidae	Zool.	टिपुलिडी
tint of passage	Phy.	क्रांतिक वर्ण	tipulid larva		टिपुलिड हिम्भक
tintography	Chem. (Paint)	बाभा लेख	tip vortex		बणि घ्रमिल
tintometer	Phy.	बाभामापी, टिन्डोमीटर	tiraz	H.Sc.	तिराज
tint original		बाभा ओरिजिनल	tir comin	Geog.	टिर कॉमिन
tin white		वंग श्वेत	tir cyd		टिर सिड, सावंचनिक चरागाह
tin white cobalt		वंग श्वेत कोबाल्ट (स्मैल्डाइट)	tirod	Bot.	कुमूमिपादप
tiny cluster	Geog.	लघु पुंज	tirolite	Geol.	टाइरोलाइट
			tirr	Geog.	टिर
			tirril burner	Chem.	टिर्रिल बर्नर, टिर्रिल ज्वालक

tirs	Geog.	दसं	titaniferous elpidite	Geol.	टाइटेनियमयुक्त एल्पीडाइट
Tischenko reaction	Chem.	टिशेन्को अभिक्रिया	titaniferous magnetite	Geol.	टाइटेनियमयुक्त मैग्नेटाइट
Tiselius method	Chem.	टिसेलियस पद्धति	titanite	Geol.	टाइटेनाइट
Tisserand's polynomial	Math.	टिसरैंड बहुपद	titanium	Chem.	टाइटेनियम
tissue	H Sc, Biol.	ऊतक	titanium oxide	Chem.	टाइटेनियम ऑक्साइड
tissue anoxia	Geog.	ऊतक अनाऑक्सीकरण	titanium white	Chem.	टाइटेनियम श्वेत
tissue culture	-	ऊतक संवर्धन, ऊतक संवर्धन	titanmelanite	Geol.	टाइटेनमेलैनाइट
tissue dose	-	ऊतक मात्रा, ऊतक होत्र	titanmica	Geol.	टाइटेनियमयुक्त शफरक
tissue element	-	ऊतक मूलतत्व, ऊतक तत्व	titanobiotite	Geol.	टाइटेनोबायोटाइट
tissue equivalent material	-	ऊतक-तुल्य पदार्थ, ऊतक-तुल्य द्रव्य	titano-elpidite	Geol.	टाइटेनोएल्पीडाइट
tissue paper	-	टिशुपेपर, टिशु कागज	titanollivine	Geol.	टाइटेनोलिवीन
tissue replacement	-	ऊतक प्रतिस्थापन	titanomagnetite	Geol.	टाइटेनोमैग्नेटाइट
tissue respiration	-	ऊतक श्वसन	titanomorphite	Geol.	टाइटेनोमॉर्फाइट
tissue system	-	ऊतक संत	Titanotheridae	Zool.	टाइटेनोथेरिडी
tissue toxicity	-	ऊतक अविषातुता	titanous	Chem.	टाइटेनस
tit	Zool.	रामपपा, टिट, बरगुनी	titanox	Chem.	टाइटेनॉक्स
titanantimonpyrochloro	Geol.	टाइटेनऐन्टीमोनपाइरोक्लोर	titanoxy	Chem.	टाइटेनॉक्सी
titanate	Chem.	टाइटेनेट	titanpigeonite	Geol.	टाइटेनपिजियोनाइट
titanated lithopone	-	टाइटेनित लिथोपोन	Titan process	Chem. (Met.)	टाइटन प्रक्रम
titanaugite	Geol.	टाइटेन-ऑर्गाइट	titanourmaline	Geol.	टाइटेनटूरमैलीन
titanbiotite	Geol.	टाइटेनबायोटाइट	Titan yellow reagent	Chem.	टाइटन पलो अभिकर्मक, टाइटन पीत अभिकर्मक
titanclinohumite	Geol.	टाइटेनक्लाइनोह्यूमाइट	titanyl	Chem.	टाइटेनिल
titangarnet	Geol.	टाइटेनगार्नेट	titanyl chloride	Chem.	टाइटेनिल क्लोराइड
titanhornblende	Geol.	टाइटेनहॉर्नब्लेंड	titanyl sulphate	Chem.	टाइटेनिल सल्फेट
titanhydroclinohumite	Geol.	टाइटेनहाइड्रोक्लाइनोह्यूमाइट	titer test	Chem.	अनुमापन निश्चय, टाइटन परीक्षण
titanla	Chem. (Met.)	टाइटेनला	tithe	Geog.	दशांश (कर)
titanic acid	Chem.	टाइटेनिक अम्ल, टाइटेनिक ऐसिड	tithonometer	Chem.	टिथोनोमीट्री
Titanichthys	Zool.	टाइटेनिकथिस	titilla	Bot.	प्रतिदेशक पायईकी, टिटिला
titanic iron ore	-	टाइटेनिक लोह अयस्क	titrant	Chem.	अनुमापक, टाइट्रीकर
titanic schorl	-	टाइटेनिक शॉर्ल	titrant ion	Chem.	अनुमापक आयन
titaniferous	Geol.	टाइटेनियमयुक्त	titrate	Chem.	(v.) अनुमापन करना (n.) अनुमाप्य
			titration		अनुमापन

titration error		अनुमापन त्रुटि, टाइट्रीकरण त्रुटि	toaster		टोस्टर
titration flask		अनुमापन फ्लास्क	tobacco broken ringspot	Bot.	तम्बाकू भंगवर्णी वलय चिह्नी
titration thief		अनुमापन शोफ, टाइट्रीकरण चोर	tobacco mosaic		तम्बाकू किर्मीर, तम्बाकू भोजक
titrator		अनुमापक, अनुमापित्र	tobacco mosaic virus		तम्बाकू भोजक वाइरस, तम्बाकू किर्मीर-विषाणु
titre		अनुमाप, टाइट्र, अनुमापिक	tobacco necrosis		तम्बाकू ऊतकक्षय
titrimeter		अनुमापी	tobacco ring spot		तम्बाकू वलय चिह्नी
titrimetrical		अनुमापन-मितीय, टाइट्रमितीय	tobacco stunt nematode		तम्बाकू स्तम्भन सूत्रकृमि
titrimetric analysis		अनुमापनी विश्लेषण, टाइट्रीमिद्री विश्लेषण	tobermorite	Chem.	टोबमोराइट
titrimetric method		अनुमापनी तिवि	torbernite	Chem.	टोबर्नाइट
titrimetry		अनुमापन मिति, टाइट्रीमिति	tobias acid	Chem.	टोबाइअस अम्ल, टोबाइअस ऐसिड
tivano	Geog.	तिर्वनो	toboggan	Geog.	टोबोगन, हिमयान
tjale, Tjale	Geog.	ट्येल, स्यायी तुपारभूमि	tobogganing		टोबोगनन, हिमयान यात्रा
T <sup>3/2</sup> Law	Phy.	T <sup>3/2</sup> नियम	tochirimen	H.Sc.	टॉशिरिमेन
T-matched antenna (T-matched aerial)	Phy.	T-सुमेलित ऐन्टेना	Tockus birostris	Zool.	टोकस वाइरॉस्ट्रिस (चलोत्ता, घनेश)
Tmesipteris	Bot.	मेसोप्टेरिस	Tockus griseus		टोकस ग्रीसियस
TM <sub>m,n</sub> mode	Phy.	TM <sub>m,n</sub> -विधा	tocopherol	Chem., H.Sc.	टोकोफेरॉल
TM <sub>m,n</sub> wave	Phy.	TM <sub>m,n</sub> -तरंग	tocuyo	H.Sc.	टोकुयो
T M V	Bot.	तमोवा (तम्बाकू भोजक वाइरस)	Toddalia aculeata	Bot.	टोडेलिया ऐकुलिप्टा
T-network	Phy.	T-जाल	toddite	Geol.	टोडाइट
toad	Zool.	भेक, टोड	toddy palm	Bot.	ताड़ी का पेड़
toad bug		भेक-मल्लुण	Todea superba	Bot.	टोडिया सुपर्बा
toadlet	Zool.	भेकक	Todidae	Zool.	टोडिडी
toad poison		टोड विष	todorokite	Geol.	टोडोरोकाइट
toadrock		टोडराँक	toe	Zool.	1. पादांगुलि
toadstone		टोडस्टोन		Chem.	2. टो, संवान संधि
toad-stool	Bot.	छद्रक, कुकुरमुत्ता	toeing in	Geol.	अंतराफानन
toadstool rock	Geog.	छद्रक शैल	toellite	Geol.	टोलाइट
Toala	Geog.	तोलाला (जनजाति)	toensbergite	Geol.	टोन्सबर्गाइट
to and fro twisting movement	Phy.	मरोड़ी दोलन	Toepler pump	Chem.	ट्येप्लर पम्प (photochem.)
toast	H.Sc.	1. (n.) टोस्ट 2. (v.) चकना	toernebohmitite	Geol.	टोर्नेबोमाइट
			toffee	H.Sc.	टॉफी

toft	Geog.	टॉफ्ट, वासुभूमि, घरोदा	tollens reagent	Chem.	टॉलेन, अमिडिर्मक
to-from indicator	Phy.	अभिमुख-विमुख सूचक	tollen's test	Chem.	टॉलेन निकप
tofull	Bot.	टोफुली, पीनाघार	toll gate	Geog.	टोल गेट, पथकर द्वार
toga	Geog.	टोगा, चोगा	toll-gate hut	Geog.	चुगी चौकी
toggle	Chem. (Met.)	टॉगल, गिल्ली	tollite	Geol.	टोलाइट
toggle joint		गिल्ली सन्धि, टॉगल सन्धि	toll line	Phy.	शुल्क लाइन
toggle press		टॉगल निपीड, गिल्ली निपीड	Tollmien's solution	Math	टालमीन हल
toggle switch		टॉगल स्विच	toll network (= subscription network)		शुल्कजाल
tolch	Geog.	टॉचक	Tolman's equation (photochem.)	Chem	टॉलमन समीकरण
tolle	H Sc.	टॉयल	<i>o</i> -tolamide	Chem.	<i>o</i> -टॉलुऐमाइड
toilet digit	Zool.	प्रसाधन अंगुलि	toludine	Chem.	टॉलुडीन
toiletting		प्रसाधन	toluene	Chem	टॉलुईन
toilet paper	Chem.	घोच पत्र	toluene-heptane value		टॉलुईन हेप्टेन मान
toise (unit)	Phy.	टाइज	toluene sulphonate		टॉलुईन सल्फोनेट
tokette	Geol.	टोकाइट	<i>p</i> -toluic acid		<i>p</i> -टॉलुइक अम्ल, <i>p</i> -टॉलुइक ऐसिड
tokhil	H Sc.	टॉखिल	tolaldine red	Chem.	टॉलडीन रक्त
tokocyte	Zool.	प्रजाणु	<i>p</i> -tolunitrile	Chem.	<i>p</i> -टॉलुनाइट्रिल
tokostome	Zool	प्रदमूख	toluol (commercial toluene)	Chem.	टॉलुऑल
tol	H Sc.	टॉल	tolu phenazonium chloride	Chem.	टॉलू फोनेजोनियम क्लोराइड
tolan		टोलेन	<i>p</i> -toluquinol	Chem.	<i>p</i> -टॉलुक्विनॉल
tolbutamid	Chem.	टॉलब्यूटेमाइड	tolylamine	Chem.	टॉलिलैमीन
toledo chronoflo	Geol.	टोलीडो क्रोनोफ्लो	tolyl chloride	Chem.	टॉलिल क्लोराइड
toledo furnace	Geol.	टोलीडो मट्टी	tolylite	Geol.	टॉलिपायट
tolerable error	Math.	सह्य त्रुटि	<i>Tolyposporium junci</i>		टॉलिपोस्पोरियम जन्साइ
tolerance	Math.,Phy.	सह्यता, सहन	<i>Tolypothrix distorta</i>		टॉलिपोथ्रिक्स डिस्टोर्टा
tolerance dose		सह्य मात्रा, सह्य बीज	<i>Tolypothrix tenuis</i>		टॉलिपोथ्रिक्स टेनुइस
tolerance interval		सह्यता अवधल	tomahawk	Geog.	टोमाहाक
tolerance level		सह्य तल	tomato	Bot.	टमाटर
tolerance limit		सह्यता सीमा, सहन सीमा	tomato bacterial canker	Bot.	टमाटर वा जीवाणुजन प्रवण
tolerance on aerial photograph	Geog.	वायव फोटोग्राफ-सहिष्णुता	tomato black fleck		टमाटर कृष्ण बिन्दु
tolerance on ground		भूमि-सहिष्णुता			
tolerance on map		मानचित्र-सहिष्णुता			
tolidine	Chem.	टॉलिडीन			
toll	Geog.	टोल, पथकर			
toll bridge		टोल सेतु			



tomato bushy stunt		टमाटर क्षुपी कुंठ	tone localizer (=equisignal localizer)	<i>Phy.</i>	समसंकेती स्थान निर्धारक
tomato fruit rot		टमाटर फल विगिलन	tone reversal		स्वर उत्क्रमण
tomato juice		टमाटर रस	tone-scale		छवि मापक्रम
tomato leaf mold		टमाटर की पर्ण फफूंदी	Tongon	<i>Geog.</i>	टोंगन (जनजाति)
tomato leaf spot		टमाटर का पर्ण लक्ष्म	tongs	<i>H.Sc., Chem.</i>	चिमटा संदर्शिका, टॉंग्स
tomato mosaic		टमाटर किर्मीर, टमाटर मोजेक	tongue		जिह्वा
tomato sauce		टमाटर की चटनी	tongue apparatus		जिह्वा उपकरण
tomato spotted wilt		टमाटर चित्तीदार म्लानि	tongue constriction		जिह्वा संकुंचन
tomato wilt		टमाटर म्लानि	tongue lamella		जिह्वा पटल
tomb	<i>Geog.</i>	मकबरा	tonic	<i>H.Sc.</i>	टॉनिक, बल्य
tombac	<i>Geol.</i>	टॉमबैक	tonic contraction	<i>Zool.</i>	तान संकुंचन
tombolo	<i>Geog.,Geol.</i>	संघोजी भित्ति, टोमबोलो	Tonicella	<i>Zool.</i>	टोनिसेला
tombstone	<i>Geog.</i>	समाधिप्रस्तर	tonic immobility	<i>Zool.</i>	स्पर्श निश्चलता, तान निश्चलता
<i>Tomentella flava</i>		टोमेन्टेला प्लावा	tonic muscle		तान पेशी
tomentose		घन-रोमिल	tonic reflex		तान प्रतिवर्त
tomentum		घनरोम	toning	<i>Chem.</i>	छविकरण
tomie	<i>Bot.</i>	विखंडब	toning blue	<i>Chem. (Paint.)</i>	टोनिंग नील
tomiocone	<i>Bot.</i>	विखंडजद	ton-kilometer	<i>Geog.</i>	टन किलोमीटर
tomiparous	<i>Bot.</i>	विखंडजनज	<i>Tonna dolium</i>	<i>Zool.</i>	टोन्ना डोलियम
tomite	<i>Zool.,Geol.</i>	टोमाइट	tonnage	<i>Phy.</i>	टन भार, भार
tomium	<i>Zool.</i>	चंचुकोर	tonne	<i>Phy.</i>	मीटरी टन
tommy key	<i>Chem.</i>	टॉमी कुंजी	tonofibril	<i>Chem. (Leather)</i>	सुधिरालि
tomodromic course	<i>Phy.</i>	प्रतिच्छेदक पथ	tonofibrillae	<i>Zool.</i>	टोनोफाइब्रिली, तानतंतुक
tomography	<i>Chem. (Met.)</i>	टॉमोग्राफी	ton of refrigeration		प्रशीतनी टन
tomonte	<i>Zool.</i>	टोमॉन्टे	tonometer		टोनोमीटर
Tomopteris	<i>Geog.</i>	टोमॉप्टेरिस	tonoplast		टोनोप्लास्ट
ton	<i>Phy.</i>	टन	tonpiliz machine	<i>Chem. (Met.)</i>	व्यवमंदन मापित्र
tonalite	<i>Geol.</i>	टोनेलाइट	tonsbergite	<i>Geol.</i>	टॉन्सबर्जाइट
ton-cap-screen	<i>Geol.</i>	टन कैप छन्ना	tonsil	<i>Zool.,H.Sc.</i>	टॉन्सिल, गलतुण्डिका
tone	<i>Chem.,Phy. (Plast.)</i>	1. स्वरक, टोन 2. छवि	tonstein	<i>Geol.</i>	टोन्सटाइन
tone compensated volume control		टोन प्रतिपूरित प्रबलता नियंत्रक			
tone control		टोन नियंत्रक			
tone-in-tone		छवि-अन्तःछवि			

tonus	<i>Zool., Bot</i>	तनन, तान, टोनस	topler pump	<i>Bot.</i>	टॉप्लर पंप
tool	<i>H Sc.</i>	औजार	top loaded antenna		शीर्षे भारित ऐन्टेना
toolability	<i>Chem.</i>	उपसाधनीयता	top-loaded vertical antenna		शीर्षेभार ऊर्ध्वाधर ऐन्टेना
tool engineering		औजार इंजीनियरी	top management	<i>Math</i>	उच्च स्तरी प्रबंध
tool steel		औजारी इस्पात, औजारी कौलाद	topmast head	<i>Geog.</i>	उच्चमस्तूल शीर्षे
toolweld process		औजार संधान प्रक्रम	top necrosis	<i>Bot</i>	शीर्षेक्षय
toothed wheel	<i>Geog., Phy.</i>	दांतदार पहिया, दंतुर पहिया	topocartography	<i>Geog</i>	स्थलमानचित्रकला
tooth formula	<i>Zool.</i>	दंत सूत्र	topochemistry	<i>Chem</i>	दधिष्ठ रसायन
toothless toad		दंतहीन मेक	topogenous	<i>Geol.</i>	धलगतजात
tooth papilla		दंत पिप्पल	topograph	<i>Chem.,</i>	दधिष्ठलेखी
toothpick method	<i>Geog</i>	दातनी विधि	topographic		स्थलाकृतिक
tooth plate		दंत पट्टिका	topographic adolescence		स्थलाकृतिक किशोरता
tooth-shell		दंतकवच	topographical		स्थलाकृतिक
top		1. लट्ट, भ्रमि 2. घूडा, शीर्षे	topographical circle		स्थलाकृतिक परिमंडल
top (textiles)	<i>H Sc.</i>	शीर्षे ऊर्ण	topographical expression		स्थलाकृतिक अभिव्यक्ति
top aerial (=top antenna)		शीर्षे ऐन्टेना	topographical grain	<i>Geol., Geog</i>	स्थलाकृतिक वण
top and bottom process		घूडा-तल प्रक्रम	topographical party		स्थलाकृतिक पार्टी
topaz	<i>Geol.</i>	पुखराज, टोपेज	topographical survey		स्थलाकृतिक सर्वेक्षण
topazfels	<i>Geol.</i>	टोपेजोफेल्स	topographic barrier		स्थलाकृतिक अवरोध
topazite	<i>Geol.</i>	टोपेजाइट	topographic basin		स्थलाकृतिक बेसिन
topazolite	<i>Geol</i>	टोपेजोलाइट	topographic changes		स्थलाकृतिक परिवर्तन, स्थलाकृतिक अनार
topazoseme	<i>Geol.</i>	टोपेजोसीम	topographic contour map		स्थलाकृतिक समोच्चरेखी मानचित्र
top-capacitor antenna (=top loaded antenna)		शीर्षे भारित ऐन्टेना	topographic correction		स्थलाकृतिक संशोधन
top chrome dye		घूडा क्रोम रजक	topographic depression		स्थलाकृतिक गर्व
top-chrome process		घूडा क्रोम प्रक्रम	topographic desert		स्थलाकृतिक महस्थल
top eruption		शीर्षे-उद्गार	topographic discordance		स्थलाकृतिक विमसति
top feed method		घूडा भरण विधि	topographic displacement		स्थलाकृतिक विस्थापन
top force plug		घूडा बल प्लग	topographic diversity		स्थलाकृतिक विविधता
top flange		शीर्षे कोर	topographic expansion		स्थलाकृतिक प्रसार
top force plunger		घूडा बल निमज्जक	topographic feature		स्थलाकृतिक लक्षण
topical map	<i>Geog</i>	सामयिक मानचित्र	topographic forms		स्थलाकृतिक रूप
topinky	<i>H.Sc.</i>	टॉपिंकी			

topographic infancy	स्थलाकृतिक शैशव	topologically complete space	सांस्थितिकतः पूर्ण समष्टि
topographic isolation	स्थलाकृतिक पार्थक्य	topologically embedded	सांस्थितिकतः अंतः-स्थापित
topographic limitation	स्थलाकृतिक परिसीमा	topologically free family	सांस्थितिकतः मुक्त परिवार
topographic map	स्थलाकृतिक मानचित्र	topologically isomorphic	सांस्थितिकतः तुल्याकारी
topographic maturity	स्थलाकृतिक प्रौढ़ता	topological manifold	सांस्थितिक प्रसमष्टि
topographic old age	स्थलाकृतिक वार्धक्य	topological mapping	सांस्थितिक प्रतिचित्रण
topographic outlier	स्थलाकृतिक पुरान्तःशायी	topological nilpotent	सांस्थितिक शून्यभावी
topographic sheet	स्थलाकृतिक अंशचित्र, स्थलाकृतिक शीट	topological property	सांस्थितिक गुणधर्म
topographic survey	स्थलाकृतिक सर्वेक्षण	topological quotient	सांस्थितिक विभाग
topographic unconformity	स्थलाकृतिक विषमविन्यास	topological ring	सांस्थितिक वलय
topographic youth	स्थलाकृतिक युवावस्था	topological semigroup	सांस्थितिक सामिसमूह
topography	<i>Geog., Zool., Geol.</i> स्थलाकृति	topological space	सांस्थितिक समष्टि.
topo-isostatic reduction	<i>Geol.</i> स्थलाकृतिक समस्थितिक संशोधन	topological sum	सांस्थितिक योग
topological	<i>Math., Zool.</i> सांस्थितिक	topological superior limit	सांस्थितिक उच्च सीमा
topological algebra	सांस्थितिक बीजावली	topological transformation	सांस्थितिक रूपांतरण
topological conjugate	सांस्थितिक संयुग्मी	topological type	सांस्थितिक प्रकार
topological dual	सांस्थितिक द्वैत	topological vector lattice	सांस्थितिक सदिश जालक
topological embedding	सांस्थितिक अंतःस्थापन	topological vector space	सांस्थितिक सदिश समष्टि
topological equivalence	सांस्थितिक तुल्यता	topologize	सांस्थितिकरण करना
topological group	सांस्थितिक समूह	topology	सांस्थिति-विज्ञान, सांस्थितिकी
topological inferior limit	सांस्थितिक निम्न सीमा	topology of pointwise convergence (= pointwise topology)	बिन्दुशः अभिसरण की संस्थिति
topological invariant	सांस्थितिक निश्चर	topology of uniform convergence	एकसमान अभिसरण की संस्थिति
topological isomorphism	सांस्थितिक तुल्याकारिता	topo-map	<i>Geog.</i> स्थलाकृति मानचित्र
topological limit	सांस्थितिक सीमा	top only visible	शीर्षमात्र दृश्य
topological limit inferior	सांस्थितिक निम्न सीमा	toponym	<i>Zool.</i> स्थाननाम
topological limit superior	सांस्थितिक उच्च सीमा	toponymics	स्थान-नाम विद्या
topological linear space	सांस्थितिक रेखिक समष्टि	toponymy	<i>Geog.</i> स्थान-नाम विद्या
topological linear system	सांस्थितिक रेखिक निकाय	topophysis	<i>Bot.</i> स्थायीपरिवर्तन
topologically	सांस्थितिकतः		

topotaxis	Zool.	स्थानानुचलन	tornaria larva	Zool.	टॉरलेरिया डिम्बक
topotype	Bot, Zool., Geol.	मूलस्थानप्ररूप, स्थानप्ररूप	tornate	Zool.	अशिताग्र
topped crude petroleum	Chem	उद्-आसवित कच्चा पेट्रोलियम	tornebohmit	Geol	टॉर्नेबोहमाइट
topping	Chem H Sc.	चूहायन मिष्टलेप	torhexaster	Geol.	टॉर्नेहेक्सास्टर
top-ranking nation	Geog	सर्वोच्च राष्ट्र	torifellite	Geol	टॉर्निएलाइट
tops	Chem (Pet)	उद्-आसवित प्रभाज	Toraleria	Zool.	टोरलीरिया
topsailite	Geol	टॉर्पेसैलाइट	torote	Zool.	कुठाग्र
top-set bed	Geol, Geog	हेल्टा शीर्ष संस्तर	toroid	Phy	टोरोइड
top-shell	Zool.	शिख-कवची	toroidal coordinates	Math	वृत्तत्रयनयी निर्देशांक
top-slicing	Geol	शीर्ष कर्तन	toroidal core	Phy	टोरोइडी कोर
topsoil	Bot, Geog.	उपरिभूदा	toroidal field		टोरोइडी क्षेत्र
top wall	Geol.	उपरिभित्ति	toroidal lens		टोरोइडी लेंस
toque monkey	Zool.	चूडाल बन्दर	toroidal magnetic field		टोरोइडी चुंबकीय क्षेत्र
tor	Geog.	टॉर, पहाड़ी	toroidal pinches		टोरोइडी संकुचन
torbanite	Geol.	टॉर्बेनाइट	toroidal solenoid		टोरोइडी परिनालिका
torbernite	Geol.	टॉर्बेनाइट	torose	Bot	मणिमय
torbite	Geol	टॉर्बिट	Torpedo	Zool.	टॉर्पीडो
torch	H Sc.	टॉर्च	torpedoing	Geol	प्रस्फोटन
torchonaette	H.Sc.	टॉर्चोनेट	torque (moment of force)	Phy, Math.	बलआघूर्ण, टॉर्क
torchon lace	H.Sc.	टॉर्चन लेम	torquemeter	Chem.	बलआघूर्णमापी
tordrillite	Geol.	टॉर्ड्रिल्लाइट	torrent	Geog.	वेग धारा
tore	Math	वृत्तत्र वलय	torrential bedding		वेग प्रवाही संस्तरण
torendrikite	Geol.	टॉर्गेन्ड्रिकाइट	torrential cross-bedding		वेग प्रवाही क्रॉस-संस्तरण
Torgos calvus	Zool	टॉर्गोस कल्वस (रात्रिगिद्ध)	torrential downpour	Geog	भूतलाधार वर्षा
toric lens	Phy.	टॉरिक लेंस	torrential rain		भूमनाधार वर्षा
torique projector	Geog.	टॉरिक प्रोजेक्टर	torrential stream	Geog.	वेगवती मरिटा
torma	Zool	अवट, टॉर्मा	torrent tract		वेगधारा-क्षेत्र
tormogen	Zool	टॉर्मोजेन, अवटजन	Torrea	Bot.	टोरेया
tormogen cell		अवटजन-कोशिका, टॉर्मोजेन कोशिका	Torricellian law	Chem	टॉरिकेलेनीय नियम
tornado	Geog, Geol	टॉर्नेडो	Torricellian tube		टॉरिकेलेनीय नली
tornado prominence	Math.	चक्रिक सौर उवाला	Torricellian vacuum		टॉरिकेलेनीय निर्वात
tornado-spawning thunderstorm		टॉर्नेडो जनक तड़ित् मसाल	Torricelli's theorem		टॉरिकेलेली प्रमेय
			torrid gulf	Geog	उष्ण खाड़ी
			torrid waters	Geog.	उष्णकटिबन्धीय समुद्र
			tortid zone		उष्ण कटिबन्ध
			torsalo	Zool.	टॉरसेलो, सुर अणुदण्ड

torsator	Chem.	मरोड़ जत्पादि	tortin	H.Sc.	टॉटिन
torse (=developable surface)	Math.	विकासनीय पृष्ठ	tortoise	Zool.	कछुवा, कच्छप
torsion		मरोड़, विमोटन, ऐंठन	tortoise shell (butterfly)		कच्छप तितली
torsional bending		मरोड़ी बंकन	Tor tor	Zool.	टोर टोर (महासीर)
torsional couple		मरोड़ी बलयुग्म	tortrix	Zool.	पृथुपंखी
torsional deformation		विमोटन-विरूपण	tortula	Bot.	टॉरटूला
torsional displacement		मरोड़ी विस्थापन	tortuous	Math.	कुटिल
torsional frequency		विमोटनी आवृत्ति	tortuous curve		कुटिल वक्र
torsional magneto hydrodynamic wave		विमोटनी चुंबकद्रवगतिक तरंग	torula	Bot.	टोरूला
torsional oscillation		मरोड़ी दोलन	torula condition		टोरूला अवस्था
torsional rigidity		विमोटनी दृढ़ता	toruloid	Bot.	टोरूलासम
torsional shear		विमोटनी अपरूपण	torulose	Bot.	मनकामय
torsional strain		मरोड़ी विकृति, विमोटनी विकृति	torulosis	Bot.	टोरूलाति
torsional stress		मरोड़ी प्रतिबल	torus	Math. Bot.	वृत्तज ठोस-बलय, टोरस पुष्पासन, टॉरस
torsional theory of sunspot		सूर्यकलंक का विमोटन सिद्धांत	toscanite	Geol.	टॉस्कैनाइट
torsional vibration		मरोड़ी कंपन	toscane	H.Sc.	टॉस्कैनी
torsional wave		मरोड़ी तरंग	tossing	Chem. (Met.)	संपरिक्षेपण
torsion balance		मरोड़ तुला, विमोटन तुला	tosyl	Chem.	टॉसिल
torsion constant		मरोड़हंकर	tosylate	Chem.	टॉसिलेट
torsion couple		मरोड़-बलयुग्म	tosylation	Chem.	टॉसिलन
torsion-dynamometer		विमोटन डायनामोमीटर, मरोड़ डायनामोमीटर	total	Math.	(n.) जोड़, योग (adj) संपूर्ण, पूर्ण
torsion form		विमोटन रूप	total absorption coefficient		संपूर्ण अवशोषण-गुणांक
torsion function		विमोटन फलन	total angular momentum quantum number		पूर्णकोणीय संवेग क्वांटम संख्या
torsionless bending		विमोटनहीन बंकन	total brightness		संपूर्ण द्युति
torsionmeter		विमोटनमापी, मरोड़मापी	total chemical composition		संपूर्ण रासायनिक संघटन
torsion ribbon		मरोड़ रिबन	total collision		पूर्ण संघट्ट
torsion seismograph		मरोड़ भूकंपलेखी	total conversion coefficient		पूर्ण रूपांतरण गुणांक
torsion seismometer		मरोड़ भूकंपमापी	total curvature (= Gauss curvature)	Math.	संपूर्ण वक्रता, गाउस वक्रता
torsion tensor		विमोटन प्रदिश	total derivative		संपूर्ण अवकलज
torsion tensor field		विमोटन प्रदिश क्षेत्र			
torsion vane		मरोड़ही पंख			
torso mountain	Geol.	टॉसो पर्वत			
torte	H.Sc.	टोट्टे			
torticone	Geol.	व्यावर्तित शंकु			

total differential		संपूर्ण अवकल	total overlap population		पूर्ण अतिव्याप्ति समष्टि
total differential equation	<i>Math.</i>	संपूर्ण अवकल समीकरण	total parasite		पूर्ण परजीवी
total disintegration constant		पूर्ण विघटन स्थिरांक	total positive variation		संपूर्ण धन विचरण
total eclipse		संपूर्ण ग्रहण, खभावध	total pressure		संपूर्ण दाब
total electric force		संपूर्ण विद्युत् बल	total proper motion		संपूर्ण निजी गति
total energy		संपूर्ण ऊर्जा	total quantum number		पूर्ण क्वांटम संख्या
total extinction		संपूर्ण विलोपन	total quotient ring		संपूर्ण विभाज्य वलय
total extinction coefficient		संपूर्ण विलोपन-गुणांक	total radiation		पूर्ण विकिरण
total fluctuation		संपूर्ण उच्चावचन	total radiation pyrometer		संपूर्ण विकिरण उष्मापमापी
total free energy		संपूर्ण मुक्त ऊर्जा	total reflection		पूर्ण परावर्तन
total frictional drag		संपूर्ण घर्षणी कर्षण	total regression		पूर्ण समाश्रयण
total heat function		संपूर्ण ऊष्मा फलन	total relief effect		कुल उच्चावच प्रभाव
total heat transfer		संपूर्ण ऊष्मा स्थानांतरण	total reserve		संपूर्ण निधि
total income		संपूर्ण आय	total set		संपूर्ण सम्मूच्य
total index		संपूर्ण सूचकांक	total solid		संपूर्ण ठोस, संपूर्ण द्रव
total inspection		संपूर्ण निरीक्षण	total synthesis		पूर्ण संश्लेषण
total internal reflection		पूर्ण आन्तरिक परावर्तन	total variation		संपूर्ण विचरण
totaliser	<i>Chem.</i>	सर्वेक्षोपित्र	total variation measure		संपूर्ण विचरण माप
totalizing	<i>Chem.</i>	योगकरण	total width		पूर्ण प्रसर
total loading		संपूर्ण उद्भारण	tote box	<i>Chem.</i>	बाही बक्का
totally bounded		संपूर्णतया परिवद्ध	totem culture	<i>Geog.</i>	टोटैम-सम्बन्धि
totally disconnected		संपूर्णतया अलगबद्ध	totem group		टोटैम समूह
totally charged space		संपूर्णतया आविष्ट समष्टि	totemic		टोटैमी
totally discontinuous function		संपूर्णतया असतत फलन	totemic moiety		टोटैमी अघात
totally finite measure		संपूर्णतया परिमित माप	totemism	<i>Geog.</i>	टोटैमवाद
totally geodesic hyper surface		संपूर्णतया अत्यान्तरी ऊनविम पृष्ठ	totem pole		टोटैम सौंठ
totally geodesic subspace		संपूर्णतया अत्यान्तरी उपसमष्टि	totipalmate (steganopodus)	<i>Zool.</i>	पूर्णजानामुलीय
totally ordered set		संपूर्णतया क्रमिन् सम्मूच्य	totipotency	<i>Bot., Zool.</i>	पूर्णशक्तता
total metabolism		पूर्ण चयापचय	totipotent		पूर्णशक्त
total negative variation		संपूर्ण ऋण विचरण	toti-potential		पूर्णशक्ति
total ordering		संपूर्ण क्रमिकरण	totter grass	<i>Geog.</i>	विद्युर घास
			ton	<i>H.Sc.</i>	टून
			touch		स्पर्श
			touchdown velocity	<i>Math.</i>	अधःतराह वेग

touché	<i>Geog.</i>	दूषे	tower drier		टावर शोपक
touch-me-not	<i>Bot.</i>	गुलमेंहदी	towering mountain	<i>Geog.</i>	अत्योच्च पर्वत
touch-stone	<i>Geol.</i>	कसीटी	towering rage	<i>Geog.</i>	प्रचण्ड प्रकोप
tough	<i>Geol.</i>	चीमड़	tower station		मीनार चांदा
tough bowstring	<i>Geog.</i>	कठोर मोर्ची	towing craft	<i>Zool.</i>	कर्पण नौयान
tough clay		चीमड़ मृत्तिका, चर्मल मृत्तिका	towing line		कर्पण रज्जु
toughened glass	<i>Chem.</i>	चर्मलित काच	towing path	<i>Geog.</i>	नौ-कर्पण पथ
toughener		चर्मलक	tow line	<i>Geog.</i>	कर्प रज्जु
toughening		चर्मल	town	<i>Geog.</i>	नगर, टाउन
tough fracture		चर्मल विभंग	town balk	<i>Geog.</i>	वृहत् मेड़
toughness		चीमड़पन, चर्मलता	town-centre		नगर केन्द्र
toupin	<i>H.Sc.</i>	दूपीन	town character		नगर रूप
tourelle	<i>Geog.</i>	लघुमीनार, दूरेल	town cluster		नगर गुच्छ, नगर समूह
Tourilla's method	<i>Chem.</i>	टूरिला रीति, टूरिला पद्धति	town-country centre		नगर-ग्राम केन्द्र
tourism	<i>Geog.</i>	पर्यटन	town-country community		नगर-परिसर समुदाय
tourist resort	<i>Geog.</i>	पर्यटक विनोदस्थल	town dweller		नगर वासी
tourist traffic		पर्यटक यातायात	tow net	<i>Zool.</i>	कर्प जाल
tourmaline	<i>Geol.</i>	तुरमली, टूरमैलीन	townfolk		नगर वासी
tourmaline granite		टूरमैलीन ग्रेनाइट	town fortification		नगर किलाबंदी
tourmalinisation		टूरमैलीनीभवन	townhood	<i>Geog.</i>	नगरता
tourmalite	<i>Geol.</i>	टूरमैलाइट	town kernel		नगर कौड, टाउन कर्नेल
tourney	<i>H.Sc.</i>	दूरने	town land		टाउन लैन्ड
tourniquet		टुनिकेट	townlet	<i>Geog.</i>	कस्वा
tovis	<i>H.Sc.</i>	टोविस	Townley's hypothesis	<i>Chem.</i>	टाउनलि परिकल्पना
tow	<i>Chem.</i> <i>H.Sc.</i>	1. ह्रस्व-तंतु, टो 2. शिरोगुच्छ	town location		नगर अवस्थिति
towan	<i>Geog.</i>	तोवान, तटीय बलुआ टिब्बा	town planner		नगर नियोजक
towboat	<i>Geog.</i>	कर्पी नौका	town planning		नगर योजना
towel	<i>H.Sc.</i>	तौलिया, टॉविल	town planning region		नगर-योजना प्रदेश
toweling	<i>Chem.</i>	1. टावलन, प्रचूपण 2. टॉवेल वस्त्र	townscape		नगरदृश्य
towel weave		तौलिया बयन, टॉवेल व्युति	Townsend avalanche	<i>Chem.,Phy.</i>	टाउनसेन्ड अवघाव
tower	<i>Geog.</i>	टॉवर, मीनार	Townsend discharge		टाउनसेन्ड विसर्जन
tower antenna	<i>Phy.</i>	स्तम्भ ऐन्टेना	Townsend ionization		टाउनसेन्ड आयनन
			town's gas		नगर गैस
			township	<i>Geog.</i>	नगरक
			township centre		नगरक केन्द्र
			town site		नगर स्थल
			town situation		नगर स्थिति

town survey	<i>Geog</i>	नगर सर्वेक्षण	toy	<i>H Sc</i>	1 टॉय 2 खिलौना
towyn	<i>Geog.</i>	टोवाइन	toyama georgette	<i>H Sc</i>	टोयामा जॉर्जेट
toxa	<i>Zool</i>	धनुषाकार कटिना, टॉक्सि	trabecula	<i>Zool ,H Sc</i>	ट्रेबीक्युला, सबधक
toxaphene	<i>Chem , Zool</i>	टॉक्सिफोन	trabeculae carnae		हृद रज्जु
toxemia	<i>Zool.</i>	वाक्विष रक्तता	trabeculae cranii		कपाली सबधक
toxic	<i>Bot ,H Sc , Zool</i>	वाक्विषालु	trabecular area		सबधक क्षेत्र
toxicant		वाक्विषाक्त	trace	<i>Math</i>	1 (n) अनुरेख, अनुरेखण 2 मछेद (v) अनुरेखण करना
toxicarol	<i>Chem</i>	टॉक्सिकैरॉल		<i>Chem ,Geol</i>	पपरख, ट्रेस, लेश
toxication	<i>Zool ,H Sc.</i>	वाक्विषीकरण		<i>Bot.</i>	अनुपय, ट्रेस
toxic fume		वाक्विषी धूम	trace constituent		लेश घटक
toxicity	<i>H Sc.</i>	वाक्विषानुता	trace-contour system		अनुरेख-समोच्च रेखा प्रणाली
toxicognath	<i>Zool</i>	वाक्विषहनु	traced off		अनुरेखिन
toxicognathal secretion		वाक्विषहनु स्राव	trace element	<i>Chem</i>	सूक्ष्म मात्रिक तत्व, लेश-तत्व
toxicologist	<i>Zool.</i>	वाक्विषज्ञ	trace fossil		अनुरेख जीवाश्म
toxicology	<i>H.Sc.</i>	वाक्विषानुताविज्ञान	trace of a family		परिवार-सछेद
toxic symptom	<i>H Sc.</i>	विषैला लक्षण	trace of an element		अवयव का अनुरेख
toxicyst	<i>Zool.</i>	वाक्विषपुटी	trace of a representation		निरूपण का अनुरेख
toxiciferous	<i>Zool</i>	वाक्विषघर	trace of matrix		आव्यूह का अनुरेख
toxicification		वाक्विषीकरण	trace of rain		वर्षा-लेश
toxigenic (toxicogenic)	<i>Zool</i>	वाक्विषजन	tracer	<i>Geog. Phy</i>	1. अनुरेखक 2. अनुज्ञापक
toxiglossate		वाक्विषत्रिहृद	tracer chemistry	<i>Chem</i>	अनुज्ञापक रसायन, ट्रेसर रसायन, अनुरेखक रसायन
toxin	<i>Biol</i>	वाक्विष, टॉक्सिन	tracer level chemistry		अनुरेखक तल रसायन, ट्रेसर तल रसायन
toxisterol	<i>Chem.</i>	टॉक्सिस्टैरॉल	tracer method		अनुज्ञापक विधि, ट्रेसर विधि
<i>Toxocara canis</i>	<i>Zool</i>	टॉक्सोकारा केनिस	trace rotation system		अनुरेख घूर्णी तंत्र
toxocariasis	<i>Zool</i>	टॉक्सोकारिता	tracer scale	<i>Chem.</i>	सूक्ष्म मापक्रम, ट्रेसर स्केल
Toxodontia	<i>Zool.</i>	टॉक्सोडॉन्टिया	tracer study	<i>Bot.</i>	अनुज्ञापन-अध्ययन
Toxoglossa	<i>Zool.</i>	टॉक्सोग्लोसा	tracery	<i>Geog.,H.Sc.</i>	ट्रेसरी, नक्काशी
toxold		वाक्विषाप्त, टॉक्सोल्ड	traces		अनुरेख प्रति
toxophoric group	<i>Chem</i>	विषगुणी समूह	trace scattering		लेश प्रकीर्णन
toxoplasma	<i>Zool</i>	टॉक्सोप्लाज्मा, वाक्विषद्रव्य			
toxoplasmosis		टॉक्सोप्लाज्मिता, वाक्विषद्रव्यता			
<i>Toxopneustes pileolus</i>	<i>Zool.</i>	टॉक्सोपन्युस्टीज पाइलिओलस			



trace slip		अनुरेख सर्पण	tracing arm		अनुरेखण वाहू
traces of cloud		मेघ-लेख	tracing cloth		अनुरेखण-वस्त्र
trace wave length		अनुरेख तरंग दैर्घ्यं	tracing-cloth method		अनुरेख-वस्त्र विधि
trachea	Zool. H.Sc.	श्वासनली, वातक श्वासप्रणाल	tracing film		अनुरेखण फिल्म
tracheal bulla		श्वासनली गोलक	tracing glass		अनुरेखण-कांच
tracheal end-cell		वातक अंत्य कोशिका	tracing paper		अनुरेखण-कागज, अक्स कागज
tracheal gill		वातक क्लोम	tracing-paper method		अनुरेख-कागज विधि
tracheal intima		वातक अन्तरक	tracing point		अनुरेखण बिन्दु
tracheal lung		श्वासनली-फुफ्फुस, वातक फुफ्फुस	tracing routine	Phy.	प्रोग्राम निदान नेमका
tracheal mantle	Bot.	वाहिका प्रावार	tracing table		अनुरेखण मेज, ट्रेसिंग टैबुल
tracheal trunk	Zool	महावातक, महाश्वासनली	tracing thread		अनुरेखण धागा
tracheal tube		श्वासनाल, वातकीनाल	tracing wheel		अनुरेखण पहिया
tracheary	Bot.	वाहिकीय	track (marks of feet)	Geol. Geog.	पदचिह्न, पथचिह्न
tracheate arthropod		श्वासनलिक आश्रोपांड, वातकी संघिपाद	track-command guidance	Phy.	पथादेश निर्देशन
tracheation	Zool.	श्वासनलीन्यास, वातक- न्यास	track distortion	Phy.	लीक विकृति
tracheidal	Bot.	वाहिनिकीय	track in (=dolly in)	Phy.	दूरी घटाना
<i>Trachelomonas armata</i>	Bot.	ट्रेकोलोमोनास आर्मेटा	tracking (of circuit)	Phy.	अनुवर्तन
tracheoblast	Zool.	वातककोरक	tracking circuit		अनुवर्तक परिपथ
tracheole	Zool.	श्वासनलिका, लघुवातक	tracking shot	Phy.	अनुगामी शॉट
tracheophyta	Bot.	ट्रेकिओफाइटा	(=follow shot)		
tracheospiracular metamere	Zool.	वातक-श्वासरंध्री विखंड	tracking telescope		अनुवर्तन दूरबीन
tracheospiracular system		वातक-श्वासरंध्री तंत्र, श्वासनली-रंध्र तंत्र	track length		लीक दैर्घ्यं, लीक लंबाई
trachographic method	Geog.	ट्रेकोग्राफीय विधि	trackless ocean	Geog.	पथहीन महासागर
trachographic symbol		ट्रेकोग्राफीय प्रतीक	track of depression	Geog.	अवदाद-पथ
trachorheite	Geol.	ट्रेकोर्हाइट	track out (=dolly out)	Phy.	दूरी बढ़ाना
trachyaugite	Geol.	ट्रेकीओजाइट	tracks and trails		पथ और पदचिह्न
trachycarpous	Bot.	परुपफली	track taper	Phy.	शुंडाकार लीक
trachydolerite	Geol.	ट्रेकीडोलराइट	tract	Geog.	प्रदेश, क्षेत्र
trachyspermous	Bot.	परुपबीजी	tractable form	Phy.	सुविघ्राजनक रूप
trachytic magma	Geog.	ट्रेकाइटो मैग्मा *	traction	Geol., Geog., Math.	कर्पण
tracing	Math. H.Sc., Geog.	अनुरेखण अक्स अंकन	tractional creep		कर्पण-विसर्पण
			traction fibres		कर्पण तंतु
			traction thickener		कर्पण प्रगाढ़कारी

tractive force	<i>Math</i>	कर्षण बल	traditional peasantry	परम्परागत विमानकर्म
tract of land	<i>Geog.</i>	भू-क्षेत्र	traditional statistical method	परम्परागत सांख्यिकीय विधि
tractory (= tractrix)	<i>Math.</i>	ट्रैक्टरी, रज्जु प्रति केन्द्रज	traditional territory	परम्परागत प्रदेश
tractrix (= tractor)	<i>Math.</i>	रज्जु प्रतिकेन्द्रज	Traieichthodes	<i>Zool</i>
tractus supra-orbitalis	<i>Zool</i>	अधिनैवकोटर तत्रिका पट्ट	traffic	यातायात
trade	<i>Geog</i>	व्यापार	traffic analysis	यातायात विश्लेषण
trade area		व्यापार-क्षेत्र	traffic census	यातायात गणना
trade-centre		व्यापार-केन्द्र	traffic congestion	यातायात भीड़, यातायात सकुलता
trade channel		व्यापार मार्ग	traffic density	यातायात सघनता
trade depression		व्यापार अवपात	traffic flow	यातायात प्रवाह
trade district		व्यापार क्षेत्र	traffic flow cartogram	यातायात परिमाण-मानारेख
trade dominion		व्यापार अधिराज्य	traffic flowline	यातायात प्रवाहरेखा
trade off function	<i>Math.</i>	निमित्त फलन	traffic flow map	यातायात-परिमाण-मान-चित्र
trader		व्यापारी	traffic-handling capacity	यातायात-निर्देशन क्षमता
trade restriction		व्यापार प्रतिबंध	traffic highway	यातायात महामार्ग
trade route		व्यापारिक मार्ग	traffic intensity	यातायात तीव्रता
trades		व्यापारिक हवार्	traffic management	यातायात-प्रबंध
<i>Tradescantia zebrina</i>	<i>Bot.</i>	ट्रेडेस्कान्थिया जेब्राइना	traffic meter	यातायात मापी
trade situation		व्यापार दशा	traffic net	यातायात-जाल
trade statistics		व्यापारिक आंकड़े	traffic node	यातायात सगम
trade territory		व्यापार क्षेत्र	tragacanth	<i>H.Sc.</i>
trade triangle		व्यापार त्रिभौज	Tragia	<i>Bot</i>
trade wind		व्यापारिक पवन	<i>Tragia involucrata</i>	ट्रेगिया इन्वोल्यूक्रेटा
trading junk		व्यापारिक पोत	Tragulidae	<i>Zool.</i>
trading outpost	<i>Geog.</i>	व्यापार बहिर्पोती	Tragulina	<i>Zool.</i>
trading post		व्यापार केन्द्र	Traguloidea	<i>Bot.</i>
trading station		व्यापार केन्द्र	Tragulus	<i>Zool.</i>
trading town		व्यापार-नगर	tragus	<i>Zool.</i>
taditional		परम्परागत	trail	<i>Geol., Geog</i>
traditional convention		परम्परागत संधि	trailing	<i>Bot.</i>
traditional decision theory	<i>Math</i>	पारस्परिक निर्णय सिद्धान्त	trailing antenna	<i>Phy.</i>
traditional habit		पारस्परिक स्वभाव	trailing blade coater	
traditional hunting territory		परम्परागत शिकार-क्षेत्र	trailing edge	<i>Math</i>
traditionalist life	<i>Geog.</i>	परम्परावादी जीवन		
traditional land		परम्परागत प्रदेश		

trailing edge pulse-time	<i>Phy.</i>	स्पन्द समाप्ति काल	tranquility	<i>H.Sc., Chem.</i>	प्रशान्ति
trailing flagellum	<i>Zool.</i>	अनुग कशाभ	tranquil laminar movement	<i>Geol.</i>	धीर स्तरीय गति
trailing form	<i>Bot.</i>	तलसर्पी प्रकार	tranquilliser		प्रशान्तक
trail of fault		अंश-पयचिह्न	tranquil melt	<i>Chem.</i>	प्रशान्त गलित
trailer	<i>Geog.</i>	ट्रेलर, अनुयान	tranquil turbulent movement		धीर विकुब्ध गति
trailer-camp		ट्रेलर-कैम्प	tranquil water		प्रशान्त जल
train	<i>Chem.</i>	पंक्ति, श्रेणी, ट्रेन	trans	<i>Chem.</i>	ट्रान्स, विपक्ष
train-boat-train trip	<i>Geog.</i>	रेल-नौका-रेल यात्रा	trans acid		ट्रान्स ऐसिड, विपक्ष अम्ल
train-ferry port		ट्रेन-फेरी पोर्ट	transaction	<i>H.Sc.</i>	संचालन
training	<i>H.Sc.</i>	प्रशिक्षण	transaction data	<i>Phy.</i>	संक्रमणी दत्त
trainite	<i>Geol.</i>	ट्रेनाइट	transad	<i>Bot.</i>	ट्रान्जैड
train of impulses	<i>Phy.</i>	आवेग-माला	transadmittance	<i>Phy.</i>	अन्योन्यप्रवेश्यता
train of simple harmonic waves	<i>Math.</i>	सरल आवर्त तरंगावलि	transaharan pastoralist	<i>Geog.</i>	पार-सहारा पशुचारक
train of waves	<i>Math.,Phy.</i>	तरंगावलि	transaldolase	<i>Chem.</i>	ट्रान्स-ऐल्डोलेस
trait	<i>Zool.</i>	विशेषक	transalkylation	<i>Chem.</i>	ट्रान्स-ऐल्किलीकरण, विपक्ष-ऐल्किलन
trait complex	<i>Geog.</i>	संक्षेपपुंज	trans-ameridium	<i>Chem.</i>	पार-ऐमेरिशियम
trajectory	<i>Phy.,Math.</i>	1. प्रक्षेप-पथ, प्रपथ 2. संछेदी	transaminase	<i>Chem.</i>	ट्रान्सऐमिनेस
trajectory of cosmic rays	<i>Math.</i>	अंतरिक्ष किरण-पथ	transamination	<i>H.Sc., Chem., Zool.</i>	ट्रान्सऐमीनेशन, विपक्ष-ऐमीनन
trajectory phases		प्रक्षेप-पथ कलाएं	trans-Andean airways	<i>Geog.</i>	ट्रान्स-ऐंडियन ऐयरवेज
tram	<i>Chem., H.Sc.</i>	ट्राम	transannular	<i>Chem.</i>	पारबलय
trama	<i>Bot.</i>	ट्रामा	transannular tautomerism		पार-बलय-चलावयवता
tramal plate	<i>Bot.</i>	ट्रामी पट्टिका	trans arrangement	<i>Zool.</i>	पार विन्यास
trama vaga	<i>H.Sc.</i>	ट्रामा वैगा	trans-Atlantic flight	<i>Geog.</i>	अटलांटिक-पार उड़ान
Tramella	<i>Bot.</i>	ट्रेमेल्ला	transcendence set	<i>Math.</i>	अबीजीयता-समुच्चय
Tramellales	<i>Bot.</i>	ट्रेमेल्लीज	transcendency basis		अबीजीयता-आधार
trammel net	<i>Zool.</i>	ट्रेमेल जाल	transcendency degree		अबीजीयता-मात्रा
trammet	<i>H.Sc.</i>	ट्रेमेट	transcendental	<i>Math.</i>	अबीजीय
tramontana	<i>Geog.</i>	ट्रेमॉन्टेना	transcendental character	<i>Math.</i>	गूढ़ अभिलक्षण
tramp iron	<i>Chem,Geol.</i>	ट्रेम्प लोहा, अवांछ लोहा	transcendental curves		अबीजीय वक्र
tramway	<i>Geog.</i>	ट्रामवे			
tranchet	<i>Geol.</i>	ट्रान्शेट			
tranophyte	<i>Bot.</i>	वेद्यकोद्भिद्			

transcendental element		अबीजीय अवयव	transection	<i>Bot.</i>	अनुप्रस्थकाट, अनुकाट
transcendental entire function		अबीजीय सर्वस वैश्लेषिक फलन	trans effect		विपक्ष प्रभाव
transcendental equation		अबीजीय समीकरण	transelant	<i>Chem (Paint)</i>	सदाश्वेत
transcendental extension		अबीजीय विस्तार	trans-elimination		विपक्ष निराकरण
transcendental function		अबीजीय फलन	trans-equatorial	<i>Geog</i>	पारविषुवतीय
transcendental number		अबीजीय सख्या	trans-esterification	<i>Chem.</i>	विपक्ष ऐस्टरीकरण
transcendental relative		अबीजीय संबंधी	Transfax process	<i>Chem</i>	ट्रान्सफैक्स प्रक्रम
transcendental singularity		अबीजीय विचित्रता	transfer	<i>Geog., Chem., Math</i>	स्थानान्तरण
transciever	<i>Phy.</i>	प्रेषाभिवाही, ट्रांस्मीटर	transferable goods	<i>H Sc.</i>	अन्तरणीय वस्तुएँ
transconductance	<i>Phy.</i>	अन्तराचालकता	transfer characteristic	<i>Phy</i>	अन्तरण अभिलक्षण
transcontinental arc	<i>Geog.</i>	पारमहाद्वीपीय चाप	transfer conductance	<i>Phy.</i>	अन्तरित चालकता
transcriber	<i>Phy.</i>	अनुलेखित्र	transfer constant		अन्तरित स्थिरांक
transcription	<i>Phy., Geol.</i>	अनुलेखन	transfer-cost pattern		स्थानान्तरण-मूल्य प्रतिरूप
transcription machine signals		अनुलेखन यन्त्र संकेत	transfer current		अन्तरित धारा
transcrystalline fracture	<i>Chem. (Met.)</i>	पारक्रिस्टली विभंग	transfer ellipse		अन्तरण दीर्घवृत्त
transcurium element	<i>Chem. (Nucl)</i>	पारक्यूरियम तत्व	transference		स्थानान्तरण, अभिगमन
transcurrent fault	<i>Geol</i>	ट्रान्सकरेंट भ्रम	transference number		अभिगमनंशु
transcutaneous	<i>Zool.</i>	त्वचाप्रवेशी	transfer equation		स्थानान्तरण-समीकरण
transducer gam	<i>Phy.</i>	ट्रान्सड्यूसर लक्ष्य	transfer function	<i>Phy, Math</i>	अन्तरित फलन
transducer insertion gain		ट्रान्सड्यूसर निवेशन लक्ष्य	transfer glass		स्थानान्तर काच
transducer insertion loss		ट्रान्सड्यूसर निवेशन हानि	transfer impedance		अन्तरित प्रतिबाधा
transducer loss		ट्रान्सड्यूसर हानि, ट्रान्सड्यूसर नष्ट	transfer instruction		स्थानान्तरण अनुदेश
transducing	<i>Zool.</i>	पारक्रमी	transfer key		अन्तरण कुञ्जिका
transducing activity		पारक्रमी सक्रियता	transfer line		स्थानान्तर साइन
transduction	<i>Biol.</i>	पारक्रमण	transfer method		स्थानान्तर विधि
transductor amplifier (=magnetic)	<i>Phy.</i>	धुम्बकीय प्रवर्धक	transfer needle		स्थानान्तरण सुविकी
transect	<i>Bot.</i>	ट्रान्सेक्ट	transfer of detail		क्षिपिल-स्थानान्तरण
			transfer of enclaves	<i>Geog.</i>	अन्तर्वेस्ती अन्तरण
			transfer plate technique		स्थानान्तर पट्टिका तकनीक
			transfer port		स्थानान्तरण विवर
			transfer problem		स्थानान्तरण-समस्या
			transferrin	<i>Chem.</i>	ट्रंसफेरिन
			transferring enzyme		स्थानान्तरणीय एन्जाइम

transfer room		अन्तरण कक्ष	transformation ratio	<i>Phy.</i>	परिणमन-अनुपात
transfer valve		अन्तरण वाल्व	transform calculus		रूपान्तर-कलन
transfinite cardinal number	<i>Math.</i>	परिमितातीत गणन-संख्या	transformed function	<i>Math.</i>	रूपान्तरित फलन
transfinite diameter		परिमितातीत व्यास	transformed remainder function		रूपान्तरित शेष-फलन
transfinite induction		परिमितातीत आगमन	transformed matrix		रूपान्तरित आव्यूह
transfinite line		परिमितातीत रेखा	transformed sum-function		रूपान्तरित योग-फलन
transfinite number		परिमितातीत संख्या	transformed variables		रूपान्तरित चर
transfinite ordinal number		परिमितातीत क्रमसूचक संख्या	transformer	<i>H.Sc., Phy.</i>	परिणामित्र, ट्रान्सफॉर्मर
transfluence	<i>Geol., Geog.</i>	पारप्रवाह		<i>Zool.</i>	रूपान्तरक
trans-form		विपक्ष रूप	transformer amplifier		ट्रान्सफॉर्मर प्रवर्धक
transform	<i>Math.</i>	रूपान्तर	transformer coupling		परिणामित्र युग्मन
transformant		रूपान्तरज	transformer gene		रूपान्तरकारी जीन
transformation		रूपान्तरण, परिणमन	transformer hybrid (= hybrid set)	<i>Phy.</i>	संकर सेट
transformation constant		रूपान्तरण स्थिरांक	transformer oil		ट्रान्सफॉर्मर तेल, रूपान्तरित तेल
transformation equation		रूपान्तरण-समीकरण	transformer wave guide		ट्रान्सफॉर्मर तरंग पथक
transformation formula		रूपान्तरण-सूत्र	transforming		रूपान्तरण
transformation group		रूपान्तरण-समूह	transforming printer		रूपान्तरण मुद्रित्र
transformationist	<i>Geol.</i>	रूपान्तरवादी	transformism	<i>Geol.</i>	रूपान्तरता, रूपान्तरवाद
transformation matrix		रूपान्तरण आव्यूह	transfrontier	<i>Geog.</i>	सीमापार
transformation of acceleration		त्वरण का रूपान्तरण	transfrontier area		सीमापार क्षेत्र
transformation of coordinates		निर्देशांकों का रूपान्तरण	transfusion	<i>H.Sc.</i>	धाधान
transformation of electric field		वैद्युत क्षेत्र का रूपान्तरण	transfusion cell	<i>Bot.</i>	संचरण-कोशिका
transformation of energy		ऊर्जा-रूपान्तरण	transfusion reaction	<i>Zool.</i>	आधान प्रतिक्रिया
transformation of force		बल-रूपान्तरण	transfusion tissue		संचरण-ऊतक
transformation of multiple integrals		बहु समाकलों का रूपान्तरण	transfusion-tracheid		संचरण वाहिनिका
transformation of vector		सदिश-रूपान्तरण	trans-glycosylation		विपक्ष-ग्लाइकोसिलन
transformation of velocity		वेग-रूपान्तरण	transgression	<i>Geol.</i>	अतिक्रमण
transformation period		रूपान्तरण काल	transgressive		अतिक्रामी
			transgressive overlap		अतिक्रामी अधिव्यापन
			transgressive segregation		अतिक्रामी पृथक्करण
			transgressive sill		अतिक्रामी सिल
			transgressive variation		अतिक्रामी विविधता

trans-heterozygote	Zool.	पार-विषमयुग्मज	transit axis	संज्ञामी अक्ष
trans-Himalaya		पार हिमालय	transit circle	याम्योत्तर वृत्त
transhipment	Geog.	यातान्तरण, वाहतान्तरण	transite	Chem. (Met)
transhipment problem	Math.	घोत-परिवहन समस्या	transit instrument	याम्योत्तर-यंत्र
transhumance	Geog.	ऋतु-प्रवास	transition	Math, Geol.
transient behavior	Math.	क्षणिक आचरण	transitional	संक्रमण
transient current		क्षणिक धारा	transitional character	संज्ञामी प्रकृति
transient current ratio		क्षणिक धारा अनुपात	transitional curve	संज्ञामी वक्र
transient distortion		क्षणिक विरूपण, अल्प-स्थायी विरूपण	transitional edition	Geog
transient effect		क्षणिक प्रभाव	transitional element	संक्रमण तत्व
transient equilibrium	Phy.	अल्पस्थायी साम्यावस्था	transitional energy	स्थानान्तरण ऊर्जा
transient medium		क्षणिक माध्यम	transitional energy level	संक्रमण ऊर्जा तल
transient mosaic		अल्पस्थायी मोजेक, अल्पस्थायी किर्माँर	transitional partition function	स्थानांतरीय विभाजन फलन
transient problem		क्षणिक समस्या	transitional region	संक्रमण प्रदेश
transient response		क्षणिक अनुक्रिया	transitional series	संक्रमण-श्रेणी
transients	Phy. Zool.	क्षणिकार्ण क्षणजीवी	transitional stage	संज्ञान्ति अवस्था
transient solution		क्षणिक हल	transitional surface	संक्रमण पृष्ठ
transient species	Bot., Zool.	संक्रमणी जाति	transitional type	संज्ञामी प्रकार, संक्रमण प्रकार
transient state		क्षणिक अवस्था	transitional value	संक्रमण-मान
transient term		अल्पस्थायी पद	transitional zone	संक्रमण-क्षेत्र
transient vibration		क्षणिक कंपन, अल्पस्थायी कंपन	transition cone	संक्रमण शंकु
transinformation (or mutual information)	Math.	पारस्परिक सूचना	transition effect	संक्रमण प्रभाव
trans-isomer		द्विपक्ष समावयव, ट्रान्स-आइसोमर	transition element	संक्रमण तत्व
transistor	Phy.	ट्रांजिस्टर	transition energy	संक्रमण ऊर्जा
transistor alpha		ट्रांजिस्टर ऐल्फा	transition energy level	संक्रमणी ऊर्जा तल
transistor amplifier		ट्रांजिस्टर प्रवर्धक	transition flow	संक्रमण प्रवाह
transistorized		ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टरित	transition frequency	संक्रमण आवृत्ति
transistorized equipment		ट्रांजिस्टरित उपकरण	transition interval	संक्रमण अन्तराल
transistorized microphone		ट्रांजिस्टरित माइक्रोफोन	transition layer	संक्रमण स्तर
transistor oscillator		ट्रांजिस्टरित दोलक	transition matrix	संक्रमण आव्यूह
transit	Math	याम्योत्तर गमन, संक्रमण	transition metal	संक्रमण-धातु
			transition moment	संक्रमण आवृत्ति
			transition moor	संक्रमण मूर

transition of formant frequency		फॉर्मेट-आवृत्ति-संक्रमण	transitron oscillator		ट्रान्ज़िट्रॉन दोलित्र
transition operator		संक्रमण-संकारक	transit room	<i>Geog.</i>	संक्रमण कक्ष, ट्रान्ज़िट कक्ष
transition point		संक्रमण-बिन्दु	transit rot	<i>Bot.</i>	गमन विगलन
transition probability		संक्रमण प्रायिकता	transit-stadia survey	<i>Geog.</i>	ट्रान्ज़िट-स्टेडिया सर्वेक्षण
transition probability matrix		संक्रमण प्रायिकता आव्यूह	transit tape survey		ट्रान्ज़िट-फीता सर्वेक्षण
transition radiation		संक्रमण विकिरण	transit theodolite	<i>Geog., Phy.</i>	ऊर्ध्वांचल थियोडोलाइट, ट्रान्ज़िट थियोडोलाइट, याम्योत्तरी थियोडोलाइट
transition range		संक्रमण परिसर	transit time	<i>Phy., Geol.</i>	गमन काल
transition region		संक्रमण क्षेत्र	transit time correction		गमन काल संशोधन
transition resistance		संक्रमण प्रतिरोध	transit time mode		गमन काल विधा
transition series		संक्रमण-श्रेणी	transit time modulation		गमन काल मॉड्यूलन
transition state		संक्रमण-अवस्था	transketolase	<i>Chem.</i>	ट्रान्सकीटोलेस
transition state theory		संक्रमण-अवस्था-वाद	translate	<i>Math.</i>	(adj.) स्थानांतरित
transition temperature		संक्रमण ताप	translating	<i>Phy.</i>	प्रोग्राम अनूदन
transition type nebula		संक्रमण प्रकार की नीहारिका	(= compiling)		
transitive	<i>Math.</i>	संक्रामक	translation	<i>Bot., Math., Phy.</i>	स्थानांतरण
transitive action		संक्रामक क्रिया	translational		स्थानांतरीय
transitive group of covering		आवरण का संक्रामक समूह	translational energy		स्थानांतरीय ऊर्जा
transitive G-structure		संक्रामक G-संरचना	translational energy levels		स्थानांतरीय ऊर्जा स्तर
transitive law		संक्रमण-नियम	translational fault		स्थानांतरी फ्रंश
transitive permutation group		संक्रामक क्रमचय समूह	translational motion		स्थानांतरण-गति
transitive relation		संक्रामक संबंध	translational-rotational motion		स्थानांतरण-घूर्णन-गति
transitivity		संक्रामिता	translational slip		स्थानांतरणीय सर्पण
transitivity of asymptotes		अनंतस्पर्शियों की संक्रामिता	translational symmetry		स्थानांतरीय सममिति
transitivity of integralness		पूर्णांकता की संक्रामिता	translational velocity		स्थानांतरण वेग
transitivity set		संक्रामिता-समुच्चय	translation equivalent		स्थानांतरण तुल्य
transit of venus		शुक्र-संक्रमण	translation gliding		स्थानांतरी विसर्पण
transitory	<i>Phy.</i>	क्षणिक	translation group		स्थानांतरण समूह, स्थानांतरण ग्रूप
transitory compound		क्षणिक यौगिक	translation invariant		स्थानांतरण-निश्चर
transitory current		क्षणिक धारा	translation less		(= play back loss)
transitory parasitism	<i>Zool.</i>	अल्पकालिक परजीवित्व	translation loss		प्रतिध्वनिक हानि
transitory period		क्षणिक अवधि			
transitron	<i>Phy.</i>	ट्रान्ज़िट्रॉन			

translation operation		स्थानांतरण सक्रिया	transmission line	Phy.	ऐन्टेना निवेशक
translation parameter	Math	स्थान-निर्धारण-प्राचल	feeder (=antenna feed)		
translation theorem		स्थानांतरण प्रमेय	transmission line		संचरण-साइन
translation twinning texture		स्थानांतरण यमलन गठन	transmission monitor	Phy.	मास्टर मानीटर
translation vector		स्थानांतरण वेक्टर, स्थानांतरण सदिश	(=on the air monitor =master monitor)		
translator		1 अनुवादक 2 स्थानांतरक	transmission of electricity		विद्युत्-संचरण
translatory		स्थानांतरीय	transmission plane		पारगमन तल
translatory motion		स्थानांतरीय गति	transmission power		संचरण क्षमता
translatory movement		स्थानांतरण-गति	transmission primary		संचार मूलवर्ध
transliteration		लिप्यन्तरण	transmission spectrograph		पारगमन स्पेक्ट्रमलेखी
translocase	Bot.	ट्रान्सलोकेश	transmission threshold period		अल्पतम संचारणावधि
translocated		स्थानांतरित	transmissivity	Phy	पारगम्यता
translocation	Biol.,H.Sc.	स्थानांतरण	transmissometer	Phy.	संचरणलेखित्र
translunar space	Phy	पारचन्द्रिक अकाश	transmit		प्रेषण करना, संचार करना
translucence	Phy.,H.Sc.	पारभासकता	transmit receive switch		प्रेष-प्राप्ती युक्ति
translucent		पारभासी, पारभासक	transmitted	Phy	पारगम
transmanganin	Chem.	ट्रान्समैंगनिन	transmitted ray		पारगमन किरण
transmarine	Geog.	पारसमुद्री	transmitted reflection		संचरित परावर्तन
transmarine island		पारसमुद्री द्वीप	transmitted wave	Math.	प्रेषित तरंग
transmigrating	Bot	पारप्रवास]	transmitter	Zool,Phy.	प्रेषी, प्रेषित्र, संचारी
transmissibility	Bot,Phy	संचरणशीलता	transmitting array		प्रेषी व्यूह
transmission	Phy.,Geog Biol.	संचरण, प्रेषण, संचारण, पारगमन	transmitting station		प्रेषण केन्द्र
transmission coefficient		पारगमन गुणांक	transmitting tissue		प्रेषणी ऊतक
transmission curve		संचरण वक्र	transmittivity	Phy.	पारगम्यतांक
transmission density		पारगमन घनत्व	transmontane	Geog.	पारपर्वतीय
transmission diagram		प्रेषण आरेख	transmontane contact		पारपर्वतीय संपर्क
transmission effect		संचारण प्रभाव, संचारण निष्पत्ति	transmutation	Phy	तत्वांतरण
transmission efficiency		प्रेषण दक्षता	transmutation function		तत्वांतरण फन
transmission grating		पारगमन श्रेटिंग	transmuting agent	Phy.	तत्वांतरक
transmission level		संचरण स्तर	transneuronal degeneration	Zool	पारतंत्रिकीय ह्रास
transmission level meter		संचरण स्तरमापी			



transoceanic	<i>Geog.</i>	पारमहासागरीय	transpiration cycle	वाष्पोत्सर्जन चक्र
transoceanic air route		पारमहासागरीय वायुमार्ग	transpiration cylinder	वाष्पोत्सर्जन सिलिन्डर
transoceanic connection	<i>Geol.</i>	पारसमुद्री संधि	transpiration efficiency	वाष्पोत्सर्जन-क्षमता
transocean route	<i>Geog.</i>	महासागरपार मार्ग	transpiration method	पारसरण पद्धति
transoid	<i>Chem.</i>	ट्रान्सॉइड, अन्तरित विषम	transpiration parameter	वाष्पोत्सर्जन रूद्रमापी
trans-o-meter	<i>Chem. (Paint.)</i>	पारगम्यता-मापी, प्रच्छादन-सामर्थ्य-मापी	transpiring power	वाष्पोत्सर्जन-क्षमता
transonic	<i>Phy., Math.</i>	बाध्वनिक	transpirograph	वाष्पोत्सर्जन लेखी
transonic aircraft		बाध्वनिक वायुयान	transpirometer	वाष्पोत्सर्जन मापी
transosonde	<i>Geol.</i>	ट्रान्सोसॉन्डे	transplantation	<i>Boil.</i> प्रतिरोपण
transovarial transmission	<i>Zool.</i>	पारब्रंडाशयी संचरण	transplanted fish	प्रतिरोपित मत्स्य
trans-Pacific	<i>Geog.</i>	पार-प्रशान्त	transplanting	प्रतिरोपण
transpalatine	<i>Zool.</i>	पारतालव	trans-Plutonian planet	<i>Math.</i> पारप्लूटो ग्रह
transparency (of potential barrier)	<i>Phy.</i>	पारगम्यता	transplutonium	<i>Chem. (Nucl)</i> पार-प्लूटोनियम
transparency	<i>Phy., Geog.</i>	1. पारदर्शिता, पारदर्शकता 2. पारदर्शी चित्र	transponder	<i>Phy.</i> प्रेषानुकर :
transparency positive		ट्रान्स्पेरेन्ती पॉजिटिव	transponder station	<i>Geog.</i> ट्रान्सपॉन्डर स्टेशन
transparency range		पारदर्शिता परिसर	transponding radio buoy	<i>Geog.</i> प्रेषग्राही रेडियो उत्प्लान
transparent		पारदर्शी, पारदर्शक	transport	<i>Math., Geog., Phy.</i> अभिगमन, परिवहन
transparent detector		पारदर्शी संसूचक	transport acceleration	अभिगमन-त्वरण
transparent icing		पारदर्शी मिष्टलेप	transportation	<i>Math., Geog., Geol.</i> परिवहन
transparent microfossil		पारदर्शी सूक्ष्मजीवाश्म	transportation cost	<i>Math.</i> परिवहन लागत
transparent positive		पारदर्शी पॉजिटिव	transportation problem	परिवहन समस्या
transparent template card		पारदर्शी टेम्पलेट कार्ड	transportation time	परिवहन काल
transparent velvet		पारदर्शी मखमल	transport cross section	<i>Phy., Math.</i> अभिगमन परिक्षेत्र
transphosphorylase	<i>Bot.</i>	ट्रान्सफॉस्फोरिलेस	transported	<i>Geol., Geog.</i> वाहित
transpiration	<i>Bot. Phy. Chem.</i>	वाष्पोत्सर्जन पारस्वरण पारसरण	transported deposit	वाहित निक्षेप
transpirational loss		वाष्पोत्सर्जनक हानि	transported glacial deposit	वाहित-हिमनदीय निक्षेप
transpiration balance		पारसरण तुला	transported material	वाहित पदार्थ
transpiration chamber		वाष्पोत्सर्जन कक्ष	transported molecule	अभिगमित अणु
			transported soil	वाहित मिट्टी, वाहित मृदा
			transport equation	अभिगमन-समीकरण
			transport factor	पारवहनांक, पारवहन-गुणक

transport host	<i>Zool</i>	वहन परपोषी	transversal acceleration	अनुप्रस्थ त्वरण
transporting agent	<i>Geol</i>	वाहक	transversal Doppler effect	अनुप्रस्थ डॉप्लर प्रभाव
transport mean free path		अभिगमन-माध्य-मुक्त पथ	transversal force	अनुप्रस्थ बल
transport motion		अभिगमन गति	transversalis abdominis	<i>H.Sc.</i> अनुप्रस्थ उदरिका
transport number		अभिगमनांक	transversality	<i>Math.</i> अनुप्रस्थता
transport phenomenon		अभिगमनी परिघटना	transversality condition	अनुप्रस्थता प्रतिबंध
transport rate		अभिगमन दर, अभिगमन बर्त	transversal mass	अनुप्रस्थ द्रव्यमान
transport ratio		अभिगमन-अनुपात	transversal velocity	अनुप्रस्थ वेग
transport theory		अभिगमन सिद्धान्त	transversal wave	अनुप्रस्थ तरंग
transport town		परिवहन नगर	transverse	अनुप्रस्थ, आड़ा
transport velocity		अभिगमन वेग	transverse acceleration	अनुप्रस्थ त्वरण
transport-widerstand		वहन प्रतिरोध	transverse acoustical phonon	अनुप्रस्थ ध्वानिक फोनोन
transposability	<i>Zool.</i>	परिवर्तशीलता	transverse artery	अनुप्रस्थ धमनी
transposable		परिवर्तशील	transverse axis	अनुप्रस्थ अक्ष
transpose	<i>Math.</i>	परिवर्त	transverse bar	अनुप्रस्थ रोधिका
transposed matrix		आव्यूह-परिवर्त	transverse bubble	अनुप्रस्थ बुलबुला
transposed operator	<i>Math.</i>	पदान्तरित सकारक	transverse canal	अनुप्रस्थ नाल
transposed twill	<i>Chem.</i>	क्रमपरिवर्तित ट्वील, ट्रान्सपोज्ड ट्वील	transverse channel	अनुप्रस्थ प्रणाल
transpose of matrix		आव्यूह-परिवर्त	transverse circulation	अनुप्रस्थ परिचरण
transposition	<i>Math</i>	पदान्तरण	transverse cleft	अनुप्रस्थ विदार
transposition-invariant		पदान्तरण निश्चर	transverse coast	अनुप्रस्थ तट
trans-position pseudoallele	<i>Zool.</i>	पार-स्थिति कूटविकल्पी	transverse colon	अनुप्रस्थ बृहदांत्र
transposition sort	<i>Math.</i>	अंतरण छटाई	transverse commissure	अनुप्रस्थ संध्यायी
transpyloric plane	<i>H.Sc.</i>	अनुप्रस्थ-ब्रह्मरनिगम तल	transverse connective	अनुप्रस्थ संध्यायी
trans-tidal wave	<i>Geog.</i>	पार-ज्वारीय तरंग	transverse crevasse	अनुप्रस्थ हिमविदार
transudation	<i>Zool.</i>	पारस्रावण	transverse curves	अनुप्रस्थ वक्र
transuranic elements	<i>Phy.,Chem.</i>	परापूरेनियम-तत्व	transverse dehiscence	अनुप्रस्थ स्फुटन
transuranics		परापूरेनियमिकी	transverse dimension	अनुप्रस्थ विमा
transuranium elements		परापूरेनियम तत्व	transverse displacement	अनुप्रस्थ विस्थापन
transvariation	<i>Math.</i>	प्रतिविचरण	transverse Doppler effect	अनुप्रस्थ डॉप्लर प्रभाव
transverse	<i>Chem.</i>	निस्तारण	transverse dorsal commissure	अनुप्रस्थ पृष्ठीय संध्यायी
transverse	<i>Math.</i>	ट्रान्सवर्सन		
transverse	<i>Math.</i>	अनुप्रस्थ, तिर्यक छेदी रेखा		

transverse dune	अनुप्रस्थ टिब्बा	transverse relaxation time	अनुप्रस्थ विश्रान्ति काल
transverse electric wave	अनुप्रस्थ वैद्युत तरंग	transverse rift	अनुप्रस्थ रिफ्ट
transverse electro-magnetic wave	अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग	transverse ridge	अनुप्रस्थ कटक
transverse fault	अनुप्रस्थ भ्रंज	transverse ripple	बाड़ी ऊर्मिका
transverse fibril	अनुप्रस्थ तंतुक	transverse section	अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ सेक्शन
transverse fission	अनुप्रस्थ विभजन	transverse slab oscillation	अनुप्रस्थ पट्ट दोलन
transverse flow	अनुप्रस्थ प्रवाह	transverse stream	अनुप्रस्थ सरिता
transverse foramen	अनुप्रस्थ रंध्र	transverse striation	अनुप्रस्थ रेखांकन
transverse glacier	अनुप्रस्थ हिमनदी	transverse-transverse wave	अनुप्रस्थ-अनुप्रस्थ तरंग
transverse groove	अनुप्रस्थ खांच	transverse trunk	अनुप्रस्थ कांड
transverse horst	अनुप्रस्थ उत्खंड	transverse valley	अनुप्रस्थ घाटी
transverse impact	अनुप्रस्थ समाघात	transverse valley profile	अनुप्रस्थ घाटी परिच्छेदिका
transverse joint	अनुप्रस्थ संधि	transverse variance	अनुप्रस्थ प्रसरण
transverse jugular vein	अनुप्रस्थ गल-शिरा	transverse ventral commissure	अनुप्रस्थ अधर संघायी
transverse lamination	अनुप्रस्थ स्तरण	transverse vessel	अनुप्रस्थ वाहिका
transverse lode	अनुप्रस्थ लोड	transverse vibration	अनुप्रस्थ कंपन
transversely isotropic body	<i>Math.</i> अनुप्रस्थतः समदैशिक पिंड	transverse wave	अनुप्रस्थ तरंग
transverse magnetic field	अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र	transversus abdominis	अनुप्रस्थ उदर पेशी
transverse magnetic wave	अनुप्रस्थ चुंबकीय तरंग	Trans World Airlines	<i>Geog.</i> ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन्स
transverse mass	अनुप्रस्थ द्रव्यमान	Transylvanian Alps	<i>Geog.</i> ट्रांसिल्वेनियाई आल्प्स
transverse Mercator projection	अनुप्रस्थ मरकेटर प्रक्षेप	trap	<i>Chem.</i> 1. पात्र, पाशक, विपाश, पिंजर, जाल 2. द्रूप
transverse motion	अनुप्रस्थ गति	<i>Trapa bispinosa</i>	<i>Bot.</i> ट्रापा वाइस्पाइनोसा
transverse muscle	अनुप्रस्थ पेशी	Trapaceae	<i>Bot.</i> ट्रापेसी
transverse optical phonon	अनुप्रस्थ प्रकाशकीय फोनॉन	trap amplifier	<i>Phy.</i> फिल्टर प्रवर्धक
transverse ornamentation	अनुप्रस्थ अलंकरण	<i>Trapa nantans</i>	ट्रापा नेटन्स
transverse oscillation	अनुप्रस्थ दोलन	trap crop	<i>Bot.</i> पात्र सस्य, फांशू फसल
transverse plane	अनुप्रस्थ तल	trap depth	द्रूप की गहराई, पिंजर गहराई
transverse process	अनुप्रस्थ प्रवर्ध	trap-door	<i>Geog.</i> कूट द्वार
transverse profile	अनुप्रस्थ परिच्छेदिका	trap door mechanism	<i>Bot.</i> पात्र द्वार यंत्रावली
transverse pulse	अनुप्रस्थ स्पंद	trap door spider	<i>Zool.</i> पाशद्वार लूता

Trapezia	Geog.	दृषीजिवा	trap	Zool	पजर जाल
trapeziform	Math.	समलत्ररूप	trap shotten gneiss		ट्रेपमिड नाइन
trapezium		समलत्र. दृषीजियम	trapunto	H Sc	ट्रेपन्टो
trapezium (bone)	H Sc., Zool	समलत्रक (बस्त्रि)	trap weld		विपाश सघाल
trapezium distortion (= key distortion)		दृषीजियम विरूपण	trass	Chem.	ट्रेम
trapezium-type system		समलत्रिका निवाय	Traube's rule	Chem.	ट्राउबे नियम
trapezius muscle		समलत्रिका पेशी	Traube's synthesis		ट्राउबे संश्लेषण
trapezius musculature		दृषीजियमी पेशीन्याम	trauma	Chem.	ट्रॉमा, शमिघात
trapezohedral class	Geol	समलत्रफलक वर्ग	traumatic dermal myiasis	Zool	क्षतित्र त्वक् मक्षिकता
trapezohedral- hemihedral class		समलत्रफलक-अर्ध फलकीय वर्ग	traumatic response		क्षतित्र अनुक्रिया
trapezohedron	Geol.	समलत्र-फलक	traumatic tissue		क्षतित्र ऊतक
trapezoid		समलत्राद्य	traumatism		क्षति विकृति
trapezoidal prism		समलत्र-प्रिज्म	Trautz's equation	Chem.	ट्राउट्ज समीकरण
trapezoidal projection		समलत्र प्रक्षेप	Trautz lead block test	Chem. (Nucl)	ट्राउट्ज लेड ब्लॉक निरूप
trapezoidal rule		समलत्री नियम	Trautz test	Chem	ट्राउट्सल निरूप
trapezoidal wave		समलत्री-तरंग	travel	Geog	यात्रा
trap fishing	Zool.	पजर मत्स्यन	travel cost	Math.	यात्रा परिच्यय
trap flower		पाशी पुष्प	travelling crane	Chem (Plast)	चल त्रैव
trappean area		ट्रेप-क्षेत्र	travelled soil	Geol.	परिचलित मृदा
trappean ash		ट्रेपीय राख	traveller	Geog.	यात्री
trapped holes		पिजरित विवर	traveller's and explorer's route		यात्री एव अन्वेषक-मार्ग
trapped mode	Phy	प्रगृहीत विघा	traveller-set	Geog.	ट्रेव्णर-सेट
trapped propellant		प्रगृहीत नोदक	travelling carriage	Phy.	चलवाहन
trapper	Geog	पाशिक	travelling detector		चलसमूचक
trapping	Chem, Phy	1 प्रग्रहण, पिजरन, विघाशन	travelling grizzly		चल पिज्जली
	Geog.	2 साज-सामान	travelling microscope		चल-मृदमदर्शी
trapping agent		विघाशन कर्मक	travelling plane wave	Phy.	प्रगामी समतल तरंग
trapping centre		पिजरन केन्द्र	travelling wave		प्रगामी तरंग
trapping spot (= capture spot)		प्रग्रहण बिन्दु	travelling wave amplifier		प्रगामी तरंग प्रवर्धक
trapping time		पिजरन अवधि	travelling wave antenna		प्रगामी तरंग ऐन्टेना
trappold	Geol	ट्रेपाथ	travelling wave magnetron		प्रगामी तरंग मैग्नेट्रॉन
trap population		पिजर सख्या, ट्रेप सख्या			
trap rock		ट्रेप-शैल			

travelling wave maser		प्रगामीतरंग मेसर	T. R. box	Phy.	प्रेष ग्रहण बक्स, T. R. बक्स
travelling wave tube		प्रगामी तरंग नलिका	treacle	Chem.,H.Sc.	फाणि
travel map		यात्रा मानचित्र	treacle stage		फाणि चरण
travelogue	Geog.	यात्रावर्णन	tread	Chem.,Geol.	1. पदन्यास 2. सोपानास
travel shot (=follow shot)	Phy.	अनुगामी शॉट	treading	Geog.	पद-चिह्नन
travel-speed map		यात्रा-गति मानचित्र	treadle	H.Sc.	ट्रेडिल
travel time		प्रगमन काल	treadle machine	H.Sc.	पदचालित मशीन
travel time curve		प्रगमन काल वक्र	treated oil	Chem.	अभिक्रियित तेल
traverse	Geol.,Chem. Geog.	चंक्रम मालारेखा	treating tank		अभिक्रिया-टंकी
traverse arm		चंक्रम बाहु	treatment	Chem., Math.	1. विवेचन 2. उपचार
traverse circuit		मालारेखा परिपथ	treatment mean square		उपचार वर्ग-माध्य
traverse leg		मालारेखा परास	treaty arrangement	Geog.	संधि व्यवस्था
traverse line		मालारेखा	treaty port		संधि पत्तन
traverse staff		मालारेखा दंड	Trebauxia cladoniae	Bot.	ट्रेबाक्सिया क्लैडोनिया
traverse station		चंक्रम चांदा	treble clef	Phy.	ट्रेबल क्लेफ
traverse surveying		चंक्रमण सर्वेक्षण	trebly linked	Chem.	द्वितः दन्धित, द्वितः बद्ध
traverse surveyor		मालारेखा सर्वेक्षक	tree		वृक्ष, पेड़, तरु, द्रुम (adj) द्रुमी, शाखी
traversing		1. चंक्रमण 2. मालारेखण	tree-agate		द्रुमी गोमेद
traversoite	Geol.	ट्रेवस्वइट	tree crop		वृक्ष फसल
travertine	Geol.	ट्रेवर्टाइन	tree diagram		वृक्षारेख
travois	Geog.	ट्रावोई	tree-fortress		वृक्ष-दुर्ग
trawl	Geog. Zool.	ट्रॉल आनाय	tree frog		वृक्ष मंडूक
trawler		ट्रॉलर, आनायक	tree gold		शाखी स्वर्ण
trawl fishery		आनाय मत्स्यकी	tree guide		वनस्पति गाइड
trawl fishing		आनाय मत्स्यन	tree hopper		तरुफुदक
trawling		ट्रॉलन, आनायन	tree layer		वृक्ष-संस्तर
trawling fleet		आनायन वेड़ा	treeless plain		वृक्षहीन मैदान
trawling ground		आनायन क्षेत्र	treeless waste land		वृक्षहीन व्यर्थभूमि
trawling region		आनायन प्रदेश	treelike diagram		वृक्षारेख
trawling wire		आनायन तार	tree limit, (=tree line)		वृक्ष-सीमा
tray	H.Sc.	ट्रे, थाल	tree-pie		तरुपिक
tray type separator		ट्रेरूप पृथक्कर	tree-ring variations		वृक्षवलय विभिन्नता
			tree sheet		वनस्पति शीट
			tree snake		वृक्ष सर्प

tree stand		वृक्ष खंड	trend of development		विकास-उपनति
tree-tint original		वनस्पति-आमा ओरिजिनल	trend value		उपनति मान
tree trunk mold		वृक्ष स्तम्भ साचा	Trentepholia		ट्रेन्टीफोलिया
tref	Geog.	ट्रेफ, वानभूमि	trepanning	Chem. (Met)	ट्रिपेनन
Treftz method	Math	ट्रेफ्ट्ज-विधि	trephocyte (trophocyte)	Zool	पोषकाणु
trehalose	Chem.	ट्रिहेलोस	Treponema americanus	Bot	ट्रेपोनिमा अमेरिकेनस
trek	Geog.	ट्रेक, लम्बी यात्रा	Trepostomata		ट्रेपोस्टोमेटा
trekker		ट्रेकर	Treron phoenicoptera	Zool	ट्रीरोन फोइनीकोप्टेरा (हरियल)
trellis pattern	Geol.	जालीनुमा पैटर्न	trespass	Geog.	अवैध प्रवेश, अतिचार
trellis	H Sc	1. जाफरी, जाल 2. ट्रेलिस	trespassing		अतिचारण
trellis drainage	Geog.	जासायित अपवाह	tressi	H Sc.	ट्रेसी
trellised	Geol.	जालायित, जालयुक्त	trestle	Geog	ट्रेसिल
trema	Geol	ट्रेमा	trestle station		ट्रेसिल चाना
tremalith	Zool	ट्रिमलिय, छिद्राश्म	Trenbia	Bot	ट्राउबिया
Trema politoria	Bot	ट्रेमा पोलिटोरिया	trevira	H Sc.	ट्रेविरा
Tremataspidae	Zool	ट्रिमेटेस्पिडी	trevorite	Geol	ट्रेवोराइट
Tremataspis	Geol	ट्रेमाटेस्पिस	Trenia nudiflora	Bot.	ट्रेविया नुडीफ्लोरा
Trematoda	Zool	ट्रिमेटेडा	Tria		ट्राइआ
trematode	Zool	पर्णाभकृमि	tri-acetin		ट्राइ-ऐसीटिन
Trematosaurus	Zool.	ट्रिमेटोसॉरम	triacido	Chem.	त्रिऐसिडो, ट्राइऐसिडो
trembler (Tr)	Zool	आवैपक (आवे)	triacontane-1-ol	Chem	ट्राइकॉटिन-1-ऑल
tremolite	Geol.	ट्रेमोलाइट	triacontenoic acid	Chem	ट्रायकॉटेनॉइक अम्ल
tremolite-mica schist		ट्रेमोलाइट अश्रक शिस्ट	triacontioic	Chem.	ट्रायकॉटोइक
tremolitic		ट्रेमोलाइटी	triacetate fibre	Chem, H Sc	ट्राइऐसीटेट तंतु
tremor	Geol, H Sc.	कंप	trilact	Zool	त्रिलैक्ट
trench	Geog	खार्द	trilactinal spicule	Zool.	त्रिलैक्टिनाइल
trencher	H Sc.	ट्रेंचर	trilactone	Geol	त्रिलैक्टोन
trench fever		खार्द ज्वर	Triactinomyxon	Zool.	ट्राइऐक्टिनोमिक्सेन
trenching	Geol.	खार्द खोदना	trilactinose	Zool.	ट्राइऐक्टिनोज, त्रिलैक्टोन
trend	Math, Geog.	प्रवृत्ति, उपनति	triad	Phy.	1. त्रिसयुत्र 2. त्रय 3. त्रिक
trend elimination		उपनति निराकरण	triadelphous	Bot-	त्रिसंधी
trend estimate		उपनति आकलन			
trend graph		प्रवृत्ति आरेख, प्रवृत्ति ग्राफ			
trend line		उपनति रेखा			
trend line of land		भू-उपनति रेखा			

triadic	<i>Math.</i>	त्रयक	triangle of error	त्रुटि-त्रिभुज
triadic expansion		त्रयक प्रसार	triangle of error method	त्रुटि त्रिभुज विधि
triaenè	<i>Zool., Geol.</i>	त्रिकंटिका	triangle of fit	<i>Math.</i> आसंजन-त्रिभुज
triaenostromgyle	<i>Geol.</i>	ट्रायनोस्ट्रॉंगाइल	triangle of forces	बल-त्रिभुज
triaenostyle	<i>Geol.</i>	ट्रायनोस्टाइल	triangle of reference	निर्देश-त्रिभुज
triakistetrahedron (=trigonal tris tetrahedron)	<i>Chem.</i>	त्रिकोणीय त्रि-चतुष्फलक	triangle of velocities	वेग-त्रिभुज
trial	<i>Math.</i>	1. जांच, परख 2. अभिप्रयोग	triangle symbol	त्रिभुज-प्रतीक
trial analysis		जांच विश्लेषण	triangle system	त्रिभुज पद्धति
trial and error behaviour		जांच और भूल व्यवहार	triangle test	त्रिकोणी निकष
trial and error learning		जांच और भूल अधिगम	triangulability	त्रिभुजनीयता
trial and error method		जांच और भूल विधि	triangular	त्रिभुजीय, त्रिकोणीय, त्रिभुजाकार
trial and error process		जांच और भूल विधि	triangular bandage	त्रिकोण-पट्टी
trial control chart		परख नियंत्रण संचित्त	triangular condition	त्रिकोणीय प्रतिबन्ध
trial control limit		परख नियन्त्रण सीमा	triangular curve	त्रिभुजाकार वक्र
trial function		अभिप्रायोगिक फलन	triangular design	त्रिभुजीय अभिकल्पना
trial hypothesis		अभिप्रयोग परिकल्पना	triangular diagram	त्रिकोणाकार आरेख
trial impression		जांच छाप	triangular distribution	त्रिभुजाकार वंटन
trial limit		परख सीमा	triangular error	त्रिकोणीय अशुद्धि
trial line		परख रेखा, जांच रेखा	triangular facet	त्रिभुजाकार फलकिका, त्रिकोणी फलकिका
trial period		परख-काल	triangular file	त्रिकोण रेती
$\beta\beta'\beta''$ triamino- triethylamine (tren)	<i>Chem.</i>	$\beta\beta'\beta''$ ट्राइ-एमीनो- ट्राइ-एथिलैमीन (ट्रेन)	triangular graph-paper	त्रिकोण-ग्राफपत्र
triammine	<i>Chem.</i>	त्रिएम्मीन, ट्राइएम्मीन	triangular matrix	त्रिभुजीय आव्यूह
triandrian	<i>Bot.</i>	त्रिपुंकेसरी	triangular net	त्रिभुजीय जाल
triandrous		त्रिपुंकेसरी	triangular offsetting	त्रिकोणीय आफ्र-सेटन
triangle	<i>Math.</i>	त्रिभुज, त्रिकोण	triangular orthogonal projection	त्रिकोणी लांबिक प्रक्षेप
triangle adjustment		त्रिकोण समायोजन	triangular prism domain (=domain of closure)	त्रिभुजप्रिज्म डोमेन
triangle closure		त्रिकोणी वेष्टन	triangular texture	त्रिकोणी गठन
triangle inequality		त्रिभुज असमिका	triangular-topped tripod	त्रिकोण-शीर्ष त्रिपाद
triangle of displacement		विस्थापन-त्रिभुज	triangular wave	त्रिकोण तरंग
			triangulation	<i>Geog.</i> त्रिभुजन, त्रिकोणीयन
			triangulation figure	त्रिकोणीयन आकृति

triangulation height		त्रिभुज-ऊंचाई	tribal organization		जनजातीय संगठन
triangulation net		त्रिभुज-जाल	tribal village	<i>Geog.</i>	कबोला गाव, जन-गाव
triangulation pamphlet		त्रिकोणीयन पुस्तिका	tribasic	<i>Chem.</i>	त्रिसारकी
triangulation series		त्रिकोणीयन सीरीज	tribe	<i>Geog.</i> <i>Biol., Geol.</i>	जन जाति, उपकुल सदस्य
triangulation station		त्रिभुजन स्टेशन, त्रिकोणीयन चादा	tribocouple	<i>Chem.</i> <i>(Met.)</i>	घर्षणयुग्म
triangulation survey		त्रिभुजन सर्वेक्षण	triboelectric effect	<i>Chem.</i> <i>(Met.)</i>	घर्षणविद्युत् प्रभाव
triangulation system		त्रिकोणीयन पद्धति	triboelectricity	<i>Phy.</i>	घर्षण विद्युत्
triangulation tower		त्रिभुजन-स्तम्भ	triboelectric series		घर्षण विद्युत् अनुक्रम
triangulator		त्रिभुजन-कर्ता	Tribolium	<i>Zool.</i>	ट्राइबोलियम
triannulate	<i>Zool.</i>	त्रिचलय	<i>Tribolium castaneum</i>		ट्राइबोलियम कैस्टेनियम
<i>Trianthema crystallina</i>	<i>Bot.</i>	ट्राएन्थेमा क्रिस्टेलाइना	<i>Tribolium confusum</i>		ट्राइबोलियम कन्फ्यूजियम
<i>Trianthema govindia</i>		ट्राएन्थेमा गोविन्दिआ			
<i>Trianthema portulacastrum</i>		ट्राएन्थेमा पोर्टूलैकेस्ट्रम	triboluminescence	<i>Phy., Geol.</i>	घर्षण सदोत्ति
trianthous	<i>Bot.</i>	त्रिपुष्पी	tribothermoluminescence	<i>Phy.</i>	घर्षणताप सदोत्ति
triantimonic acid	<i>Chem.</i>	ट्राइऐन्टिमोनिक ऐसिड, त्रिऐन्टिमोनिक अम्ल	tribrach	<i>Geog.</i>	त्रिशाली
triarch	<i>Bot.</i>	त्रिअदिवाचक	tribromacetic acid	<i>Chem.</i>	ट्राइब्रोमैसिटिक अम्ल
Triarthrus	<i>Zool.</i>	ट्राइआर्थ्रस	tributary	<i>Geog.</i>	1. सहायक (गुफा) 2. सहायक नदी
<i>Triarthrus beki</i>		ट्राइआर्थ्रस बेकाइ	tributary area	<i>Geog.</i>	पोषक क्षेत्र
triartricate	<i>Zool.</i>	त्रिसन्धिषट्	tributary region		पोषक प्रदेश
Triassic period	<i>Zool., Geol.</i>	ट्राइऐसिक कल्प	tributary ridge		सहायक कटक
triasier	<i>Zool.</i>	त्रिस्तारक	tributary village		सहायक ग्राम
triatomic molecule	<i>Chem., Geol.</i>	त्रिपरमाणुक अणु	tribute	<i>Geol.</i>	सौब, पट्टा
triaxial		त्र्यक्षीय, त्रि-अक्षीय	tributer	<i>Geol.</i>	लोडघारी, पट्टाघारी
tri-axial ellipsoid		त्रिअक्षीय दीर्घवृत्तज	tricalcium phosphate	<i>Geog.</i>	ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट
trilaxon	<i>Zool., Geol.</i>	द्व्यक्षिका	tricarumarus	<i>Bot.</i>	त्रिकोष्टकी
triazene system	<i>Chem.</i>	त्रिऐज़ीन तंत्र	tricarballic acid	<i>Chem.</i>	ट्राइकार्बॉलिनिक अम्ल
Triazole	<i>Chem.</i>	ट्राइऐज़ोल	tricarboxylic acid cycle		ट्राइकार्बॉक्सिलिक अम्ल चक्र
triazolidine	<i>Chem.</i>	ट्राइऐज़ोलीडीन	tricarizate	<i>Bot.</i>	त्रिकूटकी
tribal	<i>Geog.</i>	जनजातीय	tricarpellary		त्रि-अक्षी
tribal dwelling		जनजातीय बाम, जनजातीय गृह	tricarpellate		त्रि-अक्षी
tribal leader		जनजातीय नेता	tricarposus,		त्रिअक्षी
tribal migration		जनजातीय प्रवास	tri- <i>cel</i>	<i>H.Sc.</i>	ट्राइ-सेल



tricellular	Bot.	त्रिकोशिका	trichobranchia	Zool.	शूकबलोम
tricentric	Zool.	त्रिकेन्द्रक	trichocercous	Zool.	शूकपुच्छीय
tricephalous	Bot.	त्रिमंडकी	trichocyst	Zool., H.Sc.	दंशिकाभक, ट्राइकोसिस्ट
triceps	Zool.	त्रिशिरस्क	trichocyst granule		दंशिकाभक-कणिका
triceps brachii		बाहु त्रिशिरस्क	trichocyte	Bot.	रोमद कोशिका
triceps extensor crures		नालतानक त्रिशिरस्क, ट्राइसेप्स सक्सटेन्सर कूरिस	trichodal spicule	Zool.	ट्राइकोडल कंटिका, रोमाभ कंटिका
triceps femoris		ऊरु त्रिशिरस्क	trichoderm	Zool.	रोमत्वक्
triceps muscle		त्रिशिरस्का पेशी	Trichoderma	Zool.	ट्राइकोडर्मा
Triceratops	Zool.	ट्राइसिरैटॉप्स	Trichodina	Bot.	ट्रिकोडिना
<i>Tricercomonas intestinalis</i>	Zool.	ट्राइसर्कोमोनास इन्टेस्टाईनेलिस	trichogen	Zool.	शूकजन
Trichamoeba	Zool.	ट्राइकैमीबा	trichogen cell		शूकजन कोशिका
trichalcite	Geol.	ट्राइचैल्साइट	trichogenous cell		शूकजन कोशिका
trichasial	Bot.	त्रिशाखित	trichogyne	Bot.	स्त्रीधानी रोम
trichasium		त्रिशाखन	trichoid	Bot.	रोमाकार, रोमसम
Trichechidae	Zool.	ट्रिकेकिडी	trichoid sensilla	Zool.	शूकाभ संवेदिका
Trichechiformes	Zool.	ट्रिकेकिफॉर्मोच	<i>Tricholoma personatum</i>	Bot.	ट्राइकोलोमा परसोनेटम
Trichechus (Manatus)	Zool.	ट्रिकेकस (मैनेटस)	trichoma (trichome)	Zool.	त्वचारोम
trichidium	Bot.	प्रांगुलक	Trichomonas	Bot., Zool.	ट्राइकोमोनास
trichiferous	Bot.	रोमघर	trichomonascus		ट्राइकोमोनैस्कस
Trichinella	Zool.	ट्राइकिनेला	<i>Trichomonas foetus</i>		ट्राइकोमोनास फ्रीटस
<i>Trichinella spiralis</i>		ट्राइकिनेला स्पाइरैलिस	<i>Trichomonas gallinae</i>		ट्राइकोमोनास गैलिनी
trichinosis	H.Sc. Zool.	अधिट्राइकिनता ट्राइकनिता	<i>Trichomonas reniforma</i>		ट्राइकोमोनास रैनीफार्मा
trichites	Zool.	ट्राइकाइट, घनकच	<i>Trichomonas tenax</i>		ट्राइकोमोनास टेनैक्स
Trichiurus	Zool.	ट्राइक्यूरस	<i>Trichomonas vaginalis</i>		ट्राइकोमोनास वैजीनेलिस
<i>Trichiurus sayala</i>		ट्राइक्यूरस सवाला (सवाला)	trichomoniasis	Zool.	ट्राइकोमोनसता
<i>Trichiurus trichiura</i>		ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा	trichomothallus	Bot.	रोमथैलस
trichloro- acetaldehyde	Chem.	ट्राइक्लोरो ऐसीटऐल्डीहाइड	Trichonympha	Zool.	ट्राइकोनिम्फा
trichloroacetic acid extraction		ट्राइक्लोरोऐसिटिक अम्ल निचाड़	<i>Trichoplrya mitropteri</i>		ट्राइकोफिया माइक्रोप्टेराइ
trichloroethylene	H.Sc.	ट्राइक्लोरोएथिलीन	trichopore	Zool.	शूकछिद्र
trichoblast	Zool.	रोमकोरक, ट्राइकोब्लास्ट	Trichoptera	Zool.	ट्रिकोप्टेरा
			trichopteran	Zool.	शूकपंखी
			trichoptile	Zool.	ट्राइकोप्टाइल, लोमशावपिच्छ

<i>Trichosanthes anguina</i>	Bot.	ट्रिकोसेन्थीज ऐन्गुइना (चिचिडा)	trickle hydro desulphurisation	Chem. (Pet)	च्यावी हाइड्रोविगंधकन, टपक हाइड्रोविगंधकन
<i>Trichosanthes cucumerina</i>		ट्रिकोसेन्थीज कुकुमरिना	trickler		च्यावित्त
<i>Trichosanthes dioica</i>		ट्रिकोसेन्थीज डायोइका (परवल)	trickler charger	Phy	मन्थर चार्जित
<i>Trichosadthes palmata</i>		ट्रिकोसेन्थी पामेटा	trickle scale		च्याव शल्क
<i>Trichoscyphella wilkommii</i>	Bot	ट्राइकोस्काइकेला बिष्कोमाभाइ	Triclad	Zool	ट्राइक्लैड
trichospermus	Bot.	सरोमवीजी	Tricladida	Zool	ट्राइक्लैडाइडा
trichosphaerium	Bot.	ट्रिकोस्फीरियम	triclincic	Phy, Geol.	त्रिनताश
trichospherite	Chem.	ट्राइकोस्फेरइट	triclincally deformed		त्रिनततः विकृपित
trichostrongylosis	Zool.	ट्राइकोस्ट्रॉन्जिलमता	triclincic crystal		त्रिनताश क्रिस्टल
trichostrongylus	Zool.	ट्राइकोस्ट्रॉन्जिलस	triclincic symmetry		त्रिनताश सममिति
trichothallic	Bot.	ट्राइकोथैलिक, तनुयैलसी	triclincic system		त्रिनताश समुदाय
Trichothyriaceae	Bot	ट्राइकोथिरिएसी	tricoline	H Sc	ट्राइकोलीन
trichotomic property	Math.	त्रिविभागी गुणधर्म	tricolour half- tone etcher	Geog	तिरंग त्रिदुचित्त निशारक
trichotomocolpate	Bot.	त्रिभंगविदरकी	tricolour tube	Phy.	त्रिवर्ण नलिका
trichotomous	Bot.	त्रिभाजनोय, त्रिभाजी	tricolpate	Bot	त्रिविदरकी
trichotomy		त्रिभाजन	tricomplex system	Chem.	त्रिसकुल तंत्र
trichotomy law	Math	त्रिविकल्पता नियम	tricon	Phy	ट्राइकॉन
trichotriaene	Geol, Zool.	ट्राइकोट्राईन, त्रिशाखत्रिकटिका	tricone compartment mill	Geol	त्रिभुज कक्ष मिल
trichroism	Geol	त्रिवर्णना	Triconodon	Zool	ट्राइकोनोडॉन
trichromatic		त्रिवर्णक	triconodont	Zool.	त्रिसकुदत
trichromatic coefficient		त्रिवर्ण गुणांक	Triconodonta	Zool.	ट्राइकोनोडॉन्टा
trichrome stain		त्रिवर्णी बभिरजक	tricon radar system (=ratran)	Phy.	त्रिसंपान रेडॉर' तंत्र, रेडॉन
trichromium salt	Chem	ट्राइक्रोमियम लवण, त्रिक्रोमियम लवण	tricosane	Chem.	ट्राइकोसेन
trichter	Zool	ट्रिक्टर	tricosenole acid	Chem.	ट्राइकोसेनॉइक अम्ल
<i>Trichuris trichiura</i>	Zool	ट्राइच्यूरिस ट्राइचियूरा	tricostate	Zool Bot.	त्रिपर्णक त्रिभिराल
<i>Trichuris vulpis</i>		ट्राइच्यूरिस वल्पिस	tricot	H.Sc.	ट्रीको
trichurate	Bot.	त्रिविदरकी	tricothecolone	Chem.	ट्राइकोथेकोलोन
triclptal	Zool.	त्रिशिराली	tricotine	H.Sc.	ट्रीकोटीन
trickle charge (= float charge)	Phy.	अल्पमात्रीय चार्ज	tricot stitch	H.Sc.	ट्रीको टांका
trickle charger		अल्पमात्रीय चार्जर	tricotyledonous	Bot.	त्रिकोतपत्रीय
			tricotyledony		त्रिकोतपत्रता
			tricroplid	Zool.	त्रिसूचिका, ट्राइक्रोपिड
			triclesyl phosphate	Chem	त्रिक्रोसिल फॉस्फेट

tricuspidate	Zool. Bot.	त्रिदंताग्र त्रिवलनी	trifoliate	Bot.	त्रिपर्णक
tricuspid valve		त्रिवलन कपाट	trifoliate pedicellaria	Zool.	त्रिपर्ण वृन्तपद
tricusssate	Bot.	त्रिपर्णावर्त	Trifolium	Bot., Geog.	ट्राइफोलियम
tricyclic	Bot.	त्रिचक्रीय	Trifolium variation		ट्राइफोलियम विविधता
Tridacna	Zool.	ट्राइडेक्ना	trifunctional	Chem.	त्रिक्रियात्मक
<i>Tridacna gigas</i>		ट्राइडेक्ना गिगस	trifurcate	Bot., Zool.	त्रिशाखित
tridactyle	Zool.	व्यंगुलिक	trigamous	Bot.	त्रिविध पुष्पी
tridactyle pedicellaria		व्यंगुल वृन्तपद	trigatron	Phy.	त्रिगाट्रॉन
tridactyle pes	Zool.	व्यंगुलिपाद	trigeminal ganglion	Zool.	त्रिशाखी गुच्छिका
Tridactylidae	Zool.	ट्राइडेक्टाइलिडी	trigeminal nerve	Zool. H.Sc.	त्रिशाखी तंत्रिका त्रिकतंत्रिका, त्रिधारा तंत्रिका
tridactylism	Zool.	त्रिशंगुलिता	trigeminate ambulacral plate	Zool.	त्रियुग्मवीथि पट्टिका
tridecane	Chem.	ट्राइडेकेन, त्रयोदशेन	trigenetic	Bot., Zool.	त्रिपीढीय
tridecylic acid	Chem.	ट्राइडेसिलिक अम्ल, ट्राइडेसिलिक ऐसिड	trigenic	Zool.	त्रिजीनी
trident	Zool. Math.	त्रिशूलदन्त ट्राइडेन्ट	trigermane	Chem.	त्रिजर्मेन, ट्राइजर्मेन
tridentate	Chem.	त्रिशूली, त्रिदन्तुर, ट्राइडेन्टेट	trigger	Phy., Chem. Geog.	ट्रिगर, विमोचक
tridiagonal	Math.	त्रिविकर्णी	trigger catalyst		विमोचक उत्प्रेरक
tridipole antenna	Phy.	त्रिद्विध्रुवी ऐन्टेना	trigger circuit		ट्रिगर परिपथ, प्रवर्तक परिपथ
tridrop	Phy.	ट्राइड्रॉप	trigger effect		ट्रिगर प्रभाव
tridymite	Chem., Geol.	ट्रिडोमाइट	trigger fish (Balistes)	Zool.	घोट मीन (बैलिस्टिस)
tridymite-like structure		ट्रिडोमाइटवत् संरचना	triggering	Phy.	ट्रिगरन, प्रवर्तन
tridynamous	Bot.	त्रिदीर्घी	triggering level		ट्रिगर स्तर
triene	Chem.	त्रि-ईन, ट्राइ-ईन	triggering particle		प्रवर्तक कण
trienole product	Chem.	त्रिईनॉइक उत्पाद	trigger pulse		विमोचक स्पंद, ट्रिगर स्पंद
triethanol amine	Chem.	ट्राइएथेनॉल ऐमीन	trigger sharpner		ट्रिगर तीक्ष्णक
triethylene tetramine (trien)	Chem.	ट्राइएथिलीन टेट्रेमीन (ट्राइ-ईन)	trigger timing pulse (= time control pulse)	Phy.	काल नियंत्रक स्पंद
trifarious	Zool.	त्रिघा	trigister	Phy.	ट्रिजिस्टर
trifid	Bot.	त्रिशाख	triglans	Bot.	त्रिदृढ़फली
trifidus	Bot.	त्रिविधर	triglyceride	H.Sc.	ट्राइग्लिसराइड
triflagellate	Zool.	त्रिकशाम	trigon	Zool.	दंताग्रत्रिकोण
triflorous	Bot.	त्रिपुष्पी	trigonal	Geol.	त्रिसमनताक्ष, समांतरपट्टफलकीय त्रिकोणी, त्रिफलकीय
trifluoroacetyl acetone	Chem.	ट्राइ-फ्लुओरो ऐसीटिल ऐसीटोन		Math.	
trifocal lenses	Phy.	त्रिकोकसी लेन्स			

trigonal and hexagonal		त्रिसमनताक्ष षट्कोणीय	trigonometric curve	त्रिकोणमितीय वक्र	
trigonal axes		त्रिसमनताक्ष अक्ष	trigonometric equation	त्रिकोणमितीय समीकरण	
trigonal crystal		त्रिसमनताक्ष क्रिस्टल	trigonometric function	त्रिकोणमितीय फलन	
trigonal distortion		त्रिकोणमितीय विरूपण	trigonometric identity	त्रिकोणमितीय सर्वसमिका	
trigonal division		त्रिसमनताक्ष प्रभाग	trigonometric levelling	त्रिकोणमितीय समतलन	
trigonal hybridisation		त्रिकोणी संकरण	trigonometric parallax	त्रिकोणमितीय सदन	
trigonal prism		त्रिसमनताक्ष प्रिस्म	trigonometric ratio	त्रिकोणमितीय अनुपात	
trigonal pyramid		त्रिसमनताक्ष पिरामिड	trigonometric series	त्रिकोणमितीय श्रेणी	
trigonal reflector aerial (= trigonal reflector antenna)		त्रिकोणीय परावर्तक एन्टेना	trigonometric solution	त्रिकोणमितीय साधन	
trigonal symmetry		त्रिसमनताक्ष सममिति	trigonometric substitution	त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन	
trigone	Bot.	कोणस्थूलता	trigonometric transformation	त्रिकोणमितीय रूपांतरण	
Trigonella foenumgraecum	Bot.	ट्राइगोनेला फोनुमग्रीकम	trigonometry	त्रिकोणमिति	
Trigonella polycerata		ट्राइगोनेला पॉलीसिरेटा	Trigonostylopoidea	Zool.	ट्राइगोनोस्टाइलोपोपॉइडा
trigonelline	Chem.	ट्रियोनेलीन	trigonal	Bot.	त्रिकोणीय
Trigonia	Zool., Geol.	ट्राइगोनिया	trihedral	Math., Geol., Phy.	त्रिकोणक
Trigonia clavellata		ट्राइगोनिया क्लवेलेटा	trihedral angle	Math.	त्रिकोण कोण
Trigonia costata		ट्राइगोनिया कास्टेटा	trihybrid	Biol.	त्रिसंकर
Trigonia margaritacea		ट्राइगोनिया मार्गरीटेसिया	trihybrid inheritance		त्रिसंकर वंशानुवाह
Trigonocarpum	Bot.	ट्राइगोनोकार्पम	trihydrallite	Geol.	ट्राइहाइड्रॉल्लिट
trigonodont	Zool.	त्रिकोणदंत	tri-hydric	Chem.	ट्राइहाइड्रिक
trigonometric	Math.	त्रिकोणमितीय	tri-hydric alcohol		ट्राइहाइड्रिक-एल्कोहॉल
trigonometrical framework		त्रिकोणमितीय ढांचा	trihydrocalcite	Geol.	ट्राइहाइड्रिकैल्साइट
trigonometrical landmark		त्रिकोणमितीय भूचिह्न	tri-hydroxo salt	Chem.	ट्राइहाइड्रॉक्सो लवण
trigonometrical levelling		त्रिकोणमितीय तलेक्षण	trihydroxy alcohol	Bot.	ट्राइहाइड्रॉक्सो एल्कोहॉल
trigonometrical point		त्रिकोणमितीय बिंदु	trifiodothyronine	Chem.	ट्राइआयोडोथायरोनिन
trigonometrical proposition		त्रिकोणमितीय साध्य	trijugate	Bot.	त्रियुगली
trigonometrical station		त्रिकोणमितीय स्टेशन, त्रिकोणमितीय चौक	trijugous		त्रियुगली
trigonometrical survey		त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण	trijunction	Geog.	त्रिजंजी

trijunction pillar		द्विसीमा स्तम्भ	trimethylene diamine	Chem.	ट्राइमेथिलीन डाइ-एमीन
trilaminar	Bot.	त्रिपटली	trimethyl glycine	Chem.	ट्राइमेथिल ग्लाइसिन
trilateration	Geol.	त्रिपार्श्वन	trimetrogon (system)	Geog.	ट्रिमेट्रोगन (पद्धति)
trilete	Bot., Geol.	त्रिबरीय	trimetrogon air photography	Geol.	त्रिमापकोणी वायु फोटोग्राफी
triletes	Bot.	ट्राइलिटीज	trimetrogon camera		ट्रिमेट्रोगन कैमरा
trilinear coordinates	Math.	त्रिरेखीय निर्देशांक	trimetrogon camera installation		ट्रिमेट्रोगन कैमरा संस्थापन
trilingual	Geog.	त्रिभाषी	trimetrogon photography		ट्रिमेट्रोगन फोटोचित्रण
trilingual inscription		त्रिभाषी शिलालेख	trimmer		सूक्ष्म समंजक
trill	Phy.	स्वरकंप	trimmer capacitor	Phy.	सूक्ष्म समंजक संधारित्र
trillarin	Chem.	ट्रिलारिन	trimming	Geol., Geog.	1. समाकृतन 2. झालर, झालर लगाना 3. ट्रिमिंग
trillin	Chem.	ट्रिलिन		H.Sc.	
trilobed	Zool.	त्रिपालि	trimming condenser	Phy.	सूक्ष्म समंजन संधारित्र
Trilobita	Zool., Geol.	ट्राइलोवाइटा	trimming die		समाकृतक ठप्पा, विचरन डाइ
trilobite	Zool.	त्रिपालिक, ट्राइलोवाइट	trimming inductance		सूक्ष्म समंजन प्रेरकत्व
trilobite larva	Zool.	ट्राइलोवाइट डिम्बक	trimming resistance		सूक्ष्म समंजन प्रतिरोध
trilobous	Bot.	त्रिपालिक	trimolecular reaction	Chem.	त्रि-अणुक अभिक्रिया
trilocular	Bot.	त्रिकोष्ठी	trimorphic colony	Zool.	त्रिरूप निवह
triloculine	Geol.	त्रिकोष्ठी	trimorphism	Geol.	त्रिरूपता
triloculine stage		त्रिकोष्ठी अवस्था	trimorphous		त्रिरूप
Trilophodon	Zool.	ट्राइलोफोडॉन	trimorphs	Geol.	त्रिरूप
trilophodont	Zool.	त्रिकटकदन्त	Trimyaria	Zool.	ट्राइमियेरिया
trilophous	Zool.	ट्राइलोफस, त्रिशिर	trimyarian	Zool.	त्रिपेशीस्तर
trim	Phy.	सूक्ष्म समंजन, ट्रिम	Trinidad tea	H.Sc.	ट्रिनिडैड चाय
trimagnesium	Bot.	ट्राइमैग्नीशियम	triuster	Phy.	ट्रिनिस्टर
Trimastigamoeba	Zool.	ट्राइमैस्टिगैमीबा	trinitrostil bene	Chem.	ट्राइनाइट्रोस्टिल बेन
trimellitic acid	Chem.	ट्राइमेलिटिक अम्ल	trinkerite	Geol.	ट्रिन्केराइट
trimer	Chem.	त्रितय, त्रितयाणु	trinket	H.Sc. Geog.	साधारण गहना लघु जलमार्ग
trimeric products		त्रितयी उत्पादन	trinket snake	Zool.	अलंकृत सर्प
trimerization		त्रितयन	trinoic	H.Sc.	ट्राइनोइक
Trimerocephalus	Bot.	ट्राइमेरोसेफलस	trinomial	Bot.	त्रिपदी, त्रिनामी
Trimerocephalus laevis		ट्राइमेरोसेफलस लेविस	trinomial distribution	Zool.	त्रिनाम वितरण
trimerous		त्रितयी	trinomial nomenclature		त्रिनाम पद्धति
trimesic acid	Chem.	ट्राइमैसिक अम्ल, ट्राइमैसिक एसिड	trinoscope	Phy.	त्रिकाइनोस्कोप
trimethoxy-boro hydride	Chem.	ट्राइमेथॉक्सी बोरो हाइड्राइड			

trinucleus	Chem.	ट्राइन्यूक्लियस	tripestone	Geol., Chem.	ट्राइपेस्टोन
trioid	Zool.	ट्राइऑड	tripetalus	Bot.	त्रिकलदली, त्रिदली
triode	Phy.	ट्रायोड	triphane	Chem.	ट्राइफेन
triode-hexode converter		ट्रायोड-हेक्जोड परिवर्तक	triphenyl carbinol	Chem.	ट्राइफेनिल कार्बिनॉल
trioecious	Bot.	त्रिओकसी	triphosphopyridine	Chem.	ट्राइफॉस्फोपिरिडोन
trioecism	Bot.	त्रिओकसता	triphosphopyridine nucleotide (TPN)		ट्राइफॉस्फोपिरिडोन न्यूक्लियोटाइड
triol	Chem.	ट्राइ-ऑल, त्रि-ऑल	triphylite	Chem.	ट्रिफिल्लाइट
triolefin	Chem.	ट्राइऑलिफिन	triphylous pedicellaria	Zool.	त्रिपर्ण वृन्तपद
triolein	Chem.	ट्राइओलिइन	triphylus	Bot.	त्रिकल्पर्ण, त्रिपर्ण
trionaf	Chem.	ट्रायोनल	tripinnate	Bot.	त्रिपिच्छाकार
trionym	Zool.	त्रिनाम	triple	Chem., Math.	त्रिगुण, त्रिधा, त्रि-, त्रिश, त्रिक, त्रित
triose	Chem.	ट्रायोस	triple action nozzle		त्रिदिशा चञ्चु
triose phosphate		ट्रायोस फॉस्फेट	triple bond		त्रि-आबंध
triose-phosphate isomerase		ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेस	triple bound		त्रिगुण बंध
tri-o-thymotide	Chem.	ट्राइ-0-थाइमोटाइड	triple bound		त्रिगुण बंध
trioxalato aluminate	Chem.	ट्राइऑक्सेलेटो ऐलुमिनेट	triple classification	Math.	त्रिधा वर्गीकरण
trioxalato complex		ट्राइऑक्सेलेटो संकुल	triple coincidence		त्रिभेदांत
trioxan	Chem.	त्रिऑक्सेन, ट्राइऑक्सेन	triple collision		त्रिक सघट्ट, त्रिपिढीय सघट्ट
triozonide	Chem.	त्रिओजोनाइड, ट्राइओजोनाइड	triple correlation coefficient	Math.	त्रिक सहसंबंध गुणांक
trip	H.Sc., Phy.	फेरा थालू करना, प्रवृत्त करना	triple crossover		त्रि-द्विनिमय, त्रि-विनिमय
trip action	Phy.	झट खंडन	triple detection		त्रिधय समूचन
tripaleolatus	Bot.	त्रिपेलयुक्त	triple detection receiver		त्रिधय समूचन अभिग्राही
tripalmitin	Chem.	ट्राइ-पामिटिन	triple diode triode		त्रिहायोड ट्रायोड
tripartite	Zool.	त्रिभागी	triple frequency harmonics		त्रिआवर्ती सनादी
tripartite hinge	Geol.	त्रिसंधि हिन्ज	triple fusion		त्रिसलयन
trip circuit	Phy.	झट खंडन परिपथ	triple integration	Math.	त्रिक: समाकलन
trip destination	Geog.	विहार गतस्थ-स्थान	triple interaction		त्रिक अन्योन्यक्रिया
tripectinate	Geol., Zool.	त्रिककटी	triple ion		त्रित्र आयन
tripectinate antenna		त्रिककटी शृंगिका	triple ionization		त्रित्र आयनन
tripeleannamine	Chem.	ट्राइपेलैन्मीन	triple loop system		त्रिदाम पट्टि
tripeptidase	H.Sc.	ट्राइपेप्टाइडेस	triple mirror (prism)		त्रिपरावर्ती द्विधम
triperiodic arrangement	Phy.	त्रिआवर्ती विन्यास			

triple point		त्रिक बिन्दु	tripod	<i>Geog.</i>	तिपाई, त्रिपाद
triple product		त्रिक गुणनफल	tripod stand		त्रिपाद-स्टैंड
triple salt		त्रिक लवण	tripolar cell	<i>Zool.</i>	त्रिध्रुव कोशिका
triple scalar product		त्रिक अदिश गुणनफल	tripole antenna (=tripole aerial)		त्रिध्रुवीय ऐन्टेना
triple spot test		त्रि-बिन्दु परीक्षण	tripoli	<i>Geol.</i>	ट्रिपोली
triple stub transformer		त्रिस्यूण ट्रांसफॉर्मर	tripoli-powder		ट्रिपोली चूर्ण
triple superphosphate		त्रिगुण सुपरफॉस्फेट	tripolite	<i>Chem., Geol.</i>	ट्रिपोलाइट
triplet		त्रिक	triporate	<i>Bot.</i>	त्रिमुखकी
triplet code		त्रिक कूट	tripositive	<i>Chem.</i>	त्रिधनात्मक, त्रिधन
triplet linkage		त्रिक बंधता	tripping coil	<i>Phy.</i>	आशु खंडन कुंडली
triplet multiplet		त्रिक बहुक	tripping magnet		आशु खंडन चुम्बक
triplet settlement	<i>Geog.</i>	त्रिसमूही आवास	tripping pulse (=trigger pulse)	<i>Phy.</i>	प्रवर्तक स्पंद, आशु खंडन स्पंद
triplet state		त्रिक-अवस्था	triprolidine	<i>Chem.</i>	ट्राइप्रोलिडीन
triplet tangent plane		त्रि-बिन्दुस्पर्शी समतल	triprotic	<i>Chem.</i>	त्रिप्रोटी
triplet-triplet- absorption		त्रिक-त्रिक अवशोषण	tripsometer	<i>Chem.</i>	प्रतिस्थितित्वमापी
triple vaccine		त्रिक वैक्सीन	triptane	<i>Chem.(Pet.)</i>	ट्रिप्टेन
triple vector product		त्रिक सदिश गुणनफल	tripterius	<i>Bot.</i>	त्रिपक्षी
triplex	<i>Zool.</i>	त्रेधा	tripterous		त्रिपक्षी
triplex board	<i>Chem. (Paper)</i>	त्रिस्तर पट्ट	tripy (=trispyridyl)	<i>Chem.</i>	ट्रिपि (=त्रितपि)
triplexing	<i>(Met.)</i>	त्रिस्तरण	tripyramidal class		त्रि-पिरैमिडी वर्ग
triplicate gene		त्रि-जीन	tripyrylmethane	<i>Bot.</i>	ट्राइप्राइरिलमेथीन
triplicate ratio	<i>Math.</i>	घनानुपात	triquetrous branch	<i>Bot.</i>	त्रितली शाखा
triplication formula		त्रिगुणन सूत्र	triquinone	<i>Chem.</i>	त्रिविनोन, ट्राइविवनोन
triplication of wire		तार-त्रिगुणन	triradiate pelvis	<i>Zool.</i>	त्रिबरीय श्रेणी
triplite	<i>Chem.</i>	ट्रिप्लाइट	triradiate ridge		त्रिबरी कटक
triploblastic	<i>Zool.</i>	त्रिकोरकी	triradiate skeleton		त्रिबरीय पंजर
triplocaulous	<i>Bot.</i>	तृतीयकाक्षी	triradiate spicules		त्रिबरी कंटिका
triploid	<i>Math.,Biol.)</i>	त्रिगुणित	trireme	<i>Geog.</i>	पतवार नौका
triple orthogonal family	<i>Math.</i>	त्रिलंबकोणीय निकाय	tris	<i>Chem.</i>	त्रित, ट्रिस
triple orthogonal system		त्रिलंबकोणीय निकाय	trisaccharose	<i>Chem.</i>	ट्राइसैकेरोस
trip mechanism	<i>Geol.,Geog., Phy.</i>	फेरा यंत्रावलि, आशु खंडन क्रियाविधि	trisazo dyes	<i>Chem.</i>	त्रितऐजो रंजक, ट्रिसऐजो रंजक
<i>Tripneutes gratilla</i>	<i>Zool.</i>	ट्रिपन्युस्टीज ग्रेटिला	triscomplex	<i>Chem.</i>	त्रित संकुल
			trisect	<i>Math.</i>	समत्रिभाजित करना
			trisection		समत्रिभाजन

trisection of an angle		कोण का समन्निभाजन	<i>Triticum vulgare</i>	ट्रिटिकम वल्गेरी (गेहूँ)	
triseatrix	Math.	त्रिभाजक, ट्राइसेक्ट्रिक्स	tritium	Phy.	ट्राइटियम
triserial	Geol.	त्रिपन्निक	tritium method		ट्राइटियम विधि
trissil	Chem.	ट्रिमिल, त्रिमिल	tritocerebral segment	Zool.	तृतीयप्रमस्तिष्क खंड
trislane	Chem.	ट्राइसिलेन	Tritocerebrum		तृतीयप्रमस्तिष्क
trisorborane	Chem.	ट्रिस्नाबोरिन	triton	Chem.	ट्राइटोन
trisomic	Zool.	एकाधिसूत्री	Triton	Zool.	ट्राइटन
trisomic cross		एकाधिसूत्री संकर	<i>Triton rubicundus</i>	Zool.	ट्राइटन रबिकुण्डस
trisomy	Zool.	एकाधिसूत्रता	tritubercular	Zool.	त्रिगुलिक
tris-o-phenanthroline	Chem.	त्रि- <i>o</i> -फिनेन्थ्रोलीन लोह, ट्रिस फिनेन्थ्रोलीन लोह	trituberculosis		त्रिगुलिकता
trispermus	Bot.	त्रिकलबीजी, त्रिबीजी	trituberculo sectorial		त्रिगुलिक त्रिग्यषडी
tristat method	Bot.	ट्राइस्टैट विधि	triturate	Zool., H.Sc.	चूरा करना, संपेषण करना, धोटना
tristearin	H.Sc., Chem.	ट्राइस्टीएरीन	tritürating surface		संपेषण सतह
tristimulus colorimetry	Chem.	त्रि-उद्दीपन वर्णमिति	trituration	Zool., Geol.	संपेषण
tristimulus system (paper)		त्रि-उद्दीपक तत्र, त्रयोद्दीपक तत्र	Triturus	Zool.	ट्राइट्यूरस
tris-tetrahedron	Chem., Geol.	त्रिचतुष्फलक	<i>Triturus alpestris</i>		ट्राइट्यूरस एल्पेस्ट्रिस
tristeza virus	Bot.	त्रिस्तेजा वाइरस	<i>Triturus cristatus</i>		ट्राइट्यूरस क्रिस्टेटस
tristichous	Bot.	त्रिपन्निक	trityle	Chem.	ट्राइटिल
Tristicochaeta	Zool.	ट्रिस्टिकोकीटा	tritylation		ट्राइटिलन
tristils	Bot.	मदवर्णी	Tritylodon	Zool.	ट्राइटिलोडॉन
tristitrate	Bot.	त्रिस्तरित]	<i>Triumfetta bartramia</i>	Bot.	ट्राएम्फेटा बार्ट्रेमिया
Tristychidae	Zool.	ट्रिस्टीकाइडी	trilune character	Geog.	त्रियेक चरित्र
trisubstituted	Chem.	त्रिप्रतिस्थापित	trilune delty	Geog.	त्रिदेव
triscalate	Geol.	त्रि-शाची	triungulin (triungulus)	Zool.	त्रिनघट्टिम्भक
tritar	Zool.	ट्राइटर, पेषकठल	trivacancy	Phy.	त्रिपिनिकता
triternate	Bot.	त्रिक-त्रयो	trivalent ion	Chem.	त्रिसंयोजक आयन
triterpenoid	Chem.	ट्राइटर्पिनॉइड	trivariant	Math.	त्रिचर
triterpens	Bot.	ट्रिटर्पेन्स	trivariant system		त्रिचर सत्र
trithiane	Chem.	ट्राइथाएन	trivariate relation	Math.	त्रिविचर संबंध
trithymotide	Chem.	ट्राइथायमोटाइड	trivet	H.Sc.	त्रिपाई
tritolated	Chem. (Nucl.)	ट्राइटियमित	Trivia		ट्राइविया
Triticum	Bot.	ट्रिटिकम	<i>Trivla europea</i>		ट्राइविया यूरोपिया
<i>Triticum sativum</i>		ट्रिटिकम सैटाइवम	trivial	Math.	बुद्ध



trivial derivative		तुच्छ अवकलज	trochoidal wave		चक्री तरंग
trivial form		तुच्छ रूप	trochophoral trait	Zool.	ट्रोकोफोरी विशेषक
trivial mixed tensor		तुच्छ मिश्र प्रदिश	trochophore	Zool.	ट्रोकोफोर, चक्रधारी
trivial module		तुच्छ प्रतिरूपक	trochosphere	Zool.	चक्रगोलक, ट्रोकोस्फीयर
trivial name	Biol.	रहू नाम	trochospiral	Geol.	चक्रकुंडल
trivial solution	Math.	निरर्थक साधन, निरर्थक हल	trochotron	Phy., Geol.	ट्रोकोट्रान
trivial subspace		तुच्छ उपसमष्टि	Trochus	Zool.	ट्रोक्स
trivial topology		तुच्छ संस्थिति	<i>Trochus niloticus</i>		ट्रोक्स नीलोटीकस
trivium	Math., Zool.	त्रिभुजिका, ट्राइवियम्	troctolite	Geol.	ट्रॉक्टोलाइट
trixenic	Biol.	1. व्यागंतुक, व्यागत 2. त्रिपरपोपी, त्रिपोपकी	Troctomorpha	Zool.	ट्रॉक्टोमॉर्फा
Trizygia	Bot.	ट्राइज्यागिया	troegerite	Chem. (Nucl.)	ट्रोजराइट
trochal circlet	Zool.	चक्रीय वृत्तक	Troger's base	Chem.	ट्रोगर बेस, ट्रोगर सारक
trochal disc		चक्रीय चिम्ब	Trogiomorpha	Zool.	ट्रोगिओमॉर्फा
trochanter	H.Sc., Zool.	ट्रोकेन्टर, शिखरक	troglobiont	Zool.	गुफाजीवी
trochanteral organ	Zool.	हृदिकांग, कोरांग	troglydote	Geog.	गुहावासी, कन्दरावासी
trochanteric fossa	Zool.	शिखरक खात, ट्रोकेन्टरिक खात	<i>Trogoderma granarium</i>	Zool.	ट्रोगोडर्मा ग्रानैरियम
trochantero femoral joint		शिखरक-ऊर्विका संधि	Trogoniformes	Zool.	ट्रोगोनिफॉर्मोज
trochantin (trochantine)	Zool.	संधिकठक	troilite	Phy.	ट्राइलाइट
Trocheta	Zool.	ट्रोकोटा	Trojan asteroid	Math.	ट्रोजन क्षुद्र ग्रह
Trochilidae	Zool.	ट्रॉकीलिडी	Trojan planet		ट्रोजन ग्रह
trochlea	Zool.	चक्रक, ट्राक्लिया	troll fishing	Zool.	विकर्षण मत्स्यन
trochlear nerve		चक्रक संज्ञिका	trolling	Zool.	विकर्षण
trochlear process		चक्रक प्रवर्ध	trolling bait		विकर्षण विलोभक
trochoblast	Zool.	चक्रकोरक	trolling gear		विकर्षण संभार
trochoceracone	Geol.	ट्रोकोसेराकोन	trolling vessel		विकर्षण पीत
trochoid	Math., Geol.	(n.) त्रिज्याज, ट्रोकोइड (adj.) चक्रात्म	trolly	H.Sc., Geog.	ट्रॉली
trochoidal	Math.	चक्रीय, चक्री	trolly lace		ट्रॉली लेस
trochoidal analyser	Phy.	ट्रोकायडी विश्लेषक	trombiculid mite	Zool.	ट्रॉम्बिकुलिड बरुधी
trochoidal fault		चक्रीय भ्रंश	Trombidium	Zool.	ट्रॉम्बिडियम
trochoidal movement		चक्रीय संचलन	<i>Trombidium fuliginosum</i>		ट्रॉम्बिडियम फ्यूलिजिनोसम
trochoidal trajectory		ट्रोकायडी प्रक्षेप पथ, ट्रोकायडी प्रपथ	trombone	Phy.	ट्राम्बोन
			tromelite	Chem.	ट्रामेलिट
			trommel	Geol., Chem.	धूर्शी चालनी, ट्रॉमेल
			tromometer	Geol.	भूकंपमापी
			trona	Geol.	ट्रोना

trondhjemite	Geol.	ट्रानयेमाइट	trophonucleus	Zool	पोषकेन्द्रक
tronador	H.Sc.	ट्रोनीडॉर	trophoparasite	Zool.	पोषपरजीवी
troucon	H.Sc.	ट्रॉकन	trophophore	Zool	पोषकधर
troop	Geog.	सैन्यदल, ट्रूप	trophoplasm	Zool	पोषद्रव्य
troostite	Geol.	ट्रूस्टाइट	trophoplast	Zool.	पोषनवक
Tropaeolaceae	Bot	ट्रोपिओलेसी	trophosome	Zool.	पोषनाय
tropaeolin (tropaeolin)	Chem.	ट्रोपिओलिन	trophospongium	Zool	ट्रोफ्रोस्पोन्जियम
Tropaeolum majus	Bot	ट्रोपिओलम मेजस	trophotaxis	Zool	पोषानुचलन
tropane	Chem.	ट्रोपेन	trophotomonte	Zool	ट्रोफोटोमाण्ट
tropanyl chloride	Chem.	ट्रोपेनिल क्लोराइड	trophotropism	Zool	पोषानुचर्चन
trope		विविध स्पर्श समतल, ट्रोप	trophozoid	Zool	पोषानुचलन
Tropenas converter	Chem (Met)	ट्रोपिनास परिणामित्र	trophozoite	Zool, H Sc	पोषजीवाणु, पोषाणु
trophallaxis	Zool	पोषनिमय	tropical	Geog	उष्णकटिबंधीय
trophamnion	Zool	उल्बपोपी	tropical agricultural population		उष्ण कटिबंधीय कृषिजन
trophamniotic fragment		उल्बपोपी खंड	tropical air mass		उष्णकटिबंधीय वायुसंहति
tropheclaxis	Bot	पोष सम्बन्ध	tropical area		उष्णकटिबंधीय क्षेत्र
trophic	Zool	चर्वणांग	tropical bleach		उष्णकटिबंधी विरजक
trophic level	Zool	पोषी	tropical calms		उष्णकटिबंधीय प्रशांत
trophic membrane		पोषण रीति	tropical convergence		उष्णकटिबंधी समाभिस्वता
trophic system		पोषी कला	tropical crab		उष्णकटिबंधीय केकडा
trophobiont	Zool	पोषी तंत्र	tropical cyclone		उष्णकटिबंधीय चक्रवात
trophobiosis	Zool.	पोषजीवी	tropical eosinophilia		उष्णकटिबंधी ह्योसिनरामिया
trophoblast	Zool	पोषकोरक, ट्रोफोब्लास्ट	tropical forest		उष्णकटिबंधीय वन
trophoblastic lacunae		पोषकोरकी रिक्तिका	tropical grassland		उष्णकटिबंधीय घासस्थल
trophochromatin	Zool	ट्रोफोक्रोमेटिन, पोषक्रोमेटिन	tropicalization	Chem.	उष्ण क्षेत्रानुकूलन
trophocyst		ट्रोफोसिस्ट	tropical land		उष्णकटिबंधीय भूमि, उष्णकटिबंधीय देश
trophocyte	Zool	पोषकाणु	tropical land		उष्णकटिबंधीय निम्नभूमि
trophoderm	Zool	पोषजनस्तर	tropical lowland		सावनमान
trophodermal villus		पोषजनस्तर की अकुर	tropical month	Geog	उष्णकटिबंधीय वर्षावन
trophodisc	Zool	पोषद्विम्ब	tropical rainforest		उष्णकटिबंधीय प्रदेश
trophogenic zone	Zool.	पोषजन क्षेत्र	tropical region		उष्णकटिबंधीय परिचामी
trophollaxis	Bot.	भक्षणसवेदना	tropical revolving storm		दुषमान
tropholytic zone	Zool	पोषनघी क्षेत्र	tropical scrub		उष्णकटिबंधीय गुल्म
trophonemata	Zool	ट्रोफोनिमेटा, पोषनयूत	tropical scrub forest		उष्णकटिबंधीय गुल्म वन
trophonte	Zool.	ट्रोफॉन्ट			

tropical sea		उष्णकटिबंधीय सागर	tropospheric wave (=space wave)		क्षोभमंडलीय तरंग
tropical soil		उष्णकटिबंधीय मृदा	tropotactic reaction	Zool.	सममितानुचलनी अभिक्रिया
tropical suiting	H.Sc.	ट्रॉपिकल सूटिंग	tropotaxis	Zool.	सममितानुचलन
tropical year		सायन वर्ष	Tropylum	Chem.	ट्रोपीलियम
tropical zone		उष्णकटिबंध	T. R. (transmit receive) boxes	Phy.	प्रेष ग्रहण बक्स
tropic movement	Bot.	अनुवर्तनी गति	trotter pie	H.Sc.	ट्रॉटर पाई
tropic of Cancer	Geog., Math.	कर्क-रेखा	trough		1. द्रोणी, द्रोणिका 2. गर्त (of wave)
tropic of Capricorn	Geog.	मकर-रेखा	trough channel		द्रोणिका प्रणाल
tropicopolitan	Zool.	उष्णकटिबंधवासी	trough compass		ट्रफ कम्पास
Tropics	Geog.	अयन मंडल, उष्णकटिबंध	trough fault		द्रोणिका भ्रंश
tropidine	Chem.	ट्रॉपिडीन	trough faulting		द्रोणिका भ्रंशन
tropigenine	Chem.	ट्रॉपिजेनीन	trough floor		द्रोणी सतह
tropilidene	Chem.	ट्रॉपिलिडीन	trough head wall		द्रोणिकाशीर्ष भित्ति
tropinone	Chem.	ट्रॉपिनोन	trough in trough form		द्रोणिकास्य द्रोणिका रूप
<i>Tropiometra encrinus</i>	Zool.	ट्रॉपिओमेट्रा एन्क्राइनस	trough line		द्रोणी रेखा
tropism	Biol.	अनुवर्तन	trough of low pressure		न्यूनदाब द्रोणी
tropistic		अनुवर्तनी	trough surface		द्रोणी पृष्ठ
tropistic response		अनुवर्तनी अनुक्रिया	trout (Salmo)	Zool.,H.Sc.	ट्राउट (सायन)
tropocollagen	Chem.	ट्रोपोकॉलाजन	troutlet	Zool.	ट्राउटशाव
tropolone	Chem.	ट्रोपोलोन	Troutons coefficient	Chem.	ट्राउटन गुणांक
tropomyosin	Bot.	ट्रोपोमायोसिन	Trouton's constant		ट्राउटन स्विरांक
tropoparasite	Bot.	अंशकाल परजीवी	Trouton's rule		ट्राउटन नियम
tropopause	Phy.	क्षोभसीमा	trowel	Chem. (Plastics)	कन्नीयन
tropophyte	Geog.	परिवृत्ति उद्भिद्	troweling	(Plastics)	कन्नीयन
tropophytic		परिवृत्ति उद्भिद्, शुष्क्राट्रोद्भिद्	Trowell medium	Bot.	ट्रोवेल माध्यम
tropophytic forest		शुष्क्राट्रोद्भिदीय वन	troxidone	Chem.	टॉक्सीडोन
tropophytic forest belt		शुष्क्राट्रोद्भिदीय वन-पट्टी, परिवृत्त उद्भिद् वन मखला	troyen	H.Sc.	ट्रॉयेन
troposphere	Phy.,Math.	क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर	troy measure		ट्राय-माप पद्धति
tropospheric fall-out		क्षोभमंडलीय निपात	trubenized	H.Sc.	ट्रूबेनाइज्ड
tropospheric flight		क्षोभमंडलीय उड़ान	truck	Geog.	ट्रक
tropospheric range		क्षोभमंडलीय परास	truck crop		ट्रक सस्य
tropospheric turbulence		क्षोभमंडलीय विक्षोभ			

truck farm		ट्रक-फार्म	true equilibrium		भौगोलिक दिकमान, यथार्थ सतुलन, यथार्थ साम्य
truck farmer		ट्रक-कृषक	true error		वास्तविक त्रुटि
truck-farming		ट्रक-कृषि	true error variances		यथार्थ त्रुटि पसरण
truck flare	<i>Chem (Met)</i>	केतु ज्वाला	true even-flowing time		यथार्थ समप्रवाही काल
truck garden		ट्रक वाडी	true fissure vein		वास्तविक विदर शिरा
truck harvest		ट्रक सस्य	true fly	<i>Zool</i>	मान्य मशी
true		वास्तविक, यथार्थ, उद्भव, यथातथ	true folding		वास्तविक बलन
true absorption		वास्तविक अवशोषण	true general absorption		वास्तविक व्यापक अवशोषण
true absorption coefficient		वास्तविक अवशोषण गुणांक	true horizon	<i>Geog., Math.</i>	खगोलीय क्षितिज
true adjustment		वास्तविक समायोजन	true hypothesis		यथार्थ परिकल्पना
true anomaly		यथार्थ कोणिकांतर	true instrument		यथार्थमापी यंत्र
true balance		यथार्थमापी तुला	true lattice plane		वास्तविक जालक तल
true barometer		यथार्थ वायुदाब-मापी	true lattice plane "true lag"		सत्य पश्चयता
true bearing		यथार्थ दिक्मान, वास्तविक दिक्मान	true length	<i>Geog.</i>	विशुद्ध लम्बाई
true breeding		उद्भव प्रजनन	true load		यथार्थ उद्भार
true bulb		वास्तविक बल्ब	true lode		वास्तविक शिरा निरीप, वास्तविक लोड
true chemical constant		वास्तविक रासायनिक स्थिरांक	truly ionic		वास्तविक आयनिक
true coal		वास्तविक कोयला	true mass		यथार्थ द्रव्यमान
true coincidence		यथार्थ सपात	true mean		यथार्थ माध्य
true colour index		यथार्थ वर्णानु	true mode		यथार्थ बहुलक
true continuous absorption		वास्तविक सतत अवशोषण	true north	<i>Geog., Geol., Phy.</i>	भौगोलिक उत्तर
true course		यथार्थ पथ	true parasite		यथार्थ परजीवी
true crab		यथार्थ कंकट	true pelvis		वास्तविक प्लोणी
true cross-lamination		वास्तविक त्रैम स्तरिकाविन्याम	true period		यथार्थ काल
true crystal plane		वास्तविक क्रिस्टल तल	true plot		यथार्थ आवेष्ट
true dimensions		यथार्थ माप, यथार्थ विस्तार	true polyembryony		वास्तविक बहुभ्रूणता
true dip		यथार्थ नति	true power		वास्तविक शक्ति
true dip line		यथार्थ नतिरेखा	true prairie		यथार्थ प्रेरी
true discount	<i>Math.</i>	सच्चा मित्रोदाय	true rate equation		सत्य अर्थ समीकरण
true distance (= slant distance)		यथार्थ दूरी, विचरक दूरी	true rib	<i>Zool.</i>	यथार्थ पशुका, मुख्य पशुका
true elasticity		यथार्थ लोच	true selective absorption		वास्तविक अरसात्मक अवशोषण

true solution		वास्तविक विलयन	truncated picture		हंडित चित्र
true specific heat		यथार्थ विशिष्ट ऊष्मा, वास्तविक विशिष्ट ऊष्मा	truncated profile		हंडित परिच्छेदिका
true staff reading	<i>Geog.</i>	दंड का शोधित पाठ्यांक	truncated pyramid		हंडित पिरैमिड
true station		वास्तविक चांदा	truncated pyramid of rock		हंडित शैलीय पिरैमिड
true sun		भौगोलिक सूर्य, वास्तविक सूर्य	truncated section (of horn)		हंडित परिच्छेद
true temperature		वास्तविक ताप	truncated sequential sampling		छिन्न अनुक्रमिक प्रतिचयन
true trend		यथार्थ उपनांत	truncated soil		हंडित मृदा
true value		वास्तविक मान	truncated spur		हंडित पर्वत स्कंध
true-vapour phase process	<i>Chem. (Pet.)</i>	सत्य-वाष्प प्रावस्था प्रक्रम	truncating		हंडन
true vein	<i>Geol.</i>	वास्तविक शिरा	truncation	<i>Math., Geog.</i>	छेदन, छिन्नकरण, हंडन, लूनाग्रता
true water-beetle	<i>Zool.</i>	मान्य जलभृंग	truncation error		हंडन त्रुटि
true zenith		वास्तविक शिरोदिन्दु	truncus arteriosus	<i>Zool.</i>	घमनी कांड
true zero		वास्तविक जीरो	trunk	<i>H.Sc., Bot., Zool.</i>	1. कांड, स्तंभ, प्रकांड; घड़ 2. महावाहिनी
truffete	<i>H.Sc.</i>	ट्रूफेट	trunk canker		स्तंभ कैंकर, स्तंभ प्रवण
truffiate	<i>H.Sc.</i>	ट्रूफियेट	trunk cavity		घड़ गुहा
truffle		ट्रूफल	trunk coelome		घड़ देह-गुहा, घड़ प्रगुहा
trug	<i>H.Sc.</i>	ट्रग	trunk-fish (box fish)	<i>Zool.</i>	बर्मित मीन
trumao	<i>Geog.</i>	ट्रू माओ	trunk ganglion		घड़-गुच्छिका
trumpet	<i>Bot., Geog.</i>	तूर्य	trunk line route		ट्रंक लाइन मार्ग
trumpeter swan	<i>H.Sc.</i>	मेघरव	trunk musculature		घड़ पेशीन्यास
trumpet flower		तूर्य पुष्प	trunk route	<i>Geog.</i>	ट्रंक मार्ग, दूर्य मार्ग
trumpet-hyphae		तूर्य तंतु	trunk segment		घड़-खंड
trumpeting		तूर्य नाद	trunk spination		घड़ झूलन
trumpet orifice		तूर्य मुँह	trunk spine		घड़ शूल
trumpet tongued		तूर्य भापी	trunk stream	<i>Geog.</i>	मुख्य सरिता, ट्रंक सरिता
truncate	<i>Bot., Geol., Geog.</i>	लूनाग्र, हंडित	trunnion	<i>Geog., Chem. (Food)</i>	विवर्तिनी, ट्रनियन
truncated		लूनाग्र, हंडित	trust	<i>H.Sc., Geog.</i>	ट्रस्ट, न्यास
truncated cone		हंडित शंकु, छिन्न शंकु	trustee		न्यासी
truncated curve		छिन्न वक्र	trusteeship territory		न्यासिता भूभाग
truncated delta		हंडित डेल्टा	trustee territory		न्यासी प्रदेश
truncated distribution		छिन्न वंटन	trust territory		न्यास भूभाग
truncated frequency distribution		छिन्न वारंवारता वंटन	truth	<i>Phy.</i>	यथार्थता, सत्यता
truncated parabola		हंडित परवलय			

truth function	<i>Math.</i>	सत्यमान फलन	Trypanosomidae	<i>Zool</i>	ट्रिपैनोसोमिडी
truth table		सत्यमान सारणी	trypan red	<i>Chem</i>	ट्रिपन रक्त
truth value		सत्यमान	trypanamide	<i>Chem</i>	ट्रिपैसैमाइड
truxillic	<i>Chem</i>	ट्रुक्सिलिक	trypanamideresistant strain	<i>Zool</i>	ट्रिपैसैमाइड प्रतिरोधी विभेद
truxilline	<i>Chem.</i>	ट्रुक्सिलीन	trypsin	<i>Zool</i>	ट्रिप्सिन
truxinic acid	<i>Chem.</i>	ट्रुक्सिनिक अम्ल, ट्रुक्सिनिक एसिड	trypsinization		ट्रिप्सिनीकरण, ट्रिप्सिनीकरण
tryblielepidine	<i>Geol.</i>	ट्रिब्लियोलिपिडिनाम	trypsinogen	<i>Chem.</i>	ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनजन
tryblielepidiae embryonic apparatus	<i>Geol.</i>	ट्रिब्लियोलिपिडिन ध्रुवीय उपकरण	"tryptic" enzyme	<i>Chem</i>	ट्रिप्सिनी एन्जाइम
tryblielepidine nucleocoench		ट्रिब्लियोलिपिडिन शङ्खनाम	tryptophan	<i>Zool</i>	ट्रिप्टोफान
Trygon	<i>Zool</i>	ट्राइगोन	tryptophen	<i>Zool, Chem (Met)</i>	ट्रिप्टोफेन
Trygon sephen		ट्राइगोन सीफेन (शकुश)	tryptophol		ट्रिप्टोफॉल
try hole	<i>Chem (Met)</i>	सूचक छिद्र	trysting place	<i>Geog.</i>	मिलन स्थान
tryma	<i>Bot</i>	ट्राइमा	tsamba	<i>Geog, H. Sc.</i>	साम्बा
tryosinase	<i>Bot</i>	ट्रायोसिनेस	T-scale	<i>Math</i>	T-मापक्रम
trypan dye	<i>Chem</i>	ट्रिपैन रजक	tschernosem	<i>Geol</i>	चेरनोजेम
trypanocidal	<i>Zool.</i>	ट्रिपैनोसोमनाशी	Tschirkoviella	<i>Bot</i>	त्सिर्कोविएला
trypanocidal antibody	<i>Zool.</i>	ट्रिपैनोसोमनाशी प्रतिरक्षी	Tschitschubabin (Chichibabin) reaction	<i>Chem.</i>	त्सिचिबैबिन अभिक्रिया
trypanocide	<i>Chem.</i>	ट्रिपैनोसाइड, ट्रिपेनानाशी	Tschugaeff's distance rule	<i>Chem.</i>	त्सुगैव दूरी नियम
trypanolysin	<i>Zool</i>	ट्रिपैनोलाइसिन	Tschugaeff Zerewitinooff analysis		त्सुगैव जेरविदिनाफ विश्लेषण
Trypanoplasma	<i>Zool</i>	ट्रिपैनोप्लास्मा	Tschugaev reaction	<i>Chem.</i>	त्सुगैव अभिक्रिया
Trypanosoma	<i>Zool</i>	ट्रिपैनोसोमा	tsetse fly	<i>Zool, Geog, H.Sc.</i>	सेट्सी मक्की, मीकी मक्की, सीसी पनर
Trypanosoma brucei		ट्रिपैनोसोमा ब्रूसाइ	T-square	<i>Math.</i>	T-स्क्वेयर
Trypanosoma evansi		ट्रिपैनोसोमा इवँन्साई	t-statistic	<i>Math.</i>	t-प्रतिदर्शन
Trypanosoma gambiense		ट्रिपैनोसोमा गैम्बिएन्स	tsunami	<i>Geol.</i>	मुनामी, भूकंपोत्सिधु तरंग
Trypanosoma rhodesiense		ट्रिपैनोसोमा रोडेसिएन्स	tsuzuki acid	<i>Chem</i>	सुसुकि अम्ल
trypanosoma type		ट्रिपैनोसोमा प्ररूप	t-test	<i>Math.</i>	t-परीक्षण
trypanosome	<i>H.Sc., Chem., Zool.</i>	ट्रिपैनोसोम	T.T.T. diagram (transformation temperature time diagram)	<i>Chem</i>	टी. टी. टी. आरेख, (रूपान्तरण तापमान आरेख, इ ता. का. आरेख)
trypanosomiasis		ट्रिपैनोसोमता			

Tuads	Chem.	टुऐइस	tubercular	Zool., Geol.	गुलिकीय
Tuatra	Zool.	टुऐट्टा	tubercular facet		गुलिकीय फलक
tub	H.Sc.	नाँद	Tuberculariaceae		ट्यूबरकुलेरिएसी
tubal pregnancy	H.Sc.	डिम्बवाहिनी सगर्भता	tuberculate wall		गुलिकीय भित्ति
tub dip (= tub liquering)	Chem. (Text)	टव मञ्जन	tuberculation	Chem. (Met.)	स्फुटि-सारण
tube		ट्यूव, नली, नलिका, नाल	tuberculosis	H.Sc.	यक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस
tube cell		नली कोशिका	tuberculostatic	Chem.	यक्ष्मास्तम्भी
tube cleaner		नली निर्मलक	tuberculostearic acid	Chem.	ट्यूबरकुलोस्टिअरिक अम्ल, ट्यूबरकुलोस्टिअरिक एसिड
tube coefficient		नलिका गुणांक	tuberculum	Zool.	गुलिका
tube counter		नलिका गणित	tuberculum acousticum		ध्वनिक गुलिका
tube culture		1. नाल संवर्ध 2. नाल संवर्धन	tuberculum impar		वसम गुलिका
tube envelope		नलिका आवरण	tuberculum olfactorium		घ्राण गुलिका
tube feeding		नलिका भोजन	tuberization	Bot.	कंदीभवन
tube foot		नाल-पद	tuberin	Bot., Geol.	ट्वेरिन
tube-foot system		नाल-पद तंत्र	tuberohypophysis		नलिका हाइपोफाइसिस
tube furnace		नाल भट्टी, नली भट्टी	tuberose	Bot., Geol.	कंदाकार
tube-maintained tuning fork		नलिका पोषित स्वरिन्न द्विभुज	tuberosity	Zool.	बल्बिप्रोत्थ
tube manual		नलिका विवरणिका	tuberous	Bot.	कंदिल, गांठदार
tube mill		नलिका पेपणी, नलिका मिल	tuberous root		गांठदार मूल
tube noise		नलिका रव	tube service	Geog.	सुरंग रेल सेवा, ट्यूव सेवा
tube nucleus		नली केन्द्रक	tube socket		नलिका साकेट
tube of flow		प्रवाह-नलिका	tube tester		नलिका परीक्षित
tube of force		बल-नलिका	tube well		नलकूप
tube of induction		प्रेरण-नलिका	tube worm	Zool.	नाल कृमि
tube pan		नलिका पात्र	Tubicaulis	Bot.	ट्यूबीकॉलिस
tuber	Bot., H.Sc.	कंद	tubicolons	Zool.	नालवासी
Tuberales		ट्यूबरैलीज	tubicorn	Zool.	नालशृंग
tuber cinerium (in fundibulum)	Zool.	ट्यूबर साइनेरियम (कोपक)	tubicolous worm	Zool.	नालवासी कृमि
Tubercinia trientalis		ट्यूबर्सिनिया ट्राइन्टैलिस	tubifacient	Zool.	नालकर
tubercle	H.Sc. Zool., Geol.	पक्षिका, ट्यूबरकल गुलिका	Tubifera		ट्यूबिफेरा
			Tubiflorae	Bot.	ट्यूबिफ्लोरा
			tubiform		नालरूप

tubilingual	Zool.	नालजिह्व	tubulos	Geol.	सुपिर
tubing	Chem	नलिका	tubulose	Zool	नालयुवन
tubing medium		नलिका माध्यम	Tucana	Math.	तुकेना
tubiparous	Zool	नालप्रज	tuck	H Sc.	टक, उमटन सिलाई
Tubipora	Zool.	ट्यूबीपोरा	Tucker furnace	Chem	टकर छाट्ट
<i>Tubipora musica</i>	Zool	ट्यूबीपोरा म्यूसिका	tucking	H Sc. Chem (Met)	1 सोमना 2 हस्त पीठन
D-tubocurarine	Chem.	D-ट्यूबोक्यूरीन	tuck loop	Chem.	टक पाश, चुन्ट पाश
tub-sized paper	Chem.	टब-चिक्किणित पत्र	tuck stitch	H Sc.	टक टाका
<i>Tubulanus ruber</i>	Zool.	ट्यूबुलेनस रूबर	tuck stone	Chem	टक-प्रस्तर
tubular	Zool ,Geol., Phy	नलिकाकार	tuck wall		टक-भित्ति
tubular cement gland		नलिकाकार श्लेष ग्रथि	tuf	H Sc.	टफ़
tubular channel		नलिकाकार वाहिका	tufa	Geol	टूफा
tubular gland		नलिकाकार ग्रथि	tufa dome		टूफा गुम्बर
tubular grain		नलिकाकार कणक	tuff	Geol ,Geog.	टफ़
tubular heater		नलिकाकार हीटर, नलिकादार तापक	tuffaceous clay		टफ़मय मृत्तिका
Tubularia	Zool.	ट्यूब्यूलेरिया	tuffaceous grit		टफ़मय पिट
Tubulariae	Zool.	ट्यूब्यूलिरी	tuff breccia		टफ़-सकोषागम
tubular lamp		नलिकाकार लैम्प	tuff cone		टफ़ शंकु
tubular muscle		नलिकाकार पेशी	tuffisite	Geol	टफ़िसाइट
tubular neighbour- hood		नलिकाकार प्रतिवेश	tuffite	Geol.	टफ़ाइट
tubular pinches		नलिकाकार संकुचन	tuff matrix		टफ़ मैट्रिक्स, टफ़ आधात्री
tubular reactor		नलिकाकार रिऐक्टर	tuffolava	Geol.	टफ़ोलावा
tubular space		नलिकाकार आकाश	tuff ring		टफ़ बलय
tubular spring		नलिकाकार झरना	tuff	Zool. Geog.,H.Sc.	1. चूडा 2. गुच्छा
tubular surface		नलिकाकार पृष्ठ	tufted (gene)	Geol ,Zool	चूडास (जीन), गुच्छेदार
tubulation	Zool.	नलिकाभवन	tufted fabric	Chem ,H Sc.	चूडास तातक, चूडास बस्त्र
tubule	Geol	नलिका	tufted pochard		चूडास पोचर्ड, शिथी पोचर्ड
tubuli contorti	Zool.	कुचन नलिका	tufted rug	H.Sc.	गुच्छित रग
<i>Tubulidentata</i>	Zool.	ट्यूबुलीडेन्टेटा	tufted yarn		गुच्छित सूत्र
tubuliferous	Zool.	नलिकाघर	tufton	H.Sc.	टफ़टोन
tubuliform	Zool.,Geol.	नलिकारूप	tugger hoist	Geol.	टगर ह्वारम्प
tubuliform gland		नलिकारूप ग्रथि	tula metal	Geol.	टुला-धातु
tubuli semeniferi	Zool.	शुक्रजनक नलिका	tularemia	Chem., Zool.	टुनेरेमिया
tubulus	Bot.	ट्यूबुलस			
Tubulodon	Zool.	ट्यूब्यूलोडॉन			



tule	<i>Geog.</i>	दूल	tuned	<i>Phy.</i>	समस्वरित
tulip culture	<i>Geog.</i>	द्यूलिप संवर्धन	tuned anode amplifier		समस्वरित ऐनोडी प्रवर्धक
tulip glass	<i>H.Sc.</i>	द्यूलिप ग्लास	tuned antenna		समस्वरित ऐन्टेना
tulip root nematode	<i>Bot.</i>	द्यूलिप मूल सूत्रकृमि	tuned base oscillator		समस्वरित बेस दोलित्र
tulip white streak		द्यूलिप श्वेत रेखा	tuned circuit		समस्वरित परिपथ
tulle	<i>H.Sc.</i>	दूल	tuned class B amplifier		B वर्गीय समस्वरित प्रवर्धक
Tulostomataceae	<i>Bot.</i>	द्यूलोस्टोमेटेसी	tuned dipole		समस्वरित द्विध्रुव
tumbler	<i>H.Sc.</i>	टम्बलर	tuned doublet		समस्वरित द्विक
tumbler switch		टम्बलर स्विच	tuned plate oscillator		समस्वरित ऐनोड दोलित्र
tumbling	<i>Chem. (Met.)</i>	1. संलोटन 2. अवपातन	tuned preamplifier		समस्वरित पूर्व प्रवर्धक
tumbling media	<i>Geol.</i>	संलुठन माध्यम	tuned radio frequency receiver		समस्वरित रेडियो आवृत्ति ग्राहित्र
tumbling mill		संलुठन मिल	tuned relay		समस्वरित रिले
tumbling scrubber		संलुठन मार्जक	tuner	<i>Phy.</i>	समस्वरित्र
tumbu fly	<i>Zool.</i>	टुम्बू मक्खी	tung	<i>Geog.</i>	तुंग
tumescence	<i>Geol.</i>	स्फीति	tungar rectifier	<i>Phy.</i>	टंगार दिष्टकारी
tumescence		स्फीताम	tung oil	<i>Geog., Chem.</i>	तुंग-तैल
tumid	<i>Bot., Geol., Geog.</i>	स्फीत	tungstate	<i>Chem.</i>	टंगस्टेट
tumid lip		स्फीत बोष्ठ	tungstated color lake	<i>Chem. (Paint)</i>	टंगिस्टेट वर्ण लाक्षक
tumilus	<i>Geog.</i>	ट्यूमिलस, लावास्तूप	tungsten	<i>Chem.</i>	टंगस्टेन
tumour	<i>Biol., Geol.</i>	अर्बुद	tungsten bronze		टंगस्टेन कांस्य
tumour virus	<i>Zool.</i>	अर्बुद वाइरस, अर्बुद विषाणु	tungsten hexachloride		टंगस्टेन हैक्साक्लोराइड
tumulus	<i>Geog., Geol.</i>	कन्न स्तूप लावास्तूप	tungstenite	<i>Geol.</i>	टंगस्टेनाइट
tuna	<i>Zool., Geog.</i>	ट्यूना	tungsten whiske		टंगस्टेन रोम
tunable load	<i>Phy.</i>	समस्वरणीय लोड	tungstic acid	<i>Chem.</i>	टंगस्टिक अम्ल
tunable magnetron		समस्वरणशील मैग्नेट्रान	tungstic ochre		टंगस्टनी गेरु
tuna clipper	<i>Zool.</i>	ट्यूना क्लिपर	tungstite		टंगस्टाइट
tuna seiner		ट्यूना संपाक	tungsto	<i>Chem.</i>	टंगस्टो
tundish	<i>Chem. (Met.)</i>	टंडिज	tungstoboric acid	<i>Chem.</i>	टंगस्टोबोरिक अम्ल
tundra	<i>Geog.</i>	टुन्ड्रा	tungsto group	<i>Chem.</i>	टंगस्टो-समूह
tundra community		टुन्ड्रा समुदाय	tungstosilicic acid	<i>Chem.</i>	टंगस्टोसिलिसिक अम्ल
tundra soil		टुन्ड्रा मृदा	tungstovanadic acid	<i>Chem.</i>	टंगस्टोवेनेडिक अम्ल
tune	<i>Phy.</i>	1. (n.) धुन 2. (v.) मुर मिलाना, समस्वरित करना	tunguri	<i>Geog.</i>	टुंगुरी (निर्वृक्ष समतल उच्च भूमि)
			Tungus (= Tunguz)	<i>Geog.</i>	टुंगुज

tunic	<i>H Sc.</i>	1. कचुक 2. ट्यूनिक	tunnel effect		सुरग प्रभाव
tunica	<i>Bot., H Sc.</i>	कचुक, ट्यूनिका	tunnel forest		सुरग वन
tunica albuginea	<i>H Sc.</i>	श्वेत कचुक	tunnel fumarole		सुरग वाष्पमुख
tunica corpus theory		ट्यूनिका कॉर्पस वाद	tunneling (intersystem crossing)		सुरगन (अंतरांतर लघन)
tunica externa		बाह्य कचुक	tunnelling effect		सुरगन प्रभाव
tunica interna		अंत कचुक	tunnel method		सुरग-उत्खनन विधि
tunica intima		कचुक अंत स्तर	tunnel valley	<i>Geol.</i>	द्विसुरग घाटी
tunica media		मध्य कचुक	Tupaia	<i>Zool.</i>	टुपेया
tunica propria		बहि कचुक	Tupaidae	<i>Zool.</i>	टुपेयाइडी
Tunicata	<i>Zool.</i>	ट्यूनिकेटा	tupelo	<i>Geog. H Sc.</i>	टुपेलो
tunifcate	<i>Zool.</i>	कचुकी	tupelo honey		टुपेलो मधु
tunicated bulb	<i>Bot.</i>	कचुकित शल्क कन्द	Tupi	<i>Geog.</i>	टूपी
tunica vaginalis	<i>Zool., H Sc.</i>	वृषण-कचुक	<i>Tupa belangeri</i>	<i>Zool.</i>	टूपिया बेलैन्जेराइ
tunica vaginalis communis		सामान्य वृषण कचुक	tupoz	<i>H.Sc.</i>	टूपोड
tunica vaginalis internus		आंतर वृषण कचुक	turacin	<i>Chem., Zool.</i>	टुरैसिन
tunica vaginalis propria		स्वक वृषण कचुक	turanose	<i>Bot., Chem.</i>	टुरैनोस
tunica vasculosis	<i>Zool.</i>	सवहनी कचुक	turban	<i>H.Sc.</i>	टर्बन
tunicin	<i>Chem., Zool.</i>	ट्यूनिमिन	turban shell	<i>Zool.</i>	टर्बक कबची
tuning	<i>Phy.</i>	सुर मिलाना, समस्वरण	turbary	<i>Geog.</i>	टर्बरी, टर्फ-कर्तन
tuning coil		समस्वरण कुंडली	turbary sight		टर्बरी अधिकार, टर्फ कर्तन अधिकार
tuning condenser		समस्वरक सघारित	Turbellaria	<i>Zool.</i>	टर्बेलेरिया
tuning fork	<i>Phy.</i>	स्वरित्र द्विभुज	turbellarian	<i>Zool.</i>	टर्बेलेरियन
tuning fork drive recorder		स्वरित्र द्विभुज चालित अभिलेखी	turbid	<i>Chem., Bot.</i>	आविल
tuning indicator		समस्वरण सूचक	turbidifier		आविलक
tuning meter		समस्वरण मापी	turbidimeter	<i>Geol.</i>	आविलतामापी
tuning plunger		समस्वरक प्लंजर	turbidimetric analysis		आविलतामापी विश्लेषण
tuning screw		समस्वरण पेंच	turbidimetric evaluation		आविलतामापी मानांकन
tuning silence		समस्वरण सूचक	turbidimetry	<i>Geol.</i>	आविलतामिति
tunnel	<i>Geol., Geog.</i>	सुरग	turbidite	<i>Geol.</i>	टर्बिडाइट
tunnel cave		सुरग गुहा	turbidity	<i>Zool., Geol., Geog.</i>	आविलता
tunnel diode (= Esaki diode)	<i>Phy.</i>	सुरग डायोड	turbidity current		आविल धारा
tunnel dryer		सुरग शुष्कित्र	turbinal	<i>Zool.</i>	टर्बिनल, सफिरासिध

<i>Turbinararia conoides</i>	Bot.	टविनेरिया कोनाइडीज़	turbulence wave number	Phy.	विक्षोभ तरंग संख्या
turbinate	Bot.	लट्टू रूपी	turbulent	Math.,Phy.	प्रक्षुब्ध
turbine	Math.,Phy., H.Sc.	टरवाइन	turbulent boundary layer		प्रक्षुब्ध परिसीमा-पृष्ठ
turbine blade		टरवाइन-फलक	turbulent convection		प्रक्षुब्ध संवहन
turbine disc		टरवाइन-मंडलक	turbulent diffusion		प्रक्षुब्ध विसरण
<i>Turbinella pyrum</i>	Zool.	टविनेला पाइरम	turbulent distribution		प्रक्षुब्ध वंटन
turbine oil		टरवाइन तेल	turbulent exchange coefficient		प्रक्षुब्ध-विनिमय-गुणांक
turbiniiform	Geol.	टवीरूप	turbulent field		प्रक्षुब्ध क्षेत्र
Turbinolia	Bot.	टवीनोलिया	turbulent flow		प्रक्षुब्ध प्रवाह
<i>Turbinolia humilis</i>	Bot.	टवीनोलिया ह्यूमीलिस	turbulent fluctuation		प्रक्षुब्ध उच्चावचन
Turbo	Zool.,Geol.	टवी	turbulent heat transfer		प्रक्षुब्ध ऊष्मा स्थानांतरण
turbo-drilling		टवी-वेधन	turbulent intensity		प्रक्षुब्ध तीव्रता
Turbofan	Chem. (Pet.)	टवीफैन	turbulent layer		प्रक्षुब्ध स्तर
Turbogenerator	Chem.Geog. (Met.)	टवीजनित्र	turbulent mixing process		प्रक्षुब्ध मिश्रण प्रक्रम
turbogrid plate	Chem. (Pet.)	टवीग्रिड प्लेट	turbulent motion		प्रक्षुब्ध गति
turbo hearth		टवी चुल्ली	turbulent movement		प्रक्षुब्ध गति
turbojet	Math.,Phy., Chem.	टवीजेट	turbulent river		प्रक्षुब्ध नदी
turbojet aircraft		टवीजेट वायुयान	turbulent shear flow		प्रक्षुब्ध अक्षरूपी प्रवाह
<i>Turbo marmoratus</i>		टवी मारमोरेटस	turbulent shearing stress		प्रक्षुब्ध अक्षरूपक प्रतिबल
turbo process	H.Sc.	टवी प्रक्रम	turbulent stress		प्रक्षुब्ध प्रतिबल
turboprop	Chem.,Phy.	टवीप्रॉप	turbulent supersonic flow		प्रक्षुब्ध पराध्वनिक प्रवाह
turbopump	Phy.	टवीपंप	turbulent transfer		प्रक्षुब्ध स्थानांतरण
turboramjet	Phy.	टवीरैम जेट, टवीनिपीड प्रघार	turbulent velocity		प्रक्षुब्ध वेग
turbo-rocket	Phy.	टवीरॉकेट	turbulent velocity field		प्रक्षुब्ध वेग क्षेत्र
turbot	Geog.	टर्वट	turbulent velocity fluctuation		प्रक्षुब्ध वेग उच्चावचन
turboviscometer	Phy.	टवीस्मानतामापी	turbulent wind		प्रक्षुब्ध पवन
turbo yarn		टवी यार्न, टवी सूत्र	Turdidae	Zool.	टर्डिडी
turbulence	Math.,Phy.	प्रक्षोभ	tureen	H.Sc.	ट्यूरिन
turbulence broadening		प्रक्षोभ वृद्धन	turf	Bot.,Geog. Geol.	दर्भस्थल, टर्फ पीट, टर्फ
turbulence intensity		प्रक्षोभ-तीव्रता	turfary	Geol.	पीट खान, टर्फ खान
turbulence theory		प्रक्षोभ सिद्धांत			

turf charcoal		पीट चारकोल, टर्फ चारकोल	turning effort		वर्तन आयास
turgescence	Bot	स्फीति	turning effort curve		वर्तन आयास वक्र
turgid	Bot.	स्फीत	turning moment		वर्तन आघूर्ण
turgidity		स्फीति	turning point		वर्तन बिन्दु
turgite	Geol.	टर्जाइट	turning rough		रुस वर्तन, रुस खराद
turgor	Bot.	स्फीति	turning value	Math.	चरम मान
turgor deficit		स्फीति न्यूनता	turnings	Chem.	खरादन
turgor pressure		स्फीति दाब	turnip	Bot.	शलजम
Turi	Geog	तूरी (जनजाति)	turnip crinkle		शलजम कुचन
turion	Bot.	ट्यूरियन	turnip flea beetle		शलजम पिपु भृग
Turkestan type glacier	Geol.	तुकिस्तान प्ररूप हिमानी	Turnix suscitator	Zool.	टनिक्स ससोटेटर (युलु गुन्दा)
Turkestan wool	H Sc.	तुकिस्तान ऊन	Turnix tanki		टनिक्स टैकी
turkey (bird)	Geog., Zool.	टर्की, पोच (पक्षी)	turn off	Chem. (Pet.)	बंद करना, पिघालन
Turkey gauze	H.Sc.	टर्की गाज	turn of tide	Geol.	ज्वार परिवर्त
Turkey mohair		टर्की मोहैर	turn on	Chem	खोलना, आरभन
Turkey red	Chem.	टर्की रेड, टर्की रक्त	turnover	Phy.	उलटना
Turkey red oil		टर्की रेड ऑयल	turn picture control	Phy.	चित्र धूर्णन नियन्त्रण
Turkish paste	H Sc.	टर्किय पेस्ट	turnpike	Geog.	1 टर्नपाइक 2 शूल्क द्वार
Turkish rug		टर्की रग	turnpike road		टर्नपाइक सड़क
turkish towel	H.Sc.	रोयेंदार तौलिया	turn ratio	Phy.	फेरा अनुपात
turlough	Geog.	तुल्लाघ, पोघर	turnstile antenna	Phy	चक्रद्वार ऐन्टेना
turmeric	Chem, Bot, H.Sc.	हल्दी, हरिद्रा	turn table	Chem., Phy.	घूर्णी मंच, घूर्णिका
turmeric paper		हरिद्रापत्र, हल्दी कागज	turpentine	Chem., Geog., H.Sc.	तारपीन
turmeric paper test		हरिद्रापत्र निक्च	turpentine fiber	H Sc.	टर्पेन्टाइन तन्तु
turmeric test		हरिद्रोय परीक्षण	turpentine oil		तारपीन तेल
turn around point	Phy.	प्रतिवर्तन बिन्दु	turpentineing		तारपीनन, तारपीन- संघर्षण
turn around time		प्रतिवर्तन काल	turpeth mineral	Chem.	टर्पिथ खनिज
Turnbull's blue	Chem.	टर्नबुल नील, टर्नबुल ब्लू	tur pod caterpillar (plume moth)	Zool.	तूर शिम्ब इस्की (पिच्छक शलजम)
turner	H.Sc.	पलटा	turquoise		फ़ीरोजा
Turner's syndrome		टर्नर सलक्षण	turreted		कन्दौरी
Turner's yellow		टर्नर-पीत	turret graves	Geog.	टरेट ग्रेवर
Turnicidae	Zool.	टर्नीसिडी	Turrillites	Bot.	टरोमार्डीज
turn indicator	Phy.	फेरा सूचक	Turrillites costatus		टरोआइटीज कार्टेडस
turnlog	Chem., Math	खरादना, वर्तन			
turning blade		वर्ती फलक			

turriliticone	Geol.	टरीलाइटोशंकु	twig blight		दहनी अंगमारी, दहनी धीर्णता
Turris	Bot.	टरिस	twig nest	Zool.	शाख-नीह
Turris babylonia		टरिस वेवीलोनिया	twilight	Geog.	सांध्य प्रकाश, द्वाभा
Turris undata		टरिस अन्डेटा	twilight arch		द्वाभा चाप, सांध्य प्रकाश चाप
Turritella	Bot.	टरीटेला	twilight zone	Math.	संघि क्षेत्र
Turritella communis		टरीटेला कॉम्युनिस	twill	H.Sc., Chem.	रेखिका, ट्वील
Turritella imbricataria		टरीटेला इम्ब्रीकैटेरिया	twilled flannel		ट्वीलित मखमल
turritelliform	Geol.	टूरीटेलारूप	twilliness		रेखिकीयता, ट्वीलीयता
turron	H.Sc.	टरॉन	twill shawl		ट्वील शॉल
turtle	Zool.	कूर्म	twill weave	H.Sc.	ट्वील बयन
turtur (bird)	Zool.	टर्टर	twin	Geol., Geog., Biol.	यमल यमज
turtle stone	Geol.	कच्छप प्रस्तर, कछुआ पत्थर	twin aerial		यमल ऐन्टेना
Tuscan	Geog., H.Sc.	तस्कन	twin antenna		यमल ऐन्टेना
Tuscan red	Chem.	टस्कन रक्त, टस्कन रेड (Paint.)	twin boundary		यमल सीमा
tusk	Zool.	रद	twin crater		यमल क्रेटर
tusker		रदी	twin crystal		यमल-क्रिस्टल
tusk shell		रद-कवची	twin element		यमल तत्व
tusku	Chem.	टुस्कू	twiner		वल्लरी
tussock	Bot., Geog.	टसक, गुच्छ	twin gliding		यमल विक्षपण
tussock grass		गुच्छघास	twin lamella		यमल-पटलिका
tussore (= tussar)	H.Sc.	टसर	twin law		यमल नियम
tussore silk		टसर रेशम	twin line		यमल लाइन
tutelar deity	Geog.	अभिभावक देवता	twinned		यमलित
tutia	Chem.	टूटिया	twinned aggregate		यमलित समुच्चय
tutti-frutti	H.Sc.	टूटी-फूटी	twinned lattice		यमलित जालक
Tutwiler method	Chem.	टुटवाइलर पद्धति	twinning	Geol., Phy.	यमलन
Tutwiler gas burette		टुटवाइलर गैस ब्यूरेट	twinning axis		यमलन-अक्ष
tuyere	Geol.	गुहिका, ट्वीयर	twinning plane		यमलन-तल
Twaddle scale	Chem.	ट्वाडल मापक्रम	twin operation		यमल संक्रिया
tweed	H.Sc.	ट्वीड	twinplane		यमल तल
tweed rug		ट्वीड रग	twin star	Phy.	दुग्म तारा
tweel (twele)	Chem.(Gl.)	ट्वारिल	twin town	Geog.	जुड़वां नगर
tweeter	Phy.	ट्वीटर	twin tube		यमल नलिका
tweezer	Geol.	चिमटी	twin volcano	Geol.	दुग्म ज्वालामुखी
twig	Bot.	दहनी	twirler	Zool.	द्रुतघूर्णी

twist	<i>Phy Math</i>	1. ट्विस्ट, मरोड़, व्यावर्तन, वेष्टन 2. ट्विस्ट	two dimensional continuous distribution		द्विविम सतत वटन
twistane	<i>Chem</i>	ट्विस्टेन	two dimensional extension		द्विविम विस्तार
twist bread		व्यावर्त रोदो	two dimensional filter		द्विविम निस्यन्दक, द्विविम फिल्टर
twisted blade		व्यावर्तित फलक	two dimensional flow		द्विविम प्रवाह
twisted cubic		व्यावर्तित त्रिघाती	two dimensional gradient		द्विविम प्रवणता
twisted curve		व्यावर्तित वक्र, अममतली वक्र	two dimensional graph		द्विविम ग्राफ, द्विविम आलेख
twisted stalk		व्यावर्तित दंड	two dimensional method		द्विविम विधि
twist effect		समावर्त प्रभाव	two dimensional pattern		द्विविम पैटर्न
twister	<i>Geog Math</i>	ट्विस्टर, घूर्णमेघ स्तम्भ व्यावर्तित	two dimensional relationship		द्विविम संबंध
twisting moment		व्यावर्तन-आघूर्ण	two dimensional representation		द्विविमीय प्रतिरूपण
twisting movement		व्यावर्ती दोलन	two dimensional vector		द्विविम सदिश
twisting vibration		व्यावर्त कपन	two electron configuration	<i>Chem.</i>	द्वि-इलेक्ट्रॉनी विन्यास
twist yarn		वेष्टन सूत्र	two-element aerial	<i>Phy.</i>	द्विययी ऐन्टेना
Twitchcell process	<i>Chem.</i>	ट्विचेल प्रक्रम	two factor interaction (= simple interaction)	<i>Math.</i>	सरल अन्योन्यक्रिया
Twitchell reagent		ट्विचेल अभिवर्धक	two factor theory	<i>Math.</i>	द्वि-उपादातीय सिद्धान्त
twitching	<i>Zool</i>	स्फुरण	two-finger Morra	<i>Math</i>	द्वि-अंगुलि मोरा
twitch muscle	<i>Chem</i>	'स्फुर' पेशी	two fold classification	<i>Math</i>	द्विवर्गीकरण
two-bath union dyeing	<i>Chem. (Text)</i>	द्वि-अवगाह सयुक्त रजन	two fold axis	<i>Phy.</i>	द्विगुण अक्ष
two-body collision	<i>Phy.</i>	द्वि-पिंड संघट्ट	two fold system	<i>Geog.</i>	दुहरी प्रणाली
two body forces		द्विपिंडी बल	two-group model	<i>Phy</i>	द्वि-समूह मॉडल
two body problems		द्वि-पिंडी समस्याए	two-headed rib	<i>Zool</i>	द्विशीर्ष पशुका
two-body process		द्विपिंड प्रक्रम	two headed snake	<i>Zool.</i>	द्विशीर्षास सर्प
two-body recombination		द्विपिंड पुनर्योजन	two high (rolling) mill	<i>Chem (Met)</i>	द्वि उच्च मिल
two cavity klystron	<i>Phy.</i>	द्विकोटर क्लाइस्ट्रॉन	two hop ray transmission	<i>Phy</i>	द्विपदी किरण संचरण
two centre chain	<i>Chem</i>	द्विकेन्द्र शृंखला	two-horned rhinoceros	<i>Zool</i>	द्विशृंगी गैंडा
two centre problem		द्विकेन्द्र-समस्या			
two centre system		द्विकेन्द्र तंत्र			
two chamber nozzle	<i>Zool.</i>	द्विकक्षीय नुड			
two channel oscillograph	<i>Phy.</i>	द्विचैनली दोलनलेखी			
two component system	<i>Geol ,Phy.</i>	द्विघटक प्रणाली, द्विघटक तंत्र			
two cycle valley	<i>Geog ,Geol</i>	द्विचक्र घाटी			
two dimensional	<i>Math</i>	द्विविम			

two jointed	<i>Zool.</i>	द्विसन्धित	two sided x-test		द्वि-पुच्छी x-परीक्षण
two layer method	<i>Geog.</i>	द्विस्तर विधि	two slug turner	<i>Phy.</i>	द्विस्लाग समस्वरक
two parameter family	<i>Math.</i>	द्विप्राचल परिवार	two stage amplification	<i>Phy.</i>	द्विपदी प्रवर्धन
two part casting mold	<i>Chem.</i>	द्विबंशी संच	two stage least squares	<i>Math.</i>	द्विचरण न्यूनतम वर्ग
two person game	<i>Math.</i>	द्विव्यक्तीय खेल	two stage least squares estimate		द्विचरण न्यूनतम वर्ग आकल
two phase alternator	<i>Phy.</i>	द्विकल प्रत्यावर्तित	two state device		द्विचरणी युक्ति
two phase convection	<i>Geol.</i>	द्विप्रावस्था संवहन	two stage process		द्विचरण प्रक्रम
two phase current		द्विकल धारा	two stage sampling		द्विचरण प्रतिचयन
two phase equilibrium		द्विप्रावस्था साम्य	two storey valley	<i>Geog.</i>	द्विस्तरीय घाटी
two phase method	<i>Math.</i>	द्विचरण विधि	two stream hypothesis	<i>Math.</i>	द्विधारा-परिकल्पना
two phase region		द्विप्रावस्था क्षेत्र	two stroke engine	<i>Phy.</i>	दो स्ट्रोकी इंजन
two phase sampling		द्वि-प्रावस्था प्रतिचयन	two sweep cusp	<i>Geog.</i>	द्विप्रसर्पी उभयाग्र
two phase system	<i>Phy.</i>	द्विकल तंत्र	two swing cusp	<i>Geog.</i>	द्वि-दोली उभयाग्र
two ply yarn	<i>H.Sc.</i>	दो तार सूत्र	two tailed test	<i>Math.</i>	द्विपुच्छ परीक्षण
two point boundary condition	<i>Math.</i>	द्विविन्दु परिसीमा प्रतिबंध	two track recorder	<i>Phy.</i>	द्विपथ अभिलेखी
two point homogeneous space		द्विविन्दु समांग समष्टि	two valued	<i>Phy.</i>	द्विमानित
two point perspective		द्विविन्दु संदर्श	two valued logic	<i>Math.</i>	द्विमानि तर्क
two point problem		द्विविन्दु समस्या	two way classification	<i>Math.</i>	द्विधा वर्गीकरण
two point property		द्विविन्दु गुणधर्म	two way communication	<i>Phy.</i>	पारस्परिक संचार
two pole machine	<i>Phy.</i>	द्विध्रुवी यंत्र	two way control chart		द्विधा नियंत्रण संचित
two pronged point	<i>Geog.</i>	द्वि-शूल अग्र	two way kitchen	<i>H.Sc.</i>	द्विपंक्तिक रसोईघर
two set property	<i>Math.</i>	द्विसमुच्चय गुणधर्म	two way stop cock		द्वि-पथ रोधनी
two shelled complex	<i>Chem.</i>	द्वि-कोश संकुल	two way switch	<i>Phy.</i>	द्विपथ स्विच
two sided algebra	<i>Math.</i>	द्विपक्षीय बीजावली	two way table		द्विधा सारणी
two sided alternative	<i>Math.</i>	द्वि-पुच्छी विकल्प	two-winged fly	<i>Zool.</i>	द्विपंख मक्षी
two sided F-test		द्वि-पुच्छी F-परीक्षण	two wire aerial	<i>Phy.</i>	द्वितार ऐन्टेना
two sided ideal	<i>Math.</i>	द्विपक्षीय गुणजावली	two wire system		द्वितार प्रणाली
two sided invariant metric	<i>Math.</i>	द्विपक्षीय निश्चर दूरीक	twyn	<i>Geog.</i>	ट्वान
two sided normal test		द्वि-पुच्छी प्रसामान्य परीक्षण	Tychonoff plank	<i>Math.</i>	तिखनोव पटल
two sided procedure		द्वि-पुच्छी प्रक्रिया	Tychonoff space		तिखनोव समष्टि
two sided specification	<i>Math.</i>	द्विमुखी विनिर्देश	Tychonoff theorem		तिखनोव प्रमेय
two sided uniformity	<i>Math.</i>	द्विपक्षीय परिवेशक	tychopelagic	<i>Zool.</i>	अनुवैलापवर्ती
two sided variable plan		द्विपुच्छी चर आयोजना			

tychoplankton	Bot.	सयोजीप्लवक	tympenic ring		कर्णपटह-बलय
tyddyn (= ty'n)	Geog.	टाइडिन, लघुफार्म	tympeniform	Bot	पटह्रूपी
tylaster	Zool.	समुद्रतारक, टाइलैस्टर	tympano-Eustachian fossa	Zool	कर्णपटह-यूस्टेकियो खात
tylenchoid		टाइलेंकमवन्	tympano-Eustachian passage		कर्णपटह-यूस्टेकियो मार्ग
<i>Tylenchus scandens</i>	Zool.	टाइलेंकस स्कैन्डेन्स	tympanohyal	Zool	कर्णपटह कठिना
Tyler rolled top backing screen	Geol.	टाइलर रोल्लित शिखर अवलम्बी छन्ना	tympano-hyoid fossa	Zool	पटह कठिना खात
tylhexactine	Zool	मुडषडर	tympanium	Zool.	कर्णपटह
tyloclad	Zool.	टाइलोक्लैड, मुडार	Tyndall beam	Phy.	टिन्डल किरणपूज
tylodelphys	Zool	टाइलोडेल्फिस	Tyndall cone		टिन्डल शकु
<i>Tylophora humalaica</i>	Bot	टाइलोफोरा हिमालइका	Tyndall effect		टिन्डल प्रभाव
<i>Tylophoron moderatum</i>	Bot	टाइलोफोरोन मोडरेटम	Tyndallimetry		टिन्डलमिति
<i>Tylophilus felleus</i>	Bot.	टाइलोफाइलस फेलियस	tyndallometer		टिन्डलमापी
Tylopoda	Zool.	टाइलोपोडा	Tyndall scattering		टिन्डल प्रकीर्णन
tylose	Bot.	टाइलोस	type		1. टाइप, मुद्रलेखन 2. प्ररूप (=ideal representative) 3. प्रकार (=kind of)
tyloses (tylosis)	Bot.	टाइलोसिस	type-casting machine		टाइप कास्टिंग मशीन
tylosoid	Bot	टाइलोसोम	type form	Biol	प्ररूप जीव
tylostyle	Bot	टाइलोस्टाइल, एकमुड कटिका	type fount		टाइप बखर, टाइप फाँट
tylostylote	Zool	टाइलोस्टाइलोट, मुडस्तम्भिका	type ink		टाइप स्याही
tylote	Zool.	उभयमुड, टाइलोट	type liquid		प्ररूप द्रव
Tylototriton	Zool.	टाइलोटोट्राइटन	type locality		प्ररूप स्थान
tylotoxea	Zool	टाइलोटोक्सिया, मुडलीक्षणिका	type metal		मुद्रण धातु, टाइप धातु
tylus	Zool.	टाइलस, गुल्मक	type method		प्ररूप विधि
tymbal muscle	Zool.	मर्दल पेशी	type number		1. प्ररूप सख्या 2. प्रकार सख्या
tympanal chamber	Zool.	ध्वनिपटह कक्ष	type of farming		कृषि प्रकार
tympanal muscle		ध्वनिपटह पेशी	type printer		टाइप मुद्रक, मुद्र लेखक
tympanal organ		ध्वनिपटहोर्ग	typer	Geog.	टाइपर, मुद्र लेखक
tympanic	Zool.	कर्णपटहो	type reaction		प्ररूप धर्मिकिया
tympanic bone		कर्णपटहोस्तिय	type region		प्ररूप-क्षेत्र
tympanic cavity		कर्णपटह-गुहा	typer's guide		टाइप निर्देशिका, टाइप गाइड
tympanic chamber		कर्णपटहो कक्ष	type slide		प्ररूप स्लाइड
tympanic membrane		कर्णपटह झिल्ली	type species		प्ररूप-जाति
tympanic recess		कर्णपटह विदर	type specimen		प्ररूप निदर्श



type structure		प्ररूपी संरचना	typified	Geol.	प्ररूपित
type table		टाइप सारणी	typifying		प्ररूपकरण
typewriter control tape	Math.	टाइपराइटर नियंत्रण फीता	typ. incl. (typo incluso)	Bot.	प्ररूप सहित
typ. excl. (typo excluso)	Bot.	प्ररूप रहित	typing	Geog.	टाइप करना, मुद्रलेखन
<i>Typha angustata</i>	Bot.	टाइफ़ा अंगुस्टेटा	typological		प्ररूपविज्ञानीय
<i>Typha angustifolia</i>		टाइफ़ा अंगुस्टिफ़ोलिया	typologist	Zool.	प्ररूपविज्ञानी
Typhaceae	Bot.	टाइफ़ेसी	typology	Geog.	1. प्ररूप विज्ञान 2. प्ररूपता
<i>Typha elephantina</i>		टाइफ़ा एलीफ़ेन्टीना	typomorphic	Geol.	प्ररूपाकृतिक
<i>Typha latifolia</i>		टाइफ़ा लैटीफ़ोलिया	typomorphic mineral		प्ररूपाकृतिक खनिज
Typhales		टाइफ़ेलीज	typonym	Zool.	प्ररूपनाम
Typhis	Bot.	टाइफ़िस	Typhotheria	Zool.	टाइपोथीरिया
<i>Typhis pungens</i>		टाइफ़िस पंजेन्स	typus	Bot.	प्ररूप
Typhlonectes	Zool.	टिफ़्लोनेक्टोज़	Tyrainan purple		टायरी नील-लोहित, टायरी पर्पल
Typhloperiapatus		टिफ़्लोपेरिपेटस	tyramine	Chem.	टाइरैमिन
typhlosolar region	Zool.	आंत्रबलन क्षेत्र	Tyranni	Zool.	टिरैनी
typhlosolar vessel		आंत्रबलन वाहिका	Tyrannidae		टिरैनिडी
typhlosole	Zool.,H.Sc.	आंत्रबलन	Tyrer process	Chem.	टाइरर प्रक्रम
typhonic rock	Geol.	टाइफ़ोनी शैल	tyrocidin	Chem.	टाइरोसाइडिन
<i>Typhonium trilobatum</i>	Bot.	टाइफ़ोनियम ट्राइलोवेटम	tyrock screen	Geol.	टाइरॉक छन्ना
typhoon	Geog.	टाइफ़ून	tyrod screen	Geol.	टाइरॉड छन्ना
typhus fever	H.Sc.,Zool.	टाइफ़स ज्वर	tyrosinase	Chem.	टाइरोसिनेस
typical	Biol., Math.	प्रारूपिक, प्ररूपी, प्रतिरूपी	tyrosine	H.Sc., Chem.,Zool.	टाइरोसिन
typical average		प्रतिरूपी माध्य	tyrosinosis	Chem. Zool.	टाइरोसिनोसिस टाइरोसिनता
typical element		प्ररूपी तत्व	tyrosol		टाइरोसॉल
typical form		प्रारूपिक रूप	tyrothrycin	Chem.	टाइरोथाइसिन
typical plain tribe	Geog.	विशिष्ट मैदानी जनजाति	Tyrrhenian	Geog.	टिरीनिअन
typical star		प्रतिरूपी तारा	Tyrrhenian transition region		टिरीनियाई संक्रमण प्रदेश
typical star system		प्रतिरूपी तारा निकाय	<i>Tyto alba</i>	Zool.	टाइटो एल्वा (करेल)
typical value		प्रतिरूपी मान	Tytonidae	Zool.	टाइटोनिडी
typical vertebra	Zool.	प्ररूपी कशेरुक	tywyn (=towyn)	Geog.	टाइविन
typification	Zool.	प्ररूपण, प्ररूपीकरण	tzuica	H.Sc.	तुइका

## U

uacima	<i>H.Sc.</i>	यूजासिमा	<i>Ulloa's circle or ring</i>	<i>Geog.</i>	ऊल्लोआस चक्र या वलय (कुहरा घट्ट)
Ubac	<i>Geog.</i>	यूबैक, उत्तराभिमुखी ढाल	ulrich separator	<i>Geol.</i>	उलरिख पृथक्कर
ubehebe	<i>Geol., Geog.</i>	यूबेहेबे	Ulmaceae		अल्मेसी
ubichromenol	<i>Chem.</i>	यूबिक््रोमेनॉल	Ulmann reaction	<i>Chem.</i>	उलमान अभिक्रिया
ubiquinone	<i>Chem.</i>	यूबिक्विनोन	ulmic	<i>Geol.</i>	अल्मिक
ubiquitous		सार्वत्रिक, बहुव्यापी	ulmohumic	<i>Geol.</i>	अल्मोह्यूमिक
ubiquitous element		सार्वत्रिक तत्व	Ulmoldee		अल्माइडी
Ubisch's system	<i>Zool.</i>	यूबिष-नत्र	Ulmus *	<i>Bot.</i>	अल्मस
Uca	<i>Zool.</i>	यूका	ulna	<i>Zool., H.Sc.</i>	अत प्रकोष्ठिका, अल्ना
udder	<i>Zool.</i>	यन, ऊधस्	ulnar artery		अत-प्रकोष्ठिक धमनी
uddrussa	<i>H.Sc.</i>	अद्रुसा	ulnare	<i>Zool.</i>	अत-मणिबधिना, अल्नेयरी
udell	<i>Chem.</i>	यूडेल	ulnar nerve		अत-प्रकोष्ठिक तन्त्रिका
Udax process	<i>Chem.</i>	यूडेक्स प्रकय	ulodendroid scar	<i>Bot.</i>	यूलोडेन्ड्रोनीय चिह्न
Udotea flabellum	<i>Bot.</i>	यूडोशिया फ्लेबेलम	U-loop	<i>Phy.</i>	U-पाश
ufra disease	<i>Bot.</i>	उफरा रोग	U-loop seal	<i>Chem.</i>	यू लूप सील, यू पाश समुद्रा
U-frame (plumbing fork)	<i>Geog.</i>	साहूल काटा	Ulothrix	<i>Bot.</i>	यूलोथ्रिक्स
U-function (odd function)	<i>Phy., Chem.</i>	U-फलन, विषम फलन	Ulothrix zonata		यूलोथ्रिक्स जोनेटा
Uintacrinus	<i>Geol.</i>	यूइन्टेक्रिनस	Ulotrichaceae	<i>Bot.</i>	यूलोट्रिचैसी
uintalite	<i>Geol.</i>	यूइन्टालिट	Ulotrichales	<i>Bot.</i>	यूलोट्रिचैलीज
uinta structure	<i>Geog.</i>	यूइन्टा संरचना	ulotrichan	<i>Geog.</i>	ऊर्णकेशी
Uintatherium	<i>Zool.</i>	यूइन्टाथेरियम	ulotrichous	<i>Zool.</i>	1 ऊर्णरीम 2 ऊर्णाभिकेशी
utlander	<i>Geog.</i>	विदेशी व्यक्ति	ulotrichous population		ऊर्णाभिकेशी जनसंख्या
Ulam measure	<i>Math.</i>	उनाम-माप	ulster	<i>H.Sc.</i>	अल्मटर
ulang	<i>H.Sc.</i>	यूलाग	ultimate		अंतिम, अंतिम, परम
Ulbricht's sphere	<i>Phy.</i>	उल्ब्रिख्ट गोला	ultimate analysis	<i>Chem.</i>	अन्त्यात्मक विश्लेषण, अंतिम विश्लेषण
ulcer	<i>Geog., H.Sc., Zool.</i>	अल्सर, अण	ultimate class		अंतिम वर्ग
ulcerated		अणित	ultimate class frequencies		अंतिम वर्ग-बारवारता
ulceration		अणोमयन	ultimate cluster		अंतिम गुच्छ
ulceroid aperture		अणाम छिद्र	ultimate constituents		अंतिम अवयव
ulexite	<i>Geol.</i>	यूलेक्सिट	ultimate disaggregation		अंतिम विघटन
aligiaosus	<i>Bot.</i>	अलिगोसस			
ullage	<i>Phy.</i>	नोदक रिक्ति			
ullmannite	<i>Chem.</i>	अल्मनाइट			

ultimate equilibrium value		चरम संतुलन मान	ultrafine powder		परामूक्ष्म चूर्ण
ultimate factor of safety		चरम सुरक्षा गुणक	ultrafining	<i>Chem.(Pet.)</i>	परा-परिष्करण
ultimate intersection		चरम प्रतिच्छेद	ultraforming	<i>Chem.(Pet.)</i>	परासंभावन
ultimate load		चरम उद्भार	ultra-gaseous	<i>Chem.</i>	परागैसीय
ultimate operational capability		चरम प्रचालन-क्षमता	ultra-gravity wave	<i>Geog.</i>	अतिगुरुत्व तरंग
ultimate pressure (=ultimate vacuum)		चरम निर्वात	ultra high frequency	<i>Phy.</i>	परा उच्च आवृत्ति
ultimate ray		चरम किरण	ultra high pressure cloud chamber	<i>Phy.</i>	अत्युच्च दाब अन्नकोष्ठ
ultimate strength		चरम सामर्थ्य	ultra high temperature		अत्युच्च ताप
ultimate stress		चरम प्रतिबल	ultrahyperbolic	<i>Math.</i>	पराअतिपरबलयिक
ultimate tensile strength		चरम तनन सामर्थ्य	ultralight alloy	<i>Chem.</i>	अतिलघु मिश्रधातु
ultimate truth		परम सत्य	ultramafic	<i>Geol.</i>	अतिमैफिक
ultimate unit	<i>Math.</i>	मूल मात्रक	ultramafic magma		अतिमैफिक मैग्मा
ultimate value		अंतिम मान	ultramarine	<i>Geol.</i>	(adj.) समुद्रपार (n.) अल्ट्रामरीन
ultimobranchial	<i>Zool.</i>	क्लोमांत्य	ultramarine ash		अल्ट्रामरीन धूस्र, अल्ट्रामरीन राख
ultimobranchial cell		क्लोमांत्य कोशिका	ultramarine blue		अल्ट्रामरीन ब्लू, अल्ट्रामरीन नील (रंग)
ultra-accelerator	<i>Chem.</i>	अति त्वरक	ultramarine green		अल्ट्रामरीन हरा, अल्ट्रामरीन ग्रीन (रंग)
ultra-atomic	<i>Chem.</i>	परापरमाण्विक	ultramarine red		अल्ट्रामरीन रेड, अल्ट्रामरीन रक्त
ultrabasic	<i>Geol.</i>	अत्यल्पसिलिक	ultramarine violet		अल्ट्रामरीन वायलेट, अल्ट्रामरीन जाम्ब्र
ultrabasic rock		अत्यल्पसिलिक शैल	ultramarine yellow		अल्ट्रामरीन यलो, अल्ट्रामरीन पीला (रंग)
ultrabasilite	<i>Chem. (Met.)</i>	अल्ट्राबेसाइट	ultra-metamorphism	<i>Geol.</i>	अतिक्रियांतरण
ultracentrifugation	<i>Zool., Bot.</i>	द्रुत अपकेन्द्रण	ultramicro	<i>Chem.</i>	अतिसूक्ष्म
ultra-centrifuge	<i>Bot.</i>	द्रुत अपकेन्द्रित	ultramicro analysis		अतिसूक्ष्म विश्लेषण
ultracondenser	<i>Chem.</i>	अतिसंप्राही, अल्ट्राकंडेन्सर	ultramicrobe	<i>Zool.</i>	अत्यणुजीव
ultrafast neutron	<i>Phy.</i>	पराद्रुत-न्यूट्रॉन	ultramicroburette	<i>Chem.</i>	अतिसूक्ष्ममापी ब्युरेट
ultrafilter	<i>Math.</i>	1. परानित्स्यंदक 2. सूक्ष्मछिन्नी नित्स्यंदक, अतिसूक्ष्मनित्स्यंदक	ultra-microchemistry	<i>Chem.</i>	अतिसूक्ष्म रसायन
ultrafiltrate	<i>Chem.</i>	अति नित्स्यंद, अति फिल्टरित	ultramicroton	<i>Chem., Geog.</i>	अतिमाइक्रॉन, अल्ट्रामाइक्रॉन
ultra-filtration	<i>Chem.</i>	अतिसूक्ष्म छाना, अतिसूक्ष्म फिल्टर करना, अतिसूक्ष्म नित्स्यंदन	ultra-microscope	<i>Phy.</i>	अति सूक्ष्मदर्शी
ultrafiltration theory		परानित्स्यंदन सिद्धान्त	ultra-microscopic		अतिसूक्ष्मदर्शी, अतिसूक्ष्मदर्शी
ultrafine		परामूक्ष्म			

ultramicroscopic visibility		अतिमूक्ष्मदर्शीय दृश्यता	ultratextures	Bot	अतिमूक्ष्मगठन, परामूक्ष्मगठन
ultramicroscopy		अतिमूक्ष्मदर्शी विज्ञान, अतिमूक्ष्मदर्शिकी, अल्ट्रामाइक्रोस्कोपी	ultrathin	Bot, Zool	अतिसूक्ष्म
ultra-microtome	Bot	अल्ट्रामाइक्रोटोम	ultra-violet	Phy.	परा-बैंगनी
ultramicro wave	Phy.	परामूक्ष्म तरंग	ultraviolet absorber		पराबैंगनी अवशोषक, पराबैंगनी अवचूषक
ultra-montane	Geol.	पर्वतपार	ultraviolet absorption		पराबैंगनी अवशोषण
ultramylonite	Geol	अतिमाइलोनाइट	ultraviolet absorption spectrum		पराबैंगनी अवशोषण स्pektrum
ultraphosphate	Chem.	अतिकॉस्फेट, अल्ट्राकॉस्फेट	ultraviolet irradiation		पराबैंगनी किरणन
ultraplankton	Zool	पराम्लवक	ultraviolet lamp		पराबैंगनी दीप, पराबैंगनी लैम्प
ultrapure water	Chem.	अति शुद्ध जल	ultraviolet light		पराबैंगनी प्रकाश
ultra-relativistic particle	Math.,Phy.	परा-आपेक्षिकीय कण	ultra-violet microscope		पराबैंगनी सूक्ष्मदर्शी
ultra-relativistic range		परा-आपेक्षिकीय परास	ultraviolet mirror		पराबैंगनी दर्पण
ultra-relativistic velocity		परा-आपेक्षिकीय वेग	ultraviolet radiation		पराबैंगनी विकिरण
ultra-short wave	Phy	अतिलघु तरंग	ultra-violet ray		पराबैंगनी किरण
ultra-sima	Geol.	अति-सिमा	ultraviolet resistance		पराबैंगनी प्रतिरोध
ultrasonic	Phy.,Math	पराश्रव्य	ultra-violet sterilization		पराबैंगनी जीवाणुनाशन
ultrasonic absorption		पराश्रव्य अवशोषण	ultraviolet therapy		पराबैंगनी चिकित्सा
ultrasonic analyser		पराश्रव्य विश्लेषक	ultravirus	Biol, Chem.	पराविषाणु, परावाइरस
ultrasonication	Zool	पराश्रवण	ultrawhite region	Phy	पराश्वेत क्षेत्र
ultrasonic delay line		पराश्रव्य विलंब लाइन	ultra-zodiacal planet		राशिकक्ष-बाह्य ग्रह
ultrasonic disintegration method		पराश्रव्य विघटन रीति	ulukh	H.Sc.	उलुख
ultrasonic frequency		पराश्रव्य आवृत्ति	ulu tao	H Sc.	अलू ताओ
ultrasonic interferometer		पराश्रव्य व्यतिकरणमापी	Ultra	Bot, H Sc.	अल्वा
ultrasonics	Phy.	पराश्रव्यिकी, पराश्रव्य द्वानिकी	Ulvaceae		अल्वेसी
ultrasonic wave		पराश्रव्य तरंग	Uva lactuca		अल्वा लेक्ट्यूका
ultrasonography	Chem.	पराश्रव्य लेखन	Uva latissima		अल्वा लेटिसिमा
ultrasonoscope		पराश्रव्यदर्शी	ulwan	H Sc	अल्वान
ultraspherical	Math.	परागोलीय	umbel	Bot.	पुष्पछत्र
ultra strahlung	Phy.	परावायुमहलीय विकिरण	umbella	Zool	छद्राक
ultrastructure	Chem., Zool.	परासंरचना, परासंघना	umbellate		पुष्पछत्री
			umbellatus		पुष्पछत्र युक्त
			umbellet		पुष्पछत्रक
			Umbelliferae	Bot	अम्बेलीफेरी
			umbelliferone	Chem	अम्बेलिकेरोन

umbelliferous fruit	Bot.	अम्बेलीफेरीय फल	umbra	Phy.	1. प्रच्छाया 2. अदीप्ति केन्द्र (of sunspot)
Umbelliflorae	Bot.	अम्बेलीफ्लोरी		H.Sc.	3. अम्ब्रा
umbelliflorus	Bot.	पुष्पछत्री	umbraculiferous	Bot.	छत्रधर
umbelliform	Bot.	छत्राकार	umbraculiform		छातरूप
umbellule	Bot.	अल्प पुष्पछत्रक	umbraculum	Bot.	अम्ब्रेकुलन
umbelluliferous	Bot.	पुष्पछत्रकी	umbral index	Math.	मूक सूचकांक
umber	Geol.	अंबर	(= dummy index)		
umbilic		1. शून्य वृत्तक 2. नाभि	unbraticolous	Bot.	छायावासी
umbilical artery	Zool.	नाभि धमनी	umbrella	Zool., Geog.	छत्र
umbilical canal		नाभि नाल		Bot.	प्रच्छत्र
umbilical cord		नाभि रज्जु		H.Sc.	छाता
umbilical duct		नाभि वाहिनी	umbrella antenna		छत्र ऐन्टेना
umbilical geodesic	Math.	शून्य वृत्तक-अल्पांतरि	umbrella cell		छत्र कोशिका
umbilical infilling		नाभि संभृति	umbrella fabric		छाता-दस्त्र
umbilical region		नाभि प्रदेश	umbrella gingham		छाता गिगन
umbilical ruling	Math.	शून्यवृत्तकीय रेखांकन	umbrinus	Bot.	अम्ब्रवरणी
umbilical secretion		नाभि स्राव	umbrosus	Bot.	प्रच्छाया स्थलीय
umbilical shoulders		नाभि-स्तरु	umklapp process	Phy.	उमक्लाप प्रक्रम
umbilical side		नाभि पार्श्व	umland		परिनगर
umbilical structure		नाभीय संरचना	umpire assay	Geol.	निर्णायक आमानन, अम्पायर आमानन
umbilical vein		नाभि जिरा	umpire sampler		अम्पायर प्रतिदर्शित्र
umbilical vesicle		नाभि बाल्य	unaccelerated uniform motion	Math.	अत्वरित एकसमान गति
umbilicate		नाभिकावान	unacceptable character	Phy.	अमान्य संग्रहितक
umbilicated	Geol.	नाभिवृत्त	unacceptable product	Math.	अस्वीकार्य उत्पाद
umbilicate pileus		उनाभि छत्र	unaccounted gas	Chem. (Pet.)	अगणित गैस
umbilicus	Bot. Zool.	नाभिका नाभि (anatomy); पिच्छच्छिद्र (feather)	unadjusted	Math.	असमाधोषित
Umbilicariaceae	Bot.	अम्बाइलीकेरिएसी	unadministered area	Geog.	अप्रशासित क्षेत्र
umbo	Zool.	प्रकूट, अम्बो	unadsorbed phage		अनधिभोषित फाज
umbonal	Geol.	ककुदी	unaggregated virus	Bot.	असंगठित वाइरस, असंगठित विषाणु
umbonate	Bot.	ककुद युक्त	unaka	Geog.	सुनैका
umbonate pileus		ककुदी छत्र	unambiguous	Geog.	स्पष्ट, असंदिग्ध
Umbonium vestiarium	Zool.	अम्बोनियम वेस्टिएरियम	unambiguous synthesis		असंदिग्ध संश्लेषण

unannealed	<i>Phy.</i>	अन-अनीलित	unburnt gas	<i>Chem, Phy</i>	अदग््न गैस
unary system	<i>Chem</i>	एक अंगी प्रणाली	unbypassed	<i>Phy.</i>	अन-उपपारित
unassociated	<i>Chem.</i>	असंगुणित, अनएसोसिएटिड	uncalcified	<i>Zool.</i>	अचूर्णीभूत
unattackable electrode	<i>Chem</i>	अनाक्रम्य इलेक्ट्रोड	uncapped gravel	<i>Geol.</i>	अनावृत बंबरी
unattainability	<i>Phy.</i>	अनुपगम्यता	uncate	<i>Zool., Bot</i>	सातुश
unattended operation	<i>Phy.</i>	उपस्थिति निरपेक्ष प्रचालन	uncemented	<i>Geol.</i>	असंयोजित
unavailable energy	<i>Phy.</i>	अनुपलभ्य ऊर्जा	uncertain figure	<i>Chem.</i>	अनिश्चित अंक
unbalance	<i>Chem.</i>	असंतुलन	uncertainty	<i>Math.</i>	अनिश्चितता
unbalanced design	<i>Phy.</i>	असंतुलित अभिकल्पना	uncertainty principle		अनिश्चितता-निष्ठात
unbalanced force		असंतुलित बल	uncertainty relation		अनिश्चितता-संबन्ध
unbalanced gyroscope		असंतुलित घूर्णमाप्यापी	uncharged	<i>Chem.</i>	अनावेशित
unbalanced line		असंतुलित लाइन	uncharged chelate		अनावेशित कीलेट, अचार्जित कीलेट
unbalanced output		असंतुलित निर्गम	uncharted spectrum	<i>Phy.</i>	अविश्लेषित स्पेक्ट्रम
unbalanced rotor		असंतुलित रोटार	uncircus	<i>Zool.</i>	अकुमिनी
unbedded limestone	<i>Geog.</i>	असस्तरित चूनापत्थर	uniform	<i>Bot.</i>	अकुशाकार, अकुशरूप
unbiased error	<i>Math.</i>	अनभिन्न त्रुटि	uncigerous	<i>Zool.</i>	अकुशघर
unbiased estimate		अनभिन्न आकल	uncin	<i>Geol.</i>	अन्चिन
unbiased estimate of population variance	<i>Math.</i>	समष्टि प्रसरण का अनभिन्न आकल	uncinate	<i>Bot, Zool.</i>	अनुसी
unbiased linear estimate		अनाभिन्न रैखिक आकल	uncinate mastax		अनुसी संवेपणी
unbiased point estimate		अनभिन्न बिन्दु आकल	uncinate process		अनुसी प्रवर्ध
unbiased test		अनभिन्न त्रुटि	uncinula	<i>Bot</i>	अन्चिनुना
unblanking	<i>Phy.</i>	अलोपन	uncinus	<i>Zool.</i>	अनाकुश
unblanking pulse		अलोपी स्पन्द	uncleared forest	<i>Geog</i>	वृक्षमय वन
unbleached	<i>H.Sc.</i>	अविरजित	unclosed shell (of electron)	<i>Phy.</i>	अपूर्ण कोय
unbleached linen		अविरजित वस्त्र, कोरा कपड़ा, अविरजित तिर्नन	uncoloured crystal	<i>Phy.</i>	रंगहीन क्रिस्टल
unbleached muslin	<i>H.Sc.</i>	अविरजित मलमल	uncoloured edition	<i>Geog.</i>	अवर्णी संस्करण
unbounded region	<i>Math.</i>	अपरिवद्ध प्रदेश	unconformable	<i>Geol.</i>	विषमकिनमस्त
unbounded set		अपरिवद्ध समुच्चय	uncompahgrite	<i>Geol.</i>	अनकॉम्पेग्राइट
unbounded solution		अपरिवद्ध हल	uncomplexed	<i>Chem.</i>	असंतुलित
unbreakable	<i>H.Sc.</i>	अभङ्गनीय, अभाङ्गनीय	unconditional basis	<i>Math.</i>	अप्रतिबन्ध आधार
unbridged	<i>Phy.</i>	सेतु अमबद्ध	unconditional conver- gence (= absolute convergence)	<i>Math.</i>	निरपेक्ष अभिसरण
unbridged crossing	<i>Geog.</i>	पुनरहित पारण	unconditional stability		अप्रतिबन्ध स्थायित्व
unbuffered solution	<i>Chem.</i>	अनुपप्रतिरोधित विलयन, अवफरित विलयन	unconditional probability		अप्रतिबन्ध प्रायिकता

unconditioned stimulus	<i>Zool.</i>	अननुबंधित उद्दीपन	undation	<i>Geol., Geog.</i>	ऊर्ध्वतरंगण
unconformability	<i>Geol.</i>	विषमविन्यासिता	undation theory		ऊर्ध्वतरंगण सिद्धान्त
unconformable contacts		विषमविन्यासी संस्पर्श	undatus	<i>Bot.</i>	तरंगी
unconformity	<i>Geol.</i>	विषमविन्यास	undecane		अन्डेकेन
unconsolidated	<i>Geol., Geog.</i>	असंपिंडित	undecanoate	<i>Chem.</i>	अनडेकानोएट
unconsolidated volcanic ash		असंपिंडित ज्वालामुखी राख	undecanoic acid	<i>Chem.</i>	अनडेकानोईक अम्ल
unconstrained relative maximum	<i>Math.</i>	अप्रतिबंधित आपेक्षिक अधिकतम	undecanoic polyester		अनडेकानोईक बहुएस्टर
unconsumed surface	<i>Geog.</i>	अनपरदित पृष्ठ	undecanol	<i>Chem.</i>	अनडेकानॉल
uncontaminated	<i>Chem.</i>	असंदूषित	undecyl alcohol	<i>Chem.</i>	अनडेसिल ऐल्कोहॉल
uncontrolled constant	<i>Math.</i>	अनियंत्रित अचर	undecylate	<i>Chem.</i>	अनडेसिलेट
uncontrolled variable		अनियंत्रित चर	undecylenic acid	<i>Chem.</i>	अनडेसिलनिक अम्ल, अनडेसिलनिक ऐसिड
unconvoluted	<i>Zool.</i>	असंवलित	undecylic acid	<i>Chem.</i>	अन्डेसिलिक अम्ल
uncork	<i>H.Sc.</i>	कार्क खोलना, कार्क हटाना	undecylic alcohol		अन्डेसिलिक ऐल्कोहॉल
uncorrected age	<i>Geol.</i>	असंशोधित आयु	undemarcated	<i>Geog.</i>	असीमांकित
uncorrelated facts	<i>Phy.</i>	असहसंबद्ध तथ्य	under blowing	<i>Phy.</i>	अल्प धमन
uncountable	<i>Math.</i>	अगणनीय	underbridge	<i>Bot.</i>	अधोसेतु
uncountable ordinal		अगणनीय क्रमसूचक	under bunching	<i>Phy.</i>	अवगुच्छन
uncountable subset		अगणनीय उपसमुच्चय	underbush	<i>Geog.</i>	अधः क्षुप
uncoupling	<i>Chem., Phy.</i>	वियुग्मन	under car aerial (= under car antenna)	<i>Phy.</i>	कार तल एन्टेना
uncoupling term		वियुग्मन पद	underclay	<i>Geol.</i>	अधःस्थ मृत्तिका
uncovered region	<i>Phy.</i>	अनावृत्त प्रदेश	undercliff	<i>Geog.</i>	अधोभृगु
uncropped coil	<i>Chem. (Met.)</i>	अकर्तित कुण्डली	undercliff ground		अधोभृगु भूमि
unctuous	<i>Bot.</i>	स्नेहमय	undercoat	<i>Chem. (Paint)</i>	अवलेप
unctuousness	<i>Chem.</i>	स्निग्धता, चिकनापन	undercooling	<i>Chem., Phy.</i>	अवशीतलन
uncultivated waste		अकृष्ट बंजर	undercorrected	<i>Phy.</i>	न्यूनसंशोधित, न्यून शोधित
uncurtailed range	<i>Math.</i>	अह्रासित परिसर	under coupling	<i>Phy.</i>	अवयुग्मन
uncus	<i>Zool.</i>	अंकन, अंकुण	undercropping	<i>Geog.</i>	अधः सस्योत्पादन
uncut pile weave	<i>H.Sc.</i>	अकर्तित उत्तूत वयन	undercure	<i>Chem. (Plast.)</i>	अवसाधन
uncut velvet		अकर्तित मखमल	under current relay	<i>Phy.</i>	अवधारा रिले
undamped	<i>Phy., Geog.</i>	अनवमंदित	undercut	<i>Geol., Geog. Chem.</i>	1. अधोरदन 2. अवकृत 3. अधःकर्तन
undamped pendulum		अवमंदित लोलक	undercut bank		अधोरदित किनारा, अधोरदित तट
undamped wave		अनवमंदित तरंग			
undathem	<i>Geol.</i>	अन्डाथेम			

undercut quarry		अध कतित खदान	underground geology		अतर्भौम भूविज्ञान
undercut slope		अधोरदित ढाल	underground lake		भूमिगत झील
under cutting method		अध कतित पद्धति	underground launcher		अतर्भौम उन्मोचक
under-damped	<i>Phy. Geog.</i>	न्यून अवमन्दित	underground main		भूमिगत मुख्य तार
under-damping		न्यून अवमदन	underground reservoir		भूमिगत जलाशय
underdetermined system	<i>Math.</i>	अवनिश्चित निकाय	underground room		भूमिगत कक्षा
under-developed land	<i>Geog.</i>	अल्पविकसित भूमि	underground solution		भूमिगत घोल
under draft	<i>Chem. (Met.)</i>	अधोवक्रण	underground spring		अतर्भौम झरना, भूमिगत झरना
under drainage	<i>Geog.</i>	अधः अपवाह	underground storage		भूमिगत भण्डार
underdriven mill	<i>Chem.</i>	अधोचालित वेपणी, अधोचालित मिल	underground stream		अतर्भौम जलधारा, भूमिगत सरिता
underemphasize	<i>H.Sc.</i>	अल्पबलन	underground tunnel		भूमिगत सुरंग
underenumeration	<i>Math</i>	अध. सङ्ख्यान	underground water		भूमिगत जल, भौमजल
under estimation (of energy)	<i>Phy.</i>	अवमाकलन, अल्पानुमान	underground water supply		भूमिगत जल-पूर्ति
under expanded nozzle	<i>Phy.</i>	अध प्रसरित नाडल	underground wealth		भूमिगत संपत्ति
under expansion	<i>Phy.</i>	अवप्रसार	underground working		भूमिगत खान
underfill	<i>Chem (Met.)</i>	अवभरण	undergrowth	<i>Geog, Bot</i>	1 अववृद्धि 2 झाड भिजाड
underfit stream		अनुपपन्न नदी	underhand stoping	<i>Geol</i>	अध खनन
underflow	<i>Geol., Phy., Geog.</i>	अध प्रवाह	underhand weld	<i>Chem. (Met.)</i>	तिर्यक् संधान
underflushing	<i>Chem. (Met.)</i>	अवधावन	underhole	<i>Geol.</i>	अध खनिष्ठ
under-glaze colours	<i>Chem.</i>	अध. काच रंग	underhue	<i>Chem. (Ink)</i>	अवछटा
under glazed	<i>Chem.</i>	न्यूनकाचित	underlancet plate	<i>Zool</i>	अवकृतक पट्ट
under granulation	<i>Chem. (Fert.)</i>	न्यूनकणन	underlay	<i>Geol.</i>	नविपूरक
undergrazing	<i>Bot.</i>	अवचारण	underlay shaft	<i>Geol.</i>	निम्नस्य रूपक
underground	<i>Geol. Geog.</i>	भूमिगत, अतर्भौम	under leaf	<i>Bot.</i>	अभ्यक्ष पर्ण
underground burst		अतर्भौम प्रस्फोट	underlying	<i>Geol.</i>	अधस्थ, अध शायी
underground cauldron		अतर्भौम लावाकुंड	undermass	<i>Geol.</i>	अधस्थ ढाल
underground subsidence		अधोगमन	undermine	<i>Geol.</i>	तलोच्छेदन
underground cavity		भूमिगत गुहिका	undermining pitting		तलोच्छेदी गर्जन
underground channel		अतर्भौम प्रणाल	under modulation	<i>Phy.</i>	अतर्भौमूलन
underground conduit		भूमिगत नाली	under-nourished	<i>Geog.</i>	न्यूनपोषित
underground drainage		भूमिगत अपवाह	undernutrition	<i>H.Sc., Geog.</i>	अल्पपोषणहार



underpoled	<i>Chem.</i> ( <i>Met.</i> )	अवदंडित	undirected	<i>Chem.</i>	अदिष्ट
under population	<i>Geog., Zool.</i>	अवजनसंख्या, अल्पसमष्टि	undisplaced line	<i>Phy.</i>	अविस्थापित रेखा
underproof spirit	<i>Chem.</i>	अवप्रमाणक स्फिरिट	undissected flatland	<i>Geog.</i>	अविच्छेदित सपाटभूमि
underpunch	<i>Phy.</i>	निम्न छिद्र	undissociated		अवियोजित
under relaxation	<i>Math.</i>	अव विश्रांति	undistorted damped propagation	<i>Math.</i>	अविकृत अवमंदित संचरण
undersaturated rock	<i>Geol.</i>	अवसंतृप्त शैल	undistorted progressive waves		अविकृत प्रगामी तरंग
undersecretion	<i>H.Sc.</i>	अल्पस्रावण	undistorted wave		अविकृत तरंग
under shoot	<i>Phy.</i>	अवक्रमण	undisturbed free surface	<i>Math.</i>	अविक्षुब्ध मुक्त पृष्ठ
undershrub	<i>Bot.</i>	उपक्षुप	undisturbed state		अविक्षुब्ध अवस्था
undersize	<i>Chem.</i>	अवआमाप, अवसाइज	undograph	<i>Phy.</i>	उन्डोग्राफ
understanding scale	<i>Geog.</i>	सम्यकदोध-मापक	undrained area		अनपवाह क्षेत्र
understocked	<i>Zool.</i>	अल्पसंग्रहीत	undue error	<i>Geog.</i>	अनुचित अशुद्धि
under stocking		अपूर्ण संग्रहण	undulant fever	<i>Chem.</i> ( <i>Food.</i> )	ऊर्मिल ज्वर
understress	<i>Math.</i>	अधः प्रतिबल	undulate	<i>Geol., Geog.</i>	तरंगित होना
undersurface	<i>Geol.</i>	अधः पृष्ठ	undulated		तरंगित
under tail-covert	<i>Zool.</i>	अधः पुच्छावरक	unduloted (un)	<i>Zool.</i>	तरंगित (तर)
under thread	<i>H.Sc.</i>	नीचे का धागा, फिरकी का धागा	undulating		तरंगित
under thrust	<i>Geol.</i>	अधःक्षेप	undulating country		तरंगित प्रदेश
under thrusting		अधःक्षेपण	undulating flight		तरंगित उड़डयन
undertone	<i>Chem.</i> ( <i>Inks</i> )	अवछवि	undulating land		तरंगित भूमि
undertow	<i>Geol.</i>	अधःप्रवाह	undulating membrane		तरंगित कला, तरंगित शिल्ली
under-water acoustics	<i>Phy.</i>	अंतर्जलीय ध्वानिकी	undulating plain		तरंगित मैदान
under water antenna	<i>Phy.</i>	निमज्जित ऐन्टेना	undulating slope		तरंगित ढाल
underwater burst		अंतर्जलीय प्रस्फोट	undulation	<i>Phy., Geol., Zool.</i>	तरंगण
under-water sound projector	<i>Phy.</i>	अंतर्जलीय ध्वनिप्रक्षेपक	undulatory		तरंगी
underveight	<i>H.Sc.</i>	अल्पभार	undulatory current		तरंगित धारा, ऊर्मिल धारा
under wing-covert	<i>Zool.</i>	अधः पक्षावरक	undulatory curve		तरंगित वक्र, ऊर्मिल वक्र
underwood	<i>Geog.</i>	अधोवन	undulatory extinction		तरंगी विलोप
undetermined	<i>Math.</i>	अनिर्धारित	undulatory fluctuation		तरंगी उन्चावचन
undetermined coefficient		अनिर्धारित गुणांक	undulatory motion		तरंगित गति
undetectable	<i>Chem.</i>	अनभिज्ञेय	undulatory movement		तरंगित गति
undeveloped land	<i>Geog.</i>	अविकसित प्रदेश	undulatory theory		तरंग-सिद्धांत
undeviated ray	<i>Phy.</i>	अविवलित किरण			
Undina	<i>Zool.</i>	अंडिना			

undulipod	Zool	तरंगपाद	unglazed		अकांचित
undulipodia	Bot.	ऊर्मिलपाद	ungradable goods		अकोट्य वस्तु
unduliseptate	Bot.	तरंगपटीय	ungraded		अकोटीकृत
unearthed wire	Phy	अभूषणकृत तार	ungraded valley profile	Geol	अभूमिक घाटी परिच्छेदिका
uneconomic competition	Geog.	अलाभप्रद प्रतियोगिता	ungraduated	Chem.	अशात्रनहीन
unequal	Math.	असमान	ungrided	Geog	ग्रिडरहित
unequal cleavage		असमान विदलन	ungrounded	Phy	भू-अभूषणकृत
unequal gill		असमान अरपट्ट, असमान गिल	ungrouped	Math	अवर्गीकृत
unessential discontinuity	Math	अननिवार्य असातत्य	ungrouped data		अवर्गीकृत न्याय
uneven		असम, विषम	unguent	Chem	मरहम
unevenly scattered		असम विन्नीर्ण	unguicular	Bot	नखर युक्त
unevenness	Geog.	वियमता, असमता	Unguiculata	Zool.	अगुरकुलेटा
uneven settlement		असम वस्ती	unguiculate	Zool.	नखरयुक्त
uneven twill weave		असम द्वील बचन	unguifer	Zool	नखधर
uneven yarn effect		विषम तंतु प्रभाव	unguiform	Bot	नखरपी
unexcited state	Chem.	अनुत्तेजित अवस्था	unguiform	Zool.	शफरूप
unexposed	Phy.	अनुच्छादित, अनावरित	unguis	Zool	नखर
unextended set	Math.	अविस्तरित समुच्चय	unguitractor	Zool.	नखरानुचक्र देशी
unfasted vector	Bot.	कृताशन रोगवाहक	unguitractor plate		नखरानुचक्र पट्ट
unfavourable topography	Geog	प्रतिकूल स्थलाकृति	ungula	Zool., Bot.	नखरक
unfermentable product	Chem. (Sugar.)	अक्रिष्वनीय उत्पादन	Ungulata	Zool.	गुलेटा
unfermented wine	H.Sc.	अक्रिष्वित मदिरा	ungulate	Bot, Zool.	नखरित, खुरदार
unfilled	Chem	अपूरित	unguligrade	Zool.	खुरवापी
unfilled level		अपूरित तल, रिक्त स्थानी तल	unguligrade gait		खुरवापी गति
unfinished wood	H Sc.	अपरिष्कृत काष्ठ	unhairing	Chem.	विरोमण
unfinished worsted	H Sc.	अपरिष्कृत वर्स्टेड	unhairing bath		विरोमण कुंड
unfossiliferous	Geol.	जीवाश्महीन	unharmonic ratio (= cross ratio)	Math.	वयानुपात
unfree water	Geog.	अयुक्त जल	unhusked grain	Geog.	अकुट्टित अनाज
ungential subsoll	Geog.	अनुबंर अवनुदा	unhybridized	Chem.	विभक्तित
ungerade (= odd)	Chem, Phy.	अनगैराड, विषम	unhydrated	Chem.	अननित, अजनयोजित
ungerade function (= U-function, odd function)		अनगैराड फलन, विषम फलन	unhydrated virus		अजनयोजित वाहरम, अजनयोजित विषाणु
			unhydrogenated	H.Sc.	अहाइड्रोजनीकृत
			unhydrolysed salt	Chem	अनअपघटित लवण, अवनानित लवण
			unlannulate	Zool	एकवलय
			uniascal perithecium	Bot	एकपैस्कली पेरियोथियम

uniaxial	<i>Math., Geol.</i>	एकाक्ष, एकवक्षीय
uniaxial crystal		एकाक्ष क्रिस्टल
uniaxial tension		एकाक्ष तनाव
unibranchiate	<i>Zool.</i>	एकवलोभी
unicarinate	<i>Bot.</i>	एकनौतली
unicarpellate	<i>Bot.</i>	एकांडपी
micell	<i>Bot., H.Sc.</i>	एककोशी
unicellular	<i>Biol.</i>	एककोशिक
unicellular animal		एककोशिक प्राणी
unicellular gland		एककोशिक ग्रंथि
unicellularity	<i>Zool.</i>	एककोशिकता
unicellular organism		एककोशिक जीव
unicellular plant		एककोशिक पौधा
uniciliate	<i>Zool.</i>	एकपङ्माभी
uniclinal	<i>Geol., Geog.</i>	एकनतिक
uniclinal shifting		एकनतिक विस्थापन
unicline	<i>Geol.</i>	एकनत
unicomponent	<i>Math.</i>	एकघटकी
unicorn	<i>Geog., Zool.</i>	एकशृंगी, एकशृंगक
unicostate	<i>Zool.</i>	एकशिरीय
unicotyledonous	<i>Bot.</i>	एकबीजपत्री
unicursal curve	<i>Math.</i>	परिमेय वक्र
unicuspid	<i>Zool.</i>	एकदंताग्री
unidactyl	<i>Zool.</i>	एकांगुलि
unidentate bonding	<i>Chem.</i>	एकदन्तुर आवन्धन
unidimensional	<i>Chem.</i>	एकविमी
unidirectional	<i>Math., Phy.</i>	एकदिशीय, एकदिग्, एकदिशिक
unidirectional aerial (=unidirectional antenna)		एकदिश ऐन्टेना
unidirectional coupler		एकदिशिक युग्मक
unidirectional couplet antenna		एकदिशिक युग्म ऐन्टेना
unidirectional mechanism		एकदिश क्रियाविधि
unidirectional strain		एकदिश विकृति

unifacial leaf	<i>Bot.</i>	एकपृष्ठी पर्ण
unifarious	<i>Bot.</i>	एकपंक्तिक
unified ceramics	<i>Chem.</i>	एकीकृत मृदभाण्ड
unified field theory		एकीकृत क्षेत्र सिद्धान्त
unified model		एकीकृत मॉडल
unified political system		एकीकृत राजनीतिक तंत्र
unifilar suspension	<i>Phy.</i>	एकतंतु निलंबन
unifining	<i>Chem.(Pet.)</i>	यूनीफाइनिंग
uniflagellate	<i>Zool.</i>	एककशाभी
uniflagellate species		एककशाभी जाति
uniflorous	<i>Bot.</i>	एक पुष्पी
unifoliar bud	<i>Bot.</i>	एकपर्णी कलिका
unifoliate		एकपर्णी
unifoliolate		एकपर्णकी
unifollicular testis	<i>Zool.</i>	एकपुटकी वृषण
uniform	<i>Math., Phy.</i>	एकसमान
uniform acceleration		एकसमान त्वरण, अचर त्वरण
uniformalization	<i>Math.</i>	एकरूपीकरण
uniform approach	<i>Math.</i>	एकसमान उपगमन
uniform boundedness		एकसमान परिवद्धता
uniform circular motion		एकसमान वृत्तीय गति
uniform cloth	<i>H.Sc.</i>	यूनीफार्म कपड़ा, वर्दी कपड़ा
uniform compression		एकसमान संपीडन
uniform continuity		एकसमान सांतत्य
uniform convergence		एकसमान अभिसरण
uniform convergence almost everywhere		सर्वत्रप्राय एकसमान अभिसरण
uniform convexity		एकसमान अवमुखता
uniform cover		एकसमान आवरण
uniform covering system		एकसमान आवरण निकाय
uniform density		एकसमान घनत्व
uniform derivative		एकसमान अवकलज
uniform diffuser		एकसमान विसरक
uniform dilatation		एकसमान विस्फारण

uniform dimension		एकसमान विस्तार, एकसमान लम्बाई- चौड़ाई	uniformizing parameter	एकसमानकारी प्राचल
uniform distribution		एकसमान बंटन	uniform line	एकसमान लाइन
uniform distribution of velocity		एकसमान वेग-बंटन	uniformly best	एकसमान सुष्ठुतम
uniform divergence		एकसमान अपसरण	uniformly best constant risk estimator	एकसमान सुष्ठुतम स्थिर जोखिम जोकलक
uniform electric field		एकसमान वैद्युत क्षेत्र	uniformly best distance power test	एकसमान सुष्ठुतम दूरी शक्ति परीक्षण
uniform electrostatic field		एकसमान स्थिर वैद्युत क्षेत्र	uniformly better decision function	एकसमान सुष्ठुतर निर्णय फलन
uniform equicontinuity		एकसमान समसातत्य	uniformly continuous extension	एकसमान सतत विस्तार
uniform ergodic theorem		एकसमान अमूर्त्यप्रमेय	uniformly continuous on a subset A	उपसमुच्चय A पर एकसमानत सतत
uniform extinction		एकसमान विलोपन	uniformly convergent	एकसमान अभिसारी
uniform field	<i>Phy.</i>	समांगी क्षेत्र, एकसमान क्षेत्र	uniformly convex space	एकसमान अवमुख समष्टि
uniform field of force		एकसमान बल-क्षेत्र	uniformly equivalent	एकसमान तुल्य
uniform floras		एकसमान वनस्पतियाँ	uniformly invariant	एकसमान निरचर
uniform flow		एकसमान प्रवाह	uniformly locally compact	स्थानीयत एकसमानत सहृत
uniform Frechet differential		एकसमान फ्रेचे अवकल	uniform magnetic field	एकसमान चुंबकीय क्षेत्र
uniform gravitational field		एकसमान गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र	uniform magnetostatic field	एकसमान स्थिर चुंबकीय क्षेत्र
uniform hypersonic flow		एकसमान अतिध्वनिक प्रवाह	uniform model	एकसमान मॉडल
uniform illumination		एकसमान प्रदीप्ति	uniformly most powerful test	एकसमान शक्तिशाली परीक्षण
uniform isomorphism		एकसमान तुल्यकारित	uniform motion	एकसमान गति
uniformitarianism		एकरूपतावाद	uniform neighbourhood system	एकसमान प्रतिवेश निकाय
uniformity	<i>Math</i>	1 एकसमानता 2. (Topol) परिवेशक, परिवेशक-परिवार	uniform notation	एकसमान संकेतन
uniformity generated by P		P द्वारा जनित परिवेशक-परिवार	uniform oscillation	एकसमान दोलन
uniformity of response		अनुक्रिया एकसमानता	uniform plane sheet	1. एकसमान समतल पृष्ठ 2. समांग समतल पृष्ठ
uniformity of uniform convergence		एकसमान अनिसरण का परिवेशक-परिवार	uniform plane wave	एकसमान समतल तरंग
uniformity trial		एकसमानता परीक्षण	uniform pressure	एकसमान दाब
uniformization theorem		एकसमानोकरण प्रमेय	uniform probability distribution	एकसमान प्रादिकता बंटन
			uniform radial displacement	एकसमान त्रिज्य विस्थापन

uniform retardation		एकसमान मंदन, अचर मंदन	unilateral transducer		एकपार्श्विक ट्रांसड्यूसर
uniform rod		एकसमान-मोटी छड़	Unilever process	<i>Chem.</i>	यूनीलीवर प्रक्रम
uniform sampling fraction		एकसमान प्रतिचयनानुपात	unilingual	<i>Geog.</i>	एकभाषी
uniform scalar pressure		एकसमान अदिश दाब	unilocular	<i>Bot., Zool.</i>	एककोष्ठी, एककोष्ठी
uniform-scale map		एकसमान मानचित्र	unilocular shell		एककोष्ठी कवच
uniform slope		एकसमान ढाल	"unimatic" single pan balance	<i>Chem.</i>	"यूनिमैटिक" एक पैन तुला
uniform soil		एकसमान मृदा	unimodal	<i>Math.</i>	एकबहुलकी
uniform space		एकसमान समष्टि	unimodular	<i>Math.</i>	एकमापांकी
uniform speed		एकसमान चाल, अचर चाल	unimodular matrix		एकमापांकी आव्यूह
uniform stream		एकसमान धारा	unimodular number	<i>Phy.</i>	एकांक माह्युलस संख्या
uniform streaming		एकसमान प्रवाहन	unimodular property		एकमापांकी गुणधर्म
uniform tension		एकसमान तनाव	unimolecular	<i>Chem.</i>	एकाण्विक, एकाणुक
uniform topology		एकसमान संस्थिति	unimolecular conver- sion		एकाणुक परिणमन
uniform two-dimensional extension		एकसमान द्विविम विस्तार	unimolecular decomposition		एकाण्वीय अपघटन
uniform velocity		एकसमान वेग, अचर वेग	unimolecular film		एकाणुक फ़िल्म
uniform wash		एकसमान बारा	unimolecular nucleophilic displacement		एकाणुक नाभिक स्नेही विस्थापन, एकाणुक न्यूक्लियो फिलिक विस्थापन
unifunctional	<i>Geog.</i>	एक कार्यशील	unimolecular reaction		एकाणुक अभिक्रिया
unifying influence	<i>Geog.</i>	एकताकारी प्रभाव	uninational	<i>Geog.</i>	समराष्ट्रीय
unifying power		एकताकारी शक्ति	unincorporated area	<i>Geog.</i>	असम्मिलित क्षेत्र
unifying theory		एकताकारी सिद्धान्त	undurated	<i>Geol.</i>	अकठोरीमूत
unigeminal pore		एकश्रेणिक रंध्र	uninegative ion	<i>Chem.</i>	एक-ऋण आयन
unigemmius	<i>Bot.</i>	एक कलिकद	uninegative state		एक-ऋण अवस्था
unigeneric	<i>Bot.</i>	एकजीनसी, एकवंशी	uninervate	<i>Bot.</i>	एकशिरीय
unijugate	<i>Bot.</i>	एकयुगली	uninhabitable	<i>Geog.</i>	अनिवास्य
unijunction transistor	<i>Phy.</i>	एक संघि ट्रांजिस्टर	uninhabited state	<i>Geog.</i>	निर्जन राज्य
unilabiate	<i>Zool.</i>	एकलोष्ठी	uninodal	<i>Bot.</i>	एक-पर्वसंधिक
unilaminate	<i>Zool.</i>	एकस्तरिकीय		<i>Geog.</i>	एकपातीय
unilateral	<i>Math., Phy.</i>	एकपार्श्वी, एकपार्श्विक	uninomial	<i>Zool.</i>	एकपद
unilateral character- istic function		एकपार्श्विक अभिलक्षणिक फलन	uninomial system		एकपदी पद्धति
unilateral compression		एकपार्श्विक संपीड़न	uninuclear	<i>Geog.</i>	एककेन्द्रक
unilateral imposition	<i>Geog.</i>	एकपक्षीय आरोपण	uninucleate	<i>Zool.</i>	एककेन्द्रकी
unilateral ramifica- tion		एकपार्श्विक प्रशाखन	uninucleate mass		एककेन्द्रकी पिंड
			uninverted relief	<i>Geog.</i>	अविपर्यंस्थ उच्चावच

Unio	Zool.	यूनियो	unipole (= isotropic antenna = isotropic aerial)	Chem	एक ध्रुवी ऐन्टेना, समदैशिक ऐन्टेना
<i>Unio margaritifera</i>		यूनियो मारगेरिटिफेरा	unipositive	Chem	एक-धन
union	Chem, Math.	1. सघ 2. सम्मिलन 3. संयोग	unipositive ion		एक-धन आयन
union-administered territory		सघ प्रशासित प्रदेश, सघ प्रशासित क्षेत्र	unipotency	Zool	एकशक्तता
union carpet	H.Sc.	सयुक्त कार्पेट	unipotent		एकशक्तन
union dyeing	Chem., H.Sc.	संयोग रंजन	unique	Math	अद्वितीय, अनन्य, एकमात्र
union fabric		सयुक्त वस्त्र	unique decipherability		अद्वितीय कूटवाचनीयता
unionized	Chem	अनायनित	unique factorization domain		अद्वितीय गुणनखंडन प्रान्त
union linen		सयुक्त लिनन	unique factorization theorem		अद्वितीय गुणनखंडन प्रमेय
union of a family of subsets		उपसमुच्चयों के परिवार का सम्मिलन	unique isotone extension		अद्वितीय क्रमरक्षी विस्तार
union of sets		समुच्चयों का सम्मिलन	uniquely defined (= uniquely determined)	Math	अविकल्पित निर्धारित
union preserving map	Math.	सम्मिलन-रक्षी प्रतिचित्र	uniquely n-divisible		अद्वितीयत n-विभाज्य
union yarn		सयुक्त सूत	uniqueness	Math.	अद्वितीयता
uniovular twins		एकांडी यमज	uniqueness of the solution		हल की अद्वितीयता
uniparous	Bot. Zool.	एकशाखी एकप्रभू	uniqueness problem		अद्वितीयता-समस्या
uniparental	Zool.	एकजनकीय	uniqueness theorem		अद्वितीयता-प्रमेय
unipetalous	Bot.	एकदली	unique solution		अद्वितीय हल
uniphase process	Chem.	एक-प्रावस्था प्रक्रम	unique vector		अद्वितीय सदिश
unipleate	Bot.	एकछत्री	uniradiate	Zool.	एकारोय
uniplanar motion	Math.	समतलीय गति, एकतलीय गति	uniramous	Bot	एकशाखी
uniplanar node		समतलीय नोड	unirradiated cell	Chem. (Photo)	अकिरणित सेल
uniplanar vector		एकतलीय सदिश	unisegmental	Zool.	एकखंडीय
unipolar axon	Zool.	एकध्रुवी तंत्रिका	uniserate	Bot., Zool.	एकपत्रिक
unipolar cell		एकध्रुवी कोशिका	uniserial	Bot., Geol., Zool.	एकपत्रिक
unipolar field effect transistor		एकध्रुवी क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर	uniserial arm		एकपत्रिक भुजा
unipolar induction		एकध्रुवी प्रेरण	uniserial juvenarium		एकपत्रिक जुवैनेरियम
unipolar magnetic region		एकध्रुवी चुम्बकीय प्रदेश	unisexual	Zool	एकलिंगी
unipolar neuron		एकध्रुवी तंत्रिकोशिका	unisexualism		एकलिंगता
unipolar transistor (= fieldistor)		एकध्रुवी ट्रांजिस्टर, (= फील्डिस्टर)	un-isolable	Chem.	अपृथक्कारीय
			unisol process	Chem. (Pet)	यूनीसॉल प्रक्रम

unison		स्वरैक्य, स्वरमेल	unitary thermal process	<i>Chem.</i>	यूनिट ऊष्मीय प्रक्रम, एकाकी ऊष्मीय प्रक्रम
unispire	<i>Bot.</i>	एकल सर्पिल	unitary transformation		ऐकिक रूपान्तरण
unistrate	<i>Bot.</i>	एकस्तरित	unitary vectorial record		ऐकिक सदिश अभिलेख
unistratose	<i>Bot.</i>	एक स्तरी	unit assembly (=basis)	<i>Phy.</i>	आधारक
unit		(of measurement) मात्रक (in numeration) इकाई (as in amplifying unit) एकक (as electrical energy) यूनिट (as in unit velocity) एकांक (=single) एकल (=unitary) ऐकिक	unit ball		एकक गोलक
unit (of algebra)	<i>Math.</i>	(बीजावली का) तत्समक	unit bilinear form		एकक द्विरैखिक समघात
unit area impedance		एकांक-क्षेत्र प्रतिवाधा	unit cell		एकक सेल, एकक कोष्ठिका, मात्रक कोष्ठिका
unit area reactance		एकांक-क्षेत्र प्रतिघात	unit character		एकल लक्षण
unit area resistance		एकांक-क्षेत्र प्रतिरोध	unit circle		एकांक वृत्त
unitary	<i>Math.,Phy.</i>	ऐकिक	unit column		एकांक स्तम्भ
unitary element		ऐकिक अवयव	unit cost		इकाई लागत
unitary equivalence		ऐकिक तुल्यता	unit diagram		मात्रक आरेख
unitary group		ऐकिक समूह	unitegmic	<i>Bot.</i>	एक अध्यावरणी, एक टेगमनी
unitary matrix		ऐकिक आव्यूह	unitegminous		एक टेगमनी, एक अध्यावरणी
unitary method		ऐकिक विधि	unit element	<i>Math.</i>	तत्समक अवयव
unitary module		ऐकिक प्रतिरूपक	unit elongation		मात्रक दैर्घ्यवृद्धि
unitary name	<i>Bot.</i>	प्रथम पदनाम	uni-temper mill	<i>Chem.</i>	एक टेम्पर मिल, एक पायन मिल
unitary operator		ऐकिक संकारक	uniterm indexing	<i>Phy.</i>	एकपदी सूचीकरण
unitary overring		ऐकिक अधिवलय	unit flotation cell		एकक प्लवन कोशिका
unitary reduction		ऐकिक समानयन	unit form		एकांक रूप
unitary sampling	<i>Math.</i>	एक-कमी प्रतिचयन	unit function		एकक फलन
unitary space		ऐकिक समष्टि	unit function response (=transient response)	<i>Phy.</i>	क्षणिक अनुक्रिया
unitary strip chart records		ऐकिक पट्टी-चार्ट अभिलेख	unit graph		इकाई आरेख, यूनिट ग्राफ
unitary structure factor		ऐकिक संरचना गुणक	unit group		एकक वर्ग
unitary subring		ऐकिक उपवलय	unit ideal		एकक गुणजावली, एकक आईडियल
unitary theory (relativity)	<i>Phy.</i>	अद्वैत सिद्धान्त	unitization	<i>Phy.</i>	एकीकरण
			unit length		एकांक लम्बाई
			unit magnetic pole		एकांक चुंबकीय ध्रुव, मात्रक चुम्बकीय ध्रुव
			unit magnification		एकांक आवर्धन

unit mass		एकाक द्रव्यमान	unity turn ratio	<i>Phy.</i>	एक फेरो अनुपात
unit matrix		एकाक मैट्रिक्स, तत्समकारगे आव्यूह	uni-univalent	<i>Chem</i>	एक-एक-सयोजी
unit mesh		एकाक जलाशिश	uni-univalent electrolyte		एक-एक-सयोजी विद्युत् अपघटय, एक एक सयोजी विद्युद्वय
unit normal		एकाक अभिलम्ब	univalence		एक सयोजकता
unit normal variate	<i>Math.</i>	मानकीकृत प्रसामान्य विचर	univalent	<i>Chem.</i> <i>Zool</i>	एकसयोजी अयुग्म
(=standard normal variate)			univalent chromosome	<i>Zool</i>	अयुग्म गुणसूत्र
unit of activity		रेडियो ऐक्टिवता मात्रक	univalent function	<i>Math.</i>	एकमानी फलन
unit of refrigeration		प्रशीतन का मात्रक	univalent mapping		एकमानी प्रतिचित्रण
unit operation		एकाक प्रचालन, यूनिट प्रचालन	univalve	<i>Zool, Geol</i>	एकवपाटी
unit plane		एकाक समतल	univalve shell		एकवपाटी कवच
unit point	<i>Math.</i>	1. एकाक बिन्दु 2. सम बिन्दु	invariant system	<i>Math</i>	एकचर तंत्र
unit pressure gradient		एकाक दाब प्रवणता	univariate	<i>Math</i>	एकविचर
unit principal normal		एकाक मुख्य अभिलम्ब	univariate interpolation		एकविचर अंतर्वेशन
unit prism	<i>Phy., Geol</i>	एकाक प्रिस्म	univariate normal distribution		एकविचर प्रसामान्य बंटन
unit process		एकाक प्रक्रम, यूनिट प्रक्रम	univariate table		एकविचर सारणी
unit pulse	<i>Phy</i>	मानक स्पंद	univector polaro- graphic unit	<i>Chem.</i>	यूनिवेक्टर पोलैरोग्राफ एकाक, एक सदिश ध्रुवण सेधी एकाक
unit quaternian		एकाक चतुष्टयी	universal	<i>Math.</i>	सार्वत्रिक, सार्विक
unitrivalent salt		एक त्रिसयोजक लवण	universal agent	<i>H Sc.</i>	पूर्णअधिकारी एजेंट
unit sphere		एकाक गोलक	universal amplification curve	<i>Phy.</i>	सर्व प्रवर्धन वक्र
unit step function		एकाक पग फलन	universal bubble	<i>Geog.</i>	सार्वदेशीय बुलबुला
unit step voltage	<i>Phy.</i>	एकपदी वोल्टता	universal bundles	<i>Math.</i>	सार्वभूत
unit stress		एकाक प्रतिदल	universal constant		सार्वत्रिक नियतांक
unit tangent		एकाक स्पर्शी	universal coupling		सार्व मयुग्मन
unit tube of force		एकाक बल नलिका	universal coverlog space		सार्वत्रिक आवरणक क्षमष्टि space
unitumbrate ascus	<i>Bot.</i>	एक कंचुकी ऐस्कस	universal deluge		सार्विक जलप्रलय
unit vector		मानक सदिश	universal doctrine	<i>Geog.</i>	विश्वव्यापी सिद्धान्त
unit volume		एकाक आयतन	universal function		सार्वत्रिक फलन
unity	<i>Math.</i>	एक	universal gravitation		सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण
unity coupling	<i>Phy.</i>	पूर्ण युग्मन	universal indicator		सार्वत्रिक सूचक
unity element	<i>Math.</i>	तत्समक अवयव	universalism	<i>Geog.</i>	विश्ववाद
(=identity element =unit element)			universal joint	<i>Phy.</i>	सार्वदेशी घषि
unity group		तत्समक समूह			
unity operator		तत्समक सकारक			
(=identity operator)					
unity power factor		एकाक शक्ति गुणक			



universal logarithmic velocity profile		सार्वत्रिक लघुगुणकीय वेग परिच्छेदिका	unknown sigma plan		अज्ञात सिग्मा आयोजन
universal mapping property		सार्वत्रिक प्रतिचित्रण गुणधर्म	unlike	<i>Math.,Phy.</i>	1. विजातीय 2. विपरीत
universal motor	<i>Phy.</i>	उभयधारा मोटर, ए० सी० डी०सी० मोटर	unlike atom	<i>Phy.</i>	भिन्न परमाणु
universal net	<i>Math.</i>	समष्टीय जाल	unlike forces		विपरीत बल
universal origin		विश्ववीय उत्पत्ति, अपार्थिव उत्पत्ति	unlike nuclei		भिन्न नाभिक
universal output transformer		सार्वत्रिक निर्गम ट्रांसफार्मर	unlike parallel forces		विपरीत समांतर बल
universal polar stereographic grid		साविक ध्रुव द्विविम ग्रिड	unlike poles		विजातीय ध्रुव
universal resonance curve	<i>Phy.</i>	सार्व अनुनादी वक्र	unlike sign		विपरीत चिह्न
universal scale		साविक पैमाना	unlike terms		विजातीय पद
universal seismograph		सार्वत्रिक भूकम्पलेखी	unlimited	<i>Math.</i>	असीमित
universal set		समष्टीय समुच्चय	unlimited liability		असीमित देयता
universal shunt		सार्वत्रिक शंट	unlined	<i>Geog.</i>	कच्चा
universal space		साविक समष्टि	unloaded antenna	<i>Phy.</i>	अभारित ऐन्टेना, अलोडित ऐन्टेना
universal stage	<i>Geol.</i>	सर्वदेशी मंच	unloaded impedance		अलोडित प्रतिवाधा
universal suspension		सार्वनिलम्बन	unmagnetizable body	<i>Math.</i>	अचुंबकनीय वस्तु
universal time		सार्वत्रिक समय	unmanned balloon	<i>Phy.</i>	मानवहीन बैलून
universal transverse Mercator grid		साविक आड़ा मरकेटर ग्रिड	unmetalled road	<i>Geog.</i>	कच्ची सड़क
universal veil	<i>Bot.</i>	परिगुठिका	unmixed	<i>Math.</i>	अमिश्र
universal velocity distribution		सार्वत्रिक वेग वंटन	unmixed ideal		अमिश्र आइडियल, अमिश्र गुणजावली
universal velocity profile		सार्वत्रिक वेग परिच्छेदिका	unmixing		विमिश्रण
universe	<i>Math.</i>	1. विश्व 2. समष्टि	unmottled curley dwarf	<i>Bot.</i>	अकवुर कुंचनी वामन
universe dispersion		समष्टि विक्षेपण	unmould	<i>H.Sc.</i>	सांचे से निकालना
univibrator circuit	<i>Geol.</i>	एककंपी परिपथ	unmyelinated	<i>Zool.</i>	माइलिनहीन
univoltine	<i>Zool.,Bot.</i>	एकप्रज	unnecessary screening	<i>Math.</i>	अनावश्यक सन्निरीक्षण
unkilled steel	<i>Chem. (Met)</i>	बनाहत इस्पात	unneutralised spin	<i>Chem.</i>	अनुदासीकृत चक्रण, अनुदासित भ्रमण, अनुदासीकृत स्पिन
unknotted	<i>Math.</i>	अग्रथित	unnormalised distribution function	<i>Phy.</i>	अप्रसामान्यीकृत वितरण फलन
unknown	<i>Math.</i>	अज्ञात	unnormalised wave function		अप्रसामान्यीकृत तरंग फलन
unknown quantity		अज्ञात राशि	unnumbered	<i>Geog.</i>	संख्यांकनरहित
			unoccupied orbital	<i>Chem. (Photochem.)</i>	अनध्यासित कक्षा
			unoccupied orbits	<i>Phy.</i>	रिक्त कक्षा, अनअधिष्ठित कक्षा

unoccupied state		अनभ्यासित स्तर	<i>unregelmäßige Reihen Chem.</i> (= irregular series)	अनियमित श्रेणी	
unode		समतलीय नोड	<i>unregulated power supply</i>	अनियमित शक्ति प्रदायी	
unordered pair	<i>Math</i>	अक्रमित युग्म	<i>unreliable material</i>	<i>Geog</i>	अविश्वसनीय सामग्री
unordered sum		अक्रमित योग	<i>unreserved forest</i>	<i>Geog</i>	अनारक्षित वन
unorganized	<i>Math.</i>	असंगठित	<i>unresolved peak</i>	<i>Phy</i>	अवियोजित शिखर
unoriented	<i>Math</i>	अदिग्बलित	<i>unresponsive</i>	<i>Zool</i>	अननुक्रियाशील
unpack	<i>Phy</i>	विकुलन	<i>unrestricted burning rocket</i>	<i>Phy</i>	अप्रतिबन्धित ज्वलन रॉकेट
unpaired	<i>Phy, Biol</i>	अयुग्मित, अयुग्म, अयुग्मित	<i>unrestricted differentiability</i>		अप्रतिबन्धित अवकलनीयता
unpaired electrons		अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन	<i>unrestricted invariant set</i>		अप्रतिबन्धित निश्चर समुच्चय
unpaired fin		अयुग्म पंख	<i>unrestricted miscibility</i>	<i>Chem</i>	असीमित मिश्रणीयता
unpaired spin		अयुग्मित चक्रण, अयुग्मित स्पिन	<i>unrestricted propellant</i>		अप्रतिबन्धित प्रणोदक
unpalatable	<i>Zool</i>	अखाद्य	<i>unrestricted random sample</i>		अप्रतिबन्धित यादृच्छिक प्रतिदर्श
unparasitised	<i>Zool</i>	अपरजीवीकृत	<i>unrestricted solution</i>	<i>Math.</i>	अनियंत्रित हल
unparasitized erythrocyte		अपरजीवीकृत रक्तगण	<i>unrestricted variable</i>		अप्रतिबन्धित चर
unperturbed level	<i>Phy.</i>	अक्षुब्ध स्तर	<i>unripe bog</i>	<i>Geog</i>	अपरिपक्व दलदल
unperturbed motion		अक्षुब्ध गति	<i>unsal</i>	<i>H. Sc.</i>	अन्साई
unplanned town	<i>Geog</i>	अनियोजित नगर	<i>unsalted fat</i>	<i>H. Sc.</i>	लवण रहित वसा, लवण रहित चिकनाई
unpolarised electrode	<i>Chem.</i>	अध्रुवित इलेक्ट्रोड	<i>unsaponifiable</i>	<i>Chem</i>	असाबुनीकरणीय
unpollinated	<i>Bot</i>	अपरागित	<i>unsaponifiable matter</i>		असाबुननीय द्रव्य
unprimed quantity	<i>Math.</i>	अशिखी राशि	<i>unsatisfactory process average</i>	<i>Math.</i>	असन्तोषप्रद क्रियाविधि औसत
unprocessed data	<i>Phy.</i>	असमाधित डेटा	<i>unsaturated</i>	<i>Geol., Geog.</i>	असन्तृप्त
unprocessed film		असमाधित फिल्म	<i>unsaturated fatty acid</i>		असन्तृप्त वसा अम्ल
unproductive	<i>Geog.</i>	अनुत्पादी	<i>unsaturated soil</i>		असन्तृप्त मृदा
unproductive consumption		अनुत्पादी उपभोग	<i>unsaturation</i>	<i>Phy, Chem, Geol</i>	असन्तृप्ति
unproductive forest		अनुत्पादी वन	<i>unsaturation electron</i>		असन्तृप्ति इलेक्ट्रॉन
unproductive rock		अनुत्पादी शैल	<i>unsealed tube</i>	<i>Phy.</i>	असिलित नलिका
unprofitable	<i>H. Sc.</i>	अलाभकर	<i>unseasoned wood</i>	<i>H. Sc.</i>	असंगोषित बाण्ड
unprotected sol		अरक्षित विलय	<i>unsegmented animal</i>	<i>Zool.</i>	अघट प्राणी
unproved territory	<i>Geol.</i>	अपरीक्षण प्रदेश	<i>unsegmented worm</i>		अघट कृमि
unquantised	<i>Phy.</i>	अक्वांटिट	<i>unselective reagent</i>	<i>Chem.</i>	अचरणायक अक्षिबर्धक
unquantised state		अक्वांटित अवस्था			
unquantised transitional energy		अक्वांटित स्थानांतरणीय ऊर्जा			
unreactive	<i>Chem</i>	अनभिद्य			

unsettled	<i>Geog.</i>	1. अनिश्चित 2. अवासित	unsymmetrical	<i>Math.</i>	असममित
unsettled weather	<i>Geog., Bot.</i>	अस्थिर मौसम	unsymmetrical bending		असममित बंकन
unshared electron	<i>Chem.</i>	असहभाजित इलेक्ट्रॉन	unsymmetrical cleavage		असममित विदलन
unshielded	<i>Chem.</i> ( <i>Photo.</i> )	अप्रतिरक्षित	unsymmetric dual problem		असममित द्वैत समस्या
unshrinkable	<i>Chem.</i>	अकुंचनीय	unsymmetric kernel		असममित अष्टि
unsilvered	<i>Chem.</i>	अरजतित	untenanted region	<i>Geog.</i>	अनिवासित प्रदेश
unsilvered glass		अरजतित कांच	untrapping	<i>Phy.</i>	अनट्रैपन, विपंजरन
unslaked lime	<i>Chem.</i>	अशामित चूना, विना वृक्षा चूना	untuned antenna	<i>Phy.</i>	असमस्वरित ऐन्टेना
unslipped region	<i>Phy.</i>	असंपंणी क्षेत्र	untuned circuit		असमस्वरित परिपथ
unsoiling	<i>Geol.</i>	मृदापनयन	untuned rope		असमस्वरित संवाधन तंत्र
unspecialised desert	<i>Geog.</i>	अविशेषित मरुभूमि	Unuk al Hay (= $\alpha$ Serpentis)	<i>Math.</i>	यूनक ऐल हे (= $\alpha$ सर्पेन्टिस)
unsplit		अविदलित	unusual flight condition	<i>Geog.</i>	असामान्य उड़ान दशा
unsporulated oocyst	<i>Zool.</i>	अबीजाणुजनित युग्मकपुटी	unverified correction	<i>Geog.</i>	अप्रमाणित सुधार
unstable	<i>Phy., Math.</i>	अस्थायी	unwalled shade	<i>Geog.</i>	भित्तिहीन छाद
unstable equilibrium		अस्थायी साम्य, अस्थायी संतुलन	unwashable fabric	<i>H.Sc.</i>	अधावनीय वस्त्र
unstable gene		अस्थायी जीन	unweathered flint	<i>Geog.</i>	अनपक्षीण चकमक, अनपक्षीण फिल्ट
unstable motion		अस्थायी गति	unweighted index number	<i>Math.</i>	अभारित सूचकांक
unstable multivibrator		अस्थायी बहुकंपित	unwholesome air	<i>Geog.</i>	अस्वास्थ्यप्रद वातावरण
unstable nature		अस्थायी प्रकृति	unworked	<i>Phy.</i>	अनभिक्रियित
unstable nucleus		अस्थायी न्यूक्लियस	unwoven fabric	<i>Chem.</i>	अव्यूत वस्त्र, अव्यूत तान्तव
unstable sol		अस्थायी विलय	unwrapped construction	<i>Chem.</i>	अनवैष्टित रचना
unstable variant		अस्थायी परिवर्त	up bank thaw	<i>Geog.</i>	उपरिहिम द्रवण
unstrapped	<i>Phy.</i>	असंघ्रियित	up cross	<i>Math.</i>	ऋण-घन-दिन्दु
unstrapped magnetron		असंघ्रियित मैग्नेट्रॉन	up current	<i>Geog.</i>	उपरिधारा
unstratified	<i>Geol.</i>	अस्तरित	upcurved bill	<i>Zool.</i>	उद्वक्र चंचु
unstretched		अतत, अतानित	upcut	<i>Chem.</i> ( <i>Met.</i> )	उत्कृत
unstriated	<i>Zool.</i>	अरेखित	up-dip block	<i>Geol.</i>	ऊर्ध्वनति खंड
unstriped muscle		अरेखित पेशी	updoming	<i>Geol.</i>	गुम्बदन
unstripped land-area	<i>Geog.</i>	अविन्दुच्छादित भू-क्षेत्र	updraft	<i>Chem., Geol.</i>	उद्वाह, ऊर्ध्ववाह
unsulfonated residue	<i>Chem.</i> ( <i>Paint.</i> )	असल्फोनेटित अवशिष्ट			
unsurpassable barrier	<i>Geog.</i>	अनुत्संघनीय अवरोध			
unsurveyed area	<i>Geog.</i>	असर्वेक्षित क्षेत्र			

up draft kiln		उद्राह भट्टा, उद्राह आपाक	upper approximate value	उपरि सन्निकट मान
up draw process	<i>Chem.</i>	उत्कर्षण प्रक्रम	upper associated function	उपरि सहचारी फलन
upended forging	<i>Chem (Met)</i>	उदन्त फोर्जिंग	upper asymptote	उपरि अनन्तस्पर्शी
uperna	<i>H.Sc.</i>	अपर्ना	upper austral zone	ऊर्ध्व आस्ट्रेल प्रदेश
up estuary motion	<i>Geol.</i>	उवारनदमुख ऊर्ध्वगति	upper bar	शिरोरेखा
up faulted block	<i>Geog.</i>	उत्सन्नित खंड	upper boreal zone	ऊर्ध्व बोरियल प्रदेश
up fold	<i>Geol.</i>	उद्बलन	upper bound	<i>Math</i> उपरिसीमा
up gradient		उत्थवणता	upper boundary	<i>Math</i> उपरि परिसीमा
upgrading (river)	<i>Geol, Geog</i>	तलोच्चन	upper boundary function	उपरि परिसीमा फलन
up heaval	<i>Geol</i>	प्रोत्थान	upper break	<i>Geol</i> एकनति शीर्ष
upheaval phase		प्रोत्थान प्रावस्था	upper bronchial artery	<i>Zool</i> ऊर्ध्व श्वसनी धमनी
uphill diffusion	<i>Phy</i>	शिखरोपरि विसरण	upper camber	उपरि न्युञ्जना
upholstered	<i>H Sc.</i>	गद्दीदार	upper case	<i>Geog</i> ऊपरी केश
upholstered furniture		गद्दीदार फर्नीचर	upper change of dip	<i>Geol</i> एकनति शीर्ष
upholstery	<i>H Sc.</i>	कपड़ा मढाई, अपहोल्मटरी	upper control limit	उपरि नियन्त्रण सीमा
upholstery fabric		अपहोल्मटरी वस्त्र	upper culmination	<i>Geog</i> धरमोन्नयन
upholstery satin		अपहोल्मटरी साटन	upper derivative	<i>Math.</i> उच्च अवकलन
upholstery velvet		अपहोल्मटरी मखमल	upper differential coefficient	उपरि अवकल गुणांक
upkeep	<i>Geog, Chem.</i>	समायक्षण	upper extreme	उपरि चरम मान
upland	<i>Geog., Geol</i>	उपरिभूमि, अद्वित्यका, उच्चभूमि	upper function	उपरि फलन
upland climax	<i>Zool.</i>	उच्चभूमि चरम	upper harmonic	<i>Phy.</i> उच्च मनादी
upland crop		उपरिभूमि शस्य	upper integral	उच्च समाकलन
upland deposit		उपरिभूमि निक्षेप	upper jaw	ऊर्ध्व हनु, ऊपरी जबडा
upland peat		अधिन्यका पीट, उच्च-भूमि पीट	upper layer	उपरिस्तर
upland plain		उपरिभूमी	upper limb	ऊर्ध्व पाद
upland resort		उपरि विनोद स्थल	upper limit	उपरि सीमा
upland tint		उपरिभूमि रजन	upper limiting function	उपरि सीमांत फलन
uplift	<i>Geol.</i>	उत्थान	upper limit of indeterminacy	उपरि अनिर्धारिता-सीमा
uplifted beaches		उत्थित पुलिन	upper limit of integration	समाकलन की उपरिसीमा
uplifted peneplain		उत्थित समप्राय भूमि	upper limit topology	उपरि सीमा सन्निकट
upper (mining)	<i>Geol</i>	ऊर्ध्वक्षेत्रीय		
upper accumulator	<i>Math.</i>	उपरि संचयित्र		
upper air		उपरिस्थ वायु		
upper and lower Darboux sums		उपरि तथा निम्न डार्बू योग		

upper Loewy series of an ideal		गुणजावली का उपरितन लोई श्रेणी	up rush (of waves)		उद्वावन
upper mark		ऊपरी निशान	upset forging	<i>Chem.</i> <i>(Met.)</i>	पर्याप्त फोर्जन
upper metric density		उपरि मापीय घनत्व	upsetted moraine	<i>Geol.</i>	उत्क्षिप्त हिमोढ़
upper ordinate set		उपरि कोटि समुच्चय	upset test	<i>Chem.</i> <i>(Met.)</i>	पर्याप्त निकप
upper plate		ऊपरी प्लेट	upsetting test	<i>Chem.</i> <i>(Met.)</i>	पर्याप्त निकप
upper punch	<i>Chem.</i> <i>(Met.)</i>	उत्पेच	upslanting eye	<i>Geog.</i>	उत्तिथक नेत्र
upper quartile	<i>Math.</i>	गुरुचतुर्थक	upstand	<i>Chem.</i>	रोधपट्ट
upper Riemann integral		उपरि रीमान समकलन	upstanding topographic form	<i>Geog.</i>	उत्थस्यलाकृतिक रूप
upper semicontinuity		उपरि सामिसांतत्य	upstream	<i>Geog., Geol.</i>	ऊर्ध्वप्रवाह
upper semi integral		उपरि सामिसमाकलन	upstream face		ऊर्ध्वप्रवाह पार्श्व
upper side		ऊपरी किनारा	upstreaming	<i>Phy.</i>	ऊर्ध्वप्रवाह
upper side band		उच्च पार्श्व बैंड	upstream people	<i>Geog.</i>	उपरिनद वासी
upper 2-sigma limit		उपरि 2-सिग्मा सीमा	upstroke	<i>Zool.</i>	ऊर्ध्वघात
upper specification limit		उपरि विनिर्देश सीमा	uptake	<i>Phy.,</i> <i>Chem.</i>	उद्ग्रहण अंतर्ग्रहण (उद्वाह)
upper stream		उपरि धारा	upthrow	<i>Geol.</i>	ऊर्ध्वपात
upper subordinate service		उच्चतर आधीन सेवा	upthrow fault		ऊर्ध्वपाती भ्रंश
upper sum		उपरि योग	upthrow side		ऊर्ध्वपाती पार्श्व
upper sum function		उपरि योग फलन	upthrust	<i>Geol.</i> <i>Math.</i>	उत्क्षेप उत्प्लावन
upper tail covert	<i>Zool.</i>	ऊर्ध्व पुच्छावरक	upthrust fault		उत्क्षेपी भ्रंश
upper thread		ऊपर का धागा	upthrust force	<i>Math.</i>	उत्प्लावक बल
upper transit		ऊर्ध्व साम्योत्तरगसन	up-tidal river	<i>Geog.</i>	ऊर्ध्वज्वारीय नदी
upper triangle matrices		उपरि त्रिभुज आव्यूह	up-tilt	<i>Geol.</i>	उपरिनति
upper umbilicus		ऊर्ध्व पिच्छछिद्र	up time	<i>Phy.</i>	सक्रिय काल
upper variation		उपरि विचरण	upt u		उल्टा
upper wave		उपरि तरंग	up-type step	<i>Phy.</i>	ऊर्ध्वपाद
upper yield stress		उच्च पराभव प्रतिबल	Upupidae	<i>Zool.</i>	उपुपिडी
up-range	<i>Phy.</i>	वेद्यन दिशा	up-valley	<i>Geog., Geol.</i>	उपरिघाटी
upright axis	<i>Math.</i>	खड़ा अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष	up-valley slope	<i>Geog.</i>	उपरिघाटी ढाल
upright fold		खड़ा बलन, ऊर्ध्वाधर बलन	upward acceleration	<i>Math.</i>	उपरिमुखी त्वरण
upright lifter pin	<i>Geog.</i>	खड़ी उत्थापक कील	upward bias	<i>Math.</i>	गुरुकारी अभिनति
upright mantle		ऊर्ध्वाधर प्रावार	upward current		उपरिमुखी धारा
upright type		खड़ा टाइप	upward displacement		उपरिमुखी विस्थापन

upward drag		उपरिमुखी कर्षण	uranotantalite	Chem.	यूरेनोटैन्टलाइट
upward elution	Chem	ऊर्ध्वमुख निक्षालन	uranothallite	Chem	यूरेनोथैलाइट
upward motion		उपरिमुखी गति	Uranus	Math	यूरेनस
upwarp	Geol	उर्ध्ववलि	uranyl		यूरेनिल
upwarping		उर्ध्वविलन	urao (Met)	Chem (Met)	यूराओ
upwelling	Geol. Zool	उत्थवण उत्थवाह	urate	H Sc	यूरेट
upwind	Geog	ऊर्ध्वगामी पवन	urate cell	Zool.	यूरेट कोशिका
urachus	Zool	यूरेकस, मूलनाभिरन्जु	urba	H Sc.	उर्बा
uracil	Bot.	यूरेसिल	urban	Geog	नगरीय, शहरी
uracinite	Geol	यूरेकोनाइट	urban activities		नगर-क्रियाकलाप
uraemia (= uremia)	H.Sc.	यूरीमिया	urban aesthetics		नगरीय सौन्दर्यवाद
uralite	Geol.	यूरेलाइट	urban agglomeration		1 नगरीय समूह 2 नगरीय समूहन
uralitisation		यूरेलाइटीभवन	urban aggregate		नगर जनसंघ
uramil		यूरेमिल	urban aggregation		नगर जनसंघ
uranate	Chem.	यूरेनेट	urban airport		शहरी विमानतट
urate derivation	Chem.	यूरेन व्युत्पन्न	urban association		नगर सम्पर्क
uranic acid	Chem.	यूरेनिक अम्ल, यूरेनिक ऐमिड	urban association		नगर सम्पर्क
uranic ocher	Geol.	यूरेकोनाइट	urban blight		नगर ब्लाइट
uranids	Chem, Phy.	यूरेनाइट	urban bye law		नगरीय उपनियम
uranide series		यूरेनाइट श्रेणी, यूरेनाइडमाला	urban centre		नगर केन्द्र
uranine	Chem.	यूरेनीन	urban character		नगरीय लक्षण
uraninite	Geol.	यूरेनीनाइट	urban characteristic		नगरीय विशेषता
uranite	Geol.	यूरेनाइट	urban cluster		नगर पुंज
uranium	Chem, H.Sc.	यूरेनियम	urban community		नगरीय समुदाय
uranium pile	Chem.	यूरेनियम प्रचय, यूरेनियम पाइल	urban complex		नगरीय सकुल
uranium series		यूरेनियम श्रेणी	urban complex		नगरीय सकुल
uranium yellow		यूरेनियम पीत, यूरेनियम यलो	urban congestion		नगर सकुलता
uranocirite	Chem.	यूरेनोमिराइट	urban core		नगरीय कोर
uranolepidite	Chem. (Nucl.)	यूरेनोलेपिडाइट	urban core area		नगर कोर क्षेत्र
uranospathite	Chem.	यूरेनोस्पैथाइट	urban culture		नगरीय संस्कृति
uranospinate	Chem. (Met.)	यूरेनोस्पिनेट	urban development		नगर विकास
			urban district		नगर क्षेत्र
			urban dwelling		नगरीय वास
			urban dynamics		नगरीय गतिकी
			urban environment		नगर पर्यावरण
			urban evolution		नगरीय विकास
			urban expansion		नगर प्रसार
			urban explosion		नगरीय विस्फोट

urban facility	नगर सुविधा	urban morphology	नगर आकृतिविज्ञान
urban fence	नगर बाड़, नगर प्राकार	urban node	नगर पात
urban field	नगर क्षेत्र	urban nomadism	नगरीय यायाव्रता
urban fitting	नगर सज्जा	urban nucleus	शहर केन्द्रक
urban focus	नगर नाभि	urban occupation	नगरीय व्यवसाय
urban form	नगर रूप	urban organism	नगरीय जीव
urban foundation	नगर आधार	urban periphery	नगरोपान्त क्षेत्र
urban fringe	नगरीय उपान्त	urban population	नगरीय जनसंख्या
urban function	नगर कार्य	urban prosperity	नगरीय समृद्धि
urban geography	नगर भूगोल	urban region	नगर प्रदेश, नगरांचल
urban growth	नगरीय वृद्धि	urban regionalism	नगरीय प्रादेशिकता
urban habitat	नगरीय आवास	urban revival	नगर पुनःप्रवर्तन
urban hierarchy	नगरीय पदानुक्रम	urban revolution	नगरीय परिवर्तन
urban implosion	नगरीय अन्तःस्फोटन	urban rural continuum	नगर ग्राम निरन्तरता
urban industrial pattern	नगर औद्योगिक प्रतिरूप	urban sanitary district	नगरीय स्वच्छता क्षेत्र
urban influence	नगर प्रभाव	urban scene	नगरीय दृश्य
urbanism	नगरीकरण	urban service	नगर सेवा
urbanistics	नगर-विज्ञान, नगर-योजना तकनीक	urban settlement	नगरीय बस्ती
urban institution	नगरीय संस्था, नगर संस्था	urban skyline	नगरीय कित्तिज
urbanite	नागरिक	urban society	नगरीय समाज
urbanity	नागरिकता	urban sprawl	नगर स्वप्रसार
urbanization	नगरीकरण	urban standard	नगरीय मान
urbanized area	नगरीकृत क्षेत्र	urban structure	नगर संरचना, नगर स्वरूप
urbanized land	नगरीकृत भूमि	urban system	नगर व्यवस्था
urbanized region	नगरीकृत प्रदेश	urban tract	नगरीय क्षेत्र
urbanized society	नगरीकृत समाज	urban tradition	नगरीय परम्परा
urbanizing effect	नगरीकरण प्रभाव	urban typology	नगर अधिक्रम, नगर अधिश्रेणी
urban landscape	नगरीय दृश्यभूमि	urban unconformity	नगरीय विसंगति, नगरीय विषम विन्यास
urban land use	नगरीय भूमि उपयोग	urban village	नगरीय ग्राम, अकृषि ग्राम
urban map	नगर मानचित्र	urban ways	नगरीय रीति
urban market	नगरीय बाजार	urblet	Geog. उपनगर (अनुपंगी)
urban mesh	नगर मेज	urceolate	Bot. कुंमाकार
urban metabolism	नगरीय विपरिणाम	urceolus	Zool. कुम्भक
urban minded electrorate	नगर-विचारी निर्वाचकगण	urchin	Geog. जलसाही

urdiga	<i>H Sc.</i>	अदिगा	uricase	<i>Zool</i>	यूरिकेस
urea	<i>Chem., H Sc.</i>	यूरिया	uricotelic	<i>Zool</i>	यूरिकाम्ल उत्सर्गी
urea adduct		यूरिया योगोत्पाद, यूरिया ऐडक्ट	uridine diphosphate		यूरिडीन, डाइफॉस्फेट
ureaform		यूरियाफार्म	uridine diphospho glucose	<i>Bot</i>	यूरिडीन डाइफॉस्फो- ग्लूकोज
ureameter		यूरियामापी	uridine diphospho glucuronic acid		यूरिडीन डाइफॉस्फो- ग्लूकुरोनिक अम्ल
urease		यूरिएस	uridine monophos- phate		यूरिडीन मोनोफॉस्फेट
Uredinales	<i>Bot</i>	यूरिडिनेलीज	uridine nucleotide		यूरिडीन न्यूक्लिओटाइड
Uredinal sorus		यूरिडियम पुंज	uridine phospho- glucose		यूरिडीन फॉस्फोग्लूकोस
uredinium		यूरिडिनियम	uridine tri phosphate		यूरिडीन ट्राई फॉस्फेट
uredinopsis	<i>Bot.</i>	यूरिडिनॉप्सिस	uridylic acid	<i>Bot.</i>	यूरिडिनिक अम्ल
uredioid	<i>Bot.</i>	यूरिडियमसम	urinary	<i>Zool H Sc.</i>	मूतीय, मूत्र
uredium	<i>Bot</i>	यूरिडियम	urinary aperture		मूत्र रंध्र
Uredo	<i>Bot</i>	यूरीडो	urinary bladder		मूत्राशय
uredosorus		यूरीडोसोरस, यूरीडियम पुंज	urinary papilla		मूत्र पैपिला
uredospore		यूरीडोबीजाणु	urinary sinus		मूत्र कोटर
ureldo	<i>Chem.</i>	यूरीडो	urinary system		मूत्र तंत्र
ureidoprotein	<i>Chem.</i>	यूरीडो प्रोटीन	urinary tract		मूत्र मार्ग
ureldosuccinic acid	<i>Chem</i>	यूरीडो सकिमिनिक अम्ल	urinary tube		मूतीय नली
ureka	<i>Phy</i>	यूरेका	urine		मूत्र
urenic acid	<i>Chem</i>	यूरेनिक अम्ल, यूरेनिक ऐसिड	uriniferous tubule	<i>Zool.</i>	मूत्रजन तलिका
urenide	<i>Chem</i>	यूरेनाइड	uriniparous	<i>Zool.</i>	मूत्रोत्पादी
urens	<i>Bot.</i>	दशी	urinod	<i>Chem.</i>	यूरिनॉइड
ureotelic	<i>Zool.</i>	यूरिया-उत्सर्गी	urinogenital duct	<i>Zool.</i>	जननमूत्र वाहिनी
urera fiber	<i>H Sc.</i>	यूरेरा तन्तु	urinogenital opening		जननमूत्र द्वार
ureter	<i>Zool.,H.Sc.</i>	मूत्रवाहिनी	urinogenital papilla		जननमूत्र पैपिला
ureteric bud	<i>Zool.</i>	मूत्रवाहिनीय कोरक	urinogenital ridge		जननमूत्र बटन
urethane	<i>H.Sc.</i>	यूरिथेन	urinogenital sinus		जननमूत्रकोटर
urethane foam		यूरिथेन फेन, यूरिथेन फोम	urinogenital system		जननमूत्र तंत्र
urethra	<i>Zool ,H.Sc.</i>	मूत्रमार्ग	urinogenital tract		जननमूत्र मय
urethritis	<i>Zool.</i>	मूत्रमार्गशोथ	urite	<i>Geol.</i>	यूरिट
<i>Urginea maritima</i>	<i>Bot</i>	अर्जॉनिया मेरीटिमा	urn	<i>Zool</i>	कुम्भ
urial	<i>Zool.</i>	यूरियल	urn shaped	<i>Bot.</i>	कुम्भाकार
uric acid	<i>Chem.</i>	मूत्राम्ल, यूरिक ऐसिड	urobilin	<i>Chem.,Zool.</i>	यूरोबिलिन
			urobilinogen		यूरोबिलिनोजन



urocanase	Chem.	यूरोकैनेस	uroporphyrinogen	Chem.	यूरोपोर्फिरिनोजन
urocanic acid	Chem.	यूरोकैनिक अम्ल, यूरोकैनिक ऐसिड	Uropsilus	Zool.	यूरोप्सिलस
urocanyl choline	Chem.	यूरोकैनिल कॉलीन	uropygial gland	Zool.	पशुचांतकूट ग्रंथि
urochord	Zool.	पुच्छरज्जु	uropygium	Zool.	पशुचांतकूट, यूरोपाइजियम
Urochorda	Zool.	यूरोकॉर्ड	urosacral	Zool.	पुच्छत्रिक
urocoele	Zool.	मूलगुहिका	urosilic acid	Chem.	यूरोसिलिक अम्ल, यूरोसिलिक ऐसिड
urochrome	Chem.	यूरोक्रोम, मूलक वर्णक	urosome	Zool.	पुच्छकाय
urochromogen	Chem.	यूरोक्रोमोजेन	Urostachya	Bot.	यूरोस्टेवया
urocyst	Zool.	पुच्छपुटी	urosternite	Zool.	पुच्छाधरकांश
<i>Urocystis anemones</i>	Bot.	यूरोसिस्टिस एनीमोनीज	urostyle	Zool.	पुच्छदंड, यूरोस्टाइल
urodaeum	Zool.	यूरोडियम	urotropine		यूरोट्रोपिन
Urodela (Caudata)	Zool.	यूरोडेला (कॉडेटा)	uroxanthin	Zool.	यूरोजैथिन
urodelous	Zool.	चिरपुच्छी	*Ursa Major	Math.	सप्तारिप, अर्सा मेजर
urogastric	Zool.	पुच्छजठरीय	*Ursa minor		अर्सा माइनर
urogastrone	Chem.	यूरोगैस्ट्रोन	ursane	Chem.	अर्सेन
urogenital artery	Zool.	जननमूत्र घमनी	Ursidae	Zool.	अर्सिडी
Uroglena	Zool.	यूरोग्लीना	urstromtal	Geol., Geog.	मूलनद घाटी
urohyal	Zool.	पुच्छकंठिका	Ursus	Zool.	अर्सेस
urohypophysis	Zool.	यूरोहाइपोफाइसिस	<i>Ursus arctos</i>		अर्सेस आर्कटोस
uroid	Zool.	यूरोयंड, पुच्छीय	Urtica	Bot.	अर्टिका
uroolithiasis	Chem.	यूरोलियथिआसिस, मात्राभ्रमरता	Urticaceae	Bot.	अर्टिकेसी
Uromastix	Zool.	यूरोमैस्टिक्स	<i>Urtica dioica</i>	Bot.	अर्टिका डाओका
<i>Uromastix hardwickii</i>		यूरोमैस्टिक्स हार्डविकार्ड	Urticales	Bot.	अर्टिकैलीज
uromere	Zool.	उदरखंड, यूरोमियर	urticant	Zool.	आदंशी
uromorphic	Zool.	पुच्छरूपी	urticaria	Zool.	शीतपित्त, पित्ती
<i>Uromyces caladii</i>	Bot.	यूरोमाइसीज कालेडियाई	urticarical larva	Zool.	पित्ती डिम्बक
Uronectes	Geol.	यूरोनेक्टोइज	urticating hairs	Zool.	क्षोभक रोम
Uronemus	Zool.	यूरोनिमस	urticator	Zool.	आदंशक
uronic acid	Geog., Chem., Bot.	यूरोनिक ऐसिड	Urticina	Zool.	अर्टिसाइना
uropatagium	Zool.	पुच्छचर्मप्रसर	<i>Urticina crassicornis</i>		अर्टिसाइना क्रैसिकॉर्निस
uropod	Zool.	पशुचांतपाद	urtite		अर्टाइट
uropore	Zool.	पुच्छरंध्र	uruca	H.Sc.	अरुका
			urucurana	H.Sc.	अरुकुराना
			Uruguay wool	H.Sc.	यूरुगुए ऊन
			urushiol	Chem.	अरुशियॉल

urwald	Geog.	अर्वाल्ड, उष्णकटिबन्धीय वर्षावन	uterine artery	Zool.	गर्भाशय धमनी
urweiter	Geog	अर्वाल्डर (पल्ली)	uterine bell		गर्भाशय घटिका
Urysohn's characteristics function	Math	यूरीजोन अभिलक्षण फलन	uterine capsule		गर्भाशय सपुट
Urysohn's lemma		यूरीजोन प्रमेयिका	uterine chamber		गर्भाशय कक्ष
Urysohn's metrization theorem		यूरीजोन दूरीकन प्रमेय	uterine crypt		गर्भाशय प्रगूहिका
usable frequency	Phy.	उपयोज्य आवृत्ति	uterine duct		गर्भाशय वाहिनी
used karez	Geog.	प्रयुक्त कॅरेज	uterine epithelium		गर्भाशय उपनला
useful life	Chem (Paint)	उपयोगी आयु	uterine gland		गर्भाशय ग्रंथि
useful line		उपयोगी रेखा	uterine loop		गर्भाशय कुडनी
U-shaped	Math	U-रूप, नालरूप	uterine lumen		गर्भाशय अंदकाशिका
U-shaped curve		U रूप वक्र	uterine milk		गर्भाशय दुग्ध
U-shaped distribution		U-रूप बंटन, नालरूप बंटन	uterine pore		गर्भाशय रन्ध्र
<i>Usnea barbata</i>	Bot.	अस्त्रिनया वारबेटा	uterine sac		गर्भाशय कोष
Usneaceae	Bot.	अस्त्रिन्सी	uterine tract		गर्भाशयी श्लेत्
usona silk	H.Sc.	यूसोना सिल्क	uterine tube		गर्भाशयी नलिका
U-space	Math	U-समष्टि	uterine vagina		गर्भाशयी योनि
Ustilaginaceae	Bot.	अस्टिलेजिनेसी	uteroabdominal	Zool	गर्भाशय-उदरीय
Ustilagineae		अस्टिलेजिनी	uterোসacral	Zool.	गर्भाशयत्रिक
Ustilago	Bot.	अस्टिलेगो	uterovaginal canal		गर्भाशययोनि नाल
<i>Ustilago avenae</i>		आस्टिलेगो ऐवेन्ती	uteroverdin	Zool	यूटेरोवेदिन
<i>Ustilago hordei</i>		आस्टिलेगो हार्डियाई	uterovesical	Zool.	गर्भाशयाशयी
<i>Ustilago levis</i>		आस्टिलेगो लेविस्	uterus	Zool, H Sc	गर्भाशय
<i>Ustilago nuda</i>		आस्टिलेगो न्यूडा	uterus masculinus	Zool	पुंमर्भाशय
<i>Ustilago tritici</i>		आस्टिलेगो ट्रिटिसाई	<i>Utetheisa pulchella</i>	Zool	ऊटीथीसा पलचेला
<i>Ustilago violacea</i>		आस्टिलेगो वायोलेंसिया	utility	Math, H Sc.	उपयोगिता, उपयोग
usual metric	Math.	साधारण दूरीक	utility oil	Chem. (Paint)	यूटिलिटी तेल (बटली तेल)
usual topology		साधारण संस्थिति	utility room (all purpose room)	H Sc.	सर्वोपयोगी कक्ष
usual uniformity		साधारण परिवेशक	utilization		उपयोग
usuji sofū	H.Sc.	यूसूजी सोफू	utility factor		उपयोग गुणक
Utah screen	Geol.	ऊटा छन्ना	utility function		उपयोगिता फलन
utensil	H.Sc.	बर्तन, पात्र, भाँद	utility maximization		उपयोगिता अधिकतमीकरण
			utility program (= utility routine)	Phy.	उपयोगिता प्रोग्राम, उपयोगिता नेमका
			utilization factor	Chem	उपयोगन गुणक
			Utoq	Geog.	उतोक्

utoq hunting	<i>Geog.</i>	उतोक आखेटन
utrecht velvt	<i>H.Sc.</i>	यूट्रेच मखमल
utricle	<i>Bot.</i>	दृति
Utricularia	<i>Bot.</i>	यूट्रीक्युलेरिया
utriculus	<i>Bot., Zool.</i>	दृति
utriiform	<i>Bot.</i>	दृतिरूप
utskargardar	<i>Geog.</i>	उत्स्कारगार्डर
U-tube		U-नली, नाल-नली
uvaggio	<i>H.Sc.</i>	यूवाजियो
uvala	<i>Geog.</i>	युवाला
uvarius	<i>Bot.</i>	ब्रासगुच्छाभ
uvarovite	<i>Geol.</i>	यूवैरोवाइट

Uvette	<i>Bot.</i>	यूवेट
Uvial glass		यूवियोल कांच
uvicon	<i>Phy.</i>	यूविकान
uvitic acid		यूविटिक ऐसिड
uv-method	<i>Math.</i>	uv-विधि
uvula	<i>Zool., H.Sc.</i>	यूवुला, अधिजिह्वा, काकलक
uzarigenin	<i>Chem.</i>	यूज़ारिजेनिन
uzarin	<i>Chem.</i>	यूज़ारिन
uzel	<i>H.Sc.</i>	यूज़ेल
uzen silk satin	<i>H.Sc.</i>	यूज़ेन रेशमी साटन

## V

Vaalpen	<i>Geog.</i>	वालपेन
vacancy	<i>Phy.</i>	रिक्तिका
vacancy clusters		रिक्तिका गुच्छ
vacancy condensation		रिक्तिका संघनन
vacancy creep		रिक्तिका विसर्पण
vacancy migration		रिक्तिका प्रवास
vacancy pair		रिक्तिका युगल
vacancy principle		रिक्तिका सिद्धान्त
vacancy survey	<i>Math.</i>	रिक्तिका सर्वेक्षण
vaccenic acid	<i>Chem.!</i>	वैक्सीनिक अम्ल, वैक्सीनिक ऐसिड
vaccine	<i>Zool., Bot., H.Sc.</i>	वैक्सीन, टीका
vaccine virus		वैक्सीन वाइरस, टीका विषाणु
Vaccinia	<i>Bot.</i>	वैक्सीनिया (गोशीतला)
vaccinia virus	<i>Zool.</i>	गोशीतला विषाणु

<i>Vaccinium leschenanthi</i>	<i>Bot.</i>	वैक्सीनिजम लेशेनैन्थार्ई
vacherin	<i>H.Sc.</i>	वैशेरिन
vacillans	<i>Zool. Bot.</i>	विचल मुक्त दोली
vacona	<i>H.Sc.</i>	वाकोना
vacseal pump	<i>Geol.</i>	वैक्सील पंप
vacuist	<i>Chem.</i>	निर्वातवादी
vacuity	<i>Zool.</i>	कुहर
vacuo-	<i>Chem., Phy.</i>	निर्वात-
vacuo junction		निर्वात संधि
vacuolar apparatus	<i>Zool.</i>	धानी उपकरण
vacuolar canal		धानी नाल
vacuolar membrane	<i>Bot.</i>	रसधानी झिल्ली
vacuolar system		धानी तंत्र
vacuolate	<i>Biol., Zool.</i>	रसधानी युक्त, धानीयुक्त

vacuolated endoplasm		घानीयुक्त अन्त द्रव्य	vacuum lamp		निर्वात लैम्प
vacuolating virus		घानीयुक्त विषाणु	vacuum leaf filter		निर्वातानणं फिल्टर
vacuolation		रसघानीभवन	vacuum lock device		निर्वात बधक युक्ति
vacuole	<i>Bot</i> <i>Zool.</i>	रसघानी घानी	vacuum mantle		निर्वात आवरण
vacuolization		रसघानीभवन, घानीभवन	vacuum oven		निर्वात फूटी
vacuome	<i>Bot</i>	वैकुळीय	vacuum pan		निर्वात-कटाह
vacuoscope		निर्वातदर्शी	vacuum pan system		निर्वात-कटाह तंत्र
vacuous set	<i>Math.</i>	रिक्त समुच्चय	vacuum photoelectric cell		निर्वात फोटो सेल
vacuous space		निर्वात स्थान	vacuum plastometer		निर्वात भुष्ट्यतामापी, निर्वात प्लैस्टोमाटो
vacuous vessel		निर्वात पात्र	vacuum pump		निर्वात पम्प
vacuum	<i>Phy .Chem.,</i> <i>H.Sc.</i>	निर्वात	vacuum reaction	<i>Zool</i>	शून्यक श्रितिक्रिया
vacuum and blow process		निर्वात और धमन प्रक्रम	vacuum region		निर्वात प्रदेश
vacuum approximation		निर्वात सन्निकटन	vacuum seal		निर्वात सील
vacuum bottle		निर्वात बोतल	vacuum spark method		निर्वात स्फुटिलय विधि
vacuum brake		निर्वात ब्रेक	vacuum spectrograph		निर्वात स्पेक्ट्रोग्राफी, निर्वात स्पेक्ट्रोग्राफ
vacuum breaker		निर्वात खडक	vacuum still		निर्वात शमका
vacuum calorimeter		निर्वात ऊष्मामापी	vacuum system		निर्वात प्रणालि
vacuum cleaner		निर्वात मार्जक	vacuum technique		निर्वात तकनीक
vacuum desiccator		निर्वात शोषित्र	vacuum treatment		निर्वात संस्कार
vacuum diode		निर्वात डायोड	vacuum tube		निर्वात नली, निर्वात नलिका
vacuum distillation flask		निर्वात आसवन फ्लास्क	vacuum tube electrometer		निर्वात नली विद्युतमापी, वाल्ब विद्युतमापी
vacuum drier		निर्वात शोषित्र	vacuum tube voltmeter		निर्वात नलिका वोल्टमापी
vacuum drying		निर्वात शुष्कन	vacuum type washer		निर्वात धावित्र
vacuum field		निर्वात क्षेत्र	vadose cave system	<i>Geol</i>	अधिमीमत्रल गुहातंत्र
vacuum filter		निर्वात निर्यंदक, निर्वात फिल्टर	vadose circulation		अधिमीमत्रल परिचलन
vacuum filtration		निर्वात निर्यंदन	vadose deposit		अधिमीमत्रल निक्षेप
vacuum flask		निर्वात फ्लास्क	vadose solution		अधिमीमत्रल विलय
vacuum-forming process		निर्वातकारी प्रक्रम	vadose water		अधिमीम जल
vacuum gauge		निर्वात गेज	vadose zone		अधिमीम जल क्षेत्र
vacuum grease		निर्वात स्नेहिका, निर्वात घी	vagabond's disease	<i>Zool.</i>	यायावरी रोग
vacuum jar		निर्वात बरत, निर्वात मत्तबान	vagal parasympathetic system	<i>Zool.</i>	वेगसी पदानुकम्पी तंत्र
			vagiformis	<i>Bot.</i>	धनिपलाङ्गि
			vagility	<i>Bot.</i>	शरीरगतता

vagina	Bot. H.Sc., Zool.	वाच्छद योनि	valency	Phy., Chem.	संयोजकता
vaginal opening		योनि द्वार	valency angle		वैलेन्सी कोण, संयोजकता कोण
vaginal pore		योनि रंध्र	valency electron		संयोजी इलेक्ट्रॉन
vaginate	Bot.	वाच्छदी	valency factor		संयोजकता गुणक
vaginervis	Bot.	वक्रमशिराल	valency unit		संयोजकता यूनिट, संयोजकता मात्रक
vaginiculous	Zool.	वाच्छदवासी	Valentine cake	H.Sc.	वैलेन्टाइन केक
vaginiferous	Zool.	वाच्छदी	valentinite	Geol.	वैलेन्टिनाइट
vaginipennate	Zool.	आच्छदपक्ष	valeraldehyde	Chem.	वैलरैल्डहाइड
vaginitis	Zool.	योनिशोथ	Valerianaceae	Bot.	वैलेरिएनेसी
vagrant benthos	Geol.	जंगम नितलवासी	Valerianales	Bot.	वैलेरिएनेलीस
vagus	Zool.	वेगस	<i>Valeriana officinalis</i>		वैलेरिएना आफिसिनैलिस
vagus foramina		वेगस रंध्र	<i>Valeriana wallichii</i>	Bot.	वैलेरिएना वालिची
vagus ganglion		वेगस गुच्छिका	valeric acid		वैलेरिक अम्ल, वैलेरिक ऐसिड
vagus nerve		वेगस तंत्रिका	valeramide	Chem.	वैलर-ऐमाइड
val	Geog.	वैल, अभितन घाटी	valeranone	Chem.	वैलेरनोन
vala	Geog.	वैला	valerate	Chem.	वैलरैट
valance	H.Sc.	झालर	valeriate	Chem.	वैलेरिएट
valdeblore	H.Sc.	वाल्डेब्लोर	valerolactone	Chem.	वैलरोलैक्टोन
vale	Geog.	घाटी	valid		मान्य, वैध
valency	H.Sc.	वैलेके	validation		मान्यकरण
valence	Phy., Chem. H.Sc.	संयोजकता झालर	valid character		मान्य संप्रतीक
valence	Bot.	वैलेन्स	valid estimator		वैध आगणक
valence angle	Chem.	संयोजकता कोण	valid group	Zool.	मान्य समूह
valence band		वैलेन्स बैंड, संयोजकता बैंड	validity	Phy., Math.	वैधता, मान्यता
valence-bond orbital		संयोजकता आवंध बाइन्डल, संयोजकता आवंध कक्षक	validity check		मान्यता जांच
valence electron	Phy.	चालन इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन	validity coefficient		मान्यता गुणांक, वैधता गुणांक
valence force		संयोजकता बल	validity of test		परीक्षण-मान्यता, परीक्षण-वैधता
valence force field		संयोजकता बल क्षेत्र	valine	Zool., Chem., H.Sc.	वैलीन
valence lighting		झालरी प्रकाश	valinomycin	Chem.	वैलिनोमाइसिन
valence number		संयोजकता संख्या	<i>Vallis heveii</i>		वैलेरिस हेनिआइ
valence summation		संयोजकता संकलन, वैलेन्सी संकलन	vallate	Zool.	परिमितिक
Valencia	H.Sc.	वैलेन्शिया			
Valencia almond		वैलेन्शिया बादाम			

vallecula		वैलेंकुला	<i>Vallisneria spiralis</i>		वेलिसनेरिया
vallecular canal		वैलेंकुली कॅनल			स्पाइरेलिस
valley	<i>Geog., Geol</i>	घाटी	valloni	<i>Geog</i>	वैल्लोनी
valley axis		घाटी अक्ष	valois sauce	<i>H Sc.</i>	वैल्लोई सॉस
valley bog		घाटी-दलदल	valonia	<i>Chem.</i>	वैल्लोनिफ
valley bottom		घाटी तली	valorization		मूल्यस्थिरीकरण
valley breeze		घाटी समीर	valuation	<i>Math.</i>	मानांकन
valley bulge		घाटी उभार	valuation ring	<i>Math</i>	मानांकनीय वलय
valley flat		घाटी वेदिका	value	<i>H Sc., Math</i>	मूल्य मान
valley floor		घाटी सतह	value-area cartogram		क्षेत्रमूल्य-मानारेख
valley-floor basement		घाटी सतह आधार	valued field		मानांकित क्षेत्र
valley glacier		घाटी हिमनद	value function		मान-फलन
valley head cirque		घाटी शीर्ष सर्क	value group		मान-समूह
valley in valley		गतघाटी	value index		मानानुपात
valley line		घाटी-रेखा	value of a game		खेल का मान
valley meander		घाटी-विसर्प	valvar plane		घाटी तल
valley of elevation		उन्नयन घाटी	valvate	<i>Biol.</i>	कोरस्पशी
valley-plain terrace		घाटी मैदान वेदिका	valve	<i>Phy., Biol., Geol</i>	1. कपाट, वाल्व 2. पाट (diatom) 3. फलवाक (fruit)
valley profile		घाटी-प्रोफाइल, घाटी-परिच्छेदिका	valve action		वाल्व क्रिया
valley shoulder		घाटी-स्कंध	valve apparatus		कपाट उपकरण
valley side		घाटी-पार्श्व	valve casing		वाल्व कोष्ठ
valley sink		घाटी-सिक्क	valve constant		वाल्व नियतांक
valley spring		घाटी-स्रग्ना	valve effect		वाल्व प्रभाव
valley spur		घाटी-स्कंध	valve flaps		कपाट पल्लव
valley table		घाटी पृष्ठ	valve jacket		पाट कवच
valley flat		घाटी-आभा	valve grinding compound		वाल्व वेधक यौगिक
valley tract		घाटी-क्षेत्र	valvelet	<i>Zool.</i>	तंतुवपाट
valley train		घाटी-हिमोड	valve magnifier		वाल्व प्रदर्शक
valley wall		घाटी भित्ति	valve of Thebesius		थिबेसियस कपाट
valley way		घाटी-मार्ग	valve of Viessens		व्युनेन्स कपाट
valley wind		घाटी पवन	valve operated		वाल्व चालित
Vallisneria	<i>Bot</i>	वैलिसनेरिया	valve oscillator		वाल्व दोलक
Vallisneriaceae	<i>Bot</i>	वैलिसनेरिएसी			
Vallisneria octandra	<i>Bot.</i>	वेलिसनेरिया आक्टेंद्रा			

valve plates		कपाटी पट्ट	Vanda	Bot.	वैन्डा
valve positioner		वाल्व स्थापक	Vanda parviflora		वैन्डा पार्वीपलोरा
valve-reversal		कपाट उल्टक्रमण	Vanda roxburghi		वैन्डा राक्सवर्गाई
valvifer	Zool.	पुटधर, कपाटधर	van Deemter equation	Chem.	वान डीमटर समीकरण
valvula (valvulae)	Zool.	प्रकठक	Van de Graff generator	Chem.,Phy.	वान्दे ग्राफ़ जनित
valvula cerebelli	Zool.	अनुमस्तिष्क पुटक	Vondellia crustacea	Bot.	वैन्डैलिया क्रस्टेशिया
valvula foraminis ovalis	Zool.	अण्डाकार रंघ कपाटिका	Vandermonde determinant	Math.	वांडरमोंड-सारणिक
valvulae venosae		शिरा कपाटिका	Vanderpol oscillator	Phy.	वान्डरपोल दोलित
valvula paradoxa		वाल्वुला पैराडॉक्स, समवितरक कपाट	Vander Waals binding	Phy.	वान्डरवाल्स बंधन
valvular	Geol.,Zool.	कपाटीय, वाल्वी, कपाटिकीय	Vander Waals equation		वान्डरवाल्स समीकरण
valvular apparatus		कपाटिका समुच्चय	Vander Waals molecule		वान्डरवाल्स अणु, ध्रुवण अणु
valvular pyramid		कपाटिकीय पिरैमिड	Vanderwerp cooler	Geol.	वेन्डरवर्प कूलर
valvulate pedicellaria	Zool.	कपाटिकाकर वृत्तपद	Vand's equation	Chem.	वान्ड समीकरण
vamping	Geol.	खान मलवा	Van Dyke brown	Chem.	वान डाइक ब्रौन, वान डाइक ब्राउन
vampire	Zool. Geog.	रक्तजतुक पिशाच	vandyke	Chem., H.Sc.,Geog.	वैन्डाइक
Vampyrella	Zool.	वैम्पाइरेला	Vandyke Brown		वैन्डाइक ब्राउन
Vampyrum (Vampyrus)	Zool.	वैम्पाइरम (वैम्पाइरस)	Vandyke edge		वैन्डाइक किनारी
vanadate	Chem.	वैनेडेट	Vandyke operator		वैन्डाइक प्रचालक
vandadic	Chem.	वैनेडिक	Vandyke print		वैन्डाइक प्रिंट
vanedic acid		वैनेडिक अम्ल	Vandyke process		वैन्डाइक प्रक्रम
vanadinite	Geol.	वैनेडिनाइट	Vandyking	Geog.	वैन्डाइकन
vanadium	H.Sc., Chem.	वैनेडियम	vane	Zool.	पिच्छ-फलक, पंख, पंखुड़ी
vanadium bronze		वैनेडियम कांस्य	vane feeder	Chem. (Fert.)	वेन आभरक
vanadium steel		वैनेडियम इस्पात	Vanellus indicus	Zool.	वैनेलस इन्डिकस (टिटीरी)
vanado	Chem.	वैनेडो	Vanellus malabaricus		वैनेलस मालाबैरिकस (जिर्दी)
vanadocyte	Zool.	वैनेडियम कोशिका	vane sheet		पिच्छ चांदर
vanadous compound	Chem.	वैनेडस यौगिक	vene-type draught gauge	Chem.	पिच्छलकी वातप्रवाह-मापी
vanadyl	Chem.	वैनेडिल			
Van Arkel rule	Chem.	वेन आर्केल नियम			
vanceometer	Chem. (Paper)	वैन्सिलोमीटर			
vancymycin hydrochloride	Chem.	वैन्कोमाइसिन हाइड्रोक्लोराइड			

vane-type instrument		पिच्छ-प्ररूप यंत्र	Van't Hoff's law of mobile equilibrium	Chem.	वान्ट हॉफ़ चल साम्यावस्था नियम
"Vangils" cell	Chem	"वैन्जिलस सेल"	V-antigen	Zool.	वी-अन्तिजन
vanier tube		वैनियर नली, वैनियर नलिका, वैनियर नाल	Van Vleck paramagnetism	Phy	फ्रानक्लेक पराचुम्बकत्व, फ्रानक्लेक अनुचुम्बकत्व
Vanilla	Bot ,H Sc.	वैनिला	vapeur	H Sc	वैप्पूर
Vanilla planifolia	Bot.	वैनिला प्लेनिकोलिया	vapo print	Geog.	वापो प्रिन्ट
vanilla sugar		वैनिल शर्करा	vaporimeter	Geol	वाष्पमापी
vanillic acid	Chem Bot.	वैनिलिक अम्ल	vaporisation	Phy	वाष्पन
vanillin	H Sc.	वैनीलिन	vaporisation calorimeter		वाष्पन ऊष्मामापी
vanillism	Zool.	वैनिलता	vaporisation curve		वाष्पन वक्र
vanish	Phy ,Math	लुप्त होना, शून्य होना	vaporiser	Chem ,Zool	वाष्पित्र
vanishing line	Phy ,Math	लोपी रेखा	vaporlite process	Chem (Paint )	वेपोलाइट प्रक्रम
vanishingly small	Chem ,Phy	सुप्यमान अल्प	vapour	Chem ,Phy Geog	वाष्प
vanishing man concept		मानवलोपी संकल्पना	vapour bonnet		वाष्प टोपी
vanishing point		लोपी बिन्दु	vapour cleaning compound		वाष्प निर्मूलक यौगिक
vanishing series		लोपशील श्रेणी	vapour-compression machine		वाष्प संपीड प्रशीतित
vanishing velocity		लोपी वेग	vapour degreasing		वाष्प विघीहन, वाष्प निस्लेहन
vanity effect		आत्मोल्लास प्रभाव	vapour density		वाष्प घनत्व
Van Laar's equation		वान लार समीकरण	vapour epitaxy		वाष्प अधिरोहन, एपीटेक्सी
Van Mater sampler	Geol.	वानमार्टेर प्रतिदर्शित्र	vapour galvanizing		वाष्प जस्तारोपण
van mohair	H Sc.	वान मोहैर	vapour heating		वाष्पीय तापन
vannal fold	Zool	पखाभिक चलन	vapour lock		वाष्प बन्ध
vanner	Geol.	वैनर	vapour phase		वाष्प कला
vanning	Chem , Geol	वैनन	vapour phase chromatography	Phy.	वाष्प प्रावस्था क्रोमेटोग्राफी
vanning jig	Geol.	वैनिय जिग	vapour phase gum		वाष्प प्रावस्था गोंद
vanning plaque		वैनन फलक	vapour-phase hydrodesulphurisation		वाष्प प्रावस्था हाइड्रोसल्फुरेशन
vannus	Zool	वैनस, पखाभिका	vapour-pressure curve		वाष्प दाब वक्र
Van Ruymbeke process	Chem. (Point )	वान रुयेबेके प्रक्रम	vapour pressure thermometer		वाष्पदाबी तापमापी
Van Slyke apparatus	Chem.	वान् स्लाइक उपकरण	vapour recovery unit		वाष्प पुनः प्राप्ति एकक
vanstoning	Chem (Met.)	वैन्स्टोनिंग			
Van Tongeren cyclone	Geol.	वान टांगेरेन साइक्लोन			
Van't Hoff's factor		वान्ट हॉफ़ गुणांक			



vapour tension		वाष्प दाब	variable electro-valency	परिवर्ती वैद्युत् संयोजकता
vapour trap		वाष्प ट्रैप, वाष्प पात्र	variable field	चर क्षेत्र
vava	Geog.	वारा	variable field addressing	चर क्षेत्र पताभिगमन
varactor (= varicap)	Phy.	वैरेक्टर, वैरिक्प	variable flexural rigidity	परिवर्ती ध्यानमनी दृढ़ता
Varanosaurus	Zool.	वैरेनोसौरस	variable impact testor	चर संघट्टन निकपित्र
Varanus	Zool.	वैरेनेस	variable length code	चर लंबाई कूट
Varanus flavescens		वैरेनेस फ्लैवेसेंस	variable mass	चर द्रव्यमान
Varanus monitor		वैरेनेस मॉनीटर	variable mass system	चर द्रव्यमान निकाय
Varanus nobulosus		वैरेनेस नेब्यूलोसस	variable motion	चर गति, परिवर्ती गति
Varanus salvator		वैरेनेस साल्वेटर	variable multivibrator	परिवर्ती बहुकंपित्र
Vararia	Bot.	वैरेरिया	variable mu ( $\mu$ ) tube	परिवर्ती म्यू ( $\mu$ ) नलिका
vardarac	Geog.	वारडारेक	variable nebula	परिवर्ती नीहारिका
varec		वैरेक	variable of integration	समाकलन चर
variability	Math., Biol., Geog.	परिवर्तनशीलता, परिवर्तितता	variable parameter	चर प्राचल
variability of flow		प्रवाह-परिवर्तनशीलता	variable pharynx	परिवर्तीय ग्रसनी
variable	Phy., Geog.	1. परिवर्तनशील, परिवर्ती	variable pitch propeller	चर अंतराल नोदक
	Math.	2. चर	variable processing time	चर प्रक्रमन काल
variable acceleration		चर त्वरण	variable proper motion	चर निष्ठी गति
variable address	Phy.	रूपान्तरित पता	variable reluctance seismograph	परिवर्ती प्रतिष्टम्भ भूकंपलेखी
variable area exhaust nozzle		चर निकास-रेचक नाजल	variable reluctance transducer	परिवर्ती प्रतिष्टम्भ ट्रांसड्यूसर
variable area track		चर क्षेत्र पथ	variable resistance	परिवर्ती प्रतिरोध
variable block		चर ब्लॉक	variable rhythm	अनियमित लय
variable condenser		परिवर्ती संधारित्र	variable sampling fraction	परिवर्ती प्रतिचयनानुपात
variable criterion		चर निकप	variable scale	परिवर्ती मापनी
variable cycle operation		चर चक्रीय संक्रिया	variable section	चर परिच्छेद
variable density recording		चर घनत्व अभिलेखन	variables of state	अवस्था चर
variable density track		चर घनत्व पथ	variable species	परिवर्तनीय जाति
variable discriminator transducer		परिवर्ती विविक्तकर ट्रांसड्यूसर	variable speed	चर चाल
variable elasticity		परिवर्ती लोच	variable speed scanning	परिवर्ती चाल क्रमवीक्षण
variable electromotive force		परिवर्ती विद्युत् बाहक बल	variable-speed stirrer	परिवर्ती-चाल विलोडक

variable spring characteristic		परिवर्ती कमानी अभिलक्षण	variational method		विचरण विधि
variable star	<i>Math</i>	चरकानि तारा	variational principle		विचरणात्मक नियम
variable state problem		चर दशा समस्या	variational tide		विचरण-ज्वारा भाटा
variable subgroup		चर उपसमूह	variation compass		परिवर्तन दिक्चुचक
variable subgroup size		चर उपसमूह आमाण	variation diagram		विभिन्नता आरेख
variable transformer		परिवर्ती ट्रांसफॉर्मर	variation equation		विचरण समीकरण
variable valency		परिवर्ती संयोजकता	variation iteration method		विचरण पुनरावृत्ति विधि
variable velocity		चर वेग	variation of n-th order		n-कोटि का विचरण
variable weather		परिवर्ती मौसम	variation of parameter		प्राचन विचरण
variable width recording		परिवर्ती चौड़ाई अभिलेखन	variation of species		स्पीशीज-विभिन्नता
variable wind		परिवर्ती पवन	variation principle		विचरण नियम
variable word	<i>Phy.</i>	अनियत शब्द	variation ratio		विचरण अनुपात
variac	<i>Phy</i>	वेरिएक	varicap (=varactor)	<i>Phy.</i>	वैरेक्टर, वैरिक्टर
variac transformer		वेरिएक ट्रांसफॉर्मर, वैरिएक परिणामित्र	varicella	<i>Zool.</i>	छोटो माता, वैरिसेला
variamine blue	<i>Chem.</i>	वैरिऐमीन नील, वैरिऐमीन ब्लू	varicellate	<i>Zool</i>	कुटककीय
variance	<i>Math.</i>	प्रसरण	varicose vein	<i>Geol</i>	स्कोउ किरा
variance component		प्रसरण घटक	<i>Varicosporium elodeae</i>	<i>Bot</i>	वैरिक्कोस्पोरियम एलोडी
variance-covariance matrix		प्रसरण-सहप्रसरण आव्यूह	varicoupler	<i>Phy.</i>	परिवर्ती युग्मक
variance estimate		प्रसरण आकलन	(= variocoupler)		
variance matrix		प्रसरण आव्यूह	variegated	<i>Bot, Geol, Zool</i>	शबन, शबलित
variance ratio	<i>Chem</i>	प्रसरण अनुपात	variegated dice	<i>Chem. (Paint)</i>	कबूतर पाखा
variance technique		प्रसरण प्रविधि	variegation		शबनता
variant	<i>Math.</i>	परिवर्त	varietal cotton map	<i>Geog.</i>	विविध रूपान मानचित्र
variate	<i>Math</i>	विचर	varietal susceptibility	<i>Bot.</i>	उपजातीय सुषाहता
variate atom equipment		विचर परमाणु समबिन्दु	variety		1. विभ्र 2. उपजाति, वैराइटी 3 (Math) उपसमष्टि
variate difference method		विचरांतर विधि	varigradation	<i>Geog.</i>	बहुवेदीभवन
variate differencing		विचर अंतरण	varigraph	<i>Geog.</i>	वैरीग्राफ
variation		विभिन्नता, विविधता, परिवर्तन विचरण	varigraph template		वैरीग्राफ फर्मा
	<i>Math</i>		varilifolius	<i>Bot.</i>	विविध पर्णा
variational curve		विचरण वक्र	vaag permeameter	<i>Chem. (Met)</i>	वैरिमेय वाटरगम्यतामापी
variational derivative		विचरणो व्युत्पन्न			

varinas	<i>H.Sc.</i>	वैरिनस	varying probability		परिवर्ती प्रायिकता
varicoupler	<i>Phy.</i>	परिवर्ती युग्मक	varying stress		परिवर्ती प्रतिबल
variolation	<i>Zool.</i>	मसूरिकाकरण, वैरिओलेशन	vary with	<i>Math.</i>	के साथ साथ बदलना
variola virus	<i>Zool.</i>	वैरिओला विषाणु	varzea	<i>Geog.</i>	वर्द्धिया
variole	<i>Geol.</i>	वैरिओल	vascular	<i>Bot.,Zool.</i>	संवहनी
variolite	<i>Geol.</i>	वैरिओलाइट	vascular bundle		संवहन पूल, संवहन बंडल
variolithic		वैरिओलाइट	vascular cylinder		संवहन सिलिन्डर
variolithic structure		वैरिओलाइट संरचना	vascular disease		संवहन तंत्र रोग
variolitization	<i>Geol.</i>	वैरिओलाइटन	vascularisation	<i>Bot.,Zool.</i>	संवहनीभवन
variometer	<i>Phy.</i>	परिवर्ती प्रेरकत्व, वैरिओमीटर	vascularity	<i>Zool.,Chem.</i>	1. संवहनता 2. वाहिकामयता
variplotter	<i>Phy.</i>	स्वतः आलेखित्र, वैरीप्लॉटर	vascularized ctenidium	<i>Zool.</i>	वाहिकायित कंकतबल्लोम
Variscan orogeny	<i>Geog.</i>	वरिस्कन-पर्वतन	vascular tissue		संवहन ऊतक
variscite	<i>Geol.</i>	वैरीसाइट	vascular trabeculae		संवहन संबंधक
varistor	<i>Phy.</i>	वैरिस्टर, चररोधक	vascular wilt		संवहन-तंत्रज म्लानि
varix		उत्कृष्ट	vasculature	<i>Bot.</i>	संवहन-न्यास
varnish	<i>Chem.,Geog.</i> <i>H.Sc.</i>	वानिश, वानिश करना	vasculum	<i>Zool.</i> <i>Bot.</i>	सधुवाहिका वैस्कुलम
varnish cooking	<i>Chem.</i>	वानिश पाचन	vas deferens	<i>Zool.,</i> <i>H.Sc.</i>	शुक्रवाहक
varnish remover	<i>Chem.</i> <i>(Paint)</i>	वानिश अपनायक	vase	<i>Geog.</i>	पात्र, बर्तन
var. nov.	<i>Bot.</i>	नव प्रभेद	vas efferens	<i>Zool.</i>	शुक्रवाहिका
<i>Varuna litterata</i>	<i>Zool.</i>	वरुणा लिटरेटा	vaseline		वैसलिन
varve	<i>Geol.,Geog.</i>	अनुवर्षस्तरी, चावं	vasicentric	<i>Bot.</i>	वाहिकाकेन्द्री
varved clay		अनुवर्षस्तरी मृत्तिका, चावं मृत्तिका	vasicentric parenchyma		वाहिकाकेन्द्री मृदुलक
varved schist		चावं-शिस्ट	vasicentric tracheid		वाहिकाकेन्द्री वाहिनिका
varved sediment		अनुवर्षस्तरी अवसाद	vasicine	<i>Chem.</i>	वैसिसीन
varvity	<i>Geol.</i>	चावंता	vasifactive	<i>Zool.</i>	वाहिकाजन
vary	<i>Math.</i>	परिवर्तित होना, विचरित होना	vasiform orifice	<i>Zool.</i>	वाहिकारूप रंध्र
vary directly as	<i>Math.</i>	का अनुक्रमानुपाती होना	vasoconstrictor	<i>Zool.</i>	वाहिका संकीर्णक
vary indirectly as		का व्युत्क्रमानुपाती होना	vasodentine	<i>Zool.</i>	वासोडेन्टीन
varying	<i>Math.</i>	परिवर्ती	vasodilation	<i>Chem.</i>	वाहिनी विस्फारण
varying couple		परिवर्ती बल-युग्म	vasodilator	<i>Chem.,Zool.</i>	वाहिकाविस्फारक
varying force		परिवर्ती बल	vasoganglion	<i>Zool.</i>	वाहिकागुच्छिका
varying interval prediction		परिवर्ती अंतराल प्रागुक्ति	vasomotor mechanism	<i>Zool.</i>	वाहिकाप्रेरक क्रियाविधि
			vaso-motor nerve	<i>H.Sc.</i>	वाहिकाप्रेरक तन्त्रिका

vasomotor system		वाहिकाप्रेरक तंत्र	vector addition	सदिश योग
vasoperitoneal	Zool.	वाहिकापर्युदर्याई	vector algebra	सदिश बीजगणित
vasopressin	Zool ,Chem	वैसोप्रेसिन	vector alienation coefficient	सदिश विसवध गुणांक
vaspar	Bot.	वैस्पार	vector analysis	सदिश विश्लेषण
vasquine	H Sc.	वाक्क्वीन	vector calculus	सदिश कलन
vassal	Geog	सामन्त, पराधीन देश	vector character	सदिश अभिलक्षण
vassal court		सामन्त कोर्ट	vector component	सदिश घटक
vastus intermedius	H Sc	मध्य बृहदिका	vector composition	सदिश संयोजन
vastus lateralis		पार्श्व बृहदिका	vector correlation coefficient	सदिश सहसंबंध गुणांक
vastus medialis		अभिमध्य बृहदिका	vector curvature	सदिश वक्रता
vaszon	H Sc.	वैसजोन	vector deflation	सदिश अपस्फीति
vat	Geog ,H Sc	कुड, वैट	vector density	सदिश घनत्व
vat dye	Chem ,H Sc.	वैट रजक	vector derivative	सदिश अवकलन
Vateria indica	Bot	वैटेरिया इन्डिका	vector diagram	सदिश आरेख
vaterite		वाटेराइट	vector dipole moment	सदिश द्विध्रुव आघूर्ण
Vatica lanceaeifolia	Bot.	वैटिका लेन्सोफोलिया	vector division	सदिश-भाजन
Vaucheria	Bot,	वौकैरिया	vector efficiency	रोगवाहक दक्षता
Vaucheriaceae		वौकैरिएसी	vector field	सदिश क्षेत्र
Vauceria hamata		वौकैरिया हैमेटा	vector flux	सदिश अभिवाह
Vaucheriales		वौकैरिएलीज	vector function	सदिश फलन
Vaucheria sessilis		वौकैरिया सैसिलिस	vectorial angle	सदिश कोण
vaucuse spring	Geol.	चूनाश्म प्रणाल-स्तरना	vectorial fabric data	सदिश सविन्यास उपात
vauculian spring	Geog	चूनाश्म प्रणाल स्रोत	vectorially	सदिश विधि से, वेक्टरी विधि से
vault	Geog	शव-कक्ष	vectorial property	सदिश गुण
vaulted chamber	Geol	महारावी कक्ष	vectoring error	सदिश त्रुटि
vault of skull	H Sc.	करोटि चापछद	vectoring equipment	सदिश समाकलन
vauquelinite	Chem. (Met)	वौक्लिनाइट	vector integration	सदिश कुञ्जिका
V-drag scraper	Geog	V-वर्षण-स्क्रेपर	vector key	सदिश आसक
veal	H Sc.	गोव-समास	vector lattice	सदिश रेखा
veatchine	Chem	वीट्चोन	vector line	वेक्टर मॉडल, सदिश मॉडल
V-beam	Phy.	V-किरण पुंज	vector model	सदिश गुणन
V-beam radar		V-किरण पुंज रेडार	vector multiplication	स्वातन्त्र सदिश
vectograph	Phy ,Geog.	दिक्लेखी, वैक्टोग्राफ	vector of translation	
rectolite	Phy.	वैक्टोलाइट		
vector	Math ,Phy.	1. सदिश, वेक्टर		
	Biol.	2. रोगवाहक, वेक्टर		

vector operator		वेक्टर संकारक, सदिश संकारक	vegetable char		वनस्पतिअंगार, वनस्पति आदग्ध काल
vector ordering		सदिश क्रमीकरण	vegetable charcoal		वनस्पति कोयला
vector polygon		सदिश बहुभुज	vegetable decoction		वनस्पति क्वाथ
vector potential		सदिश विभव	vegetable dye		वनस्पति रंजक
vector product		सदिश गुणनफल	vegetable fat		वनस्पति तेल, वनस्पति स्नेह
vector proper function		सदिश उचित फलन	vegetable fibre		वनस्पति तंतु
vector quantity		सदिश राशि	vegetable flannel		वनस्पति फलालेन
vector ratio		सदिश अनुपात	vegetable juice		शाक रस
vector space		सदिश समष्टि	vegetable kingdom		वनस्पति जगत
vector space method		वेक्टर आकाश विधि, सदिश आकाश विधि	vegetable matter		वनस्पति द्रव्य
vector specificity		रोगवाहक विशिष्टता	vegetable plate		शाक प्लेट
vector subtraction		सदिश व्यवकलन	vegetable poison		वनस्पति-विष
vector sum		सदिश योग	vegetable presser		शाक दावक
vector to enter basis		आधार प्रवेशी सदिश	vegetable protein		वनस्पति प्रोटीन
vector to leave basis		आधार त्यागी सदिश	vegetable rot		शाक विगलन
vector triangle		सदिश त्रिभुज	vegetable shortening		वनस्पति चिकनाई
vector tube		सदिश नलिका	vegetable silk		वनस्पति रेशम
vector valued form		सदिश मान रूप	vegetable soil		वनस्पति मृदा
vector wave equation		सदिश तरंग समीकरण	vegetable tanning		वनस्पति से चमड़ा बनाना
vedda	<i>Geog.</i>	वेड्डा	vegetal association	<i>Geog., Biol.</i>	वानस्पतिक सहवास
Vedic group	<i>Geol.</i>	वैदिक शैलसंघ	vegetal discharge		वानस्पतिक विसर्जन
Vee joint	<i>Chem. (Met.)</i>	वी सन्धि	vegetal matter		वनस्पति-पदार्थ
veering	<i>Phy.</i>	दिक्घूर्णन	vegetal mould		वनस्पति-फफूदी
veering wind	<i>Geog.</i>	दक्षिणावर्त पवन	vegetal pole	<i>Zool.</i>	अल्पक्रिय ध्रुव
*Vega (= $\alpha$ Lyrae)	<i>Astron.</i>	अभिजित, वेगा (= $\alpha$ लाइरी)	vegetal soil	<i>Geog.</i>	वनस्पति-मृदा
Vega	<i>Geog.</i>	वेगा	vegetarian	<i>H.Sc.</i>	शाकाहारी
Vegard's law		वैगर्ड नियम	vegetarian food		शाकाहारी भोजन
vegetable	<i>Bot. H.Sc.</i>	वनस्पति शाक	vegetation	<i>Bot., Geog.</i>	वनस्पति, पेड़ पौधे
vegetable acid	<i>H.Sc., Chem., Bot.</i>	वनस्पति अम्ल, वनस्पति एसिड	vegetational area		वानस्पतिक क्षेत्र
vegetable alkali		वनस्पति क्षार	vegetational type		वानस्पतिक प्ररूप
vegetable black		वनस्पति काल	vegetational unity		वानस्पतिक एकता
vegetable butter		वनस्पति मक्खन	vegetation belt		वानस्पतिक-मेखला
			vegetation cover		वनस्पति आवरण
			vegetation guide		वास्तविक गाइड
			vegetation map		वनस्पति मानचित्र

vegetation of salt	<i>Geol.</i>	सवण गुच्छन
vegetation type		वनस्पति-श्रृंखला
vegetation zone	<i>Bot.</i>	वानस्पतिक महल
vegetative barrier		वनस्पति रोध
vegetative body		वर्धिकाय
vegetative canopy		वनस्पति वितान
vegetative cell	<i>Bot., Zool.</i>	कायिक कोशिका
vegetative coenobium	<i>Bot.</i>	अलैंगिक समूह
vegetative cover		वनस्पति आवरण
vegetative eurythermy	<i>Zool.</i>	कायिक अघितापता
vegetative form		वनस्पति रूप
vegetative growth		वनस्पति वृद्धि
vegetative mulch		वनस्पति पलवार
vegetative pole	<i>Zool.</i>	अत्यधिक ध्रुव
vegetative propa- gation	<i>Bot.</i>	कायिक प्रवर्धन
vegetative repro- duction	<i>Biol.</i>	हायिक जनन
vegetative steno- thermy	<i>Zool.</i>	कायिक तनुतापता
vegetative virus	<i>Bot.</i>	वर्धनशील वाइरस, वर्धनशील विषाणु
vehicle	<i>Chem. (Paint)</i>	माध्यम
vehicular traffic	<i>Geog.</i>	यानीय यातायात
veil	<i>Biol.</i>	गुठिका
veiling	<i>Chem. (Paint)</i>	अवगुहन
veil nebula	<i>Math.</i>	अवगुहन नोहारिका
vein	<i>H.Sc., Geol. Zool.</i>	शिरा
veinal mosaic		शिरा किमीर
veinal necrosis virus		शिरा ऊनकक्षयी विषाणु
vein banding		1. शिरा पट्टन 2. शिरा पट्टामता
vein clearing		शिरा उद्भासन, शिरा स्पष्टता
vein chlorosis virus		शिरा हरिमाहीनता विषाणु

vein distorting virus		शिराविरूपक विषाणु
veined structure	<i>Geog.</i>	शिरामय संरचना
veining	<i>Geog., Chem.</i>	शिरायन
veinlet	<i>Bot., Zool., Geol.</i>	शिरिका
vein lode		शिरा-निक्षेप
vein matter		शिरा द्रव्य
vein spacing		शिरान्तरालन
veinstone		शिराप्रस्तर
veinstuff		शिराशैलद्रव्य
vein twisting		शिरा व्यावर्तन
vein yellowing		शिरा पीठीभवन
<i>Vejovis boreus</i>	<i>Zool.</i>	वेजोविस बोरियस
vel	<i>Chem.</i>	वेल
*Vela	<i>Astron.</i>	वेला
velamen	<i>Bot.</i>	आर्द्रनासाही गुठिका, वेलामेन
velan	<i>H.Sc.</i>	वेलान
velans	<i>Bot.</i>	वेलानस
velar consonant	<i>Phy.</i>	मुडु तानव्य व्यञ्जन
velar dimorphism	<i>Geol.</i>	गुठिका द्विरूपता
velar pouch		गुठिका कोष्ठ
velarium	<i>Zool.</i>	विच्छदक
velar plate	<i>Zool.</i>	विच्छद पट्टिका
velar plosive	<i>Phy.</i>	मुडु तानव्य स्पर्श
velar tentacle	<i>Zool.</i>	वेनस स्पर्शक, विच्छद स्पर्शक
velate	<i>Zool.</i>	विच्छादित
velate ridge	<i>Geol.</i>	गुठिकामय कटक
velate structure		गुठिकामय संरचना
velcro	<i>H.Sc.</i>	वेलक्रो
veld	<i>Geog., Bot.</i>	वेल्ड
Verella	<i>Zool.</i>	वेनेला
veliger larva	<i>Zool.</i>	वेलीजर द्विभ्रम
yellow process	<i>Chem.</i>	वेलेो प्रक्रम

vellum	<i>Geog.</i> <i>H.Sc.</i>	1. चर्मपत्र 2. वेलम	velocity moment ellipsoid	वेगाघूर्ण दीर्घवृत्तज
vellus		द्वितीयक रोम	velocity moment tensor	वेगाघूर्ण प्रदिश
velmo	<i>H.Sc.</i>	वेलमो	velocity number	वेग संख्या
velocimeter	<i>Phy.</i>	वेगमापी	velocity of approach	उपगमन वेग
velocity	<i>Phy., Math.</i>	वेग	velocity of efflux	वहिनःलाव वेग
velocity broadening		वेग विस्तरण	velocity of center of gyration	परिभ्रमण केन्द्र का वेग
velocity coefficient		वेग गुणांक	velocity of circulation	परिसंचरण वेग
velocity component		वेग घटक	velocity of detonation	विस्फोटन वेग
velocity compounding		वेग संयोजन	velocity of escape	पलायन वेग
velocity constant		वेग स्थिरांक	velocity of propagation	संचरण वेग
velocity curve		वेग वक्र	velocity of reaction	अभिक्रिया वेग
velocity density		वेग घनत्व	velocity of rotation	घूर्णन वेग
velocity dispersion		वेग विक्षेपण	velocity of separation	अपगमन वेग
velocity distribution		वेग वितरण, वेग वंटन	velocity of translation	स्थानांतरण वेग
velocity distribution function		वेग वितरण फलन	velocity pitch	आरोहावरोही वेग
velocity ellipse		वेग दीर्घवृत्त	velocity pitch angle	आरोहावरोही वेग कोण
velocity ellipsoid		वेग दीर्घवृत्तज	velocity point	वेग बिंदु
velocity equation		वेग समीकरण	velocity potential	वेग विभव
velocity estimate.		वेग आकलन	velocity pressure	वेग दाब
velocity factor		वेग गुणांक	velocity profile	वेग प्रोफाइल
velocity feed back		वेग पुनर्भरण	velocity rate	वेग गणनांक
velocity filter		वेग फिल्टर	velocity ratio	वेगानुपात
velocity focussing		वेग-क्रोकसन	velocity resonance	वेग अनुनाद
velocity from infinity		अनन्तागत-वेग	velocity roll	वेल्ली वेग
velocity four vector		वेग चतुर्विम सदिश	velocity roll angle	वेग वेल्लन कोण
velocity function		वेग फलन	velocity selector	वेग वरणकारी
velocity gradient		वेग प्रवणता	velocity selector mass spectrograph	वेग वरण द्रव्यमान स्पेक्ट्रमलेखी
velocity-head		वेग शीर्ष	velocity shock	वेग धक्का
velocity jump		वेग प्लुति	velocity space	वेग समष्टि, वेग आकाश
velocity limiting servo		वेग सीमित सर्वो	velocity spectrum	वेग स्पेक्ट्रम
velocity locus		वेग-म्य	velocity sphere	वेग गोला
velocity microphone		वेग माइक्रोफोन	velocity spread	वेग प्रसर
velocity modulated amplifier		वेग मॉडुलित प्रवर्धक	velocity thrust	वेग प्रणोद
velocity modulated tube		वेग मॉडुलित नलिका	velocity time curve	वेग समय वक्र
velocity modulation		वेग मॉडुलन		

velocity time graph		वेग समय ग्राफ	velvet rug		मखमली रग
velocity time relation		वेग समय संबंध	velvet satin		मखमल साटन
velocity variation amplifier		वेग मॉडुलित प्रवर्धक	vena arcuata	Zool.	वेना आर्कुएटा, चाप्रीय शिरा
velocity vector		वेग सदिश	vena cava	H Sc., Zool	महाशिरा
velocity yaw	Math.	प्रविक्षित वेग	vena contracta	Math.	जेट संरचना
velocity yaw angle		प्रविक्षित वेग कोण	vena dividens	Zool.	वेना डिविडेन्स, विभाजक शिरा
velon	H Sc.	वेलॉन	venae comitans	H Sc	सहचरी शिराएं
Velorita cochiniensis	Zool	वेलोरिटा कॉकिनेन्सिस	venae externae	Bot	बाह्य शिरा
Velorita cyprinoides		वेलोरिटा सिप्रिनॉइडीज	venation	Bot, Geol, Zool	शिराविन्यास
velour	H.Sc.	वेलुर	venational patterns		शिराविन्यासी प्रतिरूप
velour finish		वेलुर परिष्कृति	vendaval	Geog.	वेंडावाल (तडिन् मझा)
velum	Bot, Zool	धीलम, गुठिका, विच्छद	vendavales	Geog.	वेंडावेल्स (सीत्र पवन)
velum marginale	Bot.	तट गुठिका	vendetta	Geog.	कुलदैर
velum palati	Zool.	तालु विच्छद	vendor	Geog.	विक्रेता
velum partiale	Bot.	अध गुठिका	veneer	Chem, Geog, Geol H Sc.	1. शलन 2. पृष्ठावरण 3. बेनियर
velum primordiale		आद्यगुठिका	veneered hill	Geog, Geol	पृष्ठनेवित पहाड़ी
velum transversum	Zool	अनुप्रस्थ विच्छद	venercing thrusts	Geol.	शल्कीक्षेप भ्रम
velum universale	Bot.	परिगुठिका	venenation	Zool.	जीवियीकरण
velure		वेल्यूर	venenatus	Bot.	विषैला, विषाक्त
velutine	H.Sc.	वेल्यूटाइन	veneniferous	Bot.	विषघर
velutinous	Bot.	मखमली	veneration		परमादर, समादर
velveret	H Sc.	वेल्वेरेट	venericardia		वेनरीकार्डिया
velvet	H Sc.	मखमल	Venericardi pectuncularis		वेनरीकार्डिया पेक्टनकुलरिस
velvet ant	Zool	मखमली बरें	Venericardia planticosta		वेनरीकार्डिया प्लेनोकोस्टा
velvet bean		मखमली क्षेम	venetian	H.Sc.	वेनिसी
velvet black		मखमली काला	Venetian blue		वैनिमी नीला, रोबाल्ट नीला
velveteen	Chem. (Paint)	वेलवेटीन	venetian carpet		वेनिसी कार्पेट
	H Sc.	मूनी मखमल, नरली मखमल	venetian crape		वेनिसी क्रेप
velveteen stamp	Bot	वेल्वेटीन मुद्राक	venetian embroidery		वेनिसी बसीदाफाटी
velvet finish		मखमल परिष्कृति			
velvet lamp back		मखमली दीप काज			



venetian red		वेनिसी रेड, वेनिसी लाल (वर्णक)	ventilation control		संवातन नियंत्रण
Venetian white		वेनिसी श्वेत	ventilation shaft		संवातन नाल
veniplex	Zool.	शिराजालक	ventilatorius	Bot.	व्यजनरूप
venison	H.Sc.	मृगमांस, हिरण मांस	ventile	H.Sc.	वेन्टाइल
venise	H.Sc.	वेनाइज	ventilette.	H.Sc.	वेन्टीलेट
venite	Geol.	वेनाइट	venting	Chem. (Fert)	निकासन, निष्कासन
venn diagram	Math.	वेन वारेख	ventrad	Geol., Zool., Bot.	अधरोन्मुख
Venezuelan equine encephalitis (VEE)	Zool.	वेनेजुली अश्वीय मस्तिष्कशोथ	ventral	Zool. Bot. H.Sc.	अधर अभ्यक्ष अभ्युदर
venom	Zool.	विष, जहर जीविष (जीवविष)	ventral abdominal artery		अधर उदरीय धमनी
venom apparatus	Zool.	जीविषालु अंग	ventral abductors		अधरीय अपवर्तनी
venom gland		जीविषालु ग्रंथि	ventral aorta		अधर महाधमनी
venomosalivary		जीविषलारीय	ventral aortic root		अधर महाधमनी मूल
venomous	Zool.	जीविषालु	ventral basal muscle		अधर लाघारी पेशी
venomousness	Zool.	जीविषालुता	ventral canal cell	Bot.	अंडघा नाल कोशिका
venom sac		जीविषालु कोश	ventral cephalic gland	Zool.	अधर शिरस्य ग्रंथि
venose	Bot., Zool.	शिराल	ventral cephalic vessel		अधरीय शिरस्य वाहिका
venous appendage	Zool.	शिरा उपांग	ventral cirrus		अधर कुरल
venous blood		शिरा रुधिर	ventral commissure		अधर संघ्रायी
venous circulation		शिरिय परिसंचरण	ventral diaphragm		अधरीय मध्यपट
venous sinus		शिरा विवर	ventral disc		अधर चिम्ब
venous system		शिरा तंत्र	ventral fin		अधर पख, अधर बाज
venous trunk		शिरा नाल	ventral fissure		अधर विदर
vent	Geol., Chem. Zool.	द्वार, मुख, निकास गुदद्वार; आसन	ventral flexor		अधर लाफोचनी
vent agglomerate		द्वार ज्वालाशमचय	ventral flexure		अधर आनमनी
vent air fan		निकास वायु पंखा	ventral foot	Zool.	पञ्च पाद
vent condenser		निकास संघनित	ventral foramina		अधर रंध्र
venter	Zool. Bot.	उदरक, तुंदक अंडघा	ventral gland		अधर ग्रंथि
venter initial cell		अंडघा आरंभिक कोशिका	ventral groove		अधर खांच
ventifact	Geol.	वायुघुष्टाश्म	ventral head gland		अधर शीर्ष ग्रंथि
Ventilago madraspatana	Bot.	वेन्टिलेगो मैद्रासपटना	ventral hinge bar		अधर हिन्ज बंद
ventilating current	Zool.	संवातन धारा	ventral limb		अधर शाखा
ventilation	Geol., Zool., H.Sc.	संवातन	ventral line		अधर रेखा
			ventral lip		अधर वर्ध...

ventral longitudinal muscle		अधर अनुदैर्घ्य पेशी	ventrolateral connective		अधरपार्श्व संयोजी
ventral nerve		अधर तंत्रिका	ventrolateral muscle field		अधरपार्श्व पेशी क्षेत्र
ventral nerve chain		अधर तंत्रिका शृंखला	ventromedial	Zool.	अधरमध्यस्थ
ventral nerve cord		अधर तंत्रिका रज्जु	ventromedian	Bot., Zool.	अधरमाध्य
ventral receptacle protrusors		अधर आधान बहि मारक	ventrosubmedian	Bot.	अधरउपमाध्य
ventral rib		अधर पर्शुका	ventro-tegumentary vessel	Zool.	अधरत्वक् वाहिका
ventral root		अधर मूल	ventro-ventral ray	Zool.	अधराधर किर
ventral shield		अधर कर्म	vents'd Autan	Geog.	वेंटम आटन, तीत्र शुष्कोष्ण पवन
ventral stolon		अधर देहाकुर	Venturia inaequalis	Bot.	वेन्चुरिया इनइक्वेलिस
ventral sucker	Zool.	पश्च चूपक	Venturi flowmeter		वैन्टुरी प्रवाहमापी
ventral suture		अधर सीवन	Venturi tube		वैन्टुरी नली
ventral sympathetic system		अधर अनुकम्पी तंत्र	venturimeter	Chem. (Food.)	वैन्टुरीमापी
ventral valve		अधर कपाट	vent tube	H Sc.	निकास नली
ventral vessel		अधर वाहिका	vent-valve	Phy.	निकास वाल्व
ventrianal		अधरगुद	vent wire	Chem. (Met.)	निकास तार
ventricle	H.Sc., Zool.	निलय, वैन्ट्रिकल	venule	Zool. Geol.	सूक्ष्मिका किरिका
ventricose (= ventricose)	Bot.	कुन्जाकार	venulose	Bot. Zool.	घनशिराल सूक्ष्मशिराल
ventricose gill	Bot.	पीन अरषट्ट, पीन गिल	Venus	Astron. Zool.	शुक्र, वीनस वीनस
ventricose	Bot.	कुन्जाकार	Venus casina		वीनस कॅसिना
ventricular aperture	Zool.	निलय रंध्र	venus girdle		वीनस मेथला
ventricular ganglion		निलय गुच्छिका	Venus gnida		वीनस गनाइडिआ
ventricular oesophagus	Zool.	पश्चत्रट्टरीय शक्तिवा	Venus's flower-basket	Zool.	वीनस पुष्प करण्ड
ventricular system		निलय तन्त्र	venustra	H Sc.	वीनस्ट्रा
ventricular valve		निलय कपाट	Venus verrucosa		वीनस वेरुकोसा
Ventriculites		वैन्ट्रिकुलाइटीज	veracevine	Chem.	वैरासिवाइन
ventriculus	Zool.	पश्चत्रट्टर	veractor diode	Phy.	वैरेक्टर डायोड
ventricumbent	Bot.	अधोमुखशायी	verano (= veranello)	Geog.	वैरेनो (शत्रु)
ventrodorsal	Zool.	अधरपृष्ठी	veratric acid	Chem.	वैरेट्रिक अम्ल, वैरेट्रिक ऐसिड
ventro-intestinal vessel	Zool.	अधर आत्र वाहिका	veratrole	Chem.	वैराट्रॉल
ventrolateral	Zool.	अधरपार्श्व			
ventrolateral adhesive tube		अधरपार्श्व असजी नलिका			

verbascope	Chem.	वर्वेस्कोस	vermicide	Zool.	कृमिनाशी
Verbascum	Bot.	वर्वेस्कम	vermicular	Bot.	कृमिरूप
<i>Verbascum thapus</i>		वर्वेस्कम थैपस	vermiculate	Chem., Bot.	कृमिल
Verbascum type		वर्वेस्कम प्ररूप	vermiculated	Zool.	लहरियादार, कृमिवत्
<i>Verbascum virgatum</i>		वर्वेस्कम वर्गैटम	vermiculation	Zool.	उर्मिचिह्नन
Verbenaceae	Bot.	वर्वीनेसी	vermicule	Zool.	कृमिक
rebrenaceous	Bot.	वर्वीनासम	vermiculite	Chem., Geog. (Met.)	वर्मिकयूलाइट
<i>Verbena officinalis</i>		वर्वीना आफीसिनेलिस	vermiculus	Zool.	कृमिक
verbenone	Chem.	वर्वीनोन	vermiform	Bot., Zool.	कृमिरूप
verdant canopy	Geog.	हरा वितान	vermiform appendix		कृमिरूप परिशेषिका
verdant oil	Chem. (Pet.)	वर्दन्ट तेल	vermiform bud		कृमिरूप कोरक
Verdet constant	Phy.	वैरडेट स्थिरांक	vermiform process		कृमिरूप प्रवर्ध
verdigris	Chem.	वर्दिग्रिस	vermifuge	Bot.	कृमिहर
verdigris-green		वर्दिग्रिस हरित	vermillion	Geol., Geog.	सिन्दूर
verdoglobin	Chem.	वर्दोग्लोविन	vermillion colour		सिन्दूरी रंग
verdohemim	Chem.	वर्दोहीमिन	vermillionette		वर्मिलिआनेट
verdohemoglobin	Chem.	वर्दोहीमोग्लोविन	vermin	H.Sc., Zool.	पीड़क जन्तु
verdoperoxidase	Chem.	वर्दोपराक्सीडेस	vermin control		पीड़क जन्तु नियन्त्रण
verel	H.Sc.	वेरेल	verminosis	Zool.	कृमिता
vergence	Phy.	सृति	vermiparous	Zool.	कृमिभ्रप्रज
virgin stock	Chem. (Pet.)	अक्षत संभार	vermis	Zool.	वर्मिस
'Verhakung'	Phy.	फैरहाकुंग	vernacular binomials	Zool.	देशी द्विपद
Verifax process	Chem.	वैरोफैक्स प्रक्रम	vernacular name		देशी नाम
verifiable	Math.	सत्यापनीय	vernacular term		देशी शब्द
verification		सत्यापन, जांच	vernal	Bot., Zool.	वसन्ती
verification survey	Geog.	पड़ताल सर्वेक्षण, जांच सर्वेक्षण	vernal aspect		वसन्त छवि
verifier	Geol.	सत्यापित, वेरीफायर	vernal bloom		वसन्त पुंज
verify		सत्यापित करना, जांच करना	vernal equinox		वसन्त विषुव, महाविषुव
veristron	Phy.	वैरिस्ट्रॉन	vernalis	Bot.	वसन्ती
Vermes	Zool.	वर्मोज	vernalization	Bot., H.Sc., Zool.	वसन्तीकरण
Vermetus	Zool.	वर्मेटस	vernal pool		वसन्त कुंड
vermeuil process	Geol.	वर्मैयूइल प्रक्रम	vernation	H.Sc., Bot.	किसलय-विन्यास
Vermicelli	Geog., H.Sc.	वर्मिसैल्ली	verneuil process	Chem.	वर्न्यूइल प्रक्रम
			vernier	Phy., Geog.	वर्नियर
			Vernier arm protractor		वर्नियर आर्म प्रोट्रैक्टर, वर्नियर भुज चांदा

vernier callipers		वनियर कैलिपर्स	versicolor	Bot.	वर्ण परिवर्ती
vernier condenser		वनियर सघारित्र	versicoloured	Zool.	शबलवर्णी
vernier constant		वनियर का अल्पतमक	versiera (=witch of Agensi)	Math.	आन्वेषिका, वसियरा
vernier protractor		वनियर कोणमापी, वनियर प्रोट्रक्टर	versine	Math.	शरज्या
vernier scale		वनियर स्केल, वनियर मापनी	versiform	Zool.	मुक्तरूपी
vernier-theodolite		वनियर थियोडोलाइट	versipalmus	Bot	विषमहस्ताकार
vernier-transit theodolite		वनियर ट्रांजिट थियोडोलाइट	Verson's cell	Zool.	वसंन कोशिका
vernolic acid	Chem	वर्नोलिक अम्ल	vertebra	Zool., H Sc	कशेरुक
Vernonia	Bot	वर्नोनिया	vertebral	Zool	कशेरुक-, कशेरुकी
Vernonia anthelmintica		वर्नोनिया एन्टहोलिन्टिका	vertebral artery		कशेरुक-धमनी
Vernonia cinerascens		वर्नोनिया साइनेरेसन्स	vertebral canal		कशेरुक-नाल
veronal		वैरोनैल	vertebral column		कशेरुक-दंड, मेरुदंड
Veronica	Bot.	वैरोनिका	vertebral count		कशेरुक-गणनाक
Veronica agrestis		वैरोनिका ऐग्रेस्टिस	vertebral foramen		कशेरुक-रंध्र
Veronica arvensis		वैरोनिका आर्वेन्सिस	vertebral formula		कशेरुक-सूत्र
Veronica cinerea		वैरोनिका साइनेरिया	vertebral nerve		कशेरुक-तंत्रिका
Veronica javanica		वैरोनिका जावानिका	vertebral ossicle		कशेरुक-अस्थिका
Veronica persica		वैरोनिका पर्सिका	vertebral rib		कशेरुक-पर्शुका
Veronica varilation		वैरोनिका विविधता	vertebral scale		कशेरुक-शल्क (मेरु शल्क)
verrou	Geog.	वैरी	(spinal scale)		
verruca	Zool, Bot.	मांसाकुर, कणक	vertebral vein		कशेरुक-धमनी
Verrucariaceae	Bot.	वैरुकैरिएसी	vertebrarterial canal		कशेरुक-धमनी नाल
Verrucaria maura		वैरुकैरिया माजरा	vertebrarterial foramen		कशेरुक-धमनी रंध्र
verrucosa type	Zool	वेरुकोरा प्ररूप, कुठवर्ष प्ररूप	vertebrate		कशेरुकी
verrucose	Bot.	क्रिमय	vertebration	Zool	कशेरुकायन
verruculine		वेरुकुलिता	vertex	Math, Phy.	शीर्ष
versant	Geol., Geog.	गिरिपार्वत, बरसेट,	vertex direction		शीर्ष दिशा
versatile	Bot	मुक्तदोनी	vertex feed		शीर्ष निवेश
versatile reagent	Chem.	सर्वतोमुखी अभिकर्मक	vertex of a pencil		कूचिका-शीर्ष
versed cosine	Math	तर्कोज्या	vertex of involuton		अवर्तन-शीर्ष
versed sine	Math.	शरज्या	vertex of projection		प्रक्षेप-शीर्ष
versene	Chem.	वर्सिन	vertical		(adj.) ऊर्ध्वधर, उदय, अध, ऊर्ध्व
			vertical acceleration		(n.) उद्भूत, ऊर्ध्वधर रेखा
					ऊर्ध्वधर त्वरण

vertical accretion	ऊर्ध्वाधर अभिवृद्धि	vertical height	ऊर्ध्वाधर उच्चता, खड़ी ऊंचाई
vertical aerial photograph	ऊर्ध्वाधर वायवी फोटोग्राफ	vertical hold	ऊर्ध्वाधर नियन्त्रण
vertical angle	<i>Math.</i> शीर्ष कोण	vertical illumination	ऊर्ध्वाधर प्रदीप्ति
vertical array	ऊर्ध्वाधर सारणी	vertical incidence record	ऊर्ध्व आपतन अभिलेख
vertical attrition mill	उदग्र संनिघर्षण मिल	vertical interval	ऊर्ध्वाधर अन्तराल
vertical axis	उदग्र अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष	vertical light	ऊर्ध्वाधर प्रकाश
vertical bar	उदग्र दंड	vertically opposite angle	<i>Math.</i> शीर्षाभिमुख कोण
vertical blanking pulse	ऊर्ध्वाधर लोपक स्पंद	vertical magnetometer	उदग्र चुम्बकत्वमापी
vertical Buhr mill	उदग्र बूर मिल	vertical migration	ऊर्ध्वाधर प्रवास
vertical centering	ऊर्ध्व केन्द्रीकरण	vertical motion	ऊर्ध्वाधर गति
vertical circle	ऊर्ध्वाधर वृत्त	vertical movement	ऊर्ध्वाधर गति
vertical closing net	उदग्र निमीलन जाल	vertical organisation	उदग्र संगठन
vertical column	ऊर्ध्वाधर स्तम्भ	vertical pendulum	ऊर्ध्वाधर लोलक
vertical compliance	ऊर्ध्वाधर अनुवृत्ति	vertical photograph	ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ
vertical control	ऊर्ध्वाधर नियन्त्रण	vertical plane	ऊर्ध्वाधर समतल
vertical current	ऊर्ध्वाधर धारा	vertical precision camera	ऊर्ध्वाधर परिशुद्ध-कैमरा
vertical curve	ऊर्ध्वाधर वक्र	vertical resolution (=vertical definition)	ऊर्ध्व विभेदन
vertical curve guard	ऊर्ध्वाधर-वक्र-वृत्त	vertical ring roll mill	उदग्र वलय वेलन मिल
vertical definition (=vertical resolution)	ऊर्ध्व विभेदन	verticals	<i>Geol.</i> ऊर्ध्वाधरक, ऊर्ध्वाधर- फोटो
vertical deviation	ऊर्ध्वाधर विचलन	vertical section	खड़ी काट, खड़ा परिच्छेद
vertical diel migration	उदग्र दिवानीश प्रवास	vertical seismograph	उदग्र भूकम्पलेखी
vertical directional pattern	ऊर्ध्वाधर तलीय दिशिक चित्राम	vertical separation	ऊर्ध्व पृथक्करण
vertical displacement	ऊर्ध्वाधर विस्थापन	vertical shaft	ऊर्ध्वाधर शीप्ट
vertical exclusion	उदग्र वर्जन	vertical shooting	ऊर्ध्वाधर शूटिंग
vertical fault	ऊर्ध्वाधर भ्रंश	vertical slice	ऊर्ध्वाधर छेदिका
vertical flash ring	उदग्र स्फुर वलय	vertical spindle	ऊर्ध्वाधर धुरी, ऊर्ध्वाधर स्पिंडल
vertical fold	ऊर्ध्वाधर वलन	vertical spindle and socket	ऊर्ध्वाधर स्पिंडल और सॉकेट
vertical gradient	उदग्र प्रवणता	vertical stem	ऊर्ध्वाधर स्तम्भ
vertical hachure	ऊर्ध्वाधर हैश्यूर	vertical variation	उदग्र विविधता
vertical haul	उदग्र कर्ष		
vertical haul sampling	उदग्र कर्ष प्रतिदर्शन		

vertical viscometer		उदय स्थानतामापी, उदय विस्कासितामापी	vesicle of Savi		सावी-आशय
vertical visibility		ऊर्ध्वाधर दृश्यता	vesicular	Bot. Geol., Geog. Zool.	पुटिकाभय स्फोटगती वाशयी
vertical zone		ऊर्ध्वाधर क्षेत्र, ऊर्ध्वाधर मंडल	vesicular cell		आशय कोशिका
verticillaster	Bot.	बूटबनक	vesicular connective tissue		वाशयी सयोत्री ऊतक
verticillate	Bot.	चक्री	vesicular horizon		स्फोटगती सस्तर
verticillate leaf		चक्री पर्ण	vesicular lava		स्फोटगती लावा
vertigo	Geog.	चक्कर	vesicular rock		स्फोटगती शैल
very close encounter	Math.	बति निकट समागम	vesicular spermhead		वाशयी शुक्राणुशीर्ष
very disastrous intensity scale	Geol.	महानाशी तीव्रता मापनी	vesicular zone		स्फोटगती क्षेत्र
very fast neutron	Phy	बतिद्रुत न्यूट्रॉन	vesiculase	Zool.	वेसीकुलेस
very good reflectivity	Geol.	श्रेष्ठतम परावर्तकता	vesicula seminalis		शुक्राशय
very heavy rain	Geog	घोर वर्षा	vesiculate	Bot.	वाशयवत्, पैलीनुमा
very high frequency	Phy.	अत्युच्च आवृत्ति	vesiculation	Geol	स्फोटगतन
very high sea	Geog.	अत्युच्च तरंगित सागर	vesiculous	Zool.	वाशयक
very light rain	Geog.	बतिसल्य वर्षा	Vespa	Zool.	वेस्पा
very low frequency	Phy.	बतिनिम्न आवृत्ति	Vespa crabra		वेस्पा क्रेब्रा
very slight intensity scale	Geol.	अत्यल्प तीव्रतामापनी	vesperine	Bot.	सन्ध्योन्मीली
very slow motion	Math.	बतिमंद गति	Vespertilio	Zool.	वेस्पर्टिलियो
very soft radiation	Phy.	बति अल्पविद्यो विकिरण	Vespertilionidae		वेस्पर्टिलियोनिदी
very strong intensity scale	Geol.	बति प्रबल तीव्रता मापनी	Vespidae	Zool.	वेस्पिदी
very strong interaction		बति प्रबल अन्योन्य क्रिया	vespoid	Zool	बरमि, बरटाभ
vesical artery	Zool.	मूत्राशय-धमनी	vessel	Biol. Geog.	वाहिका जहाज, पोत, जलयान
vesicant	Chem.	स्फोटककारी, फफोलाकारी	vestan	H.Sc.	वेस्टान
vesicating	Zool.	स्फोटकारी	Vesterberg dehydrogenation	Chem	वेस्टरबर्ग विहाइड्रोजनीकरण
vesicating beetle		स्फोटकारी भृंग	vestibular cilia	Zool.	प्रधाणी पट्टाम
vesicating fluid		स्फोटकारी तरल	vestibular ganglion		प्रधाणी गुच्छिका
vesicating insect		स्फोटकारी कीट	vestibular gland		प्रधाण ग्रन्थि
vesicle	Bot. Geol. Zool.	पुटिका स्फोट-गद आशय	vestibular nerve		प्रधाण तन्त्रिका
vesicle duct		आशय वाहिनी	vestibule	Zool., H.Sc.	प्रधाण
			vestibule extension		प्रधाण प्रसरण
			vestibulo-cerebellar tract	Zool.	प्रधाण-अनुमण्डिक क्षेत्र

vestibulo-spinal tract	Zool.	प्रधागन्नेह क्षेत्र	vibratile flagellum		कम्पी कक्षाभ
vestige	Biol.	अवशेष	vibratile spine		कम्पी शूल
vestigial		अवशेषी, अवशिष्ट	vibrating capacitor	Chem.	कम्पन संघारित्र
vestigial form		अवशेषी रूप	vibrating column	Phy.	कम्पमान स्तम्भ
vestigial organ		अवशेषांग	vibrating grizzly		कम्पमान ग्रिडली
vestigial side band (=asymmetric sideband)		अवशिष्ट पार्श्व बैंड, वेस्टिजियल पार्श्व बैंड	vibrating point		कम्पमान बिंदु
vestigial sideband modulation		अवशिष्ट पार्श्व बैंड माड्युलन	vibrating reed electrometer		कम्पमान रीड विद्युत्मापी
vestigial state		अवशेषी अवस्था	vibrating reed frequency meter		कम्पमान रीड आवृत्तिमापी
Vestinautilus	Geol.	वेस्टीनौटिलस	vibrating rotator		कम्पमान घूर्णक
Vestinautilus cariniferus		वेस्टीनौटिलस कैरिनीफेरस	vibrating screen		कम्पमान छन्ना
vesting	H.Sc.	वेस्टिंग	vibrating scrubber		कम्पमान स्क्रबर, कम्पमान मार्जक
vestured pit	Bot.	दाहकी गर्त	vibrating string		कम्पमान तार
vesuvianite	Geol.	वेसुवियेनाइट	vibration	Phy., Geog.	कम्पन
vetch	Geog.	पृथुघिन्दी	vibrational absorption band	Chem., Phy.	कम्पनिक अवशोषण बैंड, कम्पनिक अवशोषण पट्टी
vetch seed	Chem. (Food)	पृथुघिन्दी बीज, वेच बीज	vibrational analysis		कम्पनिक विश्लेषण
veteran	Geog.	अभिन्न सैनिक, वन सैनिक	vibrational band	Chem., Phy.	कम्पन बैंड
vetivazulene	Chem.	वेटिवेजुलीन	vibrational cascade		कम्पनिक-सोपान
vetiver	Bot.	वसवस	vibrational energy	Phy.	कम्पन-ऊर्जा
V-event (decay in flight)	Phy.	V-घटना (उड़पती क्षय)	vibrational equilibration		कम्पनिक संतुलनीकरण, कम्पन साम्यन
vexillifer larva	Zool.	वेक्सीलीफर हिन्दक	vibrational exchange		कम्पनिक विनिमय
vexillum	Biol.	1. ध्वजक 2. पिच्छ-फलक	vibrational excitation		कम्पनिक उत्तेजन
Vezi sampler	Geol.	वेडिन प्रतिदग्नित्र	vibrational frequency	Chem., Phy.	कम्पन-आवृत्ति
V.H.F. Oscillations	Phy.	अत्युच्च आवृत्ति दोलन	vibrational level		कम्पनिक स्तर
viability	Zool.	जीवनक्षमता	vibrational motion		कम्पनिक गति
viable	Bot., Zool.	जीवनक्षम	vibrational partition function		कम्पनिक विभाजन फलन
viable cell counts		जीवनक्षम कोशिका गणना	vibrational profile		कम्पनिक रूपरेखा
viable virus		जीवनक्षम विषाणु	vibrational quantum		कम्पनिक-क्वांटम
viaduct	Geog.	मार्ग-सेतु, पुल	vibrational relaxation		कम्पनिक श्रान्ति
vial	Geog.	कूनिक्	vibration rotation band		कम्पन-घूर्णन बैंड, कम्पन पट्ट घूर्णन
vi-antigen	Bot.	vi-अन्तिजन, vi-ग्लोबुलिन	vibrational rotational energy		कम्पन-घूर्णन ऊर्जा
vibraculum	Zool.	क्याप्रवर्ध			
vibratile cilia	Zool.	कम्पी पदनाभ			

vibrational rotational spectrum		कम्पन-घूर्णन-स्पेक्ट्रम	vibronic (vibrational-electronic) state <i>Phy.</i>	बाइब्रॉनिक अवस्था, कम्पद्रव्यीय अवस्था
vibrational spectrum		कम्पनिक स्पेक्ट्रम	vibronic eigen function <i>Phy</i>	कम्पद्रव्यीय आइगेन फलन
vibrational specific heat		कम्पनिक विशिष्ट ऊष्मा	vibronic level	कम्पद्रव्यीय स्तर
vibrational state (level)		कम्पनिक अवस्था	vibronic species	कम्पद्रव्यीय स्पीशीज
vibrational temperature		कम्पनिक ताप	vibronic transition	कम्पद्रव्यीय संक्रमण
vibrational transition		कम्पनिक संक्रमण	vibron vibrating capacitor <i>Chem.</i>	बाइब्रॉन कम्पमान संधारित्र
vibrational equation		कम्पन-समीकरण	vibrophore <i>Chem. (Met.)</i>	बाइब्रोफोर
vibration form <i>Math.</i>		कम्पन रूप	vibroscope <i>Chem. (Met.)</i>	कम्पनदर्शी, बाइब्रोस्कोप
vibration galvanometer		कंपन-धारामापी, कम्पन-गैलवेनोमीटर	vibrotaxis <i>Zool</i>	यन्त्रानुचलन
vibrationless state		कम्पनहीन अवस्था	vicalloy <i>Phy</i>	विकालाय
vibration meter		कम्पन मीटर, बाइब्रेथन मीटर	vicara <i>H.Se.</i>	विकारा
vibration of wire		तार-कम्पन	vicariad <i>Bot.</i>	प्रतिस्थ जाति
vibration period		कम्पन-काल	vicariation <i>Bot, Geog.</i>	प्रतिस्थन
vibration quantum number		कम्पन क्वांटम संख्या	vicarious species <i>Bot.</i>	प्रतिस्थ जाति
vibration specific heat		कम्पनिक विशिष्ट ऊष्मा	vice	शिकन्वा, वाइस
vibrator <i>Phy.</i>		कम्पित्र	vice versa <i>Chem.</i>	विलोमतः
vibrator power supply (vibropack)		कम्पित्र शक्ति सङ्कुल	vic-glycol <i>Chem.</i>	विक्ग्लाइकॉल, सनिधि ग्लाइकॉल
vibratory motion		कम्पन-गति	vichy <i>H Se.</i>	वीची
vibratory movement		कम्पन गति	<i>Vicia faba</i> <i>Bot</i>	विसिया फावा
vibratory reaction		कम्पन-प्रतिक्रिया	<i>Vicia hirsuta</i>	विसिया हिर्सुटा
vibratory screen		कम्पन-छाया	<i>Vicia sativa</i>	विसिया सैटाइवा
Vibrex screen <i>Geol.</i>		बाइब्रेक्स छन्दा	vicinal action <i>Chem.</i>	सनिधि क्रिया
Vibrio <i>Bot.</i>		विब्रियो	vicinal form (crystallography)	सूलाभ रूप
<i>Vibrio cholerae</i>		विब्रियो कोलेरी (हैजे के जीवाणु)	vicinal function	सनिधि फलन
<i>Vibrio coli</i>		विब्रियो कोलाइ	vicinal proton	सनिधि प्रोटॉन
vibrissae <i>Zool.</i>		इब्रियोम, जुम्भशूक	vicinity <i>Geog., Math.</i>	1. परिदेह 2. सामीप्य, पड़ोस
Vibrissae <i>Bot.</i>		बाइब्रिसिया	vicinity of station	बादा-सामीप्य
vibrocomma <i>Chem.</i>		बाइब्रोकोमा	vicious circle <i>Math.</i>	दुस्वक
vibrograph <i>Geog, Geol.</i>		कम्पलेखी, बाइब्रोपाक	Vickers hardness test <i>Chem. (Met.)</i>	विकर्ड हार्डनेस टेस्ट
vibro mixer (stirrer) <i>Chem.</i>		बाइब्रोमिक्सर (विलोचक)	Vickers pyramid number	विकर्ड रिरेमिडिक
			vicolte	विकोवाइट



victoreen (ionization chamber)	Chem.	विक्टरीन (आयतन कक्ष)	<i>Vigna catzang</i>	Bot.	विग्ना कैटजंग
victoria	H.Sc.	विक्टोरिया	vignette	Geog.	विग्नेट, पुष्पादि चित्र
victoria crepe		विक्टोरिया क्रेप	vignetting		विग्नेट करना
victoria green		विक्टोरिया हार्ति, विक्टोरिया ग्रीन	vigour	Bot.	बोज
victoria laun		विक्टोरिया लॉन	vigorous existence	Geog.	प्रबल अस्तित्व
victorian room	H.Sc.	विक्टोरियन कक्ष	vigorous monsoon		प्रबल मानसून
Victoria regia	Bot.	विक्टोरिया रीजिया	vigorous rural life	Geog.	बोजस्त्री ग्रामीण जीवन
victoria silk		विक्टोरिया रेशम	vigoureux printing (Melange printing)	Chem. (Text)	मैलांज मुद्रण
victor meyer esterification law	Chem.	विक्टर मेयर एस्टरीकरण नियम	Vigreux column	Chem.	विग्रवस स्तंभ, विग्रवस कालम
victor meyer's method		विक्टर मेयर विधि	Viking age	Geog.	वाइकिंग युग, वाइकिंग काल
victualling base	Geog.	संभरण-आधार	villa	Geog.	निलय, पाल्मी-भवन, विला
vicuna	H.Sc.	विक्यूना	village agglomerate	Geog.	ग्राम समूह
vicuna finish		विक्यूना परिष्कृति	village community		ग्राम-समाज
vidda	Geog.	वीडा	village community area		ग्राम-समाज क्षेत्र
video amplifier	Phy.	वीडियो प्रवर्धक	village council		ग्राम-परिषद्
video delay line		वीडियो विलम्ब लाइन	village country community		ग्राम-परिसर समुदाय
video detection		वीडियो संसूचन	village development		ग्राम विकास
video engineer (= vision control supervisor)		वीडियो इंजिनियर	village development programme	H.Sc.	ग्राम विकास कार्यक्रम
video frequency amplifier		वीडियो आवृत्ति प्रवर्धक	village enclosure		ग्राम अहाता
video gain control		वीडियो लब्धि नियंत्रण	village field book		ग्राम क्षेत्रबही
video mapping		वीडियो नक्शाकरण	village settlement		ग्राम-वस्ती
video mixer		वीडियो मिश्रक	village town		ग्रामीण नगर
video signal		वीडियो सिग्नल	village trijunction pillar (isolated)		ग्रामत्रिसोमा स्तंभ (एकाकी)
video system		वीडियो तंत्र	Villavecchia test	Chem.	विलावेचिया निकप
video transmitter (= picture transmitter)		वीडियो प्रेषित्र	ville maitress	Geog.	मुख्य गांव, वील मैट्रेस
videotron	Phy.	वीडियोट्रॉन	villiform process	Zool.	अंकुररूप प्रवर्ध
vidicon	Phy.	विडिकॉन	villikinin	Chem.	विलीकाइनिन
vienna oven	H.Sc.	वियेना अवन	villose	Biol.	दीर्घरोमी, उद्बर्धो, सांकुर
Vienna sausage		वियेना सॉसेज	villosity	Zool.	उद्बर्धता, सांकुरता
Vietas theorem	Math.	विएटा-प्रमेय	villous	Biol.	दीर्घरोमी
view finder	Phy.	दृश्यदर्शी	villus (villi)	Bot. Zool., H.Sc.	दीर्घरोम अंकुर, रसांकुर
viewing screen	Chem.	दर्शन-परदा			

viraemia (viremia)	Zool.	विषाणुरक्तता	vinyon	Chem H.Sc.	विनिर्माण
viral antigen	Zool	विषाणुक प्रतिजन	vioform	Chem	वायोफार्म
vilsmeier-Haack aldehyde synthesis	Chem	विल्समीएर हाक एलिडहाइड संश्लेषण	Viola	Bot., Chem.	वायोला
vinaigrette	H.Sc	विनैग्रेट	Viola canina	Bot.	वाइओला कॅनाइना
vinasse	Chem.	विनैस	Violaceae	Bot	वायोलैसी
Vinca major	Bot	विन्का मेजर	violaceous	Bot.	वायोलारूपी
Vinca rosea (Lochnera rosea)		विन्का रोजिया (सदाबहार)	Viola cinerea		वायओला सिनेरिया
Vinella	Bot.	विनिलिन	Viofales	Bot	वाइ-लेकोइ
vinculum	Math.	रेखाबधनी, रेखाकोष्ठक	Viola odorata		वाइओला ओडोरेटा
*Vindematrix (= E Virginis)	Astron	विन्डेमियाट्रिक्स (E वन्या, E वर्जिनिस)	Viola patrum		वाइओला पेट्रीनार्ड
vindolin	Chem.	विन्डोलिन	Viola tricolor		वाइओला ट्राइकलर
vine	Geog.	वयूर सत्ता, द्राक्ष सत्ता	violaxanthin	Bot	वायोलैन्थिन
vine black (vegetable black)	Chem.	शष्प कालिमा	violent		प्रचंड
vinegar	Chem H.Sc.	सिरका, चुक	violent fluctuation		प्रचंड उच्चावचन
vinegaroon	Zool.	वाइनगून	violent gust		प्रचंड क्षोभा, प्रचंड निर्घात
Vinella	Geol.	विनेला	violent reaction		प्रचंड अभिक्रिया
vinethene	Chem.	विनेथीन	violent spate		प्रचंड बाढ़
V-ing outcrop	Geol	V-रूपी दृश्यांश	violent squall	Chem.	प्रचंड अल्पकालिक झझा
vinhalic acid	Chem.	वीनहालिकोइक अम्ल	violet	Chem., Phy	1 जाम्ब (colour), बैंगनी 2. वायोलिट (flower)
vinometer	Chem.	मुराशमापी	violet acid		जाम्ब अम्ल
vinyl	Chem.	वाइनिल	violet blue		बैंगनी नीला
vinylation	Chem.	वाइनिलीकरण	violet cross ruling		बैंगनी धाम-रेखण
vinyl bromide		वाइनिल ब्रोमाइड	violet single ruling		बैंगनी द्वकट्टा रेखण
vinyl chloride		वाइनिल क्लोराइड	violin	Phy., Chem.	वायलिन
vinyl cyclohexene		वाइनिल साइक्लोहेक्सीन	violin bow method		वायलिन धनु पद्धति
vinylidene chloride	Chem.	वाइनिडिनीन क्लोराइड	violuric acid	Chem.	वाइऑन्यूरिक अम्ल, वाइऑन्यूरिक एलिड
vinylite		वाइनिलाइट	viomycia	Chem	वाइमाइसिन
vinylite model		वाइनिलाइट मॉडल	viper	Zool.	मडलि, पृदाहु, धोणम
vinylite sheet		वाइनिलाइट शीट	Vipera russelli	Zool.	वाइपेरा रसेलाई
vinyllog	Chem.	विनाइलॉग	viperiform	Zool	मडलिप्र
vinylology	Chem	वाइनिलॉजी	viperling	Zool.	मंडनिगाव
vinylon	H.Sc.	विनाइलॉन	Virachola isocrates	Zool	विराचोला आइसोक्रैटस
vinyl resin Eber		विनाइल रेजिन एबेर			

viral chemotherapy		विषाणुक रसायनचिकित्सा	virgin tape		अक्षत टेप
viral chromosome		विषाणुक गुणसूत्र	virgin territory		अक्षत क्षेत्र
viral disease		विषाणु रोग	virgin woodland		प्राकृत अरण्यभूमि
viral encephalitis		विषाणु मस्तिष्कशोथ, वाइरस मस्तिष्कशोथ	virgin wool		अक्षत ऊन
viral infection		विषाणु संक्रमण	*Virgo	Astron.	कन्या, बर्गो
viral inhibitor	Zool.	विषाणुवीय संदमक	virgula		बर्गुला
viral interference		विषाणुक व्यवधान	virguline type	Geol.	बर्गुलीना प्ररूप
viral latency	Bot.	वाइरसी गुप्तता	virial		वीरियल
viral masking	Bot.	वाइरस-गोपान	virial coefficient		वीरियल गुणांक
viral nucleic acid		वाइरस न्यूक्लीक अम्ल, विषाणुक केन्द्रकीय अम्ल	virial expansion		वीरियल विस्तार
viral protein		विषाणुक प्रोटीन	virial theorem of Clausius		क्लाउजियस विरियल प्रमेय
viral receptor		विषाणु ग्राही	viricidal		विषाणुनाशोद्य
viral ring		वाइरस-बलय	viricide	Zool.	वाइरसनाशी, विषाणुनाशी
virason (= virazon)	Geog.	समुद्री समोर, वीरासोन	viridescens	Bot.	हरिताम
virens	Bot.	हरित	viridian green	Chem., Geog.	विरिडियन हरित
virescence	Bot.	हरीतिमागम	viridine		विरिडाइन
virescent	Zool., Bot.	हरिताम	viridis	Bot.	हरित
virga	Geog.	1. बर्गो, फूही 2. टहनी	viridite	Geol.	विरिडाइट, अज्ञेयहरिताम
	Zool.	वेज	viridogrisein	Chem.	विरिडोग्रिसेिन
virgalium	Zool.	वेत्रास्थिका	virility	Geog.	पौरुष
virgate	Zool.	वेत्राकार	virologist	Bot., Zool.	वाइरसविज्ञानी, विषाणुविज्ञ
virgate mastax		वेत्राकार संपेपणी	virology (virusology)		वाइरसविज्ञान, विषाणुविज्ञान
virgation	Geol.	बलिशाखन	viropexis	Bot., Zool.	विषाणुस्थिरण, वाइरोपेक्सिस
virgating	Geog.	भ्रंश-शाखन	viroplast	Zool.	विषाणुलवक, वाइरोप्लास्ट
virgin		अक्षत, प्राकृत	viroplay	H.Sc.	विरोप्ले
virgin clay		अक्षत मृत्तिका	virose	Zool.	विषाणविक
virgin field		अक्षत क्षेत्र	virosis	Bot.	वाइरसाति, विषाण्वार्ति (विषाणु-आति)
virgin forest		अक्षत वन		Zool.	विषाणुता
virgin fraction		अक्षत प्रभाज, प्रथम अंश	virous	Zool.	विषाणुजन
virgin gold		प्राकृत स्वर्ण	virtain	Geog.	वर्टैन
virgin land		अक्षत भूमि	virtual	Math.,	1. कल्पित
virgin metal		अक्षत धातु		Phy., Chem.	2. आभासी
virgin neutron	Phy.	अछूता न्यूट्रॉन			
virgin state	Math.	मूल स्थिति			

virtual ampere		आभासी ऐम्पियर	virus infection		वाइरस संक्रमण, विषाणु संक्रमण
virtual cathode		आभासी कैथोड	virus infectivity		विषाणु संक्रामकता
virtual current		आभासी धारा	virus inhibitor		1 विषाणु सदात्मक 2. वाइरस निरोधक
virtual displacement		कल्पित विस्थापन	virus inoculum		वाइरस निवेशद्रव्य
virtual focus		आभासी फोकस	virus kingdom		विषाणु जगत
virtual height		आभासी ऊंचाई	virus leaf drop		वाइरसी पतझड़, वाइरसी पर्ण पत
virtual image		आभासी प्रतिबिम्ब	virus molecule		विषाणु अणु
virtual level		कल्पित तल	virus movement		वाइरस गति, विषाणु गति
virtual oscillator		कल्पित दोलक	virus mutant		विषाणु उत्परिवर्ती
virtual P. P. I. reflex- toscopes (=reflection plotter)	<i>Phy.</i>	परावर्तन आलेखित	virus strain		विषाणु द्विभेद
virtual quanta		कल्पित क्वान्टम	virus static		वाइरस निरोधी, विषाणु निरोधी
virtual resonator		कल्पित अनुनादक	virus transduction		विषाणु पारक्रमण
virtual state		कल्पित अवस्था	virus yellows		वाइरस पीनाति
virtual temperature		आभासी ताप	visbreaking	<i>Math.</i>	श्यानताघन
virtual velocity		कल्पित वेग	visca	<i>H Sc</i>	विष्का
virtual work		कल्पित कार्य	visceral	<i>Zool, H.Sc.</i>	अंतरंग
virucidal (viricidal)	<i>Bot</i>	वाइरस नाशी, विषाणुनाशी	visceral arch	<i>Zool.</i>	प्रमनी चाप
virucide (virucide)	<i>Zool</i>	विषाणुनाशी	visceral artery	<i>Zool</i>	अंतरंग धमनी
virulence	<i>Bot., Zool.</i>	उपजा	visceral circulation		अंतरंग परिसंचरण
virulent		उग्र	visceral connective		अंतरंग-संयोजिनी
virulent cycle		उग्र चक्र	visceral ganglion		अंतरंग गुच्छिका
virulent inoculum		उग्र संरोप	visceral larva migrans		अंतरंग प्रवासी हिम्बक
virulent phage		उग्र विभोजी	visceral leishmaniasis		अंतरंग लीशमैनियता
virulent strain		उग्र विभेद	visceral loop		अंतरंग पाश
viruliferous	<i>Bot, Zool.</i>	वाइरसधर, विषाणुधर	visceral lymphomatosis		अंतरंग लसीकादंडता
virus	<i>Bot, Zool.</i>	वाइरस, विषाणु	visceral mass		अंतरंग पुंज
virucidal		विषाणुनाशी	visceral motor		अंतरंग प्रेरक
virus cubic		वाइरस घनिका	visceral muscle		अंतरंग पेशी
virus disease		वाइरस रोग, विषाणु रोग	visceral nerve		अंतरंग तंत्रिका
virus encephalitides		विषाणु मस्तिष्कशोथ	visceral nervous system		अंतरंग शक्ति का तंत्र
virus free stock		वाइरसहीन समूह	visceral peritoneum		अंतरंग पेरिटोनिम, अंतरंग पयंदरी
virus free vector		वाइरसहीन संचारक			
virus-induced antigen		विषाणुप्रेरित प्रतिजन			
virus-induced cancer		विषाणुप्रेरित कैंसर			

visceral pleura		अंतरंग प्लूरा, अंतरंग फुफ्फुसावरण	viscoplastic rigid material		श्यानसुघट्य दृढ पदार्थ
visceral reflex		अंतरंग प्रतिवर्त	viscose	<i>Chem., H.Sc.</i>	विस्कोस
visceral sac		अंतरंग कोष	viscose method		विस्कोसन विधि
visceral sensory column		अंतरंग संवेदी स्तम्भ	viscose process		विस्कोसन विधि
visceral sinus		अंतरंग कोटर	viscose rayon		विस्कोस रेयन
visceral skeleton	<i>Zool.</i>	हनुकंकाल	viscose silk		विस्कोस रेशम
visceral spiral		अंतरंग-सर्पिल	viscosimeter (= viscometer)	<i>Chem.,Phy.</i>	श्यानतामापी, विस्कोमीटर
visceral vein		अंतरंग-शिरा	viscosimetric		श्यानतामितीय
viscero-branchial vessel	<i>Zool.</i>	अंतरंग क्लोम-वाहिका	viscosimetry	<i>Phy.</i>	श्यानतामिति, विस्कासितामिति
viscero-cranium	<i>Zool.</i>	अंतरंग-कपाल	viscosity	<i>Chem., Math.,Phy.</i>	श्यानता, विस्कासिता
viscero-inhibitory	<i>Zool.</i>	अंतरंगनिरोधी	viscosity breaking		श्यानता खंडन
visceromotor	<i>Zool.</i>	अंतरंगप्रेरक	viscosity coefficient		श्यानता गुणांक, विस्कासिता गुणांक
viscero-pericardial aperture	<i>Zool.</i>	अंतरंग-हृदयावरण छिद्र	viscosity depressant		श्यानता अवनमक, विस्कासिता अवनमक
viscero-pericardial sac		अंतरंग-हृदयावरण कोष	viscosity gravity constant (VGC)		श्यानता गुरुत्व स्थिर
viscerotome	<i>Zool.</i>	विसेरोटोम, अंतरंगछेदक	viscosity index		श्यानता सूचकांक
viscerotropic	<i>Bot.,Zool.</i>	अंतरंगप्रभावी	viscosity number		श्यानता अंक
viscerotropism		अंतरंगप्रभाविता	viscosity temperature curve		श्यानता-ताप वक्र
viscid	<i>Chem., Math.</i>	श्यान, विस्कासी	viscosity of colloidal clay		कोलाइडी-मृत्तिका- श्यानता
viscoelastic	<i>Math., Chem.,Phy.</i>	श्यानप्रत्यास्य	viscosity temperature law		श्यानता-ताप-नियम
viscoelasticity	<i>Phy.,Math.</i>	श्यानप्रत्यास्यता	viscosity theory		श्यानता सिद्धान्त
viscoelastic stress		श्यानप्रत्यास्य प्रतिबल	viscous		श्यान, विस्कासी
viscogen	<i>H.Sc.</i>	विस्कोजन	viscous compressible fluid		श्यान संपीड्य तरल
viscolizer	<i>Chem. (Food)</i>	विस्कोलाइजर	viscous damping		श्यान अवमंदन
viscometer (= viscosimeter)	<i>Phy.,Chem.</i>	श्यानतामापी, विस्कासितामापी	viscous electrical drag		विस्कासी वैद्युत कर्षण, श्यान वैद्युत कर्षण
viscoplastic behavior	<i>Chem.</i>	श्यानप्लैस्टिक आचरण	viscous fluid		श्यान तरल, विस्कासी तरल
viscoplastic body	<i>Math.</i>	श्यानसुघट्य पिंड	viscous flow		श्यान प्रवाह, विस्कासी प्रवाह
viscoplastic Maxwellian behaviour		श्यानसुघट्य मैक्सवेलीय आचरण			
viscoplastic model		श्यानसुघट्य निदर्श			
viscoplastic plastic body		श्यानसुघट्य सुघट्य पिंड			

viscous fluid		विकासी तरल, श्यान तरल	visira	<i>H.Sc.</i>	विस्ट्रा
viscous force		श्यान बल	visual		(adj.) चाक्षुष, दृश्य
viscous hyaloplasm		श्यान हाचाभद्रस्थ	visual acuity		दृष्टि की तीक्ष्णता
viscous incompressible fluid		असपीड्य श्यान तरल	visual angle		दर्शन-कोण
viscous layer		श्यान स्तर	visual approach chart	<i>Geog</i>	दृष्टि उपगमन चार्ट
viscous magnetization		श्यान चुंबकन	visual aural range		दृश्य-श्रवण परास
viscous motion		श्यान गति	visual brightness		चाक्षुष द्युति
viscous stress		श्यान प्रतिबल	visual broadcast service		दृश्य प्रसारण सेवा
viscous stress tensor		श्यान प्रतिबल प्रदिश	visual cell		चाक्षुष कोशिका
Vishnuthorium	<i>Zool.</i>	विष्णुथोरियम	visual centre		दृष्टि-केन्द्रक
visibility	<i>Phy</i>	दृश्यता	visual colorimetry		दृश्यवर्णमिति
visibility factor		दृश्यता गुणक	visual darkening		चाक्षुष घुमिलन
visible		दृश्य	visual display		चाक्षुष प्रदर्शन
visible error		दृश्य अशुद्धि	visual display unit		चाक्षुष प्रदर्श एकाक
visible export		दृश्य निर्यात	visual pigment		चाक्षुष वर्णक
visible horizon		दृश्य क्षितिज	visual Doppler indicator		चाक्षुष डॉप्लर सूचक
visible import		दृश्य आयात	visual efficiency		दृश्य क्षमता
visible light		दृश्य प्रकाश	visual field		दृश्य क्षेत्र
visible noise		दृश्य रव	visual flight		दृश्य उड़ान
visible point		दृश्य बिन्दु	visual frequency	<i>Phy</i>	चित्रवाहक आवृत्ति, दृश्यवाहक आवृत्ति
visible region		दृश्य क्षेत्र	(= vision frequency)		
visible spectrophotometer		दृश्य स्पेक्ट्रोम प्रकाशमापी	visual indicator		दृश्य सूचक
visible spectrum		दृश्य स्पेक्ट्रम	visual instrument		चाक्षुष यंत्र
visigoth	<i>Geog.</i>	विजिगोथ	visualization	<i>Geol.</i>	1 मानस-श्रत्यधीकरण 2. चाक्षुषीकरण
vision	<i>Phy.</i>	दृष्टि	visual photographic apparatus		चाक्षुष फोटोग्राफीय उपकरण
vision bandwidth	<i>Phy.</i>	दर्शन बैंडविस्तार	visual purple		दृश्य-नील मोहित
vision frequency	<i>Phy</i>	चित्रवाहक आवृत्ति, दृश्यवाहक आवृत्ति	visual range		दृष्टि परास
(= visual frequency)			visual sensitivity		चाक्षुष सुषुप्ति
vision on sound	<i>Phy.</i>	दर्शनारोपित श्रवण	visual signal	<i>Phy.</i>	दूरदर्शन संकेत, टेलिविजन सिग्नल
vision signal	<i>Phy</i>	दूरदर्शन संकेत, टेलिविजन सिग्नल	(= television signal)		
(= television signal)			visual space		दृश्य आकाश
viskon	<i>H.Sc.</i>	विस्कॉन	visual stimulus		दृश्य उत्दीपन
vista shot	<i>Phy.</i>	विस्तृत शॉट	visual tract		दृष्टि-पथ
(= long shot)					

visual transmitter (=picture transmitter)	Phy.	चित्र प्रेषित्र	vitelline circulation		पीतकी परिसंचरण
visual yellow		दृश्य-पीत	vitelline gland		पीतक ग्रंथि
vis-viva	Math.	गतिज ऊर्जा	vitelline membrane		पीतक झिल्ली
Vitaceae	Bot.	वाइटेसी	vitelline reservoir		पीतकाशय
vitagen	Chem.	विटाजिन	vitelline vein		पीतक शिरा
vita glass	Chem.	विटा कांच	vitellocyte	Zool.	पीतकाणु
vital	Biol.	जैव, जीवसंबंधी	vitellocyst	Zool.	पीतकवाहिनी
vital air		प्राण-वायु, ऑक्सीजन	vitellophag	Zool.	पीतकाशन
vital artery	Geog.	महत्वपूर्ण मार्ग	vitellovaginal canal	Zool.	पीतकयोनि नाल
vital dye		जैव रंजक	<i>Vitex negunda</i>	Bot.	वाइटैक्स निगुन्डो (निगुंठी)
vital force		जैव शक्ति	viticolous	Bot.	लतावासी
vital function		जैव कार्य	viticulture	Geog.	बंगुरोत्पादन, ब्रासा-कृषि
Vitali covering	Chem.	विटाली-आवरण	<i>Vitis labrusca</i>	Bot.	वाइटिस लैब्रुस्का
vitalist	Chem.	जैवशक्तिवादी	<i>Vitis vinifera</i>		वाइटिस वाइनफेरा
vitalistic theory		जैव शक्तिवाद	vitrain	Geol.	विट्रेन
vitality		जीवन शक्ति	vitrainite	Geol.	विट्रेनाइट
vital statistics	Math. H.Sc.	जन्म-मरण सांख्यिकी	vitrainization	Geol.	विट्रेनीभवन
vitamer	Chem.	विटामर	vitrein	Chem.	विट्रेन
vitamin		विटामिन	vitrella	Zool.	काचाभिका
vitamin A		विटामिन 'ए'	vitresil filtering crucible		विट्रिऑसिल निस्पन्दन मूषा, विट्रिऑसिल फिल्टरन क्रासिबल
vitamin B		विटामिन 'बी'	vitresol	Chem.	विट्रिऑसॉल, काच विलय
vitamin B complex		विटामिन बी समुदाय	vitreous		काचसम, काचाम
vitamin C		विटामिन 'सी'	vitreous body		काचाम काय
vitamin D		विटामिन 'डी'	vitreous chamber		काचाम द्रव-कक्ष
vitamin E		विटामिन 'ई'	vitreous electricity		काच-विद्युत
vitamin G		विटामिन 'जी'	vitreous humor	Zool.	काचाम द्रव
vitamin K		विटामिन 'के'	vitreous lustre		काचाम द्युति
vitamin oil		विटामिन तेल	vitreous rock		काचाम शैल
vitazyme	Zool.	विटाजाइम	vitreous silica		काचाम सिलिका
vitellarium	Zool.	पीतकशय, विटेलेरियम	vitreous ware		काच पात्र
vitelligentous	Zool.	पीतकजन	vitric tuff	Geol.	काचान टफ
vitellin	H.Sc., Zool.	विटेलिन	vitriifiable	Geol.	काचनीय
vitelline	Zool.	पीतकी	vitrifaction	Geol.	काचन
vitelline artery		पीतक धमनी	vitriufacture	Geol.	काचपात्रनिर्माण
vitelline cell		पीतकी कोशिका			

vitrification	<i>Geol.</i>	काचन	vocal chord (cord)	<i>Zool.</i>	वाक्-तनु
vitrified	<i>Chem, Geol</i>	काचित		<i>Phy, H.Sc.</i>	स्वर रज्जु
vitrinite	<i>Geol.</i>	विट्रीनाइट	vocal electrical analogue		वाक् वंचित तुल्यरूप
vitriol	<i>Chem.</i>	काचर, विट्रिऑल	vocal music		वाक् संगीत
vitriol ochre		विट्रिऑल गेरिक, विट्रिऑल ऑकर	vocal sac		वाक्-कोश
vitriolic acid		विट्रिऑलिक अम्ल (सलयूरिक अम्ल)	vocal track		स्वर पथ
vitrite	<i>Chem.</i>	विट्राइट	vocoder (voice coder)	<i>Phy</i>	वोकोडर, वाक् कोडित
vitro-andesite	<i>Geol.</i>	विट्रो-एण्डेसाइट	vocoder time domain		वोकोडर काल द्योमेन
vitroclastic	<i>Geol</i>	काचखंडज	voder (voice operation demonstrator)	<i>Phy</i>	वोडर, वार्हित
vitro-dentine	<i>Zool.</i>	विट्रो-डैन्टीन	vodka	<i>H.Sc</i>	वोडका
vitron	<i>Chem.</i>	विट्रॉन	voodoo practice	<i>Geog</i>	वोडू-प्रवृत्ति
vitrophyre	<i>Geol</i>	विट्रोफायर	voe	<i>Geog.</i>	वो
vitrophyric		विट्रोफायरी	vogesite	<i>Geol</i>	वोगेसाइट
vitta	<i>Bot.</i>	1. तैल नलिका 2. पट्ट (Bryology)	Voges Proskaner reaction	<i>Chem</i>	वोगेस प्रॉस्कानर अभिक्रिया
Vittaria	<i>Bot.</i>	विट्टेरिया	voglite	<i>Chem.</i>	वोग्लेसाइट
vittate	<i>Bot.</i>	धारीदार	voice	<i>H.Sc, Phy, Chem.</i>	वाक्, वाक ध्वनि, वाणी
vivax malaria (benign tertian malaria)	<i>Zool.</i>	वाइवैक्स मलेरिया (सुदृढ तृतीयक मलेरिया)	voice box		वाक् ध्वज
vivda	<i>H.Sc.</i>	विवडा	voice coil		वाक् कुंडली
Viverra zsbetha	<i>Zool</i>	विवेरा जिवेथा	voiced consonant	<i>Phy.</i>	सवाक् व्यंजन
Viverricula indica		विवेरोकुयूला इण्डिका	voice-excited vocoder		वाक् उत्तेजित वोकोडर, वाक् धारव्य वोकोडर
Viverridae	<i>Zool</i>	विवेरिडी	voice frequency keying		वाक् आवृत्ति कुञ्जीयन
Viviani's curve	<i>Chem.</i>	विवियानो-वक्र	voiceless consonant	<i>Phy.</i>	अवाक् व्यंजन
vivianite	<i>Geol.</i>	विविएनाइट	voice mechanism		वाक् यन्त्र-व्यापार
vividiffusion	<i>Chem</i>	जीवी-विसरण	voice modulation		वाक् माहृन्नन
viviparity (= vivipary)	<i>Zool</i>	सजीवप्रजता, जरायुजता	void	<i>Phy., Math. Geol.</i>	शून्य, शून्यता रिक्ति
viviparium	<i>Zool.</i>	जीवशाला	volder	<i>H.Sc.</i>	वायडर
viviparous	<i>Zool.</i>	सजीवप्रजक, जरायुज	void intersection		शून्य सर्वनिष्ठ
vivotoxin		जीवस्थनाविष, वाइवोटॉक्सिन	void ratio		रिक्ति अनुपात
vixcordatus	<i>Bot.</i>	विचिन्तु हृदयाकार	void set		शून्य समुच्चय
vizella	<i>H.Sc.</i>	विजेला	void symbol		रिक्ति-प्रतीक
vlei	<i>Geog.</i>	फ्ले, छिछली झील, अनूप	Voigt element	<i>Math.</i>	फायट अवयव
vloer	<i>Geog.</i>	पत्तोर, मृत्तिका-सपाट			



voile	<i>H.Sc.</i>	वॉयल	volcanic cinder-mud	ज्वालामुखी सिन्डर-पंक
voile yarn	<i>H.Sc.</i>	वॉयल सूत्र	volcanic cliffs	ज्वालामुखी भृगु
Voitfia	<i>Bot.</i>	वाईशिया	volcanic clod	ज्वालामुखी मेघ
Volans	<i>Math.</i>	वोलांज	volcanic cluster	ज्वालामुखी गुच्छ
volant adaptation	<i>Zool.</i>	उड्डयन-अनुकूलन	volcanic cone	ज्वालामुखी शंकु
volant forms		उड्डयन-प्राणी	volcanic cone glacier	ज्वालामुख शंकुहिमानी
volary	<i>Zool.</i>	संखग	volcanic conglomerate	ज्वालामुखी संगुटिकाश्म
volatile		सुवाप्प्य, वाष्पशील	volcanic crater	ज्वालामुखी क्रेटर
volatile antiseptic		वाष्पशील प्रतिरोधी	volcanic cycle	ज्वालामुखी चक्र
volatile fatty acid		वाष्पशील वसा अम्ल	volcanic deposit	ज्वालामुखीय निक्षेप
volatile ink		वाष्पशील मसी	volcanic dome	ज्वालामुखी-गुंबद
volatile oil		वाष्पशील तेल	volcanic dust	ज्वालामुखी धूलि
volatile storage	<i>Phy.</i>	ऊर्जा ह्रास संचय	volcanic earthquake	ज्वालामुखीय भूकम्प
volatile thinner		सुवाप्प्य छशक	volcanic edifice	ज्वालामुखीय पिंड
volatility	<i>Chem.,Phy.</i>	वाष्पशीलता	volcanic ejecta	ज्वालामुखीय बहिःक्षेप
volatilization		वाष्पीकरण	volcanic energy	ज्वालामुखी ऊर्जा
volatilize		वाष्पित होना, वाष्पित करना	volcanic eruption	ज्वालामुखी उद्गार
volborthite	<i>Chem. (Met.)</i>	वोल्बोर्थइट	volcanic facies	ज्वालामुखीय संलक्षणी
volcanello	<i>Geol.</i>	लघुज्वालामुखी	volcanic flow drains	लावा-प्रवाह नाली
volcanic	<i>Geog.,Geol.</i>	ज्वालामुखीय	volcanic focus	ज्वालामुखी उद्गम-केन्द्र
volcanic action		ज्वालामुखी क्रिया	volcanic forces	ज्वालामुखीय बल
volcanic activity		ज्वालामुखी सक्रियता, ज्वालामुखी क्रिया	volcanic friction breccia	ज्वालामुखीय घर्षण संकोपाश्म
volcanic agglomerate		ज्वालामुखीय ज्वालामुखीय	volcanic gas	ज्वालामुखी गैस
volcanic arc		ज्वालामुखीय चाप	volcanic glass	ज्वालामुखी काच
volcanic ash		ज्वालामुखी राख	volcanic inner arc	ज्वालामुखीय आंतरिक चाप
volcanic association		ज्वालामुखीय साहचर्य	volcanic island	ज्वालामुखी द्वीप
volcanic bomb		ज्वालामुखी बम	volcanicity	<i>Geol.</i> ज्वालामुखीयता
volcanic breccia		ज्वालामुखी संकोपाश्म	volcanic landscape	ज्वालामुखीय दृश्य भूमि
volcanic brymston		ज्वालामुखी ब्रिमस्टन, ज्वालामुखी गंधक	volcanic material	ज्वालामुखी पदार्थ
volcanic butte		ज्वालामुखी व्यूट	volcanic mud	ज्वालामुखी पंक
volcanic chain		ज्वालामुखी शृंखला	volcanic neck	ज्वालामुखी ग्रीवा
volcanic cinder		ज्वालामुखी सिन्डर	volcanic ore deposit	ज्वालामुखीय अयस्क निक्षेप
			volcanic orifice	ज्वालामुखीय रंध्र
			volcanic outer arch	ज्वालामुखीय बाह्य चाप
			volcanic phases	ज्वालामुखीय प्रावस्थाएं

volcanic phenomena		ज्वालामुखीय घटना	volcano-tectonic depression		ज्वालामुखी विवर्तनिक अवनमन
volcanic pipe		ज्वालामुखी नाल	volcano-tectonic fracture		ज्वालामुखी विवर्तनिक विदार
volcanic plains		ज्वालामुखीय मैदान	volcano-tectonic horst		ज्वालामुखी विवर्तनिक उत्थंड
volcanic plug		ज्वालामुखी प्लग	volcano-tectonic process		ज्वालामुखी विवर्तनिक प्रक्रम
volcanic province		ज्वालामुखी शैलक्षेत्र	volcano-tectonic subsidence structure		ज्वालामुखी विवर्तनिक अवनमन संरचना
volcanic quicksand		ज्वालामुखी खोररेत	volcano-tectonic trough		ज्वालामुखी विवर्तनिक झोपी
volcanic region		ज्वालामुखीय प्रदेश	vole	Zool	बोल, शाइलक
volcanic rock		ज्वालामुखी-शैल	Volhard process	Chem	वोल्हार्ड प्रक्रम
volcanics	Geol.	ज्वालामुखी शैल	Volhard's method		वोल्हार्ड पद्धति
volcanic sand		ज्वालामुखी-धालू	Volhard's volumetric method		वोल्हार्ड-आयतनी विधि
volcanic sector graben		ज्वालामुखीय खड्ड घाबेन	volkartia	Bot.	वाल्कार्टिया
volcanic sequence		ज्वालामुखीय अनुक्रम	Volmer-Heyrousky mechanism	Chem	फोमर हेरौस्की क्रियाविधि
volcanic shield cluster		ज्वालामुखी गुम्बद पृज	Volmer-Tafel mechanism		फोमर टेफल क्रियाविधि
volcanic shoreline		ज्वालामुखी-तटरेखा	volo	H Sc.	वोलो
volcanic sink		ज्वालामुखी गर्त	volplane mechanism	Zool.	वायुविसर्पण क्रियाविधि
volcanic skeleton		ज्वालामुखीय अवशेष	volt	Phy.	वोल्ट
volcanic soil		ज्वालामुखी-मिट्टी	Volta effect	Phy., Chem.	वोल्टा प्रभाव
volcanic stack		ज्वालामुखीय स्टैक	voltage	Phy.	वोल्टता
volcanic strata		ज्वालामुखीय स्तर	voltage circuit		वोल्टता-परिपथ
volcanic summit graben		ज्वालामुखीय शिखर घाबेन	voltage coefficient of resistance		प्रतिरोध का वोल्टता गुणांक
volcanic tectonic depression		ज्वालामुखी विवर्तनिक गर्त	voltage divider		वोल्टता विभाजक
volcanic tectonic form		ज्वालामुखी-विवर्तनिक रूप	voltage dividing resistor		वोल्टता विभाजी प्रतिरोधक
volcanic thunder storm		ज्वालामुखी तड़ित भस्मा	voltage doubler		वोल्टता द्विगुणक, विभव द्विगुणक
volcanic tremor		ज्वालामुखी कंप	voltage drop		वोल्टता पतन
volcanic tuff		ज्वालामुखी टुक	voltage feed back		वोल्टता पुनर्भरण
volcanic vent		ज्वालामुखी-द्वार	voltage multiplier (=tension multiplier)		वोल्टता संवर्धक, विभववर्धक संवर्धक
volcanic water		ज्वालामुखी जल			
volcanity		ज्वालामुखता			
volcano	Geol.	ज्वालामुखी			
volcanologist	Geol.	ज्वालामुखी-विज्ञानी			
volcanology	Geol.	ज्वालामुखी विज्ञान			
volcano mantle		ज्वालामुखी प्रवाह			

voltage multiplying circuit		वोल्टता संवर्धक परिपथ	volume chemical ground		आयतन-रासायनिक आधार
voltage noise		वोल्टता रव	volume compression		प्रबलता संकोच
voltage range multiplier		वोल्टता परास वर्धक	volume control		1. प्रबलता नियंत्रक 2. प्रबलता नियन्त्रण
voltage reference diode	Phy.	निर्देश विभव डायोड	volume control potentiometer		प्रबलता नियंत्रक विभवमापी
voltage regulator diode		विभव नियन्त्रक डायोड	volume density		आयतन-घनत्व
voltage relay		वोल्टता रिले	volume displacement		आयतन विस्थापन
voltage stabiliser		वोल्टता स्थायीकारी	volume effect		आयतनी प्रभाव
voltage standing wave ratio (VSWR)		वोल्टता अग्रगामी तरंग अनुपात	volume elasticity		आयतन-प्रत्यास्थता
voltaic battery	Phy., Chem.	वोल्टीय बैटरी	volume element		आयतन अल्पांश
voltaic cell		वोल्टीय सेल	volume energy		आयतन ऊर्जा
voltaic electricity		वोल्टीय विद्युत	volume expander		प्रबलता विस्तारक
voltait	Chem.	वॉल्टाइट	volume expansion		प्रबलता विस्तारण
voltameter	Phy.	विश्लेषण धारामापी, वोल्टामीटर	volume imperfection	Phy.	आयतनिक अपूर्णता
voltmeter	Phy.	वोल्टमापी, वोल्टमीटर	volume indicator		प्रबलता सूचक
voltammetry	Chem.	विभवधारामिति, वोल्टधारामिति	volume integral		आयतन-समाकल
Volta potential	Chem.	वोल्टा विभव	volume limiting amplifier		प्रबलता सीमक प्रवर्धक
volt coulomb	Chem.	वोल्ट कूलॉम	volume mean		आयतन माध्य
Volterra dislocation	Phy.	वोल्टेरा प्रप्रंश	volumenometer		आयतनमापी
Volterra kernel		वोल्टेरा-अट्टि	volume of integration		समाकलन-आयतन
Volterra type operator		वोल्टेरा-संकारक	volume of traffic	Geog.	यातायात-मात्रा
voltine	Zool.	वर्षप्रज	volume polarisation	Phy.	आयतनिक ध्रुवण
voltinism		वर्षप्रजता	volume recombination		आयतनिक पुनःसंयोजन
voltoid	Chem.	वोल्टॉयड	volume regulation		आयतन नियमन
Voltol process	Chem.(Pet.)	वोल्टॉल प्रक्रम	volume strain		आयतन-विकृति
volubilis	Bot.	बलयनी	volume susceptibility		आयतनिक प्रवृत्ति
volatile		बलयनी	volumeter method		आयतनमापी पद्धति, वॉल्यूमीटर पद्धति
volucrisparin	Chem.	वाल्यूक्रिस्पॉरिन	volume theory		आयतन वाद
volume	Geog., Phy., Chem., Math.	1. आयतन 2. प्रबलता 3. खंड	volumetric	Chem.	आयतनी
volume adjuster		आयतन समायोजक	volumetrically	Chem.	आयतनमितितः
			volumetric analysis		आयतनी विश्लेषण
			volumetric composition		आयतनी संघटन
			volumetric diagram		आयतनी आरेख
			volumetric efficiency		आयतनी दक्षता

volumetric estimation		वायतनी परिमाण	vomeropalatine	Zool.	सौरिकानालक
volumetric flask	Chem.	अनुमापी-फ्लास्क	vomilene	Chem.	वोमिलेनीन
volumetric glass ware		अनुमापी काच-पात्र	vomiting	H.Sc.	वमन
volumetric graph		वायतनी ग्राफ	Von Auwer's rule	Chem.	वॉन आऊवर'स नियम
volumetric radar	Phy.	त्रिविम डेटा रेडार	Von Babo's ozoniser	Chem.	वॉन बाबो ओजोनिसर
volumetric solution		अनुमापी विलयन	Von Brown clearance	Chem.	वॉन ब्राउन विदलन
volumetric strain		आयतन-विकृति	Von Brown degradation	Chem.	वॉन ब्राउन नीचोकरण
volumetry		आयतनमिति	Von Brown reaction		वॉन ब्राउन अभिक्रिया
volume unit		प्रबलता मात्रक	Von Brown Rudolf tetrazole synthesis		वॉन ब्राउन रुडोल्फ टेट्राजोल संश्लेषण
volume unit meter (v.u. meter)		प्रबलता मात्रक मापी, v.u मापी	Von Driest's analysis	Math.	क्रान ड्रीस्ट-विश्लेषण
volume wave	Phy.	आयतनिक तरंग	Von Karman momentum integral equation		क्रान कारमो संवेग समीकरण
voluminosity	Chem.	अधिआयतनता	Von Karman's momentum theorem		क्रान कारमो संवेग-प्रमेय
voluminous		त्रिपुल आयतनी	Von Laue's hypothesis	Chem.	वॉन लाउए परिकल्पना
voluntary	Zool, Math.	ऐच्छिक	Von Mises transformation		क्रान मिसेस-रूपान्तरण
voluntary action		ऐच्छिक क्रिया	von Neuman's ratio	Phy., Chem.	क्रान न्युमान-अनुपात
voluntary muscle		ऐच्छिक पेशी	Von Pechman reaction	Chem.	क्रान पेचमान अभिक्रिया
voluntary response		ऐच्छिक उत्तर	Von Richter reaction		क्रान रिक्टर अभिक्रिया
volutin granule		बालूटिन कण	Von Smolachowski's equation	Chem.	वॉन स्मोल्चोव्स्की समीकरण
volution	Geol.	चक्र	Von Weimarn's experiment	Chem.	वॉन वाइमार्न प्रयोग
volutospina		वाल्स्यूटोस्पाइना	voortekker	Geog.	फोर्टेक्कर, यथगामी
Volutospina luctatrix		वाल्स्यूटोस्पाइना लक्ट्रिक्स	voracious feeder	Geog.	महाशनी
Volutospina spinosa		वाल्स्यूटोस्पाइना स्पाइनोजा	voralp	Geog.	वोराल्प
volva		अघोवेष्टन	Vorce cell	Chem.	वोर्स सेल
volvant (solvent)	Zool.	वोल्वेन्ट, परिशेष्टी	vorlander's rule	Chem.	वोरलैंडर नियम
Volvaria	Bot.	वाल्वेरिया	vorseake	Geog.	वॉरसेके (महाशनी)
Volvocaceae		वाल्वोनेलीज	vortak	Phy.	वोर्टैक
volvocine	Bot.	वाल्वाकमीय	votary	Geog.	उपासक
Volvox	Biol.	वॉल्वॉक्स	vortex	Zool.	1. वॉर्टेक्स
Volvox globator		वाल्वॉक्स ग्लोबेटर	vortex drag	Math, Phy.	2. घूर्णित
vomer	Zool, H.Sc.	सौरिक, वोमर			घूर्णित कर्षण
vomerine		सौरिक, वोमरीय			
vomerine teeth		वोमरीय दंत, सौरिक दंत			
vomeronasal organ (Jacobson's organ)	Zool.	सौरिकानाल-अंग (जैकबसन अंग)			

vortex line		घ्रनिल रेखा	V-shaped area	Geol., Geol.	V-आकार क्षेत्र
vortex motion		घ्रनिल गति	V-shaped bottom		V-आकार-तली
vortex pair		घ्रनिल-युग्म	V-shaped depression		1. V-आकृति-अवदाद 2. V-आकृति-गर्त
vortex radius		घ्रनिल त्रिज्या	V-shaped gully		V-आकार बदनालिका
vortex ring		घ्रनिल वलय	V-shaped track		V-आकृतिक लीक
vortex sheet		घ्रनिल परत	V-shaped trough		V-आकृति त्रोणी
vortex street		घ्रनिल मार्ग	V-shaped valley		V-आकार की घाटी
vortex tube		घ्रनिल नलिका	V-spot		V-स्थल
Vorticella	Zool.	वोर्टिसेला	V-T. diagram (= Velocity-time diagram)	Phy.	वेग-काल वारेख
Vorticella consoma		वोर्टिसेला कोन्सोमा	V-T-fuse (= Variable-time fuse)	Phy.	V-T फ्यूज
Vorticella microstoma		वोर्टिसेला माइक्रोस्टोमा	vtoI	Phy.	व्हाल
Vorticella picta		वोर्टिसेला पिक्टा	vug	Geol., Geog.	बग, वास्तारित गुहिका
Vorticellidae	Zool.	वोर्टिसेलिडी	vuggy lode	Geol.	बिबरी गिरानिक्षेप
vorticity	Math.	घ्रनिलता	vugh	Geol.	बग, वास्तारित गुहिका
vorticity tensor		घ्रनिलता प्रदिश	Vuillemin classification	Bot.	व्यूलेमिन वर्गीकरण
vorticity transfer theory		घ्रनिलता-स्थानांतरण- सिद्धांत	vulcanian	Geog.	बल्केनियार्ड
vorticity transport		घ्रनिलता-अभिगमन	Vulcanian activity	Geol.	बल्कानी सक्रियता
vorticity transport equation		घ्रनिलता-अभिगमन- समीकरण	vulcanicity	Geog.	ज्वालामुखन, ज्वालामुखीयता
vorrac systems	Chem.	वोररैक पद्धति	vulcanisation	Chem.	बल्कनीकरण
V or W configuration	Phy.	V बयबा W विन्यास	vulcanise		बल्कनित करना
rotator chiller	Chem. (Fats)	वोटेटर दुत शीतल	vulcanised		बल्कनीकृत, बल्कनित
Rotator fat plastcizing apparatus		वोटेटर बला सुघटित	vulcanised rubber		बल्कनीत रबर
voussoir arch	Math.	ईटदार तोरण, वूसायर तोरण	vulcanism	Geol., Geog.	ज्वालामुखी उद्भव
vowel sound	Phy.	स्वर-ध्वनि	vulcanist	Geol.	ज्वालामुखवादी
voyage	Geog.	समुद्रयात्रा	vulcanite	Geol., Geog.	बल्केनाइट
voyageur	Geog.	नाविक, मस्लाह	vulcanite knob		बल्केनाइट घुंडी
V-particle	Phy.	V-कण	vulcanological research	Geol.	ज्वालामुखीय अनुसंधान
Yrodant Dandel method	Chem.	श्रोडान्ट-डेन्डेल विधि	vulcanology	Geog.	ज्वालामुखी-विज्ञान
Vroonen process	Chem. (Met.)	व्रूनेन प्रक्रम	vulgar fraction	Math.	साधारण भिन्न
VR tube	Phy.	वोल्टता नियंत्रक नलिका	vulgaris	Bot.	सानान्य, साधारण
			vulnerability	Phy., H.Sc.	सुभेद्यता

vulnerable area	<i>Geog</i>	सुभेद्य क्षेत्र	vulture	<i>Zool.</i>	गिद्ध
vulnerable period		सुभेद्यकाल	vulva	<i>Zool, H Sc.</i>	भग
Vulpecula		बल्फेकुला	vulval bridge		भग सेतु
Vulpes	<i>Zool.</i>	बल्पीज (लोमड़ी वध)	vulval cone		भग शकु
<i>Vulpes bengalensis</i>		बल्पीज बेगालेन्सिस	vulval fenestra		भग पत्राक्ष
<i>Vulpes vulpes</i>		बल्पीज बल्पीज (लोमड़ी)	vulval pad		भग तल्प
vulpinic acid	<i>Chem</i>	बुल्पिनिक अम्ल	vulval slit		भग रन्ध्र
vulpinite	<i>Geol.</i>	बल्पीनाइट	vulval flap		भग परलव
Vulsella	<i>Zool.</i>	वल्मैला	vulviform	<i>Zool</i>	भगरूप
vultur		बलटर	vycor process	<i>Chem.</i>	वाद्कार प्रक्रम
			vysbeen	<i>H Sc</i>	विशोत

## W

wa	<i>H Sc.</i>	वा	wafer	<i>H Sc, Phy.</i>	वेकर, पटलिका
Waagenella		वागेनेला	wafer loudspeaker		पटनिका लाउड-स्पीकर
waagenon	<i>Zool</i>	वागेनॉन	wafer paper		वेकर पेपर
waban	<i>H Sc</i>	वाबेन	wafer socket		पटनिका सॉकेट
wachte, wachten	<i>Geog.</i>	वास्ट	waffle	<i>H.Sc</i>	वाँफल
wacke	<i>Geol.</i>	वाँके	waffle stlitch		वाँफल टाका
Wackenroder's solution	<i>Chem</i>	वाकेन्रोडर विलयन	waffle weave		वाँफल बयन
Wacker process	<i>Chem.</i>	वाकर प्रक्रम	wage determination equation	<i>Math</i>	मजदूरी निर्धारण समीकरण
wad	<i>Geol.</i>	वाद	wage earner	<i>H.Sc.</i>	मजदूर, मजदूरी अर्जक, पारिश्रमिक अर्जक
Waddiform		गदारूप	wage rate variable		मजदूरी दर घर
wadding thread	<i>Chem.</i>	पूरण सूत्र	wage statistics		मजदूरी आकड़े
waddler	<i>Zool.</i>	समुपदचारी	wagging	<i>Chem.</i>	अभिलोत्तन
wader	<i>Zool.</i>	जलग	wagging vibration		अभिलोत्तनी वगन
wadi	<i>Geog, Geol.</i>	वादी	Wagner earth	<i>Math., Phy.</i>	वाग्नेर भूमपर्वक
wading bird	<i>Zool</i>	जलग पक्षी	Wagner ground		वाग्नेर भूमपर्वक
wading foot (pedes vadantes)		जलग पाद	wagnerite	<i>Chem</i>	वाग्नेराइट
Wadsworth mount	<i>Chem.</i>	वड्सवर्थ आरोंह, वड्सवर्थ माउंट	Wagner Juregg reaction		वाग्नेर जुरेग अभिक्रिया

Wagner Meerwein rearrangement		वाग्नेर मेरवाइन पुनर्विन्यास	Walker mechanical casting wheel		वाकर यांत्रिक संच चक्र
Wagner rearrangement		वाग्नेर पुनर्विन्यास	Walker probability function		वाकर-प्रायिकता फलन
Wagner turbidimeter		वाग्नेर आविलतामापी	Walker steel tester		वाकर-स्टील निकपित्त
wagon way	Geog.	वैगन-मार्ग	walkie-lookie	Phy.	वाकी-लुकी, चल-दर्शी
wagtail	Zool.	खंजन, घोवन	walkie-talkie		वाकी-टाकी
Wahabi sect	Geog.	वाहवी पंथ	walking foot (pedes gradarii)	Zool.	गमन पाद
Wahl-Gibbs Conover process	Chem.	वाल-गिब्स-कोनोवर प्रक्रम	walking leg		गमन पाद
waif	Geog.	बनाश्रयी	walking reflex		गमन प्रतिवर्त
waif population	Zool.	बनाश्रयी जनसंख्या	wall	H.Sc., Biol.	भित्ति, दीवार
waistcoating	H.Sc.	वेस्टकोटिंग	Wallace's line	Zool.	वालेस रेखा
waistline	Geog.	कटविस्तार	Wallach reaction	Chem.	वालाक अभिक्रिया
waiting line (= queue)	Math.	पंक्ति	Wallach rearrangement		वालाक पुनर्विन्यास
waiting line process		पंक्ति प्रक्रम	Wallago attu	Zool.	वलंगो आटू (पड़िन)
waiting line situation		पंक्ति स्थिति	wall brush		दीवार बुरूश
waiting line system		पंक्ति प्रणाली	wall causeway		भित्ति-काजवे
waiting situation	Math.	प्रतीक्षा स्थिति	wall controlled		भित्ति-नियंत्रित
waiting time		प्रतीक्षा-काल	walled town	Geog.	प्राचीर-नगर, दीवारी नगर
waiting time distribution		प्रतीक्षा काल वंटन	wall effect		भित्ति-प्रभाव
wakanda	Geog.	वाकाण्डा	Wallerian degeneration	Zool.	वैलरी ह्रास
wake	Geog., Phy. Math.	पश्चवर्त्य अनुतरंग, वेक	wallerstein process	Chem.	वालेरस्टाइन प्रक्रम
wake disturbance	Phy.	पश्चवर्ती क्षोभ	wall flower	H.Sc.	भित्तिपुष्प
wake of a cylinder		सिलिंडर पश्चवर्त्य	wall hanging		भित्तिअलंकरण
wake stream	Geog.	वेक स्ट्रीम	wall net		भित्ति जाल
Walden inversion	Chem.	वाल्डेन प्रतिलोमन, वाल्डेन प्रतीपन	Wallis' formula for integration	Math.	वालिस का समाकलन-सूत्र
waldhufendorf	Geog.	वन-ग्राम	wall lamp	Geog.	भित्ति-दीप
Wald's classification statistic	Math.	वाल्ड-वर्गीकरण-प्रतिदर्शज	wall-less chamber	Chem., Phy. (Nucl)	भित्तिहीन कोष्ठ
Wald-Wolfowitz plan		वाल्ड-वुल्फोवित्स आयोजना	wall-less ionization chamber		भित्तिहीन आयनन कोष्ठ
Wald-Wolfowitz test		वाल्ड-वुल्फोवित्स परीक्षण	wall map		दीवारी मानचित्र, वाल मैप
wale	H.Sc.	वेल	wall of Jerico harmony (design)	Chem. (Text.)	हवा महूल, समंजी (अभिकल्प)
Walker-Hickson machine	Chem. (Paint.)	वाकर-हिकसन मशीन			

wall painting		भित्ति-चित्र	wapentake	Geog.	वापेन्टेक
wall paper		भित्ति-कागज	wapiti	Zool	वापीटि
wall paper effect	Geol.	चित्रामी प्रभाव	warble fly	Zool	गुल्मकारी मक्खी
wall reaction		भित्ति अभिक्रिया	warbler	Zool.	वाश्लर, फुदकी
wall rock		भित्ति-शैल	warble tone	Phy	कल्पित स्वर, वारबल स्वर
wall-sided glacier	Geog.	ऊर्ध्वधर हिमनद	warble tone generator		वारबल स्वर जनित
wall tex	H Sc.	वाल टेक्स	Warburg's experiment	Chem	वारबुर्ग प्रयोग
walnut		अखरोट, अलोट	ward	Geog	वाई
walnut comb		अलोट कंकत	wardrobe	H Sc	वाइंरोब
walnut flour		अलोट विचूर्ण, अखरोट विचूर्ण	wardrobe bed		वाइंरोब पलंग
walnut meadow nematode		अखरोट शाइल सूत्रकृमि	wardrobe case		वाइंरोब केस
walnut oil		अलोट तेल, अखरोट तेल	ware	H Sc.	वाड
walnut wood		अखरोट की लकड़ी	ware	Geog	वाल
Walpole technique	Chem.	वालपोल तकनीक	warehouse	Geog., Math.	गोदाम
walpurgite	Geol	वालपुर्जाइट, वानपुर्गाइट	warehouse problem		गोदाम समस्या
walrus	Zool., Geog.	वालरस	warehouse zone		गोदाम-क्षेत्र
walrus tusk		वालरस-रद	warfarin	Zool.	वारफैरिन
walterisation	Chem (Met)	वाल्डरन	war-gaming group	Math	युद्ध-खेल समूह
waltzer	Zool.	लोटक	war-harness		युद्ध सज्जा
wamoscope	Phy.	वैमोस्कोप	warringtonite	Geol.	वैरिंग्टोनाइट
wanderer	Geog	परिभ्रमक	warm	Geog., Biol.	गुनगुना, कोष्ण
wandering cells	Zool.	परिभ्रमो कोशिका	Warman penetrascope	Chem (Met.)	वार्मन वेधदर्शी
wandering continents		परिभ्रमो महाद्वीप	warm-blooded animal	Zool.	नियततापी प्राणी, समतापी प्राणी
wandering dune		परिभ्रमो टिड्वा	warm-bloodedness		नियततापता, समतापता
wandering life	Geog.	प्रमणशील जीवन	warm-blooded vertebrate		नियततापी कशेरुकी
wandering micronucleus	Zool.	चल लघुकेंद्रक	warm boreal element		कोष्ण बोरियन तत्व
wandering star	Math.	ग्रह	warm-brown colour	Geog.	चटक-नाम रंग
wanderoo	Zool.	नीलगिरी लघुर	warm-core anticyclonic eddy		उष्ण केंद्र प्रतिसक्लनादी मंडर
Wandorobo	Geog.	वाइरोरोबो	warm front		1 उष्ण बानाघ 2 उष्णाम
wang's wave function	Phy, Math.	वांग तरंग फन्क्शन	warming-in	Chem (Gl)	गुनगुनापन
wani	H Sc.	वेनी	warm monomictic lake		कोष्ण एकाद्वर्तनी झील
waning slope	Geog.	क्षीयमाण ढाल			
Wanklyn's soap solution	Chem (Text)	वाङ्क्लिन साबुन विलयन			
Wanner pyrometer	Chem.	वैनर उष्णमापी			



warm sector (of depression)	उष्ण-क्षेत्र (अवदाव का)	warp rib weave	H.Sc.	पट्टीदार ताना बवन
warm setting	कोष्ण दृढ़न	warp soil	Geog.	बवसादो मृदा
warm temperate	कोष्ण शीतोष्ण	warren	Geog.	वारेन, पशु-भूमि
warmth-loving plant	कोष्णताप्रिय पौधा	warrener		पशु-भूमिरक्षक
warm-tolerant species	कोष्णसह जाति	Warren reaction	Chem. (Paint.)	वारेन अभिक्रिया
warm-water biotope	कोष्णजलीय जैवस्थानिक	wart	Bot., Zool.	मस्ता, किणक
warm-water fauna	कोष्णजल प्राणिजात	warthin starry method	Bot.	वार्थिन-स्टारी विधि
warm water fish	कोष्णजल मीन	wartime blockade	Geog.	युद्धकालीन नाकाबंदी
warm wave	कोष्ण-तरंग	wartime dislocation		युद्धकालीन अव्यवस्था, युद्धकालीन विभ्रंखला
warning box	Geog. चेतावनी-बक्स	wartime expedient		युद्धकालीन उपाय
warning coloration	Zool. भयसूचक रंग	wartless	Zool.	मस्ताहीन
warning mimicry	भयसूचक अनुहरण	warty	Bot., Zool.	मस्सेदार, किणकी
warp	Chem., H.Sc. ताना, तानक (Text.)	warty newt		मस्सेदार न्यूट
	Geol. विकृचन (Plastics)	wasalic	H.Sc.	वासावी
	बाबलिन (n.)	*Wasat	Math.	वसत (= ४ मियून, ४ जेमिनोरम)
	बाबलन (v.)	(= ४ Geminorum)		
	Geog. वार्प	wash	Geog., Geol.,	1. वाश, स्वर्णमयग्रैवेल
warpage	Chem. विकृचता		H.Sc.	2. वालिप
warp beam	तानक दंड	washable		3. धावन, प्रक्षाल
warp distortion	ताना विकृति	wash and wear	H.Sc.	धावन्य, धोने योग्य
warped	Zool., Geog., Geol. बाबलित	wash basin		वाश एन्ड वीयर, इस्त्री बनापेक्ष (प्ररिष्कृति)
warped coastai plain	बाबलित तटीय मैदान	wash board	Chem., H.Sc.	धावन-कुंडी, धावन-पात्र
warped plateau	बाबलित पठार	washboard course	Phy.	प्रक्षालन पट्ट
warped valley lake	बाबलित घाटी झील	wash boiler		अनियमित पथ
warp fold	तानक तह	wash bottle		धावन वाष्पित्र, धावन बॉयलर
warping	Geol., Geog., Math. बाबलन	wash dirt	Geol.	धावन बोतल
warping constant	बाबलन स्थिरांक	wash dirt		धाव-स्वर्णबूलि
warping function	बाबलन-फलन	washer	Phy., Chem., H.Sc.	प्रक्षालित्र, वाशर
warping rigidity	बाबलन-द्रुढ़ता	washes	Chem.	प्रक्षाल
warp knitted structure	ताना अथित संरचना	wash fast fabric	H.Sc.	धावनसह बस्त्र
*Warp lace	तानक लेस	washing	H.Sc.	धुलाई, धोना, धावन
warp land	बाबलिन भूमि	washing aid	Geog.	प्रक्षालन साधन, वाशिंग एड
warp locknit	ताना पाशअथित	washing basin		धावन-कुंडी
warp printing	ताना मुद्रण	washing liquor		धावन लिक्वर, धावन द्राव
warp rib	H.Sc., Chem. ताना पट्टी			

washing machine		घावन यत्न, घुलाई की मशीन, घाविल	waste covered mountain		अपरदाभूत पर्वत
washing plant		घावन सयत्न	wasteful fallow	Geog.	क्षयो परतीभूमि
washing soda	Chem., H.Sc.	घोले का सोडा	waste gas		अपशिष्ट गैस
washing stuff	Geol.	घाव स्वर्णमुदा	waste heat boiler		अपशिष्ट ऊष्मा प्रवाणित, अपशिष्ट ऊष्मा बॉयलर
wash-land	Geog.	खादर	waste instruction	Phy.	व-सक्रिया अनुदेश
wash liquid	Chem.	घोल द्रव	waste land		व्यर्थ भूमि
Washoe process	Geol.	वाशो प्रक्रम	waste mantle		अपरद-प्राकार
wash oil	Chem (Pet)	प्रसालन तैल	waste matter		अपशिष्ट द्रव्य, रद्दी पदार्थ
wash ore	Geol.	प्रसाल्य अयस्क	waste product		अपशिष्ट उत्पाद, उत्सर्ग
wash out	Geol., Geog.	प्रसाल वाहिका	wasters (seconds)	Chem. (Met)	अपशेष
wash out ink	Chem.	प्रसाल्य मसी	waste silk		अपशिष्ट रेशम
washover	Geol., Geog.	अपसाल	wat	Geog.	वाट (बौद्ध मठ)
wash satin	H Sc.	घावन्य साटन	wata	H Sc	वाटा
wash silk		घावन्य रेशम (वस्त्र)	wat a set		वाट ए सेट
wash slope	Geog.	मद ढाल	watch	Geog., Phy.	घड़ी
wash solution	Chem.	घोल विलयन	watch glass	Chem., Geol.	वाच-ग्लास
wash sprays		घावन फुहार	watch oil	Chem.	घटिका तेल, घड़ी तेल
wash stand		घावन स्थान	watch tower	Geog	आवेक्षण मीनार, वाच टावर
wash test		घावन परीक्षण	water	Geol.	1. जल 2. आभय, पानी (of precious stones)
wash tower	Chem. (Fert.)	प्रसालन मीनार	water agar medium		जल ऐगार माध्यम
wash trommel		घावन ट्रॉमेल	water-albite system		जल-अल्बिट सिस्टम
wash unit		घावन एकक	water annealing		जल-अनीलन, जल क्षापानुशीतन
wash up space		घावन स्थान	water balance		जल-संतुलन
wash wheel	Chem. (Text.)	प्रसालन चक्र	water base fluid		जलाधारी तरल
wash zinc		धातु जिंक	water-base mud fluid		जलाधारी पक्क तरल
wasp	Zool.	बंदे, बरट	water bath		जल-कुंडिका, जल-उष्मक
wassail	H Sc	वांसिल	water bear		जल भालू, जल शृंग
wassail bowl		वांसिल बॉल	water bearing bed		जलधारी शयन
wassail cup		वांसिल कप	water-bearing formation		जलधारी शैलमयूह
waste	H Sc., Geog., Geol., Chem., Zool	1. अपशिष्ट, रद्दी 2. अपरद 3. व्यर्थ (भूमि) 4. उत्सर्ग	water bearing stratum		जलधारी स्तर
waste bank		व्यर्थ ढल			
waste basket	H.Sc.	बूटा-टोकरी			

water beetle		जल भृंग	water drip test		जल स्पन्द निकप
water bloom		जल प्रस्फुटन	water drop test		जल बिन्दु निकप
water blue (soluble blue)	<i>Chem.</i>	विलेय नील, वाटर ब्लू	water emulsion resin		जल इमल्शन रेजिन
water boatman (bug)		जलनाविक	water equivalent		जल-सुल्यांक
water body		जलाशय	water erosion		जल-अपरदन
waterborne		जलोद्	water fall		जलप्रपात
waterborne freight		जलोद् भार	waterfall erosion		जलप्रपात-अपरदन
water borne traffic		जल-यातायात	waterfall gully		जलप्रपात अवनालिका
water break		जलखंड	water feature		जल बाह्यति
waterbreather		जलश्वासी	water fed		जल भरित
water bucket		जल-बाल्टी	water film		जल-झिल्ली, जल-फिल्म
water bug		जल मत्स्य	water finished paper		जल परिसज्जित कागज
water capacity		जलधारिता	water flea		जल पिस्तू, जल पिशु
water carriage		जल-वाहन	water flow pyro-heliometer		जल प्रवाह सूर्य विकिरण मापी
water cell absorption		जल-कोशिका अवशोषण	water flow retardation		जल-प्रवाह मन्दन
water channel		जल-प्रणाल, जलवाहिका	water form		जलीय बाह्यति
water clock		जल-घड़ी	waterfowl		जलकुक्कुट
water colour painting		जल रंग चित्र	water gap		जलदर्रा
water conditioning		जल प्रानुकूलन	water gas	<i>Chem.</i>	भाप-अंगार-गैस
water content		जलांश	water gas-tar	<i>Chem.</i>	भाप-अंगार-गैस तारकोल, भाप अंगार गैस टार
water cooled condenser		जल शीतित संघनित्र	water gate		जलद्वार
water cooling		जलीय शीतलन	water gauge method		जल-प्रमापी विधि
water core		जल कोर	water glass		जल-विलेय काच
watercote		जललेप	water grade		जल प्रवणता
water course		जल-मार्ग	water heater		जलतापक
watercress		वाटर क्रेस, जलपत्ती	water-hemisphere		जलगोलाखंड
water culture		जल-संवर्धन, जल संवर्धन	waterhen		जलकुक्कुटी
water cupola		अधिसमुद्र क्यूपोला	water hole		जल-बिबर, जल छिद्र, जल गतिका
water cycle		जल-चक्र	water icing		जलमिष्टलेप
water deficient syrup		जलापूर्ण सीरप	water-impoundment		कृत्रिम झील
water delay line	<i>Phy.</i>	द्रव विलम्ब लाइन	water inch		जल इंच
water deprivation		जल हानि	water-in-fuel-oil emulsion		ईंधन-तैले-जल पायस
water dipole		जलीय द्विध्रुव	watering	<i>Chem. (Text.)</i>	1. तान्त्रिक विषमता
water dispersible powder		जल-प्रकीर्ण चूर्ण	watering can	<i>H.Sc.</i>	2. जलीयन
water divide		जल विभाजक			हजारा, पानी देने की बाल्टी
water divining	<i>Geol.</i>	यष्टिक जलखोज			

watering place	<i>Geog.</i>	जलग्रहण स्थान	water pollution	जल कलुषण
water in oil emulsion	<i>Chem.</i>	तेल-जल पायम, तेल जल द्रवस्थान	water pore	जल-रंध
water insoluble		जलअघुल्य	water power	जल-शक्ति
water jacket		वाटर जैकेट	water proof	जलरोधी
waterlaid moraine		जलानीत हिमोढ़	water proof cement	जलरोधी सीमेंट
water leaching		जल निक्षालन	water proof fabric	जलरोधी वस्त्र
water lead	<i>Chem.</i>	वाटर लीड	water proofing compound	जल सहकारक यौगिक
waterleaf paper	<i>Chem.</i>	आधार कागज	water proof ink	जलरोधी स्पाही
waterless holders		जलहीन धारक	water proof roof	जलरोधी छत
water level		जलतल	water pump	जल पम्प
waterlift		जलोद्वाही	water repellancy	जल प्रत्याकर्षिता
water load		जल भार	water repellent	जल प्रत्याकर्षी, जलप्रतिकारी
waterlogged		जलज्वल	water repellent fabric	जल प्रत्याकर्षी वस्त्र
waterlogged field		जलज्वल क्षेत्र, सेमना	water repelling barrier	जल प्रत्याकर्षी रोधिका
water logging		जलज्वलन	water requirement	जल आवश्यकता
water mains		जल-प्रनाल	water resistant	जल-प्रतिरोधी
water mark		जल-चिह्न	water rich hydrate	जल-प्रचुर हाइड्रेट
water mark disease		जलचिह्नरोग	water rolled	जलवेहिलित
water mass		जल रसि, जल मात्रा	water sac	जलकोष
water meadow		जल-शादल, जल-वायर	water sampling bottle	जल प्रतिदर्शी बोतल
water melon	<i>Bot., H Sc</i>	तरबूज	water scorpion (moth)	जल बुचिकाम (धलम)
water melon wilt		तरबूज की म्लानि	water seal	जल सील, जल-समुद्र
water mill	<i>Geog.</i>	पनचक्की	water sealed	जल-समुद्रित
water mlte		जल बरफी	water separator	जल पृथक्कारक
water mold		जल फफूंदी	watershake	वाटर शेक, जल-धरार
water monitoring		जल मानीटरन	water shed	1. जल-विभाजक 2. जल-सभर
water of compaction	<i>Geol.</i>	सहनन जल	water-side location	<i>Geog.</i> तटीय अवस्थिति
water of constitution		रचना-जल, सघटन जल	water sink	जल गतिका
water of crystallisa- tion		निस्टलन-जल	water slip	जल धरार
water of supersatura- tion		अतिसत्वृप्ति जल	water smoking	जल घुमन
water parting		जल-विभाजक	water snail	जल शॉपर, जल शजूक
water pitcher	<i>H.Sc.</i>	कुम्भ, घड़ा	water soaked	जल सिक्का
water plaine		जल पृष्ठ	water soaked spots	जल सिक्का ससम
water pocket		जल-कोटरिका	water softened soil	जल-मृदुकर मिट्टी
water poisoning		जल विपाकतडा		

water softener	जल-मृदुकारी, जल मृदुकारक	water vapour absorption	जल-वाष्प अवशोषण
water softening	जल-मृदुकरण	water vascular system	जल-संवहनी तंत्र
water softening unit	जल-मृदुकरण एकक	water vein	जल शिरा
water soluble	जल विलेय	water vessel	जल वाहिका
water soluble ink	जल-विलेय स्याही	water voltameter	जल वोल्तामीटर
water soluble salt	जल-विलेय लवण	water wash	जल-धावन
water soluble stain	जल-विलेय दाग	water way	जलमार्ग
water spotting	जल बिन्दुकन	water weed	जल-वनस्पति
water spout	जलस्तंभ	water well	जलकूप
water spray technique	जल-फुहार तकनीक	water wheel	जल चाक
water spread	जल-विस्तार	water white distillate	जल-श्वेत धामुत
water still	जल-भभकी	waterworn	जलघृष्ट
water stir pyroheliometer	जल विलोडन सूर्य विकिरणमापी	waterworn fragment	जलघृष्ट खंड
water stoma	जल-रंध्र	waterworn stone	जलघृष्ट अश्म
waterstone	<i>Geog.</i> वाटरस्टोन	water-yielding zones	जलोत्पादक क्षेत्र
water string	जल रज्जु, जल रस्ती	watery vapour	जल वाष्प
water supply source	जल-संभरण स्रोत	watson analyser	वाट्सन विश्लेषित्र
water surface	जल-पृष्ठ	Watson-Cricks helix	वाट्सन-क्रिक्स हेलिक्स
water swallow	जलविलय-रंध्र	Watson Cricks model	वाट्सन-क्रिक्स मॉडल, वाट्सन-क्रिक्स प्रतिरूप
water symbol	जल-प्रतीक	watt (unit)	<i>Phy., H.Sc.</i> वाट
Water tabby	<i>H.Sc.</i> वाटर टैबी	wattage	वाटता
water table	<i>Geog., Geol.</i> भूमि जलस्तर	wattage rating	वाट दर
watertable isohyps	भूमिजलस्तर आइसोहिप्स	watt-balance	<i>Phy.</i> वाटतुला
water-teller	जलसूचक	watte	<i>Geog.</i> वाटे, ज्वारीय सपाट
water test time	जल परीक्षण अवधि	wattful current	<i>Chem. (Met.)</i> वाटफुल धारा
water tight	जलरोधी, जलरुद्ध	watt hour	वाट-घंटा
watertight bed	जलरोधी संस्तर	watt hour meter	वाट-घंटामापी
water transport	जलाभिगमन	wattle	<i>Geog. Zool.</i> वाटल, ठाठर वैंटल, मांसलपालि
water trap	जल-पाश	wattle bark	वाटल छाल
water tube	जल-नलिका	wattless current	<i>Phy.</i> कार्यहीन धारा, वाटहीन धारा
water tube boiler	जलनली बायलर	wattless power	वाटहीन शक्ति
water turbine	जल टर्बाइन	wattmeter	<i>Phy.</i> वाटमापी
water twist	जलवेष्टन	watt silk	वाट रेशम
water vacuole	जल-धानी	Watts solution	<i>Chem.</i> वाट्स विलयन
water vapour	जल-वाष्प		

Watwa	<i>Geog.</i>	वाटवा	wave guide slug tuner	तरंग पथक स्लग समस्वरित्र
wave		तरंग	wave guide stub	तरंग पथक स्तूप
wave (moth)	<i>Zool</i>	ऊमिक, बीचिक	wave guide tuner	तरंग पथक समस्वरित्र
wave-action		तरंग-क्रिया	wave guide twist	तरंग पथक मरोड़
wave acoustics		तरंग-ध्वनिकी	wave guide window	तरंग पथक गवाश
wave analyser		तरंग-विश्लेषक	wave height	तरंग उच्चता
wave antenna (=Beveridge antenna)	<i>Phy.</i>	बेवेरिज एन्टेना, तरंग एन्टेना	wave impedance	तरंग प्रतिबाधा
wave base		तरंग निम्नियता तल	wave intensity	तरंग-तीव्रता
wave built terrace		तरंग निमित्त वेदिका	wave length	तरंग-दैर्घ्य
wave cut bench		तरंग कर्तित बेंच	wave length, constant	तरंग-दैर्घ्यक
wave cut cliff		तरंग-कर्तित भूगु	wave length curve	तरंग-दैर्घ्य वक्र
wave-cut notch		तरंग कर्तित खांच	wave length drum	तरंग दैर्घ्य ढोलक
wave cut platform		तरंग-कर्तित वेदी	wave length effect	तरंग दैर्घ्य प्रभाव, तरंग लम्बाई प्रभाव
wave-cut shelf		तरंग-कर्तित शेलफ	wavelet	<i>Phy, Geol.</i> तरंगिका
wave delta		तरंग-डेल्टा	wave-like fold	<i>Geol</i> तरंगित बलन
wave drag		तरंग कर्षण	wave-like solution	<i>Phy.</i> तरंग रूपी हल
wave drag coefficient		तरंग कर्षण गुणांक	wavelet	<i>Geol</i> वेवेलाइट
wave equation		तरंग-समीकरण	wave mark	तरंग चिह्न
wave erosion		तरंग अपरदन	wave mechanical atom	तरंग यान्त्रिक परमाणु
wave form		तरंग का रूप	wave mechanical resonance	तरंग यान्त्रिकीय अनुनाद
wave form distortion		तरंग-विकृपण	wave mechanical treatment	तरंग यान्त्रिकी विवेचन
wave-formed cliff		तरंग-निमित्त भूगु	wave mechanics	तरंग यान्त्रिकी
wave front		तरंगसम	wavemeter	<i>Phy.</i> तरंगमापी
wave function		तरंग फलन, तरंग फंक्शन	wave mill	<i>Geol</i> मगनीमि पेरण
wave group		तरंग समूह	wave model	तरंग का मॉडल
wave guide		तरंग पथक, तरंग पथ निर्धारित्र	wave motion	तरंग-गति
wave guide attenuator		तरंग पथक क्षीणनकारी	wave nature	तरंग प्रकृति
wave guide bend		तरंग पथक वक्रन	wave normal	तरंग-अभिमुख
wave guide directional coupler		तरंग पथक दिगिक युग्मक	wave number	तरंग-संख्या
wave guide gasket		तरंग पथक गार्केट	wave number vector	तरंग-संख्या-सदिश
wave guide lens		तरंग पथक लेन्स	wave of dilatation	विस्फरण तरंग
wave guide post		तरंग पथक स्तम्भ	wave of distortion	विकृपण-तरंग
wave guide resonator		तरंग पथक अनुनादी	wave of explosion	विस्फोट-तरंग
wave guide shim		तरंग पथक शिम	wave of light	प्रकाश-तरंग
wave guide shutter		तरंग पथक शटर		

wave of oscillation		दोलन-तरंग	waviness	(Plast)	तरंगिलता
wave of translation		स्थानान्तरणी तरंग	wavy	Phy., Geol.	तरंगित, तरंगिल, ऊमिल, लहरदार
wave ogive		तरंग ओजाइव	wavy broken twill		तरंगिल खंडित ड्वील
wave optics		तरंग-प्रकाशिकी	wavy diamond twill		तरंगिल हीरक ड्वील
wave oriented		तरंग मूलक	wavy dissected scarp		ऊमिल-विच्छेदित कगार
wave packet		तरंग पिटक	wavy hair		ऊमिल बाल, लहरिया केश
wave particle dualism		कण-तरंग द्वैतवाद	wavy line		तरंगिल रेखा
wave path		तरंग पथ	wavy pointed zigzag twill		तरंगिल नोकदार कुटिल ड्वील
wave pattern		तरंग-चित्राम	wavy twill		तरंगिल ड्वील
wave period		तरंग का आवर्तकाल	wavy vein		तरंगित क्षिरा
wave phase		तरंग-प्रावस्था	wavy zigzag twill		तरंगिल कुटिल ड्वील
wave planation		तरंग समतलन	wax	Chem., H Sc.	सिक्थ (मोम) मोम
wave propagation		तरंग-संचरण	wax-based crayon	Geog.	मोमी चित्रांकनी
wave pulse		तरंग-स्पंद	waxbill	Zool.	मोमचंचु
wave refraction		तरंगापवर्तन	wax burnishing		मोम उद्घ्राजन, सिक्थ उद्घ्राजन
wave region		तरंग प्रदेश	wax cell		मोम कोशिका
wave resistance		तरंग प्रतिरोध	wax cloth		मोम वस्त्र
wave shape		तरंग का रूप	wax chamber		मोम कक्ष
wave soldering (=flow soldering)	Phy.	प्रवाह टांकन, प्रवाह सोल्डरन	waxed paper	H.Sc., Geog.	मोमी कागज
wave spectrum		तरंग स्पेक्ट्रम	wax engraving		मोम-नक्काशी
wave stitch	H.Sc.	लहरिया टांका	wax filter		सिक्थ निस्यन्दक, मोम फिल्टर
wave surface		तरंग-पृष्ठ	wax gland		मोम ग्रंथि
wave system		तरंगावली	wax gourd	Bot.	पेठा
wave tail		तरंग पुच्छ	waxing	Chem.	मोम लेपन, सिक्थन
wave temperature		तरंग ताप	waxing slope	Geog.	वर्द्धमान ढाल
wave theory		तरंग सिद्धान्त	wax pick test	Chem. (Paper)	मोम समाहार निकप, मोम कुरेद निकप
wave theory of light		प्रकाश का तरंग सिद्धान्त	wax plate		मोम पट्ट
wave theory of matter		द्रव्य का तरंग सिद्धान्त	wax tallings	Geol.	मोमी अवशेष
wave train		तरंगावलि	waxy	Geol.	मोमी
wave trap		तरंग ट्रैप	waxy bloom		मोमी राग
wave trough		तरंग गर्त	wax yellow		मोमी-भीत
wave twill		लहरिया ड्वील	waxy lustre		मोमी चमक
wave vector		तरंग सदिश	way	Geog.	मार्ग
wave vector surface		तरंग सदिश पृष्ठ			
wave velocity		तरंग-वेग			
wave wear		तरंग-वर्षण			

way of life	<i>Geog.</i>	जीवन-रीति	weak screening	<i>Phy.</i>	क्षीण आवरण
weak		तनु, दुर्बल	weak shock wave		दुर्बल प्रभाली तरंग
weak axis		दुर्बल अक्ष	weak solution		तनु विलयन
weak blue		दुर्बल नील	weak swirl		दुर्बल भ्रमर
weak compactness		दुर्बल महत्ता	weak top		दुर्बल शिखर
weak continuum		दुर्बल सातत्य	weak topology		दुर्बल सन्धिति
weak convergence		दुर्बल अभिसरण	weak transition		दुर्बल संक्रमण
weak converse		दुर्बल विरोध	wear	<i>Geog.</i>	1 विभाई, धरण
weak coupling		दुर्बल युग्मन, शिथिल युग्मन		<i>H Sc</i>	2 परिधान
weak current		दुर्बल धारा	wearing	<i>Geol.</i>	घिस जाना
weak direct product		दुर्बल अनुलोम गुणफल	wearout period	<i>Math.</i>	धमन काल
weak direct sum		दुर्बल अनुलोम योगफल	wear-plate	<i>Chem.</i>	अपघर्षण पट्टिका, अपघर्षण प्लेट
weak discontinuity		दुर्बल अमानत्य	wear-tear	<i>H Sc.</i>	जीर्ण शीर्ष
weak dual		दुर्बल द्वैत	wear test	<i>H Sc.</i>	जीर्ण परीक्षा
weak electrolyte		दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युदक्ष	wear testing machine		जीर्ण परीक्षा यन्त्र
weak factor	<i>Chem (Paint.)</i>	विघर्ष गुणक	weasel	<i>Zool.</i>	वीजल
weak field		दुर्बल क्षेत्र	weather	<i>Geog.</i>	सौमम
weak interaction	<i>Phy.</i>	क्षीण अन्योन्य क्रिया	weatherability	<i>Geol.</i>	अपक्षयता
weak lens		दुर्बल लेन्स	weather chart		सौमम-चार्ट
weak level		दुर्बल स्तर	weather cock	<i>Geog.</i>	वातदर्शक मोर, वात सूचक
weak limit		दुर्बल सीमा	weather cock (stability)	<i>Phy.</i>	स्थायित्व अवस्थान
weak line (spectral)	<i>Phy.</i>	क्षीण रेखा	weather code		सौमम कोड
weakly degenerate	<i>Phy.</i>	कल्प अपभ्रष्ट	weathered crude	<i>Chem (Pet)</i>	वाताहत कच्चा तेल, सौममिन कच्चा तेल
weakly interacting system	<i>Phy.</i>	क्षीण अन्योन्य-क्रिया तंत्र	weathered ice	<i>Geog.</i>	अपक्षीण बर्फ
weakly primary	<i>Math.</i>	दुर्बल प्राथमिक	weathered residual soil		अपक्षीण अवशिष्ट मृदा
weakly semi simple algebra		दुर्बलतः सार्ध सरल बीजावली	weathered rock		अपक्षीण शैल
weak metric		दुर्बल दूरीक	weathered trap		अपक्षीण ट्रैप
weak monsoon	<i>Geog.</i>	क्षीण मानसून	weathered volcanic island		अपक्षीण ज्वालामुखी-द्वीप
weak parabola	<i>Phy.</i>	क्षीण परवलय, क्षीण पैराबोला	weathered zone		अपक्षीण महक
weak radical		दुर्बल वरणी	weather forecast		सौमम पूर्वानुमान
weak relative maximum		दुर्बल आपेक्षिक अधिकतम	weathering	<i>Geol.</i>	अपक्षय, अपक्षयण
weak relative minimum		दुर्बल आपेक्षिक न्यूनतम	weathering correction		अपक्षय संशोधन



weathering crust		अपक्षय-सर्पटी	Weber process	<i>Chem.</i> <i>(Met.)</i>	वेबर प्रक्रम
weathering front		अपक्षयग्र	Weber's integral	<i>Math.</i>	वेबर-समाकल
weathering of wood	<i>Chem.</i>	काष्ठ वाताहन	Weber's transformation		वेबर रूपान्तरण
weathering potential		अपक्षय-क्षमता	Weber test		वेबर परीक्षण
weather integral		मौसम समाकल	web-fed rotary press		जाल भरित घूर्णी प्रेस
weatherman	<i>Geog.</i>	मौसमवैज्ञानिक	web of relationship		संबंध जाल
weather map		मौसम मानचित्र	web spinner	<i>Zool.</i>	जालदाय
weather map analysis		मौसम मानचित्र विश्लेषण	webril M	<i>H.Sc.</i>	वेब्रिल M
weather maxim	<i>Geog.</i>	मौसम-सूत्र	webril R		वेब्रिल R
weatherometer	<i>Chem.</i> <i>(Paint.)</i>	वाताहृति मापी	websterite	<i>Geol.</i>	वेब्सटराइट
weather pits	<i>Geol.</i>	अपक्षय गर्त	wedder	<i>Geog.</i>	वेडर
weather report		मौसम-रिपोर्ट	wedding cake	<i>H.Sc.</i>	विवाह केक, वैडिंग केक
weather shore	<i>Geol.</i>	अपक्षयमुखी तट	wedge	<i>Phy., Chem.</i>	1. वेज, फान, फन्नी 2. शंकुलिपि
weather simulation		मौसम अनुकार	wedge clam		फान क्लैम, फान सीपी
weather stain		मौसमी अपरंजन	wedge effect		फान प्रभाव
weather vane	<i>Geog.</i>	वातसूचक	wedge filter		वेज फिल्टर, फन्नी फिल्टर
weather vane type of spore trap	<i>Bot.</i>	वातसूचककार बीजाणुपाश	wedge horn		वेज शृंग, फन्नी शृंग
weather variable		मौसम चर	wedge like construction		वेजवत् रचना, कीलवत् रचना
weave	<i>Chem.</i>	वयन, बुनाई	wedge of high pressure		उच्चदाब-वेज
weave beading	<i>Chem.</i>	व्यूति मनकायन	wedge packet		वेज पिटक
weaver	<i>Zool.</i>	वायक	wedge photometer		वेज प्रकाशमापी
weaver bird	<i>Zool.</i>	वया, कुर्लिंगक	wedge point pin		वेज बिन्दु पिन
weaving	<i>Chem., H.Sc.</i>	वयन, बुनाई, व्यूति, बुनती	wedg problem		फान समस्या
web	<i>Zool., H.Sc.</i>	1. जाल 2. पादजाल	wedge product		फान-गुणनफल
webbed		जालयुक्त	wedge rock	<i>Geol.</i>	मध्यम शिरानिक्षेप
webbed newt		जालयुक्त न्यूट	wedge tabular		फान-सपाट
webbing		जालन	wedge shaped		वेजरूपी, फानाकार
web builder		जाल बुनकर	wedge shaped concavity		फानाकार अवतलता
web-coating		जाललेपन	wedge shaped projection		फानाकार प्रक्षेपण
weber (unit)	<i>Phy.</i>	वेबर	wedge theory		फान सिद्धान्त
Weber-Fechner law	<i>Chem.</i> <i>(Panit.)</i>	वेबर-फेचनर नियम	wedge wire screen		फान तार छना
Weberian apparatus	<i>Zool.</i>	वेबर उपकरण	wedging growth		वेज-वृद्धि
Weberian ossicle		वेबर अस्थिका			

Wedgwood's pyrometer	<i>Chem.</i>	वेजवुड उतापमापी	Weierstrassian function		बाइएस्ट्रॉसी फलन
weed	<i>Bot.</i>	खर पतवार, घामपात, अपनूण	weigh	<i>Math., Phy</i>	तोलना
weed covered sea		अपनूणावृत समुद्र	weigh belt feeder	<i>Chem.</i>	भार पट्टा सभरक
weedicide		अपनूणनाशी, खरपतवारनाशी	weighing bottle	<i>Phy.</i>	तोल-बोतल
weeding		निराई	weighing network	<i>Phy</i>	भारण जाल
weed killer		अपनूण-नाशी	weighing piggy		सूक्ष्म तोल बोतल
weckly blow-out	<i>Geog.</i>	साप्ताहिक प्रस्फोटन	weight	<i>Math. Geog.</i>	1 भार, तौल, वजन, बाट 2 गरिमा
weeper	<i>Geol.</i>	रिसता छिद्र, स्रावी छिद्र	weightage	<i>Phy</i>	भारण
weep hole		रिसता छिद्र, स्रावी छिद्र	weight average molecular weight		भार-औसत अणु-भार
weeping rock	<i>Geol</i>	रिसती-चट्टान	weight bogey	<i>Phy</i>	सक्ष्यभार
weeping water	<i>Chem. (Paint)</i>	बोपिग वाटर	weight box		बाट-बेटी
Weerman's reaction	<i>Chem.</i>	वीरमान अभिक्रिया	weight burette		भार-भूरेट
Weerman test		वीरमान परीक्षण	weighted ability	<i>Math., Phy</i>	भारित उपयोयिता
weevil	<i>Zool., H.Sc</i>	घुन	weighted aggregate		भारित समष्टि
weft	<i>H Sc.</i>	वाना, वानक, आडा	weighted arithmetical average		भारित समान्तर माध्य
weft darn		भाडा रफू	weighted average		भारित माध्य, भारित औसत
weft distortion		वाना विकृति	weighted battery		भारित परीक्षावली
weft fold		वानक तह	weighted code		भारित कूट
weft printing	<i>Chem</i>	निर्यक मुद्रण	weighted difference		भारित अंतर
welstereb	<i>Chem., H Sc. (Text.)</i>	वाना पशुक	weighted index number		भारित सूचकांक
weft yarn		वाना सूत्र	weighted linear regression function		भारित रैखिक समाश्रयण फलन
Wega ( $=\alpha$ Lyrae)	<i>Math.</i>	वेगा, अभिजित ( $=\alpha$ लाइरी)	weighted mean		भारित माध्य, भारित औसत
wegsamkeit	<i>Geol.</i>	वैगसाम्कादट	weighted noise		भारित रव
Wegscheider test	<i>Chem.</i>	वेगसाइडर परीक्षण	weighted regression		भारित समाश्रयण
Wehnelt cathode	<i>Phy.</i>	वेनल्ट कैथोड	weighted regression coefficient		भारित समाश्रयण गुणांक
Weibull distribution	<i>Math.</i>	वेइबुल-बटन	weighted regression method		भारित समाश्रयण विधि
Weibull probability paper		वेइबुल प्रायिकता कागज	weighted silk		भारित रेशम
Weichselfelder's cobalt hydride	<i>Chem</i>	वाइशेल्फेल्डर कोबाल्ट हाइड्राइड	weighted zero		भारित शून्यक
Weierstrassian continuum	<i>Math.</i>	वाइएस्ट्रॉसी सातत्यक	weight factor		भार गुणक
Weierstrassian elliptic function		वाइएस्ट्रॉसी दीर्घवृत्तीय फलन	weight function		भार फलन

weighting	<i>Math., H.Sc.,Phy.</i>	भारण, तौल	weld bead	<i>Chem. (Met.)</i>	संधान मणिका, वेल्ड मणिका
weighting by random substitution		यादृच्छिक प्रतिस्थापन द्वारा भारण	weld cracking test		संधान भंजन निकष
weighting coefficient		भारण-गुणांक	welded dike	<i>Geol.</i>	वेल्डित भित्ति, वेल्डित ढाईक
weighting factor		भारण-गुणक	welded flow breccia		वेल्डित प्रवाह संकोणाश्म
weighting function		भारण फलन	welded rhyolitic tuff		वेल्डित रायोलाइटो टफ
weight-length relationship		भार-दैर्घ्य सम्बन्ध	welder	<i>Phy.</i>	1. वेल्डक (person) 2. वेल्डन (instrument)
weight loading factor		भार भारण गुणक	welding	<i>Phy.,H.Sc.</i>	वेल्डन
weight of a polymial		बहुपद का भार	welding glass	<i>Chem.(Gl.)</i>	संधान उपनेत्र
weight pattern		भार प्रतिरूप	welding heat		वेल्डन-ऊष्मा
weight report		भार रिपोर्ट	welding interface		वेल्डन अंतराफलक
weight thermometer	<i>Phy.</i>	भारान्तरक तापमापी	welding machinery		वेल्डन-यंत्र
Weil basis	<i>Math.</i>	वाइल-आधार	welding point		वेल्डन ताप
weilburgite	<i>Geol.</i>	वाइलबर्गाइट	welding powder		वेल्डन पाउडर
Weil topology	<i>Math.</i>	वाइल संस्थिति	welding torch		वेल्डन टॉर्च, संधान टॉर्च
Weingarton surface	<i>Math.</i>	वाइनगार्टन-पृष्ठ	weld line		संधान रेखा
weining machine	<i>Geol.</i>	वाइनिंग मशीन	weldment	<i>Chem. (Met.)</i>	संधानचय
weir	<i>Geog.</i>	वेधिका	weld metal		वेल्डन धातु
Weir box	<i>Chem. (Fert.)</i>	उद्बन्ध पेटिका	weld nugget		संधान पिंडक
weir notch dam	<i>Geog.</i>	वेयर-नाँच बांध	Weldon Pechiney chlorine process	<i>Chem.</i>	वेल्डन पेचिनी क्लोरीन प्रक्रम
Weisia	<i>Bot.</i>	वीजिया	Weldon process		वेल्डन प्रक्रम
Weismannism		वाइस्मानवाद	Weldon's mud		वेल्डन का पंक
Weisman's ring (ring gland)	<i>Zool.</i>	वाइस्मान वलय (वलय ग्रंथि)	Weldon's process		वेल्डन प्रक्रम
Weissenberg coupling	<i>Phy.</i>	वाइसबर्ग युग्मन	well		कूप, कुआं
Weissenstein process	<i>Chem.</i>	वाइसन्स्टाइन प्रक्रम	well-adjusted spectrophotometer	<i>Chem. (Photo-chem.)</i>	सुसंयोजित स्पेक्ट्रोमी भा-मापी
Weiss law	<i>Phy.</i>	वाइस नियम	well-assorted		सुवर्गित
Weiss magneton		वाइस मैग्नेटॉन	well-bore caliper	<i>Geol.</i>	कूप वेध कैलिपर
Weizmann process	<i>Chem.</i>	वाइत्समान प्रक्रम	well chained set	<i>Math.</i>	सुसंखलित समुच्चय
Weisz ring oven method	<i>Chem.</i>	वीज वलय कंदु विधि	well-collimated	<i>Chem. (Photo-chem.)</i>	सुसमांतरित
weld	<i>Chem.  Phy.</i>	(n.) वेल्ड (एक रंजक पदार्थ) (v.) वेल्ड करना	well defined (boundary)	<i>Chem., Geog.</i>	सुनिश्चित (सीमा)
weldability	<i>Chem. (Met.)</i>	संधानीयता, वेल्डनीयता			

well-defined area		सुनिश्चित क्षेत्र	Welman test	Chem. (Paints)	वेलमैन निक्षेप
well depth parameter	Phy	(विभव) कूप गभीरता प्राचल	Welsbach gas mantle	Chem.	वेल्सबाक गैस मेन्टल
well-distributed rainfall	Geog	सुवितरित वर्षा	welsh cheese		वेल्श चीज
well-distributed stations		सुवितरित केन्द्र	Welsh town	Geog	वेल्श टाउन, वेल्श नगर
well-drained land	Geog	सुक्षपवाहित भूमि, सुक्षपवाहित क्षेत्र	Welsh wool	H Sc	वेल्श ऊन
well-equipped city	Geol	सुसभारित शहर	Wendlandia exserta	Bot	वेन्डलैन्डिया एक्ससर्टा
well-equipped port	Geog	सुसज्जित पत्तन, सुसज्जित बन्दरगाह	wernerite	Geol	वर्नेराइट
well graded slope	Geol	सुप्रवणित ढाल	Werner Schmid process	Chem.	वर्नेर विमह प्रक्रम
well-head equipment		कूप-शीर्ष उपस्कर	Werner's nomenclature		वर्नेर नाम पद्धति
well known		विख्यात	Werner's theory		वर्नेर सिद्धांत
well latrine		शीचकूप	Wessely-Moser rearrangement	Chem.	वेसेलि-मोजर पुनर्व्यवस्था
well log		कूप-सलेख	west	Geog	पश्चिम, प्रतीची
well order	Math.	सुक्रम	west cott cross section	Phy	वेस्टकोट परिच्छेद
well ordered		सुक्रमित	western equine encephalitis	Zool.	पश्चिमी ब्राव मस्तिष्क-शोष
well ordered set		सुक्रमित समुच्चय	westerly winds (=westerlies)		पश्चिमी पवन, पछुवा हवाएँ
well-ordering principle	Math	सुक्रमण सिद्धान्त	western cotton		पश्चिम कपास
well-proportioned triangle	Geog	सुगठित त्रिभुज	western depression		पश्चिमी अवदाब
well proven process	Chem	सुसिद्ध प्रक्रम	western disturbance		पश्चिमी विक्षोभ
well-puddled clay	Geog.	सुलौप्टवती मृत्तिका	western transition-region		पश्चिमी सन्नमण-प्रदेश
well-resolved bands	Chem.	सुव्यावृत्त बैंड, सुव्याकृत पट्टी	westing	Geog.	पश्चिमान्तर
well rounded	Geol	सुगोलित	Westinghouse process	Chem.	वेस्टिंगहाउस प्रक्रम
well rounded entrance	Math.	सुगोल प्रवेश द्वार	westlake process	Chem. (Gl)	वेस्टलेक प्रक्रम
well seismometer	Geol.	कूप भूकंपमापी	Weston standard cell		वेस्टन मानक सेल
well-set ear	Geog.	सुगठित कर्ण	Westphal balance	Chem.	वेस्टफाल तुला
well shape	Phy.	(विभव) कूप लाकार	Westphalen-Letter rearrangement	Chem.	वेस्टफालेन लैटर पुनर्व्यवस्था
well-shaped triangle	Geog.	सुरूप त्रिभुज	westron		वेस्ट्रान
well to do elite	Geog.	सम्पन्न वर्ग	westron cell		वेस्ट्रान सेल
well-velocity survey		कूप वेग सर्वेक्षण	westrosol	Chem	वेस्ट्रोसॉल
well-watered pasture	Geog.	सुजलीय चरागाह	west wind		पश्चिमी पवन
well-wooded country	Geol.	सु-अरण्य प्रदेश	wet abrasion apparatus	Chem.	गीला अपसर्पण उपकरण, क्षुब्ध अपसर्पण उपकरण

wet-acid scrap	Chem.	बाद्रे बन्ल उच्छिष्ट, क्लेदित बन्ल उच्छिष्ट	wet riffle		बाद्रे रिफ्ल
wet air	Geog.	नम वायु	wet scribe coat	Geog.	नम लेखन लेप
wet analysis		क्लेदित विश्लेषण	wet season	Geog.	नम ऋतु, नम मौसम
wet blasting	Geol.	जल-संघट्टन	wet soak process		क्लेद चूप प्रक्रम
wet break test		क्लेदित भंज निकष	wet spell		बाद्रे वेला
wet broke		क्लेदित अनुत्पन्न	wet spinning		बाद्रे कताई
wet-bulb potential temperature		बाद्रे-बल्ब विभव-ताप	wet stock	Chem. (Paper.)	क्लेद संभार
wet bulb thermometer		बाद्रे-बल्ब तापमापी	wet strength		बाद्रे सामर्थ्य
wet day		बाद्रे दिवस	wet-strength resin		क्लेद सामर्थ्य रेजिन
wet drum cobber		बाद्रे डोल काँवर	wet swale	Geog.	नम घाटी
wet dry bulb thermometer	Phy.	शुष्काद्रे बल्ब तापमापी, शुष्काद्रे बल्ब धर्मापीटर	wettability	Chem.	क्लेदनीयता
wet electrolytic capacitor	Phy.	तरल विद्युत अपघटनी संचारित्र	wetted area method	Math.	बाद्रेत क्षेत्र विधि
wet-end additive	Chem. (Paper)	क्लेदित अंत योग्य	wetted perimeter	Geog., Geol.	जलीय परिमाण
wet fading		क्लेदित म्लानन	wetting	H.Sc.	भिगोना
wet finishing		बाद्रे परिष्कृति	wetting agent	Phy., Chem. (Paper)	क्लेदक, बाद्रेक, क्लेदन कारक
wet fog		बाद्रे कुहरा	wet-tropical land	Geog.	नमोष्ण-कटिबंधीय प्रदेश
wet forest		बाद्रे वन	wet tumbling	Chem. (Plast.)	क्लेद संलोटन
wet gas	Chem.	क्लेदित गैस	wet twisting		बाद्रे वेष्टन
Wetherill process	Chem., (Met.) Geol.	वेदेरिल प्रक्रम	wet-weather gully	Geog.	वर्षाऋतु-अवनालिका
Wetherill separator		वेदेरिल पृथक्कर	wet-weather rill		वर्षा ऋतु-सूद्रसरिता
Wetlaufer-Scott gloss- meter	Chem.	वेदलास्फर स्कॉट कांतिमापी	wet-weather stream	Geog.	नम-मौसम सरिता
wet meadow-soil	Geog.	नम शाप्रल मृदा	wetzel grid	H.Sc.	वैजल ग्रिड
wet ore		बाद्रे लयस्क	wexford	H.Sc.	वेक्सफोर्ड
wet out	Chem. (Text.)	क्लेद मार्जन	weygand's mechanism	Chem.	वेगान क्रियाविधि
wet-plate photography		बाद्रे प्लेट फोटोग्राफी	Weyl's action principle	Math.	वाइल का क्रिया-नियम
wet-point settlement	Geog.	जल-प्रापी दस्ती	*Wezen (=δ Canis Majoris)	Math.	वेजेन (=δ कैनिस् मैजॉरिस)
wet process	Chem.	विलायी प्रक्रम, बाद्रे प्रक्रम	*Wezn (=β Columbae)	Math.	वेज़न (=β कोलंबी)
wet rendering process	Chem. (Food.)	क्लेद कर्षण प्रक्रम	whale	Zool., Geog.	ह्वेल, तिमि, तिमिगिल
			whaleback	Geog., Geol.	ह्वेलबैक, ह्वेलपृष्ठ
			whale backed mount	Geog.	ह्वेलपृष्ठीय टीला
			whalebone (baleen)	Zool.	तिम्यस्त्रि (तिमिश्रुंगास्त्रि)
			whalebone plate	Geog.	तिमिश्रुंगास्त्रि प्लेट

whalebone whale	<i>Zool., Geog.</i>	शृंगास्थि तिमि	wheel and axle		पहिया और धुरो
whale hunter		ह्वेल-आखेटक	wheel barrow	<i>Phy</i>	एक पहिया डेला
whale fouse		ह्वेल यूका, निमि यूका	wheel barrow sprayer	<i>Zool.</i>	पहियेदार पुहारित्र
whale oil		ह्वेल-तेल	wheelbug	<i>Zool.</i>	चक्र मत्सुष
whaler	<i>Geog.</i>	तिमि-आखेटक, ह्वेलर,	wheel diagram		चक्ररेख
	<i>Zool.</i>	ह्वेल आखेटी पोत	wheeled traffic	<i>Geog</i>	गाड़ी यानायात
whale shark	<i>Zool</i>	तिमिगिल सुरा,	wheel map		चक्रमानचित्र
		देवसुरा	wheel of fortune	<i>Chem</i>	भाग्य चक्र अभिकल्प
whaling	<i>Geog.</i>	तिमि-आखेटन, ह्वेलन	design	<i>(Text)</i>	
	<i>Zool</i>	तिमिगिलन	wheel ore		चक्र अयस्क
whaling industry		ह्वेल-उद्योग	wheel organ		चक्रग
whaling ground	<i>Zool.</i>	तिमिगिलन-क्षेत्र	wheel ossicle		चक्रास्थिका
whaling harpoon	<i>Zool</i>	तिमि हारपून	wheel planimeter		चक्र-क्षेत्रफलमापी
whaling ship	<i>Geog.</i>	तिमि-पोत	wheel swarf		चक्रविघूर्णित, चक्र बुरादा
wharf	<i>Geog.</i>	घाट (जहाज)	wheel wright		चक्रकार
whatman accelerator	<i>Chem</i>	ह्वाटमन त्वरक	Wheland Mann	<i>Chem</i>	ह्वीलैन्ड मान विधि
whatman filter paper		ह्वाटमन निस्पन्दक पत्र	method		
		ह्वाटमन फिल्टर पत्र	whelk		विल्क
wheat	<i>Zool.</i>	चकसा	whetstone cake	<i>H Sc</i>	वेटस्टोन केक
wheat belt	<i>Geog.</i>	गेहूँ भेखला	whewellite	<i>Geol.</i>	ह्यूएलाइट
wheat bunt	<i>Bot.</i>	गेहूँ का बट रोग,	whew	<i>H Sc.</i>	छेने का पानी
		गेहूँ की दम्घामटा	whimbrel	<i>Zool</i>	विम्ब्रैल, उरकुररी
wheat crescent	<i>Geog.</i>	गेहूँ-चाप	Whimshurst machine	<i>Phy</i>	विम्शहर्स्ट मशीन
wheat gall nematode	<i>Bot.</i>	गेहूँ पिटिका सूत्रकृमि	whin	<i>Geol.</i>	ह्विन
wheat germ	<i>H.Sc.</i>	गेहूँ अंकुर	whin dake		ह्विन डाइक
wheat mosaic		गेहूँ किर्बीर, गेहूँ मोडेक	whinny	<i>Geol</i>	ह्विनमय
wheat nematode	<i>Bot.</i>	गेहूँ सूत्रकृमि	whin sill		ह्विन सिल
wheat rosette		गेहूँ शतवक्राति	whinstone		ह्विन शैल
wheat stem-borer		गेहूँ तना-वेधक	whip	<i>H.Sc.</i>	विप
wheatstone's bridge		ह्वीटस्टोन-सेतु, ह्वीटस्टोन	whip cord		विपकॉर्ड
		ब्रिज	whiplash type	<i>Bot</i>	प्रतोट प्रकार
wheat subsidy		गेहूँ उपदान	whip net		विप जाल
wheel	<i>Math, Phy.,</i>	पहिया, चक्र	whipping	<i>H.Sc</i>	फेंटना
	<i>Geog.</i>		(=whisking		
wheelaborator	<i>Chem.</i>	चक्र अपघर्षी	=beating)		
	<i>(Met)</i>		whip scorpion	<i>Zool.</i>	कसा वृम्बिक
wheelabrator process		चक्रापघर्षी प्रक्रम	whip snake	<i>Zool.</i>	धेंतक सर्प

whip thread		बिज धागा	white blood corpuscle	श्वेत रुधिराणु	
whipworm	Zool.	कशाकृमि	white-blue sequence	श्वेत नील अनुक्रम	
whirl gate	Chem. (Met.)	संभ्रामी द्वार	white body	श्वेत पिंड	
whirligig beetle	Zool.	चकई भृंग	white bone	श्रेष्ठ जन	
whirlpool	Geog.	जलावर्त, भंवर	white borer	श्वेत वेधक	
whirlpool elbow		जलावर्त मोड़	whitebud	Bot.	श्वेत कलिका रोग
whirlpool rapid		जलावर्त लिप्रिका	white bulb atmometer		श्वेत बल्ब वाष्पनमापी
whirl ring	Math.	प्रमिल बलय	white cap		श्वेत कप
whirl vane separator	Chem. (Fert.)	संभ्रामी वेन पृथक्कारी	white carp	Zool.	वेनकेडे
whirlwind	Geog.	वातावर्त	white cast iron		श्वेत ईषिका लोहा
whisk (=whip=beat)	H.Sc.	फैटनी, मयानी	white chinese colour		श्वेत चीनी रंग
whisker	Zool.,Phy., Geog.	1. गलमुच्छ, श्मश्रु 2. ह्विस्कर 3. गुम्फ	white clipper		श्वेत कर्तक
whisker formation		श्मश्रु रचना	white clover		श्वेत क्लोवर
whisker growth		श्मश्रु प्ररोहण	white compression	Phy.	1. श्वेत संपीडन 2. विपर्याप्त संकोच
whispering gallery	Phy.	मर्मरश्रावी गैलरी	white-collar job	Geog.	बमला घंघा (उड़िया)
whistle	Phy.,Geol.	सीटी	white damp		श्वेत डैम्प
'whistle' effect	Geol.	सीटी प्रभाव	white dwarf (star)		श्वेत वामन (तारा)
whistle-pipe sampler	Geol.	नलिका प्रतिदर्शित	white eye		श्वेताक्ष
whistler	Phy.	ह्विस्कर	white eye buzzard		श्वेताक्ष बाज
whistling song	Zool.	शीन गीत	white fibre		श्वेत रेशा, श्वेत तंतु
whistling teal	Zool.	शरालि	white fish meal		श्वेत मीन आहार
whistling thrush	Zool.	कस्तूरा	white fly		श्वेत मझी
white		श्वेत	whitefronted goose	Zool.	कारण्डव
white (butter fly)	Zool.	श्वेता	white frost		श्वेत तुषार
white alkali		श्वेत क्षार	white garnet		श्वेत गार्नेट
white-alkali soil		श्वेत क्षारीय मृदा	white heart rot		श्वेत कौड विलगन
white ant	Geog.,Zool.	दीमक, बल्म	white heat		श्वेत ताप
white arsenic		श्वेत आर्सेनिक, सखिया	white hiding pigment		श्वेत वाच्छादन वर्णक
White Australian Policy	Geog.	श्वेतजाति आस्ट्रेलियाई नीति	white horse		श्वेत अश्व
white backed vulture		श्वेत पृष्ठगिद्ध	white hot		श्वेत तप्त
white bai		नेतली	white lead		सफेद सीसा
			white lead ore		श्वेत सीस अयस्क, सैस्ताइट
			white level		श्वेत स्तर
			white light		श्वेत प्रकाश
			white man's grave	Geog.	गौर मानव समाधि

white matter		श्वेत द्रव्य	white yolk		श्वेत पीवक
white metal		श्वेत धातु	whiting	<i>Chem. (Met) Geog</i>	1. खटिका चूर्ण, खटिया चूर्ण, व्हाइटिंग 2. व्हाइटिंग (मत्स्य)
white mold		श्वेत फफूंदी	Whitmania	<i>Zool.</i>	विटमैनिश्या
white mustard		सफेद सरसो	Whitmore mechanism	<i>Chem.</i>	व्हिटमोर क्रियाविधि
white necked stork		श्वेतग्रीव बलाक	whitney	<i>H.Sc.</i>	व्हिटनी
white nickel		श्वेत निकल	whitney long		व्हिटनी लॉग
whitening	<i>Chem (Met)</i>	श्वेतन	Whittaker periodogram	<i>Math</i>	व्हिटकेकर आवर्तनाञ्चक
white noise		श्वेत रव	Whittlesseya	<i>Bot</i>	व्हिट्लिसेया
white oil		श्वेत तैल	whizzer	<i>Chem (Text)</i>	व्हिज़र, जन निष्पत्तक
white peak (= peak white)		श्वेत शिखर	whole body counter	<i>Phy</i>	पूर्णशरीर काउन्टर
white pine craker		श्वेत पीड़ प्रवण	whole body exposure		पूर्णशरीर अपावरण, पूर्णशरीर व्युच्छादन
white radiation		श्वेत विकिरण	whole body radiation		पूर्णशरीर विकिरण
white recording		श्वेत अभिलेखन	whole gale		पूर्ण शाला
white rot		श्वेत विगलन	whole meal flour	<i>H.Sc.</i>	चोकरपुक्त आटा
white rust		श्वेत क्विट्ट	whole meal flour	<i>H.Sc.</i>	चोकरपुक्त आटा
white rust disease		श्वेत क्विट्ट रोग	whole molecule orbital	<i>Phy.</i>	सम्पूर्ण अणु वाहिनिल, सम्पूर्ण अणु कक्षक
white saturation		श्वेत संतृप्ति	whole mount		पूर्ण आरोप, पूर्ण आरोपण
white sauce		सफेद मांस	whole number		पूर्ण संख्या, पूर्णांक
white signal		श्वेत सिग्नल	whole number projection		पूर्णांक प्रक्षेप
white spot		श्वेत चित्ती	whole pressure		सम्पूर्ण दाब
whitestriped coral snake	<i>Zool</i>	श्वेतरेखित प्रवाल सर्प	whole rock		सम्पूर्ण शैल
whitethroated ground thrush	<i>Zool</i>	श्वेतकण्ठ भू शरालि	whole rule		पूर्णांकी नियम
white tin		श्वेत-तंग, श्वेत-टिन	wholesale	<i>Geog</i>	बोक व्यापार
white tip	<i>Bot.</i>	श्वेतशिर्ष रोग	wholesale concern		बोक व्यापार प्रतिष्ठान, अक्षर व्यापार प्रतिष्ठान
white tip nematode		श्वेतशिर्षी सूत्रकृमि	wholesale distribution area		बोक वितरण क्षेत्र
white tissue paper		सफेद टिस्यु कागज	wholly miscible		पूर्णतया मिश्रणीकरण
white to black ampli- tude range		श्वेत-कृष्ण आयाम परास	whorl	<i>Biol., H.Sc.</i>	चक्कर
white trap		श्वेत ट्रैप	whorlberry (bilberry)	<i>H.Sc.</i>	वित्रबेरी
white vitriol		श्वेत वाचर, श्वेत विट्रिऑल	whorled	<i>Biol.</i>	चक्करदार
white ware		श्वेत भांड	whorl-face	<i>Geol.</i>	घ्रमि फलक
white ware clay		श्वेत भांड मृत्तिका	whorl profile		घ्रमि परिच्छेदिका
white water		श्वेत जल, व्हाइट वाटर			
white X-ray		श्वेत एक्स-किरण			



Wiberg's formula	Chem.	वाइवर्ग समीकरण	Wielandiella	Bot.	वीलैन्डिएला
Wiborgh pyrometer	Chem.	विबोर्ग उत्तापमापी	Wieland's mechanism	Chem.	वीलान्ड क्रियाविधि
wick	Chem.	वर्ति, वर्तिका	Wien effect	Chem.	वीन निष्पत्ति
Wicke-Eigln modification	Chem.	विके-आइगेन अघांतरण	Wiener process	Math.	वीनर प्रक्रम
wickless stove	H.Sc.	वक्ती-रहित स्टोव	Wien's displacement law	Chem.	वीन विस्थापन नियम
Widdringtonia	Bot.	विडरिंगटोनिया	Wiener's formula	Chem.	वीनर सूत्र
wide angle	Geog.	विशाल कोण	Wien velocity filter	Phy.	वीन वेग फ़िल्टर
wide angle interference	Phy.	विशालकोणी व्यतिकरण	wier	Zool.	बंधक
wide angle lens		विशालकोणी लेन्स	Wiese formula	Chem. (Pet.)	वीजे सूत्र
wide band amplifier	Phy.	विस्तृत बैंड प्रवर्धक	Wiesnerella	Bot.	वाइसनेरेला
wide band dipole		विस्तृत बैंड द्विध्रुव	wig	H.Sc.	विग
wide band power amplifier		विस्तृत बैंड शक्ति प्रवर्धक	wigan	H.Sc.	विगन
wide levelled street	Geog.	चीड़ी समतल सड़क	wigeon		विजन, पियाशन
widely spaced		दीर्घांतराली	Wigner energy	Phy.	विग्नैर ऊर्जा
wide necked flask	Chem.	पृथुग्रीव फ्लास्क	wigner growth		विग्नैर परिवर्तन
wide nostril	Geog.	चौड़ा नासारन्ध्र, चौड़ा नथना	Wigner nuclei (=wigner nuclei)		विग्नैर नाभिक
wide open eye		विस्तृत नेत्र	Wigner pair		विग्नैर युग्म
wide range test paper		विस्तृत परिसर निकप पत्र	Wigner release		विग्नैर मोचन
wide response band		विस्तृत अनुक्रिया बैंड	Wigner spin-conservation rule	Chem.	वाइग्नर भ्रमि संरक्षण नियम
wide sheeting		चौड़ी चादर	Wigner-Witner correlation rule		विग्नैर विटनर सहसम्बन्ध नियम
wide spread rain		विस्तृत वर्षा	Wig's method	Chem.	विज विधि
Widia alloy	Chem.	विडिया मिश्र धातु	Wij's solution		विज विलयन
widia-metal		विडिया-धातु	wikite	Chem.	विकाइट
Widmanstaetten figure	Geol.	विडमानस्टैटेन आकृति	wikiup	Geog.	विकिअप
Widmanstatten structure	Chem. (Met.)	विडमानस्टैटेन संरचना	Wilcoxon signal rank test	Math.	विल्काक्सन चिह्नित कोटि परीक्षण
Wideman-Stoermer Cinnoline synthesis	Chem.	विडमान-स्टैरमर सिनोलीन संश्लेषण	Wilcoxon's test		विल्काक्सन परीक्षण
Widmer column	Chem.	विडमर स्तम्भ, विडमर कॉलम	wild basil	Bot.	वन तुलसी
width	Phy., Math.	चौड़ाई	wild beat	Bot.	जंगली चुकन्दर
width control	Phy.	विस्तार नियन्त्रण	wild buffalo	Zool.	वन महिष, बरना
Wiedemann-Frantz Law	Chem.	वीडमान फ्रांज नियम	wildcat	Chem. (Pet.)	वाइल्डकैट
Wiefley table	Chem.	वीफ्ले मेज			

wildcat test

wildcat test	Geol.	अध परीक्षण	willemite	Geol	विनेमाइट
wild common goat (pasang)	Zool	वनाज (पसंग)	willesden canvas	Chem	विनाइडन विरमिन, विलडइन कैनवस
wild duck	Zool	मुर्गाबि	williams lam-tap screen	Geol	विलियम्स फीम टैप छन्ना
wilder	Bot	वन्यभूत	Williamsonia	Bot	विलियमसोनिया
wilderness	Geog	वन्य प्रदेश, महभूमि	Williamsonia angustifolia		विलियमसोनिया एंगुस्टीफोलिया
wild expansion	Geog.	अक्रमिक प्रसार	Williamsonia gigas		विलियमसोनिया जाइगंस
wild flower	Bot, Geog	वन्य पुष्प	Williamson's violet		विलियमसन जाम्ब
wildflysch	Geol.	विहडफिलिश	Williams-Temkin isotherm	Chem. (nuel)	विलियम्स टैमकिन समतापी
wild fruit		वन्य फल	Williams unit		विलियम्स एकक, विलियम्स मशीन
wild gasoline	Chem (Pet)	अस्थायी गैसोलिन, अस्थायी पेट्रोल	wiliwaw	Geog, Geol.	विलिवा (प्रचण्ड शीतल पवन)
wild grain		वन्य धान्य	will-0'-the-wisp	Chem.	मास्वर मरीचिका
wilding	Bot	वन्यन	willow	H Sc, Geog	नम्रा, शरपत, विलो
wild life		वन्य प्राणी, वन्य जीवन	willo fiber		विलो तन्तु
wildling	Bot.	प्रकृत नवीद्विद्	willow herb		विलो बूटी
wildness	Zool.	वन्यता	willow-leaf		विलो पर्ण, बेंत पर्ण
wild ping	Chem	सुतीत्र रब, तेज शोर	willow-post dam		विलो-खम्भ बांध
wild rice		जगली चावल	willow tree		विलो-वृक्ष
wild rubber		जगली रबर	Willstatter's "filtration nail"	Chem	विल्लस्टैटर निस्पदन कील
wild rubber industry		जगली रबर उद्योग	Willstatter's synthesis		विल्लस्टैटर संश्लेषण
wild rye		जगली राई	willy-willy	Geog.	विलि-विलि (टॉलेडो)
wildschnee	Geog.	वाइल्डशनी	Wilmore pendulum suspension	Geol	विलमोर सोलक निलंब
wild silk		वन्य रेशम	Wilmshurst's table	Chem	विन्मशर्स्ट सारणी
wild silkworm		वन्य रेशमकृमि	Wilson cloud track	Phy.	विस्मन क्लाउड ट्रैक
wild steel	Geol.	उष्माद्रवित इस्पात	Wilson's analysis	Math.	विस्मन-विश्लेषण
wild thyme		वन्य घाइम, वन्य अजवाइन	wilt	Bot.	म्यानि
wild type		वन्य प्ररूप	wilting		म्यान होना, बुझना, मुरझाना
wild well	Geol.	अनियन्त्रित तेलकूप	wilting coefficient	Bot.	म्यानि गुणांक
wild yam		वन्य यम			
Wiley disk method	Chem. (Food)	वाइली मण्डलक विधि			
Witfleij table	Chem. (Met)	विल्लियल मेज			
Wilgerodt reaction	Chem.	विल्लेरोट अभिक्रिया			
wilhelmite	Geol.	विल्लेल्माइट			
Wilk's criterion	Math	विल्लिक निकष			

wilt of cabbage		पत्तागोभी म्लानि	wind direction	पवन दिशा
Wilton carpet	<i>H.Sc.</i>	विल्टन कार्पेट	wind drifted dust	वात-प्रवाहित धूलि
Wilton rug		विल्टन रग	wind drifted sand	वात-प्रवाहित बालू
wilty soil	<i>Bot.</i>	म्लानिकर मृदा	wind-drift-structure	वात प्रवाह संरचना
win	<i>Geol.</i>	खनिज निष्कासन	wind-driven soil	वात-वाहित मृदा
wince (winch)	<i>Chem.</i> ( <i>Text</i> )	विच, घ्रामणी, उत्थापनी	wind eddy	वात-भंवर
wince machine		विच मशीन, विच उत्थापनी	wind-eroded sandstone	वात-अपरदित बालुकाश्म
wincey	<i>H.Sc.</i>	विन्सी	wind erosion	वातीय अपरदन
winch	<i>Zool.</i> , <i>Geog.</i>	घ्रामित्र, विच, चर्वी	wind erosion lake	वायु अपरदन झील
winch and cable system	<i>Geol.</i>	घ्रामणी एवं केबिल तंत्र	wind-excavated depression	वातोत्खनित गर्त
winchester bottle		विन्चेस्टर बोतल	wind-faceted pebble	वात-फलकित गुटिका
Winckler modification	<i>Chem.</i>	विक्लर संशोधन	wind faceted stone	वायु-फलकितश्म
wind		(n.) वात, पवन (v.) 1. लपेटना 2. चाभी लगाना	wind furnace	पवन भ्राष्ट्र, पवन मट्टी
wind abrasion		वातीय अपघर्षण	wind frost	वात तुपार
wind antiripple		वात प्रतिऊमिका	wind gap	पवन विदार
wind avalanche		पवन अवघाव	wind horse	वात-शुण्ड
wind axis		पवन अक्ष	winding	<i>Phy., H.Sc., Chem.</i> 1. कुंडलन, कुंडली 2. आवलन
wind axis system		पवन अक्ष निकाय	winding number	<i>Math.</i> वेण्टनांक
wind barrier		वात-रोध	winding ridge	<i>Geog.</i> विसर्पी कटक
wind blown		वातोढ़	winding stream	विसर्पी सरिता
wind-blown country		वातोढ़ प्रदेश	winding valley	विसर्पी घाटी
wind-blown deposit		वातोढ़ निक्षेप	wind instrument	सुपिर वाद्य
wind-blown dust		वातोढ़ धूल	wind lull	पवन विराम
wind-blown hollow		वातोढ़ गर्त	wind made furrow	वायुज-खात
wind-blown plain		वातोढ़ मैदान	wind meter	पवनमापी
wind-blown region		वातोढ़ प्रदेश	wind mill	पवन-चक्की
wind borne		वातोढ़	windom aerial (= windom antenna)	<i>Phy.</i> विडम ऐन्टेना
windbox		वात बक्स, वात पेटिका	windom window	<i>Phy., Geol. Chem.</i> 1. गवाक्ष 2. घ्रामिका
wind-break		वात-रोध, वातरोक	windom window cloud (= chaff cloud)	घ्रामिका मेघ
wind chest		वात-पेटी	windom window dropping	घ्रामिका पातन
wind deflation		वात अपवाहन, पवन खात	windom window flasher	घ्रामिका पत्ती
wind deposition coast		वायु निक्षेपण-तट	windom window glass	गवाक्ष काच, खिड़की काच

windowless thermo couple		गवाक्षहीन ताप वैद्युत युग्म	wine red		मदिरा रक्त
windowpane oyster		काच शुकित	wine yellow		मदिरा पीत
window rocket		गवाक्ष राकेट	wing	Zool.	पक्ष, पख
wind pipe	Zool.	श्वामनली	wing area		पक्ष-क्षेत्रफल
wind planation		वान-समतलन	Wingate (formation)	Geol	विन्गेट शीलमसूह
wind pollinated		वायु परागित	winged seed	Bot., Geog	सपक्ष बीज
wind power		पवन शक्ति	wing beat		पक्ष आघात, पख फड़फड़ाहट
wind ripple sand		वातांमित बालू	wing-bud		पक्ष पुकुन
wind rose	Geog.	पवनदिग्दर्शी आरेख, पवनारेख	wind-coupling		पख युग्मन
windrow	Chem.	विन्ड्रो	wing-coupling apparatus		पख-युग्मी साधन
wind-scoured basin		पवन निर्घषित द्रोणी	wing covert (tetrices)		पसावरक
wind-scoured mesa		वात-निर्घषित मेसा	wing dam	Geol	विंग डैम
wind screen		वातरोधी पर्दा	wing-dise		पख-बिम्ब
wind shear		पवन अपरूपण	wing drag		पक्ष कर्षण
windshield		वातपरिरक्षी (गीशा)	winged animal	Zool	सपक्ष प्राणी
wind-shift line		वात-विस्थापी रेखा	winged headland	Geol, Geog	पक्षिन शीर्षभूमि
wind-stabavalanche		वायुरहित हिमीयफव	winged insect		सपक्ष कीट
windsor	H Sc.	विन्सर	wingless	Zool, Bot.	पक्षहीन, पखहीन
wind-swept plain		वात-साक्षित मैदान	wingless grasshoper		पखहीन टिट्ठा
wind system		पवन-तंत्र	wingless individual		पखहीन व्यक्ति
wind torque		वात-बल-आघूर्ण	winglet (ala)	Zool	पखक
wind tunnel		पवन सुरंग	wing loading		पख भारण
wind-tunnel interference		पवन सुरंग व्यतिकरण	wing membrane		पख झिल्ली
wind vane		वात-दिग्दर्शी	wing pad		पख तल्प
windward		पवनोभिमुख	wing plan form		पख अनुप्रस्थिका
windward coast		पवनोभिमुख तट	wing point		पख बिन्दु
windwave		पवनज तरंग	wing-process		पक्षवर्ध
wind whetted		वायुशात	wing quill (= remix)		पक्ष-पिच्छ
wine	H Sc, Chem	शराब, मदिरा	wing rudiment		पक्ष अवशेष
wine biscuit	H Sc.	वाइन बिस्कुट	wing-arc		पक्ष गोणी, पक्ष कोण
wine-bottle potential		मद्य बोतल विभव	wing scale		पक्ष शल्क
wine-dark sea	Geog	प्रगाढ़ मदिरावर्ण सागर	wing spread		पक्ष विस्तार
wine glass	H Sc	खपक	wing venation		पक्ष शिराविन्यास
wine presser		मदिरा दाबक, मदिरा सम्पीडक	Winkelmann's apparatus		विन्केलमान उपकरण
			winkle	Geog.	पीग, विन्कन

Winkler generator		विकलर जनित	winter solstice	<i>Math.</i>	दक्षिण अयनांत, मकर संक्रांति
winning	<i>Chem.</i>	प्रापण	winter spore	<i>Biol.</i>	शीतसुप्त बीजाणु
winnowed	<i>Geog.</i>	निष्पावित	wintersteiner's compund	<i>Chem.</i>	विन्टरस्टाइनर यौगिक
wianowing	<i>Geog., Chem., Geol.</i>	1. निष्पावन 2. फटकना, शूर्पण	winter talus ridge	<i>Geol.</i>	हिम टैलस कटक
winnowing gold		निष्पावन स्वर्ण	winter visitor	<i>Zool.</i>	शिशिर आगन्तुक
winter	<i>Geog.</i>	शीतकाल	Winter Weiss rotary drill	<i>Chem.</i>	विन्टर वाइस घूर्णी बरमा
winter annuals		शीतकालीन एकवर्षी	winton lead number	<i>Chem.</i>	विन्टन सीस अंक
winterbourne		शीतकालीन सरिता	winze	<i>Geol.</i>	विन्ज
winter camp group		शीतकालीन शिविर दल	wiper	<i>H.Sc.</i>	पोछा
winter capital		शीतकालीन राजधानी	'wipe' test	<i>Chem. (Paper)</i>	प्रोच्छ निकप
winter cherry		शीतऋतु चेरी	wiping	<i>H.Sc.</i>	पोछना
winter cover	<i>Zool.</i>	शीत आवरण	wiping head	<i>Phy.</i>	मार्जन अग्र
winter dwelling		शीतकालीन वास, शीतकालीन गृह	wiping solder	<i>Chem. (Met.)</i>	मृदु टांका, मृदु झालक
winter egg	<i>Zool.</i>	शिशिरांड	wipla metal	<i>Chem.</i>	विपला धातु
winter gnat	<i>Zool.</i>	शीत दंशक	wire		(n) तार (v.) 1. तार भेजना 2. तार संबंध करना 3. तार करना
winter grazing		शीतकालीन पशुचारण	wire barrage		तार-बराज, तार बांध
winter house		शीतकालीन गृह	wire bride		तार सेतु
winter ice		शीतकालीन बर्फ (अखंडित)	wire broadcasting		तार प्रसारण
wintering	<i>Chem.</i>	शीतऋत्वन	wire brush		तार का ब्रश
winter injury	<i>Bot.</i>	शीतज क्षति	wire cloth		तार बस्त्र
winterization	<i>Phy., Chem.</i>	शीत सहनीकरण, शीत ऋत्वत	wire drawing		तंत्रि, तार-कर्षण
winterized oil	<i>Chem.</i>	शीतऋत्वित तेल	wire-drawn		तार कर्षित
winterizing	<i>Chem.</i>	शीतऋत्वन	'wire-drawn gas'		तार कर्षित गैस
winter line	<i>Geog.</i>	शीत रेखा, हिमान्त रेखा	wire-fork		तार का कांटा
winter moiety	<i>Geog.</i>	शीतोपदल	wire gauge		तार की जाळी
winter moth	<i>Zool.</i>	शीत शलभ	wire glass		तार कांच
winter plumage (internuptial plumage)	<i>Zool.</i>	शिशिर पक्षति (अन्तराकामद पक्षति)	wire gold	<i>Geol.</i>	तंतु स्वर्ण
winter provender		शीतकालीन चारा	wireless mast	<i>Phy., Geog.</i>	बेतार मस्तूल
winter resort		शीतकालीन विनोदस्थल	wireless record player		बेतार रिकार्ड वाजा
winter rest period		शीत विश्राम काल	wireless station		बेतार संचार केन्द्र
winter robe		शीतकालीन प्रावार	wireless telegraphy		बेतारी तार संचार
winter settlement		शीतकालीन बस्ती			

wire-line core barrel		तार-कोड बैरेल	within class variation		वर्गीकरण विचरण
wire matters		तार तोषक	within group variance		वर्गीकृत प्रसरण
wire penetrometer		तार वेद्यनमापी	without shade	Geog	अनाच्छादिन
wire programme		तार प्रोग्राम	witness rock	Geog	साक्षी शैल
wire programme computer		तारयुक्त प्रोग्राम अभिकल्पित	wittichenite	Geol	विटिकेनाइट
wire recorder		तार अभिलेखी	Wittig reaction		विटिग अभिक्रिया
wire screen		तार स्क्रीन, तार आवरण	Witt signature	Math	विट-चिह्नक
wire side		तार पाशवं	Witt's theorem		विट प्रमेय
wire sounding		तार मापन	Witt theory	Chem	विट सिद्धान्त
wire spoon		तार का चम्मच	Witt vector		विट-भदिश
wire tailed swallow	Zool	रज्जुपुच्छ भाषडीक (अदावील)	witwatersrand	Geog	विटवाटरमंड
wire wound resistor	Phy.	परिवेष्टित तार प्रतिरोधक	wizard	Geog	जादूगर
wiring symbol	H.Sc.	तार प्रतीक	W <sub>2</sub> -test	Math.	W <sub>2</sub> -परीक्षण
wiry transparent texture		तार पारदर्शक मयूनि	woad	Geog	नील पीघा
Wisconsin hemp	H.Sc.	विस्कॉन्सिन हेम्प	wobble	Phy.	डगमगाहट
Wisconsin plankton net	Zool	विस्कॉन्सिन प्लवक जाल	wobbler	Chem (Met)	वावलर
wisdom tooth		अकाल दाह, प्रौढक दंत	wobulation	Phy	विचरण, डोलन
Wishart-distribution		विशार्ट बटन	wobulator	Phy	विचरक, डोलनित्र
Wislicenus reaction		विस्लीमेनुस अभिक्रिया	woe-bourne	Geog	वो-मरिना
Wismer's experiment		विस्मर-प्रयोग	Woestyn's law	Chem	वोस्टाइन नियम
Wiswesser rule	Chem.	विस्वेसर नियम	Wohl's equation		वॉलिसकीकरण
witch-doctor	Geog	बोझा	Wohlwill's process		वॉल विल प्रक्रम
witches' broom	Bot	विचेत्र ब्रूम, कूर्चोदमरोग	Wolbachia pulex	Geog	वोलबैचिया प्यूलैक्स
witenagemot	Geog.	परामर्श परिषद	Wold's decomposition theorem		वॉल्ड विघोचन प्रमेय
withamite	Geol	विदेमाइट	wolf	Zool	भेडिया
withdrawal		अपनयन	Wolf and Wolfer's number	Math.	वुल्फ वुल्फर संख्या
withdrawal tube		निकास-नली	Wolf diagram		वुल्फ आरेख
withdrawn monsoon	Geog.	निवर्तित मानसून	Wolffenstein Boters reaction		वोलेन्स्टाइन बोटर्स अभिक्रिया
witherite	Chem, Geol	विदेराइट	Wolffian body	Zool	वोल्फी अंग, वोल्फी विड
within-aggregation-variance	Math.	अभ्युच्चयानर्तन प्रसरण	Wolffian duct		वोल्फी वाहिनी
			Wolff kishner reduction		वोल्फ किशनेर अपचयन
			Wolff rearrangement		वोल्फ पुनर्विन्यास
			Wolff spot test		वोल्फ बिन्दु निश्चय

wolfram		वुल्फ्रैम	wooden frame		काष्ठ चौखटा
wolframite	Geol.	वुल्फ्रैमाइट	wooden girder	Geog.	काष्ठ-गर्दर
wolfram ochre		वुल्फ्रैम गैरिक	wooden handle		काष्ठ हत्या
Wolfram wire		टंगस्टन का तार	wooden mallet		काष्ठ भुंगरी
Wolf-Rayet star		वुल्फ रेण्ट तारा	wooden plow		काष्ठ हल
wolfsbergite	Chem. (Met)	दुस्पसबर्जाइट	wooden spoon		काष्ठ चम्मच
wolf's oven	Chem. (Met.)	वोल्फ कुंडु	wooden vat retting		काष्ठकुंड अपगलन
wolf spider	Zool.	वुक लूता	wooden vessel		काष्ठ पात्र
wollastonite	Geol.	वोलैस्टोनाइट	wood fibre		काष्ठ तंतु
wollastonite-marble		वोलैस्टोनाइट संगमर्मर	<i>Woodfordia fruticosa</i>	Bot.	वुडफोर्डिया फ्रुटिकोसा
Wollaston wire		वुलैस्टन तंतु, वुलैस्टन तार	wood genera		काष्ठ-वंश
Wollaston wire thermometer		वुलैस्टन तार तापमापी	wood hematite		काष्ठ हेमाटाइट
wolof	Geog.	वोलॉफ (नीग्रोजनजाति)	wood industry		काष्ठ उद्योग
womb	Zool.	गर्भाशय	woodland	Geog.	वनस्थली, अरण्यभूमि
womp	Phy.	चित्र प्रदीप्ति	woodlot	Bot.	वृक्ष क्षेत्र
wonder stone	Geol.	वन्डर स्टोन	wood louse		काष्ठ यूका
wood	Bot., Geog., H.Sc.	1. काष्ठ, काठ, लकड़ी 2. अरण्य 3. दारु (=xylem)	woodmeal		काष्ठ चूर्ण
wood alcohol		काष्ठज ऐल्कोहॉल	wood opal		काष्ठ ओपल
wood anatomy		काष्ठ रचना, काष्ठ शरीर	wood parenchyma	Bot.	दारु-मृदूतक
Woodbery jig	Geol.	वुडबरी जिग	wood peat		काष्ठ पीट
wood brown		काष्ठ बन्नु	woodpecker	Zool.	काष्ठकूट, कठफोड़वा
wood carving		काष्ठ उत्कीर्णन	wood pulp		काष्ठ लुगदी
wood charcoal		काष्ठ कोयला, काठ-कोयला	woody plant	Geog.	काष्ठमय पादप, काष्ठीय वनस्पति
wood chiselling		काष्ठ तक्षण	woodrock	Geol.	काष्ठवत् ऐस्वेस्टॉस
wood-chuck	Geog.	मू-मूकर	wood rosin		काष्ठ रोजिन
woodcut		काष्ठोत्कीर्ण	wood sandpiper	Zool.	वन्य बाटन
woodcut map		काष्ठोत्कीर्ण-मानचित्र	wood shoaving	Chem.	लकड़ी छीलन
wooded area	Geog.	अरण्य क्षेत्र	wood silk		काष्ठ रेशम
wooden barn	Geog.	काष्ठक बच्चार	Wood's metal	Chem.	वुड धातु
wooden beater	H.Sc.	यापी, भोगरी	wood sorrel	Chem.	वुड सॉरिल
wooden block	Geog.	काष्ठ ब्लाक	wood spirit		काष्ठ स्पिरिट
			wood stage	Geol.	वनावस्था
			wood stone		काष्ठाश्म
			wood sugar		काष्ठ-शर्करा
			wood tick		काष्ठ किलनी
			wood tin		काष्ठ बंग

Woodward and Fieser rule	<i>Chem Chem.</i>	वुडवर्ड-फीजर नियम	word articulation	<i>Phy.</i>	शाब्दिक स्पष्टता
Woodward-cis-hydroxylation		वुडवर्ड सप्तपक्ष हाइड्रॉक्सिलीकरण	Worden gravimeter	<i>Geol.</i>	वोडेंन गुणत्वमापी
wood wasp		काष्ठ वरं	word-index		शब्द सूची
wood wool		काष्ठ ऊन	word length		शब्द सन्वाई
woody fracture	<i>Chem (Met)</i>	काष्ठीय विभंग	word mark	<i>Phy</i>	शब्द व्यापन्त चिह्न
woody specimen		काष्ठीय प्रतिदर्शी	word memory		शब्द स्मृति क्षमता
woof	<i>H Sc., Chem.</i>	बाना	word time		शब्द काल
woofer	<i>Phy.</i>	वूफेर	word timing ring		शब्द-काल मापन संकेत
woofer loud speaker		वूफेर लाउडस्पीकर	word transfer		शब्द स्थानान्तरण
wool	<i>Chem (Gl)</i>	1 काच-ऊर्ण 2. ऊन, ऊर्ण	work	<i>Math., Phy</i>	कार्य
wool chiffon		ऊन शिफॉन	workability		सुकरणीयता
wool crape		ऊन क्रेप	workable beds	<i>Geol</i>	खननीय सस्तर
woolen system	<i>H.Sc., Chem.</i>	वूलन पद्धति, लघुगिरा पद्धति, लघु रेशा पद्धति	work area		कार्य क्षेत्र
woolens (= woollens)	<i>H Sc.</i>	ऊनी वस्त्र	work centre		कार्य केन्द्र
wool fat		ऊर्ण वसा	workcoil (= load coil)	<i>Phy.</i>	भोड कार्य कुंडली, लोड कुंडली
wool follicle		ऊर्ण फॉलीकल, ऊर्ण कूप	work content		कार्य परिमाण
wooliness (= excessive reverberation)	<i>Phy.</i>	अस्पष्टता	work diagram		कार्य आरेख
woolly		लोमश	worker		श्रमिक
wool maggot (fleeceworm)		ऊर्ण अपादक (ऊर्णाप कीट)	worker (insect)	<i>Zool.</i>	कर्मो
wool mixture		ऊन मिश्रण	worker bee		कर्मो मधिवरा, कर्मो प्रमर
wool scouring		ऊन अभिमार्जन	work function		कार्य-फलन
wool waste		ऊन अपशिष्ट	work hardening	<i>Phy *</i>	अभिक्रिया कठोरन
wooly knot	<i>Bot.</i>	ऊणिल गाठ	work hardening material	<i>Math.</i>	विकृति दुर्झयमान पदार्थ
wooly root		ऊणिल मूल	work hardening model		विकृति दुर्झयमान निदर्शन
woomerab	<i>Geog.</i>	वूमेराह	working	<i>Geog.</i>	छान, खदान
wootz	<i>Chem. (Met)</i>	वूट्ज	working cattle		अभयोप्य पशु
Worcester		वुस्टर	working class district	<i>Geog.</i>	श्रमिक-वर्ग, श्रमिक-क्षेत्र
Worcestershire sauce		वुस्टरशायर सॉस	working-class dwelling		श्रमिक-वास, श्रमिक गृह
word	<i>Phy., Math.</i>	शब्द	working-class home		श्रमिक-गृह
			working condition		चालू अवस्था
			working current	<i>Phy.</i>	प्रचालन धारा, नियोज्य धारा
			working depth		उपयोगी गभीरता



working diagram	<i>Phy.</i>	कार्यदर्शी रेखाचित्र	work room		कार्यकक्ष
working distance (of microscope)	<i>Phy.</i>	प्रेक्षण दूरी	work sheet	<i>Math.</i>	कार्यविधि पत्र
working electrode potential	<i>Phy.</i>	कार्यकारी इलेक्ट्रोड विभव	workshop	<i>H.Sc., Geog.</i>	वर्कशाप, शिल्पशाला
working formula		कार्यकारी सूत्र	workshop industry		वर्कशाप उद्योग
working girl	<i>H.Sc.</i>	श्रमजीवी महिला	work simplification technique		कार्यसरलीकरण विधि
working height	<i>H.Sc.</i>	कार्यार्य ऊंचाई	work softening	<i>Phy.</i>	धमिक्रिया मृदुलन
working life	<i>Chem.</i>	कार्यकर आयु	work station		कार्य स्थल, कार्य स्टेशन
working load	<i>Phy.</i>	कार्यकारी भार	world	<i>Geog., Math.</i>	जगत्
working map	<i>Geol.</i>	आधार मानचित्र	world aeronautical chart	<i>Geog.</i>	विश्व वैमानिक चार्ट
working mean	<i>Math.</i>	कार्यकारी माध्य	world aeronautical planning chart		विश्व वैमानिक योजना चार्ट
working model		कार्यकारी निदर्श	world affair		विश्व विषय, विश्व मामला
working place	<i>Geol.</i>	कार्यस्थल	world authority		विश्व प्राधिकार
working plan (working guide)	<i>Geog.</i>	कार्य योजना (कार्य गाइड)	world-building		जगत् निर्माण
working population	<i>Geog.</i>	श्रमजीवी जनसंख्या	world-canal		जगत् कुल्या
working posture	<i>H.Sc.</i>	कार्यकरण आसन	world-condition		जगत्-अवस्था
working potential	<i>Phy.</i>	प्रचालन विभव	world conference		विश्व-सम्मेलन
working prohibit	<i>Math.</i>	कार्यकारी प्राविट	world element		जगत्-अवयव
working range	<i>Chem. (Gl.)</i>	कार्यकर परिसर	world ether		सर्वव्यापी ईथर
working recipe		कार्यकर योग	world function		जगत्-फलन
working rule	<i>Phy.</i>	व्यवहारिक नियम	world geography		विश्व भूगोल, विश्व भूज्ञान
workings	<i>Geol.</i>	खनि-कार्य-स्थल	world geometry		जगत् ज्यामिति
working stroke	<i>Phy.</i>	कार्य-चरण	world- invariant		जगत् निश्चर
working substance		कार्यकारी पदार्थ	world island		विश्व-द्वीप
working unit	<i>H.Sc.</i>	कार्य एकक	world line		जगत् रेखा
working wife	<i>H.Sc.</i>	वर्जक पत्नी	world opinion		विश्व-मत
working zero	<i>Geog.</i>	कार्यकर जीरो	world order		विश्व-व्यवस्था
working-zero of gauge	<i>Geog.</i>	गेज-कार्यकर जीरो	world point		जगत् बिन्दु
workmanship	<i>Geog.</i>	कर्मकौशल, कारीगरी	world polity		विश्व राज्य तंत्र, विश्व राज्य व्यवस्था
work of adhesion	<i>Chem.</i>	आसंजन कार्य	world quake		विश्व भूकम्प
work of cohesion	<i>Chem.</i>	संसजन कार्य	world region		जगत् प्रदेश
work-place	<i>Geog.</i>	कार्य-स्थान	world-relation		जगत्-सम्बन्ध
work-residence separation		कार्य आवास विभाजन			

world-tensor		जगन्-प्रदिश	woven-wire dam	Geog.	बुना-तार बाघ
world-tube		जगत्-नलिका	woven-wire screen	Geol	तार छन्ना
worldwide affair		विश्व व्यापी मामला, विश्वव्यापी विषय	wow	Phy.	वो
worldwide range		विश्वव्यापी पराम	woven number	Chem. (Met)	वोक्सन अंक
worldwide variation	Phy.	विश्वव्यापी परिवर्तन	wrack	Geog, H.Sc	समुद्री शैवाल
worm	Zool., Geol	कृमि	wrap paper butchers	Chem	मास आवरणक पत्र
worm burrow		कृमि बिल	wrapping	Geog, H Sc Chem	लपेटना
worm cast		कृमि-कचुक्र	wrapping test		वेष्टन परीक्षण
worm infestation		कृमि प्रसत	Written filters	Chem. (Photo- chem)	रेटन फिल्टर, रेटन निस्यन्दक
worming	Chem (Met)	कृमि चिल्ल	Written screen		रेटन परदा
worm marking	Chem. (Met.)	मूष पुच्छन	wrench		रिन्च, रेन्च
worm nodule		कृमि ग्रथिका	wrench fault		रेन्च फ्रग
worm rock		कृमि शैल	wren warbler	Zool.	चिकुर कृत्रिनी (फुदकी)
worm salamander		कृमि सैलामेंडर, कृमि सरट	wrico pen	Geog.	रिक्को कलम
worm's eyemap	Geol.	अवदृश्याश मानचित्र	wriggle	Phy.	परिसंपंण
worm wheel		वर्म पहिया, वर्म चक्र	wriggler	Zool.	परिसंपंण
wormy picture	Phy.	सर्पि चित्र	wriggling line	Geog.	परिसंपंण रेखा
worn down spur	Geog.	घषित पर्वत रूध	wriggling movement		परिसंपंण गति
worn-out	Geog.	पुराना, टूटा फूटा	Wrightia tinctoria	Bot.	राइटिया टिक्टोरिया
Woronaceae	Bot.	वोरोनिएसी	Wrightia tomentosa		राइटिया टोमेन्टोसा (इद्र जी)
Woronin's hypba	Bot.	वोरीनिन ततु	Wright stain	Bot, Zool.	राइट अभिरवक
Woronina polycystis	Bot.	वोरोनिना पॉलीसिस्टिस	wringer	H.Sc.	निष्पीडित्र
worship	Geog.	उपासना	wringing	H.Sc.	निष्पीडन
Worstall test	Chem.	वस्टॉल निक्षप	wrinkle and crystal finishes	Chem. (Paint)	वलि इकाटक परिष्कृता
worsted	H.Sc, Geog.	वस्टेड	wrinkle finish	Phy, Chem. (Met)	वलीय परिष्कृता
worsted goods		वस्टेड ऊनीमाल	wrinkle resistance		वलि प्रतिरोध
worsted system	H.Sc., Chem.	वस्टेड पद्धति, दीर्घ रेशा पद्धति, दीर्घ गिरा पद्धति	wrinkling	Chem.	वनीयन
worsted yarn		वस्टेड सूत्र	wrist joint	H.Sc.	मनिबन्ध
Woulfe-bottle		वूल्फ बोतल	write pulse	Phy.	लेखन स्पंद
wound		घाव, व्रण, छन	write time	Math.	लेखन काल
wound penetration	Bot.	घात प्रवेश	writing furniture	H.Sc.	लेखन उपकरण
wound tumor		घाव, सतारुंद			

wrong contrast	Geog.	दोषपूर्ण वैषम्य
wrong fount	Chem.	गलत फाउन्ट
Wronskion determinijet	Math.	रॉसक्रियन सारणिक
wrought iron	Geol.	ताड्य लोह, पिटवाँ लोहा
W-space	Math.	W-समष्टि
Wuchereria	Zool.	वूचेरेरिया
<i>Wuchereria bancrofti</i>		वूचेरेरिया बैन्क्रोफ्टाइ
wulfenite	Geol.	वुल्फेनाइट
Wulff net	Geol.	वुल्फ नेट
Wulff process		वुल्फ प्रक्रम
Wullner's law		वूलनर नियम
wundernetz (rete mirable)	Zool.	वुन्डरनेज (फेशिका जाल)

Wurster dye	Chem.	वुर्स्टर रंजक
Wurtizite lattice	Phy.	वुर्तजाइट जालक
wurtzilite	Geol.	वुर्ज़ीलाइट
Wurtzite	Geol., Chem.	वुर्ट्जाइट
Wurtz reaction	Chem.	वुर्ट्स अभिक्रिया
Wurtz synthesis		वुर्ट्स संश्लेषण
wustite		वुस्टाइट
wyche	H.Sc.	वाइशे
Wycombe	Geog.	वाइकाम्बे
wye level	Geog.	वाई लेवल (यंत्र)
W-wave	Geol.	W-तरंग

## X

x-acto knife	Geog.	एक्स-एक्टो चाकू
xaintray	H.Sc.	जेन्ट्रे
<i>Xancus pyrum</i>	Zool.	ज़ैन्कस पाइरम
xanthate	Chem.	ज़ैन्थेट
xanthate method		ज़ैन्थेट विधि
xanthen dyes	Chem.	ज़ैन्थीन रंजक
xanthhydrol	Chem.	ज़ैन्थहाइड्रॉल
xanthia cocktail	H.Sc.	ज़ैन्थिया कॉकटेल
xanthic	Chem., Bot.	ज़ैन्थिक
Xanthene	Chem.	ज़ैन्थीन
<i>Xanthium strumarium</i>	Bot.	ज़ैन्थियम स्ट्रुमेरियम
xantho	Chem.	ज़ैन्थो
Xanthocapsa	Bot.	ज़ैन्थोकैप्सा
xanthochroism	Zool.	ज़ैन्थोक्रोइज्म
xanthochroous	Geog.	गौर, गौरवर्ण

xanthocilin	Chem.	ज़ैन्थोसिलिन
xanthocone	Chem.	ज़ैन्थोकोन
xanthoconite	Chem.	ज़ैन्थोकोनाइट
xanthodont	Zool.	पीतदन्ती
xanthogenate	Chem.	ज़ैन्थोजेनेट
<i>Xanthomonas citri</i>	Bot.	ज़ैन्थोमोनास सिट्राइ
xanthone	Chem.	ज़ैन्थोन
Xanthophyceae	Bot.	ज़ैन्थोफाइसी (पीत हरित शैवाल)
Xanthophycean alga	Bot.	ज़ैन्थोफाइसीय शैवाल
xanthophyllite	Chem. (Met.)	ज़ैन्थोफिलाइट
xanthophyll	Bot.	पर्णपीत, जैन्थोफिल
xanthoplast	Zool.	ज़ैन्थोप्लास्ट, पीतलवक
xanthoproteic reaction	Bot.	ज़ैन्थोप्रोटीइक अभिक्रिया

xanthoproteic test		जैन्थोप्रोटीडिक परीक्षण	xenokic	Geol.	समग्रहीतप्राही
xanthoprotein	Zool.	जैन्थोप्रोटीन	xenolith	Geol.	अपरारम्भ
xanthopsin	Zool.	जैन्थोप्सिन	xenolithic structure		अपरारम्भ संरचना
xanthopsis		जैन्थोप्सिस	xenology	Zool.	पौषीविज्ञान
<i>Xanthopsis leachi</i>		जैन्थाप्सिस लीचाइ	xenomorphie	Geol.	अस्वरूपी
xanthopteria	Zool.	जैन्थोप्टेरिन	xenomorphie-granular		अस्वरूपी कणिकात्मय
<i>Xanthoria parietina</i>	Bot.	जैथोरिया पेराइटिना	xenon		जीनॉन
xanthosiderite	Chem.	जैन्थोसिडेराइट	xenophobic	Geog.	पररगत
xanthosis		पीत रोग	xenophora		जेनोफोरा
xanthosome	Zool.	पीतकाय	xenophya	Zool.	जीनोफिया
xanthurenic acid	Chem.	जेन्थुरेनिक अम्ल	Xenopidae	Zool.	जेनोपाइडी
Xanthylic acid	Chem.	जैन्थिलिक अम्ल	<i>Xenopsylla cheopis</i>	Zool.	जेनोप्सिला कीओप्सिस
X-axis	Math.	एक्स-अक्ष, x-अक्ष	Xenopterygii	Zool.	जैनोप्टेरीजियाई
X-band	Phy.	X-बैंड	Xenopus	Zool.	जेनोपम
X-baryon	Phy.	X-बेरियान	<i>Xenopus leavis</i>	Chem.	जैनोपस लेविस
X-bodies	Bot.	X-पिंड	<i>Xenorhynchus asiaticus</i>	Zool.	जैनोरिंकस एसिएटिकस (लोहारबग, लोहमारंग)
X-body	Bot.	X-पिंड, X-बाडी			
X-chromosome	Biol.	एक्स-गुणसूत्र, एक्स-क्रोमोसोम	xenos	Geog.	जीनोम, विदेशी
X-cut plate	Phy.	x-काट पट्टियां	Xenos	Zool.	जीनोस
X-disease	Bot.	x-रोग	xenothermal deposit	Geol.	शाह्यतापी निक्षेप
Xenarthra	Zool.	जेनार्थ्रा	xenothermal ore deposit		शाह्यतापी अयस्क निक्षेप
xenia	Zool. Bot.	अतिप्रबलता, जीनिया, अपर पराग-प्रभाव	xenotime	Geol. Chem.	जैनोटाइम
Xenia	Zool.	जीनिया	xerarch	Bot.	शुष्ककारम्भी
Xenicidae	Zool.	जेनोसिडी	xerarch succession		शुष्ककारम्भी अनुक्रम
xenobiosis	Zool.	पौषीजीवन, आगतजीवन	xeres cocktail		बर्ष कांस्टेल
xenith plate	Chem.	जैनिथ प्लेट	xerga	H.Sc.	बर्षा
xenium	H.Sc.	जैनिथम	xeroclastic	Bot.	शुष्कन विवृत
xenoblastic	Geol.	अपरबलास्टी, जेनोब्लास्टिक	xerocleistogamy	Bot.	निमीनित पररगत
xenocarphy	Bot.	परफलन	xerocolous	Bot., Zool.	मरवाली
Xenocladia	Bot.	जीनोक्लैडिया	xerogel	Chem.	क्रिस्टल, शुष्क जैल, शुष्क खिलिय
xenocryst	Geol.	अपरक्रिस्टल	xerogeophyte	Bot.	मरुभौमपिद्
xenodiagnosis	Zool.	पौषीनिदान	xerograph	Phy.	जीरोग्राफ
xenoeic	Zool.	पौषाश्रयी, आगतवासी	xerography		जीरोग्राफी
xenogamy	Bot.	परनिषेचन			

xerohyllum	Bot.	शुष्कवन	xiphisternum	Zool.	पञ्चउरोस्थि, जिफिस्टर्नम
xeromorphic		शुष्कतानुकूलित	xiphodon		जाइफोडान
xeromorphosis	Bot.	शोषरूपान्तरण	xiphoid	Bot., Zool.	अस्याभ
xeromorphy	Bot.	शुष्कानुरूपता	xiphoid process	H.Sc.	उरोस्थि प्रवर्ध
xerophil	Zool.	महरागी	xiphosura	Zool.	जाइफोसूरा
xerophile	Bot., Geog.	1. महरागी 2. मरुद्भिद्	X-number		ऐक्स-संख्या
xerophilous	Bot., Geog.	1. मरुद्भिद् 2. महरागी	xonotlite	Chem.	जोनोट्लाइट
xerophilous species		महरागी जाति	X-organ	Zool.	ऐक्स-अंग
xerophilous tree		मरुद्भिदी वृक्ष	X-plates	Phy.	X-प्लेट
xerophily	Zool., Bot.	महरागिता	x-punch	Phy.	x-छिद्र
xerophthalmia	H.Sc.	जीरोप्येलमिया, शुष्काक्षिपाक	x-ray camera	Phy.	ऐक्स-किरण-कैमरा
xerophyte	Bot., Geog.	मरुद्भिद्	x-ray crystallography		ऐक्स-किरण-क्रिस्टलिकी
xerophytic		मरुद्भिदी	x-ray diffraction		ऐक्स-किरण विवर्तन
xerophytic vegetation		मरुद्भिदी वनस्पति	x-ray diffractometer		ऐक्स-किरण-विवर्तनमापी
xerophytism	Bot.	मरुद्भिद्ता	x-ray energy level		ऐक्स-किरण-ऊर्जास्तर
xeroplastic	Bot.	शुष्कतोत्पन्न	x-ray photograph		ऐक्स-किरण फोटो
xeroprinting	Phy.	जीरो मुद्रण	x-ray spectrometer		ऐक्स-किरण स्पेक्ट्रममापी
xeroradiography	Chem. (Met.)	एक्सरे विकिरणी चित्रण	x-ray spectrum		ऐक्स-किरण स्पेक्ट्रम
xerorendzina, xerorendzina	Geog.	जीरोरेण्डजाइना	x-ray structure		ऐक्स-किरण संरचना
xeros	Geog.	शुष्क	x-ray therapy		ऐक्स-किरण चिकित्सा
xerosam	Geog.	जीरोसेम	X-unit	Phy.	X-मात्रक
xerosere	Geog.	मरुकमक	XX condition	Zool.	ऐक्स-ऐक्स अवस्था
xerospore	Bot.	शुष्कबीजाणु	XY condition	Zool.	ऐक्स-वाई अवस्था
xerothermic	Geog., Bot.	शुष्कतापीय, मरुतापी	xylan	Chem., Phy.	जाइलैन
xerothermic index		शुष्कतापीय सूची	Xylariaceae	Bot.	जाइलैरिएसी
xerothermic period	Zool.	मरुतापी काल	Xylaria subterranea	Bot.	जाइलेरिया सबटैरेनिया
Ximenia americana	Bot.	जाइमीनिया अमेरिकाना	xylaric acid	Chem.	जाइलेरिक अम्ल
ximenic acid	Chem.	जिमेनिक अम्ल	xylem	Bot.	दारु, जाइलम
xiphidocercaria	Zool.	जिफिडोसर्कारिया	xylem feeder		जाइलम रस भक्षी, दारु रसभक्षी
xiphiform	Bot., Zool.	बसिरूप, अस्याकार	xylem inhabitant		जाइलम वासी, दारु वासी
xiphiplastron	Zool.	पञ्चवर्ध	xylem parenchyma		दारु मृदूतक, जाइलम मृदूतक
			xylem ray		दारु-अर, दारु-अर
			xylem sponge		जाइलम स्पंज, दारु स्पंज



yarn	<i>Chem.</i> ( <i>Text.</i> ) <i>H.Sc.</i>	तन्तु सूत्र	Yed Posterior (=ε Ophiuchi)	<i>Math.</i>	येद पोस्टीरियर (=ε ऑफियूकाइ)
yarn count		सूत्रांक	Yed Prior (=δ Ophiuchi)	<i>Math.</i>	येद प्रायर (=δ ऑफियूकाइ)
yarn dyeing		सूत्ररंजन	yellow		पीला, पीत
yarn twist		सूत्र वेष्टन	yellow bloom	<i>H.Sc.</i>	येलो ब्लूम
yasmak	<i>H.Sc.</i>	यस्मक	yellow-brown skin- colour		पीत-ताम्र त्वचा-वर्ण
yaw	<i>Phy.</i>	पार्श्ववर्तन	yellow cell		पीत कोशिका
yawed cylinder	<i>Math.</i>	अंशानत वेलन	yellow cheeked tit		पीत कपोल बल्गुली
yawed elliptic cylinder		अंशानत दीर्घवृत्तीय वेलन	yellow coupler		पीत युग्मक
yawed flat plate		अंशानत चपटी पाटी	yellow disease		पीताति, पीत रोग
yawed wing		अंशानत पक्ष	yellow dwarf		पीत चामनता
yawning chasm	<i>Geog.</i>	वृहत् गह्वर	yellow earth		पीत-मृत्तिका (लोएस)
yawing instability	<i>Zool.</i>	कुटिल अस्थायित्व	yellow eyed babbler		पीताक्ष कचपक्षिया
yawing movement		कुटिल गति	yellow fat		पीत वसा
yawing plane		प्रविचलन तल	yellow fever virus		पीत ज्वर विषाणु
yaws (frambesia)	<i>Zool.</i>	याज (फ्रम्बीसिया)	yellowfin	<i>Geog.</i>	यैलोफिन
yaws fly		याज मक्खी	yellow ground		पीत-भूमि
yaxche	<i>H.Sc.</i>	याश्चे	yellow headed wagtail		पीतशीर्ष खंजन
Y-axis	<i>Math.</i>	Y-अक्ष, वाई-अक्ष	yellow highlight stain		पीत-विकासी अभिरंजन
yazoo	<i>Geog., Geol.</i>	याजू	yellowing	<i>Chem.</i> <i>H.Sc.</i>	पीतन पीला पड़ना
yazoo bottom		याजू-तली	yellowish brown	<i>Chem.</i>	पीत बध्नु
yazoo river		याजू नदी	yellowish gray		पीत-धूसर
Y baryon	<i>Phy.</i>	Y बेरियान	yellow jacket (wasp)	<i>Zool.</i>	पीतांशक (वर)
Y-chromosome	<i>Bot.</i>	वाई-गुणसूत्र, वाई- क्रोमोसोम	yellow lakes		पीतलासक
Y-connection	<i>Phy.</i>	Y-सम्बन्धन	yellow legged button quail		पीतपद लाविका
Y-cut plate	<i>Phy.</i>	Y-काट पट्टिका	yellow mosaic		पीत किर्मीर
year	<i>Math.</i>	वर्ष	yellow mottling strain		पीत कर्बुरण विभेद
yearling	<i>Biol.</i>	एकवर्षी	yellow ochre	<i>Geol.</i>	रामरज
yeast	<i>Bot., H.Sc.</i>	खमीर, यीस्ट	yellow pigments in oil		तेल-पीत वर्णक
yeast autolysate		खमीर, स्वलयनज	yellow prussiate of potash		पोट्यास पीत प्रशिएट
yeast extract		यीस्ट निष्कर्ष, यीस्ट निचोड़	yellow river		पीत नदी (ह्वांग हो)
yeast infusion		खमीर फांट	yellow rust		पीत किट्ट, हरदा
yeast nucleate		यीस्ट न्यूक्लिएट	yellow rust of wheat		गेहूँ का पीत किट्ट
yechigo chijimi	<i>H.Sc.</i>	येशीगो चिजिमी	yellows	<i>Bot.</i>	पीताति, पीत रोग

yellow spot		पीत बिन्दु	yield value		1. (Mechanics) परामत्र मान
yellow spot virus		पीत लक्ष्म वाइरस			2. उत्पादन मूल्य, लक्ष्य मान
yellow throated sparrow		पतिकाष्ठ शीरध्या, पीतकण्ठ चटक	Yildum (=δ Ursae Minoris)	Math	इल्डम (=δ अर्सी माइनोरिस)
yellow tint		पीत रजन, पीला रजन	yistlo	H.Sc.	इस्टलो
yellow ultramarine		पीत अल्ट्रामेरीन	Ylem	Phy., Chem.	वाइलम
yellow ware	H.Sc.	पीत भांड	Y-level	Geog., Geol.	Y-लैवल
yellow wash		पीला वाश	Y-mill	Chem (Met)	Y-मिल, वाई मिल
yellow-wattled lapwing		पीत वैटल टिट्टिम	yobrine	Chem.	योब्रीन
yellow yolk	Zool.	सुपीतक	yobyrtine	Chem.	योबिरीन
yeinite	Geol.	येनाइट	yogurt (yoghurt)	Chem., H.Sc.	दही, दधि
yeoman	Geog.	योमन, जर्मोदार	yohimbe	Chem.	योहिम्बे
yerbamate		यरबामाते	yohimbehe alkaloid		योहिम्बेही ऐल्केलाइड
yerger	H.Sc.	यर्जेर	yohimbic acid	Chem.	योहिम्बिक अम्ल
yerli	H.Sc.	यर्ली	yohimbine	Chem.	योहिम्बोन
yield		1 उत्पाद, प्राप्ति, लक्ष्य, उत्पन्न 2. (Mechanics) परामत्र	yohimbol	Chem.	योहिम्बॉल
yield condition		परामत्र-प्रतिबंध	yohimbone	Chem.	योहिम्बोन
yield curve		उत्पाद वक्र	yoke	Zool.	1 (organ) योक
yield factor of safety		परामत्र सुरक्षा गुणक		Chem., H.Sc.	2. योक
yield function		परामत्र फलन		Phy.	3. योकक
yield limit		परामत्र सीमा	Yokohama crape	H.Sc.	योकोहामा क्रेप
yield load		परामत्र उद्भार	yokut	Geog.	योकुट
yield locus		परामत्र बिन्दु-मय	yokut group		योकुट वर्ग
yield mechanism		परामत्र यांत्रिकता	yokut tribe		योकुट जनजाति
yield moment		परामत्र ब्याभूर्ण	Yoldia		योल्डिया
yield point		परामत्र बिन्दु	yolk	Zool.	पीतक, योक
yield point stress		परामत्र बिन्दु प्रतिबल	yolk cell		पीतक कोशिका
yield-point test		परामत्र बिन्दु निश्चय	yolk droplet		पीतक बिन्दुक
yield polygon		परामत्र बहुपद	yolk duct		पीतक-वाहिनी, योक- वाहिनी
yield polyhedron		परामत्र-बहुफलक	yolk epithelium	Zool.	पीतक उपकला, योक- एपीथीलियम
yield slab		परामत्र फलक	yolk gland		पीतक ग्रन्थि, योक ग्रन्थि
yield statistics		उपज के आंकड़े	yolk globule		पीतक गोतिका
yield strength		परामत्र सामर्थ्य			
yield stress		परामत्र प्रतिबल			
yield strip		परामत्र पट्टी			



yolk granules		पीतक कण	Young's test		यंग-परीक्षण
yolk-laden sphere		पीतकमय गोला	young valley		तरुण घाटी
yolk nucleus		पीतक केन्द्रक	youth	Geog.	युवावस्था
yolk plug		पीतक प्लग	youthful stage	Geol.	तरुणावस्था
yolk pyramid		पीतक पिरैमिड	youthful stream		तरुण-सरिता
yolk receptacle		पीतकाधान	youthful topography		तरुण स्थलाकृति
yolk reservoir		पीतक बाधाय	y-psiloid apparatus	Zool.	y-रूप उपकरण
yolk sac		पीतक कोष	Y-punch	Phy.	Y-छिद्र
yolk sac placenta		पीतक कोष अपरा	yrneh	Phy.	यर्न
yolk sphere		पीतक गोल	Y-stand	Geog.	वाई स्टैंड
yolk spherule		पीतक गोलक	ytterbite	Chem.	इटर्बाइट
yolk stalk		पीतक वृत्	ytterbium		इटर्वियम
yolo silty clay	Geog.	योलो गाद मृत्तिका	yttria		इट्रिया
yoma	Geog.	योमा	yttrium	Chem.,H.Sc	इट्रियम
Yomud carpet	H.Sc.	योमद कालीन	yttrium earth	Geol.	इट्रियम मृदा
Y-organ	Zool.	वाई-अंग	yttrotantallite	Chem.	इट्रोटेन्टलाइट
yoruba	Geog.	योरूबा	<i>Yucca gloriosa</i>	Bot.	यक्का ग्लोरियोसा
yoruba-speaking people		योरूबा-भाषी जन	yukaghir	Geog.	यूकागीर
Y or wye theodolite	Geog.	वाई थियोडोलाइट	Yukawa kernel	Phy.	यूकावा कर्नेल
young fish trawl	Zool.	युवमीन बानायक	Yukawa potential	Math.	यूकावा-विभव
young ice	Geog.	तरुण बर्फ	Yule's equation	Math.	यूल-समीकरण
young integral		यंग समाकल	yuma	Geog.	यूमा
young seed	Bot.	तरुण बीज	yungas	Geog.	यंगैज
young mountain		तरुण पर्वत	yurt		युर्ट
young population	Geog.	युवा जनसंख्या	yurt trellis	Geog.	युर्ट जालवितान
young river		तरुण नदी	yutun	H.Sc.	यूटून
young stream		तरुण सरिता	yuxan	H.Sc.	यूजेन
Young's modulus	Phy.	यंग का गुणांक	ywa	Geog.	ईवा, ग्राम
Young's set	Math.	यंग-समुच्चय			

## Z

Zaffre	Chem.	जाफे	*Zaurak	Math.	जोरक (= $\gamma$ इरिडानाइ)
zaglossus		जैग्लोसस	(= $\gamma$ Eridani)		
zagora	H.Sc.	जैगोरा	*Zavijava	Math.	जाविजावा (= $\beta$ कन्या, $\beta$ वज्रिनिस)
Zahn viscometer	Chem (Paint)	त्थान श्यानतामापी	(= $\beta$ Virginis)		
Zalambdalestes	Zool.	जैलम्हालेस्टीज	Z-axis modulation	Phy.	तीव्रता मोडुलन
Zalambdalestidae		जैलम्हालेस्टाइडी	(= intensity modulation)		
zambo	Geog.	जैम्बो, नीग्रो-इन्डियन वर्ण-संकर	z-chart (zee chart)	Math.	z-चार्ट
Zamia	Bot	जैमिआ	Z-chromosome	Zool.	जेड-गुणसूत्र
Zamia floridoda		जैमिया फ्लोरीडेडा	z-curve	Math.	z-वक्र
Zamia floridena		जैमिआ फ्लोरीडेना	z-cut plate	Phy.	z-कट पट्टिका
Zamia gigas		जैमिया जाइगस	'Z' defocussing	Phy.	Z-डिफोकसिंग
Zamites	Bot.	जैमाइटीस	Z-distribution	Math.	Z-वटन
zand twist	Chem. (Text.)	जैड-मोटन	zeaxanthin	Chem.	जिआजैन्थिन
zanella	H.Sc.	जैनेला	zebra	Zool.	जेब्रा
*Zanlah	Math.	जानिया (= $\eta$ कन्या, $\eta$ वज्रिनिस)	zebra shark	Zool.	जिनवला, जेब्रामुरा
Zannichellia palustris	Bot.	जैनिकेलिआ पैलुस्ट्रिस	zebra spindle	Bot.	घारीदार तर्क
zanoga	Geog	जैनोगा, हिमज गहर	Zebra time	Phy.	जेबरा समय
zanthic acid	Chem.	जैन्थिक अम्ल	zebu	Zool.	जेबू
Zanycteris		जैन्किटेरिस	Zechstein	Geog.	जेकस्टाइन
zanzibar cloth	H.Sc.	जैन्जीबार कपडा	zedalon	H.Sc.	जेडालोन
Zaphrentis		जैफ्रेन्टिस	zedlitz	Chem.	जेडलिट्ज
Zapon tack tester	Chem. (Paint.)	जैपन श्लेपिटा निरूपित	zed phenomenon	Geol.	जेड घटना
Zapota tree	Geog.	सापोटा वृक्ष	Zeeman broadening	Math.	जेमान प्रसरण
zaratite	Geol	जैराटाइट	Zeeman component		जेमान घटक
zariba, zareba, zareeba	Geog.	जरीबा, बाड़ा	Zeeman effect		जेमान प्रभाव, जेमान निष्पत्ति
zarovisation		वसतीकरण	Zeeman shift		जेमानी विस्थापन
zastuga		हिसीला, जस्तुगा	Zeeman splitting		जेमानी विपाटन
			zees	Chem. (Met)	जेस
			zefran	H.Sc.	जेफ्रान
			zehlawo	H.Sc.	जेहलावो
			Zellieria		जाइलेरिया
			Zellieria curvata		जाइलेरिया कर्नुटा

zein	<i>Bot., Chem., H.Sc.</i>	जीन	zenith-pointing system	शिरोविन्दु निर्देशन तंत्र
zein fiber		जीन रेशा	zenith sector	शिरोविन्दु सेक्टर
zeisel method	<i>Chem.</i>	जाइसेल पद्धति	zenith telescope	शिरोविन्दु दूरबीन
Zeise's salt	<i>Chem.</i>	जाइसे लवण	Zentralort	<i>Geog.</i> जेन्द्रालॉर्ट, केन्द्रीय स्थान
Zeiss Diritesf apparatus	<i>Chem. (Met.)</i>	जाइस डिरिटैस्ट उपकरण	Zeo-Karb	<i>Chem.</i> जिओ-कार्ब
Zeiss level		जाइस लेवल (यंत्र)	Zeo-Karb process	जिओ-कार्ब प्रक्रम
Zeiss model		जाइस मॉडल	zeolite	<i>Geol.</i> जियोलाइट
Zeiss pattern level		जाइस पैटर्न लेवल	zeolitic facies	जिओलाइट संलक्षणी
Zeiss spectrofluoro meter		जाइस स्पेक्ट्रोफ्लुओरोमीटर	zeolitic softening	जिओलाइट मृदुकरण
Zeiss water-interferometer		जाइस जल व्यतिकरण-मापी	zeolitic water	<i>Chem.</i> जिओलाइट जल
Zelinsky-Stadnikoff aminonitrile synthesis	<i>Chem.</i>	जिलिन्स्की स्टैडनीकॉफ ऐमीनोनाइट्राइल संश्लेषण	zeolitisation	<i>Geol.</i> जिओलाइटभवन, जिओलाइटन
zellwolle	<i>Chem. (Text.)</i>	त्सेलवोले	Zeomorphi	<i>Zool.</i> जिओमॉर्फी
zemena	<i>H.Sc.</i>	जेमेना	zeorin	<i>Chem.</i> जीओरिन
Zemplen's method	<i>Chem.</i>	जेम्पलेन पद्धति	zephirane	<i>Chem.</i> जेफिरान
zener breakdown	<i>Phy.</i>	जेनर संग	zephyr	<i>Geog.</i> जेफर, धीर समीर (पश्चिमी)
zener current	<i>Phy.</i>	जेनर धारा	<i>Zephyranthes carinata Bot.</i>	जैफाइरेन्थीज कैरीनेटा
zener diode (=breakdown diode)		जेनर डायोड	<i>Zephyranthes tubispatha</i>	जैफाइरेन्थीज ट्यूबिस्पेथा
zener voltage		जेनर वोल्टता	zephyr yarn	जेफर सूत्र
zengite		निपेचनांग	zeppelin	जेपेलिन
zenith	<i>Math., Phy.</i>	खमध्य, शिरोविन्दु	zeppelin antenna	जेपेलिन एन्टेना
zenithal equal area projection	<i>Geog.</i>	खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप	zeratite	<i>Chem. (Met.)</i> जेराटाइट
zenithal equidistant projection		खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप	Zereba	जेरेबा
zenithal projection		खमध्य प्रक्षेप	Zerewitinoff	<i>Chem.</i> जेरेविटिनॉफ
zenith angle		शिरोविन्दु दूरी	zerkelite	<i>Chem. (Met.)</i> जर्केलाइट
zenith camera		जेनिय कैमरा	Zermelo's postulate	जर्मेलो-अभिगृहीत
zenith distance		शिरोविन्दु दूरी	Zermelo's principle	जर्मेलो-नियम
zenith green		जीनिय हरित, जीनिथ ग्रीन	zero	<i>Geog., Math.</i> 1. (function) शून्यक 2. शून्य, सिफर, जीरो
			zero address instruction	शून्य पता अनुदेश
			zero adjuster	<i>Phy.</i> शून्यांक समंजक
			zero-adjustment	शून्य-समायोजन

zero approximation energy level		शून्य सन्निकटन ऊर्जा स्तर	zero graduation		शून्य अंकन, शून्य अंग, शून्य चिह्न
zero-approximation potential curve		शून्य सन्निकटन विभव वक्र	zerography	Geog.	जीरोग्राफी
zero aspect ratio		शून्य अभिसूचता अनुपात	zero gravity		शून्य गुरुत्व
zero balance		शून्य सतुलन	zero-groove	Geog.	जीरो-खाच
zero beam		शून्य आधूर्णी किरण पुत्र	zero-hardness		शून्य कठोरता
zero beat		शून्य विस्पन्द	zero ideal		शून्य गुणभावनी
zero beat method		शून्य विस्पन्द विधि	zeroing knob	Chem.	शून्यन घुडी
zero block		शून्य खण्ड	zero inventory		शून्य लगनिका
zero branch (= Q branch)		शून्य शाखा (= Q शाखा)	zero isopach		समस्थूलता शून्य रेखा
zero carrier		शून्य आयास तरंग वाहक	zero length		शून्य लम्बाई
zero center		शून्य केन्द्र	zero-length launcher		शून्य प्रमापी मोचित्र
zero circle	Math, Geog.	शून्य वृत्त	zero length launching		शून्य प्रमापी मोचन
zero component of velocity		वेग का शून्य घटक	zero length spring		शून्य लम्बाई स्प्रिंग
zero concentration	Chem.	शून्य सांद्रण	zero level address (immediate address)	Phy.	सलगन पता, प्रवर्तक पता
zero correction	Math, Phy.	शून्यांक सशोधन	zero lift drag		शून्य उत्थापन कर्षण
zero correlation		शून्य सहसंबंध	zero-lift drag coefficient		शून्य उत्थापन कर्षण गुणांक
zero count		शून्य गणना	zero lift trajectory		शून्य उत्थापक प्रलेख पथ
zero curvature		शून्य वक्रता	zero line (of band)		(बैंड ली) शून्य रेखा
zero cut crystal		शून्य तापाकीकृत क्रिस्टल	zero magnetic field		शून्य चुंबकीय क्षेत्र
zero difference		शून्य अंतर	zero mapping		शून्य प्रतिचित्रण
zero dimensional set		शून्यविम समुच्चय	Zeromatic PH meter		जीरोमेट्रिक PH मापी
zero divider		शून्य का भाजक	zero matrix		शून्य आव्यूह
zeroed	Chem.	शून्यित	zero measurement	Geog.	जीरो माप
zero energy level		शून्य ऊर्जा स्तर	zero-metering	Phy.	शून्यांकी मापन
zero energy reactor	Phy	अत्यल्प ऊर्जा रिप्रेक्टर	zero method		शून्य रीति
zero error	Math, Phy.	शून्यांक त्रुटि	zero molecule reaction		शून्य अणुक अभिक्रिया
zero exponent		शून्यघात	zero moment method		शून्य आघूर्ण विधि
zero field splitting		शून्य क्षेत्र विपाटन	zero net charge		शून्य नेट चार्ज
zero frequency beat		शून्य आवृत्ति विस्पन्द	zero of a function		शून्य का फलक
zero frequency component	Phy.	दृष्ट्यारा घटक, शून्य आवृत्ति घटक	zero of an ideal		गुणभावनी का शून्यक
zero gap		शून्य रेखा रिक्ति, शून्य रिक्ति	zero of a polynomial		बहुपद का शून्यक
			zero offset		शून्य ऑफसेट
			zero of gauge		प्रमापी-शून्य, गेज जीरो

zero of prime ideal	<i>Math.</i>	अभाज्य गुणजावली का शून्यक	zeroth approximation	<i>Phy.</i>	शून्यकोटि सन्निकटन
zero-one-law		शून्य एक नियम	zeroth order equation		शून्यकोटि समीकरण
zero order		शून्य कोटि	zeroth order function		शून्यकोटि फलन
zero order approximation		शून्य कोटि सन्निकटन	zero twist		शून्य मोटन
zero order Bessel function		शून्यकोटि का बेसल फलन	zero unity dummy variables		शून्यक मूक चर
zero order differences		शून्यकोटि अंतर	zero valent		शून्य संयोजक
zero order function		शून्यकोटि फलन	zero variable		शून्य चर
zero order reaction		शून्यकोटि अभिक्रिया	zero variant		शून्य चर
zero output		शून्य निर्गम	zero vector		शून्य सदिश
zero point		शून्य बिंदु	zero vibration		शून्य कम्पन
zero point energy		परमशून्यांकी ऊर्जा, शून्य बिंदु ऊर्जा	zero water		शून्य जल
zero point field		शून्य बिन्दु क्षेत्र	zeset	<i>H.Sc.</i>	जेसेट
zero point level		शून्य तल	zest	<i>H.Sc.</i>	जेस्ट
zero point motion		परम शून्यांकी गति	ZETA (Zero Energy Thermonuclear Assembly)	<i>Phy.</i>	जीटा
zero point of charge		शून्य बिन्दु आवेश	zeta function		जीटा फलन
zero point vibration	<i>Phy.</i>	परम शून्यांकी कम्पन	zeta potential		जीटा विभव, जीटा विभवान्तर
zero position		शून्यांकी स्थिति	zetmeter	<i>Chem. (Met.)</i>	जेटमीटर
zero power lens		शून्य क्षमता लेन्स	zeugen	<i>Geog.</i>	ज्यूगेन
zero-reading instrument		शून्यपाठी साधित	zeugenberg		ज्यूगेनबर्ग
zero rest-mass		शून्य विरामस्थ द्रव्यमान	zeugite	<i>Bot.</i>	निपेचनांग
zero squence	<i>Math.</i>	शून्यांकी अनुक्रम	Zengloptera	<i>Zool.</i>	ज्यूग्लॉप्टेरा
zero set		शून्य समंजन	zeugogeosyncline	<i>Geol.</i>	जूगोभूभिनिति
zero span tensile test		शून्य विस्तृति तनन निकष	zeunerite	<i>Chem.</i>	जायनेराइट
zero spectrum		शून्य स्पेक्ट्रम	Zeus	<i>Zool.</i>	ज़ियस
zero speed position		शून्य चाल स्थिति	zeyat	<i>Geog.</i>	जेयात, विश्रामाथ्रय
zero state		शून्यावस्था	*zibeline	<i>H.Sc.</i>	जिवलीन
zero sum game		शून्य योग खेल	Ziegelmann method	<i>Chem. (Paint)</i>	सीगलमान विधि
zero sum n-person game		शून्य योगीय n-व्यक्ति खेल	Ziegler Natta process	<i>Chem.</i>	त्सीग्लर नट्टा प्रक्रम
zera-sum-two person game		शून्य योगीय द्वि-व्यक्ति खेल	Ziegler process		त्सीग्लर प्रक्रम
zero suppression		शून्य निरोध	Zieler process	<i>Chem.</i>	जाइलर प्रक्रम
zero-suppressor circuit		शून्य बिन्दु विरोधी परिपथ	Ziel-Neelson's carbol		जील निलसन कार्बोल
			zierazulebe	<i>Chem.</i>	जीरैजुलीन

zierone	Chem.	जीरोन
Ziervogel process	Chem., Geol	जीर्वोगेल प्रक्रम
ziger	Chem.	जिगर
ziggurat	Geog	जिगुरेट, मीनार
zigzag		डेङ्गाभेड़ा
zig zag antenna (= zig zag aerial)		डेङ्गाभेड़ा एन्टेना
zigzag fold		डेङ्गाभेड़ा बलन
zigzag diamond twill	Chem., H.Sc.	बक हीरक रेखिका, बक हीरक दबीन
zigzag ridge		डेङ्गा भेड़ा कटक
zigzag twill	H.Sc.	बक दबीन
Zilla callophylla	Zool	जिला कॅलोफिला
ziment water	Geol.	ताम्र ससेचिन जल
Zimmerman- Reinhardt process	Chem.	त्सिमरमान राइनहार्ट प्रक्रम
Zimmerman's spiral nematode		त्सिमरमान सर्पिल सूत्रहृमि
Zimmerman wet combustion process		त्सिमरमान क्वेद ज्वनन प्रक्रम
Zimm extrapolation method	Chem. (Paper)	त्सिम बहिवेशन विधि
zinc	H.Sc., Chem.	जस्त, यशद, जस्ता, जिंक
zinc bloom		जिंक ब्लूम, यशद ब्लूम
zincate	Chem.	जिंकेट
zinc blende		यशद-ब्लैड
zinc copper couple		यशद-ताम्र युग्म
zinc crown glass		यशद-क्राउन काँच
zinc deficiency disease		जस्ता न्यूनता रोग
zinc drier		यशद शुष्कक, जस्त शुष्कक
zinc dust		यशद रज
zinc grey		जिंक धूसर
zinclite	Chem. (Met)	जिंकिनेट
zincing	Chem	यशद, जिंकन
zincite	Geol.	जिंकाइट
zinkenite	Chem.	जिंकराइट

Zincke reaction	Chem.	जिंके बधिक्रिया
zinc mounted		जस्तभेड़ा
zinc mounted proof		जस्त-भेड़ा प्रूफ
zincosite	Chem.	जिंकोसाइट
zinc solvency		यशद विलायकता, जिंक विलायकता
zincote	Chem. (Met)	जिंकोटन
zinc phosphide		जिंक फॉस्फाइड
zinc plate		जिंक प्लेट
zinc spar		यशद-स्पार
zinc spinel		यशद-स्पिनेल
zinc vapour lamp		यशद वाष्प-लैम्प
zinc white		यशद श्वेत, जिंक सल्फेट
zinc yellow		यशद पीत, जिंक यलो
zinfandel	Chem.	जिंफेन्डल
Zingiberaceae	Bot.	जिन्जिबरेसी
Zingiberales		जिन्जिबेरीन
Zingiberene	Chem.	जिन्जिबरीन
Zingiber officinale	Bot.	जिन्जिबर आफिसिनेल (मदरक)
zinin	Chem.	जिनिन
zinkenite	Geol.	जिंकेनाइट
zinwaldite	Geol.	जिंवाल्डाइट
Zintl phase	Chem.	जिन्टल प्राइस
Zip-a-tone	Geog.	जिप-ए-टोन
Ziphiidae	Zool.	जिफिडी
Ziphius		जिफियस
zippeite	Geol.	जिपाइट
zircaloy	Chem.	जर्कलॉय
zircon	Geol.	जुरकावा, जर्कॉन
zirconate	Chem.	जर्कॉनेट
zirconia	Chem., Geol.	जर्कॉनिया
zirconia light		जर्कॉनिया प्रकाश, जर्कॉनिया मालोक
zirconite	Geol.	जर्कॉनाइट
zirconium	H.Sc.	जर्कॉनियम

zirconoid		जर्कानरूप	zoguri	H.Sc.	जोगुरी
zirconyl	Chem.	जर्कानिल	zoic	Geol. Geog. Zool.	जीवीय, जीवयुक्त पाशव प्राणीय
zirconylic acid		जर्कानिलिक अम्ल	zoic deity		पाशव देवता
zirconyl sulphate		जर्कानिल सल्फेट	zoidiogamous	Bot.	सचर युग्मनी
Zirflex process	Chem.	ज़िरफ्लेक्स प्रक्रम	zoidiogamy	Bot.	सचर युग्मन, पुमणु निषे
zirkite	Chem.	जर्काइट	zoidiophilous	Bot.	प्राणिपरागित
Zitter bewegung	Phy.	ज़ित्तर वेवेगुंग, ज़ित्तर प्रकंपन	zoisite	Geol.	ज़ोइसाइट
Zizyphus jujuba	Bot.	ज़िज़िफस जुजुवा (वेर)	zoisite-mica schist		ज़ोइसाइट अन्नक शिस्ट
Zizyphus mauritiana		ज़िज़िफस मौरीशिआना	zoisitization	Geol.	ज़ोइसाइटन
Zizyphus nummularia		ज़िज़िफस नुमुलेरिया	zombie	H.Sc.	ज़ॉम्बी
Zizyphus oenoplia		ज़िज़िफस ईनोप्लिया	Zonabris pustulata	Zool.	ज़ोनान्ब्रिस पस्चुलेटा
Zizyphus rugosa		ज़िज़िफस रगोसा	zona fasciculata	Zool. Chem.	पूलीयस्तर जोना फेसीकुलेटा
Zizyphus sativa		ज़िज़िफस सेटाइवा	zona glomerulosa	Zool. Chem.	गुच्छ स्तर जोना ग्लोमेरुलोसा
Zizyphus xylocarpus		ज़िज़िफस जाइलोकार्पस	zona granulosa	Zool.	कणिकामय अंडावरण
Z-marker beacon	Phy.	Z-चिह्नक बीकन	zonal	Geog.	मंडलीय, कटिवंधीय, क्षेत्रीय
zoaea	Geog.	ज़ोइआ	zonal delimitation		क्षेत्रीय सीमांकन
zoaea larva		ज़ोइआ लारवा, ज़ोइआ हिम्भक	zonal element		क्षेत्रीय अवयव
zoaea stage		ज़ोइआ चरण	zonal fauna	Geol.	जोनीय प्राणिजात
zoaecium		जोत्रकघानी	zonal harmonic		कटिवंधीय हार्मोनिक
Zoanthidae	Zool.	ज़ोएन्थिडी	zonal junction station		क्षेत्रीय जंक्शन स्टेशन
Zoanthea	Zool.	ज़ुएन्थेला	zonal profile		क्षेत्रीय परिच्छेदिका
Zoanthea	Zool.	ज़ुएन्थिना	zonal sampling		क्षेत्रीय प्रतिचयन
zoanthodeme	Zool.	ज़ुएन्थोडेम, जन्तुनुमकाय	zonal species		जोनीय स्पीशीज़
Zoanthus sociatus	Zool.	ज़ोएन्थस सोसिएटस	zonal symmetry		जोनीय सममिति
zodiac	Math.	राशिचक्र	zonal theory		मंडल-सिद्धान्त
zodiacal circle		राशिचक्र	zona pellucida	Zool.	पारदर्शी अंडावरण
zodiacal light		राशिचक्रीय प्रकाश	zona radiata		अरांकित अंडावरण
Zodiomyces vorticellarius	Bot.	ज़ोडिओमाइसीज वाटिसिलेरियस	zona reticularis	Zool.	जलिका स्तर
zodiophilous	Zool.	जन्तुरागी	Zonaria variegata	Bot.	जोनेरिया वर्रोगेटा
zoeca	Zool.	ज़ोइया	zonary banding	Geol.	मंडलीय पट्टरचना
Zoeller-colour method	Chem. (Paint)	ज़ॉयलर रंग विधि	zonary placenta	Zool.	बलय अपरा
			zona striata	Zool.	पारदर्शी अंडावरण
			zonate tetraspore	Bot.	पंक्ति चतुष्कवीजाणु
			zonation		अनुक्षेत्र वर्गीकरण

Zonda	<i>Geog.</i>	सान्डा (उष्ण वात)	zone of flowage		प्रवाह मडल
zone		1 खड, प्रदेश, क्षेत्र, मडल, जोन	zone of fracture		रिफ्त क्षेत्र
	<i>Geog</i>	2 कटिवध	zone of freezing		हिमकारी कटिवध
	<i>Geol</i>	3 सस्तर, स्थिति, जोन	zone of growth		वृद्धि मडल
zone axis		1 क्षेत्र अक्ष 2 मडल अक्ष	zone of indifference		उदासीनता क्षेत्र
zone bit		क्षेत्र बिट, परिचान बिट	zone of interchange		अन्त विनिमय क्षेत्र
zone de voisinage		निकटवर्ती क्षेत्र	zone of metamorphism		कायान्तरण मडल
zoned pegmatite	<i>Geol</i>	मडलित पेग्माटाइट	zone of participation	<i>Geog</i>	सहभागिता भेदला, सहभागिता कटिवध
zone-fossils		जोन जीवाश्म	zone of planation		समतलन-क्षेत्र, समतलन कटिवध
zonetlet	<i>Phy.</i>	जोडक	zone of preference		वरीयता क्षेत्र
zone levelling		जोन समवितरण	zone of preference for acceptance		स्वीकरण का वरीयता क्षेत्र
zone marker		जोन चिह्नक	zone of preference for rejection		अस्वीकरण का वरीयता क्षेत्र
zone-marking paint		जोन चिह्नक पेन्ट	zone of saturation		संतृप्ति क्षेत्र
zone melting		जोन पिघलन	zone of silence		नीरवता-क्षेत्र
zone melting method	<i>Chem,</i> <i>(Nucl)</i>	अचल गलन विधि	zone of surging		अभिज्ञेनी क्षेत्र
zone melting process		जोन गलन प्रक्रम	zone of transforma- tion		रूपांतरण मडल
zone moment (biozone)		जैव जोन	zone of transition		परिवर्तन क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र
zone of acculturation		उत्संस्करण क्षेत्र	zone of wastage		क्षयक्षेत्र
zone of advance		विक्रम क्षेत्र	zone of weathering		अपक्षय-क्षेत्र
zone of aeration		वातन मडल	zone plate		जोन-पट्टिका
zone of assimilation		स्वांगीकरण क्षेत्र	zone punch	<i>Phy.</i>	नियत क्षेत्रीय छिद्र
zone of attraction		आकर्षण क्षेत्र	zone purification		जोन शोधन
zone of avoidance		परिहृण-क्षेत्र	zone refining		मडल परिष्करण
zone of baite		बेट कटिवध, बेट-क्षेत्र	zone row	<i>Math</i>	नियत संज्ञेय पंक्ति
zone of capillarity		केशिकता मडल	zone television	<i>Phy</i>	क्षेत्रीय दूरदर्शन
zone of cementation		संयोजन-कटिवध	zone theory		कटिवध सिद्धान्त
zone of concrecence		संयोजिता मडल	zone time		जोनीय समय
zone of contention		विवाद-क्षेत्र	zoning	<i>Phy.</i> <i>Geol, Geog</i>	1. जोन निर्माण 2. मडलन
zone of depreciation		अवमूल्यन क्षेत्र	zoning of vegetation		वनधर्म मडलन
zone of deterioration		पतनीन्मुख क्षेत्र	zoning system		मडलन पद्धति
zone of discharge		विसर्जन क्षेत्र	zonite	<i>Zool.</i>	देहात
zone of division		विभाजन मडल	zonocillate	<i>Zool.</i>	षट्पदमापी
zone of estimate		आकलन क्षेत्र	zonoplacental	<i>Zool.</i>	बलयाणरुई
zone of fission		विच्छेदन क्षेत्र			
zone of flow		प्रवाह क्षेत्र			



zonorate	Bot.	क्षेत्र छिद्रकी	zooid	Bot.	जीवक
zonula ciliaris	Zool.	पद्माभी मंडलिका	zooidogamy	Bot.	जीवकयुग्मन, पुमणु निपेचन
zooamylon	Zool.	जूएमाइलॉन	zoolak	H.Sc.	जूलेक
zoobenthos	Zool.	प्राणिनितलक, नितलप्राणिजात	zoolith	Zool.	जान्तवाश्म
zoobiotic	Zool.	प्राणिजीवी	zoological garden	Zool.	प्राणि-उपवन, चिड़ियाघ
zoochlorella	Zool., H.Sc., Geog.	प्राणिक्लोरेला, प्राणि हरितशैवाल	zoological realm		प्राणि-परिमंडल
zoochore	Biol.	प्राणिप्रकीर्ण, प्राणिविकीर्ण	zoological survey		प्राणि सर्वेक्षण
zoochoric		प्राणिविकीर्ण, प्राणिप्रकीर्ण	zoologist	Zool.	प्राणिविज्ञानी
zoochorous		प्राणिप्रकीर्ण, प्राणिविकीर्ण	zoology		प्राणिविज्ञान
zoocyst	Zool.	प्राणिपुटी	zoom	Phy.	ज़ूम
zoocytium	Zool.	जूसाइशियम	Zoomastigina	Zool.	जुमैस्टिगाइना
zoodendrium	Zool.	प्राणिट्रुम	Zoomastigophorea	Zool.	जुमैस्टिगोफोरिआ
zoocium	Geol. Zool.	जीवक घानी जीवकालय	zoom lens		ज़ूम लेंस
zoerythrin	Zool.	जूएरिथ्रिन	zoomorph	Geog.	पशु-चित्र
zooflagellate	Zool.	प्राणिकशाभी	zoomorphic mask		पशुचित्री मास्क, पशुचित्री मुखपट
zoofulvin	Zool.	जूफुल्विन	zoomorphosis	Zool.	प्राणिद्वत रूपान्तरण
zoogamete	Biol.	चलयुग्मन	zoonosis	Zool.	प्राणिरुजा
zoogene		जीवप्रभूत	zoonotic ancylos- tomiasis		प्राणिरुजीय ऐन्काइलोस्टोमिता
zoogenic	Geol.	प्राणिजनित, प्राणिप्रभूत	zoonotic helminth		प्राणिरुजीय किक्किश
zoogenous	Zool.	प्राणिजन्य	Zoopagales	Bot.	जूपैगेलीज
zoogeographical	Geog., Zool., Geol.	प्राणि-भूगोलीय, प्राणि- भौगोलिक	Zoopagephanerae	Bot.	जूपैखीफैनरी
zoogeographical boundary		प्राणि-भौगोलिक सीमा	zooparasite	Zool.	प्राणिपरजीवी
zoogeographical distribution		प्राणि-भौगोलिक वितरण	zoophagous	Zool.	प्राणिभक्षी
zoogeographical realm		प्राणि-भौगोलिक परिमंडल	zoophagous parasite		प्राणिभक्षी परजीवी
zoogeographical region		प्राणि भौगोलिक प्रदेश,	zoophilic	Biol.	प्राणिरागी
zoogeography	Zool., Geog., Geol.	प्राणिभूगोल	zoophilous	Zool. Bot.	प्राणिरागी प्राणि परागित
zoogloea	Biol.	जोओग्लिया, श्लेष्मावृत जीवाणु	zoophily		प्राणि परागण
zoogloea mass		श्लेष्मीजीवाणु पुंज, जीओग्लीय पुंज	zoophobic	Zool.	प्राणिभीत
Zoogloea termo	Bot.	जूग्लिवा टर्मो	Zoophyta	Zool.	जूफाइटा
zoogonous	Zool.	जरायुज	zoophyte	Bot. Zool.	प्राणिपादप पादपप्राणी
			zooplankter	Zool.	प्राणिलवकांश
			zooplankton	Geol., Zool.	प्राणिलवक
			zooplankton crop		प्राणिलवक शस्य
			zooplankton samples		प्राणिलवक प्रतिदर्श

zooplankton swarm		प्राणिपल्लवक वृन्द	Zweikanter	Geol.	ज्वाइकॉटेर, ट्रिकोणक
zoosis	Zool	प्राणिजाधि	zwicker	H.Sc.	ज्विकर
zoosporangium	Bot	चल बीजाणुधानी	Zwischengebirge		न्विशोनगिर्गो, अत पर्वतीय भूखड
zoospore	Bot.	अलैंगिक चल बीजाणु जूस्पोर	Zwischenstufen	Geog	स्त्विशेन्स्टूफेन
zoosterol	Chem.	प्राणिस्टेराल, जोओस्टेरॉल	Zwitter ion	Phy	उभयाविष्ट आयन, न्विक्टर आयन
Zoothamnium	Zool	जोओथैम्नियम	zycon	H.Sc.	जाइकॉन
zootoxin	Zool.	प्राणि-आविष	zygadenine	Chem.	त्रिगाडीनिन
zootrophic (holozoic)	Zool.	प्राणिसमपोषी (प्राणिसमभोजी)	Zygaena	Zool	जाइनीना
zootrophy	Zool.	प्राणिसमपोषिता	Zygaenidae	H.Sc.	जाइनीनिडी
zooxanthella	Biol	जोओथैन्थेला	zygantrum	Zool	योजिकोटर, जाइगेन्ट्रम
zooxanthella tract		जोओथैन्थेला पथ	zygapophysis	Zool	योत्रिप्रवर्ध, जाइगापोफिसिस
zooxanthin	Zool.	जूओथैन्थिन	Zygnema	Bot	त्रिन्नीमा
Zopaque	Chem.	जोपाक	Zygnema pectinatum		त्रिग्नीमा पेक्टिनेटम
zorapteran	Zool.	बचिरपक्षी	zygobranchiate	Zool	युग्मब्रान्की
Zorn's lemma	Math.	जार्न-प्रमेयिका	Zygochytium aurantiacum	Bot	जाइयोकिट्ट्रियस आरेंजिएकम
Zorotypus guineensis	Zool.	जोरोटाइपस गिनीन्सिस	zygocyrtoid	Geol.	युग्मकृत्
*Zosma (= δ Leonis)	Astron.	जोस्मा (= δ निह, δ लिओनिष)	zygocystis	Zool	जाइयोकिस्टिस
Zosteropidae	Zool	जोस्टेरोपिडी	zygodactyly	Zool	जाइयोडेक्टिली, युग्मोपुलिता
zrazy	H.Sc.	ज़रडी	zygodont	Zool.	युग्मदन्ती
Zsigmondy's nucleus method		त्रिग्मोन्डी नामिक विधि	Zygomamous	Bot	जाइयोयुग्मनी
Z-twist		Z-वेष्टन	zygogamy	Bot	जाइयोयुग्मन
Z-time	Phy.	Z-समय, ग्रीनिच माध्य समय	zyglophodont	Zool.	युग्मकटकटकट
Z-twist	Chem.	Z-मोटन, जैड् मरॉड	zygoma	Zool	जाइयोमा, गडाभिय
*Zuben el Genubi (α <sup>2</sup> and α <sup>1</sup> Librae)	Astron.	ज़ुबेन एल जनुबी (=α <sup>2</sup> और α <sup>1</sup> तुला, α <sup>2</sup> और α <sup>1</sup> लाइब्री)	zygomati arch	Zool.	गठ चाप
*Zubeneschamali (=β Librae)	Astron	ज़ुबेन-ए-शामाली (=β तुला, β लाइब्री)	zygomati process		गठ प्रवर्ध
zubrovka	H.Sc.	ज़ुब्रॉव्का	zygome	Geol.	जाइयोम
Zucker Hammett hypothesis		ज़ुकर हैमेट परिकल्पना	zygomelous	Zool.	युग्मानुबर्डी
Zulu cloth	H.Sc	ज़ुलु क्लथ	zygomorphic	Bot, H.Sc.	एकव्याससममित
zuppa rustica	H.Sc.	ज़ुपा रस्टिका	zygomorphus	Bot	एकव्यास सममित
zwack	H.Sc.	ज़्वैक	zygomorphy		एकव्यास सममित
			Zygomycetes	Bot.	जाइयोमाइसिटीज
			zygonema	Zool.	युग्मभूत्र
			zygoncure		योत्रिप्रवर्धकाणु

zygoneury	Zool.	जाइगोन्युरी, योजितत्रिकाणुता	zygotic mortality		युग्मनज मृत्युता
zygophore	Bot.	युग्माणुधर, जाइगोधर	zygotic nucleus		युग्मनज केन्द्रक
Zygophyllaceae	Bot.	जाइगोफिलेसी	zygotic selection		युग्मनज वरण
Zygoptera	Zool.	जाइगोप्टेरा	zygotoblast	Zool.	युग्मितकोरक
zygopteran	Zool.	युग्मपंखी	zygotomere	Zool.	युग्मितखण्ड
Zygopterid	Bot.	जाइगोप्टेरिड	zygotonucleus	Zool.	युग्मितकेन्द्रक
Zygopteris	Bot.	जाइगोप्टेरिस	zymase	Biol.,H.Sc.	जाइमेस
Zygorhynchus, macrosporus	Bot.	जाइगोरिन्कस मेक्रोस्पोरस	zymase complex	Bot.	जाइमेस सन्मिथ्र
Zygosaccharomyces	Bot.	जाइगोसैकेरोमाइसीज	zymasis	Bot.	जाइमेस क्रिया
zygosis	Zool.,Geol.	जाइगोसिस, युग्मजन	Zymin powder		जाइमिन पाउडर
zygosphere	Zool.	योजिस्फान, जाइगोस्फीन	zymogen	Zool.,H.Sc., Bot.	जाइमोजिन
Zygosphiuræ	Zool.	जाइगोस्फिपूरी	zymogenesis	Zool.	किण्वजनन
zygospondylous articulation	Zool.	जाइगोस्पान्डाइलस संधि, पार्श्वगतिक संधि	zymogen granule		जाइमोजन कणिका
zygospore	Biol.	युग्माणु	zymogenic	Bot.	किण्वजन
zygote	Biol.,H.Sc.	युग्मनज	zymogenous	Bot.	किण्वनजन, जाइमोजेनीय
zygotene (zygonema)	Zool.	युग्मपट्ट (युग्मसूत्र)	zymogen stage		जाइमोजेन अवस्था
zygotene stage		युग्मपट्ट अवस्था	zymology	Chem.	किण्वकी, किण्वविज्ञान
zygotic checker- board	Zool.,Bot.	युग्मनज शतरंज-पट्ट	zymolysis	Zool.	किण्वलयन
zygotic embryo		युग्मनज भ्रूण	zymometer	Chem.	किण्वनमापी
zygotic lethal		युग्मनज घातक	zymophore	Zool.	किण्वधर
zygotic meiosis		युग्मनज अर्धसूत्रण	zymoplastic substance	Chem.,H.Sc.	जाइमोप्लास्टिक पदार्थ
			zymoprotein	Zool.	जाइमोप्रोटीन
			zymosis	Chem.	प्रकिण्वन

## APPENDIX

### HINDI ABBREVIATIONS FOR METRIC UNITS

In consultation with the Ministry of International Trade, Government of India, Indian Standards Institution and the National Physical Laboratory the Standing Commission for Scientific and Technical Terminology has standardised the Hindi abbreviations of metric units—length, area, volume, weight, capacity and land area. It has been decided that the prefixes डेसि, डेका and मेगा should not be abbreviated. Since the students of elementary school are not taught the use of power, two sets of abbreviations have been devised for units of area and volume; one represented as सेमी<sup>२</sup> or समी<sup>२</sup> etc. and the other as वर्ग सेमी or घन सेमी etc. It has been also decided that वर्ग and घन should not be abbreviated.

These Hindi abbreviations are for use in Trade, elementary education and in popular books. For all other purposes, that is, in secondary or higher education, in scientific and technical text books and other literature only the international abbreviations should be used.

Hindi abbreviations approved by the Commission are given in the tables below:—

#### Metric Prefixes

English		Hindi	
Term	Abbreviation	Term	Abbreviation
Micro	$\mu$	माइक्रो	मा
Milli	m	मिलि	मि
Centi	c	सेन्टि	से
Deci	d	डेसि	डेसि
Deca	da	डेका	डेका
Hecto	h	हेक्टो	हे
Kilo	k	किलो	कि
Mega	M	मेगा	मेगा

## Length

English		Hindi	
Term	Abbreviation	Term	Abbreviation
Micron (Micrometre)	$\mu\text{m}$	माइक्रॉन	साम्मी
Millimetre	mm	मिलिमीटर	मिमी
Centimetre	cm	सेन्टिमीटर	सेमी
Decimetre	dm	डेसिमीटर	डेसिमि
Metre	m	मीटर	मी
Decametre	dam	डेकामीटर	डेकामी
Hectometre	hm	हेक्टोमीटर	हेमी
Kilometre	km	किलोमीटर	किमी
Megametre	Mm	मेगामीटर	मेगामी

## Area

English		Hindi	
Term	Abbreviation	Term	Abbreviation
Square millimetre	$\text{mm}^2$	वर्ग मिलिमीटर	मिमी <sup>2</sup> , वर्ग मिमी
Square centimetre	$\text{cm}^2$	„ सेन्टिमीटर	सेमी <sup>2</sup> , वर्ग सेमी
Square decimetre	$\text{dm}^2$	„ डेसिमीटर	डेसिमि <sup>2</sup> , वर्ग डेसिमि
Square metre	$\text{m}^2$	„ मीटर	मी <sup>2</sup> , वर्ग मी
Square decametre	$\text{dam}^2$	„ डेकामीटर	डेकामी <sup>2</sup> , वर्ग डेकामी
Square hectometre	$\text{hm}^2$	„ हेक्टोमीटर	हेमी <sup>2</sup> , वर्ग हेमी
Square kilometre	$\text{km}^2$	„ किलोमीटर	किमी <sup>2</sup> , वर्ग किमी
Square megametre	$\text{Mm}^2$	„ मेगामीटर	मेगामी <sup>2</sup> , वर्ग मेगामी

## Volume

English		Hindi	
Term	Abbreviation	Term	Abbreviation
Cubic millimetre	mm <sup>3</sup>	घन मिलिमीटर	मिमी <sup>3</sup> , घन मिमी
Cubic centimetre	cm <sup>3</sup>	„ सेन्टिमीटर	सेमी <sup>3</sup> , घन सेमी
Cubic decimetre	dm <sup>3</sup>	„ डेसिमीटर	डेसिमी <sup>3</sup> , घन डेसिमी
Cubic metre	m <sup>3</sup>	„ मीटर	मी <sup>3</sup> , घन मी
Cubic decametre	dam <sup>3</sup>	„ डेकामीटर	डेकामी <sup>3</sup> , घन डेकामी
Cubic kilometre	km <sup>3</sup>	„ किलोमीटर	किमी <sup>3</sup> , घन किमी
Cubic megametre	Mm <sup>3</sup>	„ मेगामीटर	मेगामी <sup>3</sup> , घन मेगामी

## Weight

English		Hindi	
Term	Abbreviation	Term	Abbreviation
Microgram	μg	माइक्रोग्राम	माघा
Milligram	mg	मिलिग्राम	मिघा
Centigram	cg	सेन्टिग्राम	सेघा
Decigram	dg	डेसिग्राम	डेसिघा
Gram	g	ग्राम	घा
Decagram	dag	डेकाग्राम	डेकाघा
Hectogram	hg	हेक्टोग्राम	हेघा
Kilogram	kg	किलोग्राम	किघा, किलो
Quintal	q	क्विन्टल	क्वि
Megagram	Mg	मेगाग्राम	मेगाघा
Tonne	t	टन	ट

## Capacity

English		Hindi	
Term	Abbreviation	Term	Abbreviation
Millilitre	ml	मिलिलीटर	मिली
Centilitre	cl	सेन्टिलीटर	सेली
Decilitre	dl	डेसिलीटर	डेसिली
Litre	l	लीटर	ली
Decalitre	dal	डेकालीटर	डेकाली
Hectolitre	hl	हेक्टोलीटर	हेली
Kilolitre	kl	किलोलीटर	किली
Megalitre	Ml	मेगालीटर	मेगाली

## Land Area

English		Hindi	
Term	Abbreviation	Term	Abbreviation
Centiare	ca	सेन्टिआर	सेआ
Are	a	आर	आ
Hectare	ha	हेक्टर	हेआ